

भार्ये-साहित्यमण्डल, लिमिटेड अजमेर के
लिये सर्वाधिकार सुरक्षित,

श्री बाबू दुर्गाप्रसाद अर्धक के प्रबन्ध से
श्रीदुर्गा प्रिन्टिङ्ग प्रेस, धानमण्डी,
अजमेर में मुद्रित.

* ओ३म् *

सामवेदसंहिता

भाषा-भाष्य

भाष्यकार

श्री पण्डित जयदेव शर्मा,

विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ.

प्रकाशक

आर्यसाहित्यमण्डल, लिमिटेड अजमेर.

मुद्रक—

श्रीदुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर.

द्वितीयावृत्ति
२०००

सं० १६८८ वि०

मूल्य
४) रुपये

॥ ओ३म् ॥

सामवेद भाष्य के प्रथम संस्करण की भूमिका

तमिद् वर्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव ।

य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ सामवेद १३३६ ॥

तं धेनवो वत्समिवाश्रुताभिभवस्य हार्दं महिमानमैशम् ।

गिरो गुरोराद्यतमस्य नित्यं निपीयमाना विव्रैधरपुञ्जान् ॥

(१)

वेद मानव जाति के ईश्वरप्रदत्त धर्मशास्त्र है । वे संख्या में चार हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने उक्त चार संहिताओं का प्रकाश किया । सृष्टि का आरम्भ हुए आर्य ज्योतिषियों की गणना के अनुसार १६६०८५३०२६ वर्ष बीत गये हैं, तदनुसार वेदों को उत्पन्न हुए भी इतने ही वर्ष बीते समझने चाहिये । इसका स्पष्ट विवरण महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेदोत्पत्ति प्रकरण में किया है । चारों वेदों के चार ही विषय हैं (१) विज्ञान, (२) कर्म, (३) उपासना और (४) ज्ञान । ईश्वर से लेकर तृण पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान 'विज्ञान' शब्द से कहा जाता है । कर्म दो प्रकार का है एक मोक्षसाधना और दूसरा इह लोक के व्यवहारों की साधना । ईश्वर की स्तुति और आत्मसाक्षात्कार पूर्वक ईश्वरप्राणिधान करना उपासना कहाती

हैं। ज्ञानकाण्ड में ईश्वर, प्रकृति और जीव विषयक विशेष ज्ञान का विवरण है। इन चार विषयों का विशेष रूप से चार वेदों में वर्णन किया गया है। जिसपर विशेष विस्तार से ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में महर्षि दयावन्द ने 'वेदविषयविचार' विषय में बहुत विचार किया है। इस ग्रंथ में उपासना विषय को दर्शाने वाले ग्रन्थ "सामवेद" का ही भाष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे भक्तिरस के पिपासु जन उपनिषदों और सूरदास, कबीर एवं भागवत आदि ग्रन्थों में जो भक्तिरस प्राप्त करते हैं उससे भी अधिक और स्वच्छ परमार्थदर्शक भक्तिरस का लाभ सामवेद में प्राप्त करें। भाष्य पढ़ने के पूर्व पाठकों के समक्ष हम भाष्य से सम्बद्ध अन्य विषयों पर प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं इसलिये यह भूमिका लिखने का प्रयास है।

(२) सामवेदसंहिता

प्रकाशित सामवेद संहिताओं में से हमारी दृष्टि में प्रामाणिक पांच संहिताएं ही आई हैं:—

(१) सायणभाष्यसहित सामवेदसंहिता श्री सत्यव्रतसामश्रमी द्वारा प्रकाशित जिसको बंगाल एशियाटिक सोसायटी ने १८७६ ई० में प्रकाशित किया।

(२) सायणभाष्यसहित सामवेद संहिता जिसको श्री जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य ने १८६२ ई० में प्रकाशित किया।

(३) अजमेर नगर से श्रीमती परोपकारिणी सभा ने मूलमात्र सामवेद संहिता प्रकाशित की है।

(४) श्री पं० तुलसीरामजी मेरठ निवासी ने मेरठ से अपने भाषा और संस्कृत भाष्य सहित प्रकाशित की है।

(५) रेव० जे० स्टीवन्सन ने लण्डन से एक सामवेदसंहिता प्रकाशित की है। जगरानां निवासी श्री पं० कृपाराम शर्मा ने भी एक सामवेद

संहिता प्रकाशित की, परन्तु उसको हमने अपनी गणना में नहीं रक्खा और विशेषता न होने से उस पर विचार भी नहीं किया। उक्त पांचों प्रकाशित संहिताओं में अपनी २. विशेषता हैं। रेव० जे० स्टीवन्सन की छापी संहिता में अरण्य काण्ड और महानाम्नी आर्चिक का भाग नहीं है; शेष सभी संहिताओं में उक्त दोनों भाग हैं। उक्त रेवरेण्ड महोदय ने अपनी संहिता में वे भाग क्यों नहीं समावेशित किये उसका विशेष कोई कारण उल्लेख नहीं किया। इसका उचित कारण यही प्रतीत होता है कि पंडित स्टीवन्सन ने राणायनीय शाखा के पाठानुसार ही संहिता का प्रकाश किया है। परन्तु भारतवर्ष में तीन शाखाओं का अधिक प्रचार है कौथुम शाखा गुजरात में, जैमिनीय शाखा करनाटक में और राणायनीय शाखा महाराष्ट्र में प्रचरित है। परन्तु क्योंकि चतुर्वेदभाष्यकार सायण के भाष्य सहित सामवेद संहिता में ये भाग उपलब्ध हैं इसलिये इन भागों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस कारण इन भागों को हमने भी अपने भाष्य में रक्खा है। यहां यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं है कि चतुर्वेदाः नुवांद्कार पं० श्रीकृष्ण ने भी इस अंश को अपने अनुवाद में स्थान नहीं दिया; क्योंकि वे भी स्टीवन्सन के अनुयायी हैं।

पं० जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य ने अपने प्रकाशित सायण भाष्य में इसको स्थान दिया है। इस प्रकार ऐशियाटिक सोसायटी के सत्यव्रत-सामश्रमी के सम्पादित सायण भाष्य में भी उक्त दोनों खण्डों को स्थान प्राप्त है।

(३) शाखाभेद

अथर्ववेद परिशिष्ट के 'चरणव्यूह' प्रकरण में इस प्रकार लिखा है—

(१) "तत्र सामवेदस्य शाखासहस्रमालीद्। अनध्यायेः प्वधीयानाः सर्वे ते शक्रेण त्रिनिहताः [प्राविलीनाः]।

(२) तत्र केचिद्वशिष्टाः प्रचरन्ति । तद् यथा—राणायनीयाः, साद्य [त्य] मुग्धाः, कालापाः, महाकालापाः कौथुमाः, लाङ्गलिकाश्चरति । कौथुमानां पद्भेदा भवन्ति । तद् यथा—सारायणीयाः वातरायणीयाः वैतधृताः प्राचीनास्तैजसाः अग्निष्टकाश्चेति ।

अर्थात्—सामवेद की हजार शाखाएं थीं । लोग उनको अनध्याय के दिनों में भी पढ़ते थे, अतः इन्द्र ने उन सबको विनाश कर दिया । कुछ शाखाएं बची हैं जैसे राणायनीय, साद्य [त्य] मुग्ध, कालाप, महाकालाप, कौथुम, और लाङ्गलिक । इनमें से कौथुम शाखा के छः भेद हैं सारायणीय, वातरायणीय, वैतधृत, प्राचीनतैजस, और अग्निष्टक ।

चरणव्यूह के इस लेख से अन्य व्यूहों में कुछ भेद भी हैं जैसे—चरणव्यूह दर्शाते हुए वाचस्पत्य गृहदभिधान और शब्दकल्पद्रुम में लिखा है कि

‘सामशाखाभेदाः यथा—आसुरायणीयाः, वासुरायणीयाः, वार्त्तान्तवेद्याः, प्राञ्जलाः, ऋग्वर्णभेदाः, प्राचीनयोग्याः, ज्ञानयोग्याः, राणायनीयाश्च । राणायनीयानां नव भेदाः, राणायनीयाः, शाठ्यायनीयाः (शावायनीयाः शाठ्यमुग्रिया इति च) पारायणीयाः, सात्वलाः, सात्यद्भवा इति वा) मौड्रलाः खल्वलाः महाखल्वलाः कौथुमाः जैमिनीयाश्च ।’

अर्थात्—इसके अनुसार आसुरायणीय, वासुरायणीय, वार्त्तान्तवेद्य, प्राञ्जल, ऋग्वर्णभेद, प्राचीन योग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय, ये आठ मुख्य भेद हैं जिनमें से राणायनीय शाखा के पुनः नव भेद हुए, जैसे राणायनीय शाठ्यायनीय, (शावायनीय या शाठ्यमुग्रिय,) पारायणीय, सात्वल या सात्यसद्भव, मौड्रल, खल्वल और महाखल्वल, कौथुम और जैमिनीय ।

इसके अतिरिक्त सामवेद का और शाखाभेद कैसे और कब हुआ इस विषय में विष्णुपुराण में उक्त शाखाओं के नामों से भी भिन्न २ नामों की सूचना मिलती है ।

सामवेदतरोः शाखा व्यासशिष्यः स जैमिनिः ।
 क्रमेण येन मैत्रेय विभेद शृणु तन्मम ॥
 सुमुन्तुस्तस्य पुत्रोऽभूद् सुकर्माऽस्याप्यभूत् सुतः ।
 अर्थावन्तावेकैकां संहितां तौ महामुनी ॥
 साहस्रं संहिताभेदं सुकर्मा तत्सुतस्ततः ।
 चकार तं च सच्छिष्यौ जगृह्णाते महाव्रतौ ॥
 हिरण्यनाभिः कौशल्यः पौष्यञ्जिश्च द्विजोत्तमः ।
 उदीच्याः सामगाः शिष्याः तस्य पञ्चशताः स्मृताः ॥
 हिरण्यनाभात्तान्यः संहिता यैद्विजोत्तम ।
 गृहीतास्तेऽपि सौच्यन्ते परिडत्तैः प्राच्यसामगाः ॥
 लोकाक्षिः कुथुमिश्चैव कुपीदिलाङ्गलिस्तथा ।
 पौष्यञ्जिशिष्यास्तदभेदाः संहिता बहुलीकृताः ॥
 हिरण्यनाभशिष्यश्च चतुर्विंशति संहिताः ।
 प्राचाच कृतिनामासौ शिष्येभ्यः सुमहामातः ॥
 तैश्चापि सामवेदोऽसौ शाखाभिर्बहुलीकृतः ।

अर्थ—व्यासदेव के शिष्य जैमिनि ने शाखाओं का भेद इस क्रम से किया कि उसका पुत्र सुमुन्तु हुआ । 'सुमुन्तु' का पुत्र 'सुकर्मा' । उन दोनों ने एक एक संहिता पढ़ी । सुकर्मा ने सहस्र संहिता भेद किये । उस के दो शिष्य हुए हिरण्यनाभि कौशल्य, और पौष्यञ्जि । लोकाक्षि, कुथुमि, कुपीदी और लाङ्गलि, ये पौष्यञ्जि के शिष्य थे उनको 'उदीच्यसामग' कहते थे । और हिरण्यनाभ के पांच सौ शिष्य थे उनको 'प्राच्यसामग' कहते थे । हिरण्यनाभ का एक शिष्य 'कृति' नाम था, उसने अपने शिष्यों

को चौबीस संहिताओं का उपदेश किया। उसके शिष्य प्रशिष्यों ने भी सामवेद की बहुत शाखाएं कर दीं।

इस उद्धरण में कुथुमि और लाङ्गलि ये दो नाम (अथर्व परिशिष्ट) चरणव्यूह के शाखाभेदों में भी आये हैं। प्राच्यसामग कदाचित् प्राचीन योग्य हों और शेष सब नाम नवीन ही हैं। यह पुराणप्रदर्शित शाखा भेद चरणव्यूह में कहे जैमिनीयशाखा के उपभेद को बतलाता है, परन्तु ऐसा अनुमान करने में यही बाधा है कि कौथुम और लाङ्गलशाखा स्वतन्त्र हैं वे जैमिनीय शाखा के भेद नहीं हैं। वह बाधा भी तब नहीं रहती जब भागवतपुराण प्रोक्त शाखाभेद पर दृष्टिपात करते हैं। उसमें पाण्ड्याजि के शिष्यों का नाम लोगाक्षि, माङ्गलि, कुल्य, कुसीद और कुत्तिलिखा है। इसी प्रकार के नाम भेद से हमें पुराणोक्त शाखा भेद विशेष विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता।

पुराण के उद्धरण से ऐसा भी प्रतीत होता है कि व्यासेदेव के समय यह शाखाभेद नहीं था, जैमिनी के शिष्यों से ये शाखाभेद हुए। और जितने २ शिष्य उतनी २ शाखाएं हो गईं। इसका तात्पर्य यही है कि गुरुभेद से शाखाभेद हुआ अर्थात् गुरुओं की प्रतिभा-भेद से शाखाओं में यत्किंचित् भेद हो जाने से ही शाखाभेद हो गया। उनमें बहुतसी शाखाएं लुप्त हो गईं। क्यों ? चरणव्यूह ने तां उनका कारण यही दर्शाया कि अनध्याय के दिनों में विद्यार्थियों ने पढ़ना शुरू किया, इससे कुपित इन्द्र ने वज्र से उन शाखाध्यायियों का विनाश किया। अन्धविश्वासी लोग इस कथा पर विश्वास करने में संकोच अनुभव न करेंगे। परन्तु इसका गूढार्थ यही है कि सामवेद का स्वाध्याय गुरुपरम्परा से लोप हो गया और विनोद या गायनमात्र समझकर विद्यार्थियों अनध्याय के दिनों में सामगान सीखने आते हैं। इस पर गुरु या आचार्यों ने अपने सामवेद को गौण विषय वस्तु देख, अपने वेद का अपमान जान शिष्यों

को देना बंद कर दिया हो और इस प्रकार मुख्य शिष्यों के अभाव से वे शाखाएं या कालान्तर में गुरु परम्परा से खारिज हो गई हों। वैदिक युग में इन्द्र और गुरु शब्द पर्यायवाची थे, इसी आधार पर यह कथा गढ़ी गई प्रतीत होती है।

इसी प्रसंग में हम यह भी कह सकते हैं कि शेष शाखाओं के यद्यपि नाम भी लुप्त हो गये हैं तो भी उनका कुछ आभास उपलब्ध नामों के साहचर्य से पा सकते हैं। जैसे पाणिनि व्याकरण के पैलादिगण (२ । ४ । ५६) में राणि, शब्द का पाठ है। अपत्यार्थ में 'फिज्' प्रत्यय करने से 'राणायनि' ऐसा प्रयोग होता है। यह एक साम शाखा का प्रवर्त्तक हुआ है उसी प्रकार पैल ऋक्शाखा का प्रवर्त्तक हुआ। इस गण में पाठित और भी कितने ही नाम हैं वे भी अन्य शाखाप्रवर्त्तक होने सम्भव हैं। उसी प्रकार तौत्वलादि गण, (२ । ४ । ६१) यस्कादि (२ । ४ । ६३) गोपवनादि (२ । ४ । ६७) तिककितवादि (२ । ४ । ६८) उपकादि (२ । ४ । ६९) गण भी दर्शनीय हैं। उन गणों में भी नाना वेदशाखा प्रवर्त्तकों के नाम हैं। इसी प्रकार शार्ङ्गरवादि (४ । १ । ७३) क्रोडवादि (४ । १ । ८०) अश्वपत्यादि (४ । १ । ८४) उत्सादि (४ । १ । ८६) विदादि (४ । १ । १०४) गर्गादि (४ । १ । १०५) तिकादि (४ । १ । १५४) गहादि (४ । २ । १३८) शौनकादि (४ । ३ । १०६) रैवतिकादि (४ । ३ । १३१) गण हैं उन में नाना शाखा-प्रवर्त्तकों के नाम आते हैं। सात्यमुग्रि आदि शुद्ध नाम भी व्याकरण सूत्रों में प्राप्त हैं उनके सहयोग में अन्य नामों की भी संगति का अन्वेषण कर लेना चाहिये।

(४) साम-ब्राह्मण

उक्त शाखाभेद पर विचार करने से यह बात भी स्पष्ट होती है कि गुरु प्रवचन भेद से ही यह शाखाभेद हो गया है। परन्तु इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सामवेद की शाखाभेद से सामसंहिता में भेद हुआ

हो । क्योंकि परम्परा से मूलसंहिता एक ही थी और जैमिनि, कौथुम और राणायनीयादि का ब्राह्मण भी छान्दोग्य एक ही है । इसी मुख्य ब्राह्मण के प्रथम पच्चीस अध्यायों को प्रौढ़ ब्राह्मण, बीच के पांच ब्राह्मणों को अज्ञत या पड्विंश ब्राह्मण और शेष दश अध्यायों का नाम छान्दोग्य उपनिषद् है । इस उपनिषद् भाग में भी प्रथम दो अध्याय 'मन्त्र ब्राह्मण' कहाते हैं और आप्त्य, सामविधान, देवताध्याय, वंश, संहितोपनिषत् आदि नामों से प्रसिद्ध ब्राह्मण अनुब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हैं, इसी महाब्राह्मण को कौथुम शाखा में ताण्डय महाब्राह्मण नाम से पुकारा जाता है ।

(५) साम-संहिता

बहुतसे विद्वानों का मन्तव्य है कि सामवेद मूल केवल ७५ मन्त्रों का ही है । और शेष समस्त मन्त्र ऋग्वेद से ही संगृहीत हैं, अतः उनका ग्रहण ऋग्वेद से ही हो जाता है । यह उनका कथन तभी ठीक हो सकता है जब कि ऋग्वेद और सामवेद दोनों संहिताओं का प्रयोजन एक ही हो । परन्तु यदि प्रयोजन भिन्न २ हैं तो संहिता में समानता होने पर भी उनका पृथक् २ होना आवश्यक है ।

सामवेद के दो भाग हैं एक पूर्वार्चिक भाग और दूसरा उत्तरार्चिक । पूर्वार्चिक के साथ ही महानाम्नी आर्चिक भी संयुक्त ही समझी जाती है । पूर्वार्चिक में ग्रामगेय गान और आरण्यक गान दो भाग हैं । ग्रामगेय गान का तात्पर्य यह है, कि वे सामगान जो जनसमूह में गान किये जायें । आरण्यक गेय गान जो वन के परिव्राजक, मुमुक्षुमार्ग पर जीवन विताने वाले तपस्वी यति लोग गान करें । इसके अतिरिक्त 'महानाम्नी' आर्चिक में शकरी छन्द को उपसर्ग पदों के साथ रक्खा है यह भी विशेष गायन रीति का निदर्शक है । इसके बाद उत्तरार्चिक में ऊहगान और ऊह्यगान का प्रतिपादन है जो एक मन्त्र के गान के अतिरिक्त दो, तीन, चार, पांच, छः श्रुचाओं का एक गान है ।

वास्तव में देखा जाय तो "गीतिषु सामाख्या" (जैमिनीय मीमांसा सूत्र) गान की रीति का नाम ही साम है। परन्तु बिना छन्दोमय ऋचाओं के गान किस आधार पर वास करे। वह ऋचाओं में ही निवास करेगा। इसी लिये वेदों के सिद्धान्तरूप उपनिषद् ग्रन्थों में यही निर्णय किया है कि "ऋच्यध्यूढं साम गीयते।" ऋग्वेद में आश्रय पात्रं हुप् साम का ही गान किया जाता है। फलतः अब यह एक स्पष्ट अर्थ निकल आता है कि गानविद्या के मर्मों के आश्रयभूत मन्त्रों की संहिता सामसंहिता है। जैसा कि श्री स्वामी शबर ने मीमांसादर्शन में नवमाध्याय के २७ वें सूत्र "अर्थैकत्वाद्विकल्पः स्यात्" पर स्पष्ट कहा है।

"सामवेदे सहस्रं गीत्युपायाः। आह कनमे गीत्युपाया नाम। उच्यते। गानिर्नाम क्रिया ह्यभ्यन्तरप्रयत्नजन्या स्वरविशेषाणामभिव्यञ्जिका सामशब्दाभिलष्या। सा नियतप्रमाणायामृचि गीयते। तत्संस्पादनार्थोऽयमृगक्षरविकारो विश्लेषो विकर्षणमभ्यासो विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सर्वे सामवेदे समाप्तायन्ते ॥"

अर्थ—सामवेद में हजारों गीति के उपाय हैं। गीति का अर्थ है गान क्रिया। यह अभ्यन्तर प्रयत्न से उत्पन्न होकर विशेष स्वर को उत्पन्न करती है, उसीको "साम" शब्द से कहा जाता है। यह नियत प्रमाण वाली ऋचा में गाई जाती है। उस गान क्रिया को उत्पन्न करने के लिये ऋचा के अक्षरों में विकार; विश्लेष; विकर्षण; अभ्यास; विराम और स्तोभ आदि किये जाते हैं। इन सबका सामवेद में आचार्य लोग उपदेश करते हैं। परन्तु सामान्य संहिता पाठ में विकार, विश्लेष, विकर्षण अभ्यास, विराम और स्तोभ आदि के बिना ही ऋचाएँ रहती हैं परन्तु प्रयोगकाल में उद्गाता उन ऋचाओं के वर्णों में विकार आदि करके गाता है।

(६) सामगान

यद्यपि इस साम वेदभाष्य में गायन के विषय का विवरण नहीं किया और न गान योग्य सामरूप को प्रकट किया है तो भी सामविषयक गायन

का साधारण परिचय पाठकों को करा देना आवश्यक है । सो नारदीय शिक्षा के अनुसार संक्षेप से देते हैं ।

(१) उरस्, कण्ठ और शिर इन तीन स्थानों से शब्द उठता है । तीनों स्थानों का क्रम से प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और तृतीय सवन के समान जानना चाहिये । इन तीनों स्थानों पर सातों स्वर विचरते हैं । उरःस्थल में विचरते हुए सातों स्वर कानों में सुनाई नहीं देते ।

(२) सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूर्च्छनाएं और ४६ तान होते हैं । ये सब 'स्वरमण्डल' कहाता है । पङ्क ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत, निपाद, ये सात स्वर हैं । पङ्क, मध्यम, गान्धार, ये तीन ग्राम हैं । पङ्कग्राम में १४, मध्यमग्राम में २० और गान्धार ग्राम में १५ तान होते हैं । ऋषि, पितर और देवभेद से प्रत्येक की सात मूर्च्छनाएं हैं, जैसे -नन्दी, विशाला, सुमुखी, चिन्ना, चित्रवती, सुखा, और बला ये ७ देवमूर्च्छनाएं हैं । आप्यायिनी, विश्वभृता, चन्द्रा, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री वार्हती, हृष्यका, उत्तरायता और रजनी ये ऋषियों की ७ मूर्च्छना हैं । देव, पितृ, और ऋषि इनकी मूर्च्छनाओं के गन्धर्व, यज्ञ और मनुष्य क्रम से अनुयायी हैं । लौकिक मूर्च्छनाएं ऋषियों की हैं । पङ्क से देव, ऋषभ से ऋषि, गान्धार से पितर, मध्यम से गन्धर्व, पञ्चम से सबजन निपाद से यज्ञ और धैवत से अन्य प्राणी प्रसन्न होते हैं ।

(३) गान के दस गुण हैं—रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विकृष्ट श्लक्ष्ण, सम, सुकुमार और मधुर ।

(४) स्वरभेद पांच प्रकार का है । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचित और निघात । आर्चिक में उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये तीन ही हैं । स्वरित से परे उदात्त ही प्रचित कहाता है । स्वरित दो प्रकार का होता है एक वर्ण स्वार और दूसरा अतीत स्वार । उच्च और नीच दोनों के बीच को ही स्वार कहा जाता है । उदात्त में निपाद और गान्धार, अनु-

दात्त में ऋषभ और धैवत और स्वरित में पङ्क, मध्यम और पञ्चम रहते हैं । विशेष ज्ञान नारदाय शिष्या एव अन्य गानग्रन्थों से जानन चाहिये सामवेदियों में सामवेद संहिता की ऋचाओं के नाना गान स्वरूपों की कल्पना गानशास्त्र के अनुसार की है । वे गान संहिताएं मंत्रसंहिता से भिन्न होती हैं । उसका कुछ नमूना दर्शाते हैं ।

मन्त्र—अग्नि आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सत्सि
वर्हिषि ॥

गेयगान—^४ अग्नाइ । ^{२२ २} आया ही ३ ^१ वोइ ^२ वोईतोया २इ ।
^१ तोया २इ । ^{१ २ २२} गृणानो ह । ^१ व्यदातोया २इ । ^१ तोया २इ : ^{१ २२} ना ३ हो
^१ ता सा २ ३ । ^३ त्सा २ इ । ^{१२} वा २ ३ ४ औ हो वा ^{३ ३} हौ २इ ४ पी । १।

यह गोतम ऋषि का पर्क साम कहाता है । इसी प्रकार इसी ऋषि का दूसरा पर्क इस प्रकार है ।

^{१ ४ ४२ ५२} अग्नि आया हि । ^४ वो ५ इ ^{४ २ २ २} तथा इ गृणा ^{२ २} नो हव्य दा १ ता
^२ ३ ये । ^३ नि होना २ ३ ४ सा । ^{५ १} त्सा २ ३ ४ इ वा । ^{२ १} हो २ ३ ३ ४
^{१ १} इ पो ६ हा इ ॥ ३ ॥

इन दोनों पर्कों के भीतर काश्यप ऋषि का 'वर्हिष्य' है जैसे—

^{४ ५ ४२ ५२} अग्नि आया हो वो । ^{५ १ २ २} तथाइ । ^२ गृणानो हव्य दाता । २ ३ या
^{१२ २ २ १} इ नि होता सत्सि ^{५ १ ३} वर्हा २ ३ । ^५ इषि । ^५ वर्हा २ इ षा १ ३ ४ औ
^{२ २ १ १ १ १} हो वा । ^५ वर्ही ३ पी २ ३ ४ ५ ।

इसी प्रकार स्तोत्र, उह गान और उहगानों के भी विशेष रूप निर्धारित हैं। उन ही का विशेष परिज्ञान करना सामवेद का परिज्ञान करना है।

(७) सानवेदभाष्य

अभी तक जितने भी वेदभाष्य उपलब्ध हैं वे सानवेद संहिता पर संस्कृत भाष्य ही हैं। जिनमें बहुत से तो लुप्त हो ही गये हैं। निघण्टु के टीकाकार देवराज यज्वा ने स्कन्दस्वामी, भवस्वामी, राहदेव, श्रीनिवास, माधवेदेव, उचटभट्ट, भास्कर मिश्र, भरतस्वामी इन आठ प्राचीन भाष्यकारों के नाम दर्शाये हैं। इन सब में से केवल माधवीय विरण के कुछ अंश उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सायण भाष्य प्राप्त है। श्री० पं० तुलसीरामजी ने भी सामवेद का एक भाष्य प्रसिद्ध किया है। इन सब भाष्यों के होते हुए भी वेद के मन्त्रों को अन्वयानुसारी ऐसा भाषा-भाष्य उपलब्ध नहीं था जिसका सुगम, सुन्दर और हृदयंगम भाषा में शब्दार्थों के पृथक् २ ज्ञान करने के साथ २ पद लेते। इसलिये इस भाष्य को प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई।

इसके अतिरिक्त हम यह भी स्पष्ट शब्दों में कहना उचित समझते हैं कि अभी तक जितने भाष्य हुए हैं उनमें से एक भी ऐसा भाष्य नहीं जो सामवेद के वास्तविक उद्देश्यभूत उपासना कारण के लक्ष्य को दर्शासके। श्री सायणाचार्य ने तो यज्ञपरक अर्थ कर के ही अपने कार्य को पूर्ण किया है। प्रायः जो भाष्य सायण का ऋग्वेद के मन्त्रों पर है उसको ज्यों का त्यों ही उठाकर रख दिया है। उसमें विशेष फेर फार नहीं है। परन्तु क्योंकि सामवेद का विषय उपासनाकारण है इसलिये सामवेद के मन्त्रों का यज्ञपरक अर्थ करना संगत प्रतीत नहीं होता। इसके अनन्तर मेरठ निवासी श्री स्वामी तुलसीरामजी का भाष्य है। उनके समस्त भाष्य में कुछ एक स्थलों को छोड़कर प्रायः सायण भाष्य को ही अनुसरण

किया है । हमने उक्त दोनों भाष्यों में से किसी का भी अनुसरण नहीं किया । ऐसा करने के बहुत से कारण हैं ।

(१) सायण ने अपने भाष्य में ऐतिहासिक पक्ष को बहुत पुष्टि दी है जो वेदों को साक्षात् इश्वर वचन मानने में भारी विघातक है । इससे वेदों का महत्व भी बहुत घट जाता है ।

(२) यज्ञपरक अर्थ करने में यद्यपि सायण सफल हुआ है तो भी एक दोष उसके भाष्य में यह है कि जो विशेषण जिस पदार्थ के योग्य होना चाहिये वह उस पर नहीं लगता और जो विशेषण जिस पदार्थ में नहीं घटते वे उस पर लगाये जा रहे हैं । उससे वेदमन्त्रों में असत्यार्थ प्रतिपादन करने का भारी कलंक आता है । केवल यज्ञ में आये अग्नि, सोन आदि पदार्थों के वर्णन में सामवेद का अधिक भाग लगा हुआ देखकर सायण भाष्य के अनुसार विचार करने से यह प्रतीत होगा कि वेदमन्त्र में अनावश्यक गीत गा गा कर मन्त्र पूरे किये गये हैं और उनका गुढ़ तात्पर्य कुछ नहीं है । यही प्रभाव योरोप के चिद्दानों पर भी पड़ा है । इसी कारण योरोप के अनुवादक भी सायण के पीछे २ पग रखते हुए उसी प्रकार असंगत अर्थ करते गये हैं जिस प्रकार सायण ने किये हैं । उससे भी बढ़कर योरोप के अनुवादकों ने कहीं २ स्वतन्त्र भी अर्थ किये हैं परन्तु ऐतिहासिक पक्ष की छोड़ कहीं भी उन्होंने वेद के यौगिक अर्थों पर विचार नहीं किया । हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि वेदार्थ के करने में विद्या के परम भण्डार, ईश्वरीय ज्ञान के आदरणीय ग्रन्थों का जिस गम्भीरता से वेदभाष्य प्रकट होना चाहिये था वंसा अभी तक किसी ने भी करने का प्रयास नहीं किया । हम अपने मन्तव्य को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिये कुछ एक नमूने अन्य भाष्यों के उद्धृत करते हैं जिससे पाठक हमारे कथन का अभिप्राय समझ सकेंगे । जैसे—

अग्नि आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।

नि होता सत्सि वर्दिपि ॥

यह सामवेद का प्रथम मन्त्र है । इसमें सायण ने 'अग्नि' शब्द से साधारण भौतिक अग्नि का ही ग्रहण किया है और इसी प्रकार समस्त अग्नेय काण्ड में अग्नि शब्द से चक्षु के कुण्ड में प्रज्वलित अग्नि के सिवाय दूसरा पदार्थ नहीं लिया है । क्योंकि सायण लिखते हैं—

'हे अग्ने ! अङ्गनादिगुणविशिष्ट त्वं आयाहि अस्मद् यज्ञं प्रत्यागच्छ । किमर्थं, वीतये हविषां चरुपुरोडाशादीनां भक्षणाय ।

अर्थात् हे चमक आदि गुणों से युक्त अग्ने ! तू आ अर्थात् हमारे यज्ञ में आ । क्यों ? ' वीतये ' चरु पुरोडाश आदि हवियों के खाने के लिये । चरु आदि खाने वाला अग्नि सिवाय भौतिक अग्नि के दूसरा पदार्थ नहीं है । इससे आगे तीसरा मन्त्र है—

अग्निं द्रुतं वृणीमहे हातारं विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ।

इस मन्त्र में अग्नि का विशेषण है ' विश्ववेदसं ' । जिसका सायण स्वयं अर्थ करते हैं—

"विश्वानि वेत्ति इति विश्ववेदाः, यद्वा वेद इति धननाम, विश्वं सर्वं वेदो धने यस्य तम् " ।

अर्थात् समस्त पदार्थों को जानने हारा या समस्त साधनों का स्वामी 'विश्ववेदाः' कहावगा । परन्तु सायण के अनुसार यह विशेषण 'अग्नि' का है । भौतिक अग्नि जड़ होने से न तो समस्त ज्ञानवान् है और न समस्त धनों का स्वामी हो सकता है । इसी प्रकार उक्त मन्त्र में 'सुक्रतु' शब्द पदा है । जिसका अर्थ सायण ने "निष्पादकत्वेन शोभनकर्माणम् अथवा क्रतुगिति प्रज्ञा नाम शोभनप्रज्ञं वा" किया है अर्थात् यह अग्नि यज्ञनिष्पादक होने से 'सुक्रतु' है, या क्रतु प्रज्ञा, अर्थात्

शोभनप्रज्ञ वह अग्नि है यह विशेषण भी भौतिक अग्नि में व्यर्थ है क्योंकि जड़ अग्नि न यज्ञ का कर्ता है और न प्रज्ञावान् ही है । फलतः ये विशेषण किसी चेतनावान् पदार्थ के होने उचित हैं । यह दोष न केवल आग्नेय काण्ड के अग्नि देवता के मन्त्रों में है, प्रत्युत इन्द्र, सोम, उषा आदि देवता के मन्त्रों में भी सायण कृत अर्थों में यही दोष विद्यमान है । क्योंकि सायण ने इन्द्र को एक विशेष रूपवान् हाथों पैरों वाला, घोड़ों से युक्त रथपर चढा हुआ माना है इसलिये उसमें भी "ईशानमस्य जगत्:" "ईशानमस्य तस्थुपः" (पू० अ० ३ । १) चराचर जगत् का स्वामी आदि विशेषण नहीं घटेंगे, उसी प्रकार पावमान काण्ड में सोम का वर्णन किया है । सायण ने सर्वत्र सोम, इन्द्र, पवमान आदि शब्दों से सोमलता और उसके रसों का ही ग्रहण किया है । उस लता या सोमरस में—"जनिता अग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनिता इन्द्रस्य जानितान विष्णोः" (पू० अ० ५ । ६ । ५) इत्यादि सूर्य, इन्द्र और विष्णु का उत्पादक विशेषण नहीं घटेंगे । उसी प्रकार सोम को "यो रायामानेता य इषानाम् ।" (पू० अ० ५ । ११ । ५) धनों और अन्नों का लाने वाला बतलाया गया है, यह विशेषण भी सोमरस में नहीं घटेंगे ।

परन्तु ये सभी मन्त्र परमेश्वरपरक हैं । उनके विशेषण परमेश्वर ही में मुख्यवृत्ति से घट सकते हैं इसलिये उन मन्त्रों का मुख्यार्थ परमेश्वर को और गौण अर्थ अन्य पदार्थों को दर्शावेगा । हमने अपने भाष्य में स्थान २ पर इस विशेषता को दर्शाया है और स्थान २ में वेदमन्त्रों के अर्थ को उपनिषदों और दर्शनों के उद्धरणों से पुष्ट किया है, पाठक यथास्थान देख लेंगे । यहां अधिक ग्रन्थ का विस्तार नहीं दिखाकर अब हम सामवेद का भाष्य प्रारम्भ करने के पूर्व वेद के सिद्धान्तों पर पाठकों का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं ।

(८) सिद्धान्त दिशा विचार

यह हम पहले दर्शा चुके हैं कि सामवेद का मुख्य विषय उपासना काण्ड है । वेदों में सिवाय ईश्वर के और किसी देवता की उपासना प्रतिपादित नहीं की है । यह सिद्धान्त कोई नवीन नहीं है । योरोप के विद्वान् एवं सायण के मतानुयायी भले ही वेद के मन्त्रों में पर्वतों, नदियों और वृक्षों या आग, जल, वायु आदि जड़ पदार्थों की स्तुति मानते हैं परन्तु ऐसा उनका मानना उनकी वेद के सिद्धान्तों से अनभिज्ञता को बतलाता है । उन ही के पीछे चलने वाले नयी रोशनी के पले भारतीय विद्वान् भी बहुत से उस भ्रमजाल में पड़ गये हैं । इसका मुख्य कारण यही है कि वे लोग वेद को वेद के सिद्धान्त भाग से अलग कर लेते हैं । उनकी यही धारणा है कि वेद और उपनिषद् दो भिन्न पदार्थ हैं । उनका ऐसा समझना ही उनको भ्रम में डाल देता है । योरोप के विद्वानों की दृष्टि में उपनिषद् वाद में वनीं अर्थात् ईश्वर, जीव आदि दार्शनिक सिद्धान्तों की उन्नति वाद में हुई । इसी धारणा से वे उपनिषद् को वेदों से अलग कर देते हैं । वास्तव में उपनिषद् का ज्ञान वेदों से किसी अवस्था में अलग नहीं किया जा सकता । उपनिषद् वेदों के सिद्धान्त प्रदर्शक ग्रन्थ हैं । यदि शरीर में से आत्मा को पृथक् कर दिया जाय तो शरीर केवल हाड़, मांस, चाम का मुर्दा मात्र दिखायी देता है और शरीर के अंगों की शक्तियों का चमत्कार नहीं जाना जा सकता । आंख नाक कान, त्वचा, वाणी ये साधन और अन्तःकरण मन ये संसार में जितना चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं वे सब इस जड़ शरीर से नहीं हो सकते परन्तु आत्मा के होने पर ही ये सब चमत्कार दिखाई दे रहे हैं । उसी प्रकार जब आत्मस्वरूप उपनिषद्, ब्रह्मविद्या को वेदों के शरीर से अलग कर लिया जाता है उस समय वेद के मन्त्र अग्नि जल, नदियों और पर्वतों की स्तुतियों से भरे हुए प्रतीत होते हैं । परन्तु जब उनके आधार

में ब्रह्मविद्या रूप दीपशिखा उपनिषद् को रख दिया जाता है तो वेद ज्ञान का अपूर्व भण्डार दिखाई देता है। यह मन्तव्य बहुत प्राचीन काल से उपनिषत्कारों ने स्वयं स्वीकार किया है। जैसे काठक में—

सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्द्वा ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्याम्योम्
इत्येतत् ॥ २ । १५)

“समस्त वेद जिस परम पद का पुनः २ प्रतिपादन करते, समस्त तप जिस को दर्शाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को संक्षेप से कहता हूँ ‘ओम्’ यह है।” अर्थात् सब वेद ईश्वर का प्रतिपादन पुनः २ करते हैं। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपनिषत् में पञ्चविध आत्मा का अङ्ग प्रत्यङ्गमय स्वरूप दर्शाते हुए पांच कौशों को दर्शाया है, वह बहुत ध्यान देने योग्य है। वहाँ अक्षरसमय पुरुष के पांच भेग दर्शाये गये हैं:—

अक्षरसमय—(१) शिर, (२) दक्षिण पक्ष, (३) उत्तर पक्ष,
(४) आत्मा (धड़), (५) आश्रय पुच्छ ।

प्राणमय—(१) प्राण, (२) ज्ञान, (३) अपान, (४)
आकाश, (५) पृथिवी ।

मनोमय—(१) यजुः, (२) ऋग्, (३) साम, (४) आदेश,
(५) अथर्व ।

विज्ञानमय—(१) श्रद्धा, (२) ऋत, (३) सत्य, (४) योग,
(५) महः ।

आनन्दमय—(१) प्रिय, (२) मोद, (३) प्रमोद, (४)
आनन्द, (५) ब्रह्म ।

ये पाचों कोश उत्तरोत्तर एक दूसरे के भीतर प्रविष्ट हैं, इनमें (१) शिरः स्थानीय शिरः, प्राण, यजुः, श्रद्धा और प्रिय ये क्रमशः एक ही के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम रूप हैं। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष व्यान, ऋक्, ऋत, मोद, उत्तर पक्ष, अपान, साम, सत्य, प्रमोद और आत्मा (धइ) आकाश, आदेश, योग, आनन्द और आश्रय (पुच्छ), पृथिवी, अथर्व, महः, ब्रह्म इनको भी समझना चाहिये। यदि इन सबका कोई एक आश्रय उपनिषद्कार ने बतलाया है तो ब्रह्म को ही बतलाया है। इसी प्रकार स्थान २ पर वेदत्रयी का सार अ, उ, मू को बतलाया है। फलतः यह कहना कि ब्रह्म विद्या को वेदों से पृथक् किया जा सकता है केवल साहसमात्र है।

यदि उपनिषदों या ब्रह्मविद्या को वेदों से अलग भी करना चाहें तो भी वे अलग हो नहीं सकतीं, क्योंकि उपनिषदों की स्वतः सत्ता ही कुछ नहीं रह जाती यदि उनका मूल काट दिया जाय। ईश उपनिषद् साक्षात् यजुर्वेद का ४० वां अध्याय है। इस अध्याय का विस्तृत विवरण गृहदारण्यक उपनिषद् यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ का एक अंश है। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद् तैत्तिरीय ब्राह्मण का एकांश है। और ऐतरेय उपनिषद् ऐतरेयारण्यक का एक अंश है। छान्दोग्य उपनिषद् छान्दोग्य ब्राह्मण के आरण्यक भाग का एकांश है। जब सर्वा बड़ी २ उपनिषदें वेद और वेद के व्याख्यानों के अंश ही हैं तब उनका वेद से अलग करना पौरुष ऋषियों के ज्ञान भण्डार के साथ भारी अन्याय है। जिस प्रकार दीपक को निकाल लेने से घर सूना प्रतीत होता है उसी प्रकार उपनिषदों या ब्रह्मविद्या को वेद से परे कर लेने पर वेदसमुदाय भी अन्धकारमय हो जाता है। यही कारण है कि कर्मकाण्ड को ज्ञानकाण्ड से अलग कर लेने पर त्रिंशत् अविद्या के कुञ्ज शय नहीं रहता। मध्यकालीन विद्वानों ने समस्त कर्मकाण्ड में वेद के मन्त्रों का विनियोग पाकर वेदों का अर्थ कर्मकाण्डपरक कर लिया। परन्तु उन्होंने यह नहीं विचारा कि

उनके ऐसा करने से वेदभवन अन्धकारमय हो जायगा और वास्तव में वेसा ही हुआ भी । कर्मकाण्ड को मुख्य रखकर वेदमन्त्रों का यज्ञपरक अर्थ करने से दो प्रवृत्तियाँ जागीं । एक तो कल्पित मंत्रगदन्त कर्मकाण्ड गढ़ २ कर उसमें वेदमन्त्रों का मनमाना विनियोग होने लगा जिससे गोमेध, नरमेध, अश्वमेध आदि पवित्र यज्ञों का क्रियाकाण्ड भी अष्ट हो गया, दूसरा वास्तविक वेदों का परमार्थ और विज्ञानमय अर्थ लुप्त हो गया । और उन्में ऐतिहासिक अर्थ और लौकिक अभिधार्थ ही लिया जाने लगा । भाष्यकारों ने अपना मतलब साधने के लिये प्राचीन ग्रंथों के उद्धरणों से काम तो लिया परन्तु वेदार्थ करने की शैली को नहीं अपनाया ।

वेदों की सबसे उच्च कोटि की व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों में की गई है । उनमें जहाँ साथ २ यज्ञ की शैली और लोक-व्यवहार को दर्शाया है वहाँ यज्ञ की क्रिया का अध्यात्म अर्थ भी किया है । जब समस्त वैदिक कर्मकाण्ड का अर्थ अध्यात्मपरक है तो कोई कारण नहीं की उसमें विनियुक्त मन्त्रों का अर्थ अध्यात्मपरक न हो । भाष्यकारों ने ब्राह्मण ग्रन्थों के इस रहस्य को नहीं समझा । इसी से वे वेदों का जब अध्यात्मपरक अर्थ नहीं लगा सके तब वेद को नित्य ईश्वरज्ञान मानकर भी उनका ऐतिहासिक अर्थ करने एवं भौतिक पक्ष में अर्थ कर उनके गूढ़ ब्रह्मपरक विशेषणों को भी न सुलभ सके । अब हम पाठकों के समक्ष ब्राह्मणकार या उपनिषत्कार ऋषियों के मंत्रार्थ करने की रीति पर कुछ प्रकाश डालते हैं ।

गर्भे नु सन्त्वेपामेधमहं देवानां जनिमानि विश्वा ।

शतं मा पुर आयसीररत्तन् अत्रः श्येनो जगत्सा निरदीयम् ॥

(ऋग्वेद म० ४ । सू २७ । म० १)

इसका प्रतीयमान साधारण अर्थ है—“मैंने गर्भ में ही इन देवों के सब रूप जान लिये, मुझे सौ लोहे के कोट घेरे हुए थे और मैं श्येन

या बाज पक्षी होकर बड़े वेग से निकल आया ।” यह एक पहेली सी है । इस ऋग्वेद के मन्त्र का व्याख्यान ऐतरेयोपनिषद् (अ० २) में इस प्रकार है—

“पुरुषे ह वा अयमःदितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः । तदेतत् सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं विभक्तिं । तद् यदास्त्रिधा सिञ्चत्यथैनज् जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ तत् स्त्रिया आत्मभूय गच्छति यथा स्वमङ्गं । तथा तस्मादेनां न हिनस्ति । साऽस्यैतस्मात्मानमत्र गतं । भावयति ॥ २ ॥ सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भं विभक्तिं । सोऽग्रे कुमारं जन्मनोऽग्रंऽधिभावयति । स यत्कुमारं जन्मनाऽग्रेऽधिभावयति आत्मानमेव तद् भावयति एषां लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हि इमे लोकाः । तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ साऽस्यायमात्मा पुरायेभ्यः कर्मभ्यः प्रतिश्रीयते । अथ अस्य अयमितर आत्मा कृत्स्नकृत्यो वयोगतः प्रैति । स इतः प्रयत्नव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म । तदुक्लमृषिणा ।

गर्भे तु सन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ।

शतं मा पुर आयक्षीररक्षन् अत्रः श्येनो जवसा निरदीयमिति ।

गर्भं एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच । स एवं विद्वान् अस्माच्छरीरभेदादूर्ध्वमुत्क्राय असुप्तिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वाऽमृतः सभभवत् समभवत् ।

अर्थ—पुरुष में ही प्रथम यह गर्भ होता है । वह पुरुष में वीर्य रूप से रहता है वह वीर्य सब अणुओं से शुक्र रूप में उत्पन्न होता है । उसकी

पुरुष अपने ही शरीर में आत्मा रूप से धारण करता है । जब वह मैथुन द्वारा स्त्री के गर्भ में साधान करता है तब उसको उत्पन्न करता है । यह उस आत्मा का प्रथम जन्म है । तब वह गर्भ स्त्री के एक अंग के समान हो जाता है इसलिये वह उसको कोई पीड़ा नहीं देता । स्त्री भी अपने पति के ही आत्मा को अपने भीतर प्रविष्ट हुआ समझ कर उसका पालन करती है । उसका पालन करती हुई स्त्री अपने पति के पालन योग्य होती है । स्त्री उस आत्मा को अपने गर्भ में पालन पाँपण करती है । उत्पन्न हो जाने पर उसका पिता उसको जातकर्म आदि द्वारा अपनाता है । पिता जो उस कुमार को पालता है एक प्रकार से अपने को ही उस रूप में विचार करता है वह भी इसलिये कि ये लोक सन्तति द्वारा ही फैलते हैं, इसलिये यह लोक सन्तति चनी ही रहे । इस प्रकार पुत्र का यह जन्म आत्मा का द्वितीय जन्म है । यही आत्मा बड़ा हो जाने पर पुनः शास्त्रोक्त विधि द्वारा पिता का प्रतिनिधि होकर उसके स्थान पर हो जाता है । और इधर यह पिता का आत्मा जीवन को सफल करके बूढ़ा हो, चल बसता है । यहां से जाकर पुनः वह पैदा हो जाता है । यह उसका तीसरा जन्म है । इसी प्रकार वेदमंत्र ने भी कहा है कि—(गर्भे नु सन्विति०)— अर्थात् 'मैंने गर्भ में ही इन देवों के सब रूप जान लिये मुझे लोहे के सौ कोट घेरे हुए थे श्येन पक्षी के समान में आत्मा बड़े वेग से निकल आया' इति । गर्भ में ही सोते हुए वामदेव ने इस प्रकार कहा । वह वामदेव इस शरीर के बन्धन को तोड़कर परलोक में सर्वासकाम होकर अमृत, सुकृ हो गया ।

उपनिषत्कार ने यह एक वेदमंत्र की संगति लगा कर दर्शाई है और आत्मा के अमर होने का और सुकृ होने का सिद्धान्त दर्शाया है । इसी प्रकार अन्य २ मन्त्रों की भी व्याख्या ब्राह्मणों और आरथकों में प्राप्त होती है । इस व्याख्या में दो ध्यान देने योग्य विचार विन्दु हैं जैसे

(१) सौ लोहे की कोटें (शतं आयसीः पुरः) और (२) वाज के समान वेग से बाहर निकलना । इन दोनों घटनाओं का वर्णन प्रायः अग्नि और इन्द्र और सोम तीनों देवताओं के विषय में रूपान्तर में आयंगा १०० पुरी १६ पुरी या ६० पुरी का वर्णन जैसे—

इन्द्र के विषय में—

अथा चीती परिल्लव यस्त इन्द्रो मदेष्वा । अवाहध्रवतीर्नवा ॥

(साम० उ० अ० १ । ५ । १ । १)

इन्द्र ने सोम के मद में १६ पुरियों का विनाश किया है ।

इन्द्र और अग्नि दोनों के विषय में जैसे—

इन्द्राग्नी नर्वित पुरो दासपन्नीरधूनुतम् । साकमेकेन कर्मणा ॥

(साम० उ० अ० १६ । १ । १ । २)

दोनों को शत्रु के १० पुरी का विनाशक बतलाया है ।

केवल अग्नि के विषय में जैसे—

“प्रभूर्जयन्तं महाविपोथां मूरैरमूरं पुरां दर्माणम् ॥”

(साम० पूर्व० अ० १ । ८ । २)

उक्त सभी उदाहरणों में पुरों का या परकोटों का विनाश सर्वत्र समान है और संख्या भी १६, १००, १० समान ही है अतः इन सबकी संगति एक ही अर्थ में होना आवश्यक है । इस प्रकार उपनिषत् ने एक मंत्र की संगति दर्शाकर वेद के ऐसे सभी स्थलों की व्याख्या कर दी है । प्रायः उपनिषत्कारों, आरण्यककारों और ब्राह्मणकारों की एसी ही व्याख्यान शैली देखने में आती है जिससे वेदमन्त्रों की अध्यात्मव्याख्या स्पष्ट हो जाती है । परन्तु भाष्यकारों ने इन व्याख्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया ।

अब हम सामवेद गत देवताओं पर विचार करते हैं :

सामवेद के देवता (६)

सामवेद गत देवताओं पर विचार करने के पूर्व देवता शब्दपर सामान्य रूप से विचार कर लेना उचित है। इस विषय पर वेद विषय में प्रमाण ग्रन्थ सबसे अधिक यास्क का निरुक्त है। यास्क लिखते हैं—

“यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्स्तुतिं प्रयु-
ञ्ज्क्तं तद्देवतः स मन्त्रो भवति” ।

जिस वस्तु की अभिलाषा करके मन्त्रद्रष्टा ऋषि जिस देवता में अपने अभिप्राय का स्वामित्व निश्चित जानकर स्तुति करता है उस मन्त्र का वही देवता कहा जाता है।

वेदों की ऋचाएँ तीन प्रकार की हैं (१) परोक्षकृत (२) प्रत्यक्षकृत और अध्यात्मिक। परोक्षकृत मंत्रों में देवता को प्रथम पुरुष बनाकर क्रिया में भी प्रथम पुरुष का व्यवहार किया है। प्रत्यक्षकृत मंत्रों में 'तू' इस प्रकार देवता को कह कर क्रिया में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है और आध्यात्मिक में 'अहं' इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है।

निरुक्ताकार यास्क लिखते हैं—

माहाभाग्याद्देवतायाः एक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्य
आत्मानाऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । अपिच सत्वानां प्रकृति-
भूमभिः ऋषयः स्तुवन्तीत्याहुः । प्रकृतिसार्वनाम्न्याच्चतरेतर-
जन्मानो भवन्ति, हतरेतरप्रकृतयः कर्मजन्मानः आत्मजन्मानः ।
आत्मैव एपां रथो भवत्यात्मा अश्व आत्मा आयुधम्, आत्मा
इषवः आत्मा सर्व देवस्य०॥” इत्यादि ॥

अर्थ—देवता का बड़ा ऐश्वर्य होने से एक आत्मा का बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। एक आत्मा के ही अन्य देवता अङ्ग प्रत्यङ्ग हो जाते हैं। और नाना प्रकार के सामर्थ्य देखकर भी अनेक नामों से ऋषियों ने स्तुतियाँ की है। और वह आत्मा सब पदार्थों में समान रूप से मूलकारण होने से सभी नाम उस महान् आत्मा के ही होने सम्भव हैं, इस कारण से भी उस ही आत्मा की नाना नामों से स्तुति की जाती है। उस महान् आत्मा का ऐसा ही विशेष ऐश्वर्य होने के कारण वेद के देवता इतरेतरेजन्मा हैं अर्थात् एक दूसरे के मूलकारण और कार्य हो जाते हैं। बहुत से कर्मभेद से देवताओं की कल्पना है। परन्तु वह सब महान् आत्मा से ही उत्पन्न है। वही उनका रथ है, वही अश्व है, वही आयुध है, वही इषु है, वह सब कुछ देव परम आत्मा स्वयं है। बहुत से स्थलों पर पुरुष के समान अङ्गों वाला देवता मान कर उनकी स्तुति की है और पुरुष के समान ही उसके कर्म भी दर्शाये हैं जैसे—

‘या द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि’ हे इन्द्र दो घोड़ों से आप आओ। और जैसे ‘‘अग्नि इन्द्र पिव च’ हे इन्द्र खा और पी इसी प्रकार अचेतन पदार्थों से भी देवता की स्तुति की है। जिस प्रकार अग्नि, वायु, आदित्य सोम, ग्रावा आदि नामों से भी बहुतसी स्तुतियाँ है। परन्तु सब स्थानों पर पुरुषों के समान ही कर्म करने वाले देवता का निरूपण किया है।

देवता का क्या स्वरूप है इसकी व्यवस्था के लिये निरुद्धकार चार्क का मत है कि तीन ही देवता हैं पृथिवी पर अग्नि अन्तरिक्ष में वायु या इन्द्र और धौ न चर्च। या देवताओं के महाऐश्वर्य होने से और नाना कर्म होने से एक के ही बहुत से नाम हैं। जहाँ कर्म पृथक् २ होने से देवता पृथक् पृथक् हैं वहाँ जिस प्रकार बहुत से कर्म करने वाले एक ही काम को आपस में बाँटकर कार्य करते हैं उसी प्रकार वे भी रहते हैं, वे पुरु

दूसरे के उपकारक भी हो जाते हैं। यहाँ इनकी व्यवस्था नरराष्ट्र के समान ही समझनी चाहिये।

और भी स्पष्टता के लिये निरुक्तकार ने इन देवताओं को तीन विभागों में बांट दिया है। हवि का वहन करना देवताओं का आवाहन करना या दृष्टिविषयक सब काम 'अग्निविषयक' समझा जाय। पृथिवी स्थानी देव गण अश्व, शक्रुनि आदि निघण्टु (प्र० ५ ख० ३) में पढ़ दिये हैं अग्नि के संस्तविक देव इन्द्र, सोम, वरुण, पृथिवी, ऋतु है। अर्थात् इन नामों से भी अग्नि की स्तुति की गई है।

इसी प्रकार मध्यस्थानी देवता निघण्टु (प्र० ५, खं० ४, ५) में पढ़ दिये गये हैं। उनमें मुख्य इन्द्र या वायु है। सब बल कर्म इन्द्र नाम से कहे जाते हैं, इसका कार्य रस का अनुप्रदान करना और वृत्र का बंध करना है। अग्नि सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्राह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु, वायु आदि इसके संस्तविक देव हैं। तृतीय स्थान के देवता निघण्टु (५, ख० ६) में पढ़े गये हैं। रश्मियों से रस का लेना और धारण करना आदित्य का कार्य है। इसके संस्तविक देव चन्द्रमा, वायु और संवत्सर हैं।

निरुक्तकार यास्क का यह देवता विभाग केवल भौतिक विज्ञान के वर्णन में ही लागू होता प्रतीत होता है। समाज क्षेत्र में वेदज्ञान को प्रवृत्त कराने के लिये यास्क की व्याख्या केवल यही है कि "तदेक्षानर राष्ट्रमिच्च" नरराष्ट्र के समान ही वेद में देवराष्ट्र की व्यवस्था समझनी चाहिये। इस प्रकार उन्हीं देवनामों से यथास्थान राज्यप्रबन्ध, और समाज की वर्णव्यवस्था का भी वर्णन निकल आयेगा। और अध्यात्म वर्णन के लिये यास्क का सिद्धांत यही है कि 'महाभाग्याहेनतानां एक आत्मा बहुधा स्तूयते।' एक ही महान् आत्मा की उसके महान् ऐश्वर्य के कारण नानारूप से स्तुति की गई है।

इसीलिये दैवतकाण्ड या ज्ञान या कर्मकाण्ड की व्याख्या कर चुकने पर स्वयं निरुद्धकार ने ऊर्ध्वमार्ग गति या उपासना मार्ग पर दृष्टि डालकर लिखा है। अथैनदनु प्रवदन्ति अथैतं महान्तमा मानमेपगर्गाणः प्रवदन्ति । इन्द्रमित्रं वरुणमाग्नमाहुरिति । यह सब ऋचाओं का समूह उस महान आत्मा का ही वर्णन करता है। इस प्रकरण में यास्क ने सोम, इन्द्र, आदित्य विष्णु आदि देवताक ऋचाओं का उल्लेख करके आध्यात्म विषय को उत्तम रीति से दर्शाया है। इसमें यही ध्यान देने योग्य बात है कि महान् आत्मा के निम्नलिखित पर्याय यास्क ने दर्शाये हैं—

हंसः । धर्मः । यज्ञः । वेनः । मेधः । कृमिः । भूमिः । विभुः । प्रभुः । शंभुः । राभुः । भुवनम् । भविष्यत् । आपः । महत् । व्योम । यशः । महः । स्वर्णिकम् । स्मृतीकम् । सतीकम् । सतीनम् । गहनम् । गभीरम् । गह्वरम् । कम् । अन्नम् । हविः । सद्य । सदनम् । ऋतम् । योनिः । अनृतस्य योनिः । सत्यम् । नीरम् । हविः । रयिः । सत् । पूर्णम् । सर्वम् । अक्षितम् । बर्हिः । नाम । सर्पिः । अपः । पवित्रम् । अनृतम् । इन्दुः । हेम । स्वः । सर्गाः । शम्बरम् । अम्बरम् । वियन् । व्योम । बर्हिः । धन्व । अन्तरिक्षम् । आकाशम् । आपः । पृथिवी । भूः । स्वयम्भुः । अध्वा । पुष्करम् । सगरः । समुद्रः । तपः । तेजः । सिन्धुः । अर्णवः । नाभिः । वृहः । ऊर्ध्वः । तत् । यत् । किम् । ब्रह्म । वरेण्यम् । हंसः । आत्मा । भवति । वधन्त्यध्वानन् । यद् वाहिप्या शरीराणि । अव्ययं च संस्कृते । यज्ञः आत्मा भवति । यदेनं तन्वने ।

इन हंस आदि उक्त शब्दों ने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को वेदमन्त्रों में दर्शाया गया है। इसलिये आध्यात्म तत्व के खोजक को चाहिये कि वेद मन्त्र पर विचार करने के पूर्व ही प्रथम इन शब्दों की उपास्थिति को

देखले और फिर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करे तो निःसन्देह मन्त्रों का आध्यात्मिक रहस्य खुल जाता है । अब हम सामवेद गत देवताओं को संक्षेप से एक २ की आलोचना करते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकार उपासनाकारण में इन देवताओं की संगति लगती है ।

अग्नि (१०)

प्रथम आग्नेय कारण्ड है । इस कारण्ड भर में अग्नि देवता को लक्ष्य करके ही सब मन्त्र हैं । वह अग्नि क्या पदार्थ है ! इसका विवेचन वेद के सिद्धान्त या आश्रयभाग उपनिषदों में देखिये ।

(१) कठोपनिषद् में नचिकेता ने गुरु यम से प्रश्न किया है—

स त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येपि मृत्यो प्र ब्रूहि तं श्रद्धधानाय मह्यम् ।

आप उस स्वर्ग देने वाले अग्नि को जानते हो, मुझ श्रद्धालु को उसका उपदेश करो । इसके उत्तर में यम ने कहा है ।

प्र ते ब्रवीमि तद्दु मे निचोथ स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् ।

अनन्तलोकाग्निमथां प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम् ।

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै०..... । इत्यादि ।

काठ० १ । १ । १३. १४ ।

मैं तुमको उसी स्वर्ग देने हारे अग्नि का उपदेश करता हूँ । वह अनन्त लोकों को प्राप्त कराता और अनन्त लोकों का आश्रयस्थान है । वह सब लोकों का आदि मूल कारण है ।

इस अग्नि का नाम भी 'नचिकेत' अग्नि ही है ।

पाठक समझ सकते हैं यह कौनसी अग्नि है । यह नचिकेत अग्नि 'नासिकेत' प्राणस्वरूप अग्नि है ।

आत्मा का प्रतिपादन करते हुए पुनः लिखा है:—

अग्रयोर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भणीभिः (क०२।१८)
दिवे दिव इड्यां जागृवाद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निरेतद्वै तत् ।

गर्भिणी जिस प्रकार गर्भ को धारण करती हैं, उनके समान अराणियों में जो जातवेदा विद्यमान हैं, जागने हारे हविष्मान् पुरुषों द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य जो अग्नि है, वह यह अग्नि आत्मा है। अर्थात् आत्मा का प्रतिनिधि ही यज्ञाग्नि है दूसरा पदार्थ नहीं। फलतः, यज्ञाङ्ग मंत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य वह आत्मा ही है। मंत्रों का तो केवल प्रतिनिधिवाद से यज्ञों में विनियोग किया जाता है। (इस उक्त मंत्र की स्पष्ट व्याख्या देखिये अवि० सं० ७६) यह वही अग्नि है, हृदय में छुपे हुए जिसको योगी लोग ध्यान निर्मथन के अभ्यास से साक्षात् देख लेते हैं।

(२) इस रहस्य को श्वेताश्वतर उपनिषद् में बड़े उत्तम रूप में रखा है।

वन्देयथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः ॥
स भूव एवेन्धनयोनिप्राह्यस्नद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥

जिस प्रकार अपने कारण भूत अराणियों में अग्नि की मूर्ति नहीं देख पड़ती और न अग्नि के सूक्ष्मरूप का विनाश ही होता है और वाद में भी उसको उसके मूलकारणभूत ईंधन से ही मथन द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार दोनों आत्मारूप अग्नि में भी इस देह में प्रणव के मनन से प्रकट होते हैं।

अर्थात्—स्वदेहमग्निं कृत्वा प्रणयं चोत्तराग्निम् ।

ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येन्निरूढवत् ॥

अपने देह आत्मा को अधर अराणि और प्रणव ओंकार को उत्तर अराणि बनाकर ध्यानरूप मन्थन दण्ड को पुनः रगद २ कर ज्योतिःस्वरूप, देव, अर्थात् प्रकाशस्वरूप आत्मा का दर्शन करे ।

तिलेषु तैलं दधिनील सर्पिरापः स्रोतः स्वरक्षीषु चाग्निः ।

एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैतं तपसा योऽनुपश्यति ॥

तिलों में तेल, दही में घी, नदियों में जल और अराणियों में अग्नि जिस प्रकार उपलब्ध होती है उसी प्रकार आत्मा में ही वह परमात्मा व्यापक रूप में जाना जाता है, योगी जन उसको सत्य अर्थात् भूतहित, अहिंसा आदि यम, नियम, सत्याचरण और तप से प्राप्त करते हैं ।

इसी अभिप्राय को दर्शाने वाले अन्य वाक्य भी देखने योग्य हैं ।
जैसे—

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः ।

अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ॥

अर्थ—अग्नि के प्रकाश को ही मानो सविता जगदुत्पादक प्रभु ने इस पृथिवीरूप देह में छिपाया था । अर्थात् पृथिवी में जिस प्रकार अग्नि है उसी प्रकार देह में आत्मा है । इसी प्रकार—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्बु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपस्तस्तत्प्रजापतिः ॥

नीलः पतङ्गो हरिनो लोहिताक्षस्तडिदुर्गमः ऋतवः समुद्राः ।

अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्त्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥

इन दो मन्त्रों में अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः, नील, पतङ्ग, हरित, लोहितान् आदि सब नाम उसी ब्रह्म परमात्मा के गुण एवं स्वरूपके निदर्शक हैं ।

मैत्रायणी उपनिषद् में:—

‘अथ य एषोऽन्तरे हृत्पुंकरे एवाग्निताऽन्नमन्ति स एषोऽग्निर्दिवे धितः सोऽयं कालाग्र्योऽदृश्यः सर्वभूतान्नमन्ति ।’
(मैत्रा० ५ । २)

हृदय कमल में स्थित यह अग्नि (आत्मा) है जो अन्न खाता है और वह मातृधाम, धौः में स्थित कालाग्नि नामक परमेश्वर रूप अग्नि है जो प्रलय काल में समस्त भूतों को खाजाता है, लीन कर लेता है ।

एष द्वि खलु आत्मा ईशानः शंभुर्भवो रुद्रः प्रजापतिर्विश्वसृष्टृ हिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो हंसः शान्तो विष्णुर्नारायणोऽर्कः सविता धाना सम्राड् इन्द्र इन्दुरिति य एष तपत्यग्निनाऽपिहितः सहस्राक्षोऽथ आनन्दमयनैप वा विजिज्ञासितव्योऽन्वेष्टव्यः । (मैत्रायणी उप० ५ । ८)

वही आत्मा ईशान, शम्भु आदि नामों से कहा जाता है वही अग्नि ज्योतिः अर्थान् प्रकाश से आवृत होकर प्रकाशित होता है ।

शिरः पक्षसी पुच्छृष्टृवागेपोऽग्निः । .. प्राणो वै वायुः प्राणोऽग्निः । ... असौ वा आदित्य इन्द्रः सैपोऽग्निः ॥ ६.३६ ॥ ... इन्द्रोऽग्निरिव विश्वरूपः ॥

इत्यादि स्थलों में वह परब्रह्म ही अग्नि शब्द से लिया गया है उसको ही

‘तस्माद्ग्निर्येष्टव्यश्चेतव्यः’ ॥ ६ । ३४ ॥

इत्यादि स्थलों में उपासना करने का उपदेश है ।

प्रक्षोपनिषद् में—

‘स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते ।’

परब्रह्म की सूर्यरूप से उपासना का वर्णन किया है ।

हम अग्नि के सम्बन्ध में और अधिक उपनिषद् वाक्यों को उठाकर लेख नहीं बढ़ाना चाहते । पाठक स्वयं हमारी दिखाई दिशा से वेदमन्त्रों के भीतर रखे हुए विशेषणों पर विचार करेंगे और यथास्थान उनका आध्यात्मिक तत्व जान लेंगे ।

इसके अतिरिक्त अग्नि के सम्बन्ध में एक बात यह भी लिखना अप्रासङ्गिक न होगा कि वेद में अग्नि शब्द जहां आत्मा और परमात्मा का मुख्य नाम है वहां इसी अग्नि शब्द का प्रयोग वैदिक भाषा में आचार्य और ज्ञानी विद्वान् के लिये भी आता है । जैसा उपनयन पद्धति में आचार्य बालकका अञ्जलि पकड़कर जल छुड़ते समय कहा करता है ।

“अग्निराचार्यस्तव अलौ” । कस्य ब्रह्मचार्यासि ? भवतः ।

इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यासि । अग्निराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तव ।

पार० का० २, कं० २

ये पद्धतियां प्राचीन वैदिक विशेष परिभाषा-पदों के प्रयोगों की सूचना देती हैं । हमें उनको भी भुलाना नहीं चाहिये । इसलिये हमारा अधिक बल इस बात पर है कि विशेषणों को देखकर वेदमंत्र के अर्थ करने चाहिये । निरुक्तकार ने अग्नि का निर्वचन इस प्रकार किया है ।

अग्निः कस्मादग्रणी भवति । अग्ने यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्गं नयति संनजमानः । अक्रोपनो भवति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते शाकपूणरितदक्ताद् दग्धाद् वा नीतात् ॥

अर्थात्—अग्रणी, यज्ञ में प्रथम प्रणयन करने योग्य यज्ञाग्नि, अङ्ग या देह को लेजाने वाला जीव, न गीला होने वाला विद्युत्, ज्ञान प्रकाशक आचार्य और दाहक ताप ये सब अर्थ अग्नि के हैं । इन अर्थों को यथास्थान लगाना उचित है ।

इन्द्र (११)

लौकिक साहित्य में इन्द्र का अर्थ राजा है । पौराणिक साहित्य में इन्द्र एक कल्पित स्वर्गका राजा और अपनी देव कथाओं का विलासी पात्र है । परन्तु वैदिक साहित्य में इन्द्र का अर्थ आत्मा है । आत्मा शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण है । जैसा इस देह में आत्मा है उसी प्रकार विश्वमय ब्रह्माण्ड में परमात्मा है जिसका वर्णन 'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूरी' इत्यादि विशाल अक्षरों से किया जाता है । इसी को 'यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुनादरम्' इत्यादि अक्षरों से ज्येष्ठ ब्रह्म पतलाया है ।

यह अन्तरात्मा इन्द्र है । इसके लिये सर्व प्रसिद्ध प्रमाण देह की इन्द्रियां हैं जिनका नाम ही इन्द्र के आधार पर है । पाणिनि आचार्य ने इन्द्रिय शब्द की व्युत्पत्ति लिखी है—

इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रहृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा
(पा० ५ । २ । ६३)

इन्द्र आत्मा का ज्ञापक लिङ्ग, उसका देहा, उससे उत्पन्न, उससे सेवित और उसकी शक्ति से युक्त होने के कारण ही इन्द्रिय कहाते हैं । इसके अतिरिक्त सब कथा कथानकों में प्रसिद्ध पुराणगत इन्द्र कोई पदार्थ नहीं है । वह भी आलंकारिक रूप से हसी इन्द्र आत्मा के सम्पन्न, सिद्ध, ऐश्वर्यवान् आदि रूपों का दर्शाया है । दूसरा इन्द्र वह परमात्मा है जिसका वर्णन वेद में स्थान २ पर आता है । जैसे 'इन्द्रो महा रोदसी पप्रथ चक्षुषी' (साम० उक्त० अ० १६ । २ । २ ।)

अब यह तो पाठक भाष्य में देखेंगे कि समस्त इन्द्र पद इन्द्र विषयक है और उत्तरार्चिक में भी इन्द्र विषयक बहुतमी ऋचाएं हैं ।

यहां थोड़ासा उपनिषदों के मन्तव्यों का उल्लेख करते हैं—

(१) ऐतरेय उपनिषद् में—

‘स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यद् इदमदर्शमिती ॐ तस्मा
दिदन्द्रो नाम । इदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तदिन्द्र इत्याचक्षते
परोक्षेण । परोक्षप्रिया हि देवाः ।

वह मुमुक्षु इस पुरुष को ही ब्रह्मरूप से देखता है ।

और कहता है ‘इदम् अदर्शम्’ इससे उस ब्रह्म का नाम ‘इदन्द्र’
है इसका ही परोक्षरूप ‘इन्द्र’ है ।

बृहदारण्यक में—

इन्द्रो ह वै नाम एष योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषः । तं ना एत-
मिन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याक्षते ४ । २ । २ ॥

दक्षिण चक्षु में दृष्टा रूप से विराजमान आत्मा ही ‘इन्ध’ है उसको
ही ‘इन्द्र’ कहते हैं, स इन्द्रः स एषोऽसपन्नः (१ । ५ । १२), यथा
द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी (६ । ४ । २२) । इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः सार्गलः
सपरिश्रमः (६ । ४ । २३) इन स्थलों पर इन्द्र जीवात्मावाचक है ।

तैत्तिरीय उपनिषद् में—

स मे इन्द्रो मेधया स्पृणोतु । (१ । ४ । १) शं न इन्द्रो बृह-
स्पतिः । (१ । १ । १) स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । सामवेद उत्तरा०
अ० १ । ८) इन स्थलों पर इन्द्र शब्द परमात्मावाचक निर्विवाद है ।

यहां विवाद योग्य बात यही है कि सामवेद में इन्द्र के साथ दो तीन
विशेष घटनाएं प्रायः जुड़ी हैं । एक तो इन्द्र का सोमपान, दूसरा इन्द्र का
वज्र से पुर भेदन और तीसरा वृत्रहनन । उपनिषत्कार इनको क्या मानते
हैं इस पर भी कुछ प्रकाश डालना उचित है ।

१. सोमपान के प्रकरण को सोमदेवता के प्रकरण में स्पष्ट करेंगे । पुर भेदन के विषय को अग्नि के प्रकरण में स्पष्ट कर आये हैं । वज्र के विषय में गीता में व्यासदेव स्वयं भगवान् को ही "आयुधानामहं वज्रम्" सब आयुधों में श्रेष्ठ वज्र स्वीकार करते हैं । सब दुःखों के भवबन्धन के छेदन करने हारा ईश्वर ही स्वतः ज्ञानस्वरूप सबसे उत्तम वज्र है ।

काठक उपनिषद् में—

प्राण एजति निःसृतम् । महद् भयं वज्रमुद्यतम् ।

य तद् विदुरमृतास्ते भवन्ति । (६ । २)

ईश्वर की शक्ति प्राण को वज्र कहा है ।

चुरिकोपनिषद् में—

मनसस्तु चुरं गृह्य सुतीक्ष्णं बुद्धिनिर्मलम् ।

इन्द्रवज्र इति प्रोक्तम् ॥

ज्ञान, ध्यान में तत्पर मन को ही वज्र लिखा है । उस वज्र द्वारा सुषुम्ना सहित १०१ नाड़ियों के बन्धन को ध्यान योग से काटता है । जैसे लिखा है—

द्रासप्ततिसहस्राणि प्रतिनाडिषु तैतिलम् ।

छिद्यते ध्यानयोगेन सुषुम्नैका न छिद्यते ।

योगानिर्मलधारेण चुरेणानलवर्चसा ॥

छिन्देन्नाडिशतं धीरः प्रभावादिह जन्मनि ॥

ये शत नाड़ी ही आयसी पुर हैं, जिनको कहीं २६ या ६० भी कहा जाता है । इनमें व्यास तैतिल=अन्धकार को ही अध्यात्म योगी वृत्र कहते हैं । इसका विवरण स्थान २ पर पाठकगण भाव्य में ही देखेंगे । इन्द्र और वृत्र की कथा की आशंकारिफ व्याख्या का विस्तृत विवरण महर्षि ने

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में स्पष्टरूप से 'ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय' में कर दिया है। उसको पुनः यहां उटाकर रखना पिष्टपेषण होगा।

(१२) सोम देवता

सोम क्या पदार्थ है इसका निर्णय कठिन है। याज्ञिक लोगों का सोम एक लता है, जिसके रस-पान करने के लिये विशेष विधि है। जो सोमपान तैयार करने की विधि महीधर आदि भाष्यकारों ने दी है वह बहुत सरल है। सर्ज की छाल, त्रिफला, सूठ, पुनर्नवा, पीपल, गजपीपल आदि नाना औषधियों में धान और जौ की खीलों मिला, कूटकर उनको कलश में बंद करके, उसे तीन दिन तक रक्खा जाता है और फिर उसे कम्बल के टुकड़े से छानकर उसमें दूध, मधु आदि मिलाकर पान किया जाता है। छानने और पान करने की इन सब क्रियाओं को करते समय सोम देवता के मन्त्रों का पाठ किया जाता है, परन्तु उनमें सोम कोई पदार्थ नहीं गिना जाता है। उसमें प्रतिनिधि वाद से ही सोम की कल्पना करके सोमदेवताक मन्त्रों का प्रयोग किया गया है। महीधर के काल के सोम सौत्रामणि को देखकर यह कहना कि समस्त सोमदेवताक मन्त्र इसी सुरारूप सोम का वर्णन ही करते हैं यह भारी भूल होगी। ब्राह्मण ग्रन्थों ने यज्ञ में रखी यज्ञक्रियाओं की व्याख्या करने का यत्न किया है। उसमें वे सोम के निमित्त प्रतिनिधि पदार्थों को मन्त्र में आये शब्दों का अर्थ स्वीकार नहीं करते, प्रत्युत, जिस मुख्य अर्थ के अभिप्राय से वह शब्द मन्त्रों में पड़ा गया है उसको ही वहां खोलकर अतत्ता देते हैं ! इस प्रकार ब्राह्मण और ऋषियों के मत से वह मन्त्र सोमद्रव्यपरक न होकर अध्यात्मपरक हो जाता है। यज्ञकाण्ड को खोलकर दिखाने एवं उसके यज्ञव्याख्यानुसार सोमपरक मन्त्रों की अध्यात्म व्याख्या कर दिखाने के लिए यहां स्थान नहीं और न यहां अवसर है। तो भी ब्राह्मण

कारों ने सोम, सवन के प्रकरण में सोम के जो २ अर्थ किये हैं उनपर पाठकों का ध्यान खींचते हैं ।

जैसे—

श्रीवै सोमः (श० ४ । १ । ३ । ६) राजा वै सोमः (श० १४ । ३ । १२) यदाह गयाऽसि इति सोमं वा एतदाह (गो० पू० ५ । १४) सोमो वै प्रजापतिः (श० ५ । १ । ५ । २६) यदाह श्ये नोऽसि इति सोमं वा एतदाह । एष ह वा अग्निर्भूत्वा संश्रयायति । (गो० पू० ५ । १२) यो वै विष्णुः सोमः सः (श० ३ । ३ । ४ । २१) योयं (वायुः) पवते एष सोमः (श० ७ । ३ । १ । १) स यदाह सम्राट् असि इति सोमं वा एतदाह । एष ह वै वायुर्भूत्वा अन्तरिक्षलोके सम्राजनि । (गो० पू० ५ । १३) एष वै यजमानो यत् सोमः (तै० १ । ३ । ३ । ५) क्षत्रं वै सोमः (श० ३ । ४ । १) १०) सोमो वै यशः (तै० २ । २ । ८ । ८) एषा कवला यत्सोमाहुतिः (श० १ । ७ । २ । १०) प्राणः सोमः (श० ७ । ३ । १ । ४५) रेतः सोमः (ऐ० १३ । ७) सोमो वै ब्राह्मणः (तै० २ । ७ । ३ । १) एष वै ब्राह्मणानां सभासाहः सखा (श० १० । ७ । १ । १०) इत्यादि ।

अर्थात्-सोम के अर्थ श्री, राजा, प्राण, प्रजापति, गृहरूप, अग्नि विष्णु, परमात्मा, वायु, सम्राट्, क्षत्रिय, वीर्य, यश, केवल आनन्दमय, परब्रह्म का लय, वीर्य और ब्राह्मण आदि सभी सोम शब्द से लिये जाते हैं और प्रकरणानुसार सभी अर्थ सोम के स्थान २ पर लिये भी गये हैं । प्रकरणों का परिज्ञान मन्त्र के भीतर आये विशेषणों से जाना जायगा । यदि विशेषण कुछ अर्थ बनलाँव और वहां सोम के कुछ और अर्थ ले लिये जावें तो यह वेद मन्त्र के साथ बढ़ा अन्याय होगा ।

सोम को सोमविक्रयी से खरीदकर बड़े आदर से शकट पर लादकर उसे पत्थरों से कूटा जाता है और पुनः उसे दशापवित्रनामक वस्त्र से एक द्रोणकलश नामक घट में छान लिया जाता है। द्रोणकलश में जल होते हैं उनको 'वसतीवरी' नामक 'आपः' कहा जाता है। जिस वस्त्र से छाना जाता है उसको बालों से बना होने के कारण 'अव्या' या 'अव्यय' या 'अव्या वार' शब्द से पुकारा जाता है। उसी को दशापवित्र या पवित्र नाम से भी पुकारा जाता है। सामवेद के प्रायः बहुतसे मंत्रों में सोम को इस 'पवित्र' नामक वस्त्रखण्ड से छानने का वर्णन किया है। सायण ने प्रायः बहुतसे मन्त्रों में से सोम के छाने जाने परक कई अर्थ लिये हैं। परन्तु हमने सायणकृत अर्थों की उपेक्षा की है क्योंकि सोमलता और कूटा हुआ सोमरस जो जड़ पदार्थ हैं उसमें ऐसे विशेषणों का आना जो जड़ पदार्थ में नहीं लग सकते हमें सायणकृत अर्थों के न मानने के लिये बाधित करता है। उदाहरणार्थ—

जैसे—

पुनानः सोम जागृविरव्या वारैः परिप्रियः ।

विप्रोऽभवाऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष राः ॥

(अवि० सं० ५१६)

सायण ने इसका अर्थ यह किया है—

“हे सोम जागरणशील. छाना जाता हुआ तू मेपी=भेड़ के बालों से बने दशापवित्र नामक वस्त्रखण्ड पर बहता है, हे अंगिरों में श्रेष्ठ मेधावी तू पितरों का नेता होता है, वह तू हमारे यज्ञ को मधु अर्थात् अपने रस से सींच ।

सोमरस को अवश्य यज्ञ में भेड़ के बालों से बने कम्बल के टुकड़े से छाना जाता है इसमें सन्देह नहीं। परन्तु उक्त मन्त्र में 'जगृवि'=जागरणशील, 'विप्र'=मेधावी, 'अङ्गिरस्तम'=अङ्गिरसों में श्रेष्ठ, ये विशेषण

ऐसे हैं जो कभी जड़ सोमरस पर लगने उचित नहीं है, इसलिए सायण का अर्थ अशुद्ध है, क्योंकि इसमें योग्यतारहित पदों से वाक्य बनाया गया है। जिस वाक्य के पदों में योग्यता, अकांक्षा और आसक्ति तीनों हों वही वाक्य कहाता है अन्यथा उन्मत्तप्रलाप है। इसी प्रकार 'जागृवि' आदि विशेषण किसी चेतन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि उनमें चेतन में लगने की ही योग्यता है, परन्तु सायण ने उन विशेषणों को एक जड़ पदार्थ पर लगा दिया है, इसलिये सायण का लिखा पदसमुदाय वाक्य नहीं बन सकता। क्योंकि जड़ सोमरस न मेधावी है, न अंगिरसों में श्रेष्ठ है और न जागरणशील है। तब प्रश्न यह होता है कि इसका सामर्थ्य क्या है (देखिये आलोकभाष्य पृष्ठ २५७) 'अंगिरस्तम' सोम क्या है इस पर विचार कीजिये। इसके अपि दृष्टा सप्तर्षि हैं। अर्थात् उपनिषत्कार जिन सात ऋषियों को शिर के सात प्राण बतलाते हैं उसके ज्ञाता इस तत्त्व को साक्षात् करते हैं अर्थात् सात मूर्धागत प्राण अपने में मुख्य अंगिराः=अंग के रसरूप मुख्य आसन्य प्राण या आत्मा को कहते हैं कि हे 'अंगिरस्तम' सबसे अधिक प्रकाशमान ! हे 'जागृवि' जागरणशील तू कभी न सोने वाला है, शेष सब इन्द्रियां थक कर सो जाती हैं परं प्राणात्मा कभी नहीं सोता। यदि वह सोजाय तो मृत्यु हो जाय, सांस न चले। वह सांस चलाने के लिये उस समय प्राणरूप से जागृत रहता है, वह आत्मा 'विप्रः' अर्थात् मेधावी है, मेधा बुद्धि उसके पास है, वह आत्मा (प्रियः) सबसे अधिक प्रिय और सबका पोषक है।

उपनिषत् कहती है—“न ह वा श्ररे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति”।

स्त्री भायां होने के कारण स्त्री प्रिय नहीं, प्रत्युत अपने लिये ये वह जाया प्रिय है। फलतः यह आत्मा सबसे अधिक प्रिय है, इस प्रकार प्रिय हे सोम ! सब के प्रेरक ! तू (अग्न्याः वारैः) अग्नि के चारों, अर्थात्

अवि के बाल ? भेद के बाल नहीं, प्रत्युत अवि=चितिशक्ति, जो सब श्रेणों को रचा करती है, या अवि=माण, उसके वरण=व्यापार प्रवृत्ति इन द्वारा (पुनानः) परिष्कृत होता हुआ (नः यज्ञं मध्वा मिमिच) हमारे यज्ञ को अमृत अर्थात् चैतन्य से सींच ।

पाठक विचार कीजिये अब कोई बात असंगत नही रह गई। इसी प्रकार साधक आत्मा के प्रति यह उपदेश है कि वह अपना चितिशक्तिके संचारों और प्राण के निरोधों द्वारा अपने को परिष्कृत शुद्ध करे और अपने यज्ञ, देवपूजा ईश्वरप्रणिधान को आनन्दमय और अमृतमय करे, अपने जीवन में आनन्द-घन का दर्शन करे । इसमें कोई खींचातानी की बात नही है । स्पष्ट २ विशेषणों के बल से यहां सोमशब्द आत्मापरक है ।

हमारे इस विचार के पोषक प्राचीन ब्राह्मणकारों के सिवाय एक परम वेदज्ञ महर्षि यास्क ही हैं । महर्षि यास्क ने परमात्मा और आत्मा के तत्त्व का वर्णन करने के लिये सोम देवता के मन्त्रों का भी उल्लेख किया है ।

जैसे—

सोमः पवते जनिता मतीनां, जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।
(अवि० सं० १२७)

सोम मतियों का उत्पादक, धौ का उत्पादक और पृथिवी का उत्पादक है । यह तत्त्वार्थ सोमरस पर नही लगता क्योंकि वह धौ और पृथिवी को उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये यास्क लिखते हैं—

‘अथैतं महान्तमात्मानमेतानि सूक्तानि एता ऋचोऽनुप्रवदन्ति’

अर्थात् ये ऋचाएं महान् आत्मा का वर्णन करती हैं । इसी को जीवात्मापरक भी लगाया है । लिखते हैं—

“अथाध्यात्मं।सोम आत्माऽप्येतस्मादेव।इन्द्रियाणां जनिता इत्यर्थः।
अपि वा सर्वाभिर्विभूतिभिर्विभूतत आत्मेत्यात्मगतिमाचष्टे ।”

अर्थात्, अध्यात्म पक्ष में सोम आत्मा भी इसी मन्त्र से कहा गया है क्योंकि वह (मतीनां) इन्द्रियों का उत्पादक है। अथवा वही सब विभूतियों को प्राप्त करता है इस प्रकार आत्मा की गति कही है।

ब्रह्मा देवानां पद्वीः कवीनां सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ।
(ऋ० ८ । ६६ । ६)

इस मन्त्र को यास्कमुनि ने आधिदैविक पक्ष में सूर्य और अध्यात्म में आत्मापरक लगाया है। और 'दशापवित्र'='पवित्र' के सब रहस्य को स्वयं खोल दिया है। इस मन्त्र में सोम का 'श्येनो गृध्राणां', 'महिषो मृगाणां' इत्यादि विशेषणों से उपदेश किया है और अन्त में कहा है कि वह 'पवित्र' पर शब्द करता हुआ जाता है। सायण के अनुसार तो "घर घराता हुआ सोम दशापवित्र नामक वस्त्र पर पढ़कर छन आता है" यह अर्थ हुआ और बाकी विशेषण सब असंगत रह जाते हैं। यास्कमुनि कहते हैं—

“महिषो मृगाणामिति अयमपि महान् भवति मृगाणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणां । श्येनो गृध्राणामिति श्येन आत्मा भवति श्यायतेर्ज्ञानकर्मणः । गृध्राणि इन्द्रियाणि गृध्यतेर्ज्ञानकर्मणः, यत पतस्मिस्तप्रुन्ति ।”

अर्थात् मृगों में महिष अर्थात् मार्गण करने वाली, विषयों को हृदय निकालने वाली इन इन्द्रियों में सबसे बड़ा और गृध्रों में श्येन अर्थात् बाज, के समान, गृध्र अर्थात् विषयों के ज्ञानसाधन इन्द्रियों में से श्येन अर्थात् ज्ञान सम्पन्न वह आत्मा है। इसी प्रकार उक्त मन्त्र में देव, कवि, विप्र और वेन ये सब नाम इन्द्रियों के हैं जो उनके भिन्न २ गुण दर्शाते हैं। उनमें यह आत्मा ही सबसे अधिक गुणशाली है, वह पवित्र अर्थात् इन्द्रियगण पर ही (रेभन्) स्तुयमान अर्थात् प्रशंसित होकर उत्तम रूप से (अत्येति) अधिक बलशाली होकर उनका भोग करता है, इस प्रकारः—

‘सोमं गावो धेनवो वावशानाः० ॥ अक्रान्तसमुद्रः०’...

...वृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः॥ महत्तत्सोमो महिषश्चकार० ॥

ये मन्त्र सोमपरक होकर भी आत्मपरक ही यास्क मुनि ने माने हैं और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि—

‘समुद्र आत्मा’, ‘इन्दुरात्मा’ ।

समुद्र और इन्दु दोनों शब्दों का अर्थ आत्मा है ।

जब यास्क जैसा मुनि हमें सोमदेवताक मन्त्रों को आत्मा के वर्णन में लगाने की दिशा दिखाता है तो कोई कारण नहीं कि उपासना कारण के परम वेद सामवेद के पावमान कारण एवं सोम सूक्तों का परम चरम अभिप्राय ईश्वर और आत्मापरक न हो । और इस विषय पर कुछ उपनिषदों के प्रमाण भी ध्यान देने योग्य हैं जिनको हम क्रम से देते हैं—

१. मैत्रेयी उपनिषद् में स्वहृदयार्चन प्रकार लिखते हुए लिखा है—

“विज्ञानोऽस्मि विशेषोऽस्मि सोमोऽस्मि सकलोऽस्म्यहम् ।”

यहां आत्मा को ही ‘सोम’ कहा है । इसी प्रकार—

“सोमसंज्ञोऽयं भूतात्मा,”

स्पष्ट लिख दिया है । छान्दोग्य में कितना सुन्दर लिखा है—

“अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् । एष हि आत्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते । अथ यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् । तदरश्च ह वै एयश्च अर्णवो ब्रह्म लोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरमदीयं सरस्तदश्वत्थं सोमसवनं तदपराजिता पूर्वाहणः प्रभुविमितं हिरण्यम् ॥”

(छा० ८ । १ । ३)

अर्थ—यह जो ‘अनाशकायन’ और ‘अरण्यायन’ कहा जाता है । यह भी ब्रह्मचर्य का व्रत ही है क्योंकि चुषा पर वश करके और अरण्या

वास में गुरु की अधीनता में रहकर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर आत्मा के परम ज्ञान को प्राप्त करता है वह नष्ट नहीं होता। ब्रह्मलोक में 'अर' और 'यय' इन नाम के समुद्र या दो तालाब हैं। उसी तृतीय द्यौः, स्वर्ग लोक में 'ऐरंमदीय' नामक 'सरः' है और 'सोमसवन' नामक 'अश्वत्थ' है। वहीं 'अवराजिता' ब्रह्मपुरी है, वहां ही प्रसु परमेश्वर का दिया ईश्वर ज्ञान या ब्रह्मज्ञानमय स्वर्ग है यह सब अध्यात्म ज्ञान की कथा है। यहां सोमसवन नामक अश्वत्थ आत्मा ही है, वह ऐरंमद ज्ञानानन्दमय ब्रह्म ही यहां 'सरः' ताल या रसमय मोक्षपद है। वही ब्रह्मपुरी है वहां ही ब्रह्म ज्ञान है। यह सब आलंकारिक वर्णन है। इसी प्रकार—

“तन् मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन”

(छान्दो० ३। ६। १)

यहां सोम का अर्थ प्राण है।

“आर्द्रं उद्रेतसोऽसृजत तद्दु सोमः।”

यहां सोम का अर्थ वीर्य है। मुण्डक में “सोमात्पर्जन्यः” (१।१५) यहां सोम का अर्थ सूर्य है। “यास्ते सोम प्राणांस्तां जुडोमि” (महानारायणोप० १७। ६) यहां सोम का अर्थ आत्मा है।

‘सोमं पिय वृत्रहन्’ (महानारायणोप० २०२) यहां सोम का अर्थ ब्रह्मानन्द रस है। “अपाम सोममभृता अभूम” यहां आत्म ज्ञान और ब्रह्मज्ञान ही सोमार्थ है “सोमो भूत्वा रसात्मकः” (गीता) यहां सोम का अर्थ परमात्मा की शक्तिरूप समष्टि रस है। इसके अतिरिक्त सोमपान करने हरे पुरुषों के विषय में भी देखिये। “सोमपा अभयङ्करः” (महानारा० उप० २०। ५) यहां सोम का अर्थ समस्त संसार है। उसका पालन एवं प्रलयकाल में पान कर जाने हारा परमात्मा 'सोमपा' शब्द से कहा गया है। 'त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः' तीनों वेदों के ज्ञाता, योगाभ्यासी, ब्रह्मज्ञ, निष्पाप पुरुष 'सो-

मप' शब्द से कहे गये हैं । इसी प्रकार ' इन्द्रियं सोमपीथः ' (तै० १ । ३ । १० । २) यहां इन्द्रिय को सोम अर्थात् ज्ञान का पान करने द्वारा कहा है । "समिधं सोम्याहर" हे सोम्य ! शिष्य ! समिधा ले आओ । इस स्थान में ज्ञानपिपासु शिष्य भी सोम्य कहे गये हैं । ब्रह्मविद्विब भासि (छा० उप० ४ । ३ । २) सोम्य यहां भी शिष्य को ही सम्बोधन किया गया है । उपनिषदों में सोम्य शब्द का बहुत ही अधिक प्रयोग आता है । गीता में भी—भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा । इत्यादि प्रयोग है ।

इतने उद्धरणों से पाठक महोदय अवश्य सोम शब्द के विशेष अर्थों और प्रयोगों को देखकर विचार कर सकते हैं कि वेद साहित्य में सोम विषयक मन्त्रों पर किस रीति से विचार करना चाहिये । विस्तारभय से और अधिक न लिखकर यही कहेंगे कि आप स्वयं सामवेद का स्वाध्याय करें और मंत्रों पर विचार करें ।

उषा देवता (१३)

कुछ मन्त्र और सूक्त उषा देवता के भी हैं । यह उषा देवता क्या पदार्थ है इसका निरूपण हम इस स्थान पर विशेष नहीं करना चाहते परन्तु आग्रह करेंगे कि इस विषयक मन्त्रों पर ही हमने विशेष विवरण खोला है वहां देखें ।

यों तो वेद का विषय बड़ा गम्भीर है । वेद के प्रत्येक शब्द में ज्ञान भरा हुआ है । जिस दृष्टि से विचार करें उस दृष्टि से नये २ सत्य और गूढ़ तत्वों का प्रकाश होता प्रतीत होता है । परन्तु वेदों का स्वाध्याय छूट जाने से वेदमय सरस्वतीरूप कामधेनु के न तो परिपालक ही रह गये हैं और न उस रस का आस्वादन करने हारे भावुक ही रहे हैं, अस्तु ।

(१४) उपसंहार

उपसंहार में हम पाठकों को इस भाष्य की कुछ विशेषताओं के सम्बन्ध में भी दो एक बात कहना चाहते हैं। वेदमन्त्रों की भाष्यशैली बहुत सरल रखी गई है। जहां तक हो सका है वेद के प्रत्येक पद का पृथक् २ कोष्ठों में रखकर धातुज अर्थ को दर्शाते हुए मन्त्र का सरल अर्थ कर दिया है। अग्नि, इन्द्र आदि विशेष देवता वाचक शब्दों का प्रायः यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। केवल अर्थमात्र पढ़ने से ही उसका सरल अर्थ आप से ही आप स्पष्ट हो जाता है। विशेष मन्त्रों पर उपनिषद् आदि प्रमाण ग्रन्थों के उद्धरण देकर भावार्थ भी दर्शाया गया है। जिन शब्दों का विशेष अर्थ किया है उसको टिप्पणी देकर प्रमाणीत भी किया गया है। प्रत्येक मन्त्रके साथ अन्य वेदसंहिताओं के जहां पाठभेद टिप्पणी में दिये गये हैं वहां प्रत्येक मन्त्र के साथ २ अन्य वेद की प्रतीक भी देयी है।

(१५) सामवेद के प्रतीक संकेत

सामवेद के तीन भाग हैं एक पूर्वाचिक और दूसरा उत्तराचिक और तीसरा मध्यभाग महानाग्नी आचिक हैं। पूर्वाचिक के ४ भाग हैं (१) आग्नेय काण्ड, (२) ऐन्द्र काण्ड, (३) पवमान काण्ड और (४) आरग्यक काण्ड। ये चारों काण्ड ६ प्रपाठक में बंटे हुए हैं। सायण के अनुसार इनको पांच अध्यायों में बांटा गया है। प्रपाठकों में अर्धप्रपाठक और दशतियों का विभाग है। अध्यायों में खण्डों का विभाग है। परन्तु अर्ध प्रपाठक के विभागों में भी दशतियों की संख्या बराबर आगे चलती जाती है। इसलिये पूर्वाचिक में अर्धप्रपाठकों को हमने अनावश्यकता ही जाना है। उत्तराचिक में २१ अध्याय और ६ प्रपाठक हैं। इन प्रपाठकों के भी अर्धप्रपाठक है इनमें दशतियों का विभाग नहीं है। प्रत्युत सूक्तों का विभाग है। कई संहिताओं में पूर्वाचिक भाग में दशतियों की संख्या अलग २ कर दी है। इसलिये प्रायः सामवेद के मन्त्र की प्रतीक (पूर्वा०, प्र०, अर्द्ध०, प्र०, दश०, ऋ०) इस रीति से दर्शाते है।

अन्तिम निवेदन

वेद के प्रगाढ विद्वानों के समस्त मेरा यह आलोक भाष्य एक बहुत ही तुच्छ आलोक है जो चतुष्मान् शास्त्रालोचक धीमान् पुरुषों की दृष्टि में भी सामान्य दीपकालोक के समान है। यद्यपि नाना विद्यासूर्यों के आलोकों के समस्त दीपकालोक नगण्य है, तो भी उनके अभाव में दीपकालोक भी लोचनों के लिये पर्याप्त आश्रय है। मार्गमात्र दर्शा देने का प्रयोजन ही इस आलोक से सिद्ध हो सकता है। गंभीर गुहागत तत्वों का प्रदर्शन करने के लिये और भी अधिक विस्तृत सूर्योंलोक की आवश्यकता है। पुरातन विद्वानों के चरखचिह्नों पर चलते हुए इस तुच्छजन के आलोक प्रदर्शन में यदि कुछ त्रुटि भी हो गई हो तो मानुष स्वभाव के लिये वह असंगत नहीं, प्रत्युत बालक के गिरने के समान वह भी शोभा ही है। मेरे ग्रन्थ पर दृष्टिपात करते हुए बहुतसे विज्ञगण मेरी त्रुटि देख कर इसलिये प्रसन्न होंगे कि उनको वह बात भी ज्ञात है जो मुझे नहीं ज्ञात है। उनकी इस प्रसन्नता पर मैं भी प्रसन्न होऊंगा यदि वे महानुभाव त्रुटिस्थल पर अपना विशेष ज्ञान मुझे जनाकर महानुभावता प्रकट करें। जिससे अगला संस्करण और भी गुणसम्पन्नरूप में प्रकाशित हो। और यदि केवल अपना पाण्डित्य दिखाने के भाव से या, किन्हीं अन्य दुर्भावों से कोई अन्यथा प्रलाप करेंगे और गुणग्रहण की अपेक्षा दोषग्रहण ही करने पर लगे रहेंगे तो ऐसे महानुभावों की कुचोदना पर किसी का वश नहीं और न उससे कोई सफल ही प्राप्त हो सकेगा। हम भी कुमारिल के शब्दों में यही कहना चाहते हैं—

आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्वल्पन्नपि ।

नहि सद् वर्त्मनागच्छन् स्वलितेष्वप्यपोद्यते ॥ इति शिवम् ।

केसरगंज
अजमेर

}

विद्वानों का अनुचर

जयदेव शर्मा विद्यालङ्कार.

मीमांसातीर्थ

ग्रन्थ संकेत सूची

- ऋग्वेद=ऋ०
 यजुर्वेद=यजु०
 सामवेद=साम०
 अथर्ववेद=अथर्व०
 ऐतरेय ब्राह्मण=ऐ० ब्रा०
 कौषीतकी ब्राह्मण=कौ०
 शतपथ ब्राह्मण=श० ब्रा०
 तैत्तिरीय ब्राह्मण=तै० ब्रा०
 जैमिनीय तलवकार उपनिषद्=जै० उ०
 गोपथ पूर्वभाग=गो० पू०
 ,, उत्तरभाग=गो० उ०
 सायण=सा०
 सत्यव्रतसामश्रमी=स० सा०
 महर्षिदयानन्द=०द०
 उणादि=उणा०
 देवराजयज्जा=दे० य०
 गीता=गी०
 उपनिषद्=उप०
 छान्दोग्य=छान्दो०
 दुर्गाचार्यटीका=दु० टी०
 निघण्टु=नि०, निघ०
 निरुक्त=नि० निरु०
 षड्विंश=ष०

द्वितीय संस्करण की भूमिका

वेद जैसे गम्भीर विषयों पर लिखे गये विशाल ग्रन्थों को खरीदने और पढ़ने की प्रवृत्ति जनता में बहुत कम है। इस कारण मुझे यह भी आशा नहीं थी कि इस भाष्य का द्वितीय संस्करण मुझे मेरे अपने इस जीवन में ही देखने का अवसर प्राप्त होगा। परन्तु गुणग्राही सज्जनों ने मेरे प्रयास का बहुत आदर किया। और दो वर्ष के भीतर ही भीतर सामवेदभाष्य का प्रथम संस्करण समाप्त हो गया। तो भी वेद भाष्य के सहस्रों ग्राहक उसको लेने के लिये उत्सुक हो रहे हैं वे आर्य साहित्य मण्डल के कार्यालय में निरन्तर सामवेदभाष्य का तकाजा करते ही रहते हैं। इसी प्रयोजन से सामवेद भाष्य का द्वितीय संस्करण भी शीघ्र ही छापना पड़ा।

इस अवसर पर मुझे अपने सामवेदभाष्ये को पुनः दौहरा लेने का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ। मेरे विद्वान् मित्रों ने तथा कुछ महानुभाव उदार वेदज्ञ विद्वानों ने अपने उदार स्वभाव से ही मेरे भाष्य की प्रकाशन, मुद्रण, प्रूफ संशोधन आदि की नाना छोटी मोटी त्रुटियाँ दर्शाई थी। उसके अतिरिक्त अनेक भी त्रुटियाँ मुझे स्वयं उसमें प्रतीत हुईं उन सब त्रुटियों को इस संस्करणमें दूर करने का यत्न किया है। मैं उन मित्रों और महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने श्रम से मुझे मेरी त्रुटियाँ दर्शाकर अपनी महानुभावता प्रकट की है। और आगे भी समस्त विद्वानों से यही प्रार्थना है कि वे बराबर मुझे मेरी त्रुटियाँ और अपने विशेष २ वेद विषयक बहुमूल्य विचारों से सूचित करते रहें, जिससे उत्तरोत्तर संस्करण उनके विचारों से समृद्ध और परिमार्जित होते जावें।

केसरगंज, अजमेर
माघसुदी दशमी, १९८७ वि.

विद्वानों का अनुचर
जयदेव शर्मा
विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ।

भूमिका विषय--सूची

			पृष्ठ
१.	उपक्रम	१
२.	सामवेद संहिता	२
३.	शाखाभेद	३
४.	साम ब्राह्मण	७
५.	साम संहिता	५
६.	सामवेदभाष्य	१२
७.	सिद्धान्त दिशा विचार	५
८.	इन्द्र	३२
९.	सोमदेवता	३५
१०.	उषा देवता	४३
११.	उपसंहार	४४
१२.	सामवेद के प्रतीक संकेत	४४
१३.	अन्तिम निवेदन	४६
१४.	ग्रन्थ संकेत सूची	४६
१५.	द्वितीय संस्करण की भूमिका	४७

सामवेद-सूची

पूर्वार्चिकः

आग्नेप्रकारण्डम् (१—६१)

प्रथमः प्रपाठकः	(प्रथमोर्धः)	१—२६
” ”	(द्वितीयोर्धः)	२६—५२
प्रथमोध्यायः		५—६१

ऐन्द्रकारण्डम् (६१—२३५)

द्वितीयः प्रपाठकः	(प्रथमोर्धः)	५२—१८०
” ”	(द्वितीयोर्धः)	८०—१०२
द्वितीयोध्यायः		६१—११६
तृतीयप्रपाठकः	(प्रथमोऽर्धः)	१०२—१४४
” ”	(द्वितीयोर्धः)	१२४—१४६
तृतीयोध्यायः		११६—१८२
चतुर्थः प्रपाठकः	(प्रथमोऽर्धः)	१५०—१७७
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	१७७—२०१
चतुर्थोध्यायः		१८२—२३५
पञ्चमः प्रपाठकः	(प्रथमोऽर्धः)	२०१—२२५
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	२२५—२४३

पात्रमान कारण्डम् (२३५—२६४)

पञ्चमोऽध्यायः		२३५—२६४
षष्ठः प्रपाठकः	(प्रथमोऽर्धः)	२४३—२७३
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	२७३—२६५

आरण्यकं कारण्डम् (२६४—३२२)

षष्ठः प्रपाठकः	(तृतीयोर्धः)	२६५—३२२
----------------	----------------	---------

महानाम्न्यार्चिकः (३२२—३२७)

उत्तरार्थिकः

प्रथमः प्रपाठकः	(प्रथमोऽर्धः)	प्रथमोध्यायः	३२८
” ”	(द्वितीयार्धः)	द्वितीयोध्यायः	३४७
द्वितीयः ”	(प्रथमोऽर्धः)	तृतीयोध्यायः	३६६
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	चतुर्थोध्यायः	३८५
तृतीयः ”	(प्रथमोऽर्धः)	पञ्चमोध्यायः	४०४
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	षष्ठोध्यायः	४३०
चतुर्थः ”	(प्रथमोऽर्धः)	सप्तमोध्यायः	४५८
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	अष्टमोध्यायः	४८६
पञ्चमः ”	(प्रथमोऽर्धः)	नवमोध्यायः	५०७
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	दशमोध्यायः	५३६
षष्ठः ”	(प्रथमोऽर्धः)	एकादशोध्यायः	५७१
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	द्वादशोध्यायः	५८४
” ”	(तृतीयोऽर्धः)	त्रयोदशोध्यायः	६०६
सप्तमः ”	(प्रथमोऽर्धः)	चतुर्दशोध्यायः	६३६
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	पञ्चदशोध्यायः	६५३
” ”	(तृतीयोऽर्धः)	षोडशोध्यायः	६७०
अष्टमः ”	(प्रथमोऽर्धः)	सप्तदशोध्यायः	६९१
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	अष्टादशोध्यायः	७०६
” ”	(तृतीयोऽर्धः)	एकोनविंशोध्यायः	७३०
नवमः ”	(प्रथमोऽर्धः)	विंशोध्यायः	७६२
” ”	(द्वितीयोऽर्धः)	”	७८१
” ”	(तृतीयोऽर्धः)	एकविंशोध्यायः	७९७


ॐ ओ३म् ॐ

सामवेदसंहिता

पूर्वार्चिकः (छन्द आर्चिकः)

आग्नेयं काण्डम्

प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्द्धः



प्रथमोऽध्यायः

परमेश्वर की स्तुति

॥ ३० १ ॥ १, २, ४, ७, ९ भरद्वाजने वार्हस्पत्यः । ३ मेधातिथिः काण्वः ।
४ उशनाः । ६ सुदीतिपुरमीढी । ८ वत्सः काण्वः । १० वामदेवः ॥ गायत्रीछन्दः ॥

[१] अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।

३ २२ ३१ २ ३ १ २ १ ॥ अ० ६ । १६ । १० ॥

भा०—हे अग्ने परमात्मन् ! (वीतये^१) सर्वत्र प्रकाशक और व्यापक होने और (हव्यदातये) हव्य अर्थात् दान और भोग योग्य पदार्थों के प्रदान करने के लिये आप (आ याहि) प्राप्त हों । आप (गृणानः^२) स्तुति करने

२—१. वीतये—वी यतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु ।

२. गृणानः—गृ स्तुत्रौ । व्यत्ययेन कर्मणि कर्तृप्रत्ययः ।

योस्य, (होता^३) सब पदार्थों के देने वाले, यज्ञ में आसन पर होता के समान (बर्हिषि^४) यज्ञ, आत्मा या ब्रह्माण्ड में (नि सत्सि) विराजमान हैं ।

[२] त्वमग्ने यज्ञानां^{१ २} होता विश्वेषां^{३ २ ३} हितः^{२ ३ १ २} ।

देवोभिमानुषे^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} जने ॥ २ ॥ ऋ० ६ । १६ । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! परमात्मन् ! (त्वम्) तू (विश्वेषाम्) समस्त (यज्ञानाम्) यज्ञों, देव उपासनाओं का (होता) स्वीकार करने वाला होकर और (देवोभिः^१) देवों, विद्वानों द्वारा (मानुषे जने) मनुष्य जनों में, यज्ञ में अग्नि के समान (हितः) सर्वोपास्य रूप से स्थापित किया है ।

[३] अग्निं दूतं^{३ २ ३ १ २} वृणीमहे^३ होतारं विश्ववेदसम्^{१ २ ३ १ २} ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ ३ ॥ ऋ० १ । १२ । १ ॥

भा०—हम (विश्ववेदसम्^१) सर्वज्ञानी, सर्वधनी, सर्वेश्वर, (होतारम्) होता, सर्वप्रद, (अस्य) इस (यज्ञस्य) यज्ञ, ब्रह्माण्ड के (सुक्रतुम्^२) सुक्रतु, उत्तम कर्ता, विधाता और ज्ञाता (अग्निं) अग्नि को (दूतं^३) दूत अर्थात् उपास्यरूप से (वृणीमहे) वरण करते हैं । इस प्रकार बहुत उत्तम विद्वान् को भी कार्यसाधक दूत रूप से वरण करना चाहिये ।

३. होता—दाता । आह्वता, बुलाने वाला । ईश्वर सबको अपने पास बुलाता है ।

और संसार में सबको खाने और परोपकार करने के लिये पदार्थ भी देता है ।

४. बर्हिषि—बर्हिः यज्ञः, अन्तरिक्षम्, उदकम्, आसनं, कुशः ।

२—१. देवोदानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा दुस्थानो भवतीतिवा । निर० ।

३—१. वेदस्, वेत्तेरनुन् औषादिः । विद् शाने । वेदो धनं । नि० ३ । २ । १० ॥

२, क्रतुः कर्मेनाम । नि० २ । १ । प्रज्ञानाम च । नि० ३ । ६ ॥

३. दूतं । दवनेरौगादिकेः क्तः । दूनोति गच्छति उपतपति वा स दूतः, बहुकार्य-
साधको राजभृत्यो वा । द० ३० ।

[४] ^{३ २ ३ १ २} अग्निर्वृत्राणि ^{३ १ २ ३ १ २} जङ्घनद्द्रविणस्युर्विपन्यया ।

^{१ २} ^{३ १} ^{२ २} सामिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ ऋ० ६ । १६ । ३४ ॥

भा०—(विपन्यया) विशेष स्तुति द्वारा (द्रविणस्युः^१) उपासकों के द्रव्य, बल और भक्तिभाव को स्वीकार करने वाला 'अग्नि', परमेश्वर (सामिद्धः) चमकता हुआ, (शुक्रः) शुद्ध, कान्तिमान् (आहुतः) भली प्रकार से स्तुति किया या स्मरण किया हुआ (वृत्राणि^२) आत्मा को धेरने वाले पापों को, विघ्नों को और अन्धकारों को (जंघनद्) नाश करे।

[५] ^{१ २} ^३ ^{१ २} प्रष्टं वा ^{३ २} ^{३ १ २} अतिथिं ^{३ २} स्तुपे ^{३ २} मित्रमिव ^{३ २} प्रियम् ।

^२ ^{३ २} ^{३ १} ^{२ २} अग्ने रथं न वेद्यम् ॥ ५ ॥ ऋ० ८ । ८४ । १ ॥

भा०—(वः) तुम्हारे (प्रष्टम्) सब से अधिक प्रिय, (मित्रम् इव प्रियम्) मित्र के समान प्यारे, (अतिथिम्^३) सर्वव्यापक, अतिथि के समान आदरणीय ईश्वर की (स्तुपे) स्तुति करता हूँ। हे अग्ने ! प्रकाश-स्वरूप ! तू (रथं न वेद्यम्^२) रथ के समान समस्त पदार्थों को प्राप्त कराने-हारा, या रस के समान अनुभव वेद्य है।

[६] ^१ ^२ त्वं नो ^{३ १ २} अग्ने महोभिः ^{२ १} पाहि ^{२ २} विश्वस्या ^३ अरातेः ।

^{३ २} ^{३ १ २} ^{२ २} उत द्विषो मर्त्यस्य ॥ ६ ॥ ऋ० ८ । ७१ । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (त्वं) तू (नः) हमें (विश्वस्याः) समस्त प्रकार के (अरातेः) दुख न देने वाले मनुष्य से (महोभिः)

४—१. छन्दसि परेच्छायां कथञ्च । द्रविणमिति बलनाम (नि० २ । ९) धननाम पदनाम च (नि० २ । १०)

२. रथः प्रपृतीनि, तर्मांसि वा । सा० । शत्रुकुलानि । मा० वि० ।

५—' अग्निम् ' इति पाठभेदः, ऋ० ।

१. ' अतेरिधिन् ' अतिथिः । अभ्यक्तितो गृहान् इति । नि० ।

उत्तम सुखसाधनों, धनों द्वारा (पाहि) पालन कर, वचा । (उत) और (द्विषःमर्त्यस्य) द्वेष करने वाले मनुष्य से भी (पाहि) वचा ।

कंजूस स्वामी जो भृत्यों और प्रजाओं का भाग उनको न दे और द्वेषी जो क्रोध या वैर से दूसरे को दण्ड दे, उन दोनों से रक्षा की प्रार्थना है ।

[७] एहधूपु ध्रवाणि तेऽग्न इत्थतरा गिरः ।

एभिर्वर्द्धास इन्दुभिः ॥ ७ ॥ ऋ० ६ । १६ । १६ ॥

भा०—हे घग्ने ! (एहि उ) आ । (ते) तेरे लिये (इत्था^१) इस प्रकार की वैदिक सत्य वाणियां और (इतराः^२ गिरः) उनसे दूसरी लौकिक, या देववाणी से अतिरिक्त असुरवाणियों को मैं तेरी स्तुति में (ध्रवाणि) कहता हूं । (एभिः इन्दुभिः) इन परम ऐश्वर्यों से तू (वर्द्धासः) महिमा में बढ़ा है ।

ईश्वर अपने सामर्थ्य, ज्ञान और सौम्य गुणों द्वारा सब से बढ़ा है और सब वाणियों उसकी ही स्तुति करती हैं ।

[८] आ ते वत्सो मना यमत्परमाच्चित्सधस्थात् ।

अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ८ ॥ ऋ० ८ । ११ । ७ ॥

भा०—(वत्सः^१) तेरे पुत्र के समान स्तुतिकर्ता उपासक (ते मनः^२) तेरे मनन करने योग्य सत्यज्ञान को (परमात् चित् सधस्थात्) परम उत्कृष्ट स्थान से (आ यमन्) वश करता, प्राप्त करता है । हे (अग्ने) अग्ने ! परमेश्वर ! (त्वां कामये) मैं तुझे ही चाहता हूं ।

अन्तरात्मा में साक्षात् ब्रह्म से मनन करने योग्य सत्य ज्ञान को प्राप्त करता है और ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करता और उसे चाहता है ।

७—१. 'इत्थाः' इति पाठो विवरणसम्मतः । इत्थाः सत्याः । मा० वि० । इत्थेत्यादन्तः सत्यनामसु पठितः । इत्थमित्यस्य छान्दसमलोपे दीर्घे रूपम् ।

२. इतराः सत्यतो अन्याः । मा० वि० ।

८—१. वेदरौपादिकः सः । उ० पा० ३ । ६२ । २. मन ज्ञाने (भ्वादिः) ।

[६] त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत ।

मूर्ध्ना विश्वस्य वाधतः ॥ ६ ॥ ऋ० ६। १६। १३ ॥

भा०—हे अग्ने प्रकाशस्वरूप ! (त्वाम्) तुम्हे (अथर्वा^१) अहिंसक, प्रजापति, ज्ञानी विद्वान् (विश्वस्य वाधतः) समस्त ब्रह्माण्ड को चहन करने वाले (मूर्ध्नाः) मूर्धा स्थान, सर्वोच्च (पुष्कराद् अधि) पुष्कर अर्थात् सबको पुष्ट करने वाले तेरे शक्तिमान् विराट् स्वरूप से ही (निर-अमन्थत) अरणियों से अग्नि के समान, मथन करके तुम्हे प्रकट करता है, तेरा ज्ञान करता है ।

[१०] अग्ने विवस्वदा भरासभ्यमूतय मह ।

देवो ह्यसि नो दृशे ॥ १० ॥

भा०—हे अग्ने ! (अस्मभ्यम्) हमारी (महे, ऊतये) बड़ी रक्षा के लिये (विवस्वद्) विशेष सुखपूर्वक निवास योग्य ऐश्वर्य से युक्त, गृह, यज्ञ आदि को (आभर) प्राप्त करा । क्योंकि (नः) हमारे (दृशे) देखने और मार्ग दिखाने के लिये (देवः हि असि) प्रकाशमान, विद्वान्, ज्ञानवान् परमदेव तू ही है ।

इति प्रथमा दशतिः । प्रथमः खण्डः ।

॥ २ ॥ १ आयुङ्क्षाहिः । २ वामदेवः । ३, ८, ९ प्रयोगः । ४ मधुच्छन्दाः । ५, ७ शुनःशेषः । ६ मेधातिथिः काण्वः । १० वत्सः काण्वः । गायत्री छन्दः ॥

[११] नमस्ते अग्ने ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः ।

अभैरमित्रमर्ह्य ॥ १ ॥ ऋ० ८। ७५। १० ॥

भा०—हे अग्ने । हे (देव) देव ! (कृष्टयम्^१) मनुष्य (ते) तुम्हे (ओजसे^२) बल के लिये (नमः गृणन्ति) नमस्कार कहते हैं । तू

(अमैः^३) बलों से (अमित्रम्) शत्रु को (अर्दय) पीड़ित कर । भक्त भगवान् से प्राण मांगते और वन्दना करते हैं कि खल दण्डित हों ।

[१२] दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम् ।

यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥ २ ॥ अ० ४ । ८ । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (विश्ववेदसम्) समस्त धनों के स्वामी, समस्त ज्ञानसंपन्न (हव्यवाहम्) समस्त भोग्य पदार्थों को प्राप्त करानेवाले, (अमर्त्यम्) कभी न मरने वाले, अमृत (दूतम्) दूत के समान परोपकारी सर्वोपास्य, (यजिष्ठम्) सृष्टिमय महान् यज्ञ के करने वाले, अथवा सबसे बड़े उपास्य (वः) तुमको मैं (गिरा) वेदवाणी द्वारा (ऋञ्जसे^१) अपने अनुकूल करता हूँ, आपकी साधना करता हूँ । अथवा हे मनुष्यो ! (वः दूतं) आप लोगों के उपास्य, सर्वेश्वर, अमृत रूप देवकी वाणी से (ऋञ्जसे) स्तुति करता हूँ ।

[१३] उप त्वा जामयो गिरा देदिशतीर्हविष्कृतः ।

वायोरनीके अस्थिरन् ॥ ३ ॥ अ० ८ । १०२ । १३ ॥

भा०—हे अग्ने ! (हविष्कृतः) स्तुति और हव्य सम्पादन करने वाले पुरुष की (जामयः गिरः) वाणियाँ, भगिनियों के समान, एक ही स्थान पर उत्पन्न होने वाली, अथवा सत्य फलको पैदा करने वाली, (देदिशतीः) तेरे गुणों को प्रकट करती हुई (वायोः) सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तेरे ही (अनीके) समीप (उप अस्थिरन्) पहुँचती हैं, तुझ में ही घटती हैं ।

[१४] उप त्वाग्ने दिवे दिवे दापावस्तर्द्धिया वयम् ।

नमो भरन्त एमासि ॥ ४ ॥ अ० १ । १ । ७ ॥

३. रोगवैलैर्भवेद्या । मा० वि० ।

१२--१. ऋञ्जतिः प्रसाधनकर्मा । नि० ४ । ३ ।

भा०—हे अग्ने ! (दिवे दिवे) प्रतिदिन (दोपा^१ वस्तः)-सायं प्रातः, दिन रात (वयम्) हम सब लोग (धिया) अपनी बुद्धि द्वारा और कर्म द्वारा (नमो भरन्तः) नमस्कार करते हुए या यज्ञ की हवि प्रस्तुत करते हुए (त्वा) तुम्हको (पुमसि) प्राप्त होते हैं ।

[१५] जराबोध तद्विविडडि विशे विशे यज्ञियाय ।

स्तोमं रुद्राय दृशीकम् ॥ ५ ॥ अ० १ । २७ । १० ॥

भा०—हे (जराबोध) स्तुतियों द्वारा ज्ञान करने एवं प्रकट करने योग्य ! अग्ने ! (विशे विशे) प्रत्येक प्रजा के हित के लिये (तत् विविडडि) उस परम स्थान या हृदय में प्रवेश करो जहां लोग (यज्ञियाय) यज्ञ, आत्मा के योग्य हितैषी, उपास्य, (रुद्राय) दुष्टों को दण्ड करके रुजाने वाले तुम्ह ईश्वर के लिये (दृशीकम्) दर्शनीय (स्तोमम्) स्तुति पाठ करते हैं ।

अर्थात् जिस हृदय में कर्मव्यवस्था का भय करके दुष्टों के दण्डकर्ता ईश्वर के लिये स्तुति की जाती है, हे स्तुति द्वारा हृदय में प्रकाशित होने वाले परमात्मन् ! आप भक्ति द्वारा प्रत्येक मनुष्य के उस हृदय में प्रकट हों । फलतः, डर से ईश्वर की स्तुति करने की अपेक्षा सब लोग प्रेम और भक्ति से ईश्वर को हृदय में स्थान दें ।

[१६] प्रति त्वं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥ ६ ॥ अ० १ । २६ । १॥

भा०—हे अग्ने ! तू (त्वं) उस (चारुमध्वरम्) सुन्दर, हिंसारहित यज्ञ अमर आत्मा की (गोपीथाय) रक्षा करने के निमित्त (प्र हूयसे) पुकारा या याद किया जाता है । तू (मरुद्भिः) विद्वानों द्वारा या प्राणों द्वारा उनकी साधना से हमारे हृदय में (आ, गहि) प्रकट हो ।

[१७] अश्वं न त्वा वारचन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः ।

सम्राजं तमध्वराणाम् ॥ ७ ॥ अ० १ । २७ । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! तू (वारवन्तं अथं न) कष्ट निवारण के साधन रूप बालों से युक्त अथ के समान (वारवन्तं) कष्ट निवारक साधनों से सम्पन्न अथवा अज्ञान वारक, ज्ञानदीप्तियों और विघ्ननिवारक साधनों से सम्पन्न और (अश्वराणां सन्नाजं तं) हिंसा रहित धर्म कार्य, यज्ञों के महान् सन्नाद, उनके प्रकाशक और उनमें स्वयं प्रकाशमान उस तुम्ह (अग्निं) अग्नि, प्रकाश-स्वरूप ईश्वर को (नमोभिः) हृदय के विनयों द्वारा (घन्दध्वै) वन्दना करते हैं।

✓ [१८] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अर्धभृगुवच्छुचिमप्रवानवदाहुवे ।

^{३ १ २ ३ १ २} अग्निं समुद्रवाससम् ॥ ८ ॥ ऋ० ८ । १०२ । ४ ॥

भा०—(समुद्रवाससम्) समुद्र, आकाश में व्यापक (शुचिम्) शुद्ध (अग्निम्) अग्नि, ईश्वर को (अर्धभृगुवत्, अमवानवद्) अर्धभृगु पृथ्वी के गर्भगत और अमवान अर्थात् ओषधि रसों में विद्यमान अग्नि के समान (आहुवे) स्मरण करता=जानता हूँ ।

‘ अर्धभृगु ’ अग्नि पृथ्वी के गर्भ में रह कर समस्त पदार्थों को अपने ताप से भर्जन करती और पकाती है । ‘ अमवान ’ अग्नि रसों और ओषधियों में शान्त भाव से रहती है और रस, अम्ल चार रूप में प्रकट होती है । उसी प्रकार तेजोमय कान्तिमान् ईश्वर को समस्त ब्रह्माण्ड में सामर्थ्य रूप में जानना चाहिये ।

[१९] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अग्निमिन्ध्रानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः ।

^{३ १ २ ३ १ २} अग्निमिन्ध्रे विवस्वभिः ॥ ९ ॥ ऋ० ८ । १०२ । २२ ॥

भा०—(अग्निम्) अग्नि, प्रकाशस्वरूप ईश्वर को (मनसा) हृदय से (इन्धानः) काप्राशीत करता हुआ (मर्त्यः) मनुष्य (धियम्) बुद्धि

या कर्म को (सचेत) प्राप्त हो । (विवस्वभिः) सूर्य के समान विद्वानों द्वारा मैं (अग्निम्) उस प्रकाशक रूप ईश्वर को (इन्धे^१) हृदय में प्रज्वलित करता हूँ ।

ईश्वर के मानस ध्यान से मनुष्य बुद्धि और कर्म को सुधारें, उत्तम विद्वानों के संग से ईश्वर का ज्ञान करें ।

[२०] आदिप्रत्नस्य^{२४} रेतसो^{३ २ ३} ज्योतिः^{१ २ ३} पश्यन्ति^{१ २} वासरम्^{३ २} ।
 परो यदिध्यते^{३ २ ३} दिवि^{३ २} ॥ १० ॥ ऋ० ८ । ६ । ३० ॥

भा०—(परः दिवि) धौलोक से भी परे अति अधिक दूर (यत्) जो सूर्य (इध्यते) प्रकाशमान है । (आत् इत्) और (वासरम्) दिन को प्रकाश करने वाले जिस (ज्योतिः) सूर्य को लोग (पश्यन्ति) देखते हैं वह भी (प्रत्नस्य) अति प्राचीन आदिकाल के परम (रेतसः) वीर्यवान्, जगत् के विधाता ईश्वर की ही (ज्योतिः) तेज है ।

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । (कठ उप० २ । १५)

इति द्वितीया दशतिः । द्वितीयः खण्डः ।

य) —————>0<—————

॥ ६० ३ ॥ १ ! हेगः । २, ५, ६ भरद्राजः । ३, १० वामदेवः । ४, ६ वसिष्ठः । ७ विरूपः । ८ शुनःशेषः । ९ गोपवनः । १० वामदेवः । ११ कण्वः । १२ मेघतिथिः । १३ त्रिशिराःस्त्वाष्ट्रः सिन्धुद्वीप अम्बरीषः, तृत आप्तयो वा ।

१४ उशनाः काव्यः । गायत्री ॥

[२१] अग्निं^{३ १ २ ३ १ २} वोवृधन्तमध्वराणां^{३ १ २} पुरुतमम्^{३ २ २} ।

अच्छा नप्त्रे^{२ ३ २ ३ १ २} सहस्वते ॥ १ ॥ ऋ० । १०२ । ७ ॥

भा०—प्रयोग ऋषिः । (वः) तुम्हारे (अध्वराणाम्) यज्ञों या हिंसा रहित परोपकार के कार्यों के (नप्त्रे) बन्धु, सहायक (सहस्वते) बल-

शाली, (वः वृधन्तम्) तुमको बढ़ाने वाले, (पुरुत्तमम्) सब से श्रेष्ठ, इन्द्रियों के स्वामी, अन्तरात्मा के समान (पुरुत्तमम्) और महान् लोकों के स्वामी (अग्निम्) अग्नि परमेश्वर को (अच्छा) सब से श्रेष्ठ जानो ।

[२२] ^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ १ २} अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यष्टुसद्विश्वं न्यत्रिणाम् ।

^{३ १ २ २ २ ३} अग्निर्नो वंसते रथिम् ॥ २ ॥ ऋ० ६ । १६ । २८ ॥

भा०—(अग्निः) अग्नि अग्रणी राजा के समान, ईश्वर (तिग्मेन, शोचिषा) अपने तीक्ष्ण तेज से (विश्वम्) समस्त (अत्रिणम्) प्रजा के धन और प्राण खाजाने वाले दुष्टों को (नि वंसते) नियमन करता है, व्यवस्था में रखता है । और वही (अग्निः) अग्नि, परसंतापक (नः) हमें (रथि) धन और सुखमय जीवन (वंसते) देता है,

[२३] ^{१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २} अग्ने मृड महो अस्यय आ देवयुं जनम् ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २} इयथ वहिरासदम् ॥ ३ ॥ ऋ० ४ । ९ । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! परमेश्वर तू (मृड) हमें सुखी कर । (महान् असि) तू बड़ा है । (देवयुम्) विद्वान् और देवस्तः (जनं) पुरुष को (अयः) तुम प्राप्त होते हो । और (वहिः) यज्ञप्रदों जना में (आसदम्) उपस्थित होने के लिये (इयेथ) आते हो ।

[२४] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} अग्ने रक्षा णो अष्टुहसः प्रति स्म देव रीपतः ।

^{१ २ ३ १ २} तपिष्टैरजरो दह ॥ ४ ॥ ऋ० ७ । १५ । १३ ॥

२२—'वन्ते' इति ऋ० ।

२३—'अस्ययी' इति ऋ० ।

२४—'प्रति ष्म' इति, ऋ० ।

भा०—हे (देव) उपास्य देव प्रभो ! हे (अग्ने) हे अग्ने ! स्व-
प्रकाश ! (नः) हमें (अंहसः) पाप और पापी (रीपतः) हिंसक शत्रु से
(रक्ष) रक्षा कर, वचा और (अजरः) कभी हीनबल न होने वाला तू (तपिष्ठैः)
तपाने वाले तेजों शस्त्रों से उसको (प्रति दह स्म^१) भस्म कर डाल ।

[२५] ^{१ २ ३ २२ २२ ३ १ २} अग्ने युङ्क्त्वा हि थे तवाश्वासा देव साधवः ।

^{३ १ २ ३ १ २} अरं वहन्त्याशवः ॥ ५ ॥ ऋ० ६ । १६ । ४३ ॥

भा०—हे देव ! हे अग्ने ! (थे) जो (ते) तेरे (साधवः) साधु
स्वभाव वाले या योग साधना करने वाले (अश्वासः) अश्व के समान
इन्द्रियां, गतिशील, ज्ञानी साधक हैं, उनको (युङ्क्त्व) लगा, यागाभ्यास
में प्रवृत्त करा । वे गतिशील, ज्ञानी, (आशवः) हरएक कार्य में शीघ्र सिद्धि
प्राप्त करने वाले साधक (अरम्) पर्याप्त उत्तम रूप से (वहन्ति^१) ज्ञान
और उत्तम कार्य के भार को धारण करते और उद्देश्य तक पहुंचाते हैं ।

[२६] ^{१ २ ३ १ २ ३ २} नि त्वा नक्ष्य विशपते द्युमन्तं धीमहे वयम् ।

^{३ १ २} सुवीरमग्न आहुत ॥ ६ ॥ ऋ० ७ । १५ । ७ ॥

भा०—हे (नक्ष्य) सब के सेवन योग्य, शरणा योग्य ! हे (विशपते)
समस्त प्रजा के पति ! हे (आहुत !) सत्र से पुकारे और बुलाये और याद
किये गये तथा हवि, भक्ति द्वारा आदर किये गये पूजित ! हे (अग्ने) अग्ने !
(द्युमन्तं) प्रकाशस्वरूप (सुवीरम्) उत्तम सामर्थ्यवान् तेरा (वयम्)
हम (धीमहे^१) ध्यान करते हैं ।

[२७] ^{३ २ ३ २ २ २ ३ २ ३ २ ३ २} अग्निर्भूर्धा दिवः ककुत्पातिः पृथिव्या अयम् ।

^{३ १ २ २} अपां रतांसि जिन्वति ॥ ७ ॥ ऋ० ८ । ४४ । १६ ॥

२५—१. 'युङ्क्त्वा', 'वहन्ति मन्यवः' इति ऋ० ।

२६—१. 'देव धीमहि' इति ऋ० ।

भा०—(अयम्) यह (अग्निः) अग्नि (मूर्धा) सब का शिरोमणि, (दिवः ककुत्) द्यौलोक या सूर्य के ककुद् भाग के समान उत्तम, वहन करने वाला, आश्रय और (पृथिव्याः पतिः) पृथिवी का पति, स्वामी है । वही (अपाम्) सब लोकों के (रेतांसि) वीजभूत समस्त स्थावर और जंगम प्राणियों को (जिन्वति) तृप्त करता है, जीवन देता है ।

[२८] ^{३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २} इमं मू पु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम् ।
^{१ २ ३ २ ३ १ १} अग्ने देवेषु प्र वाचः ॥ ८ ॥ अ० १ । २७ । ४ ॥

भा०—हे अग्ने ! (त्वम्) तू (इमम्) इस (नव्यांसम्) नवीन सम्पन्न अग्नि स्तुत्य (सनिम्) अन्न आदि के समान सेवनीय (अस्माकम्) हमारे (गायत्रम्) प्राणों की रक्षा करने वाले साधन, एवं छन्दः, ज्ञान को (देवेषु) देवों, पांचभूतों, इन्द्रियों और विद्वानों में (प्र वाचः) उत्तम रूप से कह, प्रकट कर ।

[२९] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} तं त्वा गोपवनो गिरा जनिपुदग्ने अङ्गिरः ।
^{१ २ ३ १ २} स पावक श्रुधी हवम् ॥ ९ ॥ अ० ८ । ७४ । ११ ॥

भा०—हे अग्ने ! (तं, त्वा) उस पूर्व प्रकारसे स्तुत तुम्हको (गोपवनः) वाणियों और इन्द्रियों के वश करने वाला पुरुष (गिरा) अपनी वाणी से (जनिपद्) प्रकट करता है । हे (अङ्गिरः) प्रकाशस्वरूप या अंगों में रस या बल के समान विद्यमान अग्ने ! हे (पावक) मल आदि से पवित्र करनेहारो ! (सः) वह तू हमारी (हवम्) स्तुतिको (श्रुधि) श्रवण कर ।

[३०] ^{३ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १} परि वाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत् ।
^{२ ३ १ २ ३ १ २} दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ १० ॥ अ० ४ । १५ । ३ ॥

२८—'अस्मभ्यम्' इति 'नवीयसम् इति' तै० ।

२९—'यं त्वा' इति अ० ।

भा०—(वाजपतिः^१) बल, वीर्यं, अन्न, ज्ञान का स्वामी (कविः^२) कान्तदर्शी, मेधावी (अग्निः) अग्नि, परमेश्वर (दाशुषे) दान करनेवाले को (रत्नानि) रमणीय पदार्थ, (दधत्) देता हुआ, (हव्यानि) हवन करने योग्य पदार्थों और भक्तिपूर्वक स्तुति वचनों को (परि अक्रमात्) स्वीकार करता है ।

[३१] उ^{२३} दु^२ त्थं^{३१२} जातवेदसं^{३१} देवं^२ वहन्ति^{३१२} केतवः ।

^{३१२} दश विश्वाय सूर्यम् ॥ ११ ॥ अ० १ । ५० । १ ॥

भा०—(केतवः^१) ज्ञान करने, करानेवाले रश्मियों के समान प्रज्ञाएं या विद्वान्गण (सूर्य) सूर्य के समान प्रकाशमान, समस्त संसार के उत्पादक उस सविता, (जातवेदसे) सब पदार्थों के जाननेहारे या वेदों के मूलकारण (त्थं उ) उस (देवं) परमात्मा देव को ही (उद् वहन्ति) धारण करते हैं कि (विश्वाय) समस्त संसार उसको (दशे) देख ले, जान ले ।

सब विद्वान् उसे ज्ञान का मूलकारण और सब प्राणियों का प्रेरक सबसे ऊपर बतलाते हैं कि सब उसको जानलें और उसके दिये ज्ञान से स्वयं भी सब कार्य व्यवहारों को जानें ।

[३२] कविमग्निमुप^{३१} स्तुहि^{३१२} सत्यधर्माणमध्वरे^{३२} ।

^{३१२} देवममीवचातनम् ॥ १२ ॥ अ० १ । १२ । ७ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू उस (कविम्) कान्तदर्शी, मेधावी, सर्वज्ञ (अध्वरे सत्यधर्माणं^१) यज्ञ में, जगत् में सत्य धर्मों को धारण करने वाले (देवं) दिव्यगुणों से युक्तदाता (अमीवचातनं) दुःखदायी रोगों का नाश करने वाले

३०—१. वाज इत्यन्ननाम, (नि० २ । ७ ।)

२. कविरिति मेधाविनाम,

(नि० ३ ॥ १५ ।)

३१—१. केतुरिति प्रज्ञानाम । नि० ३ । ६ ॥

३२—१. सत्यकर्माणं । मा० वि० ।

(अग्निम्) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की (उपन्तुहि) दत्तचित्त होकर स्तुति अर्थात् गुण वर्णन कर ।

[३३] श^१ नो^२ देवी^३ रभि^२ष्टये^३ श^१ नो^२ भवन्तु^३ पीतये^३ ।

शंभारभिस्तवन्तु नः ॥ १३ ॥ ऋ० १० । ९ । ४ ॥

भा०—(नः) हमारे लिये (देवीः) दिव्य गुणों से युक्त जल (अभिष्टये^१) हमारे अभिलषित सुख कार्यों के लिये (शम्) सुखकारी, कल्याणकारी हों । (नः, पीतये, शम्) हमारे पान करने के लिये भी सुखकारी हों । (नः) हमारे लिये (शम्) कल्याणकारी होकर ही (अभि-सवन्तु) सब ओर से वहें और सुखों की वर्षा करें^१ ।


[३४] कस्य^१ नूनं^२ परीणसि^३ त्रियो^२ जिन्वासि^३ सत्पते ।

गोपाता यस्य ते गिरः ॥ १४ ॥ ऋ० ८ । ८४ । ७ ॥

भा०—[प्रश्न] हे (सत्-पते) सज्जनों के प्रतिपालक ! तुम (नूनम्) निश्चय से (कस्य) किसके (धियः) कर्मों और स्तुतियों और मनः संकल्पों को (परीणसि) बहुधा (जिन्वासि^१) पूर्ण करते, स्वीकार करते हो ? [उत्तर] (यस्य) जिसकी (ते गिरः) तेरे निमित्त प्रकट हुई वाणियों (गोपाता) अपनी इन्द्रियों को वश करने के लिये हैं ।

जो पुरुष अपनी इन्द्रियों को जीतने के लिये ईश्वर-स्तुति, उपासना, प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनकी अनोकामना पूर्ण करते हैं ।

इति तृतीया दशतिः । तृतीयः खण्डः ॥



३३—१. ' आपो भवन्तु ' इति ऋ० । १. अभिगमाय, अभिगमनं स्नानादिभिः तत्पुनरासेचनम्, । मा० वि० ।

३४—१ 'परिणसः', 'दम्पते' इति च ऋ० । २. परिणसि इति बहुनाम, (नि० ३ । १.)

॥ ४ ॥ १, शंयुवार्हस्पत्यः ३ शंयुस्तृणपाणिर्वा । २ भर्गः प्रागाधः । ४ वसिष्ठः ॥
 ५ भर्गः प्रागथो भरद्वाजो वा । ६ प्रत्कण्वः काण्वः ॥ ७ तृणपाणिः । ८ विरूपः । ९
 शुनःशेषः आजीगर्तिः । ८, ९ भर्गः प्रागाधोवा । १० सोभरिः काण्वः । बृहती ॥

[३५] यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे ।

१ २ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 प्र प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम् ॥१॥

ऋ० ६ । ४८ । १ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वः) आप लोग (दक्षसे) बलशाली, सर्व-
 शास्त्रिमान् (अग्नये) अग्नि परमेश्वर की (यज्ञा यज्ञा^१) प्रत्येक यज्ञ में और
 (गिरा गिरा च) प्रत्येक वेदवाणी से गुण कीर्तन करो । (वयम्) हम भी
 (अमृतं) उस अमृत, मृत्यु से रहित (जातवेदसम्) वेदों के एकमात्र
 उत्पन्न करनेहार, सर्वज्ञ, परमेश्वर को (प्रियं मित्रं न) प्रिय मित्र के समान
 (प्र शंसिषम्) कीर्तन करते हैं ।

[३६] पाहि नो अग्न एकया पाह्यूऽउत द्वितीयया ।

३ २ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ १ २
 पाहि गीभिस्त्रिभिर्जाम्पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥२॥

ऋ० ८ । ६० । ९ ॥

भा०—हे अग्ने ! परमेश्वर ! (एकया^१) एक वेदरूप वाणी से (नः
 पाहि) हमारी रक्षा करो, पालन करो । (उत) और (द्वितीयया^२) दूसारी
 वेदमयी वाणी से (पाहि) पालन करो । (तिसृभिः^३) तीनों (गीभिः)

३५-१. सुपांसुलुङ्ग इति सप्तम्याः लुक् (पा० ७ । १ । ३६) वीप्सायां द्विर्वचनम् ।

३६-१. 'ऋग्-लक्षणया' इति मा०, वि० ।

२. यजुर्लक्षणया मा० वि० ।

३. ऋग्यजुः सामलक्षणामिः इति मा० वि० ।

वेद वाणियों से (पाहि) पालन कर । हे (ऊर्जांपते) सब अश्रों और बलों के अधिपते ! हे (वसो) सब के भीतर बसने और सबको बसाने वाले वसो ! (चतसृभिः^४) चारों वेदवाणियों से (पाहि) पालन कर ।

ज्ञान, विज्ञान, क्रिया और उपासना इन चार भेदों के पृथक् २ निरूपण करने से चार वेद हैं । प्रत्येक से प्रजा का पालन करना ही मन्त्र का अभिप्राय है ।

[३७] ^{३ १ २} बृहद्भिर्गने ^{३ १ २} अर्चिभिः ^{३ १ २} शुक्रेण ^{३ १ २} देव शोचिपा ।

^{३ १ २} भरद्वाजे ^{३ १} संमिधानो ^{३ १ २} यन्निष्ठ ^२ रेवत्पावक दीदिहि ॥ ३ ॥

ऋ० ६ । ४८ । ७ ॥

भा०—हे (देव) : दानादि गुणसम्पन्न ! (यन्निष्ठ) सब से महान् युवतम ! सब से अधिक यौवन सम्पन्न, कभी निर्बल न होने वाले, हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप हे (रेवत् !) समस्त धर्मों के स्वामी हे कान्तिमन् ! हे (पावक) सबको अपने तेज से पवित्र करने वाले ! तू (शुक्रेण) निर्मल (शोचिपा) तेजों से (भरद्वाज) ज्ञान और बल वीर्य को धारण करने वाले पुरुष में (समिधानः) विशेष रूप से प्रदीप्त होते हुए (बृहद्भिः) बड़े (अर्चिभिः) कान्तियों, ज्वालाओं, तेजों से (दीदिहि) प्रकाशमान होघो ।

[३८] ^{१ २} त्वे ^{३ १ २} अग्ने स्वाहुत ^{३ १ २} प्रियासः ^{३ १ २} सन्तु सूरयः ।

^{३ २ ३} यन्तारा ^{२ ३ १ २} ये मध्वानो ^{३ १ २} जनानामूर्वा ^{३ १ २} दयन्त ^{३ १ २} गानाम् ॥ ४ ॥

ऋ० ७ । १६ । ७ ॥

४. अग्न्यजुःसामनिगदलक्षणाभिः । मा० वि० ।

३७—'रेवतः शुक्र दीदिहि द्युमरपावक' इति ऋ० ।

३८—'जनानामूर्वान्' इति ऋ० ।

भा०—हे अग्ने परमेश्वर ! हे (स्वाहुत) उत्तम रीति से यज्ञ में उपा-
सित ! (सूर्यः) विद्वान् लोग जो सयकी मति को प्रेरित करते हैं वे
(प्रियासः) प्रिय (सन्तु) हों । (यन्तारः) दान करने वाले या (जनानां)
प्रजाओं को (यन्तारः) नियम व्यवस्था में रखने वाले (ये) जो (मघ-
वानः) धन ऐश्वर्यसम्पन्न हैं और जो (गोनाम्) गौओं, इन्द्रियों और वेद-
वाणियों के (ऊर्वम्) समूह को (दयन्तः) पालन करते, वश में रखते और
औरों को दान करते हैं वे भी सर्वप्रिय हों ।

[३६] ^{२३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२} अग्ने जरितविश्वपतिस्तपानो देव रक्षसः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अग्रोपिवान् गृहपते महां असि दिवस्पायुर्दुरोणयुः ॥५॥

अ० ८ । ६० । १९ ॥

भा०—हे (देव) देव ! हे अग्ने ! हे (जरितः) स्तुति योग्य या उपदेश
करनेहारे ! तू (विश्वपतिः) प्रजा का स्वामी है । (रक्षसः) राक्षसों, दुष्ट
पुरुषों को (तपानः) सन्ताप देता है । हे (गृहपते) ब्रह्माण्ड रूप गृह
के स्वामिन् ! तू गृहमेधी के समान (अग्रोपिवान्) कभी भी प्रवास में न
रहने वाला, सदा विद्यमान (दिवस्पायुः) घौलोक की रक्षा करनेहारा,
(दुरोणयुः) सबके गृहों या देशों की भंगल कामना करनेवाला (महान्,
असि) सब से बड़ा है ।

[४०] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अग्ने विवस्वदुपसाश्चिन्नं राधो अमर्त्य ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} आ दाशुपे जातवेदो वह्ना त्वमथा देवो उपवृधः ॥६॥

अ० १ । ४४ । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! (त्वं उपसः) तू उपा का (विवस्वत्) वास करने
योग्य, विविध सुखों, ऐश्वर्यों का साधक (दाशुपे) यज्ञादि परोपकार करनेवाले

पुरुष को (चित्रं राधः) नाना प्रकार का धन, ज्ञान (आवह) प्राप्त करा । हे (अमर्त्यं) मरणरहित, नित्य ! हे (जातवेदः) समस्त उत्पन्न पदार्थों में निवास करने वाले, सबको जानने वाले, वेदों के मूलकारण (त्वं) तू (अथ) आज (उपवृधः) सूर्योदय के साथ ज्ञानसम्पन्न एवं जागृत होने वाले (देवान्) इन्द्रियगण को (दाशुषे) इस मनुष्य को (आवह) पुनः प्राप्त करा ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ ३ १ २

[४१] त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधाशंसि चोदय ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

अस्य रायस्त्वमग्ने रधीरसि विदा गाधं तु चै तु नः ॥७॥

श्र० ६ । ४८ । ९ ॥

भा०—हे (वसो) सब को बसाने वाले अग्ने ! (त्वं) तू (चित्रः) नाना शक्ति सम्पन्न, दर्शनीय (ऊत्या) अपने रक्षासामर्थ्य से (राधांसि) धनों, वलों, सामर्थ्यों को (नः चोदय) हमारे प्रति प्रेरित कर । (त्वं) तू (अस्य) इस (रायः) धन ऐश्वर्य का (रधीः) रथ में बैठे महारथी के समान विजेता या रस ग्रहण करनेहारा (असि) है । और तू (नः) हमारे (तुचे) सन्तान के लिये (गाधं तु) प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को भी (विदाः) प्राप्त करा ।

२ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[४२] त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातर्क्षतः कविः ।

१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

त्वां विप्रासः समिधान दीदिवश्चा विवासन्ति वेधसः ॥८॥

श्र० ८ । ६० । ५ ॥

भा०—हे अग्ने ! हे (त्रातः) रक्षा करने हारे ! (त्वम् इत्) तू ही (सप्रथाः^१) सब प्रकार से विख्यात है । तू ही (अतः) सत्य, ज्ञानस्वरूप, (कविः) मेधावी, क्रान्तदर्शी है । हे (दीदिवः^२) देदीप्यमान, तेजःस्वरूप । हे (समिधान) प्रकाशमान ! तुझको ही (वेधसः) स्तुति करने

हारे (विप्रासः) विद्वान् लोग (आ विवासन्ति) भजन, कीर्त्तन करते और प्रकट करते हैं ।

[४३] आ नो अग्ने वयोवृधम् रयिं पावक शशंस्यम् ।

रास्वा चन उपमाते पुरुस्पृहृष्टं सुनीती सुयशस्तरम् ॥६॥

ऋ० ८। ६०। ११ ॥

भा०—हे अग्ने ! हे (पावक) पवित्र करने हारे ! (नः) हमें (शंस्यम्) प्रशंसा के योग्य, (वयोवृधम्) आयु को बढ़ाने वाला (रयिम्) धन ऐश्वर्य (रास्व) दे । हे (उपमाते) ज्ञानसम्पन्न, हे सृष्टि के कर्ता ! (सुनीती) उत्तम धर्म की नीति से (नः) हमें (पुरुस्पृहृष्टम्) जिस धन को बहुत लोग चाहते हैं और (सुयशस्तरम्) जिसके प्राप्त करने से उत्तम यश भी प्राप्त होता है वह भी (रास्व) दे ।

[४४] यो विश्वा दयत वसु हाता मन्द्रो जनानाम् ।

मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥

ऋ० ८। १०३ ६ ॥

भा०—(यः) जो अग्नि, ईश्वर (विश्वा वसु) सब प्रकार के वास करने योग्य, जीवनोपयोगी धन (दयते) दान करता है या सब वास करने वाले प्राणियों की रक्षा करता है वह (हाता) सब को अन्न आदि पदार्थ देने वाला (जनानाम् मन्द्रः) और सब प्राणधारी जन्तुओं को आनन्द देने हारा है । (अस्मै) इस (अग्नये) अग्नि के लिये (मधोः) मधु, ऋग्वेद के (स्तोमाः) स्तुतिपूर्ण मन्त्र (प्रथमानि) उत्तम या सबसे पूर्व प्रस्तुत (मधोः पात्रा न) मधु से पूर्ण मधुपर्क के पात्रों के समान ही (प्रयन्ति) पुरस्कार में प्रस्तुत किये जाते हैं ।

उस भगवान् की सबसे प्रथम स्तुति करनी चाहिये जो समस्त प्राणियों की रक्षा करता, सबको अन्न देता और आनन्द देता है।

इति चतुर्थी दशतिः । चतुर्थः खण्डः ।



॥ द० ५ ॥ १ वसिष्ठो वामदेवो वा । २ भर्गः प्रागाथः । ३, ७ सौभरिः काण्वः ।
४ मनुर्वैवस्वतः । ५ सुदीतिपुरुमीढष्कम्भाः । ६ प्रस्कण्वः काण्वः । ८ मेधातिथिमै-
ध्यातिथिश्च काण्वौ । ९ विश्वामित्रः । १० कण्व वौरः ॥ वृष्टी ॥

^{३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २}
[४५] एना वो अग्नि नमसाजो नपातमाहुवे ।

^{३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २}
प्रियं चेतिष्टमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम् ॥१॥

ऋ० ७ । १६ १ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (एना) इस (नमसा) अन्न द्वारा (ऊर्जः नपातं) बल को क्षीण न होने देने वाले (प्रियम्) सबसे उत्तम, प्यारे, (चेतिष्टम्) सबसे अधिक ज्ञानवान् और ज्ञान कराने हारे, (अरतिं) स्वामी, (स्वध्वरं) उत्तम, हिंसा से रहित, जो न मारे, न मरे, नित्य, (विश्वस्य दूतम्) समस्त संसार को ज्ञान का संदेश देने वाले या सब के स्वयं संताप निवारक, उपास्य और (अमृतम्) स्वयं नित्य, अविनाशी (अग्नि) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का (आहुवे) स्मरण करता हूँ ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
[४६] शेषे वनेषु मातृषु सन्त्वा मर्त्तिस इन्धते ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
अतन्द्रो हव्यं वहसि द्विभक्त आदिह्वेषु राजसि ॥२॥

ऋ० ८ । ६० । १५ ॥

भा०—हे अग्ने ! परमेश्वर ! तू (वनेषु) जंगलों में अग्नि के समान, देवों में जीव के समान, सब प्राणियों की आत्माओं में और (मातृषु)

माताओं के गर्भों और भूमियों में चेतन वीजरूप से (शेषे) प्रसृत होकर व्याप्त रहता है । (त्वा) तुझको (मर्त्तासः) मरणधर्मा, देहवान् प्राणि-गण (इन्धते) प्रदीप्त करते, प्रकट करते और ज्ञान करते हैं । तू (अतन्द्रः) आलस्य से रहित होकर (हविष्कृतः) हवि सम्पादन करने वाले पुरुष के (हृद्यं) प्रस्तुत किये ज्ञान को (वहसि) ले जाता है । (आत् इत्) और अनन्तर तू ईश्वर (देवेषु) देवों, विद्वानों और जीवों और इन्द्रियों के बीच में सबसे उत्कृष्ट होकर (राजसि) प्रकाशित होता है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[४७] अदृशिं गातु वित्तमो यस्मिन् व्रतान्यादधुः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ १ २

उपापु जातमार्यस्य वर्द्धनमग्निं नक्षन्तु नो गिरः ॥ ३ ॥

ऋ० ८ । १०३ । १ ॥

भा०—(गातुवित्तमो^१) समस्त मार्गों-लोकों को भली प्रकार जानने वाला, पृथिवी का उत्तम ज्ञाता, वह अग्नि (अदृशिं) प्रकट होता है (यस्मिन्) जिसमें, जिसके बल पर दीक्षित लोग (व्रतानि^२) अपने शुभ-कर्म और संकल्पों को (आदधुः) धारण करते हैं । उस (सुजातम्) शुभ गुणों से युक्त, उत्तम प्रकार से प्रकट होने हारे, (आर्यस्य वर्द्धनं) श्रेष्ठ पुरुष की उन्नति करनेहारे (अग्निम्) अग्नि, परमेश्वर को (नः गिरः) हमारी वाणियों (नक्षन्तु^३) प्राप्त हों ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[४८] अग्निरुक्थे पुरोहितो प्रावाणो वर्हिरध्वरं ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अचो वरेण्यम् ॥३॥

ऋ० ८ । १०७ । १ ॥

४७—'नक्षन्तु नो गिरः' इति ऋ० । १. गातुरिति पृथिवीनाम । नि० १ । १ ।

२. व्रतमिति कर्मनाम । नि० २ । १ । ३. नक्षतिर्व्याप्तिकर्मा । नि० २ । १८ ।

४८—'मरुतो ब्रह्मणस्पति देवान्' इति ऋ० ।

भा०—(उच्ये) उच्य नाम यज्ञ में (अग्निः) अग्नि, ज्ञानी विद्वान् (पुरोहितः) पुरोहित होता है और (अश्वरे) हिंसारहित यज्ञ में (प्रावाणः) सोमसम्पादन के लिये, एवं ज्ञानयुक्त कर्म सम्पादन के लिये विद्वान् पुरोहित नियुक्त होते हैं और (घर्हिः) कुशा भी छाई जाती है । हे (मरुतः) देव-गण, विद्वानो, प्रजाजनो, अभ्यङ्ग लोगो ! हे (ब्रह्मणस्पते) वेदवित्, सब विद्वानों के मुख्य ! हे (देवाः) विद्वान् लोगो ! (ऋचा) ऋग्वेद के अनुसार (वरेण्यम्) सबसे अधिक वरणा करने योग्य (अयः) रक्षा या शरण्य को (यामि^१) में प्राप्त करूं ।

३ १ २ ३ ३ २ १ १ २ ३ १ २
[४६] अग्निमीडिष्ववसे गाथाभिः शीरशोचिषम् ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
अग्निं राये पुरुमीडं श्रुतं नरोग्निः सुदीतये छर्दिः ॥५॥

ऋ० ८ । ७१ । १४ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (शीरशोचिषम्^१) सुप्त ज्योति वाले, (अग्निं) अग्नि, परमेश्वर को (घवसे) अपनी रक्षा, पालन के लिये (गाथाभिः) नाना प्रकार के वेदमंत्रों और विज्ञान कथाओं से (ईडिष्व) वर्णन कर । हे (पुरुमीडं^२) और बहुत ज्ञान सिचे ! पुरुष ! (अग्निम्) अग्नि, ज्ञानवान् का आश्रय (राये) धनादि विभूति प्राप्ति के लिये ले । (श्रुतं) उसी प्रसिद्ध या विद्वान् अग्नि, ज्ञानी के समान प्रभु को (नरः^३) नेता और

१. यामि इति याञ्चाकर्मसु पठितम् । नि० ३ । १९ ।

४९—'अग्निं सुदीतये छर्दिः' इति ऋ० ।

१. शीरं अनुश्रायिनमिति वा आशीनमिति वा इति । निरु० ४ । २ । १४ ॥

२. हे पुरुमीड ! मदीयान्तरात्मन् ! इति मा० वि० ।

३. नर इति मनुष्यनाम । नि० २ । ३ । नरं नराकारम् इति मा० वि० ।

४. 'छर्दि छर् संदीपने' चुरादिः ।

नरनारी भी अपना आश्रय घनाते हैं । (सुदीतये) प्रकाश करने के निमित्त भी वह (अग्नि) अग्नि ही (छर्दिः) दीप्तिमय प्रकाश है । अथवा (छर्दिः सुदीतये अग्निः) घर को प्रकाशित करने के लिये दीपक के समान भी वही ज्ञानमय प्रभु हृदयगृह का और ब्रह्माण्ड का प्रकाशक है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[५०] ध्रुधि श्रुत्कर्ण वह्निभिर्देवैरग्ने सयावभिः ।

४ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

आ सीदतु वहिषि मित्रा अर्यमा प्रातर्यात्रभिरध्वरे ॥६॥

अ० १ । ४४ । १३ ॥

भा०—हे (श्रुत्कर्ण) श्रवण करने में समर्थ, कर्णोन्द्रिय से सम्पन्न अग्ने ! ज्ञानवन् ! (ध्रुधि) आप हमारा निवेदन सुनों । (सयावभिः) समान गति, ज्ञान से सम्पन्न (वह्निभिः) कार्यभार को उठाने में दक्ष, एवं प्रकाशमान (देवैः) देवों के साथ (मित्रः) मित्र, सबको स्नेह करने वाला (अर्यमा) न्यायकारी, स्वामी के पद पर स्थापित, (प्रातर्यात्रभिः) प्रातःकाल, देवयजन स्थान में घाने वाले चिह्नों के सहित (अध्वरे वहिषि) हिंसारहित यज्ञ एवं आसन पर (आसीदतु) विराजमान हो ।

१ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

[५१] प्र देवोदासो अग्निर्देव इन्द्रो न मज्मना ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २

अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्यौ नाकस्य शर्मणि ॥७॥

अ० ८ । १०३ । २ ॥

भा०—(देवोदासो अग्निः) सुलोक में उत्पन्न होने वाला अग्नि (देवः) प्रकाशमान होकर (इन्द्रो न) चमचमाते विद्युत् या सूर्य के समान (मज्मना) बलपूर्वक (मातरं पृथिवीं अनु) समस्त प्राणियों की माता

५०—'आसिदन्तु वहिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्' इति ऋ० ।

५१—'अग्निर्देवां अच्छ', 'नाकस्य सानवि' इति ऋ० । 'मज्मना' इति बहुव्र, प्रायः गानग्रन्थेषु । १. मज्मनेति बलनाम । नि० २ । ९ ॥

पृथिवी की ओर (प्र विवावृते) नाना प्रकार से पहुंच कर उसको ढक लेता है, उस पर जालसा बिछा देता है और (नाकस्य) अन्तरिक्ष के (शर्मणि) आश्रय में (तस्थौ) स्थिर है ।

अर्थात् सूर्यलोक से आया तेजःप्रभाव वेग से पृथिवी पर गिरता है और वायु में लीन होकर पृथिवी को छाये रहता है । सूर्य से निकलते हुए जीवन के मूलकारण 'आयन्त्र' पृथिवी माता पर पहुंचते हैं । यही वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है ।

ईश्वर पक्ष में—(देवोदासः अग्निः) तेजोमय परमेश्वर के आश्रय में विद्यमान् ज्ञानवान् (देवः) स्वयंप्रकाश (इन्द्रः न) विद्युत् या सूर्य के समान (मज्जमाना) अपने बल से (मातरम् पृथिवीम् अनु) सब प्राणियों के उत्पन्न करनेवाली माता पृथिवी पर (प्र विवावृते) विशेष रूप से रहता है । और पुनः (नाकस्य) नाक, स्वर्ग, सुखमय, आनन्दमय मोक्ष के (शर्मणि) आश्रय में (तस्थौ) विराजता है ।

[५२] ^{२ ३ १२ २२} अध ज्मो ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १२ २२} अधवा दिवा बृहता रोचनादधि ।

^{३ १ २} अया वर्द्धस्य ^{३क २२ ३ २३} तन्वा ^{३ १ २} गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥८॥

ऋ० ८ । १ । १८ ॥

भा०—हे अग्ने ! (अध ज्मः^१) पृथिवी के नीचे (अधवा) और (बृहतः) विशाल, सब पर आच्छादित, (रोचनात्) कान्तिमान् (दिवः) सूर्यमण्डल के (अधि) ऊपर भी (अया) इसी (तन्वा) रूप से (वर्द्धस्व) तू सर्वत्र फैला हुआ है । हे (सुक्रतो) हे सुन्दर संसार के बनाने वाले कारीगर ! (गिरा) अपनी वेदमय ज्ञान-वाणी से (मम) मेरे (जाता) प्रजाजनों का (पृण) पालन कर और पोषण कर ।

१ २ ३ २४ ३१२२ ३ २
[५३] कायमानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नपः ।

१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
न तत्तं अग्ने प्र मृपे निवर्त्तनं यद् दूरं सन्निहा भुवः ॥६॥

ऋ० ३। ९। २ ॥

भा०— हे अग्ने ! जीव ! (त्वं) तू (वना) वनों का, देहों का (काय-
मान, १) सञ्चय या कामना करता हुआ (यत्) जो (मातृः २) माता-
स्वरूप उत्पादक (अपः) कर्मों को (अजगन्) प्राप्त हो गया, उनमें लग गया है ।
(तत्) वह (ते) तेरा (निवर्त्तनं) अपने मोक्षमार्ग से अष्ट होना (न-
प्र मृपे) सहन नहीं होता (यद्) कि (दूरं ३ सन्) विषय वासनाओं और
कर्मबन्धनों से दूर रहकर भी (इह) इस कर्मबन्धनमय जीवलोक में
(आ भुवः) पुनः प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुआ है ।

ईश्वरपक्ष में— (वना) भोग योग्य लोकों को (कायमानः) वनाने
की कामना करता हुआ (यत्) जब तू (मातृः अपः) सब जगत् के
उत्पादक मूल प्रकृति के परमात्माओं को (अजगन्) धाम लेता है (तत् ते
निवर्त्तनम्) उस समय तेरा निगूह व्यापार (न प्र मृपे) नहीं प्रतीत होता
है कि (यत् दूरं सन्) उस प्रकृति से दूर, सर्वथा भिन्न, असंग रह कर भी
(इह आभुवः) इसमें व्यापक होकर सृष्टि रचने में समर्थ होता है ।

१ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[५४] नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते ।

३ २ ३ १ २ ३ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
दीदेथ काव ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥१०॥

ऋ० १। ३६। १९ ॥

५३— 'इदाभवः' इति ऋ० । १. चायु पूजानिगमनयोरिति चायतेः चोः कुत्वापत्त्या ।

व. अयमनश्चायामनः कामयमान इति वा । निरु० ४। २। १४ ।

२. मातरः इति नदीनाम । नि० १। ५३ ॥ ३. दुः । ए इति पदकारः ।

भा०—हे अग्ने ! (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप, ज्ञानमय, प्रकाशरूप (त्वाम्) तुम्हको (शश्वते^१ जनाय) नाना प्रकार का प्रजापति के लिये (मनुः) मननशील पुरुष ने (निदधे) पूर्णरूप से प्रकाशित किया । और (यं) जिसको (कृष्टयः) मनुष्यगण (ननस्यन्ति) नित्य नमस्कार करते हैं वह तू (कएव) मेधावी पुरुष के हृदय में वह (ऋतजातः) सत्य ज्ञान या वेद रूप से प्रकाशमान होकर (आचितः) आनन्द रस रूप में सिद्ध होकर (दीदेथ) प्रकाशित हो ।

इति पञ्चमी दशतिः । पञ्चमः खण्डः ।

इति प्रथमोऽर्धप्रपाठकः ।



॥ द० ६ ॥—१, ७ वसिष्ठः । २, ३, ५ कण्वोः घौरः । ४ सौभरिः काण्वः । ६ उत्कीलः चात्कीलो वा कात्यः । ८ विश्वामित्रः ॥ २ महानस्पतिः । ३ यज्ञः । वृहती ॥

[५५] देवां वा द्रविणोदाः पूर्णां विवष्ट्वासिचम् ।

उद्धा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्धो देव ओहते ॥१॥

ऋ० ७ । १७ । ११ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वः) तुम्हारा (देवः) देव, इष्ट, भक्तिपात्र परमेश्वर (द्रविणोदाः) सब प्रकार के द्रव्यों को देने हारा है । इसलिये वह (पूर्णाम्) भरी हुई (आसिचम्) खुवा को ही (विवष्टु) कामना करता है (वा) और (उत्-सिञ्चध्वं) खूब ऊपर से आहुति भरकर डालो (वा) और (उप-पृणध्वं) उसको पुनः भरो (आत् इ) तब शीघ्र ही (वः) तुम्हारे लिये (देवः) वह दिव्य गुण ईश्वर (ओहते^१) अभिलषित फल देगा ।

५४-१. शश्वद् बहुनाम (नि० ३ । १ ।)

५५—^१विवष्ट्वासिचम्, इति ऋ० ।

१. ओहते वर्षयति । मा० वि० । वहतेरूपम् । सा० । वंहतेरूपम् । मा० वि० ।

जो ईश्वर सब कुछ देता है उसके नामपर कंजूली से दान न देकर खुले हाथ दान करना चाहिये । पात्र में दान देने से फल भी शीघ्र प्राप्त होता है ।

२३ १ २ ३ २ ३ २ ऊ२२ ३ १ २

[१६] प्रंतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता ।

१ २ २१२ २२२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

अच्छा वीरं नर्यं पङ्क्तिराधसं देवा यक्षं नयन्तु नः ॥ २ ॥

अ० १। ४०। ३ ॥

भा०—(ब्रह्मणस्पतिः^१) ब्रह्म का पालक विद्वान् या ईश्वर ब्रह्मणस्पति (प्र-पुतु) हमारे पास आवे । (सूनृता) वेदवाणी (देवी) दिव्य-गुणों से सम्पन्न (प्र-पुतु) उत्तम रूप से हमें प्राप्त हो । (देवाः) विद्वान् या इन्द्रियगण (नर्यं) मनुष्यों के हितकारक (वीरम्) वीर्यसम्पन्न (पङ्क्ति-राधसम्) पङ्क्ति, दश से साधन योग्य या परिपक्व ज्ञान से प्राप्य (यज्ञं) यज्ञ को (नः) हमें (अच्छा^२) भली प्रकार (नयन्तु) प्राप्त करावें ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ १ १२ २२ ३ २

[१७] ऊर्ध्व ऊ पु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता ।

३ १२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदब्जिभिर्वाघाङ्गिर्वि ह्ययामहे ॥३॥

अ० १। ३६। १३ ॥

भा०—हे अग्ने ! परमेश्वर तू (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये (ऊर्ध्वः) उन्नत होकर (सु तिष्ठ) भली प्रकार स्थिर रह । (देवः सविता न) दिव्य गुणों से सम्पन्न सविता, सूर्य या विद्वान् के समान आप (वाजस्य) अन्न और ज्ञान को (सनिता) देनेहारें हो । (यत्) जिस कारण (अब्जिभिः^१) गुणों का प्रकाश करने हारें (वाघाङ्गिः) यज्ञकार्य का

५६-१. ब्रह्मणस्पतिः—ब्रह्म अन्नं, तस्य पतिः । ब्रह्म वेदः, तस्य पतिः ।

२. अच्छ आप्तुं सम्भावयितुमिति मा० वि० ।

५७-१. अब्जिभिः त्वद्गुणप्रकाशकैः छन्दोभिः, इति मा० वि० ।

सम्पादन करने हारे विद्वानों द्वारा हम आपको (वि ह्यामहे) बुलाते हैं और आपकी स्तुति उपासना करते हैं ।

२४ ३१ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[५८] प्र यो राये निनीपति मर्त्तो यस्त वसो दाशत् ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
स वीरं धत्ते अग्ने उक्थशंशंसिनं त्मना सहस्रपोपिणम् ॥५८॥

ऋ० ८ । १०३ । ४ ॥

भा०—हे वसो^१ ! समस्त संसार को आश्रय देने वाले ! (यः) जो (मर्त्तः) मरणधर्मा पुरुष (राये) अमृत धन के निमित्त (प्र निनीपति^२) तुम्हें तक पहुंचना चाहता है या कोई श्रेष्ठ कार्य सम्पादन करना चाहता है या प्रेम प्रकट करना चाहता है । और (यः) जो (ते) तुम्हें (दाशत्) समर्पण करता है (सः) वह हे अग्ने ! परमेश्वर (उक्थशंसिनम्) वेदवक्त्रा (सहस्रपोपिणम्) हजारों को भरण पोषण करने वाले (वीरम्) वीर पुत्र को (त्मना) अपने सामर्थ्य से (धत्ते) धारण करता या उत्पन्न करता है ।

ईश्वर को स्मरण करने और उसको आत्मसमर्पण करने वाले याज्ञिक धर्मात्मा के घर में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे स्वयं विद्वान्, वेदवक्त्रा और सहस्रों को पालने पोषने में समर्थ होते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[५९] प्र वो यद्धं पुरुषां विशां देवयतीनाम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
अग्निं शंसुते भिर्वचो भिर्वृणीमहे यं शंसिदन्त्य इन्धते ॥५९॥

ऋ० १ । ३६ । १ ॥

भा०—(यं) जिस अग्नि, राजा या ईश्वर को (अन्य इत्) अन्य पुरुष भी (सन्-इन्धते) प्रज्वलित प्रदीप्त करते, हृदय में जुगाते हैं, उस

५८—'प्रयं राये निनीसति' इति ऋ० । १. वासकाग्ने । सा० । २. णी प्राणणे ।

भ्वादिः । प्रणयनं रचनं । प्रणयः प्रेम ।

५९—'वचोभिरीमहे' इति ऋ० । 'सीमिदन्त्य इन्धते' इति ऋ० ।

(देवयतीनाम्) दिव्यगुणों से सम्पन्न होना चाहने वाली (पुरुषाम्^१) पालन पोषण करने में समर्थ, बलवान्, शरीर में इन्द्रियों के समान (विशां) प्रजाओं के (यत्नम्^२) व्यवस्थापक, महान्, अधिष्ठातारूप अग्नि को (सूक्तेभिः) वेद के सूक्तों द्वारा (प्रवृत्तीमहे) खूब अच्छी प्रकार धरण करते हैं । यहां आत्मा और राजा का भी वर्णन है ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ २

[६०] अयमग्निः सुवीर्यस्येशो हि सौभगस्य ।

३ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम् ॥ ६ ॥

अ० ३ । १६ । १ ॥

भा०—(अयम्) यह (अग्निः) अग्नि, परमेश्वर और राजा (सुवीर्यस्य) उत्तम वीर्य, सामर्थ्य का और (सौभगस्य) सौभाग्य का (हि) भी (ईशे) स्वामी, अधिष्ठाता है । वही अग्नि (रायः) समस्त धनों का (ईशे) स्वामी है । वही (स्वपत्यस्य) सुन्दर पुत्र प्रजा का (गोमतः) गौ आदि पशुओं से सम्पन्न (रायः) धन धान्य का (ईशे) स्वामी है । वही (वृत्रहथानां) वृत्र, विघ्नकारी पापों, पापी पुरुषों के मारने वाले बल और साधनों का भी (ईशे) स्वामी है ।

१ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २

[६१] त्वमग्ने गृहपतिम्वृत्रं होता नो अध्वरे ।

१ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

त्वं पोता विश्ववार प्रचता यक्षि यासि च वार्यम् ॥ ७ ॥

अ० ७ । १६ । ५ ॥

भा०—हे अग्ने ! (त्वं) तू (गृहपतिः) घर का स्वामी है, (त्वं) तू (नः) हमारे (अध्वरे) यज्ञ, हिंसारहित श्रेष्ठ कर्म में (होता) यज्ञ-


१. पुरुणि शन्द्रियाणि । द० उ० । २. यक्ष इति महत्ताम । नि० ३ । ३ ।

६०—'ईशेमहः' इति अ० ।

६१—'यक्षि वेपि च' इति अ० ।

इन्द्रियगण जिन प्रकार आत्मा को चरते हैं उसी प्रकार मनुष्य अपनी रक्षा के लिये इन गुणों से सम्पन्न को ही राजा मुख्यपति नियुक्त और उसी प्रकार ईश्वर को भी चरण करे ।

इति षष्ठी दशतिः । षष्ठः खण्डः ।



॥ ७ ॥ अपि-१ श्यावाश्वामदेवोवा । २ उपस्तुतो वार्धिहव्यः । ३ बृहद्वथो वाम-
देव्यः । ४ कुत्सः । ५, ६ भरद्वाजो वार्हस्पत्यः । ७ वामदेवः । ८, १० वसिष्ठः ।
९ त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः ॥ १, ३, ५, ९ त्रिष्टुभ । २, ४ जगत्यौ । १० त्रिपाद्विराड्गायत्री ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६३] आ जुहोता हविषा मर्जयध्वं निहोतारं गृहपतिं दधिध्वम् ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

इडस्पदे नमसा रातहव्यं सपर्यता यजतं पस्त्यानाम् ॥१॥

भा०—हे पुरुषो ! (हविषा) स्तुति और अन्नादि द्वारा (आजुहोत)
आदरपूर्वक आहुतियें दान करो और (मर्जयध्वं) सत्कार करो और सुखी
करो । (होतारं) सत्र प्रकार के भोग्य अन्न आदि देने वाले उस होता स्वरूप
(गृहपतिं) गृह स्वामी के समान प्रभु को (नि दधिध्वम्) अच्छी प्रकार सेवा
शुश्रूषा और धारणा ध्यान द्वारा स्मरण करो । (इडः) इला-पृथिवी यज्ञवेदी
और अन्नादि के (पदे) स्थान पर या अवसर पर और (पस्त्यानाम्) घरों के
बीच में (रातहव्यं) हवि चह आदि पुष्टिकारक पदार्थ और आनन्द के दायक
स्वामी की नमसा)नमस्कार और उपहार द्रव्यों द्वारा(सपर्यत)पूजा सत्कार करो ।

३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६४] चित्र इच्छिशोस्त रुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अनू य यदजीजनदधात्विदा ववक्षत्सद्यो महि दून्यं चरन् ॥२॥

अ० १४ । ११७ । १ ॥

६३-१. पस्त्यानि गृहाणि । नि० ३ । ४ । तेषु ये निवसन्ति ते पस्त्याः । मा० वि० ।

६४-‘अप्येति धातवे’ ‘यदजीजनद’ ‘गधाचन ववक्ष सद्यो’ इति पाठभेदाः, अ० ।

भा०—परमात्मा अग्नि का श्लेषपूर्वक शिशु रूप से वर्णन । प्रथम शिशु के पक्ष में—(शिशोः^१) उस शिशु रूप (तरुणस्य) तरुण अग्नि आत्मा का (इत् वक्ष्यः^२) भी यह वहन करने का कार्य (चित्रः इत्) आश्चर्यजनक है (यः) जो (यातवे) रस पान के लिये भी (मातरौ) माता पिता किसी के पास भी (न अन्वेति) नहीं जाता है । और आश्चर्य यह है कि (अनूधाः) बिना दूध के ही अथ वह उत्पन्न हुआ (अधा चित्) तब ही (सद्यः) तुरन्त (महि) बड़े भारी (द्रुत्यं चरन्) द्रुत के कार्य के समान गमनागमन करता हुआ (आववक्षत्) कार्य-भार को उठा लेता है ।

ईश्वर परमात्मा व्यापक, सर्वत्र सुप्त के समान व्यापक होने से यास्तुत्य होने से शिशु है, वह नित्य सामर्थ्यवान् होने से 'तरुण' है । उसका विश्व को वहन करने या धारण करने का कार्य अद्भुत है । वह अपने बल प्राप्त करने के लिये (मातरौ) मातृभूत द्यौ और पृथिवी दोनों के अधीन नहीं रहता । वह संसार को स्वयं उत्पन्न कर चुकने पर भी 'अनूधाः' अर्थात् स्वयं उसको धारण करता है । अतएव वह (सद्यः) निरन्तर (महि) बड़ा भारी (द्रुत्यं चरन्) विश्व को उपत्तापन या तप का कार्य करता हुआ इस संसार को (आववक्षत्) उठा रहा है ।

उ२ उ१२ उ१ २ उ१२ उ१२ उ१ २ उ१२ उ१२

[६५] इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व ।

उ१२ उ२ १२ उ२ उ१२ उ२ उ१२

संवेशनस्तन्वेश्चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥ ३ ॥

क्र० १० । ५६ । १ ॥

भा०—हे आत्मस्वरूप अग्ने ! (इदम्) यह प्रत्यक्ष संसार और यह लोक (ते) तेरा (एकम्) एक रूप है । (परः^३) और परलोक का स्वरूप

✓ १. शिशोः संसनीयस्य । मा० वि० । २. वक्ष्यः—वहनं गमनम् । मा० वि० ।

३. चित्रः पूज्यः । मा० वि० ।

६५—'संवेशने तन्वः' इति ऋ० ।

(ते) तेरा (एकम्) एक दूसरा स्वरूप है । तू इन दोनों को अतिक्रमण करके (तृतीयेन) तीसरे उत्कृष्ट (ज्योतिषा) ज्योति, ब्रह्मज्ञान से (संविशस्व) लीन हो । वहां (संवेशनः) सुख के प्रवेश करने योग्य होकर (तन्वे) पुनः शरीर ग्रहण के लिये (चारुः) भली प्रकार गमनशील (एधि) रह, (परमे) उत्कृष्ट (जनित्रे) उत्पत्तिस्थान में (देवानाम्) दिव्य गुण वाले अपने इन्द्रियगण के सामर्थ्यों का (प्रियः) प्रेमपात्र होकर रह ।

ईश्वरपक्ष में—यह प्रत्यक्ष लोक तेरा एक रूप है । पर सूर्य आदि तेरा दूसरा रूप है । तू ही तीर्थतम, तृतीय, सर्वोत्कृष्ट ज्योतिरूप सर्वत्र व्यापक है । तू व्यापक होकर (तन्वे) जगत् के विस्तार करने के लिये भी (चारुः एधि) सर्वत्र व्याप्त होता है । तू (देवानां) देव, पञ्चभूतों या मुक्तात्माओं के परम उत्पादक रूप में भी उनका (प्रियः) प्रिय अर्थात् उनमें सबसे अधिक श्रेष्ठ है ।

सायण ने इस मन्त्र को बृहदुक्थ ऋषि के मुख से अपने मृत, पुत्र के प्रति कहाया है । “तेरा यह एक अंश शरीर इस श्मशानाग्नि में जाय, दूसरा अंश प्राणवायु में मिल जाय, तीसरा अंश सूर्यज्योति में लीन हो जाय और पुनः शरीर धारण के लिये तैयार होकर सूर्यलोक में प्रसन्न होकर रह ।”

३ २ ४ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[६६] इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ।

३ २ ४ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ २
भद्राहि नः प्रमातेरस्य सं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ॥६६

अ० १ । १४ । १ । १

भा०—(अर्हते) पूजा सत्कार करने योग्य (जातवेदसे) समस्त पदार्थों के जानने वाले, वेदों के उत्पादक ईश्वर के लिये (इमं स्तोमं) यह स्तुति-वाक्य हम लोग (रथम् इव) रमणीय पदार्थ, उपहार करने योग्य वस्तु के

६६-१. रथमिव, यथा तक्षा रथं संस्क्रोति तथा (सा०) । यथा रथं गमयति तथा स्तोमं गमयेम, इति मा० वि० ।

समान (सम्) उत्तम रीति से (मनीषया) अपनी बुद्धि से (महेम) प्रस्तुत करते हैं । (अस्य) इस (अग्नेः) अग्नि के (संसद्) सभास्थान, संगम या सत्सङ्ग में (नः) हमारी (प्रमतिः) उत्तम मति सदा (भद्रा हि) कल्याण संकल्प वाली बनी रहे । हे अग्ने ! ईश्वर ! (वयं) हम लोग (तव) तेरे संग (सख्ये) मित्रभाव में (मा रिपाम^२) कभी कष्ट न पावें, कभी पीड़ित न हों ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २
[६७] मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्यो वैश्वानरमृत आजातमग्निम् ।
३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ ३ १ २ ३ २

कविः सप्तम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥५४॥

ऋ० ६ । ७ । १ ॥

भा०—(दिवः) द्यौलोक के (मूर्धानं) शिरोभाग और (पृथिव्याः) पृथिवी के (अरतिं) स्वामी, (ऋते) सत्य, यज्ञ या समस्त ब्रह्माण्ड में (आ जातम्) सर्वत्र प्रादुर्भूत, व्याप्त, (वैश्वानरम्) सब प्राणियों में व्यापक, (कविम्) मेधावी, क्रान्तदर्शी (सप्तम्राजम्) खूब प्रकाशमान सब के सप्ताह, (जनानां अतिथिम्) मनुष्यों में अतिथि के समान अति आदर से पूजा के योग्य (नः) हमारा (आसन्) सुख भाग में स्थित, अर्थात् सब के प्रमुख (अग्निम्) अग्नि, ज्ञानवान् परमेश्वर को ही (पात्रं^१) हमारी स्तुतियों और सत्कार का पात्र या पालक (देवाः^२) विद्वान् पुरुष (जनयन्त) प्रकट करते, बतलाते हैं ।

२ ७ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
[६८] वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः ।
३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्या जिनागिर्ववाहो जिग्युरश्वाः ॥६१॥

ऋ० ६ । २४ । ६ ॥

६७-१, पात्रं पातारं । सा० । २, देवाः ऋत्विजः स्तोतारः । सा० ।

६८-ऋग्वेदे पाठभेदो यथा—'वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त यज्ञैः ।

तं त्वाभिः सुष्टुतिभिर्वाजयन्त आजिं न जग्मुर्गिर्वाहो अश्वाः ॥^१

भा०—हे (अग्ने) परमेश्वर ! (देवाः) स्तुति करने वाले या तेरे दिव्य-गुणों को जानने वाले विद्वान् लोग (उक्थेभिः) यज्ञों, ज्ञानचर्चाओं द्वारा (पर्वतस्य) पर्वत या मेघ के (पृष्ठात्) तट या एक देश से (आपो न) जलधाराओं के समान (त्वत्) तुझ से (वि जनयन्त) नानाप्रकार के कार्य सम्पादन करते या तुझे नाना प्रकार से उत्पन्न करते या प्रकट करते हैं । अथवा (देवाः) दिव्यगुण के सूर्य आदि पदार्थ तुझ से, मेघ से जलधाराओं के समान, स्वयं प्रकट होते हैं । हे परमेश्वर (गिर्ववाहः) गिरा, वाग् या वाणियों द्वारा प्राप्त या ज्ञान करने योग्य अग्ने ! (अश्वः) अश्व (आर्जि न) जिस प्रकार संग्राम भूमि में (जिग्युः) विजय करते हैं, उसी प्रकार (सु-स्तुतयो गिरः) उत्तमरूप से गुणवर्णन करने वाली वेदवाणियां (तं त्वा) उक्त प्रकार के गुणों से सम्पन्न तुझको (वाजयन्ति) बढ़ाती हैं, पुष्ट करती हैं, तुझे समृद्ध करती हैं, अलंकृत करती हैं ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
[६६] आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं षुं होतारं षुं सत्ययजं षुं रोदस्योः

३ २ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

अग्निं पुरा तनायिलोरचित्ताद्विरण्यरूपमवसे कृणुध्वम् ॥७॥

अ० ४ । ३ । १ ॥

भा०—(अध्वरस्य) कभी हिंसा का पात्र न होने वाले, कभी न मरने वाले यज्ञ के (राजानम्) अधिपति, (रुद्रम्) घोर गर्जना के साथ गमन करते हुए या पापियों के रुलाने वाले, (रोदस्योः) द्यौः और पृथिवी दोनों लोकों को (सत्ययजम्) सत्य के बल से दान देने वाले अथवा उनमें व्यक्त जगत् रूप से, सत्य यज्ञ करने वाले (होतारं) आकाश से और पृथिवी से

६९-१. रुद्रो रौंतीति सतो, रोह्यमाणो द्रवतीति वा । रोदयतेर्वा, यदरुद्रत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्व-
मिति काठकम् । यदरोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति हारिद्रविकम् इति नि० १० ।
१ । ५ ॥ रुद्रं रोदनस्त्रभाव । मा० वि० ।

अन्न और जल की आहुति देने वाले (हिरण्यरूपम्) मनोहर, सुवर्ण रूप को धारण करनेहारे तेजोमय (अग्नि) सूर्य के समान परमेश्वर को (अचिन्तात्) चेतनारहित (तनायिनोः^२) अशनिविद्युत् से भी (पुरा) पूर्व अर्थात् उससे भी उत्कृष्ट (अथसे) अपने रक्षार्थ (कृणुध्वस्) उत्पन्न कर लो, जानो ।

३ २ ३ ३ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[७०] इन्धे राजा समर्थो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन ।

१ २ ३ २ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

नरो हव्येभिरीडते सवाध अग्निरग्रमुपसामशोचि ॥ ८ ॥

ऋ० ७ । ८ । १ ॥

भा०—(अर्थः) स्वामी (राजा) सब से अधिक कान्तिमान् (नमोभिः) आदर वचनों से (सम इन्धे) खूब प्रज्वलित होता है । (यस्य) जिसका (प्रतीकम्^१) स्वरूप (घृतेन) घृत, स्नेह, कान्ति या पुष्टिकर पदार्थों से (आहुतं) पूरित, हरा भरा है । उस (उपसाम् अग्रम्) उपाकाल में सब से पूर्व प्रकट होने वाले उस अग्नि को (नरः) विद्वान् लोग (सवाधः) उद्देशों या क्लेशों या विघ्नों से बाधित होकर (हव्येभिः) स्तुतियों से और उत्तम २ पदार्थों से (ईडते) भजन करते हैं । अग्नि के पक्ष में—अग्नि अश्रों से प्रज्वलित होता है । रोगों से पीड़ित लोग उत्तम चरुओं से होमते हैं ।

राजा के पक्ष में—राजा आदर वचनों से आदृत होता है और शत्रुओं से पीड़ित प्रजाजन उसकी स्तुति करते हैं ।

[७१] प्र केतुना वृहता यान्यग्निरारोक्षी वृषभो रोरवीति ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ ३ १ २ ३ १ २

दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपासुपस्थे महिषो ववर्द्ध ॥ ९ ॥

ऋ० १ । ८ । १ ॥

२. तनयित्तरश्निः । सा० ।

७०—‘अग्निरग्रम्’ इति ऋ० । १. प्रतीकं नाम मुखं । मा० वि० ।

७१—‘दिवश्चिदन्तां उपमां उदानकपां’ इति ऋ० ।

भा०—(अग्निः) अग्नि, परमेश्वर (बृहता) बड़े भारी (केतुना) विज्ञानमय प्रकाश के साथ (प्र याति) प्रकट होता है । (रोदसी) द्यौलोक और पृथिवी लोक दोनों में वह (वृषभः) सब से श्रेष्ठ, ज्ञानों और सुखों की वर्षा करने वाला (रोरवीति) शब्द करता है, उपदेश करता है । (दिवाश्चिद्) अन्तरिक्ष लोक के भी (अन्तात्) एक प्रान्त से उदित होकर (उपमाम्) समीप, हृदय देश में ही (उद्भ्रानद्) उदित हुआ, प्रकाशित हुआ है । (अपां) समुद्रों के बीच सूर्य के समान लोकों एवं कर्मों और ज्ञानों के (उपस्थे) बीच वह (महिपः) महान् सामर्थ्यवान् (ववर्द्ध) सब से यश और नाम में बढ़ा है ।

केतु=ध्वजा, ज्ञान । उपस्थे=अन्तरिक्षे ।

३ २४ ३ १ २ ३२ ३ १ २ ३ २
[७२] अग्निं नरो दीधितिभिररणयोर्हस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ अ० ७। १। १ ॥

भा०—(नरः) नेता, अग्रणी लोग (दीधितिभिः) किरणों और अंगुलियों द्वारा (अरणयोः) अरणियों के बीच में (हस्तच्युतम्) हाथों के बल से उत्पन्न हुए, अग्नि के समान द्यौ और पृथिवी के बीच में अपनी शक्ति से स्वयं स्थित, (प्रशस्तम्) सबसे उत्तम, निर्दोष, (दूरे दृशम्) दूर तक दिखाई देने वाले या दूर तक देखने वाले, (गृहपतिम्) घर के स्वामी के समान समस्त प्रजा के रक्षक, (अथच्युम्) गतिशील, दूर तक पहुंचने वाले, व्यापक (अग्निम्) अग्नि, परमेश्वर को (जनयत) उत्पन्न करते, प्रकट करते हैं ।

अर्थात् जैसे अरणियों के बीच अग्नि, प्राण और अपान के बीच में आत्मा, माता पिता के बीच में पुत्र है उसी प्रकार द्यौः और पृथिवी के बीच वह परमेश्वर शक्तिरूप से प्रकट है ।

इति सप्तमी दशतिः । सप्तमः खण्डः ॥

॥ ६० ८ ॥ ऋषिः—१ बुधगविष्टरी । २, ५ वत्सप्रिः । ३ भारद्वाजः । ४, ७ विश्वामित्रः । ३ वसिष्ठः । ८ पायुः ॥ देवता—१, २, ४—८ अग्निः । ३ सुरः ॥ श्रिष्टुप् ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[७३] अत्रोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुपासम् ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ ३ २ १ २ ३ २ ३ १ २

यद्वा इव प्रवयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥१॥

ऋ० ५ । १ । १ ॥

भा०—(जनानां समिधा) लोगों की लगाई लकड़ी से जिस प्रकार (अग्निः अत्रोधि) सामान्य अग्निहोत्र की अग्नि (धेनुम् इव) दुधार कपिला गाय के समान (आयतीम् प्रति उपासम्) आते हुए प्रत्येक उपासकाल में (अत्रोधि) प्रदीप्त होती है उसी प्रकार यह (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी आत्मा भी (जनानां समिधा) जनों के प्रदीप्त प्राणरूप काष्ठों से (प्रति उपासम्) प्रति प्रातःकाल प्राणायामों द्वारा (अत्रोधि) चेतया जाता है । (उज्जिहानाः) ऊपर उड़ते हुए पक्षीगण जिस प्रकार (वयाम् प्रसिञ्जते) शाखा पर जाते हैं । और जिस प्रकार (यद्वाः) बड़े पुरुष (वयाम् इव) व्यापक उदारनीति की ओर बढ़ते हैं और जिस प्रकार (भानवः) सूर्य के किरण (नाकम्) आकाश की ओर (प्रसिञ्जते) व्यापते हैं, उसी प्रकार (यद्वाः) बड़े २ शक्तिशाली आत्मा (उज्जिहानाः) उत्क्रमण करते हुए (वयाम्) उस व्यापक परमेश्वरी शक्ति की तरफ जाते हैं और (भानवः) ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होकर आदित्य के समान तेजस्वी योगी मुक्तजन (नाकम्) परमसुखमय, आनन्दमय परम पद को (प्रसिञ्जते) प्राप्त करते हैं ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ ३ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २

[७४] प्र भूर्जयन्तं महान् विपोधां सूरैरमूरं पुरां दर्माणम् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २

नयन्तं गीर्भेर्वनान्धियं धा हरिश्मश्रुं न वर्मणा धनर्चिम् ॥२

ऋ० १९। ४६। ५।

भा०—(भूः)^१ सबके उत्पत्तिस्थान, भू आदि लोकों को (प्र जयन्तं) उत्तम रीति से विजय करने वाले (मूरैः) मोहयुक्त जीवों द्वारा गृहीत (पुरां) शरीरों के (दर्माणम्) नाश करने वाले, उनको मुक्ति दिलाने वाले, (अमूरं) स्वयं मोह रहित, (गीर्भेः) वेदवाणियों द्वारा (वनां) भजन करने योग्य (धियं नयन्तं) हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाने वाले, (हरिश्मश्रुं न) सुवर्ण के समान कान्तियुक्त किरण वाले सूर्य के समान (वर्मणा) कवच से (धनर्चिम्) विभूतिमान् उस अग्नि को (धाः) हृदय में धारण कर ।

त्रिपुरारि, पशुपति, भूतिभृत्, विद्येश्वर आदि की शिवाविषयक कल्पना ब्रह्म के विषय में इसी मन्त्र के आधार पर हैं । हरिश्मश्रु, हिरण्यकेश आदि शब्दों के धात्वर्थ समान हैं ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[७५] शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विपुरुषे अहनी द्यौरिवासि ।

२ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

विश्वाहि माया अवसि स्वधावन् भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥३

ऋ० ६। ५८। १।

भा०—हे पूषन् ! अग्ने ! (ते) तेरा (शुक्रं) कान्तिमान्, प्रकाशमान् रूप (अन्यत्) दूसरा है । और (यजतम्) आपका मिलने वाला, उपास्य, शिवरूप (अन्यत्) और है । (अहनी) ये दिन और रात के समान दोनों

७४—(ऋ) 'मूरा' इति ऋ० । उतरार्धे, 'नयन्तो गर्भे वनां धियं धु हिंरिश्मश्रुं नार्वाणि धनर्चिम् ।' इति ऋ० ।

१. भूर्ग्रहणं प्रदर्शनार्थं, त्रीनपीलोकान् जयन्तं इति मा० वि० ।

७५—'स्वधावो' इति ऋ० ।

(विपुरुषे) भिन्न २ रूप के हैं । हे अग्ने ! तू (द्यौः इव शसि^१) सूर्य के समान है । हे (स्वधावन्) अन्नपते ! प्राणपते ! जीवेश्वर ! भूतपते ! (हि विश्वा) क्योंकि तू समस्त संसार की सब प्रकार की (मायाः) मायाओं, सृष्टियों को (श्रवसि) पालन करता है । हे (पूषन्) समस्त संसार के पोषण करने वाले (इह) इस लोक में (ते) तेरा (रातिः) दान (भद्रा) कल्याण और सुख के देने वाला (अस्तु) हो ।

ईश्वर ने अग्नि और सोम, प्राण और रयि दोनों से समस्त संसार को बनाया है । वह दोनों का सूर्य के समान प्रेरक है । सब चराचर सर्ग जो प्रकृति के विकार से बनी (माया) सृष्टियां हैं, उनको वही पालन करता है, यहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों रूपों का क्रम से वर्णन किया गया है ।

१ २ ३ १ २ २ १ २ २ ३ २ २

[७६] इडामग्ने पुरुदं ससं सनिज्ञोः शश्वत्तमं हवमानाय साध ।

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥४॥

क्र० । ३ । ६ । ११ ।

भा०—हे (अग्ने) परमेश्वर ! तू (हवमानाय) स्तुति भजन करने वाले पुरुष के लिये (पुरुदंसम्) बहुत कर्मों से सम्पन्न या इन्द्रियों को पुष्टिदायक, (गोः सनिं) गोधन, इन्द्रिय, वाणी या सरस्वती, विद्या के देने वाले, (शश्वत्तमं) चिरकाल तक (इडाम्) अन्न, ज्ञान, एवं भक्ति को (साध) प्राप्त करा । (नः) हमारा (सूनुः) पुत्र (तनयः^१) अगली सन्तान का विस्तार करने वाला वंशधर (विजावा^२) नाना प्रकार की सन्तानों का उत्पन्न करने वाला (स्यात्) हो । (ते सा सुमतिः) तेरी वही शोभन मति (अस्मे) हमारे लिये (भूतु) बनी रहे ।

७६-पुरुदंसं । सा० भा० ।

१. तनयः पुत्रः, तनोति विस्तारयति सन्ततिमिति । २. विजावा विविधं जनयिता पुत्राणां, अनेन प्रकारेण वंशस्याविच्छेद आशास्यते । मा० वि० ।

१२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
 [७७] प्र होता जातो महाज्ञभोविन्नृपज्ञा सीद्दपां विवर्ते ।

२ ३ २ ३ २ ३ १२ २२ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ २
 दधद्यो धायी सु ते वयांशंसि यन्ता वसूनि विद्यते तनूपाः॥५॥

ऋ० १० । ४६ । १ ।

भा०—(यः) जो आग्नि (महान्) बड़ा, (होता) स्तुतियोग्य, नाना पदार्थों के दान करने वाला, (नभोविन्) आकाश और अन्तरिक्ष में व्यापक या उसको उत्तम रूप से जानने वाला (जातः) प्रकट है, वह (नृपज्ञा) समस्त प्राणियों में विराजमान है । वही (अपां विवर्ते ^१) अन्तरिक्ष में, स्वस्त प्रजाओं के भीतर भी (धायी) धारक पोषक रूप से विद्यमान है । वही (ते) तेरे लिये (वयांसि) अन्नादि पदार्थ और आयु को (दधत्) धारण करावे । (तनूपाः) शरीरों की रक्षा करने वाला वह (यन्ता) सबका नियन्ता (विद्यते) नियम से अपना कार्य सम्पादन करने वाले पुरुष को (वसूनि दधत्) नाना प्रकार के सुखसाधन देता है ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [७८] प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुंशः कृष्टीनामनुमाद्यस्य ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 इन्द्रस्यैव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्द्वारा वन्दमाना विवष्टुः॥६॥

ऋ० । ७ । ६ । १ ।

भा०—(असुरस्य ^१) प्राणों और ज्ञानों से सम्पन्न (कृष्टीनां) प्रजाओं के (अनुमाद्यस्य) हर्षों और सुखों में सुखी होने वाले, (पुंसः)

७७—'नृपज्ञा' 'अपामुपस्ये' 'दधियो' 'धायी सते' ऋ० ।

१. अपां विवर्तोऽन्तरिक्षलोकः । मा०वि० । २ 'धायी सुते' इति पाठे धायी धारयिता, 'सुते' इत्येकं पदम् । अभिसुते इत्यर्थः । पदकारस्तु 'धायी । सु । ते', इति पदद्वयं चिच्छेद ।

७८—'प्र सम्राजो' 'प्रशस्ति' 'वन्देदाहं वन्दमानो विवक्षिम' इति ऋ० । 'वन्दमानो विवक्षिम' इति संसा० ।

पुरुष के (सम्राजम्) सबसे अधिक शोभा, कान्ति से युक्त स्वरूप को (प्रशस्तम्) प्रशंसनीय (प्र जानीत) जानो। मनुष्य (इन्द्रस्य इव) इन्द्र के समान (तवसः^१) बलशाली उस पुरुष के (कृतानि) किये गये (चन्दद्वारा) नमस्कार पूर्वक (चन्दमाना) स्तुति युक्त कार्यों को (प्र विवष्टु) अभिलाषा करे।

३२ ३१ २२ ३१ २ ३१ २ ३१ २ ३१ २ ३१ २
[७६] अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इवत्सुभृतो गर्भिणीभिः ।

३१ २ ३१ २ ३१ २ ३१ २ ३१ २ ३१ २
दिवोदव ईड्यो जागृवद्भिर्होवष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः ॥७॥

श्र० ३ । २९ । २ ।

भा०—(अरण्योः) दो अरणियों में जिस प्रकार (जातवेदाः) अग्नि (निहितः) गुप्त रीति से रहता है, और (गर्भिणीभिः) गर्भिणी स्त्रियों द्वारा (गर्भ इव) जिस प्रकार गर्भ बड़ी सुरक्षा से पालन किया जाता है, उसी प्रकार द्यौ और पृथिवी के बीच में उनका प्रकाशक अग्नि, परमेश्वर भी (निहितः) उनके भीतर व्यापक है। और (गर्भिणीभिः) जगत् की धारक शक्तियों द्वारा (इव सुभृतः) उत्तम रूप से सुरक्षित है। (दिवे दिवे) प्रतिदिन (जागृवद्भिः) जागने वाले, सावधान, चैतन्य, ज्ञानी (हविष्मद्भिः) हव्य आदि पदार्थ और स्तवन आदि से सम्पन्न (मनुष्येभिः) मनुष्यों द्वारा वह (अग्निः) सर्व प्रकाशक, ज्ञानवान् परमेश्वर (ईड्यः) उपासना किया जाता है।

३१ २ ३२ ३२ ३१ २ ३१ २
[८०] सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षाशृंसि पृतनासु जिग्युः ।

१२ ३१ २ ३२ ३ १२ ३ १२ ३ १२
अनु दह सह मूरान् कयादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥८॥

श्र० १० । ८७ । १९ ।


१. असुरिति प्रश्नानाम नि० ३ । ६ ॥ तद्वान् असुरः ।

७६—'सुधितो गर्भिणीषु' इति श्र० ।

८०—'कयादो' इति श्र० ।

भा०—हे अग्ने ! परसत्तापकारिन् तू (सनात्) प्राचीनकाल से (यातुधानान्) दुष्ट पुरुषों को (मृणसि) पीड़ित, दण्डित करता रहा है । (पृतनासु) सेना संग्रामों में (रक्षांसि) राक्षस लोग (न त्वा) तुझको कभी भी नहीं (जिग्युः) जीत सके हैं । (मूरान्) मूढ़ (कयादः^१) क्रव्याद-कच्चा मांस खाने वाले राक्षसों को (सह) एक ही साथ तू (अनु दह) तेज से भस्म कर डाल । वे (ते) तेरी (देव्यायाः) दिव्यगुणों से युक्त (हेत्या) शस्त्र की धार से (मा मुत्तत) न बच पावें ।

इति अष्टमी दशतिः । अष्टमः खण्डः ॥



॥ ८० ९ ॥ १ गभग्निः । २ वामदेवः । ३, ४ भरद्वाजः । ५ मृक्त्वाहो द्वितः । वसूयत्र आग्नेयाः । ७, ९ गोपवनः । ८ पुरुरात्रेयः । १० वामदेवः कश्यपो वा मरीचिर्मनुर्वा वैवस्वत उभौ वा ॥ अनुष्टुप् ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[८१] अग्न ओजिष्ठमा भर द्युम्नमस्मभ्यमधिगो ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम् ॥१॥

ऋ० ५ । १० । १ ।

भा०—हे अग्ने ! (ओजिष्ठम्^१) कान्तियुक्त बलकारी (द्युम्नम्) धन धान्य सुवर्ण रत्न आदि (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (आ भर) प्राप्त कराओ । हे (अधिगो^२) अन्नय सामर्थ्यवान् देव ! (नः) हमारे लिये (पनीयसे) स्तुति योग्य, प्रशंसनीय, एवं व्यवहार व्यापार आदि करने योग्य (राये) सम्पत्ति के लिये और (वाजाय) अन्न आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिये (पन्थाम्) मार्ग, उपाय (प्र रत्सि^३) तैयार कर, हमें सुभा ।

१. कयाद् । रेफवकारयोश्छन्दसि लोपः (स०सा०)

८ १—'प्रनो राया परीण्ता' इति ऋ० । १. ओजो बलम् (नि०२। ९) २. अधृत शब्दस्याधिभावः । गमनं गौः । (नि०भा०) ३. रत्न विलेखने । भ्वादिः ।

१ २ ३२४ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[२२] यदि चीरो अनुज्याद्ग्नमिन्धीत मर्त्यः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
आजुह्वद्व्यमानुपक् शर्म भक्षीत दैव्यम् ॥२॥

अ० ५ । २ । ६ ॥

भा०—(यदि) जय पुरुष (चीरः^१) ब्रह्मचर्य से वीर्यवान् (अनु-
त्यात्) हो तत्र वह (मर्त्यः) मरणधर्मा पुरुष (आर्गिन्) ईश्वररूप अग्नि
को (इन्धीत) प्रदीप्त करे, अपने अन्तरात्मा में जगावे और (आनुपक्)
निरन्तर (हव्यं) प्राणापान रूप आहुतियों को (आजुह्वत्) उसमें
ही समर्पण करता हुआ (दैव्यम्) देव परमेश्वर से प्राप्त (शर्म) सुख
और शान्ति को (भक्षीत) भोग करे ।

जब मनुष्य वीर्यवान् हो तो वह गृहस्थ प्रवेश के साथ २ अग्नि आधान
करे और उसमें हव्य चरु की आहुति दे ।

३ १ २ ३ १ ३२४ ३१२ २२
[२३] त्वेषस्ते धूम ऋणवति दिवि सं छुक्र आततः ।

३ २४ ३२४ ३ १ २ ३ १ २
सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३ ॥

अ० ६ । २ । ६ ।

भा०—हे अग्ने ! (त्वेषः) कान्तियुक्त जाज्वल्यमान (ते धूमः) तेरा
धूम, बल कंपनी का सामर्थ्य, विभूति, मन्यु और कोप (दिवि ऋणवति)
समस्त द्यौ सूर्य रूप में परिणत या प्रकट हो रहा है । वह (शुक्रः)
अत्यन्त शुक्लवर्ण, कान्तियुक्त होकर (आततः) सब तरफ विस्तृत है ।
(सूरो न) सूर्य के समान (कृपा) सामर्थ्यस्वरूप (द्युता) दीप्ति या
सामर्थ्य शक्ति से (त्वं) तू (रोचसे) सर्वत्र प्रकाशित है ।

८२-१. वीरः । पुत्रः । सा० ।

८३-'दिवि पञ्चुक' इति अ०

१२ २२ ३१२ २२ ३ १२ २२
[८४] त्वं हि चैतवद्यशोग्ने मित्रो न पत्यसे ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२
त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि ॥ ४ ॥

ऋ० ६ । २ । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! (हि) जिस कारण से (त्वं) तू (चैतवद्) सबको निवास देने वाले (यशः) अन्न, बल को (मित्रः न) सूर्य के समान (पत्यसे) नाना प्रकार से प्राप्त करता या उत्पन्न करता है । हे (विचर्षणे) विशेषरूप से सब के द्रष्टा ! (वसो) हे सबको निवास देने वाले अग्ने ! तू (श्रवः) अन्न और ज्ञान को (पुष्टिम् न) पोषण सामर्थ्य के समान ही (पुष्यसि) स्वयं बढ़ाता और पुष्ट करता है, उनमें बल उत्पन्न करता है ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[८५] प्रातरग्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २
विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्यं मर्त्तास इन्धते ॥ ५ ॥

ऋ० ५ । १८ । १ ॥

भा०—(पुरुप्रियः) बहुतसे प्राणियों का प्यारा या इन्द्रियों को प्रेरणा या पूर्ति, सन्तुष्टि देने हारा (अग्निः) अग्नि, परमात्मा और आत्मा (अतिथिः) इस शरीर या ब्रह्माण्ड रूप गृह में व्यापक है । उसका (विशः) सब प्रजाएं (प्रातः) प्रातःकाल, सबसे पूर्व (स्तवेत) उपासना करें, स्तुति करें (यस्मिन्) जिस (अमर्त्ये) मरण रहित, अत्रिनाशी आत्मामें (विथे) समस्त (मर्त्तासः) मरणधर्मा, शरीरधारी प्राणी (हव्यं) अन्न रूप हवि और स्तुति को (इन्धते) प्रदान कर प्रवृत्तित रखते हैं, जीवित रखते हैं ।

६५- विश्वानि यो अमर्त्या हव्या मर्त्येषु रेप्यति' इति ऋ० । 'विशे स्तवेत इति १

सा० विश्वस्तवेत' स० सा०

१२ २२३ २३ १२ ३१२
[८६] यद्वाहिष्ठं तदग्रये बृहदर्चं विभावसो ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ ६ ॥

ऋ० ५ । २५ । ७ ॥

भा०—हे (विभावसो) हे विशेष प्रकार की कांति से युक्त, धन से सम्पन्न ! (बृहद्) तू सब से अधिक (अर्च) प्रकाशमान् हो । (महिषी इव) जिस प्रकार इस बड़ी भारी पृथ्वी से अन्न रत्न आदि प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (त्वद् रयिः) तुझ से ही समस्त धन और (त्वद् वाजाः) तुझ से ही समस्त अन्न (उदीरते) उत्पन्न होते हैं । इस कारण (यद्) जो (वाहिष्ठं) प्राप्त करने या उपहार करने योग्य पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ भाव और अन्नादि है (तद् अग्रये) वह उस परमेश्वर के और अग्नि लिये ही है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[८७] विशो विशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
अग्निं वो दुर्यं वचः स्तुषे शूपस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥

ऋ० ८ । ७४ । १ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वः) तुम लोग (विशः विशः अतिथिं) समस्त प्रजाओं के अतिथि के समान पूज्य या सब प्रजाओं में व्यापक (पुरुप्रियम्) सब के प्रिय (अग्निं) अग्नि परमेश्वर को (वाजयन्तः) अर्चना करते और बढ़ाते रहते हो । मैं (शूपस्य) सुख प्राप्ति के लिये (दुर्यं) गृह या इस देह के लिये हितकारी इस (अग्निं) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर विषयक (वचः) वाणी से (मन्मभिः) मनन करने योग्य साधनों से (वः) आप लोगों के प्रति (स्तुषे) ठीक २ प्रकार से वर्णन करता हूँ ।

८६--१. महिषीं यथा राजभार्यामिति । मा० वि० ।

८७--१. दुर्याः गृहाः । नि० ३ । ४ । ७ ।

उ२७ उ २ उ १२ २२ उ २ उ १ २
[८८] बृहद्भयो हि भानवेर्चा देवायाग्नये ।

उ १२ २ २२ उ १ २ उ २ उ २
यं मित्रं न प्रशस्तये मर्त्तासो दधिरे पुरः ॥ ८ ॥

ऋ० ५। १६ १ ॥

भा०—(भानवे) भानु, कांतिस्वरूप (देवाय) सब के प्रकाशक (अग्नये) अग्नि के लिये (बृहद्) सब से बड़ा (वयः^१) अन्नभाग या आयु का भाग (अर्चं) भक्तिरूप में दे । (यं) जिसको (प्रशस्तये) उत्तम कीर्ति होने के कारण (मर्त्तासः) मनुष्य लोग (मित्रम् इव) अपने हृदय के इष्ट मित्र, स्नेही के समान (पुरः) सदा अपनी चक्षुओं के आगे (दधिरे) रखते हैं ।

१ २ उ १ २ उ उ १ २ उ १ २ २
[८९] अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम् ।

१ २ उ २ उ २ उ १ २ उ १ २
यः स्म श्रुतर्वन्नार्त्तं बृहदनीक इधते ॥ ९ ॥

ऋ० ८। ७४। ४ ॥

भा०—(वृत्रहन्तमं) विघ्न, उपद्रव और यज्ञविनाशक दुष्ट जीवों को नाश करने वाले, (ज्येष्ठं) सब से अधिक श्रेष्ठ, प्रशंसा करने योग्य, (आनवं) मनुष्यों के हितकारी, (अग्निं) अग्नि परमेश्वर और आत्मा को (अगन्म) हम प्राप्त हों (यः) जो अग्नि (आर्त्तं^१) न चत्र लोकों से और ज्ञानेन्द्रियगण से सम्पन्न, (श्रुतर्वन्) बड़े लोकों और प्राणेन्द्रियों

८८--'प्रशस्तिभिर्मर्त्तासो' इति ऋ० ।

८९--'आगन्म' इति ऋ० । 'यस्य श्रुतर्वा बृहन्नाक्षोः अनीक इधते' इति ऋ० ।

१. ऋपति इति ऋक्षम् । ऋयतेरौणादिकः सः, । उ० ३। ६६ । इन्द्रियम् ।

ऋपेरिन्द्रियत्वं बृहदारण्यकोपनिषदि सुस्पष्टम् सप्तविंव्याख्याने ।

से युक्त देह में और भौतिक बड़ी २ शक्तियों से युक्त ब्रह्माण्ड में (बृहद-नीकः) प्राणमय बलों और विशाल पंचभूतों के बल से युक्त होकर (इध्यते) प्रकाशित या जीवित, जागृत रहता है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ ० ३ १ २

[६०] जातः परेण धर्मणा यत्सवृद्धिः सहाभुवः ।


३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ ३

पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनुः कविः ॥ १० ॥

भा०—हे अग्ने ! तू (परेण धर्मणा) परम उत्कृष्ट तपस्था और सदा-चार के बल से (जातः) उत्पन्न या प्रकट हुआ है (यत्) क्योंकि (सवृद्धिः) अपने साथ लगे हुए कर्मचारीगण, इन्द्रियों के (सह) साथ मिलकर (साभुवः) तू सब कार्य करने में समर्थ है । यह अग्नि आत्मा (कश्यपस्य ^१) इस ज्ञान के पान करनेहारे मन का (पिता) पालक है और उसकी (माता) जन्मभूमि (श्रद्धा ^२) सत्य का धारण करनेहारी बुद्धि है और (मनुकविः) मननशील क्रान्तदर्शी पुरुष आत्मा ही इसका गुण है ।

परमात्मा के पक्ष में (परेण धर्मणा) परम उत्कृष्ट, धारण सामर्थ्य से (यत्) जो (सवृद्धिः) साथ वर्तमान शक्तियों के साथ (साभुवः) विद्यमान है । तू (कश्यपस्य पिता) सूर्य आदि लोक और ज्ञानी पुरुषों का पालक है । (अग्निः) प्रकाशस्वरूप, (श्रद्धा) सत्य का धारक, (माता) जगत् का कर्त्ता, (मनुः) ज्ञानवान् (कविः) मेधावी और पारदर्शी है ।

इति नवमी दशतिः । नवमः खण्डः ।



॥ द० १० ॥ १ अग्निस्तापसः । २ वामदेवः । ३ वामदेवः कश्यपः । अस्तितो
देवलो वा । ४ भर्गाहुतिः सोमो वा । ५ पायुः । ६ प्रस्कण्वः ॥

देवता—१ विश्वेदेवाः । २ अङ्गिराः । अनुष्टुप् ॥

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
[११] सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे ।

^{३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥ १ ॥

अ० १० । १४१ । ३ ॥

भा०—हम (सोमं) शान्तिदायक, सब जगत् के प्रेरक और उत्पादक
(राजानं) प्रकाशमान, (वरुणं) सब पापों के निवारक, (अग्निं) ज्ञान-
स्वरूप, सन्मार्ग के नेता परमेश्वर को (अनु आ-रभामहे) प्रतिदिन स्मरण
करते हैं । (च) और (आदित्यं) सब रसों के ग्रहण करने हारे,
अखण्ड, (विष्णुं) सर्वत्र व्यापक (सूर्यं) सब के प्रेरक, सर्वप्रकाशक,
(ब्रह्माणं) सब से महान्, ज्ञान के भण्डार (बृहस्पतिं) वेदवाणी के
स्वामी को नित्य स्मरण करते हैं ।

^{३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २}
[१२] इत एत उदारुहन्दित्रः पृष्ठान्यारुहन् ।

^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३}
प्रभूर्जयो यथा पथा द्यामङ्गिरसो ययुः ॥ २ ॥

भा०—(भूर्जयः^१) पृथिवी को विजय करने हारे राजर्षि लोग (यथा)
जिस प्रकार (पथः) मार्ग से (द्यां ययुः) द्यौलोक, या आदित्य लोक,
या स्वर्ग को जाते हैं । उसी प्रकार (एते) ये (अंगिरसः) योगी, ज्ञानी

११—‘सोमं राजानमवसेऽग्निं गीर्भिर्हवामहे । आदित्यान्०’ इति अ० ।

१२—१. भूर्जयः भृञ्जतिः पाककर्मा । हविषां पक्ताः इति सा० । भूः—जयः इति
प्रकारः । भूः पृथिवी तां ये महावीराख्येनानुष्ठानेन जितवन्तः, ते इति
(मा० वि०) भूर्जयः कर्षिणः ।

लोग भी (इतः) इस लोक से (दिवः पृष्ठानि) आदित्य के समान प्रकाशमान मोक्ष के सुखों को (उत् आरुहन्) ऊर्ध्वगति से प्राप्त करते हैं ।

अपने २ धर्म के पालन से राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों समान लोक में जाते हैं । अथवा (भूः) गृहस्थाश्रम को विजय करके आश्रम परम्परा से निकलकर कर्मिष्ठ लोग जिस मार्ग से मोक्ष का लाभ करते हैं उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ में न जाकर भी मोक्ष लोक को ज्ञान के बल से प्राप्त करते हैं ।

[६३] ^{३३ २ ३२ ३ १ २३ १२} राये अग्ने मह त्वा दानाय समिधीमहि ।

^{१२ ३२ ३१ २३ १ २ ३ १२ ३२} ईडिष्वानि मह वृषन् द्यावा होत्राय पृथिवी ॥ ३ ॥

भा०—हे अग्ने ! हे (वृषन्) आत्मा और मानस में आनन्द की वर्षा करने वाले प्रभो ! (त्वा) तुझको (मह) बड़े भारी विशाल (राये) अनुपम धन के निमित्त (दानाय) अपने को आत्मसमर्पण करने के लिये हम साधक लोग (समिधीमहि) उत्तम रीति से योग द्वारा प्रज्वलित करते हैं । (हि) क्योंकि (द्यावापृथिवी) द्यौलोक और पृथिवी लोक दोनों (मह होत्राय) उसी परमेश्वर रूप कालाग्नि में बड़ी भारी आहुति के लिये हैं । तू भी उसी की (ईडिष्व) स्तुति कर ।

[६४] ^{३ २ ३२ ३२ ३ २३ २४ ३ २ ३ २} दधन्वे वा यदीमनुवाचद् ब्रह्मेति वेरु तत् ।

^{२३ १ २३ १ २ ३२ ३ १ २} परि विश्वानि काव्या नेमिश्चकमिवाभुवत् ॥ ४ ॥

ऋ० २ । ५ । ३ ॥

९३—१. होमग्रहणञ्चात्र प्रदर्शनाधेम् । मा० वि० ।

२. दधन्वे धारयति धारणेनात्र श्रवणं लक्ष्यते । मा० वि० ।

९४—'ब्रह्मापि वेस्त' इति ऋ० । 'मिवाभवत्' इति ऋ० ।

भा०—(ईम्) इस अग्नि को लक्ष्य करके ही (दधन्वे^१) अध्वर्यु आदि याज्ञिक जिसको धारण करते या शिष्यगण गुरुमुख से श्रवण और स्मरण करते हैं, और वे होता या शिष्य आदि (ब्रह्म) वेदमन्त्र का (अनु-वोचद्) पुनः पाठ या उच्चारण करते हैं (तत् उ) वह सब भी (वेः) ज्ञानवान् प्रकाशस्वरूप अग्नि का ही है । क्योंकि (नेमिः चक्रम् इव) जिस प्रकार लोहे का हाल चक्र के चारों ओर उसको ढक लेता है उसी प्रकार यह अग्नि भी (विश्वानि काव्यानि) समस्त विद्वानों के बनाये काव्यों, ग्रन्थों और काव्यों को (आभुवत्) व्याप रहा है । अर्थात् समस्त विश्व का साहित्य, इस प्रभु की ही महिमा का गान करता है ।

[६५] प्रत्यग्ने हरसा हरः शृणाहि विश्वतस्परि ।

३ १२ ३२ ३ २३क २र ३क२र
यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्ज वायम् ॥ ५ ॥

अ० १० । ८७ । २५ ॥

भा०—हे अग्ने ! (यातुधानस्य) हिंसक दुष्ट पुरुष का (विश्वतः परि) समस्त संसार पर जो (हरः) उनके प्राण हरण करने वाला अत्याचार-कारी बल है उसको (हरसा) दुष्ट के प्राण निकालने वाले बल, क्रोध, मन्यु से (शृणाहि) नाश कर । और (रक्षसः) दुष्ट राक्षस के (बलं) बल, सेनाबल, (वीर्य) सामर्थ्य और वीज को भी (न्युब्ज) भून डाल ।

[६६] त्वमग्ने वधू रिह रुद्रा आदित्यो उत ।

१ २ ३२३ ३ १ ३ ३ १ २
यजा स्त्रध्वरं जन मनुजात घृतपुपम् ॥ ६ ॥

अ० १ । ४५ । १ ॥

१५—'शृणाहि' इति अ० । 'विरुज वीयेन्' इति अ० ।

१६—घृ क्षरगदीन्धोः । जुहोत्यादिः । घृतपुपम् तेजःप्रसारकम् । मा० वि० ।

भा०—हे (अग्ने) प्रभो ! तू (इह) इस संसार में (वसून्) सृष्टि को बसाने वाले और जीवन के मूलकारण पृथिवी आदि आठों वसुओं का (रुदान्) दुष्टों को रुलाने वाले, या मूढ़ों को अन्तकाल में दुःखदायी, ११ रुद्रों, प्राणों को और आदान-विसर्ग का कार्य करनेवाले १२ आदित्यों, मासों को और (मनुजातं) अपने मनन सामर्थ्य से उन्नतरूप में प्रकट हुए (घृतघुपम्) ज्ञान और कर्म से भरपूर, या तेज से पूर्ण, या ज्ञान के प्रसारक (स्वध्वरं जनं) सब के रक्षक, अहिंसक, मनुष्य को (यज) अपनी संगति में रख ।

मनुष्य सब प्राणियों से इसी बात में उन्नत है कि वह १. 'मनुजात' मननशक्ति से बना हुआ, २. 'घृतघुपम्' अपना तेज दूसरों पर फैलाने वाला, ३. 'स्वध्वरं' किसी प्राणी की प्राणहिंसा न करने वाला हो । इन तीन गुणों के कारण वह परमात्मा के संग का लाभ करता है और देव-तुल्य हो जाता है ।

इति दशमी दशतिः । दशमः खण्डः ॥ इति प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः ।

अथ द्वितीयः प्रपाठकः

॥ द० १ ॥ १ दीर्घतमाः । २, ४ विश्वामित्रः । ३ गोतमः । ५ वितः । ६ इरि-
न्विठिः । ७, ८ विश्वमना वैयथः । ९ भारद्वाजः । १० विश्वमनाः ॥

५ पवमानः । ६ अदितिः ॥ उष्णिक् ॥

[१७] पुरु त्वा दाशिवां व्राञ्चेऽरिरभे तव स्विदा ।

उ १ २ उ २ ३ उ २ उ १ २ उ १ २ उ २
तोदस्यव शरणं आ महस्य ॥ १ ॥ ऋ० १ । १५० । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! तू (दाशिवान्) नाना प्रकार के पदार्थों को देने द्वारा (अरिः^१) ईश्वर है । अतः मैं (तव स्वित्) तेरी ही (पुरु आ वोचे) बहुत अधिक स्तुति करता हूँ । और (महस्य) बड़े (तोदस्य इव^२) गृहस्थ के आश्रय में सेवक के समान तेरे ही (शरणे आ) शरण में आता हूँ ।

[६८] ^{१२, २२ ३ ३४ ३ १ २ ३ २} प्रहात्र पूष्य वचाग्नेये भरता बृहत् ।

^{३ १२ २२ ३ २ २ ३ २ ३ १२} विपां ज्योतीषि विभ्रते न वेधसे ॥ २ ॥ अ० ३ । १० । ५ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (होत्राय) होता, समस्त संसार को अपने महान् जठरानल में प्रलय काल के अवसर पर आहुति करलेने वाले, (विपां) विद्वानों के (ज्योतीषि) ज्ञान और ब्रह्मचर्यादि तपोयुक्त गुणों और सूर्य, अग्नि, विद्युद् आदि प्रकाशों को (विभ्रते) धारण करनेहारे (वेधसे न^१) सब के विधाता के समान, सब के उत्पादक (अग्नेये) उस ईश्वररूप अग्नि के लिये (बृहत् वचः) विशाल, ज्ञानसम्पन्न व्यक्त वाणी, वेद को (भरत) प्राप्त करो, उसका उपदेश कर औरों तक पहुंचाओ, अध्ययन करो, कराओ ।

[६९] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहस्रो यदो ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २} अस्मे देहि जातवेदो माइ श्रवः ॥ ३ ॥ अ० १ । १७ । ४ ॥

१. अरिर्मित्र अञ्छतेः । ईश्वरोऽप्यरिरितस्मादेव निरु० (५ । २ । २ ।)
अरिरीश्वर इति मा० वि० । सेवकः इति सा० । २. तोदः गृहस्थः इति
मा० वि० ।

३८—१. वेधा जगद्विधाता परमेश्वरः आदित्यादीनि ज्योतीषि वरोति इति सा० ।

११—'अस्मे देहि' इति अ० ।

भा०—हे अग्ने ! तू (गोमतः) पशु, रश्मियों और इन्द्रियों तथा वेदवाणियों से सम्पन्न (वाजस्य) अन्न, धन, ज्ञान और वीर्य का (ईशानः) स्वामी है । हे (सहस्रो यहो) ब्रह्मपूर्वक प्रकट होने वाले, महान्, (जातवेदः) सर्वज्ञ, सर्वेश्वर देव ! (अस्मे) हमें (महि) बहुत उत्तम (ध्रुवः) अन्न, धन, कीर्ति और ज्ञान का (देहि) दान कर ।

[१००] अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान् देवयत यज ।

१, ३ ३ १, २ ३ २ ३ १ २
हाता मन्द्रो वि राजस्यति स्त्रिधः ॥ ३ ॥ ऋ० ३ । १० । ७ ॥

भा०—हे ज्ञानवन् ! परमेश्वर ! तू (यजिष्ठः) सब से अधिक यजन-शील, दानी, संगतिकारक है । तू (अध्वरे) पुण्य दानादि कार्य में (देवयते) विद्वानों और देव, ईश्वर की कामना करते हुए पुरुष के लिये (देवान्) विद्वानों को (यज) एकत्र कर, परस्पर संगति करा । तू स्वयं (होता) सब को दान देने और देव लोगों को आह्वान करने वाला, (मन्द्रः) सब को प्रसन्न करने वाला होता हुआ (स्त्रिधः) शत्रुगण को (अति वि राजसि) अतिक्रमण करके विशेषरूप से उन पर शासन करता है, उन पर विराट् होकर रहता है ।

[१०१] जज्ञानः सप्त मातृभिर्मथामाशासत श्रिय ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २
अयं ध्रुवो रयाणां चिकेतदा ॥ ५ ॥ ऋ० १० । १०२ । ४ ॥

भा०—(अयं) यह (ध्रुवः) नित्य, कभी विचलित न होने वाला (सप्त मातृभिः^१) सात माताओं, सृष्टि के निर्माता पांच भूत, महत् अहंकार

१०१—'जज्ञानं सप्तमातरः', 'वेधामक्षासत' 'चिकेतयत्' इति ऋ० 'अचिकेतयत्' इति । सा० ।

१. सप्तमातरः—सप्त छन्दांसि 'सप्त होत्राः' सप्त सोमरुस्था; इति (मा० वि०) ।

इनसे (जज्ञानः) सृष्टि को प्रकट करता हुआ (श्रिये) अपने विभूतिरूप शोभा या आश्रय के लिये (मेधाम्) उत्तम धारणा शक्ति पर (आशासत) वश करता है । वही परमेश्वर (रयीणां) समस्त ऐश्वर्यों को (आचिकेतन्) भली प्रकार से जानता है ।

अर्थात्तम में—यह ध्रुव आत्मा प्रमाता, इन्द्रियों से ज्ञान करता हुआ (श्रिये) अपने कल्याण के लिये (मेधाम् आशासत) मेधा बुद्धि को धारण करता है । (रयीणाम्) सब प्राणों के वीर्यों को जानता है ।

सप्त मातरः=सात प्रमाता, ज्ञान साधन सात मुख्य प्राण हैं जिनको उपनिषत्कार सात ज्वाला, सात ऋषि, सात रथ, सात अश्व, सात अग्नि, सात वह्नि आदि नामों से पुकारते हैं । (नासिकेत) अग्नि ध्रुव अग्नि है जिसका ज्ञान अध्रुव यज्ञ काण्ड से नहीं होता । "नह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्" । का० उप० ॥ इनको ही सात छन्द, सात होता, सात सोम संस्थाओं के नामों से भी पुकारते हैं ।

[१०२] ^{३ २३} ^{३ १} ^{२ ३ १} ^{२ २} ^२ उत स्या नो दिवा मतिरदितिरुत्यागमत् ।

^{१ २} ^{२ ३ १} ^{२ ३ १ २} सा शंताता मयस्करदप स्त्रिधः ॥६॥ अ० ८ । १८ । ७ ॥

भा० — (उत स्या) और वह (अदितिः^१) कभी खण्डित न होने वाली, दृढ़, ईश्वरीय बलवती, सत्य, (मतिः) मननशक्ति, (दिवा) प्रतिदिन (उत्या) हमारी रक्षा के लिये (नः आगमत्) हमें प्राप्त हो । (सा) वह (शंताता) शान्ति उत्पन्न करने वाली (मयः करत्) आभ्यन्तर सुख और आनन्द दे । और (स्त्रिधः^२) शत्रु या दोष जिनका सत्य ज्ञान से

१०२—'शन्ताति,' 'उतत्या' इति पाठभेदौ । 'सुधः,' 'स्त्रिधः' इति पाठभेदौ ।

१. सकलप्रपञ्चधारणेष्वदीना इतिस्कन्दस्वामी । अदितिर्देवमाता (मा० वि०)

२. स्त्रिधिर्वाधनार्थः (सा०)

बाध होना सम्भव है, ऐसे भ्रम अज्ञान और विपर्यय या मिथ्या ज्ञानों को वह (अप) दूर करे ।

[१०३] ईडिष्वा हि प्रतीव्यांशियजस्व जातवेदसम् ।

चरिष्णु धूममगृभीतशोचिषम् ॥७॥ ऋ० ८ । २३ । १ ॥

भा०—(जातवेदसं) पदार्थों का ज्ञान करने वाले (चरिष्णु) व्यापक, दूरगामी ज्ञान साधनों से सम्पन्न, (धूमम्) सबको कंभाने वाले, सब के प्रवर्तक, (अगृभीतशोचिषम्) अप्रतिहत कान्ति से सम्पन्न, कभी न बुझने वाले, अमर, (प्रति-व्यां) प्रत्येक देह या पदार्थ में व्यापक आत्मस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप अग्नि को ही, हे पुरुष ! तू (ईडिष्वा हि) उपासना क्रिया कर और (यजस्व) उसी को प्राप्त कर, उसी में आत्म समर्पण कर ।

[१०४] न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्यः ॥

यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥८॥ ऋ० ८ । २३ । १५ ॥

भा०—(यः) जो पुरुष (हव्यदातये) ज्ञानदाता (अग्नये) अग्नि परमात्मा और आचार्य के प्रति अपने को (ददाश) समर्पण कर देता है (तस्य) उस पुरुष का (रिपुः) शत्रु (मर्त्यः चन) मनुष्य भी (मायया) बुद्धि द्वारा (न ईशीत) कभी उस पर बश नहीं कर सकता ।

[१०५] अप त्वं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम् ।

दविष्टमस्य सत्पते कृषी सुगम् ॥९॥ ऋ० ५ । ५१ । १३ ॥

१०३—'प्रतीव्यां' इति ऋ० ।

१०४—,हव्यदातिभिः' इति ऋ० ।

भा०—हे (सत्पते) सत्पुरुषों के प्रतिपालक ! (त्वं) उस (वृजिनं) पापशील, त्याग करने योग्य (रिपुं) हिंसक, शत्रु, (स्तेनं) चोर, (दुराध्यम्) दुःख से वश करने योग्य, (दविष्टं) हृदय से दूर, द्वेषी पुरुष को (अप-अस्य) दूर कर । और हमारे लिये उसको (सुगं) सुखसे वश करने योग्य (कृधि) बना दे ।

[१०६] ^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥१०॥ अ० ८ । २३ । १४॥

भा०—हे (वीर) वीर्यवन् ! हे विश्पते ! प्रजा के पालक ! (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्विन् ! (मे) मेरे (नवस्य) नूतन (स्तोमस्य) स्तुति को (श्रुष्टी) श्रवण करके (मायिनः) माया, छल, कपट आदि से युक्त, मायावी (रक्षसः) राक्षसों और दुष्ट भावों को (तपसा) अपने तेज से (नि दह) सर्वथा भस्म कर ।

इति प्रथमा दशतिः । इति एकादशः खण्डः

~~१०७] (१०७)~~

॥ ६० २ ॥ १-४ प्रयोगो भार्गवः सौभरिः काण्वो वा । २, ३, ५, ६, ७

सौभरिः । ८ विश्वमनाः वैश्वः ॥ ककुप् ॥

[१०७] ^{१ ३ २ २} प्र मंष्टाय गायत क्रतावने वृहत शुक्रशाचिपे ।

^{३ १ २ ३ २} उप स्तुतासो अग्नये ॥१॥ अ० ८ । १०३ । ८ ॥

१०६—'तपसा' इति अ० ।

१०७-१. श्रुष्टि इति स्नात्त्यादश्चेति निपातितः । वलोपदछान्दसः ।

भा०—(मंहिष्टाय^१) सबसे अधिक दानशील (ऋतावने) यज्ञ करनेहारे, सत्यमय, (वृहते) महान्, (शुक्रशोचिषे) देदीप्यमान, कास्ति से युक्त (अग्रमये) प्रकाश स्वरूप, ज्ञानी परमेश्वर का हे (उप स्तुतासः^२) हे स्तोतागण ! (प्रगायत) उत्तम रूप से कीर्तन करो ।

[१०८] प्र सो अग्ने तत्रोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः ।
यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥२॥ ऋ० ८ । १९ । ३० ॥

भा०—हे अग्ने ! (यस्य) जिसके (त्वम्) तू (सख्यम्) मैत्रीभाव को (आविथ) प्राप्त कर लेता है (सः) वह (तव) तेरे (सुवीराभिः) उत्तम शक्तिसम्पन्न, (ऊतिभिः) रक्षासाधनों द्वारा और (वाजकर्मभिः) अन्न के उत्पादन और ज्ञान के सम्पादन और बल के कार्यों से (तरति) सब विघ्नों को पार कर जाता है ।

[१०९] तं गूर्धया म्वरणं देवासो देवमरति दधन्विरे ।
देवत्रा हव्यमूष्टिषे ॥३॥ ऋ० ८ । १५ । १ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (तं) उस (स्वः-नरं) सब के नेता अथवा उस सुखस्वरूप, मोक्षमार्ग के पथदर्शक, परम (देवम्) देव की (गूर्धया) स्तुति कर, उसके गुणों का गान कर । (देवासः) देव-विद्वान लोग, इन्द्रियां या पंचभूत उस (देवम्) प्रकाशमान देव को (अरतिं^१) सर्वज्ञ या अति

१०८—'सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः' इति ऋ० ।

'सख्यमावरः' इति ऋ० । 'आवरे' इति स० ता० ।

वाजकर्मभिः इति पाठः शुद्धः, साम्नो 'वाजकर्मभिः' इत्याम्नानात् (वनु०)

१०९—'गूर्धया', 'हव्यमोष्टिरे' इति ऋ० ।

१. अरतिम् अलंमतिं सर्वज्ञमिति मा० वि० ।

प्रीतिमान् स्वामी (दधान्विरे) स्वीकार करते हैं । वह (देवत्रा) दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों, पञ्चभूतों और इन्द्रियों में (हव्यं) उनके भीतर शक्ति ज्ञान और भाग्य पदार्थों को (ऊहिषे) पहुंचाता है ।

[११०] मा नो हृणीथा अतिथि वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एपः ।

यः सुहोता स्वध्वरः ॥४॥ अ० ८ । १०३ । १२ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (नः) हमारे (अतिथिं) अतिथि के समान पूजनीय देव के प्रति (मा हृणीथाः) क्रोध या अनादर मत कर । (एपः) यह (पुरु-प्रशस्तः) बहुत उत्तम प्रशंसा और आदर करने योग्य है । वह (वसुः) वास देने योग्य सबके भीतर बसने वाला और सबको बसाने वाला (अग्निः) अग्नि के समान ज्ञान रूप प्रकाश से सम्पन्न है । (यः) जो (सुहोता) उत्तम पदार्थों का दाता और प्रतिगृहीता और (स्वध्वरः) उत्तम हिंसा रहित कार्यों का अनुष्ठाता, पालक है ।

[१११] भद्रो नो आग्नराहुता भद्रा रातिः सुभग भद्रा अध्वरः ।

भद्रा उत प्रशस्तयः ॥५॥ अ० ८ । १११ । ११ ॥

भा०—(नः) हमारा (आहुतः) भली प्रकार उपासित, (अग्निः) परमेश्वर (भद्रः^३) हमारे कल्याण के लिये हो । हे (सुभग) उत्तम ऐश्वर्य-वान् अग्ने ! परमेश्वर ! (रातिः) हमारा दिया दान हमें (भद्रा) कल्याण-कारी सुखकारी हो । हमारा (अध्वरः) हिंसा रहित कार्य, यज्ञ भी (भद्रः) कल्याणकारी, सुख शान्ति और ऐश्वर्य का दायक हो, (उत) और (प्रश-स्तयः) हमारे संकीर्त्तन आदि भी (भद्रा) कल्याणकारी सुखप्रद हों ।

१२०—“मा नो हृणीतामतिथिवसु” इति अ० ११. मा हृणीथाः मा क्रोस्वीः इति । मा०

वि० । हणिः क्रुध्यतिकर्मा । नि० २ । १२ ॥

[११२] यजिष्ठं त्वा ववृमहे देव देवत्रा होतारभमर्त्यम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥६॥ ऋ० ८ । १८ । ३ ॥

भा०—(यजिष्ठं) दान आदि करने हारे, सर्वोपास्य (देवत्रा देवं) देवों के देव, (होतारम्) सत्र पदार्थों के दाता, (भमर्त्यम्) अत्रिनाशी मरणरहित, (अस्य यज्ञस्य) इस जविनयज्ञ के (सुक्रतुम्) उत्तम प्रकार से सम्पादन करने हारे (त्वा) तुझ को (ववृमहे) हम वरण करते हैं, तेरा भजन करते हैं ।

[११३] तदग्ने छुम्नमाभर यत्सासाहा सदने कञ्चिदत्रिणम् ।

मन्यु जनस्य दूढ्यम् ॥७॥ ऋ० ८ । १६ । १५ ॥

भा०—हे (अग्ने) परमेश्वर ! (तद्) वह (छुम्नम्) अन्न, धन, ज्ञान और बल (आ भर) हमें प्राप्त करा, जो (सदने) हमारे घर में, यज्ञगृह में, हमारे शरणस्थान में (कञ्चित्) हर किसी प्रकार के (अत्रिणम्) पापभोगी, चोर, (जनस्य मन्युं) सर्वसाधारण प्राणियों के क्रोध के पात्र (दूढ्यं) दुष्ट पुरुष को (सासाह) दबासेके ।

[११४] यद्वा उ विश्वपतिः शितः सुभीतो मनुषो विश्वे ।

विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति ॥८॥ ऋ० ८ । १३ । १३ ।

भा०—(यद्वा उ) जब भी (शितः) मन्यु और न्याय युक्त व्यवस्था के भंग होने पर तीक्ष्ण हुआ (विश्वपतिः) प्रजाओं का पालक,

११३—'यत्सासहत्सदने'—'जनस्य दूढ्यः' इति ऋ० । 'दूढ्या' इति च स० सा० ।

१. दूढ्यः दुर्धियः पापधियः इति नि० ५ । ४ । ३ ॥

११४—'मनुष्यो विश्वे' इति ऋ० ५ ।

प्रभु (मनुष्योः विशे) मनुष्यों और प्रजाओं के निमित्त (सुप्रतिः) प्रसन्न, दत्तचित्त होता है, तब (अग्निः) अग्नि स्वभाव, पापों का दाहक तेजस्वी वह (विश्वा इत्) सब प्रकार के (रक्षांसि) राक्षसों को (प्रति सेधति) दूर करता है ।

राजा प्रजा को बसाने के लिये वह प्रजा के घातक प्राणियों और आततायी पुरुषों को तीक्ष्ण स्वभाव होकर दूर करे और प्रजा पर सदा प्रसन्न रहे ।

अध्यात्म पक्ष में—विश्वपति, इन्द्रियों का राजा आत्मा जब योगादि साधनों से तीक्ष्ण होकर इस देह में स्वच्छ, निर्मल, सुप्रसन्न हो जाता है तब वह आसुरी वृत्तियों पर विजय पाता है और व्युत्थानों को दूर करता है।

इति द्वितीया दशतिः । इति द्वादशः खण्डः ।

इत्याग्नेयं कारण्डम् ।

इति प्रथमोऽध्यायः ।

इति प्रतिष्ठितविद्यालंकारमीमांसातीर्थविरुदोपशोभितश्रीमत्पंडितजयदेव शर्मणा विरचिते सामवेदालोकभाष्ये आग्नेयं कारण्डं समाप्तम् ।

अथात ऐन्द्रं काण्डम् ।

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

॥८०३॥ ऋषिः—१ शंयुर्वर्हिस्पत्यः । २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा । ३ हर्यतः प्रगाथः । ४,
५ श्रुतकक्षः । ६ इन्द्रमातरो देवजामय ऋषिः । ७, ८ गोवृक्षधश्वमृक्तिर्नौ ।
९ मेधातिथिराङ्गिरसः । १० काण्वः । गायत्री ॥

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
[११५] तद्धो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने ।

१३ ३ २ ३ १ २
शं यद्रवे न शाकिने ॥१॥ ऋ० ६ । ४५ । २२ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वः) तुम लोग (सत्वने^१) वीर्यवान्, सत्यस्वरूप, सदा विद्यमान रहने वाले (पुरुहूताय^२) इन्द्रियगण, प्रजाओं और मनुष्यों द्वारा ज्ञान धन और भक्ति द्वारा पूजित (गवे) गौ, पृथ्वी और वेदवाणी के लिये (शाकिने) शक्तिमान् राजा, बैल या किसान के समान (यत्) जो (शं) कल्याणकारी है (तत्) उस इन्द्र का (सुते) अपने यज्ञ में (सचा) एक साथ मिलकर (गायत) कीर्तन करो ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२
[११६] यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्रं द्युम्नितमामदः ।

१ २ ३ ४ ५ ६
तेन नूनं मदं मदः ॥२॥ ऋ० ८ । ६२ । १६ ॥

भा०—हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रजाओं और क्रियाओं में कुशल ! हे (इन्द्र^१) ऐश्वर्यशील ! (यः) जो (ते) तेरा (द्युम्नितमः) कीर्तिजनक ऐश्वर्यपूर्ण (मदः) हर्ष का कारण आनन्द रूप है (तेन) उसीसे (मदेम) तृप्तिकारी आनन्दरस में (मदे) स्वयं भी प्रसन्न रह और हमें भी प्रसन्न कर ।

११५—१. सत्वने 'शत्रूणां सादयित्रे' सा० । सत्=सत्यं तद्धते ।

२. पुरु इति इन्द्रियम् । ६० उ०

[११७] गाव उपवदा वटे मही यज्ञस्य रप्सुदा ।

उभा कर्णा हिरण्यया ॥ ३ ॥ अ० ८ । ७२ । १२ ॥

यजु० । ३३ । १६ ॥

भा०—हे (गावः) गौत्रो ! वाणियो ! रश्मियो ! नदियो ! (अवटे^१) यज्ञस्थान, रक्षास्थान, ईश्वररूप, गंभीर स्थान में (उपवद) आओ, अपना तात्पर्य प्रकाशित करो । अर्थात् गौत्रं जिस प्रकार रक्षास्थान में, रश्मियें सूर्य में और नदियें गंभीर गर्त, जलाशय या समुद्र में आश्रय पाती हैं इसी प्रकार हे वाणियो ! तुम सकल रक्षक परमेश्वर में लगती हो । (मही) विशाल यह पृथ्वी और यह द्यौलोक (यज्ञस्य) यज्ञ का (रप्सुदा) उत्तम फल देनेवाले हैं । (उभा) दोनों (हिरण्यया) हरणशील, भोग्य लोकों के प्राप्त कराने में (कर्णा) साधनभूत हैं ।

[टि०—इस मन्त्र पर सब भाष्यकारों के मत भिन्न २ हैं । यजुर्वेद में महीधर और उवट के मत में—“वे गौत्र कृप के समीप आवें और पृथ्वी और द्यौ यज्ञ का फल देने वाली है और इनके दोनों कान सोने के हैं ।” सायण के मत से—“हे (गावः) यज्ञकर्त्ताओ ! तुम महावीर के पात्र की स्तुति करो यह यज्ञ का फल देता है । उस कृण्डे के दोनों कान सोने के हैं ।” स्वामी तुलसीराम के मत से—“यज्ञकण्ड के समीप हे वाणियों ! तुम इन्द्र की स्तुति करो जिससे यज्ञभूमि वेदपाठ के प्रवाहवाली हो और श्रोताओं के दोनों कान प्रकाशमय हों ।” इनमें कर्मकाण्ड को लक्ष्य करके

११७—उपावतावतं इति पाठभेदः, अ०

१. यजुर्वेदे अवतं इत्यस्य अवतं गर्त्तमिति उवटमहीधरयोः सम्मतोर्थः अवती-
त्यवतं रक्षास्थलं । अवतं कृपम् । रक्षादायकत्वादेव इन्द्रोप्यवटगण्डवाच्यः
शरण्यत्वादेव । अवतीत्योम् । स्नानघातुवशाद् अकारः परमेश्वर एव
सर्वस्तुतिवाचां शरणमित्यवदात्तम् ।

यज्ञ के विनियोग के अनुसार सायण महीधरादि की पदयोजना संगत है। परन्तु अध्याहार और उल्लेखार्थता का दूषण है। यही दोष तुलसीरामजी के अर्थ में भी है। हमारी सम्मति में 'ओम्', 'अवत', 'अवट' ये तीनों शब्द रक्षार्थक अव धातु से बने हैं, इसलिये यह मन्त्र परमात्मा की स्तुति पर लगना चाहिये।]

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[११८] अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारं गवे ।

३ १ २ ३ १ २ ऋ० ८ । ६२ । २५ ॥
अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥

भा०—हे (श्रुतकक्ष) हे वेदविज्ञान को अपने कुक्षि अर्थात् हृदय में रखने वाले ! (अश्वाय अरं गायत) व्यापक प्रभु या शीघ्र गमनशील, भोक्ता आत्मा के गुणों का वर्णन करो (गवे अरं) गौ, ज्ञानस्वरूप आत्मा या इन्द्रियों में श्रेष्ठतम इन्द्रियस्वरूप अन्तरात्मा का या ज्योति, रश्मिरूप भीतरी रत्न का उत्तम रीति से वर्णन करो। (इन्द्रस्य^१) सब इन्द्रियों के मालिक, स्वयं इन्द्र, महान् आत्मा के (धाम्ने, तेजः सामर्थ्य का (अरं गायत) खूब गुण गाओ।

१ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २
[११९] तामिन्द्रं वाजयामसि मह वृत्राय हन्तवे ।

१ २ ३ १ २ ऋ० ८ । ६३ । ७ ॥
स वृषा वृषभो भुवत् ॥ ५ ॥

भा०—(तं) उस (इन्द्रं) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् प्रभु की हम (वाजयामसि) ज्ञानपूर्वक स्तुति करते हैं। (महे) बड़े भारी (वृत्राय) विघ्नकारी ज्ञान के आवरण करने वाली तामस प्रवृत्तियों को (हन्तवे) विनाश, करने के

११८—'श्रुतकक्षो अरं' इति ऋ० ।

१. इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा (पा० अ०

५ । २ । ६३) इतीन्द्रशब्दाद् घव् । इन्द्रियम् ।

लिये (सः) वह (वृषभः) ज्ञान और सुखों की वर्षा करने वाला और (वृषा) समर्थ, बड़ा बलवान् (भुवत्) है ।

[१२०] त्वामिन्द्र वलादधि सहसो जात ओजसः ।

त्वं सन् वृषन् वृषेदासि ॥ ६ ॥ अ० १०। १५३। २ ॥

भा०—हे इन्द्र ! तू (वलाद्) बल से, और (सहसः) शत्रुदमन कारी सहनशक्ति से, (ओजसः) कान्ति और प्रभाव से (जातः सन्) प्रकट होकर ही (वृषन्) हे वृष तुल्य ! सबके भीतर उत्पादक शक्ति के देनेहारे ! समस्त सुखों के वर्षक ! (त्वं) तू (वृषा इद्) वृषा वीर्य सेचन में समर्थ ही (असि) है, तू ही सबमें बलवान् श्रेष्ठ और सबका जन्मदाता और मूल कारण है ।

[१२१] यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्भूमि व्यवर्त्तयत् ।

चक्राण आपशं दिवि ॥ ७ ॥ अ० ६। १४। ५ ॥

भा०—(यज्ञः) यज्ञ प्रजापति (इन्द्रं) आत्मा को (अवर्धयत्) बढ़ाता है (यद्) क्योंकि यज्ञ ही (दिवि) सूर्य के आश्रय, आकाश में (आपशं) लटकाकर (आ चक्राणः) चक्र के समान चलाता हुआ (भूमिं) भूमि को (वि अवर्त्तयत्) विशेषरूप से वृत्तगति में घुमाता है । इस अर्थ से 'इन्द्र' का अर्थ 'सूर्य' और 'यज्ञ' का अर्थ 'सौर जगत्' या प्रवर्त्तक प्रजापति होता है । समस्त ग्रंहाण्ड में इस सौर जगत् के अनुकरण में ही यह यज्ञवेदी और छोटे अनुपात में यह देह रूप यज्ञभूमि बनी है, वेदमन्त्रों में समान रूप से तीनों का वर्णन किया गया है । अध्यात्म पक्ष में—इस जीवन-यज्ञ ने इन्द्र आत्मा के सामर्थ्य को बढ़ा दिया है अर्थात् देहरूप कर्मभूमि को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में बहने दिया । और दौलोक रूप मस्तक में वह विद्यमान है, इत्यादि ।

[१२२] ^{१ २ ३ २ ४ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २} यदिन्द्राह यथा त्वमीशाय वस्व एक इत् ।

^{३ २ ३ १ २} स्तोता म गोसखा स्यात् ॥ ८ ॥ अ० ८ । १४ । १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (यथा) जिस प्रकार (त्वम्) तू (एक इत्) अकेला ही (वस्वः) धन, विभूति, ज्ञान, जीवन शक्ति कां (ईशाय) वश करता है उसी प्रकार (यद्) यदि (अहं) मैं जीवभी अपनी इन्द्रियों और वसुरूप प्राणों को वश करने में समर्थ होजाऊं तो (गोसखा) इन्द्रिया के समान ही ख्याति से सम्पन्न यह (मे) मेरा आत्मा भी (स्तोता) इस ईश्वर महान् आत्मा की स्तुति करने वाला (स्यात्) होजाय ।

[१२३] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} पन्थपन्यमित्पोतार आधावत मद्याय ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २} सामं वीराय शूराय ॥ ६ ॥ अ० ८ । २ । २५ ॥

भा०—हे (सोतारः) ज्ञान सम्पादन करने वाले साधन मेरे इन्द्रियों ! अथवा हे ज्ञानयोगी पुरुषो ! (मद्याय) सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले (वीराय) सामर्थ्ययुक्त वीर, विशेष प्रकार से तुम सबको प्रेरणा देने वाले, (शूराय) बलवान् पराक्रमी, आत्मा या परमात्मा के विषयक (पन्थं पन्थं) प्रशंसनीय, उत्तम २ (सोमं) यथार्थ अनुभव रूप आनन्दरस को (आधावत) प्राप्त करने के लिये शीघ्र पहुँचो, शीघ्रता करो ।

संवित्सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक की यही भावना होती है ।


[१२४] ^{३ १ २ ३ २ ४ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} इदं वसा सुतमन्थः पिवा सुपूर्णं बुदरम् ।

^{१ २ ३ १ २} अनाभयिन् रीरमा तै ॥ १० ॥ अ० ८ । २ । २६ ॥

भा०—हे (वसो) शरीर में बसने वाले देव ! या शरीर में दश इन्द्रियों और अन्तःकरण आदि को बसाने वाले इन्द्र ! आत्मन् ! तू (इदम्) इस (सुतम्) उत्पन्न किये (अन्धः) अन्न, जीवन-धारण सोमार्थ को (सुपूर्णम् उदरम्) खूब पेट भर कर (पिब) ग्रहण कर । हे (अनाभयिन्) भयरहित वीर, यह सब सोम आदि आत्मा (ते) तेरे लिये हम (ररिम) देते हैं, भेंट करते हैं ।

“भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः” इत्यादि, उपनिषद् की यही संगति होती है । आत्मा को राजा के दृष्टान्त से बृहदारण्यक में उत्तम रीति से समझाया है ।

इति तृतीया दशतिः । इति प्रथमः खण्डः ।



॥ २० ४ ॥ ऋषिः—१, २ सुकक्षश्रुतकक्षी । ३ भारद्वाजः । ४ श्रुतकक्षः ।
५, ६ मधुच्छन्दाः । ७, ८, १० त्रिशोकः । ८ वसिष्ठः । गायत्री ॥

[१२५] उद्घदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम् ।

अस्तारमधि सूर्य ॥ १ ॥ अ० ८ । ६३ । १ ॥

भा०—हे (सूर्य) समस्त जगत् को प्रेरणा करने वाले आत्मन् ! तू (श्रुतामघम्) प्रसिद्धि धन, ज्ञान और कीर्ति अग्न (वृषभम्) सुख और आनन्द की वर्षा करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ (नर्यापसम्) मनुष्यों के हितकारी कार्य करने और मनःसंकल्प करने वाले (अस्तारम्) अपने प्रतिपक्षियों और काम क्रोध आदि शत्रुओं का मार गिराने वाले, पराक्रमी वीर पुरुष के प्रति (इद् ह) ही तू (उद् ष्वि) ऊपर उठता है, उदित होता है ।

सदाचारी, परोपकारी, काम क्रोधादि के जीतने वाले पुरुषपुंगव का आत्मा सूर्य के समान उन्नति को प्राप्त होता है ।

[१२६] यद्द्य कञ्च वृत्रहृद्गा अभि सूर्य ।

सर्वं तदिन्द्र ते वश ॥ २ ॥ श्र० ८ । ९३ । ४ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्) सूर्य के समान मेघ और अज्ञान-अन्धकार या विघ्नों के नाश करने हारे ! हे (सूर्य) समस्त जगत् के समान इस देह के प्रेरक ! हे आत्मन् ! (अद्य) आज (यत् कत् च अभि) जिस किसी पदार्थ के सन्मुख (उद् अगाः) तू उदित होता है (सर्वं तत्) वह सब (ते) तेरे ही (वशे) वश में है । आत्मवान् पुरुष जिस बात पर अपना संकल्प बांधते हैं वही उनके वश में हांजाता है । शौनक ने यह मन्त्र, पाप नाश करने और जगत् भर को वश करने की साधना का मूलमन्त्र लिखा है ।

यद्द्यकञ्चेयुदिते रवौ स्तुत्वा पुरंदरम् ।

गृणन्नापाहते रिशं वश्यं वा कुरुते जगत् । (ऋग्विधाने शौनकः)

[१२७] य आनयत्परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम् ।

इन्द्रः स ना युवा सखा ॥ ३ ॥ श्र० ६ । ४५ । १ ॥

भा०—(यः) जो (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (सुनीती) उत्तम नीति, उपाय साधन द्वारा (तुर्वशं) कामनाओं से बंधे और (यदुम्) कुपथ में गये पुरुष को (परावतः) बहुत दूर से भी (आनयत्) सन्मार्ग पर लेआता है (सः) वह (नः) हमारा (युवा) सदा जवान, अजर, अमर, नित्य, (सखा) इष्ट मित्र और समान ख्याति वाला, हमारे आत्मा या हृदय देश में विराजमान परमात्मा या आचार्य है । यहाँ इन्द्र आत्मा, परमात्मा, आचार्य तीनों पर समान भाव से लगता है ।

'तुर्वशं'—तुर्वी हिंसायाम् । भ्वादिः । क्लेशश्च । हिंसन्ति आहिंसन्ते व्याध्यादिभिर्वा । यद्वा तूर त्वरणहिंसनयोः । द्विवादिः । यद्वा तुर्वशः कामं

एषामिति तुर्वशाः । यद्वा चतुर्षु धर्मार्थकाममोक्षेषु वश एषामिति चतुर्वशाः सन्तः, चकारलोपेन तुर्वशाः । दे० य० । तुर्वश इति मनुष्यनाम । नि० २ । ३ ॥

'यदुम्'—यदुः, यमेदुक् इति भोजः । यन्यते नियम्यते आचार्येण अपथप्रवृत्ताराज्ञा वा । यदुसिति मनुष्यनाम । नि० २ । ३ ॥

तुर्वश, हुह्यु, अरु, यदु, और पुरु ये ऐतिहासिक पुरुष भी हुए हैं । सायण ने इतिहासपरक ही अर्थ किया है । परन्तु वेद में ये सब मनुष्य के पर्याय शब्द हैं । धात्वर्थों के भेद से भिन्न २ गुण के मनुष्यों के ये वाचक हैं । जैसे—(१) 'तुर्वा हिंसायां' धातु से अशच् प्रत्यय करने से तुर्वश शब्द बनता है । जो प्राणियों को मारे या व्याधि से पीड़ित हों । (२) तुर्वश=जिन को काम अर्थात् एषणा हो वे तुर्वश कहते हैं । या (३) जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को अपने वश करलें वे 'तुर्वश' कहाते हैं । उसी प्रकार 'यदु' वे मनुष्य हैं जो कुमार्ग पर पैर धरने पर राजा व आचार्य द्वारा नियम व्यवस्था में लाये जावें । अर्थसाहित्य में देव को इष्ट, वन्धु कहा जाता है और आचार्य को भी सुहृत् माना गया है । 'सुहृद् भूत्वा आचार्य उपादिशति' (पात० महाभाष्य)

[१२२] मा न इन्द्राभ्याश्दिशः सूरः अकुप्वा यमत् ।

त्वा जुजा वनम तत् ॥४॥ ऋ० ८ । ६२ । ३१ ॥

भा०— हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् ! (आ दिशः) चारों दिशाओं से भी (नः) हमारे (अभि) प्रति (अक्तुषु) रात्रि, अन्धकार युक्त कालों में, राजस तामस अवस्थाओं में भी (सूरः) चुपके २ छुपा मारने वाला चोर या हिंसक जन्तु या काम क्रोध आदि शत्रु (नः मा अभि आ यमत्) हम पर काबू न करले, फाँस न ले. बल्कि हम (तत्)

उस समय (स्वा युजा) तुम्ह अपने सहायक द्वारा उसे (वनेम) मार डालें ।

अहुः रात्रिनाम । नि० १ । ७ ॥ २. यम परिवेषणे (भ्वादिः)
३. अथ ऋथ हिंसार्थाः वन चेति भ्वादिः ।

[१२६] एन्द्रं^{१२} सानसिं^{३२ ३२ ३१ २} रयिं^{२१२} सजित्वानं सदासहम् ।
^{१२ ३१२} वरिष्ठमूतय भर ॥ ५ ॥ अ० २ । ७ । १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (सानसिं) उत्तम प्रकार से विभाग करने योग्य (सजित्वानं) अपने शत्रु पर विजय दिलाने वाले, (सदासहं) निरन्तर होने वाले आक्रमणों को सहन करने वाले, (वरिष्ठं) शत्रु पर बाणों और आगुधों की वर्षा करने वाले या बहुत अधिक (रयिं) सेना को (ऊतये) रक्षा के लिये (आ भर) प्राप्त कर । आत्मा के पक्ष में रयिः—प्राण या आत्मिक ज्ञान, बल जो शरीर में स्थान २ पर गटा हुआ है, सब दोगों पर विजय करता है सब कष्टों को सहता है, सब सुखों को उत्पन्न करता है और निरन्तर गति करता है ।

रयिः शीङ् गतौः—रीयते गच्छति इति रयिः । यद्वा रातेर्दानार्थस्य । गच्छत्याक्रामति शत्रून् इति रयिः सेना । कोशायत्तत्वाद् भृतिराचिता सेना वा रयिः । सजित्वानं सदासहमिति विशेषणबलाद्रयिः सेनार्थः ।

[१३०] इन्द्रं^{१२ ३१ २ ३ २७ ३५ २} वयं महा वन इन्द्रमर्भं^{१२ ३१ २ ३ १ २} हवामह ।
युजं वृत्रेषु वज्रिणम् ॥६॥ अ० २ । ७ । ५ ॥

भा०—(महाधने) बड़े २ संग्राम के अवसर में और (अर्भं) छोटे मोटे परस्पर के कलह या चोरी आदि के अवसर पर भी (वयं) हम लोग (वृत्रेषु) विघ्न और उपद्रवों और विघ्नकारियों पर (वज्रिणं) सदा तलवार या सेना-बल को या दण्ड को धारण करने वाले, (युजं) सदा के

सहायक, (इन्द्रम्) राजा को (वयं) हम (इवामहे) बुलाते हैं उसके गुण कीर्तन करते हैं। यहां इन्द्र शब्द राजा वाचक है। राजा के दण्ड से उपनिषदों में मुख्य प्राण और आत्मा का वर्णन किया गया है। आत्मा पक्ष में (महाधने) बड़े भारी योगसाधन और (अर्भे) सूक्ष्म विचार में भी (वृत्राणि) आत्मा पर पर्दा डालने वाली तामस, व्युत्थान वृत्तियों पर (वज्रिणम्) सूक्ष्मगति या वर्जक शक्ति अर्थात् असत् को छोड़कर सत् को ग्रहण करने वाले विवेक से युक्त आत्मा का स्मरण करें। जैसे काठक में 'यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निः सृतम् । महद्भयं वज्रमुद्यतम् ।' कठ० चक्षी २ ॥

महाधनमिति संग्रामनाम (नि० ३। १८।) । अर्भो हरतेः ।

[१३१] ^{१ २} अपिबत् ^{३ १ २} कद्रुवः ^{३ १ २ २} सुतामन्द्रः ^{३ १ २} सहस्रबाहू ।

^{१ २} तत्रादिदिष्ट ^{३ १ २} पौंस्यम् ॥७॥ ऋ० ८। ४५। २६ ॥

भा०—(इन्द्रः) राजा (सहस्रबाहू) इज्जारों प्रकार से शत्रु को परास्त करने के लिये (कद्रुवः) विद्वान् ज्ञानी के (सुतम्) ज्ञान को (अपिबत्) पान करता, उपयोग करता है (तत्र) तभी (पौंस्यं) उसका बल (आदिदिष्ट) अधिक चमकता है ।

बाहुर्बाधतेः, परान् बाधते इति बाहुः इति देवराजो यज्वा । कद्रुः क्वंतेऽसौ कद्रुर्विद्वान् । जन्वादिषु श्रौणादिकं निपातनम् । उणा० ३। १०२ ॥

आत्मपक्ष में कएव-मन । बाहु=कर्म । मेघ, बाहु=जलधारा । इत्यादि ।

[१३२] ^{३ १} त्रयमिन्द्र ^{३ २ ३} त्वायनाऽभिप्रनानुमा ^{१ २} वृषन् ।

^{३ २} विद्धीतनाऽस्य ^{१ २} नो वसो ॥८॥ ऋ० ७। ३१। ४ ॥

१३१—'अत्रादिदिष्ट' इति ऋ० । अत्रादिदिष्टेति स० सा० ।

१३२—'प्रनानुम' 'विद्धी त्व' इति ऋ० ।

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (वृषन्) हे सबसे श्रेष्ठ सुखों के वर्षा करने हारे ! (वयम्) हम (आयवः) ज्ञानशील मनुष्य (त्वा) तुम्हें को (अग्निं प्र नोनुमः) निरन्तर प्रणाम करते हैं । हे (वसो) सब के भीतर वास करने हारे (नः) हमारे (अस्य) इस सबको तू (विद्धि) निश्चय पूर्वक जानता ही है ।

[१३३] आ घा ये अग्निमिन्धत स्तृणन्ति वहिरानुपक् ।

येपामिन्द्रो युवा सखा ॥ ६ ॥ अ० ८ । ४५ । १ ॥

भा०—(ये) जो विद्वान् लोग (अग्निम्) ज्ञानवान् आत्मा को (इन्धते) प्रज्वलित करते हैं और (येपां) जिनका (युवा) अजर, अमर, सदा तरुण, अक्षय बल वाला (इन्द्रः) आत्मा (सखा) मित्र हैं । वे (आनुपक्) निरन्तर (वहिः^१) अपने कर्मबन्धन, देह को (स्तृणन्ति^२) काट डालते हैं । आत्मा के ज्ञान और प्राण दोनों स्वरूपों को जान लेने वाले विद्वान् कर्मबन्धन से मुक्त होजाते हैं ।

‘वहिः’ धान्य को कहते हैं । देह की उपमा उपनिषदों में धान्य और वृक्ष से दी है । जैसे १. ‘सत्यमिव मर्त्यः पच्यते सत्यमिवाजायते पुनः’ (काठकम्) २. ‘ऊर्ध्वमूल अवाक्शास्त्र एषोऽश्वत्थः सनातनः ।’ ‘अहं वृक्षस्य रोहिवा’ (तै० उ०)

[१३४] मिन्धि विश्वा अप द्विपः परि वात्रो जहो मृधः ।

वसु स्पाहं नदा भर ॥ १० ॥ अ० ८ । ४५ । ४० ।

१३३-१. वृहेर्नस्तोपश्च । वृहि वृद्धौ । यस्य त्रिधात्ववृत्तं वहिः, अ० ८ ।

१०२ । ४ अत्रापि वहिः शरीरं त्रिधातुजं वर्णितम् । यथा भागवते-

‘यस्यात्मवृद्धिः कुण्ठे त्रिधातौ’० इत्यादि ।

२. वृश्चति, कुन्तति, स्तृणात्यादयः पर्याया धातवः सर्वे वधकर्माणः ।

नि० २ । १६ ॥

भा०—(विश्वा द्विषः) सब द्वेष करने वालों को हे राजन् !
आत्मन् ! (अप भिन्धि) दूर ही काट डाल और (बाधः) पीड़ा पहुंचाने
वाले, (मृधः) संग्रामकारी हिंसक, सेनाओं को (परि जहि) सब ओर
नाश कर (स्पर्द्धम्) हमारी अभिलाषा के पात्र (तद्) उस (वसु)
हमारे भीतरी आत्मरूप धन को (आ भर) हमें प्राप्त करा ।

बृहदारण्यक उपनिषद् में 'नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति
आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । वेद के शब्दों में आत्मा 'स्पर्द्ध' वसु
या सबसे अधिक प्रिय धन है । 'तत्' यह शब्द उस विस्मृत को याद
कराता है जिसको हम अविद्या के कारण भूल गये हैं, जिसको मैत्रेयी ने
याज्ञवल्क्य से पूछा—'येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्याम् । यदेव भगवान्
वेद तदेव में ब्रूहि' । इस पर याज्ञवल्क्य ने उक्त सिद्धान्त कहकर कहा ।
'एतावदरे खलु अमृतम् ।' यह 'तत्' अन्य उपनिषदों में भी है जैसे—'तदेव
शुक्रं तद् ब्रह्म तदु नात्येति कश्चन, तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इत्यादि ।

इति चतुर्थी दशतिः । द्वितीयः खण्डः ॥

॥ ८० ५ ॥ १ काण्वो घोरः । २ त्रिशोकः । ३ वत्सः काण्वः । कुसीदी काण्वः ।

५ मेधातिथिः । ६ श्रुतकक्षः । ७ श्यावाश्वः । ८ प्रगाथः काण्वः । ९ वत्सः ।

१० इरिमिठः । गायत्री ॥ षष्ठः ॥

३१२

३ २ ३१ २ ३१२ २२

[१३५] इद्रेव अग्रं एषां कशा हस्तेषु यद्वदान् ।

१२ २२ ३१ २

नियामं चित्रमृञ्जने ॥ १ ॥ ऋ० १ । २७ । २ ॥

भा०—(एषां) इन मरुतों प्राणों के (हस्तेषु) हाथों में (कशा)
कशा है । (यद् वदान्) यह जो बात कहते हैं (इह एव शृण्वे) उसको

मैं यहाँ ही सुनता हूँ । वह कशा (चित्रं) अद्भुत प्रकार से (नियामं) नियम, व्यवस्था को (ऋञ्जते) साध रही है ।

‘कशा’ का वर्णन अथर्ववेद (का० ६ । सू० १) में किया है । जैसे—

“य एति मधुकशा रराणा तत् प्राणस्तदमृतं निविष्टम् ।”

पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथक् नरो बहुधा मीमांसमानाः ।

“अग्नेर्नातान् मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नसिः ।”

साधक प्रत्यक्षदर्शी अर्थात् कहता है कि मैं उन मरुतों की कशा (इन्द्र) के नाद को सुनता हूँ, वह विचित्र प्रकार से सपका व्यवस्था में बांधे हैं । अथर्व में इसको ‘मरुतामुग्रा नसिः’ प्राणियों को उग्र रूप होकर बांधने वाली बनलाया है । इसका स्पष्ट विवरण त्रिपुरदहन के अलंकार की व्याख्या में शिव के जगन्नाथ के महारथ पर मरुत् सारथि के हाथों में ओंकार का इन्द्र बतलाया है । शि० पु० । योगी लोग उसी ओंकार के अनाहत नाद को सुनते हैं । उसी का यहाँ विवरण है ।

[१३६] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} इम उ त्वा विवक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । ^{३ १ २}

^{३ १ २ ३ १ २ ३ २} पुष्टावन्तो यथा पशुम् ॥ २ ॥ ऋ० ८ । ४६ । १६ ॥

भा०—(पुष्टावन्तः) पुष्टिकारक पदार्थ घास दाना आदि को हाथ में लिये पशुपालक पुरुष (यथा) जिन प्रकार स्नेह से अपने (पशु^१) पालतू पशु को देखते हैं उसी प्रकार हे (इन्द्र) ! परमेश्वर ! (इमे) ये (सोमिनः) सोमरस या आत्मज्ञान के धारण करने वाले पुरुष तेरे (सखायः) मित्र (त्वा) तुमको देखते हैं ।

स्नेह प्रदर्शनमात्र समान धर्म दिखाया गया है । आत्मज्ञान साधक पुरुष नानास्तुति, ज्ञान चर्चा एवं ध्यान साधना द्वारा अन्नरात्मा एवं ब्रह्म को बुलाते हैं, उसके प्रेम में उसको निरन्तर निहारते हैं कि “अब दर्शन

देता है, अब देता है, अब ! अब ! । गीता में जैसे— 'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाक्षिणः ।'

[१३७] ^{१ २} समन्य ^{३ २ ३ २ ३ १ २} मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः ।

^{३ १ २ ३ १ २} समुद्रायैव सिन्धवः ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ६ । ४ ॥

भा०—(अस्य) इस इन्द्र के (मन्यवे) क्रोध के सामने या मनन ज्ञान, संकल्प के समक्ष (विश्वा) समस्त (विशः) प्रजाएं (नमन्त) ऐसे झुकती हैं, जैसे (सिन्धवः) नदियां । समुद्राय इव) समुद्र में समाजाने के लिये आपसे आप बहती ही हुई चली जाती हैं ।

इस 'मन्यु' को गीता में व्यास ने कहा है ।

"कालोऽस्मिं लोकद्वयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।"

इस ऋचा की व्याख्या की गई है । जैसे—

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखं द्रवन्ति ।

तथा तवाभी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राययभिविद्वलन्ति ॥

गीता ११ । २८ ।

झुकना, जैसे—'सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः' । (गीता ११ । ३६)

[१३८] ^{३ २ ३ २ ३ १ २} देवानामिद्वो महत्तदावृणीमहे वयम् ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २} वृष्णामस्मभ्यमृतये ॥ ४ ॥

ऋ० ८ । ७२ । १ ॥

भा०—(वृष्णाम्) सुखों और ज्ञानों की धार बरसाने वाले (देवानाम्) विद्वान् गुरुओं या प्राणों की (इत्) ही (महत् तत् अबः) बड़ी भारी उस रक्षा या शरण को हम (अस्मभ्यम्-ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (आ वृणीमहे) सब प्रकार से चाहते हैं ।

तैत्तिरीय उप० (व० १ । अनु० १०) में जैसे— " यदि ते कर्मविचिकित्सा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः

युक्ताः आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः । एषः आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ।

तद्विद्धि प्राणैपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

अज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यात्यसि पाण्डव । गी० अ० ५ । ३४-३५ ॥

[१३६] सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते ।

कक्षीवन्तं य औशिजः ॥ ५ ॥ ऋ० १ । २८ । १ ॥

भा०—हे (ब्रह्मणः पते) ब्रह्मणस्पते ! ज्ञानिन् ! (सोमानां) ज्ञानों के योगसाधन से प्राप्त अनुभवों या रसों को प्राप्त करने के लिये (कक्षीवन्तं) कक्ष, छूती में रहने वाले या प्रसिद्ध प्राण को (स्वरणं) सुख से गमन करने वाला एवं (देदाप्यमान) बलसम्पन्न (कृणुहि) कर (यः) जो प्राण (औशिजः) वश द्वारा साध लिया गया है ।

इस प्रकरण को तैत्तिरीयशाखा में इस प्रकार स्पष्ट किया है— “सोमं स्वरणमित्याह सोमपीथमेव अवरुन्धे । कृणुहि ब्रह्मणस्पते इत्याह ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे इत्याह ।” अर्थात् ब्रह्मवर्चस्वी ब्रह्मणस्पति है । उसको ज्ञानः में प्रखरता प्राप्त करने का उपदेश है । इसी प्रकार ‘कक्षीवान्’ के विषय में यास्क कहते हैं ‘कक्षीवान् कक्ष्यावान् । उशिग् वष्टेः कान्तिकर्मणः । (नि० ६ । ३ । १) कक्षो गाहतेः वसः इति नामकरणः । ख्यातेर्वा अनर्थकोऽभ्यासः । किमस्मिन् ख्यानमिति । कपतेर्वा तत्सामान्यान्मनुष्यकक्षः । (नि० २ । १ । ५)” इस प्रकार कक्षीवान्, ज्ञानवान्, ख्यातिमान्, सहायवान् । औशिजः=कान्तिसम्पन्न या कामनासम्पन्न । कक्षी=मनुष्य या प्राणी की कौश्ल्य,

उनमें निवास करने वाला कबीवान् है । और वही शरीर में जठराग्नि के बल से उत्पन्न होने के कारण 'अौशिज' कहाता है । ज्ञानी पुरुष उसको ज्ञान और योगसाधनों द्वारा स्वरण=अधिक शक्ति सम्पन्न, बलवान्, देदी-प्यमान करें ।

[१४०] ^{१ २} बोधन्मना ^{३ १२} इदस्तु ^{३ १} नो ^२ वृत्रहा भूर्यासुतिः ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २} शृणातु शक्र आशिपम् ॥ ६ ॥ अ० ८ । १३ । १८ ।।

भा०—(नः) हमारा (शक्रः) शक्तिशाली आत्मा (वृत्रहा) तामस आवरणों का नाश करने वाला (भूर्यासुतिः) अति अधिक समाहित वृत्ति वाला होकर, (बोधन्मनाः) ज्ञानशील चित्त वाला (इत्) ही (अस्तु) हो । और वह (आशिपम्) आशीर्वाद, उत्तम कामना को (शृणातु) सुने ।

[१४१] ^{३ १ २} अद्य नो ^{३ १ २} देव सवितः ^३ प्रजावत्सात्रीः ^{१ २} सौभगम् ।

^{१ २ ३ १ २} परा दुष्वप्यं सुव ॥ ७ ॥ अ० ५ । ६२ । ४ ।।

भा०—हे (सवितः) सच के प्रेरक, उत्पादक, प्रकाशमान् देव, आत्मन् ! (नः) हमारा (प्रजावत्) अपनी प्रजाओं के समान (सौभगं) उत्तम कल्याण (अद्य) आज, प्रतिदिन (सात्रीः) उत्पन्न कर । (दुष्वप्यं) चित्त में से दुःसंकरणों के कारण होने वाले तन्द्राकालिक प्रमाद को (परा सुव) दूर कर ।

योग के साधनों को करते हुए साधक के आग्रहपूर्वक संवम द्वारा इन्द्रियों का बाह्य निरोध होजाने पर भी मन की पूर्व वासनाएं तन्द्रा के

१४०—'बोधन्मना' इति अ० ।

१४१—'भयानो', 'दुःप्वप्यं' 'दुष्वप्यं' इति अ० ।

अवसर पर दुःस्वप्नों का कारण होती हैं । उनको दूर करने और शुभ विचारों के प्रचल होने की इस मन्त्र में प्रार्थना है ।

[१४२] का३ स्य वृषभा युवा तुविप्रीवो अनानतः ।

ब्रह्मा कस्तं सपर्यति ॥ ८ ॥

श्र० ८ । ६४ । ७ ॥

भा०—(वृषभः) इन्द्रियरूप गौश्रों में बैल के समान भोक्रा सर्व-श्रेष्ठ, मेघ के समान सुखों का वर्षक, (युवा) सदा अजर, (अनानतः) कभी किसी के आगे न झुकने वाला, स्वच्छ, (तुविप्रीवः) बहुतसी ग्रीवा वाला, इन्द्र (स्यः क) वह आत्मा कहाँ है ? (तं) उसको (कः) कौन (ब्रह्मा) ब्रह्म को जानने वाला विद्वान् (सपर्यति) उसकी पूजा करता है । अर्थात् हे ज्ञानी पुरुषो ! तुम उस अप्रतर्क्य, अवाह्मनसगोचर सहस्रशीर्षा पुरुष की विवेचना करो और उसके सच्चे उपासक ब्रह्मज्ञानी की भी पहचान करो ।

कथमिन्द्रो बहुप्रीवः ? उच्यते । परमात्मस्वरूपत्वात् । 'सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमह्लोकं सर्वमावृत्य तिष्ठति, इति मा० त्रि० । तुवीति बहुपर्यायः । (नि० ३ । १ । ३ ।) ग्रीवा निगमरणात् कश्चेति अनुदात्तं प्रभ्रान्ताभिपूजितयोरिति प्लुतिरनुदात्तश्च (पा०)

इन्द्र बहुप्रीव किस प्रकार है ? गीता कहती है—

“... बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुग्राहुरूपादम् ॥”

बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं ॥ अ० ११ । २३ ॥

अनेक वक्त्रनयनमनेकाद्भुनदर्शनम् ।

सर्वाश्रयमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥

जैसा वेद में भी लिखा है—'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राङ्गः सहस्रपात्'

(यजु० ३१ । १ ॥)

[१४३] उपद्वरे गिरिणां सङ्गमे च नदीनाम् ।

त्रिया विप्रो अजायत ॥ ६ ॥

श्र० ८ । ६ । २८ ॥

भा०—(गिरिणां) पर्वतों के (उपद्वरे) तट प्रान्त में और (नदीनां च) नदियों के (संगमे) संगम स्थान पर (धिया) ज्ञान शक्ति और कर्म के अभ्यास से (विप्रः) मेधावी पुरुष (अजायत) तैयार हुआ करता है ।

तपस्वी लोग एकान्त गिरिकन्दरा और प्राकृतिक रमणीय नदी संगमों पर ध्यान, ज्ञान, तप, जप करके शक्तिमान् होते हैं । आत्मा के पक्ष में—(गिरिणां) मेरुदण्ड के पोरुओं के समीप और इडा, पिंगला और सुषुम्ना इन (नदीनां) नाड़ियों के संगम स्थान त्रिकुटी में ध्यान लगाने से दिव्य ज्ञानवान् पुरुष सिद्ध हो जाता है । अथवा—गिरयः=स्तोतारः । नद्यः=मरस्वत्यः । धीरध्ययनम् । कवियों, ज्ञानप्रवक्त्राओं के पास वेदवाणियों के परस्पर संगम स्थल, सभा स्थानों में अध्ययन करने और मनन करने से विप्र, विद्वान्, ब्रह्मज्ञानी होजाता है ।

[१४४] प्र सम्राजं चर्पणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः ।

नरं नृपाहं माहृष्टम् ॥ १० ॥

श्र० ८ । १६ । १ ॥

भा०—(चर्पणीनाम्) तत्त्वदर्शी, आचारवान् पुरुषों के बीच (सम्राजं) प्रकाशमान, (नव्यं) स्तुति करने योग्य, (इन्द्रं) ऐश्वर्यसम्पन्न (नरं) सबके नेता, (नृपाहं) सब मनुष्यों को अपने तेज से दबाने वाले, (माहृष्टं) सबसे अधिक पूजनीय परमेश्वर की (प्र स्तोत) उत्तम रीति से स्तुति करो ।

१४३—'संगमे च नदीनाम्' इति श्र० ।

१. गु म्भुतो (तुदादिः) नव्यं स्तुतियोग्यमित्यर्थः ।

चर्षण्यः—चरणवन्तः चरणशीलाः । चरतेरनिरौणादिः । कृपेर्वा ।
यद्वा चायितारो द्रष्टारः । विचर्षणिः पश्यतिकर्मा । (नि० २ । २)

चर्षणिश्चाथिता द्रष्टा इति स्कन्दस्वामी । चर्षण्यो मनुष्याः (नि०
२ । ३ ।)

इति पञ्चमी दशतिः । तृतीयः खण्डः ॥



॥द०६॥ ऋषिः—श्रुतकक्षः सुकक्षो वा । २ मेधातिथिः । ३ गोतमः । ४ भरद्वाजः ।

५ विन्दुः पूतकक्षो वा । ६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा । ८ वत्सः काण्वः ।

९ शुनःशेषः । १० शुनःशेषो वाग्देवो वा ॥ इन्द्रो देवता ॥

गायत्री । षड्जः ॥

[१४५] अपातुशिप्रथन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः ।

इन्द्रारिन्द्रा यवाशिरः ॥ १ ॥

ऋ० ८ । १२ । ४ ॥

भा०—(शिप्री) एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला या
प्राणों का स्वामी । (इन्द्रः) ऐश्वर्यशील आत्मा (सुदक्षस्य) कार्यसम्पादन
में कुशल, बलसम्पन्न, (प्रहोषिणः) उत्तम रीति से हवन, दान-आदान
करने वाले (इन्द्राः) प्रदोष्ट, (यवाशिरः) अन्न के सारभूत अंश से मिल
कर परिपक्व (अन्धसः) प्राणधारण सामर्थ्य को (अपात्) पान या
पालन करता है ।

‘प्रहोषिन्’—इसकी व्याख्या देखिये (गीता अ० ४ । २३-३१ ।)
इसमें बहुत से यज्ञ दर्शाये हैं जैसे १. ब्रह्मार्पण ब्रह्महविषाग । २. इन्द्रियों
की संयम में आहुति । ३. शब्दादि ब्राह्म विषयों की इन्द्रियों में आहुति,
४. ज्ञानेन्द्रिय आर ५. प्राणेन्द्रिय कर्मों की संयमाग्नि में आहुति, ६.
द्रव्ययज्ञ, ७. तपोयज्ञ, ८. योगयज्ञ, ९. स्वाध्याय यज्ञ, १०. ज्ञानयज्ञ,
११. अपान में प्राण की आहुति, १२. प्राण में अपान की आहुति, १३.

प्राणों की प्राणों में आहुति इत्यादि । इनके कर्त्ता सभी 'प्रहोपी' है । इनमें सबसे श्रेष्ठ सुदृढ ज्ञानी वह है जो अपने ज्ञानाग्नि अर्थात् चेतना शक्ति में सब कर्म-शक्ति अर्थात् अन्न की जीवन शक्ति को एक करके कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है ।

[१४६] इमा उ त्वा पुरुवसोभि प्र नोनवुर्गिरः ।

गावो वत्सं न धेनवः ॥ २ ॥ अ० ६। ४५। २५ ॥

भा०—हे (पुरुवसो) ऐश्वर्यवन् परमेश्वर ! एवं हे इन्द्रियों में भी सामर्थ्य रूप से घसाने वाले आत्मन् ! (इमाः) ये (गिरः) वाणियां वेदवाणियां (धेनवः) दूध देनेहारी, (गावः) गौएं (न) जैसे अपने (वत्सं) बछड़े के पास चली जाती हैं उसी प्रकार (त्वाः) तुम्हको ही (अभि प्र नोनवुः) साक्षात् स्तवन करती हैं ।

जैसे—'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इति उप० ।

[१४७] अत्रा ह गारमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् ।

इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३ ॥ अ० १। ८४। १५ ॥

भा०—(अत्र ह) यहां निश्चय से (त्वष्टुः) दीप्तिमान्, तेजस्वी सूर्य की (गोः) गमनशील किरण का (अपीच्यम्) कुछ सुपुस अंश ही (चन्द्रमसो गृहे) चन्द्रमा के घर में (नाम) गया हुआ है । (इत्था अमन्वत) ऐसा मानते हैं ।

इस प्रकरण में प्राण ही त्वष्टा है जो गर्भगत पुरुष को ६, १० मास में शनैः २ बनाता है । गर्भाशय का गुप्तभाग चन्द्रमा का घर है जो १६ कलायुक्त है । जो क्रम से एक पक्ष में घटता और १५ दिन में बढ़कर पुनः अतुकाल में बेला के समान उन्निहित होता है । उस स्थान पर भी

१४६—१. इमा उता शतक्रतोऽभिप्रगोनवुर्गिरः । इन्द्र वत्सं न मातरः ; अ० ।

सृष्टिकर्ता परमात्मा की ही यह शक्ति है जो गर्भ में भी गुप्तरूप से विद्यमान है। उस गर्भ में भी गति है। उसमें भी मुख्य प्राण-आदित्य का ही अंश प्रसुप्तरूप में शनैः २ बढ़ता है। अथवा त्वष्टा पुरुष को कहते हैं पुरुष का वीर्यांश ही गर्भाशय में जाता है। जैसा उपनिषद् में लिखा है। 'पुरुषे हवा अयनादितो गर्भो भवति। यदुतद् रेतस्तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं विभक्तिं। तद्यदा स्त्रियां सिञ्चति अथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म, इत्यादि (एत० उप० अ० २ । १-६)। प्राणरथि की विवेचना करते हुए उपनिषत्कार (प्रश्न० उ०) ने पुरुष को आदित्य और प्राण और स्त्री को चन्द्र और रथि माना है। इस मन्त्र को उद्धृत करके यास्कने लिखा है—'अथाप्यस्यैको रश्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यम्। आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति इति। सुपुग्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः इत्यपि निगमो भवति। सोऽपि गोरुच्यते, अत्राह गोरमन्वतेति तदुपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः।

अर्थः—आदित्य भी 'गौ' कहाता है। इसकी एक रश्मि चन्द्रमा को प्रकाशित करती है। जैसे यजुर्वेद (१८ । ४०) में लिखा है। इस सुपुग्णा को भी 'गौ' कहते हैं जैसे 'अत्राह गोरमन्वत' इत्यादि मन्त्र का व्याख्यान आगे यास्क ने (४ । ४) में किया है कि 'अत्राह गोः सममंसत आदित्य-रश्मयः। स्वं नाम अपीच्यं अपगतमपचितमपहितमन्तर्हितं वाऽमुत्र चन्द्रमसो गृहे।'

आधिदैविक पक्ष में यास्क का यह व्याख्यान है। परन्तु शरीर पक्ष में उपनिषदों का मूल सिद्धान्त ग्रहण करने योग्य है। उपनिषदों में गर्भ में जीव की स्थिति एवं पुष्टि और जन्म और शरीर-रचना जीवनयात्रा आदि के प्रश्नों की खूब सूक्ष्म विवेचना की है। छान्दोग्य के तृतीय प्रपाठक में आदित्य की सब रश्मियों की विवेचना मुख्य प्राण को लक्ष्य करके की है।

[१४८] ^{२४ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २} यद्दिन्द्रो अनयाद्रिता महारिपो वृषन्तमः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २} तत्र पूषा भुवत्सचा ॥४॥ ऋ० ६ । ४६ । ४ ॥

भा०—(यद्) जब (वृषन्तमः) सर्वत्र, लोम २ में रस का वर्षण उत्तम रूप से करने वाला (इन्द्रः) आध्मा (रितः) गति करने वाले (महीः अपः) बड़ी नाड़ियों को (अनयद्) समस्त शरीर में पहुंचाता है (तत्र) वहां (सचा) साथ ही वह (पूषा) पोषण करने वाले सामर्थ्य से भी युक्त (भुवत्) हो जाता है ।

आत्मा ही देह में सर्वत्र रस पहुंचाता है और पुष्टि भी करता है । विशाल ब्रह्माण्ड में ईश्वर की शक्ति वर्षा भी करती है और अन्न भी उत्पाद करती है ।

[१४९] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} गौर्धृगति मरुतां श्रवस्थ्युर्माता मघोनाम् ।

^{३ २४ ३ १ २} युक्ता वह्नी रथानाम् ॥२॥ ऋ० ८ । ९५ । १ ॥

भा०—(मघोनां) जीवन-यज्ञ के सम्पादन करने वाले (मरुतां) प्राणों की (माता) उत्पादक, जननी (गौ) चेतनस्वरूपा चित्तिशक्ति (श्रवस्थ्युः) अन्न की या ज्ञान की कामना करती हुई (धयति) अपना सोम-रूप ज्ञान पिलाती और वह स्वयं (रथानां) रथस्वरूप दूर तक जाने वाले प्राणोन्धियों और ज्ञानेन्द्रियों में (युक्ता) जुत कर (वह्नी) उन को उठा रही है । आत्मा की चेतना शक्ति इन्द्रियों को चेतन करती है वही उनको पदार्थों तक पहुंचाती है ।

मरुतां की गौ की व्याख्या देखिये — अथर्ववेद (का० १० । सूक्त १०) यह वशा रूप गौ है ।

शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्सारः पृष्ठे अस्याः ।

ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥

इही गाँ 'पृश्नि' कही है । इसका वर्णन ऋग्वेद (ऋ० १००। १०-१३) में इस प्रकार है ।

“यद्वाग् वदन्त्यविचेतनानि, राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा ।

चतस्रोऽनुदिश ऊर्जं दुदुहे पयांसि क्वचिदस्याः परमं जगाम ॥”

[१५०] उप नो हरिभिः सुत याहि मदानां पते ।

उप नो हरिभिः सुतम् ॥ ६ ॥ ऋ० ८ । ९३ । ३१ ॥

भा०—(मदानां पते) सब आनन्दों और ज्ञान, विवेकों के पालन करने हारे, (नः) हमारे (हरिभिः) ज्ञान इन्द्रियों द्वारा (सुतं) उत्पादित ज्ञान को (उप याहि) तू प्राप्त कर । (नः) हमारे (हरिभिः सुतम्) प्राण इन्द्रियों द्वारा किये कर्म और उनसे उत्पन्न सुख भोग को तू (उप याहि) प्राप्त हो ।

[१५१] इष्टा होत्रा असृक्षतन्द्र वृधन्ता अध्वरे ।

अच्छावभृथमाजसा ॥ ७ ॥ ऋ० ८ । ९३ । २३ ॥

भा०—(अध्वरे) इस हिंसारहित या कभी नष्ट न होने वाले जीवन मय या आत्मज्ञानमय यज्ञ में (इष्टाः) याग करने वाले या विषयरूप इन्द्रियों की आहुति प्राप्त करने वाले (होत्राः^१) प्राण्य विषयाहुति को भांतर के चितिशक्ति की ज्वाला में हवन करनेवाले सात ऋषि, सात इन्द्रियां (इन्द्रं वृधन्तः) आत्मा के ऐश्वर्य, ज्ञान गौरव को बढ़ाते हुए (आजसा) ज्ञान और बल से (अवभृथम्) पूर्ण समाप्ति के अवभृथ

स्नान पर्यन्त (अच्छा) उत्तम रूप से (असूतत) यज्ञ करते हैं और विस्मर्जन करते हैं ।

ब्राह्म यज्ञ की आध्यात्म व्याख्या का यह मूलमन्त्र है । शिर में सात छिद्र, २ आंख, २ नाक, २ कान, १ मुख ये सात ऋषि, सात होता हैं मुख्य आसन्य प्राण-आत्मा 'इन्द्र' है, वाक् सरस्वती यज्ञ की सम्पादिका भिषक् है, चितिशक्ति शची है । इत्यादि वैदिक अलंकार हैं । विशेष देखो छान्दोग्य उप० (अ० ३ । ख० १६, १७ ।)

[१५२] ^{३ २ ३} अहमिद्वि ^{३ १ २ २ ३ २ ३ १ २} पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह ।

^{३ १ २} अहं ^{३ २} सूर्ये इवाजनि ॥ ८ ॥ अ० ८ । ६ । १० ॥

भा०—(अहम्) मैं (इत् हि) ही निश्चय से (पितुः) अपने पालक पिता परमेश्वर के (ऋतस्य) सत्य, ज्ञान, वेद और शक्ति सामर्थ्य के लिये (मेधाम्) धारणावती बुद्धि को (परि-जग्रह) सब ओर से ग्रहण करूं । (अहं) मैं (सूर्ये इव) सूर्य के समान (अजनि) होजाऊं ।

चतुष्पाद् ब्रह्म की उपासना का फल उपनिषत्कार कहते हैं—“भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ।” (छान्दोग्य अ० ३ । ख० १८ ।) ऋत की मेधा का ग्रहण देखिये छान्दोग्य (अ० ३ । ख० १५) इयमे वसुधान कोश (खजाना) अपने पिता से प्राप्त किया जा रहा है । जिसका वर्णन उपनिषत्कार ने किया है—

अन्तरितोदरः कोशो भूमिवृष्टो न जीर्यति ।

दिशो ह्यस्य स्रक्तयो धारस्योत्तरं बिलम् ॥

स एव कोशो वसुधानस्तास्मिन् विश्वमिदं ध्रितम् ॥

इसाका वर्णन देखिये तैत्तिरीय उप० (अनु० ४ ।)

[१५३] ^{३१ २ ६} रेवतीः ^{३ २ ३ १} सधमाद् इन्द्रे ^{३ १ २} सन्तु ^{३ १ २} तुषिवाजाः ।

^{३ २ ३ २ ३ १ २} जुमन्ता याभिमदेम ॥ ६ ॥

ऋ० १ । ३० । १३ ॥

भा०—(इन्द्रे) आत्मा के (सधमादे) हमारे साथ २ हर्षयुक्त सुप्रसन्न होजाने पर (नः) हमारी (रेवतीः) प्राणोन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियां (तुषिवाजाः) खूब बलवती होजायं । (याभिः) जिनके साथ हम (जुमन्तः) अन्न, भोग, गृह आदि से सम्पन्न होकर (मदेम) आनन्द अनुभव करें । गृहस्थ पक्ष में—रेवतीः=स्त्रियः । राष्ट्र पक्ष में—रेवतीः=प्रजाः ।

[१५४] ^{१ २ ३ १ २} सोमः ^{३ १ २} प्रपा च ^{३ १ २} चेततुर्विश्वासां ^{३ २} सुक्षितीनाम् ।

^{३ २ ३ २ ३ २} देवत्रा रथ्योहिता ॥ १० ॥

भा०—(सोमः) सबका प्रेरक और सबका उत्पादक और (पूषा) सबका पोषण करने वाला परमात्मा (देवत्रा) समस्त देव, पाँचों भूतों और भौतिक शक्तियों में और आत्मा देहस्थ इन्द्रियों में व्यापक है और वही (विश्वासां सुक्षितीनाम्) समस्त निवास योग्य भूतों, दुनियाओं और समस्त प्राणियों के (रथ्योः) दोनों प्रकार के कर्म और भोग योनियों के (हिता) हितकारी होते हुए (चेततुः) आहार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं, एवं सन्मार्ग पर चलने के लिये चेताते हैं ।

दो ही मार्ग से ज्ञान प्राप्त होता है एक उपदेश से, दूसरी आवश्यकता या निज अनुभव से । परमात्मा प्राणियों को एक तो सोम अर्थात् ज्ञानवान् परम गुरु के रूप में ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रेरित करता है । दूसरा पूषा अर्थात् प्राणी शरीर की आवश्यकता भूख प्यास आदि से प्रेरित होकर पदार्थों को खोजते हैं और निजी अनुभव से अपने हित अहित का ज्ञान करते हैं । ईश्वर दोनों रूप से उनको ज्ञान दे रहा है । जैसे रोटी के टुकड़े

से कुत्ते को सधाते हैं उसी प्रकार ईश्वर भी-अन्नादि की वासना से पृथ्वी पर अन्नादि रखकर प्राणियों को उसके खोजने और प्राप्त करने के मार्ग में सधाता है । जीव भी कर्म फल, सुख दुःख भोग २ कर पुनः ज्ञानमार्ग पर आजाते हैं । जीवों के भोगों की व्यवस्था करने वाला वह 'पूपा' है । विद्वानों के हृदय में ज्ञान प्रेरणा करने और सबको उत्पन्न करने से वह 'सोम' है । दो भिन्न २ व्यवस्थाओं के भिन्न २ रूप पृथक् २ दर्शाने के निमित्त द्विवचन का प्रयोग है ।

इति षष्ठी दशतिः । चतुर्थः खण्डः ।



॥ ६० ७ ॥ ऋषिः—१, ४ श्रुतकक्षः । २ वसिष्ठः । ३ मेधातिथिप्रियमेधौ । ५ इरिमिठिः । ६, १६ मधुच्छन्दाः । ७ त्रिबोकः । ८ कुसीदः ।

९ शुनःशेषः । इन्द्रो देवता ॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २
[१५५] पान्तमा वा अन्धस इन्द्रमभिप्रगायत ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
विश्वासाहं शतक्रतुं महिष्ठं चर्षणीनाम् ॥१॥ ऋ० ८।९२।१॥

भा०—(वः) आप लोग (अन्धसः) जीवन धारण कराने वाले अन्न के सूक्ष्म, रस रूप सोम को (आ-पान्तम्) अभिमुख प्रत्यक्षरूप में प्राप्त करने वाले, (विश्वासाहं) सब को अभिभव करने, समस्त इन्द्रियों से बढ़ जाने वाले, सबको परास्त करने वाले (शतक्रतुं) सैकड़ों कर्म करने में समर्थ, सैकड़ों प्रज्ञाओं से युक्त, (चर्षणीनां) तत्वदर्शियों के (महिष्ठं) एकमात्र आनन्द देने वाले, या इन्द्रियों में शक्ति देने वाले, पूजनीय उपास्य देव आत्मा और परमात्मा की (अभि प्रगायत) साक्षात् स्तुति करो ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१५६] प्र च इन्द्राय मादने हर्थश्वाय गायत ।

१ २ ३ १ २
सखायः सोमपावने ॥ २ ॥

ऋ० ७ । ३१ । १ ॥

१५६—१. कै गै स्तुतौ । स्तुतिः प्रज्ञा इति यास्कः (नि० २ । ७ । ३ ।)

भा०—हे (सखायः) समान कीर्ति वाले मित्र ! (वः) आप लोग (सोमपान्ने) सोम-ज्ञान, अन्न रस का पान करने वाले, (हर्यश्वाय) विषयों के प्रति लेजाने वाले, इन्द्रिय साधनों से सम्पन्न (इन्द्राय) ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र, अपने अन्तरात्मा को (मादनं) प्रसन्न करने के लिये (प्र गायत) उत्तम रीति से गान करो, उसका कीर्तन करो, उसका ज्ञान करो ।

[१५७] ^{३ १ २} वयमु ^{३ १ २ ३ १ २} त्वा तदिद^{३ २ ३ १ २}र्था इन्द्र ^{३ २ ३ १ २} त्वायन्तः सखायः ।

^{१ २ ३ १ २} करवा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ ३ ॥ अ० ८ । २ । १६ ॥

भा०—(वयम्) हम और (करवाः) मेधावी विद्वान् लोग, हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वायन्तः) तेरी कामना करते हुए, तेरे प्रेमी, तुम्हें प्राप्त करने में लगे हुए (सखायः) समान ख्याति वाले (तदि-इद् अर्थाः) उस परम तत्त्व तुम्हें एकमात्र अपना इष्ट प्रयोजन जानते हुए (त्वा) तेरी (उक्थेभिः) मन्त्रों द्वारा (जरन्ते) स्तुति करते हैं, तेरे स्वरूप का वर्णन करते हैं ।

[१५८] ^{१ २ ३ १ २} इन्द्राय मद्दने ^{३ १ २ २ ४} सुतं परि ^{३ १ २} षोभन्तु ^{३ १ २} नो गिरः ।

^{३ १ २} अर्कमचन्तु ^{३ १ २} कारवः ॥ ४ ॥ अ० ८ । २ । १९ ॥

भा०—(नः) हमारी (गिरः) वेदवाणियों (मद्दने) हर्ष, प्रसाद युक्त (इन्द्राय) आत्मा के योग्य (सुतं) सोम, ज्ञान और उत्तम पदार्थ को (परिषोभन्तु) वर्णन करें । (कारवः) कर्मण्य, विद्वान् लोग (अर्कम्) उस पूजा के योग्य उपास्यदेव की (अर्चन्तु) उपासना करें ।

इसके पूर्व भी अन्धस्, सोम आदि शब्द आये हैं जिनका अर्थ यज्ञ प्रकरण में याज्ञिक लोगों ने सदा सोमलता का रस ही लिया है, परन्तु उपासना या आत्म विज्ञान काण्ड में ज्ञान और अन्न का सूक्ष्म रस और भोग्य पदार्थ ही लेना उचित है । वेद में भी इन शब्दों को उस अर्थ में

प्रयोग किया है। जैसे (अ० ८। ६४। १०)—“अयं ते मानुषे जने सोमः पुरुषु सूयते। तस्येह प्र दवा पिब ॥” प्रत्येक मनुष्य में उसकी (पुरुषु) इन्द्रियों में वह सोम उत्पन्न होता है जिसके लिये हे आत्मन् ! तू आ और पान कर।

[१५६] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अयं त इन्द्र सोमो निपूता अधि वर्हिषि ।

^{१ २ ३ २ ३ ३ १ २} एहीमस्य द्रवा पिब ॥ ५ ॥ अ० ८। १७। ११ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (अयं) यह (सोमः) सोम, ज्ञान (ते) तेरे लिये (अधि वर्हिषि) प्रति यज्ञ और प्रति देह में (निपूतः) प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा संशोधित, संस्कृत किया जाता है। (इम्) इस समय (अस्य) इसके पान करने के लिये (एहि) आ और (दव) शीघ्र आ, (पिब) पान कर।

बर्हिः, यज्ञः, धान्यम्, कुशाः शरीरम्, अन्तरिक्षम्, ये इत्यादि पर्याय हैं।

[१६०] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} सुरूपकृत्नुमूतय सुदुघामिव गोदुहे ।

^{३ २ ३ १ २} जुहूमसि दधिदधि ॥ ६ ॥ अ० १। ४१ ॥

भा०—(गोदुहे) दूध के दोहने के लिये जिस प्रकार (सुदुघाम्) उत्तम रूप से दूध देने वाली गाय को प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार (सुरूपकृत्नुम्) उत्तम ज्ञान और कर्म सम्पादन करने वाले इन्द्र को (ऊतये) अपने को पापाचरण से बचाने के लिये (दधि-दधि) प्रतिदिन (जुहूमसि) हम स्मरण करते और उसकी स्तुति करते हैं।

[१६१] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये ।

^{३ १ २ ३ १ २} तृप्ता व्यश्नुही मदम् ॥ ७ ॥ अ० ८। ४५। २२ ॥

भा०—हे (वृषभ) अन्तरात्मा में सुख की वर्षा करने हारे श्रेष्ठ ! (सुते) सोम=ज्ञान या साधना, कर्म के उचितरूप से होजाने पर उसके (पीतये) रस पान करने के लिये (सुतं) उत्तम ज्ञान का (त्वा अभि सृजामि) तेरे सन्मुख ही सम्पादन करता हूं । (तृष्प) तू उससे तृप्त हो और (मदम्) हर्ष, सुख को (वि-अश्नुहि) प्राप्त कर ।

योगी, अवधूत लोग समाधि-रस को मद्यरस से तुलना देते हैं और आत्मा को बुलाते हैं । धर्ममेव समाधि की सिद्धि प्राप्त होजाने पर आत्मा की वह अवस्था होजाती है ।

[१६२] य इन्द्र चमसप्त्वा सोमश्चमूपु ते सुतः ।

पिबेदस्य त्वमीशिपे ॥ ८ ॥

ॐ ८ । ८२ । ७ ॥

भा०—(यः सोमः) जो सोम हे (इन्द्र) आत्मन् ! (चमसेपु^१) चमस पात्रों में (सुतः) तैयार किया है वह (ते) तेरे लिये (चमूपु) छोटे २ पाने के पात्रों में भी है । (अस्य इत्) इसको ही तू (पिब) पानकर (त्वम्, ईशिपे) तू ही इसका समर्थ स्वामी है ।

'चमसेपु'— सूर्यपत्त में चमस मेघ हैं, आत्मपत्त में प्रत्येक पुरुष का मस्तक चमस है । जैसा उपनिषद् में "अर्वाग् बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः" । "चम्वौ द्यावापृथिव्यौ" । द्योलोक और पृथिवी लोक 'चमू' हैं । शरीर में द्यौ स्थान मस्तक ही है । उसमें भी सात इन्द्रियां उस इन्द्र के आचमन पात्र हैं, उनमें वह ज्ञान ग्रहण करता या मस्तक के कोष्ठ (Cells) ही उनके नाना प्रकार से सोमास्वादन के निमित्त पात्र हैं । इन्द्र ही आत्मा है । इस सिद्धान्त की विशद व्याख्या देखो (ऐतर्य उप० ख०) "स एतमेव

१६२—१. चमु, अदने स्वादिः । चमन्ति भक्षयन्ति अत्रेति (सा०) चमस इति

पुरुषं ततमपश्यद्-इदमदर्शमिदमदर्शमितीम् । तस्मादिन्द्रो नामेन्द्रो ह
 त्वं नाम तमिन्द्रं सन्तमिन्द्र इयाचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया हि देवाः ॥

[१६३] योगे योगे तवन्तरं वाजे वाजे हवामहे ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २

सखाय इन्द्रमूतये ॥ ६ ॥

ऋ० । १ । ३० । ७ ॥

भा०—(योगे योगे) प्रत्येक समाधि काल में और (वाजे वाजे)
 प्रत्येक ज्ञानप्राप्ति के अवसर में या प्रत्येक बलकर्म के अवसर में
 (तवन्तरम्) अति बलशाली, अति वेगवान् (इन्द्रम्) इन्द्र आत्मा को हम
 (सखायः) सब मित्र के समान प्रेमाजन (हवामहे) बुलाते हैं या उसका
 गुणगान करते हैं ।

योगः—“तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्” । गीता० ।
 योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । पात० योगसूत्र १ । १ ॥

दो ही कार्य बल से सम्पादन किये जाते हैं एक घोर संग्राम और
 दूसरा ध्यानयोग । दोनों में बली आत्मा को ही स्मरण किया और उसको
 ही पुकारा जाता है । योगी को “बलेषु हस्तिबलादीनि” । हाथियों का बल
 तक भी प्राप्त हो जाता है । संग्राम के अवसर पर भी श्रीकृष्ण ने अर्जुन
 के आत्मा को चेताया । वह वाज या संग्राम के अवसर पर इन्द्र का
 आवाहन था ।

२३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

[१६४] आत्वंता निपीदतन्द्रमभिप्रगायत ।

१ २ ३ १ २


सखायः स्तोमवाहसः ॥ १० ॥

ऋ० १ । ५ । १ ॥

भा०—हे (सखायः) मित्रो ! (आ एत तु) आओ और (आ
 निपीदत) आम्हें सामने आकर बैठ जाओ । हे (स्तोमवाहसः) स्तुतियों
 को धारण करने हारे विद्वान् लोगो ! (इन्द्रम् अभि मू) इन्द्र आत्मा
 का उत्तम रीति से साक्षात् दर्शन करके उसका यथार्थ वर्णन करा ।

ताण्डय ब्राह्मण में त्रिवृत्, पञ्चदश, सप्तदश, एकाविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश और चतुर्विंश, चत्वारिंश और अष्टाचत्वारिंश इस प्रकार ६ स्तोमों का वर्णन किया है । इनका विशेष प्रकार से, गान करने का प्रकार उक्त ब्राह्मण में ही दर्शाया है ।

इति सप्तमी दशतिः । इति पञ्चमः खण्डः ।



॥ द० ८ ॥ १ विश्वामित्रः । २ मधुच्छन्दाः । ३ कुसीदः काण्वः । ४ प्रियमेधः ।

५, ८ वामदेवः । ६, ९ श्रुतकक्षः । ७ मेधातिथिः । १० विन्दुः ॥

इन्द्रो देवता ॥ गायत्री ॥ पङ्कः ॥

[१६५] इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते ।

पिवा त्वा३ स्य गिर्वणः ॥ १ ॥ ऋ० ३ । ५१ । १० ॥

भा०—हे (राधानां पते) हे समस्त धनों, ज्ञानों और साधनों के स्वामी ! (इदं) यह (अजसा) बलपूर्वक (सुतं) निष्पादित (गिर्वणः) हे वाणी से कथन या प्रशंसा करने तू योग्य (अस्य) इस ज्ञान को (तु) भी (आ पिवा) पान कर ।

[१६६] महान् इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रिण ।

द्यान् प्रथिना शवः ॥ २ ॥ ऋ० १ । ८ । ५ ॥

भा०—(महान्) बड़ा आत्मा (नः) हमारे (पुरः च) आगे सदा विद्यमान रहता है । (वज्रिण) सब भयों के वारण करने हारे उस आत्मा की (महित्वम् अस्तु) महिमा बर्ना रहे । (शवः) उसका बल, ज्ञान (प्रथिना) विस्तृत होने से (द्यौः न) द्यौलोक या सूर्य के समान है ।

१६५—'अन्व' अदे इति ऋ० ।

१६६—'पुरश्च नु' इति ऋ० ।

[१६७] ^{२२ २२ ३ १ २ ३ १ ३ १ २ २} आ तू न इन्द्रं क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सङ्गृभाय ।

^{३ १ २ २ २} महाहस्तीं दक्षिणेन ॥३॥ ऋ० ८ । ८१ । १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (महा हस्ती) बड़े भारी हस्त=धारक प्रयत्न वाला तू (क्षुमन्तं) अन्न, और गृह से सम्पन्न (ग्राभं) ग्रहण करने योग्य (चित्रं) ज्ञान को (दक्षिणेन) उत्तम साधन से (आ संगृभाय) संग्रह कर ।

[१६८] ^{३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} अभि प्र गोपतिं गिरन्द्रमर्चं यथा विदे ।

^{३ २ ३ २ ३ १ २} सूनु सत्यस्य सत्पतिम् ॥४॥ ऋ० ८ । ६६ । ४ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (गोपतिं) वाणी और, रश्मियों, इन्द्रियों के स्वामी पालक (सत्यस्य सूनुम्) सत्य को उत्पन्न करने हारे, (सत्पतिम्) सत्य पदार्थ या सज्जनों के पालक (इन्द्रम्) इन्द्र को (यथा विदे) यथार्थ ज्ञान के लिये (अभि प्र-अर्चं) साक्षात् रूप से स्तुति कर ।

[१६९] ^{१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} कया नश्चित्रं आभुवद्वृती सदावृधः सखा ।

^{३ १ २ ३ २} कया शचिष्ठया वृता ॥५॥ ऋ० ४ । ३१ । १ ॥

भा०—(सदावृधः) सत्य के बल से अधिक बढ़ने वाला इन्द्र (चित्रः) ज्ञान करने योग्य, पूज्य अद्भुत, (नः) हमारा (कया) किस अपूर्व (ऊत्या) रक्षण करने वाले सामर्थ्य या ज्ञान से और (कया) किस (शचिष्ठया) शक्ति सम्पन्न बलयुक्त या बुद्धिमत्तायुक्त आश्चर्यमय शक्ति से, (कया वृता) और किस व्यवहार से (सखा) हमारा मित्र (आभुवद्) हो ।

[१७०] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्षायतम् ।

^{१ २ ३ १ २} आच्यान्नयस्यूनये ॥६॥ ऋ० ८ । ६२ । ७ ॥

भा०—हे विद्वान् स्तोतः ! (सत्रासाहं) सब को एक साथ विजय कर लेने हारे (वः) तुम्हारे (विश्वासु) समस्त (गीर्षु) वाणियों में (आयतम्) विद्यमान, वर्णित (त्यम्) उस आत्मा को (उतये) अपनी रक्षा के लिये (आच्यावयसि) साक्षात् कर ।

[१७१] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २} सदसस्पतिमद्भुतं प्रियामेन्द्रस्य काम्यम् ।

^{३ २ ३ १ २} सति मेधामयासिपम् ॥७॥ ऋ० १ । १८ । ६ ॥

भा०—(सदसस्पतिं, शरीर के भीतर यथास्थान विराजमान, इन्द्रियों के पालक (अद्भुतं) अभूतपूर्व, (इन्द्रस्य प्रियम्) अन्तरात्मा के अत्यन्त प्रिय, (काम्यं) कामना करने योग्य, (सति) सत् असत् का विभाग करने हारे, (मेधाम्) धारणावती उत्कृष्ट आत्मबुद्धि को देने हारे विवेक को (अहम्) मैं (अयासिपम्) प्राप्त होऊँ ।

[१७२] ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २} ये ते पन्था अत्रा दिवो येभिर्धैश्वरैरयः ।

^{३ २ २ ३ १ २} उत श्रोपन्तु ना भुवः ॥८॥

भा०—हे इन्द्र ! आत्मन् ! (ये) जो (पन्थाः) मार्ग (ते) तेरे (दिवः अधः) चौलोक, ब्रह्माण्ड, मस्तक कपाल के नीचे हैं (येभिः) जिन्हों से (व्यश्वम्) नाना प्रकार के अश्वों, इन्द्रियों को (ऐरयः) प्रेरित करता है वे और (नः भुवः) हमारे प्राण या कर्मेन्द्रिय (उत) भी (श्रोपन्तु) तेरी आज्ञा को सुनते हैं ।

[१७३] ^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} भद्रं भद्रं न आभरेषमूजं शतक्रतो ।

^{१ २ ३ १ २} यद्विन्द मृडयासि नः ॥९॥ ऋ० ८ । ६३ । २८ ॥

भा०—हे शतक्रतो, हे शतपञ्च ! (इन्द्र) आत्मन् ! (यद्) जब (नः) हमें (मृडयासि) सुखी करते हो तब (भद्रं भद्रं) कल्याणकारी,

सुखकारी, (इपम्) अन्न और (ऊँ) बल को (आ भर) प्राप्त कराते हो ।

[१७४] ^{२ ३ १ २ २ ३ ३ १ २ २ ३ ३ १ २} अस्ति सोमा अथ सुतः पिवन्त्यस्य मरुतः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} उत स्वराजो अश्विना ॥१०॥ ऋ० ८ । ६४ । ४ ॥

भा०—(अयं) यह (सोमः) सोम, ज्ञान या सूक्ष्म अन्न रस, (सुतः) निष्पन्न हुआ है (अस्य) इसको (स्वराजः) प्राण के बल से गति करने वाले, या स्वयं चेतन (मरुतः) इन्द्रियगण, प्राणगण या विद्व-जन (पिवन्ति) पान करते हैं (उत) और (अश्विना) प्राण और अपान भी या विद्वान् स्त्री पुरुष भी उसी का पान करते हैं ।

इत्यष्टमी दशतिः । इति पष्ठः खण्डः ।

॥ ८० ९ ॥—१ इन्द्रमातरो देवज्ञानयः । २ गोधा । ३ दध्यङ् आर्धवर्णः । ४ प्रस्कण्वः । ५ गोतमः । ६ मधुच्छन्दाः । ७ वामदेवः । ८ वत्सः । ९ शुनः शेषः । १० वातायन उल्वः ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री । पङ्चः ॥

[१७५] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २} इह्यन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते ।

^{३ १ २ ३ १ २} वन्वानासः सुवीर्यम् ॥१॥ ऋ० १० । १२३ । १ ॥

भा०—(इह्यन्तीः) गतिशील, ज्ञानशील (अपस्युवः) कर्म करने की इच्छावाली इन्द्रियां (जातं) प्रकट हुए (सुवीर्यम्) उत्तम बलशाली (इन्द्रम्) आत्मा को (वन्वानासः) भजन करती हुई या उसको प्राप्त करती हुई (उपासते) उसकी उपासना करती है ।

सायण ने इन्द्र-माताओं पर यह मंत्र लगाया है । इन्द्र आत्मा के माता, प्रमा के साधन इन्द्रियां ही यहां अभिनेत हैं । जैसा ऐतरेयारण्यक

में लिखा है—‘ इन्द्रिये ’ कहा करती हैं ‘तव उप स्मसि’ तेरी ही हैं ।
इत्यादि ।

[१७६] नकि देवा इनीमसि नक्यायोपयामसि ।

मन्त्रश्रुत्य चरामसि ॥२॥ ऋ० १० । १३४ । ७ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (देवाः) हम इन्द्रियगण (नकि इनीमसि) कुछ भी बधादि नहीं करते, (नकि आयोपयामसि) और न कुछ भूल करते हैं । (मन्त्रश्रुत्यं) मनन संकल्प द्वारा जो कुछ हम सुन सकते हैं तदनुसार हम (चरामसि) आचरण करते हैं । प्रजा लोकों के पक्ष में—हम मंत्र और श्रुति वेद के अनुसार चलें । हम दोष न करें ।

[१७७] दापो आगाद् वृहद्गाय द्युमद्गामन्नाथर्वण ।

स्तुहि देवं सवितारम् ॥ ३ ॥ अथर्व० ६ । १ । १ ॥

भा०—साधक^१ अपने ही आत्मा के प्रति कहता है, हे (वृहद्गाय) वृहत्साम का गान करने वाले या प्राण-स्वर से गान करनेहारे ! हे (आथर्वण, जीवन का नाश न करनेहारे आत्मन् ! हे (गामन्) गतिशील ! आत्मन् ! (द्युमद्, दोषः) दीप्तिमान्, सब अन्धकारों का नाश करने हारा ईश्वर (आगात्) अब अन्तरात्मा में उदित होगया है । अतः उस (सवितारं) सबको प्रेरणा करनेहारे (देवं) प्रकाशस्वरूप देव को (स्तुहि) तू कीर्त्तन कर । विशोका, ज्योतिष्मती प्रज्ञा के उदय के अवसर पर साधक की यही दशा होती है ।

१७६—‘नकिदेवा’ ‘मिनीमसि’ इति च ऋ० । ‘पजोभिरपिकक्षेभिरत्राभि संरभामहे इति अधिकः पाठः, ऋ० ।’

१७७—‘दोषो गाय वृहद्गाय द्युमद्देहि । आथर्वण देवं सवितारम्’ । इति अथ० ।

१. स्वात्मानमेवमामन्त्रयते । सा० ।

[१७८] एषा उषा अपूर्व्या व्युच्छ्रति प्रिया दिवः ।

स्तुप वामश्विना बृहत् ॥ ४ ॥ ऋ० १। ४६। १ ॥

भा०—(एषा) यह (उ) ही (उषाः) ज्योतिष्मती प्रजा (अपूर्व्या) साधक के अनुभव में पहले कभी न आई हुई, अपूर्व, (दिवः प्रिया) मस्तक या मूर्धाभाग को पूर्ण करने वाली या सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा के अति प्रिय होती है। हे (अश्विना) गमनशील प्राण और अपान ! आप दोनों के इस उत्तम दशा की प्राप्ति के निमित्त (बृहत्) खूब (स्तुपे) अच्छी प्रकार गुण कहता हूँ। साधारणतः उषा के पक्ष में स्पष्ट है।

[१७९] इन्द्रो दधीचो अस्थभिवृत्रायप्रतिष्कृतः ।

जघान नवतीनत्र ॥ ५ ॥ ऋ० १। ८५। १३ ॥

भा०—(इन्द्रः) आत्मा (दधीचः) ध्यान द्वारा प्राप्त करने योग्य परमात्मा की (अस्थभिः) तमोनाशक शक्तियों द्वारा (अप्रतिष्कृतः) किसी से भी पराजित न होकर (नव नवतीः) ८१० (वृत्रायि) ज्ञान के आवरण करने वाले विघ्नों को (जघान) नाश करता है।

आत्मा की शक्ति प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस्, तमस्, तीन कालों के भेद से ६ प्रकार की हुई। प्रभाव, उत्साह और मन्त्र तीन शक्तियों के भेद से २७ प्रकार की हुई। फिर सात्विकादि के सम विषम होने से ८१ प्रकार की, दश दिशाओं के भेद से ८१० प्रकार की होजाती है। इतनी प्रकार की शक्तियों से वह इतनी ही व्युत्थान वृत्तियों पर विजय करता है।

इन्द्र की कथा भी आलंकारिक है, स्थानाभाव से नहीं लिखते।

[१८०] इन्द्रे हि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः ।

महा अभिष्टिरोजसा ॥ ६ ॥ ऋ० १। ९। १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! तू (इहि) आ, साक्षात् हो । (अन्धसः) प्राण की सूक्ष्म धारणाशक्ति की (विश्वेभिः) समस्त (सोमपत्रभिः) वीर्य के पालनकारी सामर्थ्यों से तू (मत्सि) प्रसन्न और तृप्त होता है और (श्रोजसा) अपने बल से (महीं अभिष्टिः) बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति वाला होजाता है ।

[१८१] आ तू न इन्द्र वृत्रहन्स्माकमर्द्धमा गहि ।

महान्मदीभिरूतिभिः ॥ ७ ॥

अ० ४ । ३२ । १ ॥

भा०—(वृत्रहन्) हे तामस आवरणों और विघ्नों के निवारक ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (महीभिः) बड़ी २ (ऊतिभिः) शक्तियों द्वारा तू (महान्) महान् है । तू (अस्माकं) हमारे (अर्द्धम्) समीप (आगहि) आ ।

[१८२] श्रोजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत् ।

इन्द्रश्चर्मैव रोदसी ॥ ८ ॥

अ० ८ । ६ । ५ ॥

भा०—(तत् अस्य श्रोजः) उस महान् आत्मा का सूर्य के समान वह श्रोज (तित्विषे) चमकता है (यत्) जिससे वह (उभे रोदसी) धौ और पृथिवी दोनों को (चर्म इव) चमड़े की तरह (समवर्तयत्) सब ओर ढक रहा है, व्याप्त करता है । अथवा—इस आत्मा का वह सामर्थ्य है जिससे वह प्राण अपान दोनों को चर्म या वस्त्र के समान धारण करता है ।

[१८३] अयमु ते समतासि कपोत इव गर्भयिम् ।

वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ ९ ॥

अ० १ । ३० । ४ ॥

भा०—(अयम्) यह साधक जिस प्रकार (कपोतः) कपोत (गर्भयिम् इव) अपनी कपोती के पास आता है उसी प्रकार (ते) तेरे पास (सन् अतसि) आता है, इसी कारण (नः) हमारे (तद् वचः) उस वचन को (ओहसे) प्रेम से श्रवण करता है ।

[१२४] वात आ वातु भेपजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।

प्र न आयुषि तारिपत् ॥ १० ॥ अ० १० । १२६ । १ ॥

भा०—(वातः) वायुरूप सर्वव्यापक, सब का प्राणस्वरूप आत्मा (नः) हमारे (हृदे) अन्तःकरण में (शम्भु) कल्याण और शान्ति-कारक, (मयोभु) सुखकारी (भेपजम्) आधि व्याधि को शान्त करनेहारे ओपधि को (आ वातु) प्राप्त कराए और (नः) हमें (आयुषि) समस्त जीवन को (प्र तारिपत्) पार कराए ।


जैसे भक्त जगन्नाथ परिहतराज ने कहा है—

आधिव्याधिजरापराहत यदि क्षेम निजं वाञ्छसि ।

श्रीकृष्णोति रसायनं रसय रे शून्यैः किमन्यैः रसैः ॥

फलतः, इष्टदेव में ओपधि आदि की भावना भी भक्त कर लेते हैं ।

इति नवमीः दशतिः । इति सप्तमः खण्डः ।



॥ ३० १० ॥ ऋषिः—१ कण्वः । २, ३, ६ वत्सः । ४ श्रुतकक्षः । ५ मधु-
च्छन्दाः । ६ वामदेवः । ७ इरिमिठः ॥ ८ वारुणिः सत्यधृतिः ॥ इन्द्रो
देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ षड्जः स्वरः ॥

[१२५] य रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्थमा ।

नकिः स दभ्यते जनः ॥ १ ॥ अ० ४ । १७ । ३ ॥

भा०—(प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न (वरुणः) वरुण, सबसे श्रेष्ठ (मित्रः) मित्र, सबका स्नेही और (अर्थमा) अन्तर्यामी, न्यायकारी जन (यं)

जिसकी (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (सः) वह (जनः) मनुष्य (नकिः दभ्यते), कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता । बृहदारण्यकोपनिषद् के (अ० ३) में इन देवों की पिरड और ब्रह्माण्ड में स्थिति का निर्णय किया है ।

[१८६] गव्यां पु र्यो यथा पुराश्वयोत रथया ।

वरिवस्य महोनाम् ॥ २ ॥ ऋ० ८ । ४६ । १० ॥

भा०—हे साधक ! (यथा पुरा) पूर्व के समान (गव्या) गौ आदि पशुओं की इच्छा से, (अश्वशा) अश्व आदि शीघ्रगामी साधनों की कामना से और (रथया) रथों की कामना से (उत) और (महोनाम्) धनों के प्राप्त करने के लिये तू (वरिवस्य) उपासना कर । अध्यात्म में—गौ=इन्द्रियां, अश्व=मन और रथ=शरीर । इन तीनों को उत्तम रीति से वश करने और बलवान् बनाने की कामना से इन्द्र=आत्मा और परमेश्वर का उपासना आवश्यक है ।

[१८७] इमान्त इन्द्र पृश्नया घृतं दुहत आशिरम् ।

एनामृतस्य पिण्युपीः ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ६ । १९ ॥


भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (ते) तेरी (इमाः पृश्नयः) ये रसों तक पहुँचने वाली इन्द्रियां (ऋतस्य पिण्युपीः) ऋत=सत्य ज्ञान को पान करती हुई (एनाम्) इस अनुभवगम्य (आशिरम्) प्रस्फुटित हुए (घृतं) विशेष ज्ञान, दीप्ति, कान्ति को (ऋतस्य) जल पान करके दूध को गोश्रो क समान (दुहते) उत्पन्न करती हैं ।

[१८८] अया विया च गव्यया पुरुषामन्पुरुषुद्रुत ।

यत्सोम सोम आभुवः ॥ ४ ॥ ऋ० ८ । ६ । १९ ॥

१८६—'वरिवस्य महामह' इति । ऋ० । 'महोनाम्' इति पाठो विवरणसम्मतः ।

१८८—'आभवः' इति । ऋ० ।



भा०—हे (पुरु-नामन्) हे सहस्रों, बहुतसे नामों से पुकारे जाने वाले, हे (पुरुस्तुत) नाना प्रकारों से स्तुति के पात्र ! आत्मन् ! (अथा गव्यया) इस इन्द्रियों के अनुकूल कामना (धिया च) और ध्यान द्वारा भी (यत्) जो तू (सोमेसोमे) प्रत्येक सोम अर्थात् ज्ञान में (आभुवः) प्रकट होता है । इसीसे तू साक्षात् किया जाता है ।

‘प्रतिबोधविदितं मतम्’ । इति केन उ० ।

[१८६] पात्रका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ ५ ॥ अ० ८ । ४५ । २६ ॥

भा०—(सरस्वती) वेदवाणी (पावका) हृदय को पवित्र करने वाली (वाजेभिः) ज्ञान और कर्मों द्वारा (वाजिनीवती) शक्तिसम्पन्न होकर (धियावसुः) ध्यान, धारणा और ज्ञानाभ्यास द्वारा अन्तःकरण में वास करने वाली (यज्ञं वष्टु) हमारे जीवन-यज्ञ को धारण करे । ज्ञान-योग के साथ कर्मयोग द्वारा ही वेद के मन्त्र हृदय को पवित्र करते और जीवन को चिरायु और सफल करते हैं ।

[१६०] क इमन्नाहुपीष्वा इन्द्रं सोमस्य तर्पयात् ।

स नो वसून्याभरात् ॥ ६ ॥

भा०—(इमम् इन्द्रम्) इस इन्द्र आत्मा को (नाहुपीषु^१) कर्म-बन्धन में बंधी मनुष्य प्रजाओं में (सोमस्य) गुण-कर्त्तृन् और ज्ञान-सम्पादन द्वारा (कः तर्पयात्) कौन तृप्त कर सकता है? अथवा (कः) सुखमय प्रजापति ही (सः) वह परमेश्वर ही (नः) हमारे (वसूनि) ज्ञानों और ऐश्वर्यों को (आभरात्) सदा प्रदान करे ।

अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिन्तयेत् । (स्फुट)

[१६१] ^{१ २} आ याहि ^{३:२४} सुपुमा ^{३ २ ३ २ ३} हिं त इन्द्र ^{१ २ ३ २} सोम पिवा इमम् ।

^{२ ३ ३ ३} एदं ^{३ १ २} वहिः सदा मम ॥ ७ ॥

ऋ० १७ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ! (हि) क्योंकि हम (ते) तेरे लिये (सुपुम) ज्ञान को उत्तम रूप से सवन, सम्पादन करते हैं अतः तू (आ याहि) आ प्रत्यक्ष हो । और (इमं) इस (सोमं) सोमरूप ज्ञान को (पिब) पान कर । (इदं) यह (मम) मेरा दिया (वहिः) यज्ञ या हृदयरूप आसन है इसमें (आ सदः) विराज ।

[१६२] ^{१ २} महि त्रीणामवरस्तु ^{३ ३ ३ १ २ ३ २} द्युक्ष्मिन्नस्यार्यम्णः ।

^{३ २ ३ १ २} दुराधर्षं वरुणस्य ॥ ८ ॥

ऋ० १० । १८५ । १ ॥

भा०—(मित्रस्य) मित्र, आदित्य या प्राण (अर्यम्णः) अर्यमा अन्तर्यामी आत्मा और (वरुणस्य) वरुण, अपान, (त्रीणाम्) इन तीनों की (महि अवः) बड़ी रक्षा और (दुराधर्षं द्युक्ष्मिन्नस्य) असह्य तेज (अस्तु) हो ।

अथवा आदित्य या मित्र चक्षु में स्थित है । यम या अर्यमा हृदय में ठेवा हुआ श्रद्धा और दक्षिणा में विराजमान है । रेतस्=वीर्य में वरुण स्थित है ।

[१६३] ^{१ २} त्वावतः पुरुवसो ^{३ १ २} चयमिन्द्र प्रणेतः ।

^{१ २} स्मसि स्थातर्हरीणाम् ॥ ९ ॥

ऋ० ८ । ४६ । १ ॥

भा०—हे (पुरुवसो) शरीर और इन्द्रियों में आवास करने हारे ! (इन्द्र) आत्मन् ! (हरीणाम् प्रणेतः) हे इन्द्रियों के प्रेरक ! हे (स्थातः) नित्य अविचाली, कूटस्थ पुरुष ! हम (त्वावतः) तेरे समान स्वामी के ही (स्मसि) हैं । इन्द्रियगण आत्मा को एवं प्रजागण भृत्यादि राजा को इसी प्रकार कहते हैं ।

इति दशमी दशतिः । इति अष्टमः खण्डः ।

द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥

अथ तृतीयः प्रपाठकः (१)

॥ द० १ ॥ ऋषिः—१ प्रगाथः । २ विश्वामित्रः । ३, १० वामदेवः । ४, ६
श्रुतकक्षः । ५ मधुच्छन्दाः । ७ गृत्समदः । ८, ९ भरद्वाजः । इन्द्रो
देवता । गायत्री । षड्जः ॥

[१६४] उ^१ त्वा^२ मदन्तु^३ सोमाः^४ कृणुष्व^५ राधो^६ अद्रिवं^७ ।

अव^१ ब्रह्माद्विपो^२ जहि ॥ १ ॥

ऋ० । ६ । १ ।

भा०—हे (अद्रिवः^१) संहारकारी अभेद्यशक्ति से युक्त ! हे आत्मन्,
जीव ! (त्वा) तुझको (सोमाः) सोम ज्ञान और ऐश्वर्य (मदन्तु)
हर्ष दे । तू (राधः^२) ज्ञान, धन कृणुष्व सम्पादन कर (ब्रह्माद्विपः)
वेद ज्ञान से द्वेष करने हारे पुरुषों और द्वेषयुक्त भावों को (अव जहि)
नाश कर ।

[१६५] गिर्वेणः^१ पाहि नः^२ सुतं^३ मधोर्धाराभिरज्यसे^४ ।

इन्द्र त्वादातमिद्यशः^५ ॥ २ ॥

भा०—हे (गिर्वेणः) वेदवाणियों द्वारा कीर्त्तन करने योग्य ! तू (नः)
हमारा (सुतं) सम्पादन किया स्तुतिरूप हव्य (पाहि) पान कर,
स्वीकार कर । (मधोः) मधु=ब्रह्मज्ञान, अमृत, ऋग्वेद की (धाराभिः)
धारणाओं, ऋचाओं द्वारा (अज्यसे) तुम्हारा स्तवन, सेवन, भजन, ज्ञान
किया जाता है । हे आत्मन् ! (त्वादातम् इद्) यह तुम्हारा ही प्रकाश-
मान (यशः) यश, सामर्थ्य है ।

१९४—'स्तोमा' इति । ऋ० ।

१. अन्तेरद्रिः ।

२. राधसाध संसिद्धौ, स्वादिः ।

देखो—“य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्” इत्यादि (कठ० व० ४ । ५ ।)

[१६६] सदा व इन्द्रश्चर्कपदा उपोनु स सपर्यन् ।
 न देवो वृतः शूर इन्द्रः ॥३॥

भा०—(वः) आप लोगों को (इन्द्रः) ऐश्वर्यशील वह इष्टदेव (सदा) नित्य (आ चर्कपदा) अपने समीप आकर्षण करता है । और (सः) वह (नु) ही (सपर्यन्) आदर, प्रेम करता हुआ (इन्द्रः) आत्मा, परमात्मा (शूरः) शीघ्र गति वाला या ज्ञान सम्पन्न (देवः) देव क्या (न वृतः) नहीं वरण किया जाता ? वह सबसे अधिक वरण करने योग्य है ।

[१६७] आ त्वा विशन्तिवन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः ।
 न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥४॥ ऋ० ८ । ६२ । २२ ॥

भा०—(इन्द्रवः) समस्त ज्ञानी पुरुष (त्वा) तुझ में (सिन्धवः, समुद्रम् इव) जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार (विशन्तु) प्रवेश करें । हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वाम्) तुझ से (न अतिरिच्यते) कोई भी बढ़ नहीं सकता, तुझ से पृथक् नहीं रह सकता । आत्मपक्ष में—(इन्द्रवः) द्रवणशील इन्द्रियां प्राणगण आत्मा रूप समुद्र में नदियों के समान प्रविष्ट हैं । उससे कोई भी बढ़ नहीं सकता ।

[१६८] इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्कभिरकिणः ।
 इन्द्रं वाणोरनूपत ॥ ५ ॥ ऋ० १ । ७ । १ ॥

भा०—(गाथिनः) गाथाओं का गान करने वाले, सामगायक (इन्द्रम् इत्) आत्मा को ही (बृहत्) बृहत्साम द्वारा (अन्-

पत) स्तुति करते हैं । (अर्किणः) अर्चा करने हारे ऋग्वेदी (अर्केभिः) अपने स्तुति पाठों व ऋग्वेद के मन्त्रों से (इन्द्रम्) आत्मा को ही स्तुति करते हैं और (वाणीः) यजुर्वेद के मन्त्र भी (इन्द्रम्) आत्मा की ही (अनूपत) स्तुति करते हैं ।

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इति काठक उप० ।

[१६६] इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभुं रयिम् ।

वाजी ददातु वाजिनम् ॥६॥ अ० ८ । १३ । ३४ ॥

भा०—(इन्द्रः) परमात्मा (इषे) हमारी इच्छानुकूल (नः) हमें (ऋभुक्षणम्) बढ़े भारी (ऋभुं) तेजःसम्पन्न, सत्यसामर्थ्य से युक्त (रयिम्) धन, अन्न, ज्ञान का (ददातु) दान करे । (वाजी) सर्वज्ञ, ऐश्वर्यवान् वह हमें (वाजिनं) ज्ञान एवं कर्म बल का भी (ददातु) दान करे ।

[२००] इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभीपदप चुच्यवत् ।

स हि स्थिरो विचर्पणिः ॥७॥ अ० २ । ६१ । १० ॥

भा०—(अङ्ग) हे मनुष्य ! वह परमेश्वर (महद् भयम्) बढ़े भारी भय को (अभीपत्) दूर करता है । भयको वह (अपचुच्यवत्) परे हटा देता है (सः हि) क्योंकि वह (स्थिरः) स्थिर, कूटस्थ और (विचर्पणिः) सब को देखने वाला, सबका निरीक्षक है ।

[२०१] इमा उ त्वा सुत सुत नक्षन्ते गिर्वयो गिरः ।

गावो घत्सं न धेनवः ॥८॥ अ० ६ । ४५ । २८ ॥

भा०—हे (गिर्वशः) वेदवाणियों द्वारा जानने योग्य ! (त्वा उ) तुम्हको ही (सुतेसुते) प्रत्येक ज्ञानयज्ञ में (इमाः गिरः) ये वेदवाणियां (धेनवः गावः नसं न) दूध पिलाने वाली गौपुं जिस प्रकार अपने बछड़े के पास जाती हैं उसी प्रकार (नक्षन्ते) पहुंचती हैं तेरा वर्णन करती हैं।

[२०२] ^{२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये ।

^{३ १ २ ३ २ ३ २} हुवेम वाजसातये ॥६॥ ऋ० ६ । ५७ । १ ।

भा०—(इन्द्रा पूषणा) सर्वेश्वर्यसम्पन्न इन्द्र और सबके पालक पूषा परमात्मा को हम लोग अपने (सख्याय) मित्रता, (स्वस्तये) अपने कल्याण और (वाजसानये) ज्ञान बल और श्रद्धादि सामर्थ्य प्राप्त करने के लिये (हुवेम) प्रार्थना करते हैं।

[२०३] ^{१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २} न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन् ।

^{२ ३ २ ३ २} न क्येवं यथा त्वम् ॥१०॥ ऋ० ४ । ३० । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वदुत्तरं) तुम्ह से ऊंचा और तुम्ह से अधिक सूक्ष्म, परम कारण (न कि) कोई भी नहीं है। हे (वृत्रहन्) आचरणकारी तामस विद्वों को दूर करने हारे ! (ज्यायो न अस्ति) और कोई दूसरा तुम्ह से अधिक बड़ा एवं प्रशंसा करने योग्य भी दूसरा नहीं। (यथा त्वम्) जैसा तू है (एवं नकि) इस प्रकार का और कोई नहीं, तू अद्वितीय है।

न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः । गी० ॥

यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ॥ कठ० उप० ॥

इति प्रथमा दशतिः । नवमः खण्डः ॥

१ द० २ ॥ ऋषिः—१, ४ त्रिशोकः । २ मधुच्छन्दाः । ३ वशोद्व्यो वत्सोवा ।
 ५ सुकक्षः । ६, ९ वामदेवाः । ७ विश्वामित्रः । ८ गोपूतयशस्किनी ।
 १० श्रुतकक्षः ॥ इन्द्रो देवता । गायत्री षड्जः ॥

[२०४] ^{३ १ २ ३ ४ २ ३ १ २ २ ३ १ २} तरणिं वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः ।
^{३ २ ३ १ २ २ ३ ३ २} समानमु प्र शंसिषम् ॥१॥ ऋ० ८ । ४५ । २८ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वः) आप सब (जनानां तरणिम्) मनुष्यों को तारने वाले, पार करने वाले, (त्रदं) त्राण देने वाले या कष्टों को काटने वाले, (गोमतः) इन्द्रियों और पशु आदि से सम्पन्न (वाजस्य) धन अन्न और ज्ञान के (समानम् उ) और सब के प्रति समान भाव से देने वाले, निष्पक्ष सर्वव्यापक प्रभु की मैं (प्र शंसिषम्) स्तुति करता हूँ ।

[२०५] ^{२ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २} असृग्रामन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुद्दासत ।
^{३ १ २ ३ १ २ १ २} सजोषा वृषभं पतिम् ॥२॥

भा०—हे (इन्द्र) परमात्मन् ! (ते) तेरे लिये (गिरः) इन वेदवाणियों को (असृग्रम्) प्रकट करता हूँ । क्योंकि (सजोषाः) प्रेम से या कामना से प्रेरित स्त्री जिस प्रकार (पतिम्) अपने पति के प्रति जाती है उसी प्रकार (वृषभं) सर्वश्रेष्ठ, धर्म से देदीप्यमान, सबके पालक (त्वां प्रति) तेरे प्रति ही समस्त वाणियाँ (उद् अहासत) जा रही हैं ।

[२०६] ^{३ २ ३ २ ३ ३ १ ३ २ ३ १ २ ३ २} सुनीथो या स मर्त्या य मरुता यमर्यमा ।
^{३ २ ३ ३ १ २} मित्रस्पान्त्यद्रुहः ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ४६ । ४ ॥

भा०—(स मर्त्यः) वह पुरुष (सुनीथः) उत्तम मार्ग में चला जाता है (यं) जिसको (मरुतः) देव, विद्वान् लोग और (यं) जिमकी (अर्यमा) न्यायकारी, (मित्रः) सब का स्नेही और (अद्भुहः) बिना दोह रहित पुरुष (पान्ति) रक्षा करते हैं ।

भगवान् और सन्तों का कृपापात्र पुरुष धन्य है ।

[२०८] यद्वीडाविन्द्र यत् स्थिरं यत्पर्शानि पराभृतम् ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २
१ २ ३ १ २ २ २
वसु स्पाहं तदाभर ॥४॥ ऋ० ८ । ६ । ४५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) (यद् वीडौ) जो शत्रुओं से न दबने वाले, (यत् स्थिरं) जो स्थिर रहने वाले, और (यत् पर्शानि) जो विचारशील पुरुष में (पराभृतम्) रहा करता है (तद्) वह (स्पाहं वसु) सब के अभिलाषा के योग्य बल, धन और स्थिरता और ऐश्वर्य (आ भर) हमें प्राप्त करा ।

[२०९] श्रुतं चो वृत्रहन्तमं प्र शङ्खं चर्षणीनाम् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २
३ २ ३ १ २ ३ २
आशिषं राधसे महं ॥५॥ ऋ० ८ । ६ । ६३ ॥

भा०—(वः) आप लोग (श्रुतम्) वेद में विख्यात या जगत् में प्रसिद्ध (शङ्खं) उत्कृष्ट बलशाली (वृत्रहन्तमं) विघ्नों के नाश करने वालों में सबसे श्रेष्ठ की (चर्षणीनां) प्रजाओं की (आशिषे) उत्तम कामनाओं की पूर्ति और (महं) श्रेष्ठ (राधसे) साधना या ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये (प्र) उपासना करो ।

[२०६] अरं त इन्द्र अचसे गमेम शूर त्वावतः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
१ २ ३ १ २
अरं शक्र परेमणि ॥६॥

२०७, परिधाने इति पाठः प्रातिशाख्यानसारी कौथमानाम् ।

२०८-आशुप इति पाठमद ऋ०

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! हे (शूर) शत्रुओं के हिंसक ! (त्वावतः ते) तेरे समान ! अद्वितीय नेरे ही (अवसे) कीर्तिगान करने के लिये हम (अरं गमेम) खूब लगे रहें । हे (शक्र) सर्वशाक्तिमन् ! (परमाणि) तेरी परमता सौंदर्य, परम रूप में ही हम (अरं) अच्छी प्रकार (गमेम) लीन रहें, मग्न हों ।

[२१०] धानावन्तं करम्भिणामप्रूपवन्तमुक्थिनम् ।

इन्द्र प्रातर्जुषस्व नः ॥ ७ ॥

ऋ० ३ । ५२ । २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (नः) हमारे (प्रातः) प्रातःकाल के अवसर में (धानावन्तं) ध्यान धारणा से सम्पन्न, (करम्भिणम्) सुख को प्रारम्भ करने वाले, (अप्रूपवन्तम्) अति समीपता दिलाने वाले अथवा दूर और निकट सर्वत्र विद्यमान (उक्थिनं) ज्ञानसम्पन्न, सोम, आत्मा को (जुषस्व) ग्रहण करो, स्वीकार करो ।

मुँने जौ 'धाना' कहाते हैं, दही से मिले सत्तू 'करम्भ' कहाते हैं । पके पुरोडाश को 'अप्रूप' कहा जाता है । प्रतिनिधिवाद से, सूक्ष्मत्व जब स्पष्ट होजाय तो वे ही 'धाना' हैं । ध्यानयोग से विवेक द्वारा पवित्र किया सत्य ज्ञान 'सवत्तु' है । उसका विशेषरस अनुभव 'दधि' है, जिसका मथन करने पर या विशेष परिपाक होने पर प्राप्त ब्रह्मज्ञान 'अप्रूप' है जिसमें आत्मा उस ब्रह्मके समीपतम होजाता है । अथवा [अप-उप-वन्=अप्रूपवात्] वह दूर और निकट के सब पदार्थों को प्राप्त है । उस समय अपूर्व ब्रह्मास्वाद 'उक्थ' है, तद्वान् आत्मा 'उक्थी' है । उसको स्वीकार करने की प्रार्थना है ।

[२११] अपां फेनन नमुचः शिर इन्द्रोदवर्तयः ।

विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (यत्) जय (विश्वाः सृष्टः) अपने से स्पर्द्धा करने वाली सब तामस दृष्टियों को (अजयः) विजय करले तब (नमुचेः) कभी न पीछा छोड़ने वाले मृत्यु वा कर्मबन्धन का भी (शिरः) शिर या आश्रय (अर्पा फेनेन) ज्ञान और कर्मों के बल से अथवा आस पुरुषों के शुद्ध ज्ञानोपदेश से (उद् अर्चयः) काट डाल ।

[२१२] ^{३१ ३ २ १ २ ३२ ३ २ ३ १ २} इमं त इन्द्र सामाः सुतासो ये च सात्वाः ।

^{१ २} तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ ६ ॥


भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (इमे) ये (सोमाः) सोम, ज्ञान (ते) तेरे लिये (सुतासः) निष्पादन किये हैं (ये च) और जो (सात्वाः) भविष्य में निष्पादन किये जायेंगे (तेषां) उनसे हे (प्रभूवसो) सामर्थ्यसम्पन्न ! शरीर के वासी आत्मन् ! (मत्स्व) तू सदा प्रसन्न रह ।

[२१३] ^{१ २ ३२ ३ १ २ ३२ ३ १ २} तुभ्यं सुतासः सामाः स्तोत्राणि बर्हिर्वभावसो ।

^{३१ २} स्तोत्रं तुभ्य इन्द्र मृडय ॥ १० ॥ अ० ८ । ६३ । २५ ॥

भा०—हे (विभावसो) तेजःकान्तिसम्पन्न ! (इन्द्र) आत्मन् ! (सोमाः) सोम, य समस्त अन्तः-आनन्द रस (तुभ्यं) तेरे लिये (सुतासः) निष्पादन किये गये हैं (बर्हिः) देहरूप यह आसन अथवा ब्रह्मस्वरूप महान् आश्रय (स्तोत्राणि) विस्तृत किया गया है । तू (स्तोत्रं तुभ्यः) सत्य २ गुणकीर्तन करने वालों को (मृडय) सुखी कर ।

इति द्वितीया दशतिः । दशमः खण्डः ।



अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

॥ द० ३ ॥ १ शुनः शेषः । श्रुतकक्षः । ३ त्रिशोकः ४, ९ मेधातिथिः । ५

गोतमः । ६ ब्रह्मातिथिः । ७ विश्वामित्रो जमदग्निर्वा । ८ प्रसूतपुत्रः ॥

इन्द्रो देवता । गायत्री ॥ पङ्क्तः ॥

[२१४] आ व इन्द्रं क्रिचिं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम् ।

मंदिष्टं सिञ्च इन्दुभिः ॥ १ ॥ ऋ० १। ३०। १ ॥

भा०—(वः) आप लोग (इन्दुभिः) सोमों, ज्ञानों, स्तुतियों द्वारा (शतक्रतुं) सैकड़ों प्रज्ञाओं और कर्मों से युक्त (मंदिष्टं) दानशील, पूजनीय, (इन्द्रं) आत्मा को (वाजयन्तः) बल और ऐश्वर्य की कामना करते हुए (आ सिञ्च) इस प्रकार वृक्ष करो (यथा) जिस प्रकार (क्रिचिं) कार्य-साधन करने वाले हथियार या यन्त्र को घृत तैल आदि से सींचते हैं । अथवा—जिस प्रकार (क्रिचिं) जलपूर्ण कूप के आश्रय से (वाजयन्तः) अन्न चाहने वाले कृषक खेत को जल से सेचन करते हैं उसी प्रकार प्रभु का आश्रय लेकर समाधि रसों से क्षेत्ररूप आत्मा को सेचन करो ।

[२१५] अतश्चिन्द्रं न उपायाहि शतवाजया ।

इषा सहस्रवाजया ॥ २ ॥ ऋ० ८। ९२। १० ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! राजन् ! (अतःचित्) इस कारण से ही (शतवाजया) सैकड़ों प्रकार के बलों से सम्पन्न और (सहस्रवाजया) सहस्रों या अनेक बलों से युक्त (इषा) या इच्छा शक्ति या सेनासहित (नः) हमें (उप याहि) प्राप्त हो ।

[२१६] आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्विमातरम् ।

क उप्रा के ह शृण्वरे ॥ ३ ॥ ऋ० ८। ४५। ४ ॥

भा०—(वृत्रहा) विघ्नों को निवारण करने द्वारा राजा (जातः) शक्ति सम्पन्न होकर ही (बुन्दं) दण्ड देने और शत्रु का नाश करने वाले वाण या हथियार को (आददे) धारण करता है । और (मातरम्) अपने

उत्पन्न करनेहारी मातृतुल्य प्रजा से (वि पृच्छात्) नाना प्रकार से पृथुता है कि (के उग्राः) तुम्हें कष्ट देने वाले भयंकर कौन हैं और (के ह शृणिवरे) कौन हिंसा करते हैं । अथवा—(के ह शृणिवरे) कौन श्रवणशील विद्याभ्यासी और (के उग्राः) कौन उग्र, बलवान्, वीर सन्निवृत्त हैं । शक्ति धारी पुरुष को जब प्रजा राजा बनाती है तब वह राजदण्ड हाथ में लेता है और प्रजा के दुःखदायी आततायी लोगों को खूब छानबीन करके उन को दण्ड देता है अथवा उनमें बलवान् और विद्वान् प्रजा के शासन और शिक्षण में नियुक्त करता है । आत्मपक्ष में—माता=यथार्थ अनुभवशील चित् शक्ति, बुन्द=श्रींकार, वृत्र=अज्ञान, उग्राः=विक्षेपक भाव या प्राणगण और श्रवणशील ज्ञानन्द्रियगण हैं ।

[२१७] ^{३ १ २} वृवदुक्थं ^{३ १ २} हवामहे ^{० ३ १ २} सृपकरस्मृतये ।

^{१ २ ३ २ ३ ३ ३} साधः कृण्वन्तमवसे ॥५॥ ऋ० ८ । ३२ । १० ॥

भा०—हम (उतये) रक्षा के लिये (सृपकरस्मृतम्) अपने हाथों को फैलाये (वृवदुक्थं) अति अधिक ख्यातिमान् और (अवसे) प्रजा की रक्षा करने के लिये (साधः कृण्वन्तं) साधन करने वाले राजा के समान परमेश्वर को बुलाते हैं ।

[२१८] ^३ ऋजुनीती ^{२ ३} नो ^{१ २} वरुणो ^{३ १ २} मित्रो ^{३ २} नयति ^{३ २} विद्वान् ।

^{३ २ ३ २ ३ १ ३} अर्थमा देवैः सजापाः ॥५॥ ऋ० १ । ६० । १ ॥

भा०—(वरुणः) सब कष्टों का निवारण करने हारा, (मित्रः) सब का स्नेही (विद्वान्) सर्वज्ञ (अर्थमा) अन्तर्यामी न्यायकारी (देवैः) विद्वान् पुरुषों से (सजापाः) समान रूप से प्रेम करने हारे राजा के समान परमेश्वर (ऋजुनीती) धर्मयुक्त नीतिमार्ग से (नः) हम सब को (नयति) ले जाता है ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[२१६] दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिश्चितत् ।

३ २ ३ १ २

वि भानुं विश्वथाऽतनत् ॥ ६ ॥

भा०—(दूरात्) दूर (सतः) विद्यमान रहकर भी परमेश्वर सूर्य के समान (यत्) जब (अरुणप्सुः) प्रातःकालिक प्रभा के समान कान्तिमान् (इह एव) यहां ही (अशिश्चितत्) चमकता है तब (भानुं) कान्ति, प्रजा या दीप्ति को (विश्वथा वि अतनत्) सब ओर फैलाता है ।

साधक की साधना की सिद्धि के लक्षण विशेष दीप्तियों का मस्तक पर विशेष रूप से चारों ओर दीखना ही है । जैसा लिखा है—

‘व्यद्युतद् व्यद्युतदा न्यमीमीपद्’ इत्यादि । केन उ० । तद्दूरे तदुं अन्तिक इत्यादि । ईश उ० ।

१ २

३ १२ २२

[२२०] आ नो मित्रावरुणा वृतैर्गव्यूतिमुत्ततम् ।

३ १ २

मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥७॥ अ० ३ । ६२ । १६ ॥

भा०—हे (मित्रावरुणौ) मित्र, वरुण, प्राण और अपान (वृतैः) दीप्तियों द्वारा (गव्यूतिम्) इन्द्रियों के मिलने के स्थान त्रिपुटीभाग को अथवा गायों के वाड़े के समान पुरुमात्र आश्रयस्थान आत्मा को (आ उत्ततम्) योगज आनंद-रसों से खूब सेचन करो । हे (सुक्रतू) उत्तम प्रजा और कर्म के सम्पादन करने हारे तुम दोनों ! (नः) हमारे (रजांसि) रजोभाव से युक्त इन्द्रियों को अथवा हमारे लोकों को द्यौ और पृथिवी या दिन और रात्रि के समान (मध्वा^१) मधु अर्थात् विशेष चेतना या संवित्सिद्धि द्वारा (उत्ततम्) सेचन करो ।

२१९—‘यत्सत्यरणप्सुः’, ‘विश्वधातनत्’ इति अ० ।

[२२०—१, मधु धमतेर्गातिकर्मणः ।

प्राण और अपान की साधना से त्रिपुटी में दीप्ति और इन्द्रियों में विशेष स्फूर्ति उत्पन्न होती है जिसको 'संवित् ज्ञान' कहते हैं ।

[२२१] उदु^{२ ३ २ २ २ ३ २ ३} त्ये^{५ २ ३ १ २} सूनवा गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत ।

^{३ १ २ ३ १ २} वाश्रा अभिज्ञु यातवे ॥ ८ ॥ ऋ० १ । ३७ । १० ॥

भा०—(त्ये) वे (गिरः सूनवः) वाणी के उत्पादक मरुद्गण (यज्ञेषु) अपने निवासस्थान इन्द्रिय-स्थानों, कार्यव्यापारों में (काष्ठाः) अपने जाने की दिशाओं, मार्गों पर इस प्रकार गमन करते हैं जैसे (वाश्राः) गौण हंभारते समय (यातवे) गति करने के लिये (अभिज्ञु) घुटने के प्रति झुककर (अत्नत) जाती हैं । यहां प्राणों के संचार का स्वरूप बतलाया गया है ।

[२२२] इदं विष्णुर्विचक्रमे^{२ ३ ३ ३ २ ३ १ २ २ ३ २} त्रेधा निदधे पदम् ।

^{१ २} समूढमस्य पांसुले^{३ २} ॥ ९ ॥ ऋ० १ । २२ । १७ । यजु० ५ । १५ ॥

भा०—(विष्णुः) देह में सर्वव्यापक वह आत्मा (इदं) इस प्रकार (विचक्रमे) गति करता है कि (त्रेधा) तीन प्रकार से (पदम्) अपनी शक्ति को (निदधे) स्थापन करता है । और (अस्य) इसकी वह शक्ति सामर्थ्य (पांसुले^२) इन्द्रियों के शयन करने के स्थान देह में (समूढम्) उत्तम रूप से प्रकट है । परमात्मा पञ्च में—ईश्वर की शक्ति तीनों लोकों में है । 'पांसवे लोकाः' । इस ब्रह्माण्ड भर में उसकी शक्ति समूहित या व्याप्त है ।

२२१—'अज्मेष्वत्नत' इति पाठः, ऋ० ।

२२२—'पांसुरे', 'पांसुरे' इति पाठः, य० ।

१. पदं पथतेर्गतिकर्मणः ।

२. पांसवः पादः सूयन्ते इति वा, पन्नाः शेरत इति वा (नि० १-२ । १८)

आत्मा की त्रेधा शक्ति अन्न से रस का ग्रहण इन्द्रिय से ज्ञान निष्पादन और देह में प्राण और रस का संचरण ।

इति तृतीया दशतिः । एकादशः खण्डः ।



॥ २० ४ ॥ ऋपिः—१, ७, ८ मेधातिथिः । २ वामदेवः । ३, ५ मेधातिथिप्रियमेषौ । ४ विश्वामित्रः । ६ कौत्सो दुर्मित्रः । ६ विश्वामित्रो

गाथिनोऽभीपाद उदलो वा । १० श्रुतवक्षः ॥ इन्द्रो देवता ॥

गायत्री छन्दः ॥ षड्जः स्वरः ॥

[२२३] ^{१ २} अतीहि ^{३ १ २} मन्युषाविणं ^{३ २} सुषुवांसमुपरय ।

^{३ २ ३ २} अस्य रातौ ^{३ १ २} सुतं पिव ॥१॥ ऋ० ८ ३२ । २१ ॥

भा०—हे आत्मन् ! तू (मन्युषाविणं) क्रोध को उत्पन्न करने वाले भाव को (अति इहि) छोड़ दे । (सुषुवांसम्) उत्तम रूप से संचालन करने या उत्तम रस सम्पादन करने वाले के (उप ईरय) पास ही सदा स्वस्थ रूप से प्राप्त हो । (अस्य रातौ) उसके आनन्द की दशा में ही तू (सुतं) उत्तम ज्ञान का (पिव) आस्वादन कर ।

[२२४] ^{२ ३ १ २} कद्दु प्रचेतसे ^{३ १ २} महे वचो ^{२ ३ १ २} देवाय शस्यते ।

^{१ २ २ ३ १ २} तादिद्धव्यस्य वर्धनम् ॥ २ ॥

भा०—(महे प्रचेतसे) बड़े भारी ज्ञानवान् (देवाय) इष्टदेव के लिये (कद् उ) कुछ भी, तुच्छसा भी (वचः) वचन (शस्यते) स्तुति रूप में कहा जाय (तद् इत् हि) वह ही (अस्य) इस वक्त्रा के (वर्धनम्) वृद्धिकारक होता है ।

“अगुरप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ” गीता० । ईश्वर की नित्य थोड़ी आराधना भी आत्मा के बल को बढ़ाती है ।

उ २ उ २ उ १ २ उ १ उ १ र २

[२२५] उक्थं च न शस्यमानं नागोरयिराचिकेत ।

१ २ उ २ उ १ २

न गायत्रं गीयमानम् ॥३॥ ऋ० ८ । २ । १४ ॥

भा०—(अयिः) सर्वव्यापक, परमेश्वर (अगोः) इन्द्रिय या वाणी रहित अज्ञानी का (शस्यमानं) पढ़े हुए (उक्थं चन) स्तुतिपाठ का भो (न आचिकेत) क्या नहीं जानता ? और क्या (गीयमानं) गाये गये (गायत्रं) गायत्र मंत्र को भी नहीं जानता ? जानता ही है वह उसको भी स्वीकार करता ही है ।

१ २ उ २ उ १ उ १ २ उ १ २ उ १ २

[२२६] इन्द्र उक्थमिन्द्रो वाजानां च वाजपतिः ।

१ २ उ २ उ १ २

हरिवान्सुतानां सखा ॥५॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! परमात्मन् ! (उक्थमिन्द्रोः) गुणकीर्तनों से (मन्दिष्ठः) प्रसन्न होने वाला (वाजानां च) और ज्ञानसम्पन्न पुरुषों में (वाजपतिः) ज्ञानों का एकमात्र स्वामी (हरिवान्) इन्द्रिय आदि ज्ञानसाधनों से, एवं ईश्वरपक्ष में-पञ्चभूत आदि प्रकृति विकारों से सम्पन्न वृ (सुतानां) निष्पादित कर्मों, ज्ञानों और उत्पन्न लोकों का (सखा) मित्र है ।

उ १ उ ३ १ उ १ २ उ १ २

[२२७] आयाह्यप नः सुतं वाजभिर्माह्वसीयथाः ।

उ १ उ २ उ १ २

महाँ इन्न युवजानिः ॥५॥

भा०—हे परम आत्मन् ! (नः) हमारे (सुतं) प्रस्तुत ब्रह्मानन्द-रस या आत्मा रूप सोम के (उप आयाहि) समीप आइये, प्राप्त कीजिये । (वाजेभिः) अज्ञों, ज्ञानों और बलों से (मा ह्वसीयथाः) हमें सत्त हारिये ।

आप (महान्) बड़े वीर्यवान् सामर्थ्यवान् (युवजानिः) अपने प्रपौत्र को भी अपने समझ देखने वाले वृद्ध के (इव) समान पूज्यतम हैं ।

‘युवजानिः—’ जीवति तु वंश्ये युवा (पा० ४ । १ । १६३) शाल-
क्लेशुवापत्यं पुमान् इत्यादि व्याख्यानदर्शनाद्युवंसंज्ञालौकिकी शास्त्रसिद्धा च
प्राचीनकालपरिचिता । जनरौणादिकोऽनिज् बाहुलकात् (उ० ४ । ११ ।)

३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २

[२२८] कदा वसो स्तोत्रं हर्यत आ अब श्मशारुधद्वाः ।

३ १ ३ २ ३ १ १

दीर्घं सुतं वाताप्याय ॥ ६ ॥ ऋ० १० । १०५ । १ ॥

भा०—हे (वसो) सबके प्राणाधार, सबमें बसने और सबको बसाने वाले ! (स्तोत्रं हर्यतः) स्तोत्र या वेदज्ञान का आहरण या लाभ करने वाले पुरुष के लिये तुम (कदा) कब (श्मशा) शरीर के भीतर संचरण करने वाले (वाः) जीवनरूप जल को (आ अवारुधद्) रोकते हो ? कभी नहीं । (दीर्घं) दीर्घ, लम्बा चौड़ा (सुतं) जीवन (वाताप्याय) प्राण को आयमन करने वाले को ही प्रदान करते हो ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[२२६] ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिवा सोममृतूरनु ।

३ २ ३ १ २ २ २

तवदं सख्यमस्तृतम् ॥ ७ ॥ ऋ० १ । १५ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (ब्राह्मणात्) ब्रह्म को जानने हारे (राधसः) साधना करने वाले विद्वान् के (सोमं) ज्ञान और अन्नादि-रस को (अतून् अनु) प्राणों और इन्द्रियों के साथ (पिब) तू पान कर । (तव) तेरा (इदं) यह (सख्यं) इन्द्रियों के या साधकों के साथ का मैत्रीभाव (अस्तृतम्) कभी नहीं टूटता ।

३१ २३ १ २ ३१ २
[१३०] वयं घाते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः ।

१ २ ऋ० ८ । ३२ । ७ ॥
त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! हे परमात्मन् ! हे (गिर्वणः) एकमात्र वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! (वयं) हम इन्द्रियगण और हम साधकगण (अपि) भी (ते ह) तेरे ही (स्तोतारः स्म) स्तुति करने वाले हैं । (त्वं) नृ (सोमपाः) सोम को पान करने हारा होकर (नः) हमें भी (जिन्व) तृप्त कर, हमें भी बलवान् कर । जो सम्बन्ध प्रजा का राजा से और साधकों का प्रभु से है वही इन्द्रियों का आत्मा से है ।

१ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २
[२३१] एन्द्र पृच्छु कासुचिन्नुमणं तनूपु धेहि नः ।

३ २ ३ १ २
सत्राजिदुग्र पौंस्यम् ॥ ९ ॥

भा०—हे आत्मन् ! हे (उग्र !) हे बलवन् ! (पृच्छु) तुझे स्पर्श करने वाले (कासु चित् तनूपु) किन्हीं देहों में (नः) हम (नृमणं) मनुष्यों के मनन करने योग्य ज्ञानरूप धन को (धेहि) धारण कर और करा । हे (सत्राजिद्) समस्त सत्-पदार्थों पर विजय करनेवाले ! (कासु-चित्) किन्हीं में (नः पौंस्यं) हमें बल धारण करा ।

अर्थात् तू किन्हीं को ज्ञानी ब्राह्मण बनाता और किन्हीं को सत्रिय उत्पन्न करता है ।

३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ २
[२३२] एवाहसि वीर्युरेवा शूर उत स्थिरः ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ऋ० ८ । १२ । २८ ॥
एवा ते राध्यं मनः ॥ १० ॥

भा०—हे इन्द्र आत्मन् ! क्योंकि तू (हि) निश्चय से (वीरयुः) सामर्थ्यवान् वीर को चाहने वाला (एव असि) ही है । और तू (शूरः) शूर और (स्थिर एव) स्थिर ही है, इसलिए (ते मनः) तेरी मननशील मति या ज्ञान भी (राध्यम् एव) आराधना या साधना करने योग्य ही है, अनुकरण करने योग्य है ।

इति चतुर्थी दशतिः । द्वादशः खण्डः ।

इति द्वितीयोऽध्यायः ।

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

॥ ८० ५ ॥ ऋषिः—१, ६, ६ वसिष्ठः । २ भरद्वाजः । ३ बालखिल्याः । ४ नोषाः । ५ कलिः प्रागाथः । ७ मेधातिथिः । ८ भर्गः । १० प्रगाथः काण्वः ॥ देवता—१—८, १० इन्द्रः । ६ मरुतः । बृहती । मध्यमः ।

३१ ३ ३१ २ ३१२
[२३३] अभि त्वा शूर नोनुमोऽद्गुग्धा इव धेनवः ।

१ २ ३१२ २२ ३२ ३१ २ ३ १२

ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥

श्र० ७ । ३२ । २२ ॥

भा०—हे (शूर) शूर ! सर्वत्र व्यापक, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (अस्य जगतः) इस जगत् के और (तस्थुषः) स्थावर संसार के भी (ईशानम्) सामर्थ्य देने वाले प्रभु (स्वर्दृशम्) आदित्य द्वारा सबको प्रकाशित करनेहारें या आदित्य के समान सबको समान भाव से देखनेहारें (त्वा) तुझको हम (अद्गुग्धाः धेनवः इव) न दुही गई, नई व्याई हुई गौएँ जिस प्रकार अपने बत्स को देखकर झुकती और हम्बारती हैं उसी प्रकार (नोनुमः) आदर से, प्रेम से देखते, झुकते और स्तुति करते हैं ।

[२३४] ^{१२} त्वामिद्धि ^{२२} हवामहे ^{३१२} सातौ ^{२२} वाजस्य ^{३१२} कारवः ।

^{३१} त्वां ^२ वृत्रेष्विन्द्र ^३ सत्पतिं ^{२३} नरस्त्वां ^{२३} काष्ठास्त्ववतः ॥ २ ॥
 ऋ० ४ । ४६ । २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (वाजस्य सातौ) धन, अन्न, ज्ञान और बल के विभाग और प्राप्ति के अवसर पर (त्वाम् इत् हि) तुम्हको ही हम (कारवः) स्तुतिकर्ता लोग (हवामहे) स्मरण करते, पुकारते हैं । (वृत्रेषु) विघ्न के अवसरों पर (सत्पतिं) सज्जनों के प्रतिपालक (त्वां) तुम्हको ही याद करते हैं । (अर्चतः) गतिशील सूर्य आदि पदार्थों के (काष्ठासु) सीमाएं नियत करने के लिये अथवा ज्ञान शील-भोक्ता इन्द्रियों की भोग मर्यादाओं को सीमित करने के लिये (नरः) विद्वान् लोग तेरा ही स्मरण करते हैं ।

[२३५] ^{३१२} अभि प्र वः ^{२२} सुराग्रसमिन्द्रमर्चं ^{३१२} यथा ^{३१२} विद् ।

^१ यो ^{२३१} जरितृभ्यो ^३ मघवा ^{३१२} पुरुवसुः ^{३१२} सहस्रेण ^२ च ^३ शिक्षति ॥ ३ ॥
 ऋ० ८ । ४६ । १ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वः) आप लोग (सुराग्रसम्) उत्तम ज्ञान रूप धनसम्पन्न (इन्द्रं) परमेश्वर को (यथा) यथार्थ रूप से (विदे) जानने के लिये (अभि-प्र-अर्चं) उसकी अच्छी प्रकार उपासना करो । (यः) जो (मघवा) धन-यज्ञादि से सम्पन्न (पुरुवसुः) अति धनाढ्य, या सब शरीरों में व्यापक रहकर (सहस्रेण इव) मानो हज़ारों प्रकारों से (शिक्षति) शिक्षाएं देता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है ।

[२३६] ^१ तं ^२ वा ^३ दस्ममृतीपदं ^{३२३} वसामिन्दानमग्धसः ।

^{३२} अभि ^३ वत्सं ^{२२} न ^{३२३} स्वसरेषु ^{३२} धेनव ^{३१२} इन्द्रं ^३ गीर्भिर्नवामहे ॥ ४ ॥
 ऋ० ८ । ८८ । १ ॥

भा०—(वः) आपके (दसं) बाधक, शत्रुओं का नाश करने वाले, (ऋतिसहं) बाधाओं को दूर करने वाले, (वसोः) शरीर में आत्मा के वास कराने वाले, सबमें तसने वाले (अन्धसः) प्राण धारण कराने वाले अन्नरस को प्राप्त करके (मन्दानं) अत्यन्त प्रसन्न होने वाले (इन्द्रं) आत्मा को (स्वसरेपु) अपने २ देहों में हम इन्द्रियगण श्रीर विद्वान्जन उसी प्रकार (अभि नवामहे) स्तुति करते हैं जिस प्रकार (धेनवः) नवप्रसूता गौएं (वसं न) बछड़े के प्रति हमभारती हैं ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

[२३७] तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये ।

३५२ २२ ३१ २ ३२ ३२३ ३२ ३१ २
 बृहद्वायन्तः सुतसोमे अध्वर हुवे भरं न कारिणाम् ॥५॥
 ऋ० ८। ६६। १ ॥

भा०—हे इन्द्रियगण ! हे साधकजनो ! (वः) तुम्हारे (तरोभिः) वेगों, गतियों द्वारा (विदद्वसुम्) ज्ञान के प्राप्त करने हारे (सबाधः) आप लोग जब पीड़ा सहित हों तो (ऊतये) अपनी रक्षा के निमित्त (बृहद्) बृहत्साम द्वारा (इन्द्रम्) इस ऐश्वर्यवान् अपने प्रभु का (गायन्तः) कीर्तन करते हुए (सुतसोमे अध्वरे) सोम निष्पादन करने योग्य याग में जिस प्रकार (कारिणं भरं न) ऋत्विग् लोग अपने पोषण-कर्त्ता यजमान को बुलाते हैं उसी प्रकार बुलाया करो, उसका स्मरण किया करो ।

३ २ ३ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

[२३८] तरणिरित्सिपासति वाजं पुरन्ध्या युजा ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ५ २ २ ३ १ २
 आ व इन्द्रं पुरुहूतं नम गिरा नमि तप्रेव सुदुवम् ॥ ६ ॥

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

भा०—(तरणिः) अति वेगवान् या संस्तरासे तराने वाला, आत्मा (पुरन्ध्या) देहरूप पुर को धारण करने हारी को (युजा) अपना

साथी बना कर, समाधि द्वारा (वाजं) अन्न आदि कर्म फल और ज्ञान ऐश्वर्य को (सिपासति) ठीक प्रकार से विवेक करता है । (तष्टा इव) जिस प्रकार बड़ई (सुदुर्वं) उत्तम गति करने योग्य (नेमिं) चक्र के हाल को झुकाता है । उसी प्रकार हे इन्द्रियगण ! मैं साधक (पुरुहूतं) प्रत्येक देह में बल संचार करने वाले (वः इन्द्रम्) तुम्हारे स्वामी आत्मा को (गिरा) हृद की ऋचा एवं स्तुति से (आ नमे) अपने प्रति झुकाता हूँ । यह आत्मा के मनोवेग को लक्ष्य करके कहा है ।

[२३६] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} पिवा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
आपिनो वोधि सधमाद्ये वृधेऽस्माँ अवन्तु ते धियः॥७॥
ऋ० ८ । ३ । १ ॥

भा०—(इन्द्र) हे आत्मन् ! (नः) हम इन्द्रियों के (गोमतः) अपनी गति से सम्पादित (रसिनः) भोग या ज्ञान के सुख या बल से सम्पन्न (सुतस्य) उत्पादित ज्ञान का (पिब) पान कर, उपभोग कर (मत्स्व) और प्रसन्न और तृप्त हो । (नः) हमारे (सधमाद्ये) एक ही साथ आनन्द भोग करने के स्थान, शरीर में (आपिः) बन्धु के समान हमें रक्षा प्राप्त होकर तू (नः) हमें (बोधि) ज्ञानवान् कर । (ते धियः) तेरी ज्ञानमय वृत्तियाँ (वृधे) और भी अधिक उन्नति, वृद्धि के लिये (अस्माँ) हमें (अवन्तु) रक्षा करें ।

^{२ ३ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २}
[२४०] त्वं होदि चेरवे विदा भगं वसुत्तये ।

^{१ २ २ १ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
उद्गावृपस्व मधवन् गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ८ ॥

ऋ० ८ । ६१ । ७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! तू (चेरवे) तेरी सेवा परिचर्या करने हारे अपने सेवक के पा (होदि) आ, साक्षात् हो । और (वसुत्तये)

सुख से प्राण धारण करने योग्य वसु या प्राणों का दान करने के लिये (भगं) भजन या सेवन करने योग्य ऐश्वर्य, या सेवने योग्य प्रभु को (विदाः) प्राप्त कर, उसका ज्ञान कर । हे (मघवन्) शक्तिमन् ! (गविष्टं) इन्द्रियों के इष्ट साधन करने के निमित्त (उद् वावृपस्व) उत्तम रीति से सुखों की दर्पा कर । (उत् अश्वम् इष्टये) और इन्द्रियों में व्याप्त जो भोक्ता रूप आत्मा, अश्व है उसके भले के लिये भी उत्तम रीति से बल दान करो ।

१२ २२ ३२ ३१२ २२ ३१ २
[२४१] न हि वश्वरम चन वमिष्टः परि मंसते ।

३ १२ ३२ ३१२ ३१३ ३ १ २ ३१२
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विश्व पिवन्तु कामिनः ॥६॥

अ० ७ । ५९ । ३ ॥

भा०—(वसिष्टः) मुख्य प्राण (वः) तुम इन्द्रियों में से (चरमं चन) अन्तिम का भी (न हि) नहीं (परिमंसते) तिरस्कार करता । हे (मरुतः) इन्द्रिय मार्गों में विचरण करने वाले प्राणों ! (अस्माकं सुते) हमारे उत्पन्न किये हुए ज्ञानरस में (विश्वे कामिनः) सब अपने रसपान की कामना करने वाले आप लोग (सचा) एक साथ (पिवन्तु) आनन्दा-मृत का पान करो । इसका विवरण देखो बृहदा० उप० (अ० ६ । १) में वसिष्ट प्राण का प्रकरण । अथवा—(वसिष्टः) परमेश्वर (चरमं चन नहि परिमंसते) सबसे पिछड़े हुए का भी अनादर नहीं करता । हे (मरुतः) मनुष्यों ! (अस्माकम् कामिनः) हममें से जो भी परम रस के अभिलाषी हैं वे (विश्वे सचा पिवन्तु) सब आकर समाहित होकर आनन्द रस का पान करें ।

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः ॥ (गीता)

१ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २

[२४२] माचिदन्याद्विशंसत सखायो मा रिपयत ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १२ २ ३ १

इन्द्रमितस्तोता वृषणं सचा सुते मुहुर्कथा च शंसत ॥१०४॥

ऋ० ८ । १ । १ ॥

भा०—हे (सखायः) मित्रो ! (अन्यत् चित्) और कुछ वस्तु को (मा विशंसत) स्तुति मत करो । (मा रिपयत) व्यर्थ के जाल में अपना नाश मत करो, खिन्न मत होओ । (इन्द्रम् इत्) आत्मा, परमात्मा का ही (स्तोत) स्तुति करो । (सुते) उत्पादित ज्ञानयज्ञ या आनन्द में (सचा) एकसंग (वृषणम्) सबसे श्रेष्ठ आत्मा के प्रति (मुहुः) बारं बार (उक्था च शंसत) वेद के सूक्तों का गान करो ।

इति पञ्चमी दशतिः । प्रथमः खण्डः ।

— (७) (७) —

॥ १० ६ ॥ ऋषिः—१ आङ्गिरसः पुरुहन्मा । २, ३ मेधातिथिर्मेध्यातिथिः । ४

विधामित्रः । ५ नौतमः । ६ नृमेधपुरुमेधौ । ७, ८, ९ मेध्यातिथिः ।

१० देवातिथिः काण्वः ॥ इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥

मध्यमः स्वरः ॥

१ ३ १२ ३२ २ २ ३ १२ ३ १ २

[२४३] नकिष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वेभ्यः गृतेमृभ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा ॥१॥

ऋ० ८ । ७० । ३ ॥

भा०—(यः) जो पुरुष (यज्ञैः) यज्ञों द्वारा अपने को (विश्वगू-
त्तम्) सबसे प्रशंसित, (ऋभ्वसम्) ज्ञान सम्पन्न (ओजसा) अपने तेज
से (अद्यष्टम्) किसी से न पराजित होने वाले (धृष्णुम्) विपत्तियों को
धैर्य से सहने वाले (इन्द्रम् न) राजा के समान (कर्मणा) कर्म द्वारा

अपने को (सदावृधम्) सदा उन्नति-मार्ग पर बढ़ाने वाला (चकार) बना लेता है (तं) उसको (नकिः नशद्) कोई नाश नहीं कर सकता ।

[२४४] य ऋते चिद्भिश्चिपः पुरा जन्मभ्यः आतृदः ।

सन्धाता सन्धि मघवा पुरुवसुर्निष्कर्ता विद्वतं पुनः ॥२॥

अ० ८। १। १२ ६

भा०—(यः) जो आत्मा (अभिश्चिपः) आश्लेषण करने वाले द्रव्य के (ऋते चित्) विना ही (पुरा) पूर्व ही (जन्मभ्यः) जीवों के (आतृदः) अलग २ हुए अज्ञों के भी (सन्धिम्) जोड़ने को (सन्धाता) जोड़ता है वह (पुरुवसुः) सयस्त देहों में रहने वाला (मघवा) जीवन यज्ञ का स्वामी आत्मा (विद्वतम्) शास्त्र से को-ट को भी (पुनः) फिर २ (निष्कर्ता) खूब अच्छी तरह से वैसा ही बना देता है । इस रहस्य का स्पष्टीकरण देखो ब्राह्मणों के प्रति याज्ञवल्क्य का प्रश्न (बृह० उप० अ० ३। ब्रा० ६। क० २८) और (अथर्ववेद का० ११। सू० १८। मं० ११-१४)

[२४५] आ त्वा सहस्रम् शितं युक्ता रथे हिरण्यये ।

ब्रह्मयुजो हरद्वय इन्द्र केशिनो वदन्तु सोमपीतये ॥३॥

अ० ८। १। २४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! परमेश्वर ! (हिरण्यये) एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने योग्य आत्मा से युक्त (रथे) रथ में, देह में (युक्ताः) लगे हुए (आ सहस्रम्) हजारों और (आ शतम्) सैकड़ों (ब्रह्मयुजः) ब्रह्म=अन्नकी पोषक शक्ति से जुड़े हुए अथवा (ब्रह्मयुजः) ब्रह्म को समाहित चित्त से साक्षात् करने वाले (केशिनः) ज्ञानतन्तुओं

से सम्पन्न ज्ञानी (हरयः) हरण करने वाले घोड़ों के समान प्राणगण एवं विद्वानजन (सोमपीतये) सांमरस का पान करने के लिये (त्वा) तुझको (वहन्तु) वहन, धारण करें ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[२४६] आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमणिः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ ३ ३ १ २ ३ १ २

मा त्वा केचिन्नियेमुरिन्न पाशिनाऽति धन्वव ताँ इहि ॥४॥

ऋ० ३ । ४५ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (मन्द्रैः) अत्यन्त प्रशंसा योग्य, उत्तम हर्ष के देने वाले, (मयूररोमणिः) मोर के लोमों के समान लोमों तथा आनील विद्युत् कान्ति से सम्पन्न ज्ञानतन्तुओं से युक्त, (हरिभिः) अनुभवों को तुझ तक पहुँचाने वाले ज्ञानसाधनों को (याहि) प्राप्त हो । (त्वा) तुझ को (केचित्) कोई भी (पाशिनः न) जाल वाले लोगों के समान बन्धनकारी प्रलोभन (न नियेमुः) न बांध लें । और तू (तान्) उनको (धन्वा इव) धनुषधारी के समान (अति इहि) अतिक्रमण कर । राजा के पक्ष में स्पष्ट ही है ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[२४७] त्वमङ्ग प्रशंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम् ।

२ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥५॥

ऋ० १ । ८४ । १६ ॥

भा०—(अङ्ग) हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वं) तू (देवः) स्वयं सब का प्रकाशक होकर भी हे (शविष्ठ) सब गतिमान् और शक्तिमान् पदार्थों और ज्ञानवानों में श्रेष्ठ ! (मर्त्यम्) मरणधर्मा देह को (प्रशंसिषः) प्रशंसा योग्य उत्तम चेतन बनाता है । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् ! (त्वदन्यः) तरे से दूसरा कोई (मर्दिता) सुख का देने हारा (न अस्ति) नहीं है ।

इसलिये (ते) तेरी ही (वचः) स्तुति^१ वाणी को मैं (ब्रवीमि) कहता हूँ ।

[२४८] त्वमिन्द्र यशा अस्यजीर्वा शवसस्पतिः ।

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्धेक इत्पुर्वनुत्तश्चर्षणीधृतिः ॥६॥

अ० ८। ६०। ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वं) तू (अजीर्वा) ऋजु, कुटिलता रहित मार्ग में अपने भक्तों को प्रेरणा करने वाला, (शवसस्पतिः) बल का स्वामी, शक्तिमान्, (यशाः असि) यशःस्वरूप है । (त्वं) तू (एक इत्) अकेला ही (पुरु-अनुत्तः) देहों में विना किसी से प्रेरित होकर स्वतन्त्र रूप से, (चर्षणीधृतिः) स्वतः सब मनुष्यों में धारक प्रयत्न होकर (अप्रतीनि) न दबने वाले (वृत्राणि) विघ्नों को (हंसि) नाश करता है ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ ४ २ २ ३ २

[२४९] इन्द्रमिहेवतातये इन्द्रं प्रयत्यध्वरे ।

इन्द्रं समीके वनिना हवामहे इन्द्रं धनस्य सातये ॥७॥

अ० ८। ३। ५ ॥

भा०—(देवतातये) देव, विद्वानों एवं इन्द्रियों की भलाई के लिये (इन्द्रं इत्) आत्मा या ईश्वर को ही हम (हवामहे) पुकारते हैं । (अध्वरे प्रयति) हिंसारहित यज्ञ के प्रारम्भ होने पर भी (इन्द्रं) परमात्मा को हम पुकारते हैं, (समीके) समान रूप से ध्यान, विचार, ज्ञान गति करने के अवसर पर या संग्राम में हम (वनिनः) सब भक्तजन (इन्द्रं) उस ईश्वर को ही राजा के समान स्मरण करते हैं और (धनस्य सातये) धन के विभाग और प्राप्त करने के लिये भी (इन्द्रं) ईश्वर को (हवामहे) आह्वान करते हैं ।

३ १ २

३ १ २ ३

१ २

[२५०] इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मम ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २

पावकवर्णाः शुचयो विपश्चिताऽभिस्तोभैरनूषत ॥८॥

श्र० ८ । ३ । ३ ॥

भा०—हे (पुरुवसो) बहुत ऐश्वर्य वाले एवं बहुत लोकों को बसाने और उनमें बसने वाले ईश्वर ! (मम) मेरी (याः) जो (इमा गिरः) ये वाणियों (त्वा) तुम्हको (वर्धन्तु) बढ़ाती हैं, प्रसिद्ध करती हैं और (पावकवर्णाः) सबको अपने तेज से पवित्र करनेहारे, ईश्वर का वर्णन करने वाले (शुचयः) शुद्ध चित्त वाले (विपश्चितः) कर्म और प्रज्ञा का संचय करने हारे विद्वान् लोग (त्वा) तुम्हको (स्तोभैः) स्तुतिमन्त्रों से (अभि अनूषत) साक्षात् स्तुति करते हैं ।

२ ३ १ २

२ २

३ २ ३

१ २

[२५१] उद्गृत्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते ।

३ १ २

३ १ २

२ २

३ २ ३ १ २

सत्राजिना धनसा अक्षितोतया वाजयन्तो रथा इव ॥९॥

श्र० ८ । ३ । १ ५ ॥

भा०—(त्ये) वे (मधुमत्तमाः) ब्रह्मविद्या से सम्पन्न (गिरः) वेदमन्त्र और (स्तोमासः) स्तुतिमन्त्र (सत्राजितः) सब कष्टों पर विजय पाते हुए, (अक्षितोतयः) अक्षय बलशाली (वाजयन्तः) ज्ञान से सम्पन्न, वेगवान् (रथा इव) रथों के समान (धनसाः) धनों को प्राप्त कराते हुए (उद् ईरते) उत्पन्न होते हैं, ऊपर आते हैं, प्रकट होते हैं ।

१ २

३ २

३ २ ३ २ ३

३ १ २

३ २ ३

[२५२] यथा गौरो अपाकृतं तृव्यनेत्ये गेरिणाम् ।

३

१ २

३ २ ३

३ १ २ ३ १ २ ३


२ ३ ३ १ २

आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमागहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१०॥

श्र० ८ । ३ । ३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (गौरः) गौर मृग या इन्द्रियों के पीछे भागने वाला व्यसनी पुरुष (तृप्यन्) प्यासा, तृष्णा से सताया हुआ (अपाकृतम्) जल से या रस से भरे (इरिणम्) जलाशय या भोगपदार्थ के प्रति (एति) जाता है । उसी प्रकार हे (इन्द्र) आत्मन् ! आप (नः) आपित्वे प्रपित्वे) हमारी बन्धुता को प्राप्त करने पर (कश्चेपु) मेधावी पुरुषों में (तूयं) शीघ्र ही (आगहि) प्राप्त हो और (सच्चा) साथ ही (सु पिब) उत्तम रूप से सोमरस का पान कर ।

इति षष्ठी दशतिः । द्वितीयः खण्डः ॥



॥ ८० ७ ॥ ऋषिः—१ भर्गः । २ रेभः काश्यपः । ३ जमदग्निः । ४, ९ मेधा-
तिथिः । ५, ६ नृमेधपुरुमेधौ । ७ वसिष्ठः । ८ रेभः । १० भरद्वाजः ॥
देवता—१, २, ४—१० इन्द्रः । ३ आदित्याः ॥
ब्रह्मती छन्दः ॥ मध्यमः स्वरः ॥

[२५३] शग्ध्युऽपु शचीपन इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।

भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥१॥

अ० ८ । ६१ । ५ ॥

भा०—हे (शचीपते) सब शक्तियों और प्रजाओं के पालक ! हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (विश्वाभिः) सब प्रकार की (उतिभिः) शक्तियों से (उ सु शग्धि) तू हमारी इष्ट पूर्ति कर । हे (शूर) शूर ! (वसुविदं) प्राणों के प्राप्त करने, कराने और जानने हारे, (यशसं) इन्द्रियों के वीर्यस्वरूप, एवं यशस्वी (भगं न) ऐश्वर्य के समान (त्वा) तेरे (हि) ही (अनु चरामसि) हम अनुकूल चलते हैं । इन्द्रियों की आत्मा के प्रति और भक्तों की ईश्वर के प्रति उक्ति है ।

[२५४] या इन्द्र भुज आभरः स्ववा असुरेभ्यः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

३ २ ३ २ २ १ २

स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तवर्हिपः ॥२॥

ऋ० ८ । १७ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! परमेश्वर ! (याः भुजः) जिन भोग करने योग्य शक्तियों को (असुरेभ्यः) असुररूप प्राणों से तू (आभरः) प्राप्त करता है (स्ववान्) सुख और प्रकाश से युक्त हे (मघवन्) यज्ञ के स्वामिन् ! तू (अस्य) इसके द्वारा (स्तोतारम् इत्) अपने यथार्थ गुण कथन करने वाले को ही (वर्धय) बढ़ा और (ये च) जो (त्वे) तेरे लिये ही (वृक्तवर्हिपः) अपना यज्ञ फैला कर बैठे हैं या तेरे में लीन होने के लिये अपने देह का बन्धन काट चुके हैं उनको बढ़ा । आत्मा प्राणों के बलों से साधक को ही आनन्द देता है और शक्ति को बढ़ाता है । राजा भी जिन ऐश्वर्यों को दुष्ट पुरुषों से छीन के लावे उससे वह विद्वानों को और गृहस्थों को बढ़ावे ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ २

[२५५] प्र मित्राय प्रार्थम्ये सचथ्यमृतावसो ।

३ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २

वरुथ्येऽवरुणे छन्धं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥ ३ ॥

ऋ० ८ । १०१ । ५ ॥

भा०—हे (ऋतावसो) सत्य ज्ञान में ही वास करनेहारे ज्ञानिन् ! (मित्राय) अपने हृदय के स्नेही के लिये (प्र गायत) उत्तम गान कर । (अर्थम्ये) न्यायकारी और अन्तर्यामी, (वरुथ्ये) अपने गृहस्वरूप देह के हितकारी (वरुणे) सब विघ्नों के निवारक (राजसु) तेजस्वी राजाओं में स्वच्छन्दता से विचरने वाले राजा के समान (राजसु छन्धं) तेजस्वी पदार्थों में सूर्यवत् प्रकाशक परमेश्वर, या प्राणों में व्यापक आत्मा को लक्ष्य करके (छन्धं) वेदानुसार (स्तोत्रं) स्तुतिकारक (सचथ्यं) सेवन करने

योग्य, हृदयग्राही (वचः) स्तुति वचन का (प्र गायत) उत्तम रूप से गान करो ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[२५६] अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

समीचीनास ऋभवः समस्वरनुदा गृणन्त पूर्व्यम् ॥४॥

अ० ८ । ३ । ७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (आयवः) दीर्घ जीवन की कामना करने वाले मनुष्य (पूर्वपीतये) पूर्ण जीवन का रसपान करने के अभि-प्राय से (त्वा) तुम्हको (स्तोमेभिः) वेद के स्तोत्रों द्वारा (अभि) साक्षात् ज्ञान करते हैं । (समीचीनासः) सम्यक् दृष्टि से सम्पन्न (ऋभवः) प्राणविद्या के वेत्ता, ज्ञानी लोग (त्वाम् समस्वरन्) तुम्हको प्राणरूप से साधते एवं स्तुति करते हैं । और (रुदाः) ज्ञान के उपदेष्टा विद्वान्जन अथवा प्राणगण भी (पूर्व्यं) पुरातन या पूर्ण या सबसे पूर्व पूजनीय तुम्हको ही (गृणन्ते) स्तुति करते हैं ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[२५७] प्र व इन्द्राय वृहते यरुतो ब्रह्मार्चत ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा ॥ ५ ॥

अ० ८ । ८६ । ३ ॥

भा०—हे (मरुतः) प्राणो ! वा विद्वानो ! (वः) आप लोग (वृहते इन्द्राय) बड़े सामर्थ्यवान् आत्मा के लिये (ब्रह्म अर्चत) वेद द्वारा स्तुति करो । अथवा उस महान् आत्मा के साक्षात् के लिये अन्न और वल को प्राप्त करो या (ब्रह्म) ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करो । वह (शत-क्रतुः) सैकड़ों कर्मों और प्रज्ञाओं का स्वामी (शतपर्वणा वज्रेण) सैकड़ों पालनकारी, पर्व वाले ज्ञानवज्र द्वारा (वृत्रहा) विघ्नों का नाश करने हारा (वृत्रं हनति) आवरणकारी मेघ को सूर्य के समान और शत्रु को राजा के समान अज्ञान या पाप का नाश करता है ।

३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २
 [२५८] बृहद्दिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रह तमम् ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 येन ज्योतिरजनयन्वृतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥ ६ ॥
 ऋ० ८ । ८६ । १ ॥

भा०—(मरुतः) हे प्राणगण ! हे विद्वान् पुरुषो ! (वृत्रहन्तमम्)
 वृत्र=अज्ञान, पाप का नाश करने में सबसे श्रेष्ठ साम का (बृहत्-इन्द्राय)
 बड़े भारी इन्द्र के लिये (गायत) गान करो । (येन) जिससे (अता-
 वृधः) सत्य ज्ञान को बढ़ाने वाले विद्वान् लोग (देवाय) परमेश्वर की
 प्राप्ति के लिये (देवं) प्रकाशमान (जागृवि) सदा जागे रहने वाले, अमर
 (ज्योतिः) प्रकाश को (अजनयन्) प्रकट करते हैं ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ ३ १ २
 [२५९] इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रभ्यो यथा ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
 शिक्षा सा अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ७
 ऋ० ७ । ३२ । २६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! परमात्मन् ! (यथा) जिस प्रकार
 (पिता) पिता (पुत्रभ्यः) अपने बेटों के लिये धन और विद्या आदि
 देता है उसी प्रकार (नः) हमारे लिये (क्रतुं) प्रज्ञा को (आ हर) प्राप्त
 कराओ । हे (पुरुहूत) प्रजाओं द्वारा स्मरण किये गये राजा के समान
 आत्मन् ! परमेश्वर ! (यामनि) इस ब्रह्ममार्ग में (नः) हमें (शिक्ष)
 शिक्षा दो । हम (जीवाः) जीवगण (ज्योतिः) ज्ञानमय ज्योति को
 (अशीमहि) प्राप्त करें ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [२६०] मा न इन्द्र परावृणग्भवा नः सधमाद्ये ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावृणक् ॥ ८ ॥

ऋ० ८ । ६७ । ७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (नः) हमें (मा परावृणक्) कभी परित्याग मत कर । (नः) हमारे (सधमाद्ये) एक संग आनन्द प्राप्त करने के स्थान यज्ञ, देह आदि स्थानों में (भव) हमारे संग रह । (त्वं) तू (नः) हमारी (ऊती) एकमात्र रक्षा है । और (त्वम् इन्) तू ही (नः आप्यम्) हमारा एकमात्र प्राप्त करने योग्य उद्देश्य, लक्ष्य है । तू (नः) हमें (मा परा-वृणक्) कभी मत त्याग ।

यह इन्द्रियों का आत्मा के प्रति और भक्तों का भगवान् के प्रति वचन है । देखो उप० बृह० अ० ६ । ब्रा० १ । “ते प्राणा होन्तुर्मा भगव उत्कर्माः न शक्यामस्त्वदृते जीवितुमिति” ।

उ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[२६१] वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवर्हिषः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन् परि स्तातार आसते ॥६॥

अ० ८ । ३३ । १ ॥

भा०—(वयं) हम प्राणगण या भक्तजन (सुतावन्तः) अपने कर्मफल प्राप्त करके या ज्ञान सम्पादन करके वृक्तवर्हिषः) वर्हि-अर्थात् जीवनयज्ञ को समाप्त कर या ज्ञान द्वारा देह के बन्धन को काट कर (आपः इव) अपने तट बन्धनों को तोड़कर बहने वाले जलों के समान (पवित्रस्य) वेद के पवित्र ज्ञान के (प्रस्रवणेषु) प्रवाहों के तटों पर, हे (वृत्रहन्) अज्ञान के अन्धकारावरणों को छिन्न भिन्न करनेहार देव ! तेरे (स्तोतारः) सत्य-गुणों का गान करने हारे (आसते) बैठे हैं ।

प्राणों का ज्ञानमय स्तोता के रूप में बैठने का अलंकार देखो—

(बृहदा० उप० अ० २ । ब्रा० २ । ३ ।) “तस्यासत ऋपयः सप्त तीरे वाग् अष्टमी ब्रह्मणा संविदांना” ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[२६२] यदिन्द्र नाहुपीप्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिषु ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ :


यद्वा पञ्चक्षितीनां शुम्नमाभर सत्रा विश्वानि पौंस्या ॥१०॥

ऋ० ६ । ४६ । ७ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (नाहुपीपु) शरीर-बन्धनों में बंधी हुई प्राण-धारी प्रजाओं में (यत्) जो (ओजः) तेज और (कृष्टिषु) अपने कर्म-फल प्राप्त करनेहारे मनुष्यों में जो (नृम्णम्) धन है (यत् वा) या जो (पञ्चक्षितीनां) आत्मा की पांचों भूमियों में (शुम्नं) कान्ति या ऐश्वर्य है वह और (सत्रा) बड़े २ (विश्वानि पौंस्या) समस्त बल पराक्रम (आभर) हमें प्राप्त करा ।

लघिमा गरिमा आदि अष्ट सिद्धियों और नव निधियों तथा अन्यान्य बल की प्रार्थना है ।

इति सप्तमी दशतिः । तृतीयः खण्डः ।



॥ द० ८ ॥ ऋषिः—१ मेधातिथिः । २ रेभः । ३ वत्सः । ४ भरद्वाजः । ५ नृमेधः । ६ पुरुहन्मा । ७ नृमेधपुरुमेधौ । ८ वसिष्ठः । मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च ।

१० कलिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ बृहती । मध्यमः ॥

३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ २

[२६३] सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिनोऽविता ।

क २ १ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

वृषाह्यग्र शृण्विषे परावति वृषो अर्वावनि श्रुतः ॥१॥

ऋ० ८ । ३३ । १० ॥

भा०—हे (उग्र) बलवन् ! (सत्यम्) सत्य ही (इत्था) इस प्रकार का (वृषा इद् असि) तू सुखों का वर्षक ही है । और (वृषजूतिः) श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित तू (नः) हमारा (अविता) पालन करने हारा

(वृषा हि शृण्वेपे) 'वृषा' साक्षात् धर्ममय ही सुना जाता है और (परावति) दूर और (अर्वावति) समीप भी तू (वृषा उ) 'वृषा' अर्थात् आनन्दघन ही (श्रुतः) प्रसिद्ध है ।

२ ३ १ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[२६४] यच्छुक्रासि पगवति यदर्वावति वृत्रहन् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

अतस्त्वा गीर्भिर्युगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ आविवासति २

ऋ० ८। १७। ४ ॥

भा०—हे (शक्र) शक्तिमन् ! (यद्) चाहे तू (परावति) दूर, मुक्ति की दशा में हो और (यद्) चाहे हे (वृत्रहन्) हे पापों के नाश करने हारे ! (अर्वावति) समीप, देह में विद्यमान रह, (अतः) तो भी हे (इन्द्र) आत्मन् ! प्रभो ! (केशिभिः) विशेष ज्ञान दीप्तियों से सम्पन्न विद्वानों और (गीर्भिः) वेदवाणियों से (युगद्) प्रकाश की तरफ शीघ्र जाने वाला होकर (सुतावान्) आनन्दरस का सम्पादक है । साधक पुरुष (त्वा) तुझको ही (आ दिवासति) प्रकट करता है ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[२६५] अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महाविचेतसम् ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

इन्द्र नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ ३ ॥

ऋ० ८। ४६। १४ ॥

भा०—(वः) आप लोग (मन्धसः मदेषु) अन्न या प्राण धारण कराने वाले चिदात्मा, या अन्धकार को दूर करने वाले ज्ञान के द्वारा प्राप्त आनन्द के अवसरों पर (महाविचेतसम्) अत्यन्त अधिक ज्ञान और चेतना युक्त (वीरं) वीर्यवान्, (श्रुत्यं) श्रुति, वेद में प्रसिद्ध (शाकिनं) सर्व शक्तिमान्, (नाम) सबको नम्र करने हारे (इन्द्रं) ईश्वर को (यथा

वचः) जिस प्रकार वेदवचन का आदेश है उसी प्रकार (गिरा) वेद की ऋचा द्वारा (गाय) स्तुति करो ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[२६६] इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरुथं स्वस्तये ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

छर्दि र्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमभ्यः ॥ ४ ॥

ऋ० ६ । ४६ । ९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (मघवद्भ्यः) यज्ञ करने हारे ऐश्वर्य और विभूतिमान् अधवा निष्पाप कर्मों वाले साधकों और (मह्यं च) मेरे लिये (त्रिधातु) वात, पित्त, कफ तीन धातुओं से बने, (त्रिवरुथं) तीनों दोषों का वारण करने हारे (शरणं) देह के (स्वस्तये) कल्याण के निमित्त (यच्छ) प्रदान कर । (एभ्यः) उक्त कर्मठ पुरुषों की ओर से (दिद्युम्) वज्रस्वरूप (छर्दिः) आच्छादक बन्धन को (यावया) हटा ।

१ २ ३ २ ३ १ २ २ २

[२६७] श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत ।

१ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रतिभागं न दीधिमः ॥५॥

अथर्व० ८ । ९९ । ३ ॥

भा०—(सूर्य इव) सूर्य के समान सब के प्रेरक आत्मा का (श्रायन्तः) आश्रय लेते हुए (विश्वा) समस्त (जाता) उत्पन्न हुए और (जनिमानि) आगे उत्पन्न होने हारे (वसूनि) प्राणी सब (इन्द्रस्य इत्) उस ऐश्वर्यवान् परमेश्वर के ही दिये ऐश्वर्य का (भक्षत) भोग करें । इस कारण उसके ही (ओजसा) बल से हम (भागं न) प्राप्त दायभाग के समान उसको (प्रति दीधिमः) समझें ।

[२६८] न सीमं दव आप तदिषं दीर्घायो मर्त्यः ।

एतग्वाचिद्य एतशा युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६॥

ऋ० ८ । ७० । ७ ॥

भा०—हे (दीर्घायो) नित्य आत्मन् ! (अदेवः) इष्टदेव से रहित (मर्त्यः) मरणधर्मा मनुष्य (तत्) उस परम (इषम्) सबके अभिलाषा के योग्य लक्ष्य को (न आप) नहीं प्राप्त करता । अथवा— (अदेवः मर्त्यः इषं न आपतत्) ईश्वर को छोड़ कर मनुष्य अपने अभिलाषित अन्न के समान भोग्य पदार्थ या इष्टलोक को भी नहीं पहुँचता । अथवा—माधव के मत से—(इषं न आपतत्) अपने गन्तव्य परम पद या मार्ग को नहीं चल सकता । (एतग्वा^२) अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अश्व आदि साधनों से युक्त पुरुष जिस प्रकार (एतशः) अपने घोड़ों को (युयोजते) रथ में लगाता है और राह पर डाल देता है । उसी प्रकार सबको सन्मार्ग पर लेजाने वाला (इन्द्रः) महान् ऐश्वर्यशील परमात्मा ही (हरी) उसके घोड़ों को (युयोजते) ठीक मार्ग पर ले जाता है ।

‘भगवान् के आश्रय से ही सीधा मार्ग और इष्ट फल मिलता है, नहीं तो आदमी भटक जाता जाता है ।

[२६९] आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूपत ।

उप ब्रह्माणि सत्रनानि वृत्रहन् परमज्या ऋचीपम ॥७॥

ऋ० । ९० । १ ॥

२६८—‘हरी इन्द्रो युयोजते’, ‘आपतदिषं’ इति ‘य एतशा’ इति ऋ० । आप तद् इषम् । इति पाठः सायणसम्मतः आप तद् इषमिति (तु० सा०) ‘आप तद् इषम्’ इति मा० वि० ।

१. इषतिर्गतिकर्मा (नि० २ । १४ ।) २. प्राप्तगन्तव्याः, इति (मा० वि०)

२६९—‘हव्य इन्द्रः’, ‘भूपतु’, ‘वृत्रहा’, ‘ऋचीपमः’ इति ऋ० ।

भा०—(विश्वासु) सब (समत्सु) एकत्र आनन्द उरसवों में (नः) हमारा (हव्यं) स्तुतिवचन (इन्द्रम्) उस ईश्वर को (आ भूपत) सु-भूपित करे, उसका गुणगान करे । हे (वृत्रहन्) विघ्ननिवारक ! सब से अधिक शत्रुओं का नाश करने हारे, हे (ऋचीषम) सब स्तुतियों में समानरूप से विद्यमान ईश्वर ! (ब्रह्माणि) वेदस्तवन और वैदिक कर्म (सवनानि) यज्ञ यागादि सब उपासना कर्म तुझको ही (उप भूपत) शोभा देते हैं ।

१२ २२ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २
[२७०] तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम् ।

३ १२ २२ ३ २ १ ३ १ २ ३ १ २

सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोपु वृएवते॥८॥
ऋ० ७ । ३२ । १६ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (अवमं) सबसे नीचे का (वसु) बसने योग्य पृथिवी लोक भी (तव इद्) तेरा ही है । (त्वं) तू (मध्यमं वसु) बीच के लोक, अन्तरिक्ष लोक को भी (पुष्यसि) पोषण करता है । और तू आप (परमस्य) सब से उत्कृष्ट (विश्वस्य) संसार में (राजसि) प्रकाशमान हैं । अथवा—हे आत्मन् ! (अवमं वसु) निकृष्टतम प्राणि तेरा ही विकास है । (मध्यमं) मध्यम श्रेणी के प्राणी को भी तू ही पुष्ट करता और (परमस्य) उच्च कोटि के प्राणी में भी तू ही प्रकाशित है । (त्वा) आपको (गोपु) समस्त गतिशील योनियों, लोकों, और आत्मपक्ष में—इन्द्रियों में से भी (नकिः) कौन नहीं (वृएवते) वरण करता ? अर्थात् सभी चाहते हैं । अथवा—(नकिः) कोई भी तुझे (न वृएवते) नहीं रोकता । तेरी शक्ति सर्वत्र व्यापक है ।

१२२३ १२ ३ २ ३ २ ३ १ २
[२७१] क्वयथ केदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २

अल्पि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिपुः ॥६॥

ऋ० ८ । १ । ७ ॥

भा०—हे (पुरन्दर) हे देहरूप अपने पुरी को अपनी शक्ति से विदारण करने हारे आत्मन् ! (क इयथ) तू कहां २ गति करता है ? (क इत् असि) और तू कहां २ रहता है । (पुरुत्रा चित् हि) बहुत से स्थलों पर या इन्द्रियों के भीतर चित्स्वरूप में (ते) तेरी (मनः) मननशील संकल्प शक्ति (अलर्षि) गति करती है । हे (युध्म !) हे विषयवामना या रागद्वेषादि से युद्ध करनेहारे ! हे (खजकृत्) ख=इन्द्रियों के द्वारों में उत्पन्न विषयग्राहक सामर्थ्यों के विधातः ! (गायत्राः) स्तुति करनेहारे विद्वान् जन और प्राणगण (प्र अगासिषुः) तेरी ही महिमा गाते हैं ।

३१२ ३१२ २२ ३२ ३ १ २

[२७२] वयमेनमिदाह्योऽपीपेमह वज्रिणम् ।

१ २ ३१२ २२ ३२ ३२ ३१ २ ३२

तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुत ॥१०॥

ऋ० ८। ६६। ७ ॥

भा०—(वयं) हम (एनम् इद्) इस (वज्रिणम्) ज्ञानरूप वज्र को धारण करनेहारे आत्मा को ही (ह्यः) गत काल में (इह) इस देह में (आ अपीपेम) खूब ज्ञानरस पान कराते रहे । (अद्य) आज (श्रुते सवने) इस वेदानुकूल यज्ञ उपासना में (तस्मा उ) उस ही इन्द्र के लिये (सुतं) ज्ञानरस या आनन्दरस को लाओ, और (नूनं) निश्चय से (भूषत) उसकी शोभा बढ़ाओ ।

गत जीवन में भी ज्ञान सम्पादन किया, इस जीवन में भी करो और ज्ञान से उसकी शोभा करो । विचातपोभ्यां भूतात्मा । मनुः ।

इति अष्टमी दशतिः । चतुर्थः खण्डः ।

॥ ८० ९ ॥ ऋषिः—१, ६ पुरुहन्मा । २ भर्गः ३ इरिमिठिः । ४ जमदग्निः ॥

५, ७ देवातिथिः । ८ वसिष्ठः । ९ भरद्वाजः । १० वालखिल्याः ।

देवता—१—३, ५—८ १० इन्द्रः । ९ इन्द्राग्नी । ४ सूर्यः ॥

बृहती ॥ मध्यमः ॥

१२ २२ ३२३ ३ १२ ३ १२
[२७३] यां राजा चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः ।

१ २ ३१२ २२ ३ २३ १ २३२ ३२
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यां वृत्रहा गृण ॥१॥

ऋ० ८ । ७० । १ ॥

भा०—(यः) जो (चर्षणीनां) दष्ट इन्द्रियों या मनुष्यों का (राजा) शासक, प्रकाशक या उनके बीच में स्वतः प्रकाशमान है और जो (रथेभिः) रमण करने, भोग करने के साधन देहों या प्राणेन्द्रियों से (यात्रा) विषयों तक गमन करने द्वारा, (अधिगुः) इन्द्रियों पर वश करने द्वारा अधिष्ठाता है और (यः) जो (वृत्रहा) सब अज्ञानों का नाशक, (विश्वासां) समस्त (पृतनानां) सेनाओं के समान वासनाओं तथा मनुष्यों का (तरुता) विनाशक या पार करनेहारा है उस (ज्येष्ठम्) सब से श्रेष्ठ आत्मा की मैं (गृणे) स्तुति करता हूँ ।

राजा और ईश्वर पक्ष में स्पष्ट है ।

‘अधिगुः—’ अधिकृतशब्दस्य अधिभाव इति दे० य० । पृतना इति मनुष्यनाम । नि० २ । ४ ॥ संग्रामनाम च । नि० २ । १७ ॥

१ २ ३ १२ ३ १२ ३ १२
[२७४] यत् इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ।

१ २ ३ २३ ३ १२ ३२३ २३ ३ २२ २२
मघवञ्छ्विंश्र तव तन्न ऊतये वि द्विपो वि मृधो जहि ॥२॥

ऋ० ८ । ६१ । १३ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (यतः) जिससे हम (भयामहे) भय करते हैं (नः) हमें (ततः) उससे (अभयं) भयराहित (कृधि) कर । हे मघवन् ! (तव तत्) तेरा वह बल है कि (नः, ऊतये) हमारी रक्षा के लिये (श्विंश्र) तू समर्थ है, इस कारण (द्विपः) नाना द्वेष करने हारे

(मृधः) नाना भृगुदने हारे, संग्रामकारी शत्रुओं को (वि, जहि) वि-
विध उपायों से नाश कर ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २
[२७५] वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

द्रप्सः पुरां भेत्ता शश्वतीनामेन्द्रो मुनीनां सखा ॥ ३ ॥

ऋ० ८ । १०१ । ११ ॥

भा०—हे (वास्तोष्पते) सब बसने योग्य गृहों और देहों के स्वा-
मिन् ! आप (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान्, (ध्रुवा स्थूणा) अचल आधार
स्तम्भ हो । और (सोम्यानां अंसत्रम्) सोमपान करने वाली इन्द्रियों
और सोमपायी विद्वानों के स्कन्धदेश पर लगे कवच के समान मर्म की
रक्षा करनेवाले हो । आप (द्रप्सः) हृदय में द्रुत या स्तुत रस का पान करने
वाले या स्वतः रसरूप और (पुरां) शत्रुओं के नगरों, गढ़ों और योगिजनों
के देहों के (भेत्ता) अपने ज्ञान, वज्र से भेदन करने वाले हो और
(मुनीनां) मननशील ध्यानियों के एकमात्र (सखा) सखा, मित्र हो ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[२७६] वरमहां असि सूर्य वडादिन्य महां असि ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

महस्ते सतो माहमा पांनष्टम महा देव महां असि ॥ ४ ॥

ऋ० ८ । १०१ । ११ ॥

भा०—हे (सूर्य) सयके उत्पादक और प्रेरक ! (वट् महान् असि)
तुम सचमुच बड़े हो । हे (आदित्य) सबको अपने भीतर समा लेनेवाले
देव ! (वट् महान् असि) तुम सचमुच बड़े हो । (सतः ते) सत् स्वरूप,
सर्वत्र व्यापक तुम्हारी (महः महिमा) बहुत भारी महिमा है । हे (पनि-
स्तम) स्तुति करने योग्यों में सबसे श्रेष्ठ देव ! (महा) अपने महत्त्व से
ही आप (महान् असि) बड़े हो ।

[२७७] अश्वी रथी सुरूप इद् गोमान् यद्विन्द्र ते सखा ।

श्वान्नभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रैर्याति सभामुप ॥५॥

श्र० ८ । ४ । ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यदा) जब (ते सखा) तेरा मित्र (अश्वी) बलवान् प्राण, इन्द्रिय सम्पन्न (रथी) उत्तम देहरूप रथ से युक्त (सुरूपः) उत्तम रुचि या कान्तिमान् रूप से युक्त और (गोमान् इद्) उत्तम ज्ञान इन्द्रियों और उत्तम वाणी से युक्त हो जाता है तब वह (सदा) नित्य ही (श्वान्नभाजा) धन धान्य से युक्त (वयसा) अपनी आयु से और (चन्द्रैः) आह्लादकारी या चिरकाल तक आनन्दकारी सज्जनों के साथ (सभाम्) तेरे समान कान्ति या सत्संग को (उपयाति) प्राप्त होता है ।

जितेन्द्रिय ज्ञानी, उत्तम प्रवृत्ति से युक्त पुरुष ही सत्संग से मुक्त हो जाता है । राजा और ईश्वर पक्ष में स्पष्ट है ।

[२७८] यद्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः ।

न त्वा वाज्रिन्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्टरोदसी ॥ ६ ॥

श्र० ८ । ७० । ५ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (यद् द्यावः शतं) यदि द्यौलोक भी सैकड़ों (उत भूमीः शतं) और भूमियां भी सैकड़ों (स्युः) हों वे और हे (वाज्रिन्) सर्व शक्तिमन् ! (सहस्रं सूर्याः) हजारों सूर्य और (रोदसी) यह सब ब्रह्माण्ड भी (वि-अनु जातम्) तेरे पीछे पैदा हुआ (त्वा न अष्ट) तुझे पूरी तरह से व्याप नहीं सकता ।

'ज्यायान् पृथिव्याः ज्यायानन्तरिक्षात् ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकैभ्यः' इति बृहदा० उप० । 'एकांशेन स्थितं जगत्' । गी० ॥

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद्व्युत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तरय महात्मनः (गी० ११।१२।)

[१७६] यदिन्द्र प्रागपागुदङ् न्यग्वा ह्यसे नृभिः ।

सिमा पुरु नृषूतो अस्यानवसि प्रशङ्क तुर्वशे ॥७॥

ऋ० ८ । ४ ॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यद्) क्योंकि (प्राग्) प्राची दिशा में, पूर्व में (अपाग्) पश्चिम में, (उदङ्) ऊपर में (न्यग् वा) यानीचे सर्वत्र (नृभिः) मनुष्यों द्वारा (ह्यसे) तेरी स्तुति की जाती है तू ही पुकारा जाता है । (सिम्-आ) सर्वत्र (पुरु) देहधारियों में (आनवे) प्राणधारियों में (तुर्वशे) इन्द्रियों के वश करने हारे योगियों या इन्द्रियों के अधीन मनुष्यों में भी तू (नृसूतः) नेता, उत्तम पुरुषों द्वारा अभिषिक्त नृपति के समान पूजित (असि) है ।

[२८०] कस्तमिन्द्र त्वावसवामर्त्या दधर्षति ।

श्रद्धा हि ते मघवान् पार्ये दिवि वाजी वाजं सिपासति ८

ऋ० ७ । ३२ । १४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (वसो) सबको बसाने और सब में बसने हारे ! (तं त्वां) उस स्मरण करने योग्य तुम्हको (कः मर्त्यः) कौन पुरुष (आ दधर्षति) अपमानित कर सकता है । (वाजी) ज्ञानी पुरुष (श्रद्धा) सत्य धारण करने हारा, (मघवान्) यज्ञ कर्मादि और ऐश्वर्यों से सम्पन्न होकर (पार्ये दिवि) पार करने योग्य प्रकाश में, या संसार को पार करने हारे ज्ञानप्रकाश में रहता हुआ तेरे प्रति (वाजं) अपने ज्ञानमय भेंट को (सिपासति) तेरे अर्पण कर देता है ।

१ २ ३ २ ३ २ २ ३ १ २
[२८१] इन्द्राग्नी अपादिय पूर्वागात्पद्धतीभ्यः ।

३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्त्रिशत्पदान्यक्रमीत् ॥ ६ ॥

ऋ० ६ । ५६ । ६ ॥

भा०—(इन्द्राग्नी) इन्द्र वायु और प्राण और अग्नि सूर्य और आत्मा के बलपर (इयं) यह उपा या चित्-शक्ति (अपात्) बिना पैरों के भी (पद्धतीभ्यः) चरणवाली प्रजाओं से (पूर्वा) पूर्व ही (आगात्) आजाती है। (हित्वा शिरः) अपने शिर को त्याग कर (जिह्वया) अपनी व्यापन शक्ति ग्रहणशक्ति से (रारपत्) शब्द करती हुई (चरत्) गति करती हुई (त्रिशत् पदानि) तीस पद (अक्रमीत्) गति करती है।

यजुर्वेद में इसका उपा देवता है। सायण ने उपा पक्ष में ३० पद ३० सुहूर्त कहे हैं। चित्शक्ति के पक्ष में ८ वसु ११ रुद्र और १२ आदित्य ये सब शरीर में ही हैं। उन पर वश करती है। यद्यपि ये ३१ हैं तो भी एकादश रुद्रों में दश प्राण ११ वां स्वयं आत्मा है। अतः वह ३० प्राण ही गिने जायेंगे। आत्मा स्वतः चित्शक्ति से भिन्न नहीं। इन्द्र अग्नि, उपा और ३० चरण सब मिलाकर ३३ देवता हुए।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[२८२] इन्द्र नदीय एदिहि मितमेधाभिरूतभिः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टाभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥


ऋ० ८ । ५३ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (मितमेधाभिः) ज्ञानयुक्त धारणावती बुद्धियों वाली (ऊतिभिः) अपनी रक्षण शक्तियों के साथ तू (आ एदि इत्) हमें प्राप्त हो। हे (शन्तम) सुखकारक ! (शन्तमाभिः) अत्यन्त शान्तिदायक (आभिष्टिभिः) हमारी सुख कामनाओं सहित और हे (स्वापे!) सुख को प्राप्त करने

२८१—'हित्वाशिरो जिह्वया वावदत्' इति ऋ० ।

हारे हे सुबन्धो ! (स्वापिभिः) सुखदायक शक्तियों द्वारा तू (आ)
हमें प्राप्त हो ।

इति नवमी दशतिः । पञ्चमः खण्डः ।



॥ २० १० ॥ ऋषिः—१ नृमेषः । २, ३ वसिष्ठः । ४ भरद्वाजः । ५ परुच्छेपः ।

६ वामदेवः । ७ मेघ्यातिथिः । ८ भर्गः । ९, १० मेधातिथिमेघ्यातिथिः ॥

देवता १-४, ७-१० इन्द्रः । ५ वरुणः ॥ बृहती ॥ मध्यमः ॥

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[२८३] इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम् ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

आशुं जेतारं होतारं रथीतममतूर्तं तुग्रियावृधम् ॥१॥

ऋ० ८। १६। ७ ॥

भा०—(वः) आप लोग (ऊती) अपनी रक्षा के निमित्त (अजरं)
कभी जीर्ण न होने वाले (प्रहेतारं) इन्द्रियों या विद्वानों को उत्तम रीति
से प्रेरणा करने हारे, (अप्रहितम्) स्वयं किसी से प्रेरित न होने वाले,
स्वतन्त्र, (आशुम्) सर्वव्यापक, अति शीघ्रगामी, (जेतारं) सबके विजेता,
उत्कृष्ट, (होतारम्) ज्ञान और भोग के दाता (रथीतमम्) सब देहधारियों
में सब से श्रेष्ठ, (अतूर्तम्) किसी से भी न मारे जाने वाले, अमर, (तुग्रि-
यावृधम्) तमोनिवारक, ज्ञान के वर्धक, आत्मा की शरण में (इत) आश्रो ।
आत्मा परमात्मा दोनों पक्षों में समान है ।

१ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ २ २

[२८४] मा पु त्वा वाघतश्च नारं अस्मन्निरीरमन् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २

आरात्ताद्वा सधमादन्न आगहीह वा सल्लुपं श्रुधि ॥ २ ॥

ऋ० ७। ३२। १ ॥

२८३—'तुग्रियावृधम्' इति ऋ० ।

२८४—'आरात्ताचित्' इति ऋ० ।

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वा) तेरे लिये (वाघतः) यत्न करते हुए, ज्ञानवान् मेधावी पुरुषों, या इन्द्रियगण को (आर) समाप से (मा३ उ सु निरीरमन् चन) क्या तू खूब नहीं रमाता है ? रमाता ही है । इसलिये हे इन्द्र ! (आरात्-तात्) दूर से (वा) भी (नः सधमाद्) हमारे एकत्र रमण करने के स्थान, आत्मा, हृदय या कीड़ा भूमि, शरीर में (आगहि) व्याप्त हो । (इह वा सन्) और यहां ही रहकर (उप श्रुधि) हमारे चचन सुन ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[२२५] सुनोत सोमपात्रे सोममिन्द्राय वाज्रणे ।

१ २ ३ १ २ २ २ ३ २ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ २

पचता पक्कीरवसे कृणुध्वमित्पृणन्नित्पृणने मयः ॥३॥

अ० ७ । ३२ । ८ ॥

भा०—हे विहानो ! हे इन्द्रियगण ! (सोमपात्रे) सोम का पान करने हारे (वाज्रणे) वाज्र, तमोनाशक या वैराग्यसाधक साधनों से सम्पन्न (इन्द्राय) आत्मा के लिये (सोमं) सोम, घानन्दरस को (सुनोत) उत्पन्न करो । उसके (पक्कीः) पक्वान, पक्वज्ञान परिपुष्ट अनुभव (पचत) पकाओ, तैयार करो, प्राप्त करो । (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (कृणुध्वम्) यत्न करो । वह (पृथन् इत्) सब को पालन करता हुआ ही (मयः पृणत) सुख कल्याण करता है ।

१ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[२२६] यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहं वधम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

सहस्रमन्यो तुविनुम्य सत्पते भवा समत्सु नो वृथा ॥३॥

अ० ६ । ४६ । ३ ॥

भा०—(यः) जो आत्मा (सत्राहा) सब शत्रुओं का नाशक और (विचर्षणिः) सब का द्रष्टा है । (तं इन्द्रं) उस ऐश्वर्यवान् को (वधं

हूमहे) हम पुकारते, स्मरण करते हैं । हे (सहस्रमन्थो) सहस्रों मन्थुओं, ज्ञानों से युक्त ! हे (तुविनृभ्य) बहुधन ! हे (सत्पते) सज्जनों के प्रतिपालक ! (समत्सु) हमारे आनन्द उत्सवों के अवसरों पर (नः वृधे) हमारी उन्नति के लिये (भव) हो ।

देखो केनोपनिषद् में देवों की विजय-कथा ।

१ २

३ २ ३ २ २

[२८७] शचीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्तं दिशस्यतम् ।

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

मा वां रातिरुपदसत्कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥

अ० १। १३९। ५ ॥

भा०—हे (शचीवसू) शक्ति स्वरूप धन से सम्पन्न ! अपने बलपर सब को वास या जीवन को देने हारे प्राण और अपान स्वरूप अश्वियो ! या हे प्रज्ञा और कर्म के धनी स्त्री पुरुषां, (शचीभिः) अपनी शक्तियों से (दिवानक्तं) रात दिन (नः दिशस्यतम्) हमें सम्पन्न करो । (वां रातिः) आप लोगों की दानशीलता या आहुति (मा कदा चन उपदसत्) कभी नष्ट न हो, न रुके और (अस्मद् रातिः) और हमारी दी आहुति या दान भी (कदाचन मा उपदसत्) कभी नष्ट न हो ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[२८८] यदा कदा च भीदुष्य स्तोता जरेत मर्त्यः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ ३ १ २

आदिद्धन्देत वरुणं विपा िगिरा धर्तारं विव्रतानाम् ॥६॥

भा०—(मीदुषे) सकल संसार पर सुखों बलों, और ज्ञानों के वर्षक ईश्वर के लिये (मर्त्यः) मनुष्य (स्तोता) स्तुतिकर्ता (यदा कदा च) जब कभी (जरेत) रतुति करे (आत् इत्) तब ही (विव्रतानाम् धर्तारं) नाना प्रकार के कर्मों के धारण करने हारे विरुद्धाचारियों को रोकने वाले

(वरुणं) पाप निवारक सर्व श्रेष्ठ ईश्वर को (विपा गिरा) विशेष रूप से पालन करने हारी वेदवाणो से ही (वन्देत) स्तुति करे ।

३ १२ २ १ ३ २ ३ १ २

[२८६] पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे ।

१२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

यः सम्मिश्रलो ह्योऽर्यो हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः॥७॥

श्र० ८ । ४६ । १ ॥

भा०—हे (मेध्यातिथे !) मेघा, बुद्धि से गम्यमान, पवित्र अतिथे ! विना किसी निर्दिष्ट काल के हृदय में विराजमान होने वाले अतिथि के समान पूज्य ! या नित्य व्यापक परमात्मन् ! (अन्धसः मदे) प्राण धारण करनेहारे पदार्थ के उद्योग या आनन्द लाभ के निमित्त (इन्द्राय) इस आत्मा के (गाः) इन्द्रियों की (पाहि) रक्षा कर । (यः) जो (इन्द्रः) आत्मा (ह्योः सम्मिश्रलः) दोनों प्रकार के बाह्य और भीतरी इन्द्रियों से संनिकर्ष को प्राप्त होकर (हिरण्ययः) हित और सुखजनक ज्ञान लाभ करने वाला है वही (इन्द्रः वज्री) सब अज्ञानों का वर्जन करनेहारा आत्मा (हिरण्ययः) प्रकाशस्वरूप ज्योतिर्मय ज्ञान का प्राप्त करनेहारा है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३

[२६०] उभयं शृण्वच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

सत्राच्या मध्वान्तसोमपीतये त्रिया शविष्ठ आ गमत् ॥१॥

श्र० ८ । ६१ । १ ॥

भा०—(इन्द्रः) आत्मा (नः) हमारे (अर्वाग्) आश्रयन्तर मानस और (इदं च) इस प्रत्यक्ष, उच्चारण किये हुए, (उभय) दोनों प्रकार के (वचः) वचनों को (शृण्वत्) सुनने हारा (मध्वान्) नाना पेश्वर्यों से सम्पन्न, (शविष्ठः) बलवान् आत्मा (सोमपीतये) परमेश्वर के दिये परमसुख

२८९—'पाहिगायान्धसो' इति, 'ह्योऽर्यः' सुते सत्वा वज्रो रथो हिरण्ययः

इति च श्र० ।

रूप सोमरस पान करने के लिये (सन्नाच्या धिया) सत्यानुकूल बुद्धि से सम्पन्न होकर (आगमत्) हमें प्राप्त हो ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[२६१] महं च न त्वाद्विवः परा शुल्काय दीयसे ।

२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥६॥

ऋ० ८ । १ । ५ ॥

भा०—(अद्विवः) हैं अन्धकार का हरण करने हारे ज्ञानवन् ! (वज्रिवः !) हे वज्र को धारण करनेहारे आत्मन् ! (महं च न शुल्काय) बड़े भारी मूल्य के बदले भी (न परा दीयसे) तुम्हको नहीं दिया जा सकता, तुम्हे त्याग नहीं किया जा सकता । हे सैकड़ों ज्ञानकर्मों से सम्पन्न ! (न शताय) न सौ के बदले और (न सहस्राय) न हजार के बदले, और (न आयुताय) न लाख के बदले ही तुम्हे दिया जा सकता है ।

१ २ ३ १ ३ २ ४ १ ३ २

[२६२] वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत्त भ्रातुरभुञ्जतः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

माता च मे छुदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥१०॥

ऋ० ८ । १ । ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (अभुञ्जतः) प्राप्त धन का भोग न करने वाले या मेरा पालन न करने हारे (मे पितुः) मेरे पिता से और (भ्रातुः) भाई से भी आप (वस्यान् असि) अधिक श्रेष्ठ, अधिक ऐश्वर्यवान् हो । हे (वसो) वसो ! भीतर बसेन हारे ! तू और (माता च) मेरी माता अथवा सब विश्व को निर्माता तुम दोनों (समा) समान रूप से (मे) मुझको (वसुत्वनाय) ऐश्वर्य लाभ करने और (राधसे) कार्य में सिद्धि प्राप्त कराने के लिये (छुदयथः) मेरा भोजन आच्छादन द्वारा पालन करते हो ।

इति दशमी दशतिः । प१: खण्डः ।

इति द्वितीयोऽर्धः प्रपाठकः, तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥

अथ चतुर्थः प्रपाठकः (प्रथमोऽर्थः) ।

॥ द० १ ॥ ऋषिः—१ वसिष्ठः । २, ६, ७ वामदेवः । मेधातिथिमेध्यातिथी
विश्वामित्र इत्येके । ४ नोषः । ५ मेधातिथिः । ८ श्रुष्टिगुः काण्वोः ।

वालद्विल्याः वा । १ मेध्यातिथिः । १० नृमेधः ॥ देवता—१-६,

म-१० इन्द्रः । ७ बहुः ॥ बृहती ॥ मध्यमः ॥

३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २
[२६३] इम इन्द्राय सुन्विरं सोमासो दध्याशिरः ।

१२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

ताँ आमदाथ वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ॥१॥

ऋ० ७ । ३२ । ४ ॥

भा०—(इमे) ये (दध्याशिरः) दधि से मिश्रित या ध्यान योग से
प्राप्त (सोमासः) सोम, ज्ञान (इन्द्राय) आत्मा के लिये (सुन्विरं)
सम्पादित किये हैं, हे (वज्रहस्त) हाथ में ज्ञान रूप वज्र को धारण किये
हुए आत्मन् ! (मदाय) अपने अन्तः प्रसन्नता, हर्ष के लिये (तान् आ-
पीतये) उनको साक्षात् पान करने के लिये (हरिभ्यां) ज्ञान और कर्म
या दोनों प्रकार के इन्द्रियों से (ओकः) इस देह में (आ याहि)
तू आ ।

३ १२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[२६४] इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिनः ।

१ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

मधोः पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः ॥२॥

भा०—हे आत्मन् ! (ते मदाय) तेरे हर्ष के लिये (इमे) ये
(उक्थिनः सोमाः) ब्रह्मज्ञान सम्पन्न सोम=विद्वान् जन या समस्त ब्रह्मानन्द
रस (चिकित्रे) प्रतीत होते हैं । तू (मधोः पपान) ब्रह्मविद्यारूप मधु का
पान कर । (नः गिरः) हमारी वेदवाणियों (उप शृणु) श्रवण कर । हे
(गिर्वणः) वेदवाणियों द्वारा भजन करने योग्य देव ! तू (स्तोत्राय)
गुणकीर्तन करने हारे पुरुष को (रास्व) अभीष्ट फल दे ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[२६२] आ त्वाश्च सवर्दुघां हुवे गायत्रवेपसम् ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

इन्द्रं धेनुं सुदुघामन्त्यामिपमुरुधाराभरङ्कृतम् ॥ ३ ॥

ऋ० ८।१।१० ॥

भा०—मै (सवर्दुघाम्) सब प्रकार के ज्ञानरस को दुग्धरूप से देने हारी, (गायत्रवेपसम्) स्तुति गान करने हारे की रक्षा करने हारे शरीर वाली, (सुदुघाम्) सुगमता से दुही जाने योग्य (इपम्) अन्नस्वरूप अथवा बलस्वरूप (उरुधाराम्) बड़े भारी ब्रह्माण्ड को धारण करनेहारी या बहुत धाराएं वर्षाने वाली (अरंकृतं) अत्यन्त अधिक पर्याप्त धन धान्य पैदा करनेहारी या सुभूषित (इन्द्रं) परमेश्वर या आत्मारूप (त्वा), तुभू (धेनुं) गाय कामधेनु माता की (हुवे) मै स्तुति करता हूँ ।

१ २.३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ ३

[२६६] न त्वा वृहन्तो अद्रयो वरन्ते इन्द्र वीडवः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते ॥४॥

ऋ० ८।८८।३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! जिस प्रकार विजुली को (वृहन्तः अद्रयः न वरन्ते) बड़े २ मेघ और पर्वत वरण करते हैं उसी प्रकार (त्वा) तुभूको (वीडवः) वीर्य-सम्पन्न, (वृहन्तः) बड़े २ (अद्रयः^१) विद्वान्-लोग (न वरन्ते^१) क्या स्वीकार नहीं करते ? करते ही हैं । अथवा वे (न त्वा वरन्ते) तेरा वरण नहीं करते, विरोध नहीं करते, तेरा निषेध नहीं करते, तेरी सत्ता स्वीकार करते हैं । (यत्) क्योंकि (मावते स्तुवते) मेरे

१. भक्षणार्थस्य अत्तेर्विदारणार्थस्य वृणातेर्वा रिन् प्रत्ययः । अत्ति तमः

इत्यद्रिज्ञानी । न दीर्यते मोहादिना वा इत्यद्रिः संयमी ।

२९६—'यद्विस्सि' इति ऋ० ।

समान स्तुति करनेहारे पुरुष को तू (यत् वसु शिञ्जसि) जो चासयोग्य धन, बल प्रदान करता है (ते तद्) तेरे दिये उस धन को (न किंः आ-मिनाति) कोई भी नाश नहीं कर सकता । विद्युत् पक्ष में वदे २ (अदयः) मेघ या पर्वत भी उसको ढांप नहीं सकते ।

[२६७] क ई वेद सुत सचा पिवन्तं कद् वयो दधे ।

१ २ ३ ३ ४ २ १ २ ३ १ ४ ३ २
३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

अयं यः पुरो वि भिनत्स्योजसा मन्दानः शिप्रधन्धसः ॥५॥

श० ८ । ३३ । ७ ॥

भा०—(सुते) जीवनयज्ञ में (सचा) इन्द्रियगण के एक साथ (पिवन्तं) सोम का पान करते हुए आत्मा को (कः ई वेद) कौन जाने ? और कौन जाने कि (कद् वयो दधे) वह कितनी आयु धारण करता है । (यः) जो आत्मा (शिप्री) वेगवान्, अपनी कर्मगति से एक देह से देहान्तर में गमन करने हारा, (अन्धसः मन्दानः) अज्ञ द्वारा हर्ष को प्राप्त होता हुआ (योजसा) अपने तेज से (पुरः) अपने भोग भूमियों, देहों को (वि भिनत्ति) तोड़ डालता है और मुक्त हो जाता है ।

देह में आत्मा इन्द्रियों के साथ रस भोगता है, परन्तु उसकी उन्न को कोई नहीं जानता । वह अपने कर्मगति से देहों में भ्रमण करता और अक्षरस को भोगता और ज्ञान से देहमुक्त हो जाता है ।

[२६८] यादन्द्र शासो अत्रतं च्यावया सदसस्परि ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अस्माकमंशुं मघवन्पुरुस्पृहं वसव्ये अधिवर्हय ॥ ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! आत्मन् ! (यत्) क्योंकि (सदसःपरि) हमारे देह, घर या सभा स्थान के पास रहने वाले (अत्रतम्) व्रत या नियम का पालन न करने हारे पुरुष का तू (शासः) शासन कर और (च्यावय) अधिकार से च्युत करदे । हे मघवन् ! (पुरुस्पृहम्) इन्द्रियों या प्रजा के अभि

लापाओं के योग्य, उनके प्रिय, (अस्माकं) हमारे (अंशुं) भाग को (वसव्ये)
इस वास योग्य देह या देश में (अधि वह्यं) और अधिक बढ़ा दे।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[२६६] त्वष्टा नो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

पृत्रैर्भ्रातृभिरदितिर्नुं पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः ॥ ७ ॥

भा०—(त्वष्टा) समस्त संसार को गढ़ने वाला या कान्तिसम्पन्न
(पर्जन्यः) प्रजा जनों का बरसते मेघ के समान अत्यन्त हित करने हारा,
(ब्रह्मणस्पतिः) वेद और वेदज्ञों का स्वामी, (अदितिः) किसी से भी
खण्डित न होने हारा, अखण्ड, परमेश्वर (नः दैव्यं वचः) हमारे देव
सम्बन्धी वेदवाणियों की (पातु) रक्षा करे। वही हमारे (पृत्रैः भ्रातृभिः
सह) पुत्रों और भाइयों के साथ (दुःतरं) दुस्तर (त्रामणं) रक्षा करने
योग्य (वचः) प्रतिज्ञा वचन की (पातु) पालन करे।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[३००] कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्वसि दाशुपे ।

३ १ २ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

उपोपन्नु मघवन् भूय इन्द्र ते दानं देवस्य पृच्यते ॥८॥

अ० ८।५१।७ ॥

भा०—हे आत्मन् ! आप (कदाचन) कभी भी (स्तरीः न श्वसि)
हिंसक नहीं हैं। अथवा—आप (स्तरीः) मृतवत्सा गौ के समान दूध न
देने हारे नहीं हैं। प्रत्युत, (दाशुपे सश्वसि) दानशील पुरुष को और भी
देंते हो। हे मघवन् ! (ते देवस्य) तुम्हें देव का (दानं) दान (उप-उप इत्
नु) बराबर समीप ही समीप (पृच्यते इत् नु) प्राप्त होता ही रहता है।

३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[३०१] युद्धवा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

अर्वाचीनो मघवन्सोमपीतये उग्र ऋष्वेभिरागृहि ॥९॥

अ० ९।३।१७ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्तम्) उत्तम रीति से विघ्नों का नाश करनेहारे (इन्द्र) परमेश्वर ! आत्मन् ! तू (हरी) दोनों प्रकार के धारण और आकषण बलों और दोनों प्रकार के इन्द्रियगण कां (युंष्व) नियुक्त कर । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् ! (परावतः) दूर देश या इन्द्रियों से अगम्य दशा से भी तू (उग्रः) अत्यन्त वेगवान् होकर (सोमपीतये) आनन्दरूप सोमपानं करने के निमित्त (ऋष्वेभिः) दर्शन करनेहारे इन्द्रियसाधनों या मरुत् नामक प्राणों सहित (अर्वाचीनः) साक्षात् रूप में (आगहि) प्राप्त हो ।

२ ३ १२ २२ ३ १ २
[३०२] त्वामिद्रा ह्यो नरोऽपीप्यन् वज्रिन् भूर्णयः ।


१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

स इन्द्र स्तामवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमागहि ॥ १० ॥

ऋ० ८ । ११ । १ ॥

भा०—हे (वज्रिन्) वज्र को धारण करने वाले शक्तिमन् ! (भूर्णयः नरः) भरण पोषण करनेहारे नेता लोग, (ह्यः) पूर्वकाल में (त्वाम् इत्) तुझको ही (आ अपीप्यन्) पृष्ट करते थे । हे (इन्द्र) आत्मन् ! (स्तोमवाहसः) स्तुतिकर्ता या अन्न को धारण करने हारे पुरुषों की स्तुतियों को (इह) यहाँ (सः) वह तू (श्रुधि) श्रवण कर और (स्वसरं) स्वयं कर्मानुसार अर्थात् आत्मा के बल से चलने वाले स्वयं गति करने हारे देहरूप गृह में (आगहि) आ विराजमान हो ।

इति प्रथमा दशतिः । सप्तमः खण्डः ।



॥६०२॥अपिः—१, २, ७, ८ वसिष्ठः । ३ अश्विनौ वैवस्वतौ । ४ प्रस्कण्वः ।

५ मेधातिथिमेध्यातिथी । ६ देवातिथिः । ६ नृमेधः । १० नोधाः ॥ देवता—४

—१० इन्द्रः । १ उषाः । २, ३ अश्विनौ ॥ गृहती ॥ धैवतः ॥

[३०३] प्रत्यु^{१ २} अदर्श्यायत्यु^{३ २} उच्छ्रन्ती^{१ २} दुहिता^{३ २ ३ २} दिवः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमा ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥

ऋ० ७ । ८ । १ । १ ॥

भा०—(दिवः दुहिता) सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान परमात्मा से उत्पन्न हुई शक्ति (उच्छ्रन्ती) अन्धकार को दूर हटाती हुई (प्रति उ अदर्शि) सबको दिखाई दे रही है । वह (मही) महान् विस्तारयुक्त होकर (तमः) अन्धकार को उपा काल के समान (अप वृणुते उ) दूर हटाती है । और वह (सूनरी) उत्तम नेत्री, पथदर्शिका (ज्योतिःकृणोति) सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश कर देती है । यह मन्त्र मन्त्रमय वेदवाणी और प्रबुद्ध चित्ति शक्ति और उपा तीनों पर समान रूप से है । साधक की यह दशा ज्योतिष्मती विशोका प्रज्ञा का उदयकाल कहा जाता है । यह आदित्ववर्ण पुरुष के दर्शन का पूर्वकाल है ।

३ १ २ ३ २ १ ३ २ १
[३०४] इमा उ वां द्विविष्टय उन्ना हवन्ते अश्विना ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ १
अयं वामहेऽवसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छथः ॥२॥

ऋ० ७ । ७४ । १ ॥

भा०—हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! प्राण और अपान शक्तियों ! हे (उन्ना) वास कराने हारो ! (इमाः द्विविष्टयः) ये द्युस्थान या मस्तक में गति करने हारी सात इन्द्रियां (उ) भी (वां) आप दोनों की (हवन्ते) महिमा को बतलाती हैं । (अयं) यह मैं आत्मा या मन (अवसे) अपने जीवन की रक्षा के लिये (वाम्) आप दोनों को (अहे) पुनः २ भीतर से बाहर, बाहर से भीतर बुलाता हूं । हे (शचीवसू) शक्ति द्वारा

वास कराने हारो ! आप दोनों (विशं विशं) प्रति देह में (गच्छथः)
गमन कर रहे हो ।

२ ४ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[३०५] कुष्टः को वामश्विना तपानो देवा मर्त्यः ।

३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

घ्नता वामश्रया क्षयमाणोऽशुनेत्थमु आह्वन्यथा ॥ ३ ॥

भा०—[प्र० १] हे (अश्विनौ) देह में व्यापक प्राण और अपान
(वाम्) आप दोनों (कुस्थः) कहां स्थित हो ? [प्र० २] (वाम्)
आप को (कोः मर्त्यः) कौन मरणधर्मा पदार्थ (तपानः) तप्त करता है ।
[उत्तर १] (वाम्) आप दोनों (अश्वया) शरीर की भोजन करने की
शक्ति द्वारा (घ्नता) ताड़ित होकर गति करते हो । [उ० २] (यथा
आह्वन्) जिस प्रकार भोगों और ऐश्वर्यों का भोक्ता राजा, शासक (अशुना)
अपने समस्त देशव्यापी बल से (क्षयमाणः) देश भर में विराजमान
होकर भृत्यों को चलाता है और तपाता है (इत्थम् उ) उसी प्रकार
(आह्वन्) व्यापक आत्मा (क्षयमाणः) देह में रहकर (अशुना) अपने
व्यापक भोग-कर्म शक्ति द्वारा आप दोनों को तपाता है, गति देता है । और
(अश्वया) अशना और पिपासा द्वारा आप दोनों (घ्नता) पीड़ित होकर
उसके शासन में गति करते हो । (इसका विवरण देखो बृह० उप०
अ० १, ब्राह्मण २)

३ १ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २
[३०६] अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिपु ।

१ २ १ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

तमश्विना पिवतं तिरो अन्ह्यं धत्तं रत्नानि दाशुपे ॥४॥

ऋ० १ । ४७ । १ ॥

भा०—हे (अश्विनौ) अश्वियो ! प्राण और अपान ! (वां) आप
दोनों के लिये (दिविष्टिपु) चेतनासम्पन्न इन्द्रियों की एषखाओं में, या

देवयज्ञों में (अयं) यह (मधुमत्तमः) अत्यन्त मधुर (सोमः) सोमरस अन्न रस, ज्ञानरस (सुतः) सम्पन्न किया गया है । (तिरः अन्हां) विगत काल के सम्पादित (तं) उसको (पिबतं) पान करो शरीर में ग्रहण करते हो और (दाशुपे) अपना ज्ञान या पदार्थ या प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हविरूप से दान करने हारे साधक को (रतंनानि) रमणीय, सुखकारी साधन बल आरोग्य (धत्तं) प्राप्त कराओ ।

प्राणापान का यज्ञ देखो गीता (अ०४।२६।३०) और छान्दो० उप० अ० ३ ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[३०७] आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

भूर्णिं मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत् ॥५॥

ऋ० ८।१।२० ॥

भा०—हे इन्द्र ! परमेश्वर (अहं) मैं (ज्या) उत्कृष्ट प्रशंसा योग्य (सोमस्य गल्दया^१) सोम की धारारूप वाणीसे (त्वा) तुझको (सदा आ याचन्) नित्य प्रार्थना करता हूं । (सवनेषु) यज्ञकर्मों और उपासनाओं में (मृगं न) सिंह के समान दुष्टों पर (चुक्रुधं) क्रोध करते हुए (भूर्णिम्) संसार भर के भरण करने हारे (ईशानं) स्वामी जगदीश्वर की (कः न) कौन नहीं (याचिषत्) प्रार्थना करता ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[३०८] अध्वर्यो द्रावया त्वं सोमभिन्द्रः पिपासति ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १

उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥६॥

ऋ० ८।४।११ ॥

३०७—'मात्वा' इति 'याचन्नहं गिरा' इति च ऋ० ।

१. गल्देति वाङ्नाम (नि० १।११) धमनयो वा इति (नै० ६।२४)

३०८—'उपनूनं' इति ऋ० ।

भा०—हे (अर्ध्वर्यो) कभी नष्ट न होने चाले ! अर्हिसित ! आ-
त्मास्थित मन ! अहंकार ! (सोमं) सोमरूप आनन्दरस को (इन्द्रः) आत्मा
(पिपासति) पान करना चाहत है । (त्वं सोमं दावय) तू उस आनन्द
रस को चुआ, उत्पन्न कर । (वृत्रहा) विघ्न और तमों के निवारक आत्मा
ने (नूनं) निश्चय से (वृषणा) सब काम्य सुखों की वर्षा करने हारे एवं
बलवान् (हरी) हरणशील साधन, प्राण और अपान दोनों को (उप
युयुजे) जोड़ ही लिया है और वह (आ जगाम च) आभी गया है ।
साधक अपने अहंकारयुक्त आत्मा से सम्बोधन करता है । देखो प्राणाग्नि-
होत्र उप० (खं० ४) 'अहंकारोऽर्ध्वर्युः'

उ २ ३ २ ४ ३ २ ३ २ ३ १ २

[३०६] अभीपतस्तदाभरेन्द्र ज्यायः कनीयसः ।

उ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

पुरुवसुर्हि मघवन् वभ्रुविथ भरे भरे च हव्यः ॥७॥

ऋ० ७ । ३२ । २४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! हे (ज्यायः) सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ ! (क-
नीयसः) अपने से छोटे (ईपतः) आप से साहाय्य चाहने हारे मेरे लिये
(तद् अभि आ भर) अच्छी प्रकार सब ओर से उस अभिलाषा योग्य
पदार्थ को प्राप्त करा । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् (हि) क्योंकि आप (पुरु
वंसुः) अनेक प्रजाओं को वास कराने हारे (भरे भरे च] और प्रत्येक
यज्ञ में (हव्यः) स्तुति योग्य हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

[३१०] यद्भिन्द्र यावत्स्त्वमेतावदहमाशीय ।

उ २ ३ १ २

३ १ २ ३ १ २

स्तोतारमिद्विधिये रदावसो न पापत्वाय रंभिषम् ॥८॥

ऋ० ७ । ३२ । १८ ॥

३०६—'मघवन्त्सनासि' इति ऋ० ।

३१०—'स्तोतारमिद्विधिये रदावसो न पापत्वाय रासीय' इति ऋ० ।

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यावतः त्वम्) जितने ऐश्वर्य का तू मालिक है (यद्) यदि (एतावद्) इतना ऐश्वर्य (अहम्) मैं (ईशीय) प्राप्त करलूँ तो हे (रदावसो !) समस्त पदार्थों के देने हारे ! मैं (स्तोता-रम् इद्) स्तुति करने हारे, सत्य ज्ञान के दर्शाने हारे विद्वान् को ही (द-धिषे) दे डालूँ । (पापत्वाय) पाप के कर्मों के लिये (न रंसिपम्) कभी न दूँ ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[३११] त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा अस्मि स्पृधः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥६॥

ऋ० ८। ६६। ५।

भा०—हे (इन्द्र त्वं) तू (प्रतूर्तिषु) संग्रामों में या बल के कार्यों में (विश्वाः स्पृधः) समस्त स्पर्द्धा करने हारी सेनाओं या दुर्वासनाओं के (अभि-अस्मि) मुकाबले पर डट जाता है और उनको परास्त करता है । हे (तूर्य) शत्रु के नाश करने हारे ! (त्वं) तू (तरुष्यतः) हिंसा करने की चेष्टा करने वाले शत्रुओं के प्रति (वृत्रतूः अस्मि) सब उपद्रवों का नाशक है । और तू ही (अशस्तिहा) शासन को न मानने हारे उद्दण्डों को नाश करने हारा (जनिता) प्रजाओं के पिता के समान है ।

१ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[४१२] प्र यो रिरिक्ष आंजसा दिवः सदोभ्यस्परि ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमति विश्वं ववक्षिथ ॥१०॥

भा०—(यः) जो तू परमेश्वर (आंजसा) अपने सामर्थ्य से (दिवः) द्यौलोक के (सदोभ्यः) वास भूमियों से भी (परि) परे तक (रिरिक्षे) दूर तक फैला हुआ है । हे (इन्द्र) परमेश्वर ! इसलिये

(पार्थिव रजः) यह पृथ्वी लोक (त्वा) तुम्हें को (न विव्याच) कभी व्याप्त नहीं कर सकता । तू (अतिविश्वं) इस समस्त ब्रह्माण्ड को आतिक्रमण करके (चवक्षिथे) उसको चहल करता है, धारण करता है ।
इति द्वितीया दशतिः । अष्टमः खण्डः ।

॥६० ३॥ ऋषिः—१, २, ६ वसिष्ठः । गानुराश्रेयो गृत्सयदो वा । ४ पृथुर्वेन्यः ।
५ सप्तयुः । ७ गोरिवीतिः । ८ वेनो भार्गवः । ९ वृष्टस्पतिर्नकुलो वा ।

१० मृत्योः ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्टुप् । नेवतः ॥

१ २ ३ ५ २ २ ३ २ क २ २ ३ १ २ ३ १ २

[३१३] असावि देवं गान्धर्जीकमन्थ्रो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुपेमुवोच ।

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

याध्रामासि त्वाह र्यश्व यक्षैर्वोधा नः स्तोममन्थसा मदेपु ॥१॥

ऋ० ७ । २१ । १ ॥

भा०—(गो-ऋजीकम्) इन्द्रियों द्वारा ऋजुना से प्रत्यक्ष रूप में, साहान् सम्बन्ध द्वारा प्राप्त (देवं) दिव्य स्वभाव गुण युक्त, आनन्ददायक (अन्धः) ज्ञान, सोम (असावि) प्राप्त किया । (इन्द्रः) आत्मा (जनुपा) उत्पत्तिकाल से ही (इम्) अप्रत्यक्ष रूप में (अस्मिन्) इस ज्ञान में (उवोच) संभवेत् है, समवाय सम्बन्ध से है । अर्थात् ज्ञान आत्मा का गुण है । हे (हर्यश्व !) हरणशील भोग साधनों से सम्पन्न ! (त्वा) तुम्हें को (यज्ञैः) ज्ञानयज्ञों अथवा अन्तर्यामियों द्वारा (बोधामासि) ज्ञान करते हैं । और तू (नः) हमारे (स्तोत्रे) सत्य ज्ञान कथाओं को (अन्धसः मदेपु) सोमरूप ज्ञान की उत्कृष्ट आनन्द दशा में (बोध) जाना कर ।

१ २ २ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

[३१४] योनिष्ट इन्द्र सद्ने अकारितमा नृभिः पुरुहूत प्रयादि ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ २

असो यथा नोऽविता वृधश्चिद्देवो वसूनि ममदश्च सोमैः ॥२॥

ऋ० ७ । २४ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (ते सदेन) तेरे निवास योग्य गृह, इस देह में (योनिः अकारि) तेरे प्रकट होने का स्थान बना है । (तम्) उस स्थान पर हे (पुरुहुत) इन्द्रियों या बहुतसे भक्तों द्वारा निरन्तर स्मरण किये गये आत्मन् ! (नृभिः) अपने नेता, प्राणरूप मरुतों के सहित तू (आ प्र याहि) सब और से हटकर वहाँ ही प्रकट हो और (यथा) जिस प्रकार से (नः) हमारा (वृधः) बढ़ाने द्वारा (चित्) और (अविता) पालनकर्ता (असः) बन और (वसूनि) धन, आनन्द (ददः) दान कर (सोमः च) और सोमों द्वारा (ममदः) आनन्द का उपभोग कर ।

अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सा इन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्त्तते व्यपोह्य शीर्षकपालं सत्यात्मप्राणारामं मनः आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्त्व (तैत्तिरीयोपनि० अनु० ६ चल्ली १ ।)

१ २ ३२ ३१ २ ३ २३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[३१५] अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वर्मणवान् बद्धवानाँ अरम्णः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २३ ३ २३ ३ २ ३ १ २ ३ २

महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्बः सृजद्वारा अब यदानवान् हन् ॥३॥

अ० ५ । ३२ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वं) तू ने (उत्सम्) ऊर्ध्वस्थान मूर्धा भाग को (अदर्दः) विदारण किया, और (खानि) इन्द्रिय द्वारों को (वि-असृजः) तू ने स्वयं रचा और (त्वम्) तूने (अर्णवान्) गति शील (बद्धवानान्) आघात प्रतिघात करते हुए प्राणों को (अरम्णः) व्यवस्थित किया । और (यद्) जब तूने (महान्तं) बड़ाभारी (पर्वतं) पोरुओं वाला देह (विवः) प्रकट किया और (यत्) जो (दानवान्)

३१५—'अरम्णा' इति, सृजोविधार भवदानव इन् इति च अ० ।

ज्ञान देने हारे इन प्राणों को (आवहन्) प्रेरित करता और (धाराः) ज्ञान स्मृतिरूप धाराओं को, या अन्नरस की धाराओं को, या इन्द्रिय नादियों को उन छिद्रों में प्रवाह रूप से (विसृजद्) विशेष रूप से प्रेरित करता है। इसका स्पष्टीकरण ऐतरेयोपनिषत् १म, २य, ३य खण्ड में देखिये वहाँ ही इन्द्र का स्पष्टीकरण भी है। और देखो (बृहदारण्यक उप० अ० १ ब्रा० ४)

‘उत्स उत्सरेणाद् उत्सहनाद्दोनत्तेर्वा (नि० १० । १ । ४) खानि इन्द्रियाणि, (काठक उ०) । परान्चि खानि व्यनृणत् स्वयंभूः ।’ रम्याति विंसर्जनकर्मा, संयमनकर्मा वा (नि० १० । १ । ४)

[३१६] सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिश्यन्ताश्चि त्तुविन्नृम्ण वाजम्।
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २
 आ नो भर सुवित यस्य कोना तनात्मना सह्यामी त्वाताः॥४॥
 अ० १० । १४८ । १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! हम (वाजं सनिष्यन्तः) भोग्य पदार्थ का सेवन करते हुए भी (त्वा सुष्वाणासः) तेरे लिये ही उनका रस सम्पादन करते हुए हम (स्तुमसि) तेरी स्तुति करते हैं। इसलिये (नः) हमारे लिये (सुवितं) उत्तम बल ऐश्वर्य को (आ भर) प्राप्त करा। (यस्य) जिसकी (कोना) कामना करते हुए हम (त्मना) स्वयं आपसे आप (त्वा उताः) तेरे से राक्षित रहकर या तेरे में पिरोये हुए रहकर (त्मना) खूब उत्तम २, विस्तृत अनुभवों को (आ सह्याम) प्राप्त करें। प्राणों का आत्मा के प्रति और भक्तों का ईश्वर के प्रति यह वचन है।

[३१७] जगह्मा ते दक्षिणामिन्द्र हस्तं वसूयत्रो वसुपते वसूनाम्।
 ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 विद्म हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रे तृषणं रयि दाः५
 अ० १० । ४७ । १ ॥

३१६—, चाकन्तमना तना सनुयान इति अ० ।

३१७—‘जगम्माते’ इति पाठभेदः अ० ।

भा०—हे इन्द्र ! (चयं वसुभवः) हम प्राणों की कामना या देह में स्वयं वसु होने की कामना करते हुए (ते) तेरा (दक्षिणं) दायाँ, क्रिया सम्पन्न (हस्तं) हाथ (जगृह्य) ग्रहण करते हैं । हे (वसुनां) वसुओं के बीच में (वसुपते) प्राणों के पालक ! आत्मन् त्वा) तुझको (गोनां गोपति) इन्द्रियों के बीच में इन्द्रियों के स्वामी के समान (विद्महि) निश्चय से जानते हैं । (अस्मभ्यम्) हमें (चित्रं) सदा बढ़ने वाले या चितिशक्ति से युक्त या ज्ञानसम्पादन करने वाले (वृषणं) सब सुखों के देने वाले, पुष्टिकारक (रथिं) प्राण, अन्न, बल (दाः) दो ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[३१८] इन्द्रं नरो नमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

शूरो नृपाता श्वसश्चकाम आ गोमति व्रजे भजा त्वं नः ॥६॥

ऋ० ७ । २७ । १ ॥

भा०—(यत्) क्योंकि आत्मा (पार्याः) व्यापार, चेष्टा करने वाले या भरणपोषण करने में समर्थ (धियः) ज्ञान और कर्मों की (युनजते) आयोजना, प्रबन्ध करता है इसलिये (नरः) विद्वान् लोग (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् राजा के समान परमेश्वर या आत्मा को (नेमाधिता) संग्राम, यज्ञ, व्यवस्था की स्थापना के अवसर पर (हवन्ते) उसको बुलाते या स्मरण करते हैं । शूरः) शूरवीर (नृपाता) मनुष्यों का उचित विभाग करने द्वारा (चकमे) कामना करने वाले (गोमति व्रजे) हमारे अभिलषित गोश्रों के बाड़े के समान इन्द्रियों से सम्पन्न व्रज, गोष्ठ या देह में (त्वं) तू (नः) हमें (श्वसः) शन्न बल आदि (भज) प्राप्त करा ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[३१९] वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ २

अपध्वान्तसूर्णुहि पूर्द्धि चक्षुर्भुमुग्धश्स्मान्निधयेव बद्धान् ॥७

ऋ० ३० । ७३ । ११ ॥

भा०—(वयः) दूर तक गति करने हारे, दूरदर्शी, (सुपर्णाः) उत्तम ज्ञान और बल की याचना करते हुए, (ऋषयः) विद्वान् लोग और आत्म पक्ष में—इन्द्रियां (इन्द्रम् उपसेदुः) इन्द्र आत्मा आचार्य, परमेश्वर के समीप शिष्य भाव से पहुँचे और कहने लगे (ध्वान्तं) हमारे अज्ञानरूप अन्धकार को (अप ऊर्णुहि) दूर कर। (चतुः) हमारी आंख को (पूर्धि) शक्तिमान् कर, तेज ले भर दे और (निधया इव बहान्) जाल में बंधे हुए के समान हमको (मुमुग्धि) मुक्त कर।

इन्द्रियों का आत्मा के प्रति, शिष्यों का ब्रह्मज्ञानी गुरु के प्रति, ऋषियों, ज्ञानियों का परमात्मा के प्रति यह वचन है।

१ २ ३ २४ ३ १२ २२ ३ १२ २२ ३ १ २
[३२०] ताके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा ।

१२ ३ १२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरग्युम् ॥॥

ऋ० १० । १२३ । ६ ॥

भा०—हे ज्ञानस्वरूप। तेजस्विन् आत्मन् ! (ताके) दुःख रहित मोक्षमार्ग में (हृदा वेनन्तः) अपने हृदय या मन से तेरी कामना करते हुए, (उपपतन्तं) गमन करते हुए (हिरण्यपक्षं) हितकारी और मनोहर पक्षों या प्राणों या साधनों से युक्त, (वरुणस्य दूतं) सब पापों के चारण करने हारे जगदीश्वर के दूत, संदेश या ज्ञान को प्राप्त कराने हारे (यमस्य) सब के नियन्ता वायु या ईश्वर के (योनौ) प्रकट होने के स्थान या अन्तरिक्ष में (शकुनं) शक्ति से सम्पन्न, (भुरग्युम्) भ्रमणशील स्रास्र के पालन पोषण करने हारे (त्वा) तुझको (यत्) जो (अभि-अच्छत) सर्वत्र देखते हैं। इस आनन्दमय ब्रह्म आत्मा के नाना पक्षों का विवरण देखो तौत्तरीय उप० (आनन्दवल्ली अनु० १ से ६ तक) वहाँ इस शकुन के पक्षों और पुच्छ आदि का ताजा रूप से प्रदर्शन कराया है।


१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [३२१] ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो वेन आवः ।
 क अ ३ १ ३ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 सवुध्न्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिमसतश्च विवः ६
 अथर्व० ५ । ६ । १ ॥

भा०—(वेनः) ज्ञानवान् तेजस्वी परमात्मा (प्रथमं) सबसे प्रथम
 (जज्ञानं) प्रादुर्भूत या प्रकट होते हुए (ब्रह्म) वृहदाकार ब्रह्माण्ड को
 (सीम् अतः पुरुस्तात्) इस समस्त संसार की रचना के पूर्व ही (सुरुचः)
 उत्तम कान्तियों का (वि आवः) पुञ्ज बनाकर प्रकट करता है (सः)
 वह परमात्मा (बुध्न्याः) आकाश में उत्पन्न हुए (अस्य उपमाः)
 उसके ही सदृश (विष्टा) विशेष रूप से स्थिति करने हारे ब्रह्माण्ड
 को भी स्थापित करता है । और (सतः च) इस समस्त सत् रूप
 में प्रकट जगत् (असतः च) और अव्यक्त प्रकृति के (योनिम्) मूल
 आश्रय को भी (विवः) वही प्रकट करता है ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [३२२] अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महं वीराय तवसे तुराय ।
 ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 विरप्शिने वज्रिणं शन्तमानि वचांस्यस्मै स्थविराय तनुः १०
 अ० ६ । ३२ । १ ॥

भा०—विद्वान् लोग (महं वीराय) बड़ेभारी वीर, (तवसे) बल
 वान्, (तुराय) वेगवान् (विरप्शिने) ज्ञानवान् (वज्रिणे) विघ्नो और
 उपद्रवों के निवारक, वज्र बल के धारण करने वाले, (स्थविराय) अचल
 कूटस्थ (अस्मै) इस परमात्मा के लिये (पुरुतमानि) बहुत से (अपूर्व्या)
 उसको पूर्ण रीति से वर्णन करने हारे अपूर्व (वचांसि) नाना वचन (तनुः)
 प्रकट करते हैं ।

इति तृतीया दशतिः । नवमः खण्डः ।



भा०—(वृत्रस्य) आवरणकारी इस तामस- देह के (श्वसथाद्) श्वास प्रश्वास से (ईषमाणाः) गति करते हुए (विश्वे देवाः) सब देव-गण, मरुद्गण, अमुख्य प्राण, चक्षु आदि (ये) जो (सखायः) मित्र (त्वा) तुझको (अजहुः) छोड़ देते हैं अन्तर्मुख न होकर बहिर्मुख हो जाते हैं, तो भी हे आत्मन् ! (ते सख्यं, तेरा मैत्रीभाव (मरुद्भिः) उन प्राणों इन्द्रियों से (अस्तु) बना ही रहता है । (अस्य) इसी कारण (इमा) इन (विश्वाः) समन्त (पृतनाः) भरण पोषण योग्य प्राणियों के देहों को (जयासि) तू अपने वश रखता है ।

ईप् गतिर्हिसादर्शनेषु, भ्वादिः । ईप् उञ्छे, भ्वादिः । पृतना इति मनुष्यनाम, (नि० २। ४।)

उ १ २ ३ १२ २२ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २
[३२५] विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार ।
उ १ २ ३ १ २ ३ २३ ३ २ ३ १२ २२

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समानः ॥३॥

अ० १०। ५५। ५ ॥

भा०—(विधुं) विधमनशील, धौकनी के समान विशेष रीति से शरीर में गति करने वाले, (समने) समान रूप से प्राण धारण करने के कार्य में (बहूनां) बहुतों को (दद्राणं) गति देने वाले, (युवानं सन्तं) युवा, बलशाली होते हुए मुख्य प्राण को भी (पलितः) पुराण पुरुष आत्मा (जगार) अपने भीतर लीन कर लेता है । (देवस्य) उस आत्मदेव के (काव्यं) ज्ञान—सामर्थ्य को (पश्य) देख (ह्यः) जो भूत काल में (समानः) निरन्तर जीवित रहा, (स अद्य) वह आज भी (महित्वा) उस 'स्व' अपने महिमा या बड़प्पन में (ममार) अपना प्राण को त्याग देता है अर्थात् उसमें ही लीन हो मुक्त हो जाता है ।

देखो स्वप्तीकरण उपनिषदों के अप्यय-प्रकरण एकायन-प्रकरण और स्व-महिमा में संप्रतिपत्ति प्रकरण ।

परमेश्वर पक्ष में—(विधुं) चन्द्र को जिस प्रकार पूर्ण हो जाने के बाद भी सूर्य अमावास्या में ग्रस लेता है उसी प्रकार (बहूनां) बहुत से प्राणों के बीच में सबसे अधिक (युवानं सन्तं) युवा अति बलवान सत् स्वरूप आत्मा (विधुं ददाणं) चन्द्र के समान आल्हादकारी एवं गतिशिल आत्मा को (पालितः) सर्वव्यापक, पुराण परमेश्वर (जगार) अपने भित्ति ले लेता है (देवस्य) उस महान् परमेश्वर के बनाये (काव्यं पश्य) इस संसारमय ज्ञानस्वरूप कवि विद्वान् परमेश्वर की बनाई रचना को देख कि (आचममार) जा अज मरता है (सः) वह (ह्यः) फिर दूसरे दिन (समानः) प्राण धारी होकर जीता है । अर्थात् पुनः जन्म लेता है । और जो ही जगत् अवनष्ट होता है वह पुनः बनता है ।

देखो अथर्व० पालित सूक्त । का० ६ । १ । १० ॥

२ ३ २ २ २ ३ ५ २ ३ १ २ ३ १ २

[३२६] त्वं ह त्वत्सप्तभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र ।

३ ५ २ २ ३ ५ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

गूढं द्यावापृथिवीं अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः ॥४॥

ऋ० ८ । १६ । १६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वं ह) तू ही (जायमानः) प्रकट होते समय (त्वत्-सप्तभ्यः) उन सातों (अशत्रुभ्यः) कभी न सोने हारे, निरन्तर चलने वाले शर्पण्य प्राणों को (शत्रुः) एकमात्र सुलाने वाला, अपने में लीन करने हारा, या शातयिता, उनके वंग को कम करने हारा, या उनको हृन्दिस्वरूप में शिरोदेश में फोड़कर बनाने वाला (अभवः) है । और उसके बाद तू ही (गूढे) गुहा या बुद्धि में स्थित (द्यावा पृथिवी) अन्तरिक्ष एवं सूर्य और पृथिवी के समान मूर्धाभाग और शेष शरीरभाग को (अनु अविन्दः) प्राप्त करता है । और (विभुमद्भ्यः) सत्तावान् बलवान्, (भुवनेभ्यः) प्राणों से (रणं) रमण, विनोद, आनन्द की मात्रा स्वयं (धाः) धारण करता है, अर्थात् भोग करता है ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [३२७] मेडिन त्वा वज्रिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्सुम्
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

करोष्यस्त रूपीर्दुवस्युरिन्द्र द्युत्तं वृषहणं गृणीषे ॥५॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (दुवस्युः) परिचर्या, सेवा की इच्छा करने हारा तू (अयंः) अपनी गतिशील इन्द्रियों को (तरुपीः) पदार्थों या भोग्य विषयों तक चले जाने योग्य (करोपि) कर लेता है । इस कारण मैं (मेडिन) मेल करने हारे योगी के समान (वज्रिणं) वर्जन करने वाले बल वैराग्य द्वारा सब पदार्थों के ज्ञानपूर्वक संग त्याग से सम्पन्न (भृष्टिमन्तं) पापों को भून देने हारी परिपक्व, सम्यग् बुद्धि से युक्त (पुरुधस्मानं) इन्द्रियों को आश्रय देने हारे (वृषभं) सबसे श्रेष्ठ (स्थिर-प्सुम्) कूटस्थ, अचल, नित्य, ध्रुव (द्युत्तं) प्रकाशस्वरूप, (वृषहणं) तमःस्वरूप देहबन्धन को नाश करने हारे (त्वा) तेरी मैं (गृणीषे) स्तुति करता हूँ ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [३२८] प्र वां महेमहे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्रसुमतिं कृणुध्वम् ।
 १ २ ३ १ २ २ ३ २

विशः पूर्वीः प्रचर चर्षणिप्राः ॥ ६ ॥

अ० ७ । ३१ । १० ॥

भा०—(वः) आप लोग (महे वृधे) महिमा से बढ़ने वाले (महे) बढ़े भारी आत्मा के लिये (प्र भरध्वं) उत्तमरूप से हव्य पदार्थ अन्न और ज्ञान का संग्रह करो (प्रचेतसे) उत्कृष्ट ज्ञानसम्पन्न आचार्य आत्मा या परमेश्वर के निमित्त (प्र-सुमतिं) उत्तम २ विचार या मनन (कृणुध्वम्) किया करो । हे (इन्द्र) आत्मन् ! (चर्षणिप्राः) विद्वानों को ज्ञान से पूर्ण करनेहारे आप (पूर्वीः विशः) पालन करनेहारी श्रेष्ठ धर्मात्मा प्रजाओं के पास (प्र चर) उत्तमरूप से आओ, प्राप्त होओ ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २

[३२६] शुनं हुवेम मघवानामिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं वाजसातौ ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

शृग्वन्तमुग्रमृतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि॥७॥

अ० ३ । ३० । २२ ॥

भा०—(अस्मिन्) इस (भरे) भरण पोषण करने हारे (वाज-
सातौ) अघ और ज्ञान के साधन कार्य में (शुनं) ज्ञानसम्पन्न, सर्व-
व्यापक, (मघवानम्) ऐश्वर्यसम्पन्न, (नृतमं) सबसे उत्तम नेता, (शृग्व-
न्तं) सबकी प्रार्थनाओं को सुनने हारे (उग्रम्) दुष्टों के प्रति उग्र स्वभाव
वाले (समत्सु) संग्रामों और उत्सवों में (वृत्राणि) उपद्रवकारियों को
(घ्नन्तं) नाश करने हारे, (धनानि) नाना विभूतियों को (संजितं)
स्वयं जीतने हारे (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् राजा के समान (समत्सु) योगज हृषीं
या आनन्द प्राप्ति के अवसरों में (वृत्राणि घ्नन्तन्) आवरणकारी तामस
भावों का नाश करने वाले और (धनानि संजितम्) ऐश्वर्यों पर विजय
करने वाले आत्मा और परमेश्वर को (हुवेम) हम स्मरण करें, पुकारें ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[३३०] उद्बु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्थे महया वसिष्ठ ।

३ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

आ यो विश्वानि श्रवसा ततानांपश्रोता म ईवता वचांसि ८

अ० ७ । २३ । १ ॥

भा०—हे (वसिष्ठ) वाग् ! या विद्वन् ! (श्रवसा) ज्ञान की प्राप्ति
के लिये (ब्रह्माणि) वेदमन्त्रों का (उद्बु ऐरत) उच्चस्वर से पाठ कर ।
(समर्थे) यज्ञ आदि विद्वानों की संगति में (इन्द्रं) उस परमात्मा की
(महया) उपासना कर (यः) जो (श्रवसा) अपने सामर्थ्य से
(विश्वानि) समस्त ब्रह्माण्डों को (आततान) रचता है और (यः) जो
(मे) मुझ (ईवतः) ज्ञानी पुरुष के (वचांसि) वचनों को (उप श्रोता)
समीपतम होकर श्रवण करता है ।

उ १४ २२ ३ १२ २२ ३ १४ २२ ३ १२ २२
 [३३१] चक्रं यदस्याप्स्वानिपत्तमुतां तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात् ।

उ १२ २२ ३ २२ ३ २ ३ १२ २२ ३ १२
 पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोवदधा ओषधीषु ॥६॥
 अ० १० । ७३ । ६ ॥

भा०—(अस्य) इस परमेश्वर का (यद्) जो (चक्रं) सृष्टिक्रम
 (अप्सु) प्रजाओं में (आनिपत्तम्) विद्यमान है । (उत उ) और (अस्मै)
 इस सृष्टिचक्र के लिये (मधु इत्) विशेष मधुर, अन्नादि जीवनरस को
 ही (चच्छद्यात्) गुप्तरूप से रखता है और (यद्) जो (ऊधः) ऊपर
 उठा हुआ रस का भण्डार, समुद्र, मेघ और पर्वत (पृथिव्यां) इस पृथिवी
 पर (अति-सितं) खूब बलपूर्वक गंधा हुआ है उससे ही वह गोषु)
 गौओं में और (ओषधीषु) ओषधियों में (पयः) पान करने योग्य रसको
 (अदधाः) आधान करता है ।

अन्न से प्राणिगण, मेघों से अन्न, यज्ञ से मेघ, कर्म से यज्ञ, ब्रह्म से
 कर्म, अक्षर से ब्रह्म, ऐसा 'चक्र' है, देखो (गी० अ० ३ । १४, १५)

इति चतुर्थी दशतिः । दशमः खण्डः ।



॥ द० ५ ॥ अषिः—१, अरिष्टनेमिस्ताक्षर्यः । २ मृगो भरद्वाजो वा । ३ वासुको
 विमदो वा । ४-६, ६ वामदेवः । ७ विश्वामित्रः । ८ रेणुः । १०
 गोतमः ॥ देवता-१-६, ६, १० इन्द्रः । ७, ८ पर्वतेन्द्रौ ॥

त्रिष्टुप ॥ धैवतः ।

उ ३२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ २ ३ २ ३ १ २
 [३३२] त्यमूषु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम् ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुं स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥१॥
 अ० १० । १७८ । १ ॥

३३२—तूर्णमश्नुते इति तार्क्ष्यः । तार्क्ष्य इति अश्वनाम । नि० १ । १४ ॥

भा०—हम लोग (त्यं) उस (चाजिनं) ज्ञान, वेग, कर्म से युक्त, (देवजूतं) देवों, विद्वानों और इन्द्रियों से पूजित, तर्पित, (सहोवानं) सहनशीलता एवं बल से युक्त, (रथानां तरुतारं) इन रथरूप देहों या गतिशील नक्षत्रों और ग्रह उपग्रहों को गति तथा परस्परार्कर्षण की अद्भुत व्यवस्था द्वारा चलाने हारे, (अरिष्टनेमिं) शुभ मार्ग में सबको नियम में संचालन करने हारे, (पृतनाजं) सब मनुष्य प्रजाओं के भीतर प्रकट होने हारे, (आशुं) सर्वत्र व्यापक या कर्मफल के दाता या भोक्ता (ताक्ष्यम्) अत्यन्त वेगवान् या व्यापक परमात्मा और आत्मा का (इह) यहां इस अन्तःकरण में (आहुवेम) आह्वान करते हैं ।

उ २३ १ २ २ २३ २३ १, २, ३ २३ २३ १ २
[३३३] त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवैहव सुहवं शूरमिन्द्रम् ।

उ २३ ३ २ ३ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
हुवे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रमिदं हविर्भगवा धेत्विन्द्रः ॥२॥

ऋ० ६ । ४७ । ११ ॥

भा०—(त्रातारम् इन्द्रं) अन्नादि से पालक परमेश्वर को, (अवितारम् इन्द्रं) रक्षक ईश्वर को और यज्ञों, उपासनाओं से (सुहवं) सुख से योग्य, या सुगमता से स्मरण करने योग्य, (शूरं) वीर्यवान् (इन्द्रं) परमात्मा को, (शक्रं) शक्तिमान् (पुरुहूतं) इन्द्रियों या प्रजाओं से पूजित (इन्द्रं) परमात्मा और आत्मा को (नु) ही (हुवे) मैं स्तुति करता हूँ । (इदं हविः) इस योग्य स्तुति को (भगवा) वह ऐश्वर्ययुक्त प्रभु (इन्द्रः) आत्मा (धेतु) स्वीकार करे ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ १ २
[३३४] यजामह इन्द्रं वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्याश्च विव्रतानाम् ।

१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २
प्रश्मश्रुभिर्दोषुवदूधवा भुवद्वि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥३॥

ऋ० १० । २३ । १ ॥

३३३—'सूरमिन्द्रं', 'हवामि शक्रं', 'धात्विन्द्रः', इति ऋ० ।

३३४—'रथ्यं विव्रतानाम्', 'प्रश्मश्रुभिर्दो', 'दयमानो' इति ऋ० ।

भा०—(वज्रदक्षिणं) विघ्नो और पापों के निवारण करने के कार्य में चतुर, (विव्रतानां) निकम्मे या विपरीत कर्मों में जाने वाले (हरीणां) इन्द्रियों के (रथ्या) उत्तम सारथी (इन्द्रं) आत्मा की हम (यजामहे) उपासना करते हैं। वह (श्मश्रुभिः^१) शरीर में व्याप्त शिराओं द्वारा सबको (दोधुवद्) गति देता हुआ (ऊर्ध्वधा) सब से उच्च (भुवद्) रहता हुआ सेनापति के समान (सेनाभिः) अपनी त्रासकारिणी सेनाओं, के समान बन्धनरज्जुओं द्वारा (विराधसा) विशेष साधना द्वारा (भयमानः) सब को कंपाया करता है।

उ २३ १२ ३ ३३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [३३५] सत्राहणं दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभं सुवज्रम् ।
 उ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 हन्ता या वृत्रं सनितात वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥४॥

अ० ४। १७। ८ ॥

भा०—(सत्राहणं) सब विघ्न और उपद्रवों के नाशक (दाधृषिं) सबको दबाने वाले (तुम्रं) सबके प्रेरक, (अपारं) अपार, (वृषभं) सबसे श्रेष्ठ, (सुवज्रं) उत्तम वज्र को धारण करने वाले, (महाम्) बड़े भारी और (यः वृत्रहन्ता) जो वृत्ररूप अज्ञान को मारता (उत वाजं सनिता) ज्ञान और अन्न का विभाग कर देनेहारा, (सुराधाः) उत्तम साधनों और धनों से सम्पन्न या उत्तमरूप से आराधन करने योग्य, (मघानि दाता) ऐश्वर्यों और कर्मफलों को देनेहारा है उसको (इन्द्रं) 'इन्द्र' कहो, जानो।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [३३६] यो नो वनुष्यन्नभिदाति मर्त्त उगणा वा मन्यमानस्तुरा वा ।
 उ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी प्याम वृषमणस्त्वोताः ॥५॥

१, इमनि शरीरं श्रेत इति श्मश्रुः शिराः । इम शरीरं तिरु० ३।१।५ ।

भा०—(यो मर्त्तः) जो मनुष्य (वनुष्यन्) मारने की इच्छा से (नः, अभिदाति) हम पर प्रहार करता है। (उगर्था वा मन्यमानः) या अपने को बहुतसे योद्धाओं सहित बलवान् मानता हुआ, (तुरो वा) या आवेश में आया हुआ, (क्षिधी) प्राणविनाशक (युधा) हथियार से या (शवसा) बल से हमारे प्रति (अभिदाति) आता और प्रहार करता है, हे परमेश्वर ! सेनापते ! (त्वोताः) हम तरे से रक्षित होकर (वृषमणः) खूब पुष्ट शरीर होकर (तम्) उस दुष्ट के प्रति (अभि-स्याम) मुकाबले पर डट जायँ और उसे दवावें ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [३३७] यं वृत्रेषु क्षितयः स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते ।
 १२ २२ ३ २ ३ १२ २२ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १२ २२
 यं शूरसातौ यमपामुपज्मन् यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः॥६॥

भा०—(यं) जिसको (वृत्रेषु) उपद्रव और विप्लवों के अवसर पर या ज्ञान के आवरण करनेहारे कारणों के उपास्थित होने पर (क्षितयः) देश निवासी प्रजाएं और देह की इन्द्रियां (स्पर्धमानाः) एक दूसरे से बढ़ने की इच्छा करने हारी (हवन्ते) स्तुति करती हैं, (यं) जिसको (युक्तेषु) संग्रामों में या योगक्रियाओं में योगरत पुरुषों के बीच (तुर-यन्तः) परस्पर हिंसा करते हुए या व्युत्थान दशाओं पर या विजेपों पर विजय करते हुए साधक (हवन्ते) स्मरण करते हैं । (यं शूरसातौ) जिसे शूरवीरों के संग्राम में स्मरण किया जाता है । (यम् अपाम्) जिसको प्रजाओं के बीच में पुकारा जाता है और (यम् उपज्मन्) जिसको भूमि पर अन्न आदि लाभ के लिये याद किया जाता है और (यं विप्रासः) जिसको ज्ञान के अभिलाषी विद्वान् लोग (वाजयन्ते) स्तुति करते हैं (स इन्द्रः) वह 'इन्द्र' है ।

१ २ ३ ५ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २
[३३८] इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आवहत् सुवीराः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीर्भिरिडया मदन्ता ॥७॥

अ० ३ । ५३ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! और हे (पर्वत) सबको पूरण, पालन और तृप्त करने हारे परमेश्वर ! आप दोनों (बृहता रथेन) बड़े रथ या रमण साधन के द्वारा (सुवीराः) उत्तम वीर्यसम्पादक या उत्तम सन्तानजनक, (वामीः) मनोहर (इषः) अन्नादि भोग्य पदार्थ (आवहत्) प्राप्त कराओ । हे (देवा) दोनों दानशील देवो ! (अध्वरेषु) यज्ञ आदि हिंसरहित जीवोपकारी कार्यों में (हव्यानि) आदान योग्य पदार्थों को (वीतं) स्वीकार करो । (गीर्भिः) वेदवाणियों द्वारा और (इडया) अन्न के उत्तम अंशों से (मदन्ता) प्रसन्न, तृप्त होते हुए (वर्धेथां) पुष्ट होओ । अध्यात्म पक्ष में इन्द्र=आत्मा और पर्वत=शरीर, आधिभौतिक में इन्द्र=सूर्य, पर्वत=मेघ या विद्युत् और पर्वत ।

१ २ ३ २ ३ १ २

३ ५ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[३३९] इन्द्राय गिरो आनेशितसर्गा अपः प्रेरयत् सगरस्य बुधात् ।

१ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

यो अक्षेणैव चक्रियौ शचीभिर्धिष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत घाम् ॥८॥

अ० १० । ८६ । ४ ॥

भा०—जो परमेश्वर (सगरस्य बुधात्) अन्तरिक्ष के प्रदेश या पेन्दा से मेघ के समान (अपः प्रेरयत्) जलों को नीचे वर्षण करता है और (यः) जो (अक्षेण) धुरे के बल पर (चक्रियौ इव) दो चक्रों के समान (शची-

३३८—'मदन्ताम्' इति पाठः कलिकाता अजमेरादि संस्करणगतः प्रानादिकः ।

सायणादिभाष्यविरोधादसंगतेश्च ।

३३९—'चक्रियौ' इति अ० ।

मिः) अपनी शक्तियों से (पृथिवीम् उत द्याम्) पृथिवी और बौलोक को (तस्तम्भ) धामे हुए है । उस (इन्द्राय) सर्वशक्तिमान् ईश्वर के लिये (अनिशितसर्गाः) अखण्डित रचना वाली (गिरः) वेदवाणियों स्तुति करने हारी हैं ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[३४०] आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरुचिदर्शावाञ्जगम्याः।

३:१२ २२३ १ २ ३ २. ३ १२ २२ ३ १२ २२

पितुर्नपातमादधीत वेधा अस्मिन् क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥६॥

ऋ० १० । १० । १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (सखायः) तेरे समान ख्याति चाहने वाले, तेरे बनेही (सख्या) मित्रभाव से (त्वा) तुम्हको (आववृत्युः) प्रेम करते हैं या अपनाते हैं । तू (तिरः) तिर्यग् योनियों में (पुरु) इन्द्रियों या प्रजाओं में (चिद्) चेतनावान् होकर (अर्णवम्) देह में (जगम्याः) प्रविष्ट है, उसको प्राप्त है । तू (अस्मिन् क्षये) इसनिवासयोग्य देह में (प्रतरां) अति उत्तम प्रकार से (दीद्यानः) प्रकाशमान होता हुआ, (वेधाः) ज्ञान सम्पन्न होकर (पितुः) सबके पालन करनेहारे परमेश्वर के समान (पातं) हमारी रक्षा (आदधीत) कर । इन्द्रियों का आत्मा के प्रति, प्रजा का राजा या परमेश्वर के प्रति कथन है ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[३४१] को अद्य युंक्ते धुरि गा क्रनस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २२ ३ २ ३ २ ३ १ २

आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून् य एषां भृत्यामृणाधत् स जीवात् १०

ऋ० १ । ८४ । १६ ॥

३४०—“नित्सखायं सख्या, ववृत्यां तिरः पुरुचिदर्णवं जगन्वान् । पितुर्नपातमादधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीद्यानः” । इति ऋ० ।

१. यमी ऋपिः, ऋग्वेदे ।

३४१—‘आसन्निद्रुहृत्स्वसो’ इति ऋ० ।

भा०—(अद्य) वर्तमान में (ऋतस्य) इस गतिमान् जीवित देह-
रूप रथ के (धुरि) धुरा में (शिमीषतः) कामना करने हारे (भामिनः)
आवेश से युक्त, (दुः-हृणायुन्) दुःशील (अप्सुवाहः) अपने अभिलाषित
पदार्थों में शरीर को लेजाने वाले (मयोभून्) सुख उत्पन्न करनेहारे
(गाः) बैलों के समान, इन्द्रियों को (कः) कौन (युंक्ते) लगाता है ?
(एषां आसन्) इनके मुख में (यः) जो (एषां) इनकी (भृत्यां)
भरण पोषण सामग्री को (अणधत्) उत्तम रूप से देता है और उनका
पालन पोषण करता है (सः) वह ही (जीवात्) जीवन धारण
करता है ।

इति पञ्चमी दशतिः । एकादशः खण्डः ।



॥ ६० ६ ॥ ऋषिः—१ मधुच्छन्दाः । २ जेता माधुच्छन्दसः । ३, ६ गौतमः ।

४ अत्रिः । ५, ८ तिरश्चीः । ७ काण्वो नीपात्तिथिः । ९ विश्वामित्रः ।

१० शंयुर्वर्हिस्पत्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्टुप् ॥ गान्धारः ॥

१ २ ३ ५ १ २ ३ २ ३ १ २

[३४२] गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ १ ॥

अ० १ । १० । १ ॥

भा०—हे शतक्रतो ! (त्वा) तुम्हको (गायत्रिणः) गान करनेहारे
उद्गाता, सामगायक (गायन्ति) गान करते हैं । (अर्किणः) ऋग्वेदी
विद्वान् (त्वा अर्चन्ति) वेदमन्त्रों द्वारा तेरे गुणगान करते हैं । (ब्रह्माणः)
और अथर्ववेद या चारों वेदों के विद्वान् ब्रह्मा लोग (त्वा) तुम्हको (वंशम्
इव) अपने वंशधर, प्रथम पुरुषा के समान (उद् येमिरे) उच्चकोटि पर
मानते हैं ।

२ ३ १ २

३ १ २ ३ १ २

[३४३] इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्तसमुद्रव्यचसं गिरः ।

३ १ २ ३ १ २ १ २ ३ ३ २ ३ १ २

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् ॥ २ ॥

ऋ० १ । ११ । १ ॥

भा०—(विश्वाः गिरः) समस्त वेदवाणियां (समुद्रव्यचसं) आकाश के समान सर्वत्र व्यापक, (रथीनां रथीतमम्) महारथियों में सर्वश्रेष्ठ महारथी के समान देहधारियों में सब से विराट् देह, ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले, सबके प्रेरक, (वाजानां) सब ज्ञानवान् पुरुषों के (सत्पतिं) सच्चे स्वामी, या सज्जनों के पालक और (पतिं) सबके पालक (इन्द्रं) परमेश्वर को (अवीवृधन्) बढ़ा कहती हैं, उसकी महिमा को बढ़ाती हैं ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[३४४] इममिन्द्रसुतं पितृ ज्येष्ठममर्त्यं मदम् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन् धारा ऋतस्य सादने ॥ ३ ॥

ऋ० १ । ६४ । ४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (इमं) इस (अमर्त्यं) मरणधर्मा पुरुषों को प्राप्त न होने वाले, या कभी नष्ट न होने वाले, दिव्य, (ज्येष्ठं) सब से उत्कृष्ट, (मदं) आनन्दस्वरूप, (सुतं) योगज ज्ञानसम्पन्न रस को (पितृ) पान कर । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (सादने) उत्पन्न होने की स्थिति में (शुक्रस्य) शुद्धस्वरूप, शुक्र, कान्ति की (धाराः) धारणाशक्ति, धारा या प्रवाह (त्वा) तेरे प्रति (अभि अक्षरन्) ब्रह्ते हैं ।

पतंजलि ने योगसूत्र में स्पष्ट लिखा है—'निर्विचारदेशारद्ये अध्यात्म-प्रसादः' । जिस पर व्यासदेव ने लिखा है "अशुद्ध्याचरणमत्लापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्यामनाभिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वैशारद्यं । यदा निर्विचारस्य समाधिचैशारद्यमिदं जायते तदा योगिनो भवति अध्यात्मप्रसादः । भूतार्थविषयः क्रमानुलोधी स्फुटः प्रज्ञालोकः' । ऋतं

भरा तत्र प्रज्ञा । (पात० सू०) तस्मिन् समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या 'अतंभरा' इति संज्ञा भवति । अन्वर्था च सा । नच तत्र विपर्यास-ज्ञानगन्धोऽपि ॥" इसी प्रकार ऐतरेय उप० में भी लिखा है । अर्थात् निर्मल चित्त होजाने पर स्वच्छ स्थिति प्रवाह होजाता है तब योगी के सत्य-ज्ञान का प्रज्ञा-नयन खुल जाता है ।

१ २ ३ १ २
[३४५] यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिचः ।

३ १ २ ३ १ २
राधस्तन्नो विद्वस उभया हस्त्याभर ॥ ४ ॥

अ० ५ । ३९ । १ ॥

भा०—हे अद्रिचः ! सब अन्धकारों को दूर करनेहारे इन्द्र ! (मे) मेरा (इह) इस संसार में (यद्) जो (त्वादातं) तेरे से दानरूप-में प्राप्त करने योग्य (नास्ति) नहीं हुआ है (तद् राधः) वह धन या सिद्धि हे (चित्र) पूजनीय ! हे (विद्वसो) विद्वानों के एकमात्र प्राणस्वरूप ! (नः) हमें (उभया हस्त्या भर) दोनों हाथों से, दिल खोलकर दे ।

३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[३४६] श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूद्धि महाँ असि ॥ ५ ॥

अ० ८ । ६५ । ४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (यः) जो (त्वा) तुझे (सपर्यति) उपासना करता है उस (तिरश्च्याः) पूर्ण रूप से शरीर में गति करनेहारे प्राण, या पूर्ण ज्ञानी साधक की (हवं) स्तुति का (श्रुधि) श्रवण कर, स्वीकार कर । हे इन्द्र ! तू (महान् असि) बड़ा है, इसलिये (सुवीर्यस्य) उत्तम वीर्यसम्पन्न (गोमतः) पशु एवं इन्द्रिय और वाणी आदि से युक्त (रायः) धनों और ज्ञानों से हमें भर दे ।

१ २ ३ १२ ३ १ २ ३ १ २
 [३४७] असावि साम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवागहि ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 आ त्वा पूणक्तिन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ ६ ॥

श्र० २ । ८४ । १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (ते) तेरे लिये (सोमः) सोम, पेश्वर्य और ज्ञानानन्द (असावि) उत्पन्न किया जाता है । हे (शविष्ठ) अति बलिष्ठ ! हे (धृष्णो) सबको परास्त करनेहारे ! (आगहि) आ जा, समीप आ जा । (इन्द्रियं) यह इन्द्रिय और चित्त अथवा तेरी विभूति या पेश्वर्य (त्वा) तुझको (सूर्यः न) सूर्य जिस प्रकार (रश्मिभिः) अपनी रश्मियों से (रजः) इस ब्रह्माण्ड को पूर देता है उसी प्रकार (आ पूणक्तु) सब ओर से भर दे ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
 [३४८] एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुस्तुतिम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ७ ॥

श्र० ८ । ३४ । १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! अपने (हरिभिः) ज्ञान प्राप्त करानेहारे साधनों, इन्द्रियों से (कण्वस्य) कणों से संचित इस देह, या देही, या प्रज्ञावान्, आत्मा की (सुस्तुतिम्) उत्तम स्तुति या उपभाग को (उप आयाहि) प्राप्त कर और भोग कर । हे (दिवावसो) अपने तेज से प्राणरूप होकर बसनेहारे जीव ! (अमुष्य) उस तेरे (दिवः) इस धौलोक को (शासतः) शासन करनेवाले जगदीश्वर के (दिवं) दिव्य कान्ति को (यय) चला, ला, प्राप्त कर ।

३ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १
 [३४९] आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 अभि त्वा समनूपत गावो वत्सं न धेनवः ॥ ८ ॥

श्र० ८ । १५ । १ ॥

भा०—हे गिर्वणः ! वेदवाणियों द्वारा ज्ञान करने योग्य (सुतेषु) योगसाधनों में, यज्ञों में (यिरः) वेदवाणियों (रथीः इव) वेगवान् रथा-रोहियों के समान (त्वा अस्थुः) तेरे ही प्रति आ जाती हैं । (गावः) ये वेदवाणियां (धेनवः वत्सं न) गौएँ जैसे अपने बछड़े के प्रति आती हैं उसी प्रकार (त्वा अभि सम् धनूपत) तेरी ही प्रत्यक्षरूप से स्तुति करती हैं ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[३५०] एतो न्विन्द्रे स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

शुद्धैरुक्थैवां वृध्वासं शुद्धैराशीर्वाण् ममत्तु ॥ ६ ॥

अ० ८। ६५। ७ ॥

भा०—हे विद्वानो ! आप लोग (आ इत) आओ, (तु) और (शुद्धं इन्द्रं) विद्या और तप से पवित्र (शुद्धेन साम्ना) स्वरसंस्कारों से शुद्ध सामगान द्वारा, (शुद्धैः उक्थैः) पवित्र ऋग्वेद के मन्त्रों द्वारा (वावृध्वासं) महिमा से बड़े (इन्द्रं) परमेश्वर को (स्तवाम) स्तुति करें । (शुद्धैः) शुद्धिजनक तपों से यह (आशीर्वाण्) शुभ आशीर्वादों से युक्त होकर (ममत्तु) आनन्द प्रसन्न रहे ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[३५१] यो रथि वा रथिन्तमो यो धुम्नैर्धुम्नवत्तमः ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥ १ ॥

अ० ६। ४४। १ ॥

भा०—(यः) जो स्वयं (रथिन्तमः) सबसे उत्तम ऐश्वर्य, है और (यः धुम्नैः) जो कान्तियों, ओजों और ऐश्वर्यों से (धुम्नवत्तमः) अत्यन्त


३५०—'शुद्ध आशीर्वाण्' इति अ० ।

३५१—'यो रथिवो' इति अ० ।

आधिक कान्तिसम्पन्न, ऐश्वर्यवान् है (सः) वह परमेश्वर (वः) आप लोगों को (रायिम्) जीवन, धन दे। हे परमेश्वर ! (हे स्वधापते) हे समस्त स्वयं अपने को धारण करने हारे जीवों के पालक, (सुतः) तैयार किया हुआ (सोमः) सोम ज्ञान, आनन्दरस या समस्त ऐश्वर्य ही (ते मदः) तेरे हर्ष का साधन (अस्ति) है ।

इति षष्ठी दशतिः । द्वादशः खण्डः ।

इति तृतीयोध्यायः



अथ चतुर्थाध्यायः

॥६० ७॥ अपिः—१ भरद्वाजो वार्हस्पत्यः । २ वामदेवः शाकपूतो वा । ३ प्रियमेधः । ४ प्रगाथः । ५ इयावाश्वत्सात्रेयः । ६ शंयुः । ७ वामदेवः । ८ जेता । माधुच्छन्दसः ॥ देवता—१-४, ६, ८ इन्द्रः । ५ मरुतः । ७ दधि-

क्रावा ॥ अनुष्टुप् । गान्धारः ॥

१ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ ३ १ २
[३५२] प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर ।

३ २ ३ २ ३ २ २ ३ १ २

अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चाद्दध्वने नरः ॥ १ ॥

ऋ० ६ । ४२ । १ ॥

भा०—(अस्मै पिपीषते) इस सोम पान करने की इच्छा वाले, (विश्वानि विदुषे) समस्त पदार्थों के जानने हारे, (अरङ्गमाय) सर्वव्यापक, (अपश्चात् जग्मये) कभी पीछे न जाने वाले, प्रत्युतः सब के अग्रनेता, (नरः दध्वने) मनुष्यों को सन्मार्ग पर ले जानेहारे परमेश्वर रूप नेता के लिये (प्रति भर) प्रतिदिन अपने आपको समर्पण कर ।

१ २ ३ १ ३ १ २ ३ २
[३५३] आ नो वयो वयःशयं महान्तं गह्वरेष्टाम् ।

३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २

महान्तं पूर्वनेष्टाम् । उग्रं वचो अपावधीः ॥२॥

भा०—(नः) हम लोग (वयःशयं) जीवन भर को समाप्त करने हारे, कालरूप, (महान्तं) बड़े भारी, (गह्वरेष्टाम्) हृदयगुहा में स्थित, (वयः) जीवनप्रद, (वयःशयं) जीवन भर में व्यापक बल को (आ) हमें प्रदान करे । और (पूर्वनेष्टां) प्रारम्भ काल से संसार को नियम से चञ्चाने हारे (महान्तं) उग्र महान् परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं । हे पुरुष ! (उग्रं वचः) उग्र वचनों को (अपावधीः) दूर मार भगा । और सौम्यगुण सीख के सब हृदयों में महान् प्रभु का आवास जानकर और उसी को समस्त संसार का व्यवस्थापक जान कर किसी को कठोर चार्णा से मत सता ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[३५४] आ त्वा रथं यथोत्तय सुम्नाय वर्तयामसि ।

३ १ २ ३ २ ३ १ १ ३ १ २

तुविक्राममृतीपहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम् ॥ ३ ॥

ऋ० ८। ६८। १ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार से हम (रथं) अपने इस रमणसाधन=रथरूप देह को (सुम्नाय) उत्तम मनन करने योग्य ज्ञानरूप धन की प्राप्ति के लिये (आवर्तयामसि) पुनः धारण करते हैं, उसी प्रकार हे (शविष्ठ) बलवान् ! (तुविक्रमिम्) नाना प्रकार के महान् कार्यों के सम्पादन करनेहारे (ऋतीसहं) इन्द्रियों और दुःखदायी विषयों के अभिभावक, (सत्पतिं) सज्जनों के स्वामी, (त्वा) तुरू परमेश्वर को भी (आवर्तयामसि) बार २ अपने में धारण करते हैं । मोक्षार्थ ज्ञानप्राप्ति के लिये

जहां पुनः २ जन्म ग्रहण करना आवश्यक है वहां मोक्ष के लिये पुनः भगवदाराधन भी आवश्यक है ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २
[३५५] ल पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय आनजे ॥ ४ ॥

ऋ० ८ । ६३ । १ ॥

भा०—(सः) वह (वेनः) विद्वान् (महोनां) पूजनिय पुरुषों में से भी (पूर्व्यः) सबसे पूर्व, पूजा के योग्य है जो (क्रतुभिः) कर्मों और ज्ञानों द्वारा (आनजे) सबको प्रेरित या प्रकट करता है । (यस्य द्वारा) जिसको साधन बनाकर (मनुः पिता) मननशील स्वामी, परमात्मा (देवेषु) विद्वान् पुरुषों में (धियः) अपनी बुद्धियों को (आनजे) प्रेरित करता है ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
[३५६] यदी वहन्त्याशवा भ्राजमाना रथेष्वा ।

१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २
पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते ॥ ५ ॥

भा०—(यद्) जहां और जब भी (रथेषु) रमणसाधन या वेगवान् साधनों पर, गतिशील इन्द्रियों के आश्रय (आशवः) शशिगामी मरुद्गण, प्राणगण (भ्राजमानाः) कान्तिमान्, तेजस्वी होकर (ई) इस आत्मा के (मदिरं) पुष्टिकर (मधु) ज्ञान या आनन्द की मात्रा को (पिबन्तः) पान करते हुए (वहन्ति) पहुंचा देते हैं, वे (तत्र) वहां (श्रवांसि) वेदवचनों, अनाहत नादों को (कृण्वते) साक्षात् करते हैं ।
जैसा कहा है—

“आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च ।

त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम् ।”

(योग व्या० भा० । सू० ४८)

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
[३५७] त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम् ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

इन्द्रं विश्वासाहं नरं शचिष्ठं विश्ववेदसम् ॥ ६ ॥

ऋ० ६ । ४४ । ४ ॥

भा०—(वः) आप लोगों के प्रति मैं (त्यम् उ) उस ही (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान्, (विश्वासाहं) सब को सहन करने हारे, (नरं) नेता, (शचिष्ठं) सब से अधिक शक्तिमान्, (विश्ववेदसं) सबको जानने हारे, सर्वज्ञ, (अप्रहणं) किसी से न मारा जाने हारे, (शवसस्पतिं) बल के द्वारा सबके पालक स्वामी की (गृणीषे) स्तुति करता हूं, उसका उपदेश करता हूं ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[३५८] दधिक्राव्यो अकारिपं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

सुरभि नो मुखा करत् प्र न आयूंषि तारिपत् ॥७॥

ऋ० ४ । ३६ । ६ ॥

भा०—(जिष्णोः) सब पर विजय प्राप्त करने हारे, (वाजिन बलवान्, (अश्वस्य) सर्वव्यापक, (दधिक्राव्यः) शरीर को धारण करके योनि से योनि में गति करने हारे आत्मा, अथवा ब्रह्माण्ड भर को स्वयं धारण करके चलाने हारे परमेश्वर का (अकारिपं) मैं वर्णन करता हूं । वह (नः) हमारे (मुखा) रूपादि विषयों को भीतर लेने वाले मुख, इन्द्रियों को (सुरभि) उत्तम रूप से कार्य करने हारे, बलवान्, कर्था निपुण, (करत्) करे और (नः आयूंषि) हमारे जीवनों को (प्र तारिपत्) तार दे, कृतार्थ करे, बढ़ावे ।

उ २ उ १२ २२ उ १२ २२
[३५६] पुरां भिन्दुर्युवा कभिरमितौजा अजायत ।

२ उ १ २ उ १ २ उ २ उ १ २ उ २

इन्द्रा विश्वस्य कर्मणां धर्त्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ ८ ॥

ऋ० १ । ११ । ४ ॥

भा०—(पुरां भिन्दुः) समस्त देहों को कारण में लय कराकर उनका भेदन कराने हारा, सबको मुक्ति देनेहारा, (युवा) सबका संगी (कविः) सबके हृदयों के भीतर का भी जानने हारा, क्रान्तदर्शी, मेधावी (अमितौजाः) अनन्तशक्ति और बल से युक्त, (विश्वस्य कर्मणाः धर्त्ता) समस्त ब्रह्माण्ड के कार्य को धारण करने हारा, (वज्री) सबका संहारक, सर्वशक्तिमान् (पुरु-स्तुतः) सबसे स्तुति करने योग्य, एकमात्र उपास्य देव (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यशील परमेश्वर ही है ।

इति सप्तमी दशतिः । प्रथमः खण्डः ।

॥ द० ८ ॥ ऋषिः—१, ३, ५ प्रियमेधाः । २, १० वामदेवः । ४ मधुच्छन्दाः ।

६ भरद्वाजः । ७ अत्रिः । ८ प्रस्कण्वः । ९ आप्त्यस्त्रितः ॥

देवता—१-७ इन्द्रः । ८ उपाः । ९ विश्वेदेवाः । १०

ऋक्सामे ॥ अनुष्टुप् ॥ गान्धारः ॥

१ २ उ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २

[३६०] प्र प्र वस्त्रिण्डुभमिपं वन्दद्दीरायेन्दवे ।

उ १ २ उ १ २ उ २ उ १ २

धिया वो मेघसातये पुरन्ध्या विवासनि ॥ १ ॥

ऋ० ८ । ६९ । १ ॥

भा०—(वः) आप लोग (वन्दद्दीराय) दीरों से सम्मानित, (इन्दवे) ऐश्वर्यशील आत्मा को (त्रिण्डुभं) मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा प्रशंसित, (इपं) सोम आदि अन्न या अभिलाषित कामनाओं को (प्र प्र)

उत्तम रीति से प्रकट करो । (पुरं-धी) इस देह या ब्रह्माण्ड रूप पुर को धारण करने हारी (धिया) उत्तम धारणावती बुद्धि से वह आत्मा (मेघसातये) पवित्र ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिये (वः) आप लोगों को (आ विवासति) संयुक्त करता और अभिलषित फल प्रदान करता है ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[३६१] कश्यपस्य स्वर्विदा याचाहुः सयुजाविति ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

ययोर्विश्वमपि व्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥ २ ॥

भा०—(स्वर्विदः) ज्योतिः स्वरूप सुख को साक्षात् करनेहारे (धीराः) विद्वान् लोग (यौ) जिन प्राण और अपान को (कश्यपस्य) योगी, साधक, दृष्ट आत्मा के (सयुजा) नित्य के सहयोगी, साथी (आहुः) बतलाते हैं और (ययोः) जिनके (विश्वम् अपि) सभी (व्रतं) कर्मों को (यज्ञं निचाय्य आहुः) जीवन या प्राणापानमय यज्ञ के निमित्त ही निश्चय करते हैं ।

सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात, प्राण, अपान, चित्त और अहंकार, मन, बुद्धि आदि साथी समझने चाहियें । आधिदैविक पक्ष में मित्रावरुण, सूर्य और मेघ लेने चाहियें ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[३६२] अर्चत प्रार्चना नरः प्रियमेधासा अर्चत ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

अर्चन्तु पुत्रका उत पुरमिद् धृषण्वर्चत ॥ ३ ॥

अ० ८ । ६९ । ८ ॥

भा०—हे (प्रियमेधासः) उत्तम बुद्धि वाले (नरः) पुरुषो ! आप (पुरम् धृषणुं इद्) इस पुर, ब्रह्माण्ड और इस पिण्ड को धारण करनेहारे आत्मा और परमात्मा की ही (अर्चत) स्तुति करो, (प्र अर्चत) और उत्तमरूप से गुणगान करो और (अर्चत) उपासना करो । हे (पुत्रकाः)

पुरुषों को दुःखों से त्राण करने हारे. लोगो ! उसी की (उत अर्चन्तु)
प्रार्थना उपासना किया करो ।

उ १२ २२३ २ ३ १२ ३ १ २
[३६३] उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्द्धनं पुरु निष्पिधे ।

उ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १२

शक्रो यथा सुतेषु ना रारणत् सख्येषु च ॥ ४ ॥ ऋ० १ । १० । १ ॥

भा०—(पुरु निष्पिधे) इन्द्रियों या प्रजाओं में सब प्रकार की गति
देनेहारे, व्यापक (इन्द्राय) आत्मा की (वर्द्धनं) महिमा दर्शाने वाला,
(उक्थं) वेदमन्त्र (शंस्यं) उच्चारण करना चाहिये । (यथा) जिससे
(शक्रः) वह सर्वशक्तिमान् ईश्वर (सुतेषु) हमारे पुत्र पौत्रों या यज्ञों में
और (सख्येषु च) मित्रों और मित्रता के कार्यों में भी (नः) हमें
(रारणत्) प्रसन्न रखे ।

उ १२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[३६४] विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

एवैश्च चर्षणीनामूनी हुवे रथानाम् ॥ ५ ॥

ऋ० ६ । ६८ । ४ ॥

भा०—हे (मरुतः) इन्द्रियगण ! या प्रजाओ ! (विश्वानरस्य)
समस्त संसार के नेता, (अनानतस्य) किसी से न हारने वाले, (शवसः)
बल के (पतिं) पालक ईश्वर को (चर्षणीनां) सब प्रजाओं के (एवैः च)
व्यवहारों के लिये और (रथानां ऊतये) इन देहस्वरूप रथों की रक्षा के
लिये (वः) आप लोगों को (हुवे) आह्वान करता हूँ ।

उ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[३६५] स घा यस्ते दिवा नरो धिया मर्त्तम्य शमतः ।

उ १२ २२३ २ ३ २ ३ २ ३ ३ १ २

ऊती स बृहतो दिवा द्विपो अंहो न तरनि ॥ ६ ॥

ऋ० ६ । २ । ४ ॥

समान तेजस्वी आत्मा, या प्रकाशित मूर्धाभाग के (अन्तेभ्यः परि) दिशाओं के परले सिरे या प्रान्तभागों से (पतत्रिणः) उड़नेहारे (वयः) पक्षिगण के समान परमहंस विद्वान्गण, और अध्यात्म में इन्द्रियगण (द्विपात्) और दो पाये मनुष्य और (चतुष्पाद्) चौपाये पशु (चित्) भी (प्रारन्) गति करते हैं। यह उपा के रूपक में चितिशक्ति का वर्णन किया गया है। द्यौः=मूर्धा। पतत्रि=ज्ञान इन्द्रियगण। द्विपात्=हाथ, चतुष्पाद=पैर आदि। विशोका प्रज्ञा का उदय ही उपा का उदय कहा गया है।

३ १२ २२३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ १ २

[३६८] अमी ये देवा स्थन मध्य आरोचने दिवः।

१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २

कद् ऋतं कद्मृतं का प्रत्ना व आहुतिः ॥ ६ ॥

अ० १ । १०५ । ५ ॥

भा०—(ये अमी देवाः) जो ये देवगण (आरोचने) कान्तिमान् (दिवः मध्ये) द्यौलोक के मध्य में (स्थन) विद्यमान हैं। हे देवो ! मैं आप से प्रश्न करता हूँ कि (वः) आप लोगों का (ऋतं कद्) सत्य २ तत्व क्या है ? (कद् अमृतम्) आपका अमृतस्वरूप किस प्रकार का है ? (वः) आपको (प्रत्ना) प्राचीन (आहुतिः) स्मरण करने और तर्पण करने का पदार्थ क्या है ? अर्थात् आपका प्राचीन मूलभूत नाम और वास्तविक द्रव्य क्या है ?

इन तीनों प्रश्नों के क्रम से उत्तर देखिये ऋ० १ । सू० १०५ । मन्त्र १२; १५, १६ ।

३ १२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[३६९] ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते ।

१२ २२ ३ २ ३ १ २

वि ते सदसि राजता यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥ १० ॥

भा०—(याभ्यां) जिन ऋग्वेद और सामवेद से (कर्माणि) यज्ञ आदि समस्त संसार के कर्म (कृण्वते) करते हैं उन (ऋचं) ज्ञानमय

ऋग्वेद और (साम) सर्वत्रव्यापक, सामवेद का (यजामहे) हम स्वाध्याय करते हैं । (ते) वे दोनों (सदसि) यज्ञों और सभाओं में (राजतः) विराजते हैं और (देवेषु) विद्वानों में (यज्ञं) यज्ञ दानादि को (वि वृत्तः) वहन करते हैं, प्राप्त कराते हैं ।

इति ऋष्टमी दशतिः । द्वितीयः खण्डः ।

॥६० ९॥ ऋषिः—१, रेभः । २ सुवेदाः शैरिशिः, सुवेदः शैलृषिर्वा । ३ वामदेवः । ४, ७, ८ सव्यः सत्यो वा आङ्गिरसः । ५ विश्वामित्रः । ६ कृष्णः कृष्णो वा आङ्गिरसः । ६ भरद्वाजः । १० मेधातिथिः । ११ कुत्सः ॥ देवता—१—८, १०, ११ इन्द्रः । ९ वावापृथिवी ॥ छन्दः—१—६, ११ जगती । १० महापङ्क्तिः ॥ स्वरः—१—९, ११ निषादः । १० पञ्चमः ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
[३७०] विश्वाःपृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे
३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
ऋत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम् ॥१॥

ऋ० ८। ६७। १० ॥

भा०—(विश्वाः) समस्त (पृतनाः) व्यापार करनेहारे (नरः) नेता लोग (सजूः) परस्पर मिलकर (अभिभूतरं) सबसे अधिक सामर्थ्यवान्, (इन्द्रं) ऐश्वर्यसम्पन्न को अपना स्वामी (ततक्षुः) बनाते हैं और (राजसे) अपने अधिक उन्नतरूप से शोभा पाने के निमित्त (वरे) अत्यन्त उत्तम (स्थेमनि) स्थिर (ऋत्वे) कार्य में (आमुरिम्) सब विघ्नकारियों के संहारक (उग्रं) उग्र (ओजिष्ठं) कान्तिसम्पन्न, बलवान् (तरसं) वेगवान्, (तरस्विनं) आलस्यरहित, चतुर पुरुष को (इन्द्रं

३७०—'ऋत्वा षरिष्ठं वरं आमुरि', 'तरस' इति ऋ० ।

समस्त जगत् का उत्पादक है, (जनानाम् अतिथिः) और जो समस्त प्राणियों के भीतर व्यापक है, उस (पति) सब के पालक परमेश्वर की शरण में (सम् एत) आजाओ । (स पूर्वैः) वह सबसे पूर्व विद्यमान होकर (नूननम्) पुनः वाद में उत्पन्न (आजिगीपन्तं) इस संसार की शक्तियों पर विजय चाहने वाले मानव पुरुष के लिये (एक इत्) एक ही (वर्तनीः) मार्ग (अनु वावृते) है ।

‘स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ।’ यो० सू० ।

नान्यः पन्था विद्यते अयनाय । यजु० ।

३१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[३७३] इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।

३७ ३ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत् क्षोणीरिव प्रति तद्धर्यं नो वचः ॥

ऋ० १। ५७। ४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! हे (प्रभूवसो) ! प्रभूत धनसम्पन्न ! हे (पुरु-स्तुत) सब प्रजाओं से स्तुति किये गये ! (ये वयं) जो हम (त्वा आरभ्य) तुझ से ही प्रारम्भ करके (चरामसि) यात्रा कर रहे हैं । (इमे ते) ये वे हम सब (ते) तेरे ही हैं । हे (गिर्वणः) वाणियों के एकमात्र विषय ! (गिरः) इन सब वेदवाणियों को (त्वत् अन्यः) तुझ से दूसरों को (नहि सघत्) प्राप्त नहीं होता अर्थात् वे सब तेरी ही स्तुति करते हैं । (तत्) इसलिये (नः वचः) हमारी वाणी को तू (क्षोणीः इव) माता पृथ्वी के समान (प्रति हर्यं) स्वीकार कर, श्रवण कर । जैसे सब पदार्थ फेंके जाकर भूमि पर ही आ गिरते हैं उसी प्रकार सब वाणियां ईश्वर पर ही आ गिरती हैं । इस कारण हे भगवन् ! हमारी वाणियों को भी तू ही स्वीकार कर ।

३७३—‘प्रति नो हर्यं तद् वचः’ इति ऋ० ।

उ १ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ ६ २ ४
 [३७४] चर्षणीधृतं मघवानमुक्थया३ मिन्द्रं गिरो वृहतीरभ्यनूपत ।

उ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवेदिवे ॥५॥

ऋ० ३ । ५१ । १ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! (चर्षणीधृतं) समस्त मनुष्यों को धारण करने हारे, (मघवानं) ऐश्वर्यसम्पन्न, (उक्थया) वेदमन्त्रों से स्तुति करने योग्य, (वावृधानं) महिमा में वढ़े, (पुरुहूतं) प्रजाओं से पूजित, (अमर्त्यं) अमर, नित्य (दिवेदिवे जरमाणं) प्रतिदिन स्तुति किये गये (इन्द्रं) परमेश्वर को (वृहतीः गिरः) हमारी वृहती छन्द की वेदवाणियों अथवा अति ज्ञानसम्पन्न, बहुतसी स्तुतियां (अभि अनूपत) सत्य स्वरूप वर्णन करती हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [३७५] अच्छा व इन्द्रं मतयः स्वर्युवः सधीचीर्विश्वा उशतीरनूपत

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ १ ३ १ २
 परिष्वजन्त जनयो यथा पतिं मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतये॥६॥

ऋ० १० । ४३ । १ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रजार (मर्यं पतिं) अपने पतिरूप पुरुष को (जनयः) स्त्रियों (परिष्वजन्ते) आर्त्तिगन करती हैं और जिस प्रकार अभीष्ट प्राप्ति के लिये (शुन्ध्युं) व्यवहार में शुद्ध, (मघवानं न) महाजन के पास प्रजा आती हैं उसी प्रकार (स्वर्युवः) आनन्द और स्वर्ग के सुखका संग कराने हारी, (सधीचीः) एकसाथ पढ़ी गई (विश्वा मतयः) समस्त स्तुतियों (वः) आप लोगों की (अच्छा उशतीः) उत्तम रूप से कामना करती हुई (इन्द्रं अनूपत) उस परमेश्वर की ही स्तुति करती हैं ।

३ २४ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
 [३७६] अभि त्वं मेपं पुरुहूतमृगिमयोमन्द्रं गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवम्
 २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २
 यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभिप्रमर्चता॥७॥

ऋ० १ । ५१ । १ ॥

भा०—(त्वं) उस चिरस्मरणीय, (मेपं) सत्र सुखों के वर्षानेहारे, (पुरुहूतं) प्रजाश्रों के स्तुतिपात्र, (ऋगिमं) ऋचाश्रों अर्थात् वेदमन्त्रों में प्रतिपाद्य, (वस्वः अर्णवम्) सत्र जीवनोपयोगी साधनों, प्राणों और वास कराने हारे ब्रह्माण्डों के एकमात्र महासमुद्र, (मंहिष्ठं) दान-शील, (विप्रं) ज्ञानी, (इन्द्रं) उस ईश्वर को (भुजे) अपने पालन पोषण के निमित्त (अभि अर्चत) निरन्तर स्तुति करो, (यस्य) जिसकी (द्यावः न) ज्ञानमय किरणें ही मानो (मानुषं विचरन्ति) मनुष्यलोक को नाना प्रकार से व्यापती हैं ।

२४ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २
 [३७७] त्वं सुमेपं महया स्वर्विदं शतं यस्य सुभुवः साकमीरत ।
 २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमेन्द्रं ववृत्त्यामवसे सुवृत्तिभिः॥८॥

ऋ० १ । ५२ । १ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (त्वं) उस (सुमेपं) उत्तम सुखों के वर्षक, (स्वर्विदं) स्वर्ग, मोक्ष का आनन्दलाभ करानेहारे की तू (महया) पूजा कर । (यस्य सुभुवः) जिस उत्तम सत्तावान्, सबके मूलकारण ईश्वर के बनाये (शतं) सैकड़ों कार्यस्वरूप ब्रह्माण्ड (साकम् इरते) एक साथ गति कर रहे हैं । मैं (अवसे) रक्षा के लिये (सुवृत्तिभिः) उत्तम स्तुतियों द्वारा (अत्यं वाजं न) अतिक्रमण करनेहारे घोड़े के समान (हवनस्यदं) उत्तम स्तुतियों से हृदयों में द्रवित होने वाले, (रथम्) रमणीय, परम मनोहर, रस्-स्वरूप (इन्द्रं) समस्त पेशव्यों के स्वामी, परम ईश्वर को (आवृत्त्यां) पुनः २ वर्त्तन करूं, पुनः स्मरण करूं, जपूं ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २
 [३७८] घृतवती भुवनानामभिध्रयोर्धी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥

ऋ० ६ । ७० । १ ॥

भा०—(घृतवती) दीप्ति से युक्त, (भुवनानाम् अभिध्रिया) समस्त भुवनों का आश्रयरूप (उर्वी) बहुत बड़ी, (पृथ्वी) बहुत विस्तृत, (मधुदुधे) समस्त प्राणियों के जीवनरूप रस का दोहन करनेहारी, (सुपेशसा) सुन्दर मनोहारी रूप वाली, (भूरिरेतसा) बहुत प्रकार के स्थावर जंगमों के बीजों को धारण करने हारी, (द्यावापृथिवी) सूर्य और पृथिवी (वरुणस्य धर्मणा) सर्वश्रेष्ठ, सबके वरण करने योग्य परमेश्वर के सामर्थ्य से (विष्कभिते) अधर आकाश में बड़ी हैं ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [३७९] उभे यादन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव ।

३ १ २ ३ १ २ २ १ २ ३ २
 महान्तं त्वा महीनां सम्प्राजं चर्पणीनाम् ।

३ १ २ २ ३ १ २ २
 देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत् ॥ १० ॥

ऋ० १० । १३४ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यद्) जो (उभे) दोनों (रोदसी) धौ और पृथिवी को (उपाः इव) प्रातःकालिक सूर्यप्रभा के समान (आपप्राथ) चारों ओर से प्रकाशित कर देते हो इसी कारण (महीनां महान्तं) बड़ों में बड़े (चर्पणीनां) मनुष्यों के (सम्प्राजं) राजास्वरूप आपको (देवी जनित्री) दिव्य गुणवाली वेदमाता (अजीजनद्) वैसा ही प्रकट करती है, (भद्रा जनित्री) कल्याणकारिणी वेदमाता (अजीजनद्) वैसा ही प्रकट करती है ।


२३ १२ ३ १२ ३ २ ३ २ ३ १२ ३ १२ ३ १ २
 [३८०] प्रमन्दिने पितुमर्चता वचां यः कृष्णगर्भा निरहन्नृजिश्विना ।

३ २३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२
 अत्रस्यत्रो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हुवेमहि ॥११॥

अ० १ । १०१ । १ ॥

भा०—(प्रमन्दिने) उत्कृष्ट हर्ष, आनन्दयुक्त ईश्वर के लिये (पितु-
 मत्) सारवान् (वचः) वाणियों (अर्चत) उच्चारण करो । (यः) जो
 अपने प्रभाव से (कृष्णगर्भाः) पाप को अपने भीतर धरनेहारी दुष्प्रवृत्तियों
 को (ऋजिश्विना) सरल ज्ञान से (निः-अहन्) नाश करता है । (अत्र-
 स्यवः) रक्षण की इच्छा करने हारे (वृषणं) सुख वर्षण करने हारे
 (वज्रदक्षिणं) विघ्नविनाशकों में श्रेष्ठ (मरुत्वन्तं) प्राणों के और प्रजाओं
 के आश्रय परमेश्वर को हम (सख्याय) अपने मित्रभाव के लिये
 (हुवेमहि) आह्वान करते हैं ।

इति नवमी दशतिः । तृतीयः खण्डः ।



॥ ८० १० ॥ ऋषिः—१ नारदः । २, ३ गोवृक्षयज्ञसूक्तिनौ । ४ पवतः ।

५-७, १० विद्वमना वैयथः । ८ नृभेषः । ९ गौत्रमः ॥ इन्द्रो

देवता ॥ उष्णिक् । ऋषभः ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ उक्त २२

[३८१] इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीप उक्थ्यम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

विदे वृधस्य दक्षस्य महौ हि षः ॥१॥ अ० ८ । १३ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (सुतेषु सोमेषु) सोमरूप हर्षकारी
 ज्ञान-दशांष्टं उत्पन्न होने पर (उक्थ्यं क्रतुं) वेदानुकूल कर्म और ज्ञान को
 (दक्षस्य वृधस्य विदे) अत्यन्त बड़े हुए धल के लाभ के लिये (पुनीपे)

३८०—'हवामहे' इति अ० ।

३८१—दक्षसा महान्दि सः इति अ० ।

प्राप्त करता है । क्योंकि (महान् हि सः) वह ईश्वर महान् है । संवित्सिद्धियों की प्राप्ति के अनन्तर अणिमादि सिद्धियों का जय होता है, तभा वह महान्, सम्राट् आदि बनता है ।

१ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ २
[३८२] तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १२ २२

इन्द्रं गीर्भिस्तविषमाविवासत ॥२॥ अ० ८ । १५ । २ ॥

भा०—(पुरुहूतं) समस्त प्राणों या प्रजाओं से स्मरण किये गये (पुरुष्टुतं) प्राणों या प्रजाओं द्वारा स्तुति किये गये (तम् उ) उसका ही (अभि प्रगायत) कीर्त्तन करो । हे विद्वान् लोगो ! (तविषं) महान् (इन्द्रं) ईश्वर को ही (आ विवासत) सब के सामने प्रकट करो, उसकी उपासना करो ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[३८३] तं तं मदं गृणीमसि वृषणं पृच्छु सासहिम् ।

३ १ २ ३ १ २

उ लोककृत्नुमद्रिवा हरिश्रियम् ॥ ३ ॥ अ० ८ । १५ । ४ ॥

भा०—हे (आदिवः) ज्ञानसम्पन्न ! (तं) तेरे (तं) उस (वृषणं) सब प्राणियों के पोषक (पृच्छु सासहिम्) सब संघर्षों में भी कभी नष्ट न होने वाले, सब से बढ़कर (लोककृत्नुं) संसार के उत्पादक (हरिश्रियम्) हरणशाल, ज्ञानियों के आश्रय लेने योग्य (मदं) आनन्द-रस की (उ) ही (गृणीमसि) चर्चा करें ।

१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
[३८४] यत्सोमीमन्द्र विष्णावि यद्वा घ त्रित आप्त्ये ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२

यद्वा मरुत्सु मन्दमे समिन्दुभिः ॥४॥ अ० ८ । १२ । १६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (यत् सोमम्) जिस सोम, सबके प्रेरक, सर्वोत्पादक वीर्य या परमानन्दरस को (विष्णुवि) सर्वव्यापक ईश्वर में (यद् वा घ) या (आप्ये) परम समाधि में प्राप्त (त्रिते) तीनों भूमियों को क्रमण करने वाले योगी आत्मा में, (यद् वा मरुत्सु) जो प्राणों, इन्द्रियों या भूमियों में या प्रजाश्रीं में विद्यमान पाते हैं उन सब (इन्द्रुभिः) आनन्दों से हे देव ! तू ही (सुमन्दसे) आनन्दस्वरूप प्रकट होता है ।

आनन्द की मीमांसा देखो (तैत्तरीय उप० आनन्दवल्ली)

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ १ २

[३८५] एद् मधोर्मदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः ।

३ २३ ३ १२ २२ २ १ २

एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥५॥ अ० ८ । २४ । १६ ॥

भा०—हे (अध्वर्यो) अहिंसक पालक (सदावृधः) सदा बढ़ने वाला, महामहिम, (वीरः) सामर्थ्यवान्, प्रभु (एवा हि) ही (स्तवते) स्तुति किया जाता है । अतः (मधोः अन्धसः) मनोहर आनन्दकारी अन्न के (मदिन्तरं) अति अधिक आनन्दप्रद तृप्तिकारी अंश को उसी के लिये (आ सिञ्च) आ से चन कर । अन्न और मधु की विवेचना बृहदारण्यक उपनि०में स्पष्ट की है ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

[३८६] एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु ।

१२ २२ ३ २

प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ अ० ८ । २४ । १३ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! (इन्द्राय) उस इन्द्र के लिये (इन्दुम्) आह्लादकारी, कान्तिसम्पन्न, ज्ञानमय सोम का (आसिञ्चत) सेचन करो, वह (सोम्यं मधु) शान्तिदायक मधु का (पिबाति) पान करे, वही (महित्वना) अपनी महिमा से ही (राधांसि) ब्रह्मसौ विभूतियाँ (प्र चोदयते) प्रकट करता है, प्रदान करता है ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[३८७] एतौन्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम् ।

३ १ २ २ ३ २ ३ २

कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत् ॥७॥ अ० ८ । २४ । ६६ ॥

भा०—हे (सखायः) हे मित्रो ! (एत उ नु) आश्रो । और (स्तोम्यं) स्तुति के योग्य, (नरं) नेता, (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की (स्तवाम) स्तुति करें । (यः) जो (विश्वाः कृष्टीः) समस्त मनुष्यों पर (एक इत्) अकेला ही (अभि-अस्ति) व्यापक शासक है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[३८८] इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृडत् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥८॥ अ० ८ । १८ । १ ॥

भा०—हे विद्वान् सामगायको ! (बृहते) महान् (विप्राय) विद्वान् (ब्रह्मकृते) ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने वाले (विपश्चिते) मेधावी, (पनस्यवे) स्तुति के योग्य (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (बृहत् साम) बृहत् नामक साम (गायत) गान करो ।

२ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[३८९] य एक इद्विद्यते वसु मर्ताय दाशुपे ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

ईशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रो अङ्ग ॥९॥ अ० १ । ८४ । ७ ॥

भा०—(यः) जो (एक इत्) अकेला ही (दाशुपे मर्ताय) दानशील पुरुष को (वसु विद्यते) नाना रूप से धनधान्य देता है (अङ्ग) हे मनुष्यो ! वह (इन्द्रः) परमेश्वर (अप्रतिष्कृतः) सबसे बढ़कर, किसी से भी पराजित न होने वाला (ईशानः) सबका स्वामी है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[३९०] सखाय आशिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे ।


३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

स्तुष ऊपु चां नृतमाय घृष्णव ॥१०॥ अ० ८ । २४ । १ ॥

भा०—हे (सखायः) मित्रजने ! (वज्रिणे) सर्व विघ्नानेवारक, वज्ररूप ज्ञान को धारण करने हारे (इन्द्राय) परमेश्वर के प्रतिपादन लिये (ब्रह्म) वेद प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान की (आशिषामहे) कथा चर्चा करते हैं । (वः) आप लोगों के प्रति मैं (उ नृतमाय) उस पुरुषोत्तम (धृष्णवे) सबसे बड़ जाने और सबको पराजय करने हारे परम वशी परमेश्वर के (सुरतुपे) यथार्थ स्वरूप का वर्णन करता हूँ ।

इति दशमी दशतिः । चतुर्थः खण्डः ।

इति द्वितीयोऽर्धः । चतुर्थ प्रपाठकश्च समाप्तः ॥



अथ पञ्चमः प्रपाठकः (प्रथमोऽर्धः)

॥८० १॥ ऋषिः—१ प्रगाथः । २ भरद्वाजः । ३ नृमेधः । ४ पर्वतः । ५
७ इरिमिठिः ६ विश्वमनाः । ८ वामिष्ठः ॥ देवता—१—४, ८
इन्द्रः । ५, ७ आदित्याः । ६ अग्निः ॥ छन्दाः—१—७
उष्णिक् । ८ विराडुष्णिक् ॥ ऋषभः ॥

उ १२ २२ उ १ २ उ २ ३ १ २

[३६१] गृण तदिन्द्र ते शत्रु उपमां देवतातये ।

१२ २२ उ १२ २२

यद्वंसि वृत्रमोजसा शचीपते ॥१॥ ऋ० ८ । ६२ । ८ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (यत्) क्योंकि तू (ओजसा) अपने सामर्थ्य और बल से (वृत्रम्) आवरणकारी अज्ञान अन्धकार को (हंसि) विनाश करता है । हे (शचीपते) सर्वशक्तिमन् ! (ते) तेरे (शवः) बल की (देवतातये) विद्वानों के लिये (उपमां) अनुरूप (गृण) स्तुति करता हूँ । अर्थात् बल के सभी कार्यों में इन्द्र की ही उपमा दी जाती है ।

२ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [३६२] यस्य त्वच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन् ।

३ १२ २२ ३ १२ २२
 अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिव ॥ २ ॥

अ० ६ । ४३ । १ ॥

भा०—(यस्य मदे) जिसके तृप्तिकारक प्रसाद और आनन्द स्वरूप (दिवोदासाय) प्रकाश के आश्रयस्थान सूर्य, आदित्य ब्रह्मचारी के लिये (त्वत् शम्बरं) उस शान्तिवर्षक मेघ या धर्ममेघस्थ आत्मा के स्वरूप को (रन्धयन्) साधता हुआ, हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (सः सोमः) वह सोम, साधक योगी ओषधिरस के समान (ते) तेरी प्राप्ति के लिये (अयं) वह (सुतः) तैयार हुआ है । तू उसे (पिव) पान कर, अपने शरण में ले, स्वीकार कर ।

१ २ ३ १ २
 [३६३] इन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिद्गोह्य ।

३ २२ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ २

। गिरिर्न विष्वतः पृथुः पानर्दिवः ॥३॥ अ० ८ । १८ । ४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! हे प्रिय ! सबसे उत्कृष्ट ! हे (सत्राजिद्) सबको विजय करने हारे ! हे (अगोह्य) अगोप्य सब के प्रति प्रकाश करने योग्य ! कभी न छिपने हारे ! तू (दिवः पतिः) सूर्य का भी स्वामी (गिरिः नः) पर्वत के समान (विष्वतः पृथुः) सब प्रकार से विशाल है । तू (नः) हमारे समीप (आ गधि) आ ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[३६४] य इन्द्रः सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

येनाहंसि न्यरात्रणं तमीमहे ॥४॥ अ० ८ । १२ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (शविष्ठ) बलिष्ठ ! (यः) जो (सोमपातमः) अति अधिक सोम, आनन्दरस पान करने में श्रेष्ठ (मदः) अत्यन्त नृस, हृष्ट या दत्तचित्त होकर तू (चेतति) ज्ञानवान् हो जाता है

(येन) जिससे तू (अत्रिणं) दूसरों के कर्मफल को छीनकर स्वयं खाजाने वाले ढाकू के समान तृष्णा, काम, क्रोध या लोभ युक्त चित्त को (निःश्रांति) विनाश करता है हम (तं) उसको (ईमहे) ज्ञान करते हैं ।

उ १२ २२ ३ १३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[३६५] तुचे तुनाय तत्सु नो द्राधीय आयुर्जावसे ।
१ २ ३ १ २

आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥५॥ ऋ० ८ । २४ । २५ ॥

भा०—हे (सुमहसः) तेजस्वी (आदित्यासः) आदित्यरश्मियों के समान तेजस्वी विद्वान् गुरुभो ! (नः तुचे) हमारे पुत्र (तुनाय) और सन्तान चलाने हारे पौत्र और (नः) हमारे (जीवसे) जीवन के निमित्त (तत्) वह (द्राधीयः) दीर्घ (आयुः) आयु (सु कृणोतन) करो ।

२ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २
[३६६] वेत्थ हि निर्ऋतानां वज्रहस्त पारिवृजम् ।
१ २ ३ १ २ ३ १ २

अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥६॥ ऋ० ८ । २४ । २४ ॥

भा०—हे (वज्रहस्त) वज्र को हाथ में लिये वीरके समान बलवन् ! ज्ञान वन् ! (निर्ऋतानां) दुष्ट चित्तवृत्तियों के (पारिवृजम्) परिष्याग करना (वेत्थ हि) तुम वैसे ही निश्चय जान जैसे (शुन्ध्युः) शोध लगाने वाला ढिटोक्टिव, गुप्तचर या परिशोध करने हारा आदित्य (परिपदाम्) चारों तरफ जाने हारे चोरों या पक्षियों को जानता है ।

१२ २२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
[३६७] अपामीवामप सृधमप सेधत दुर्मतिम् ।
१ २ ३ १ २ ३ १ २

आदित्यासो सुयांतना नो अणसः ॥७॥ ऋ० ८ । १८ । १०

भा०—हे (आदित्यासः) आदित्य रश्मियो ! विद्वान् पुरुषो ! प्राणो ! (नः) हमारे (अपामीवाम्) रोग को (अप सेधत) दूर करो, (सृधम् अप)

हमारे बाधाजनक भीतरी शत्रु को दूर करो और (दुर्मतिम्) दुष्ट मति वाले पुरुष, तथा दुःखदायी दुःसंकल्प को (अप सेधत) दूर करो । (नः) हमें (अहसः) पापों से (युयोतन) पृथक् करो ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
[३६८] पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वाऽयं ते सुपाव हर्यश्वादिः ।
३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
सोतुर्वाहुभ्यां सुयतो नार्या ॥८॥ अ० ७ । २२ १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (सोमम् पिब) सोम, आनन्दरस का पान कर । हे (हर्यश्वा) हरणशील अश्वरूप प्राणों से युक्त ! (सोतुः) प्रेरणा करने वाले सारथि के (वाहुभ्यां) बाहुओं से (सुयतः) उत्तमरूप से नियन्त्रित (अर्वा न) घोड़े के समान (सः) वह आनन्दरस (यम्) जिसको (अदिः) मेघ के सदृश वर्षण करने वाला धर्ममेघ समाधि (ते) तेरे लिये (सुपाव) उत्पन्न करता है वह (त्वा मन्दतु) तुझको आनन्दित करे ।

इति प्रथमा दशतिः । पञ्चमः खण्डः ।

॥ द० २ ॥ अपिः—१—६, ६, १० सौभरिः । ७, ८ नृमेधः ॥ देवता—१,
२, ४, ५, ७—१० इन्द्रः । ३, ६ मरुतः ॥ ककुप् ॥ ऋतमः ॥

३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[३६९] अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि ।
३ १ २ ३ १ २
युधंदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ अ० ८ । २१ । १३ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (त्वं) तू (जनुषा) अपने प्रकट होने के काल से ही (अभ्रातृव्यः) शत्रुरहित, अजातशत्रु (अना) विना नेता के, विनायक, (अनापिः) बन्धु बान्धवों से रहित, अद्वितीय, (सनाद्) पुराण पुरुष

असि) है। तो भी (युधा इत्) योग द्वारा ही (आपित्वम्) तुम
 न्धुता को (इच्छसे) चाहते हो, स्वीकार करते हो ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

४००] या न इदमिदं पुरा प्रवस्य आनिनाय तसु वः स्तुपे ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २

सखाय इन्द्रमूनये ॥ २ ॥ ऋ० ८। २१। १ ॥

भा०—हे (सखायः) मित्रो ! जो (नः) हमारे लिये (इदम्-इदम्)
 यह, यह, नाना प्रकार का, उत्तम उत्तम, (पुरा) • पहले काल में, पूर्व
 तन्म में (वस्यः) आच्छादन योग्य, या निवासयोग्य भोग्य देह आदि
 (प्र आनिनाय) प्राप्त कराता रहा, (तम् उ इन्द्रं) उसी आत्मा या परमे-
 श्वर की (नः) आप के प्रति (स्तुपे) स्तुति करता हूँ ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

४०१] आगन्ता मा रिपण्यत प्रस्थावाना मापस्थात समन्यवः ।

३ १ २

दृळा चिद्यमयिष्णवः ॥ ३ ॥

ऋ० ८। २०। १ ॥

भा०—हे मरुतो, प्राणो ! और विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (आगन्त)
 आओ, (मा रिपण्यत) मरो मत, दुखी मत होओ । हे (प्रस्थावानः)
 निरन्तर गति करने हारो ! (समन्यवः) क्रोधयुक्त या ज्ञानयुक्त होकर (मा
 अपस्थात) बुरे मार्ग पर मत भटको, क्योंकि आप लोग (दृळा चित्)
 बृह, बलवान् पदार्थों को भी (यमयिष्णवः) नियमन कर लेते हो, वश
 करने में समर्थ हैं ।

१ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २

[४०२] आयाह्वयामिन्दवे श्वपते गोपते उर्वरापते ।

१ २

सोमं सोमपते पिव ॥ ४ ॥

ऋ० ८। २१। ३ ॥

भा०—हे (अश्वपते !) इन्द्रियों के स्वामिन् ! हे (गोपते) वाणी
 के मालिक ! हे (उर्वरापते) प्रजनन-शक्ति के स्वामिन् ! हे (सोमपते !)

ज्ञानवान् ! तू (सोमं पिव) सोम, ज्ञान, आनन्द और वत्स का पान कर, उसका लाभ कर ।

१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[४०३] त्वया ह स्वियुजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रवीमहि ।

३ १ २ २ २ ३ १ २

संस्थे जनस्य गोमतः ॥ ५ ॥ ऋ० ८ । २१ । ११ ॥

भा०—हे (वृषभ !) सर्वश्रेष्ठ ! (त्वया ह स्वित्) तुझे ही (युजा) सहायक द्वारा (गोमतः) वाणी से सम्पन्न (जनस्य) पुरुषों के (संस्थे) संघ में (श्वसन्तं प्रति) श्वास लेते हुए प्राणी के प्रति (ब्रवीमहि) तेरी स्तुति करते हैं ।

१ २

उक् २२ ३ २ ३ १ २

[४०४] गावश्चिद् या समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १

रिहते ककुभो मिथः ॥ ६ ॥ ऋ० ८ । २० । २१ ॥

भा०—हे (मरुतः) मरुद्गण ! प्राणो ! विद्वानो ! आप लोग (गावःचित्) गतिमान्, ज्ञानवान् रहते हुए ही (समन्यवः) ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति से युक्त (सबन्धवः) सब समानभाव से एक स्थान पर ही बंधे हुए, प्रेम से युक्त (सजात्येन) समान स्थान पर या समान जाति में उत्पन्न होने के कारण (मिथः) परस्पर (ककुभः) विस्तृत होकर भी (रिहते) परस्पर मिलते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[४०५] त्वं न इन्द्रामर ओजो नृम्यां शतक्रतो विचर्षणे ।

३ १ २ ३ १ २

आ धीरं पृतनासहम् ॥ ७ ॥ ऋ० ८ । १८ । १० ॥

भा०—हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रज्ञावाले ! हे (विचर्षणे) सब लोकों के द्रष्टा ! हे (इन्द्र) आत्मन् ! हमें (नृम्यां) धन और (ओजः) वत्स (आभर) प्राप्त करा । और (पृतनासहं) सेनाओं का मुक्ताबला

करने हारे या प्रजा का भार सहन करने हारे (वीरं) वीर, सामर्थ्यवान् पुरुष को (आ भर) प्राप्त करा ।

२ उक् २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[४०६] अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २

उदेव गमन्त उदभिः ॥ ८ ॥

ऋ० ८ । ९८ । ७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! हे (गिर्वणः) वाणियों के एकमात्र पात्र ! (उदा इव) जिस प्रकार जल (उदभिः) अन्य जलों में (गमन्त) मिल जाते हैं उसी प्रकार हम (काम) अपनी कामनाओं द्वारा (त्वा उप ईमहे) तेरे पास आते हैं और (ससृग्महे) तेरे साथ मिल जाते हैं ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[४०७] सीदन्तस्ते वया यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे ।

३ १ २ २ २

अभि त्वाभिन्द्र नोनुमः ॥ ९ ॥

ऋ० ८ । २१ । ६ ॥

भा०—(यथा वयः) रश्मियों के समान (गोश्रीते) गोरस से मिश्रित, (मधौ) मधुर, (मदिरे) आनन्दप्रद, (विवक्षणे) विशेष सुख या मुक्ति में लेजाने वाले, (ते) तेरे स्वरूप में हम (सीदन्तः) विराजमान होकर हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वाम्) तेरी (अभि नोनुमः) प्रत्यक्ष रूप से स्तुति करते हैं, अर्थात् तेरे आनन्द-रस में मग्न होकर हम तेरी स्तुति करते हैं ।

३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[४०८] वयसु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कञ्चिद्धरन्तोऽवस्यवः ।

१ २ ३ १ २


वाञ्छिञ्चित्रं हवामहे ॥ १० ॥

ऋ० ८ । २१ । १ ॥

भा०—हे वञ्चिन् ! हे (अपूर्व्य) अपूर्व ! सबसे आदि में विद्यमान (वयं) हम लोग (अवस्यवः) अपनी रक्षा चाहने हारे, (स्थूरं न)

गुणों में अधिक स्थितिमान् पुरुष को जिस प्रकार (कश्चित्) कोई प्रजा लोग भरण पोषण करते हैं उसी प्रकार (चित्रं) पूजायोग्य (त्वां) तुम्ह को (भरन्तः) भरण या धारण करते हुए (हवामहे) हम तेरी स्तुति करते हैं ।

इति द्वितीया दशतिः । पष्ठः खण्डः ॥



॥ द० ३ ॥ ऋषिः—१-८ गौतमः । ९ प्रितः । १० अवस्युः ॥ देवताः—१-८ इन्द्रः । ९ विश्वेश्वाः । १० अश्विनौ ॥ पंक्तिश्छन्दः ॥ पञ्चमः ॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १

[४०६] स्वादोरिथा विषूचतो मधोः पिबन्ति गौर्यः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १

या इन्द्रण सयावरीवृष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम् १

ऋ० १ । ८४ । १० ।

भा०—सूर्य और राजा के दृष्टान्त से आत्मा और ईश्वर का वर्णन करते हैं । (गौर्यः) शुभ्र किरणों या गमनशील सेनाओं के समान इन्द्रियां या चित्तवृत्तियां, और प्रजापुं (विषूचतः) सर्वव्यापक, (मधोः) सब मनोहर गुणों से युक्त, मधुर, (स्वादोः) तृप्तिकारक, परमानन्द रस का (इथा) इस प्रकार से (पिबन्ति) पान करती हैं कि (याः) जो वे (वृष्णा) सब परम आनन्द वरसानेहारे इस इन्द्र के साथ (सयावरीः) गमन करती हुई (मदन्ति) आनन्द लाभ करती हैं और (वस्वीः) आवास करने हारी वे (स्वराज्यम्) अपने ही राष्ट्र के समान देह या इस संसार रूप ईश्वर के कुटुम्ब की (अनु शोभथाः) शोभा बढ़ाती हैं । (मधु की व्याख्या देखो बृहदा० २ । ५)

३ २७ ३ २७ ३ १२ ३ २३ १२

[४१०] इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम् ।

१ २ ३ १२ ३ १२ २२ ३ २ ३२ ३ १२ ३ १२

शविष्ठ वज्रिन्नाजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्वन्ननु स्वराज्यम् २

अ० १। ८०। १।

भा०—हे वज्रिन् ! हे (शविष्ठ) सर्वशक्तिमन् ! (इत्था) इस प्रकार से (हि) निश्चय (सोमे) उस आनन्दरस के बल पर (इत्) ही (मदः) आनन्दयुक्त विद्वान् जिस प्रकार (ब्रह्म) वेद द्वारा (वर्धनम्) अपने ज्ञान की वृद्धि या उन्नति (चकार) करता है । (अहिम्) सूर्य जिस प्रकार मेघ को भेदन करता है उसी प्रकार (स्वराज्यं) अपने राष्ट्र या प्रताप को (अनु अर्चन्) प्रकट करते हुए आप अपने (आजसा) बल से (पृथिव्या) इस पृथिवी के आवरणकारी विघ्न को (निःशशाः) विनाश करते हैं । अध्यात्म वेदियों की स्वराज्य की चर्चा उपनिषदों में स्थान २ पर है ।

२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ २२

[३११] इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः ।

२७ ३२ ३ २ ३ १२ २२ ३ १२ २२ ३ १२

तामेन्महत्स्वाजिषूतमर्भं हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत् ॥३॥

अ० १। ८१। १।

भा०—(इन्द्रः) परमेश्वर ! (मदाय) प्रजाजनों के हर्ष करने के लिये और (शवसे) बल के लिये (वावृधे) बहुत बढ़ा है । वह (वृत्रहा) सब विघ्नों का नाश करने वाला (नृभिः) अपनी प्रजाओं के साथ (वाजेषु) संग्रामों और ज्ञान-यज्ञों में (नः प्र आविषत्) हमारी रक्षा करता है । (ऊतिम्) अपनी रक्षा स्वरूप (तम् इत्) उसको ही (महत्सु) बड़े २ (आजिषु) ज्ञान चर्चा के स्थानों या संग्रामों, और यज्ञों में और (अर्भे) सूच्य हृदयावास में भी (हवामहे) हम उसका स्मरण करते हैं ।

अर्भ, अल्प, दन्न, दहर आदि का विवरण छान्दोग्य, और केन दोनों उप-
निषदों में स्पष्ट है। आजि=चरम सीमा। राजा के पक्ष में—आजि=संग्राम।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ उक्त् २२

[४१२] इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वज्रिन्वीर्यम् ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

यद्ध त्वं मायिनं मृगं तव त्यन्मायया वधीरर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥४॥

ऋ० १ । ८० । ७ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! हे (अद्रिवः) मेघपति के समान
आनन्द और ज्ञान के धन ! अस्त्रण्ड या अस्त्रण्डित शक्तिशालिन् ! हे (व-
ज्रिन्) वीर्यसम्पन्न । (तुभ्यम् इत्) तेरा ही (वीर्यम्) बल सामर्थ्य
(अनुत्तम्) कहीं रुका नहीं है । (यत् ह) क्योंकि (त्वं) उस (मायिनं)
माया, अज्ञान या प्रकृति के जाल में पड़े (मृगं) ज्ञान के विलोपक चोर
के समान देह और मनको अथवा (मृगं) सुख के खोजी पशु के समान
प्यासे तृष्णालु जीव को (मायया) अपने प्रजा के बल से (स्वराज्यं
अनु अर्चन्) स्व-महिमा की सत्ता को प्रकट करता हुआ तू (अवधीः-)
विनाश करता है, मारता है । या प्राप्त होता है, (तव त्यत् वीर्यम्) वह
भी तेरा ही बल, प्रताप है ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २

[४१३] प्रह्वभीदि धृष्णुहि न ते वज्रो नियंसते ।

१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

इन्द्र नृमणं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥५॥

ऋ० १ । ८० । ३ ॥

भा०—(स्वराज्यम् अनु) आत्मा के मोक्षरूप स्वराज्य प्राप्त करने के
लिथे (अर्चन्) साधना करते हुए, हे (इन्द्र) आत्मन् ! (प्रेदि) आगे आओ ।
(अभि इहि) सम्मुख आओ ! (धृष्णुहि) बाधाओं को दबाओ । (ते वज्रः)
तेरा वज्र (न) कभी-बहीं (नियंसते) दबता । हे, (इन्द्र) आत्मन् !

(ते) तुम्हें (नृग्यं हि) निश्चय से ऐश्वर्य प्राप्त होगा । तू (शत्रुः) अपने बल से (वृत्रं हनः) वृत्र रूप विघ्न अज्ञान को मार और (अयः जय) सब कर्मों, प्रजाओं पर विजय प्राप्त कर ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[४१४] यदुदीरत आजयो धृष्णवे श्रायत धनम् ।

३ १ २ ३ २ २ ३ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ १ २

युच्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्मां इन्द्र वसौ दधः द
श्र० १। ८१। ३॥

भा०—(यद्) जब (आजयः) संप्राम या ब्रह्मकथा प्रसङ्ग (उद्-ईरते) उठ खड़े होते हैं तब (धृष्णवे) सब का पराभव करनेहारे के सन्मुख (धनं) धन, प्राप्तव्य पदार्थ (धीयते) रक्खा जाता है । हे (इन्द्र) आत्मन् ! (मदच्युता हरी) हर्ष वर्णने वाले और हरणशील अपने प्राण और अपान दोनों अर्थों को (युचव) अपने रथ में लगा । [प्र० १] (कं हनः) तू किस शत्रु या विघ्न का नाश करता है ? और [प्र० २] (कं वसौ दधः) तू किस सहायक, साधन या योगाङ्ग को (वसौ) अपने देह या चित्त में (दधः) धारण करता है ? [उ० १] हे इन्द्र ! (वसौ) इसी आवास स्थान, अन्तरात्मा में (दधः) धारण कर और [उ० २] हमें धारण कर । यह भक्तों का भगवान् के प्रति, इन्द्रियों का आत्मा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति समान रूप से वचन है ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १

[४१५] अक्षन्मीमदन्त ह्यवप्रिया अधूपत ।

१ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

अस्तोपत स्वभानवा विप्रा नविष्टया मती योजान्विन्द्र ने हरी ७

श्र० १। ८२। २॥

भा०—(स्वभानवः विप्राः) स्वयं योगाभ्यास और तपस्या से प्रदीप्त होने वाले, विद्वान्, मेधवी लोग (अक्षन्) सब प्रकार के आनन्दों का भोग करते हैं, (अमीमदन्त) और हर्ष को प्राप्त होते हैं । वे

(प्रियाः) सबको प्रिय लगाने वाले काम्य पदार्थों और कामनाओं को (अवा-
श्वधूपत) परित्याग करते, भाड़ देते, गिरा देते हैं वे सर्वध्यागी, अवधूत हो
जाते हैं। हे (इन्द्र) परमात्मन् ! वे (नविष्टया) अत्यन्त प्रशंसनीय
(मती) शुभ संकल्प या स्तुति से (अस्तोपत) तेरी स्तुति करते हैं। अतः
उन पर प्रसन्न होकर (ते हरी) तू अपने अश्वों, हरणशील वाहनों ज्ञान
और कर्म रूप घोड़ों को या सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधियों की
(अनु योज) साधना कर।

३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २

[४१६] उपो पु शृणुहि गिरो मघवन्माऽतथा इव ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

कदा नः सूनुतावतः कर इदर्थयास इयांजान्विन्द्र ते हरी ॥८॥

अ० १ । ६२ । १ ॥

भा०—हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! (उप सु शृणुहि उ)
तू सावधान होकर सुन (गिरः) तू हमारी वाणियों की (अतथा इव) प्रति
कृत्, शत्रु के समान (मा) उपेक्षा मत कर। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (सूनुता
वतः) सत्य और प्रिय वाणी बोलने हारे (नः) हमको तू (कदा इद्) कब
(करः) अपनाएगा ? (अर्थयासे इव) आपसे प्रार्थना ही की जाती है। हे
(इन्द्र) आत्मन् ! (ते हरी योजा नु) तू अपने अश्वों, व्यापक साधन प्राण
अपान को अब लगा। अथवा सबीज निर्बीज दोनों का अभ्यास कर।

३ १ २ ३ २ १ २ २ ३ १ २ ३ २

[४१७] चन्द्रमा अस्वाऽन्तरा सुपर्णो धावतं दिवि ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युंतो वित्तं मे अस्य रोदसी ६

अ० १ । १०५ । १ । ॥

भा०—(अन्तु अन्तरा) ध्यान धारणाओं, संकल्पों, विकल्पों या
वासना जालों में से (चन्द्रमाः) अत्यन्त आलहादकारी, (सुपर्णः) उत्तम
गतिशील आत्मा, (दिवि) धौ लोक में चन्द्र के समान, या सूर्य में प्रकाश-

स्वरूप परमात्मा की ओर (धावते) गति करता है। हे (विद्युतः) विशेषरूप में प्रकट होने वाली विद्युरस्वरूप कान्तियो ! हे (हिरण्यनेमयः) सुवर्ण के समान चित्ताकर्षक धाराओं वाली कान्तियो ! हमारे इन्द्रियगण या अज्ञानी जनसाधारण अज्ञान में होने से (वः पदं न विन्दन्ति) तुम्हारा स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं करते। हे (रोदसी) द्यौः और पृथिवी, ऊर्ध्वगामी द्यौस्वरूप प्राण अधोगामी पृथिवीस्वरूप अपान, आप दोनों के (अस्य) इस रहस्य का ज्ञान (मे वित्तं) मुझे लाभ कराओ।

[४१८] प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसु वाहनम् ।

स्तोता वामश्विनावृषिः स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुतं हवम्
अ० ५। ७५। १॥

भा०—हे (अश्विनौ) प्राण और अपान ! (वसु-वाहनं) आवासकारी आत्मा को वहन करने हारे, (वृषणं) कर्मफल भोग की वर्षा करने वाले (प्रियतमं) अत्यन्त प्रिय, (प्रतिरथं) प्रत्येक रथ रूप देह में (अपिः) तत्त्वदर्शी (स्तोता) सत्य गुणों का वर्णन करनेहारा, (स्तोमेभिः) वेदमन्त्रों द्वारा (वां) आप दोनों को (प्रति भूषति) उत्तम रूप से अलंकृत करना चाहता है। हे (माध्वी) मधुविद्या, ब्रह्म विद्या के जानने हारो ! (मम हवं) मेरी स्तुति, गुण-वर्णना को (श्रुतं) श्रवण करो।

इति तृतीयो दशतिः । सप्तमः खण्डः ।

॥ ८० ४ ॥ अपिः—१, ७ वसुश्रुतं आत्रेयः । २, ४ विमदः ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृः वासुक्रो वा । ३ सत्यश्रवाः आत्रेयः । ५, ६ गौतमो राहूगणः । कुल्मलः शैलपिः । ८ अहोमुखवावामदेव्यः ॥ देवता—१, २, ७ अग्निः । ३ उषाः । ४ सोमः । ५, ६ इन्द्रः । ८ विश्वेदेवाः ॥ छन्दः—१-७ पंक्तिः । ८ उपरिष्टाद् बृहती ॥ स्वरः—१-७ पञ्चमः । ८ मध्यमः ॥

४१८—‘स्तोमेन प्रति भूषति’ इति अ० ।

१ २

३ १ २

३ १ २

[४१६] आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम् ।

३ २ ३ १ २

३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

३ २ ३

१ २

यद्भ स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भर

ऋ० ५ । ६ । ४ ॥

भा०—हे (देव) प्रकाशस्वरूप (अग्ने) ज्ञानवन् ! (द्युमन्तं) प्रकाशस्वरूप (अजरम्) अविनाशी (ते) आपको (इधीमहे) प्रदीप्त करते हैं, चैतन्य करते हैं । (द्यवि) द्युलोक में (यद्) जो (स्या) वह (ते) आपकी (पनीयसी) प्रशंसनीय (समिद्) कान्ति (दीदयति) चमक रही है । (स्तोतृभ्यः) सत्य गुण वर्णन करने हारों को हे देव ! आप (इषं) अन्न और ज्ञान की प्रेरणा (आ भर) प्राप्त कराओ ।

५ २

२ २

३ १ २

[४२०] आग्निं न स्ववृक्तिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।

३ १ २ ३ १ २

३ २ ३ १ २ ३ १ २

३ १ २ ३ १ २

शीरं पावकशोचिषं विवो मदे यज्ञेषु स्तीर्णवर्हिषं विवक्षसे ॥२॥

ऋ० १० । २१ । १ ॥

भा०—हे देव ! (विवक्षसे) आप सबको धारण करने हारे सबसे महान् हो । इसलिये (स्ववृक्तिभिः) उत्तम, दोष रहित निज स्तुतियों से हम लोग (शीरं) सबके भीतर ज्ञान-रस रूप से शयन करने हारे, (पावक-शोचिषं) पवित्र करने वाली दीप्ति से युक्त, (वः) हमारे और तुम्हारे (विमदे) विशेष आनन्द लाभ करने के लिये (यज्ञेषु) यज्ञों में (स्तीर्णवर्हिषम्) वर्हिः=धान्य या कुश, आसन या इस देह को फेलाये हुए (होतारं) सबको जीवन-योग्य उत्तम पदार्थों के देने हारे या सबको अपने पास बुलाने वाले (त्वा) तुम्ह (अग्निं) ज्ञानस्वरूप ईश्वर का (होतारं न) अपने यज्ञ के होता के समान (आवृणीमहे) वरण करते हैं ।

४२०—'यज्ञाय स्तीर्ण वर्हिषं विवो मदे शीरं पावकशोचिषं विवक्षते' इति ऋ० ।

३१ २ ३१ २ ३१ २ ३२ ३१ २

[४२१] महे नां अद्य बोधयोगो राये दिवित्मती ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

यथाचिन्ना अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनुते ॥३॥

अ० ५।७९।१॥

भा०—हे (अश्वसूनुते) आत्मा की सत्यस्वरूप वाणि ! हे (सुजाते) उत्तमरूप से प्रकट होने वाली ! (वाय्ये) वरण करने योग्य ! (सत्य-श्रवसि) सत्य वेदज्ञान में (यथाचित्) जिस प्रकार पहले (नः अबोधयः) हमें ज्ञानवान्, प्रबुद्ध किया था उसी प्रकार हे उपः ! हे सब पापों के दहन करने हारी (दिवित्मती) ज्योतिः स्वरूपा तू (महे) बड़े भारी (राये) दिव्यधन, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये (अद्य) आज (बोधय) हमें, जगा, ज्ञानवान् कर ।

३२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[४२२] भद्रं ना अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ २ ३ ३ १ २ ३ १ २

अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मद रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥४॥

अ० १०।२५।१॥

भा०—हे परमेश्वर ! (विवक्षसे) आप महान् हो । आप (नः) हमारे (मनः) मन और (दक्षम्) आत्मा या बल को (उत) और (क्रतुम्) कर्म को (भद्रं) कल्याण के प्रति (अपि वातय) प्रेरित करो । (अथा) और (ते) तुम्हें (अन्धसः) अन्धकार को दूर करने और प्राण धारण करानेहारे प्रभु के (मदे) हर्षकारी (सख्ये) प्रेम में हमें (यवसे) घास के प्रेम में (रणा गावो न) आनन्द प्रसन्न गौवों के समान (विवः) स्वीकार करो, अपनाओ ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[४२३] क्रत्वा महो अनुष्वध भोम आ वावृत शवः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

श्रिय ऋष्व उपाकयोनिशिप्रां हरिवान् दधे इस्तयोवज्जमायसम् ५

अ० १।८१।४॥

४२२—'रणन् गावो' इतिपाठः, अ० । अग्वेदे (१०।२०।५) इत्यत्र 'भदा'

दि 'मनो'न्तः पाठ एव केवलम् ।

भा०—(महान्) सबसे बड़ा वह परमात्मा (भीमः) सबको भय से चलावे और कंपाने वाला (अनुष्वधम्) रवधा स्वरूप जीव या प्रकृति के प्रति (क्त्वा) अपनी क्रिया शक्ति और प्रज्ञा से (शवः) अपनी क्रिया शक्ति या बल या ज्ञान सामर्थ्य को (आ वावृते) प्रेरित करता है और (श्रिये) समस्त संसार को आश्रय देने के लिये (अन्वः) वह महान् (शिप्री) शक्तिशाली (हरिवान्) हरण करने वाला या आकर्षण करने वाला, (उपाकयोः) समीपतम (हस्तयोः) आघातकारी साधनों, हाथों में (आयसं वज्रं) लोहे के बने खड्ग को वीर के समान (आयसम्) अयः अर्थात् क्रोध और बोग के बने (वज्रं) पतन और पाप निवारक साधन को (आदधे) धारण करता है ।

ईश्वरने अपनी शक्ति प्रकृति में दी । समस्त ग्रहण्ड को उत्पन्न किया प्रत्येक परमाणु और पिण्ड में आघात प्रयत्न उत्पन्न किया और ऐसी निरन्तर की गति उत्पन्न की कि अपनी गति पर ही प्रत्येक आकाश का पिण्ड निराश्रय खड़ा है । 'हस्तयोः' यह द्विवचनान्त प्रयोग उपमावश है । वीर राजा और अध्यात्म पक्ष में स्पष्ट है ।

३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ ३
 [४२४] स घा तं वृषणं रथमधितिष्ठति गोविदम् ।
 १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ ३
 यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्रा चिकेतति योजान्विन्द्र ते हरी ॥६॥
 अ० १ । ८३ । ४ ॥

भा०—हे इन्द्र ! (यः) जो (हारियोजनं) इन्द्रियों को वश करने हारे योग साधन और (पात्रं) क्रिया साधन को (पूर्णं) उचित प्रकार से पूर्ण रूप से (चिकेतति) जानता है (स घ) वही (तं) उस (वृषणं) सुखप्रद, (गोविदं) इन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले चेतन (रथम्) रथपर (अधि तिष्ठति) स्वामी होकर सवारी करता है । हे (इन्द्र)

आत्मन् (ते हरी) तुम अपने अर्थात्=प्राण अपान दोनों को (योज तु) इस समय समाधि योग से जोड़ो ।

३ १ २ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ १ २ २ २ ३ १ २

[४२५] अग्निं तं मन्ये या वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः ।

३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३ १ २

अस्तमर्वन्त आशवोस्तं नित्यासो वाजिनं इषं स्तोतृभ्य आभर॥७

अ० ५। ६। १ ॥

भा०—(तं) उसको (अग्निः) ज्ञानवान् सब का नेता आचार्य या ईश्वर (मन्ये) मानता हूं या उसको अग्नि-तेज रूप से मनन करता हूं (यः वसुः) जो वसु अर्थात् सबके भीतर वास करने हारा, सबको वास देने हारा है । (यं) जिसमें (धेनवः) वाणियों, इन्द्रियां और रश्मियां हैं उसी प्रकार जैसे गौवें (अस्तं) घर में (यन्ति) आती हैं या (अस्तं यन्ति) आश्रय को प्राप्त होती हैं और (आशवः) व्यापन स्वभाव वाले (अर्वन्तः) प्राण या वायु आदि पञ्च भूत (अस्तं) गृहस्वरूप जिसमें आश्रय लेते हैं और (नित्यासः) नित्य, अविनाशी, (वाजिनः) ज्ञानवान् मुक्त आत्माएँ, विद्वान् लोग भी जिसको (अस्तं) अपना गृह या शरण समझ कर-आश्रय करते हैं । हे सर्वाश्रय ! (स्तोतृभ्यः) स्तोता विद्वान् लोगों को (इषं) अन्न एवं अपनी ज्ञान प्रेरणाएँ (आ भर) प्राप्त कराओ ।

२ ३ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[४२६] न तमंहो न दुरितं देवानो अष्ट मर्त्यम् ।

३ १ २ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

सजोपसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणो अतिद्विषः ॥८॥

अ० १०। १२६। १ ॥

भा०—हे (देवासः) विद्वान् पुरुषो ! (यम्) जिस (मर्त्यं) मरणधर्मी देहवान् पुरुष को (अर्यमा) वह न्यायकारी, (मित्रः) सब का प्रेमी, (वरुणः) सबको पाप से बचाने हारा जगदीश्वर (सजोपसः)

अत्यन्त प्रेम पूर्वक (द्विपः, अति) विद्वत् या वाधाकारियों^१ या अप्रीति करने
हारों से दूर कर लेता है (तं) उसको (अहः न अष्ट) पाप नहीं स्पर्श
करता, (दुरितं) और दुष्ट चरित भी उसको नहीं व्यापता ।

इति चतुर्था दशतिः । अष्टमः खण्डः ।

॥ द० ५ ॥ ऋषिः—६ त्र्यरुण व्रसदस्यू । ७ वसिष्ठः । ८ वाग्देवः । ९ वाजिनः
स्तुतिः । १, ३-५, १० ऐश्वरा पिण्ड्या अग्नयः ॥ देवता—१-६, १० पवमानः ।
७ मरुतः । ८ अग्निः । ९ वाजिनः ॥ छन्दः—१, ३, ४, ५, ७, १०
द्विपदा पंक्तिः । ८ पंदपक्तिः । ९ परोष्णिक् । २, ६ त्रिपदा अनुष्टु-
पपिपीलिकामध्या ॥ स्वरः—१, ३-८, १० पञ्चमः । २, ६
गान्धारः । ६ ऋषभः ॥

२ ३ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २
[४२७] परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूषण भगाय ॥१॥

ऋ० ६ । १०९ । १ ॥

भा०—हे (सोम) आनन्दरस को बहाने वाले, सब दुःखों के
श्रोपधिरूप, परमरस स्वरूप ऐश्वर्यवन् ! (स्वादुः) श्रोपधिरस के समान
परम आनन्ददायक आप (मित्राय) सबको स्नेह करनेहार (पूषण) सब
को पोषण करनेहार (भगाय) सबके भजन, सेवन करने योग्य (इन्द्राय)
उस ऐश्वर्य के इच्छुक जीव के लिये (परि प्र धन्व^१) चारों और उत्तमरूप
से गति कर, ब्रह्मा ।

२ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ १ २
[४२८] पर्यु पू प्र धन्व वाजनातय परि वृत्राणि सक्षणिः ।

द्विपस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ ऋ० ९ । ११० । १ ॥

४२७—१. धन्वतिगतिकर्मा, (नि०) रित्रि रवि धन्वि गत्यर्थाः । श्वा० ।

४२८—'ईशसे' इति ऋ० ।

भा०—हे परमेश्वर ! (वाजसातये) ज्ञान या धन या अन्न के लाभ के लिये (वृत्राण्य) सब आवरणकारी विघ्नों को (सृष्टिः) सहनशील होकर आप (परि प्रधन्व) चारों ओर से मार भगाओ । (ऋणयाः) ऋणों के नाश करने हारे आप (द्विपः) अभीष्ट से चतने वाले शत्रुओं के (तरध्वे) विनाश करने के लिये (नः) हमें (ईरसे) प्रार्थि करो ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २
[४२६] पवस्व सोम महान्तसमुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥ ३
ऋ० ६ । १०६ । ४ ॥

भा०—हे (सोम) सबके प्रेरक परमात्मन् ! आप (महान् समुद्रः) बड़े भारी समुद्र हैं, समस्त रसों और आनन्दों के स्रोत और भण्डार हैं, (देवानां) समस्त देवों, भूतों और इन्द्रियों के (पिता) पालक और प्रेरक हैं, अतः (विश्वा धाम) समस्त तेजों को या समस्त आत्मा के निवासस्थान रूप देहों या हृदयों के प्रति (परि पवस्व) आप द्रवित होइये । उनमें स्वयं आनन्द रस का संचार कीजिये ।

१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २
[४३०] पवस्व सोम महं दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥ ४ ॥
ऋ० ६ । १०६ । १० ॥

भा०—हे सोम ! (निक्तः) स्नान किया हुआ, निष्णात (वाजी) ज्ञानवान् विद्वान्, (अश्वः) क्रियातिष्ठ, सन्नाया हुआ पुरुष और घोड़ा जिस प्रकार (धनाय) धनोपार्जन, या संग्राम के लिये जाता है उसी प्रकार (महे) बड़े (धनाय) गतिशील या धन्य (दक्षाय) कर्मनिष्ठ साधक जीव के लिये आप (पवस्व) द्रवित हों, कृपायुक्त हों, आनन्द रूप में प्रकट हों ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
[४३१] इन्दुः पविष्टं चारुर्मदायापामुपस्थं ऋषिर्भगाय ॥ ५ ॥

ऋ० ६ । १०६ । १३ ॥

भा०—(अपाम् उपस्थे) जलों के समीप या प्रजाओं के समीप या कर्म और ज्ञानों के बीच में (मदाय चारुः) हर्ष उत्पन्न करने में श्रेष्ठ, (कविः) क्रान्तदर्शी विद्वान्. (भगाय) सौभाग्य, ऐश्वर्य या उचित कर्म फल के आनन्दभोग के निमित्त (इन्द्रुः) ऐश्वर्यशील सोम (पविष्ट) गति करता है या प्रकट होता है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[४३२] अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २

वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥६॥ अ० १ । ११० । २ ॥

भा०—हे सोम ! (महे) बड़े भारी तेरे (अर्यराज्ये) श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय पुरुषों के राष्ट्र में (त्वाम् अनु) तेरे अनुकूल (संमदामसि) रहने में खूब प्रसन्न होते हैं । हे (पवमान) सबके प्रेरक शासक ! (वाजान् अभि) शत्रुओं या इन्द्रियों, ऐश्वर्यों के प्रति तू निर्विघ्न होकर (प्र गाहसे) गति करता है, उनमें रमण करता है । राजा, आत्मा और परमात्मा के प्रति प्रजाओं, इन्द्रियों और भक्तों का वचन है ।

२ ६ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[४३३] क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वश्वाः ॥७॥

अ० ७ । ५६ । १ ॥

भा०—(ई) ये (व्यक्ताः) प्रकट हुए, (सनीडाः) एक ही देह में आश्रय किये हुए, (मर्याः) देहधारी प्राणियों के हितकारी (अथ) और (स्वश्वाः) सुख से पदार्थों का भोग करने वाले, (रुद्रस्य) इस समस्त संसार को रूताने वाले, उस देव, मुख्य प्राण के (के) कौन हैं ? इस आश्चर्य से किये प्रश्नका उत्तर अ० अ० ६ । ५६ सूक्त का अगली ऋचाओं में दिया है ।

३ २ ३ ३ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ ३ ३ १ २

[४३४] अग्नं तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रं हृदिस्पृशम् ।

३ १ २ ३ १ २

ऋषामा त आहैः ॥८॥ अ० ४ । १० । १ ॥

भा०—हे अग्ने ! (अद्य) आज हम (ओहैः) शाहान करने योग्य (स्तोमैः) स्तुतिपूर्ण सूक्तों द्वारा (अश्वं न) अश्व के समान समस्त संसार के वहन करने हारे, (ऋतुं) रचयिता शिल्पी के समान ब्रह्माण्ड के बनाने हारे, (भद्रं) कल्याणकारी, (हृदिस्पृशं) हृदय तक को छूने हारे, हृदयंगम (तं) उस प्रसिद्ध तुम्हको लक्ष्य कर (ऋध्याम) स्तुति करते हैं, साधना करते हैं ।

३ १ २ ३ ५२ १ ३ १ २ ५२ ३ १ २ ३ २ ३ २
[४३५] आविर्मथ्या आ वाजं वाजिनां अग्मन् देवस्य सवितुः सवम् ।

३ १ २
स्वर्गा ५ अर्वन्तो जयत ॥६५

भा०—(वाजिनः) ज्ञानवान् (मर्याः) मरणधर्मी प्राणी, (देवस्य) सबके दाता, (सवितुः) सबके प्रेरक परमात्मा के (वाजं सवं) ज्ञान सम्पन्न सर्ग या प्रेरणा, आदेश को (आविः अग्मन्) प्रकट रूप से प्राप्त करते हैं । हे (अर्वन्तः) ज्ञानशील पुरुषो ! (स्वर्गान्) सुख और आनन्द के प्राप्त कराने वाले उस मुक्ति सुखों को (जयत) विजय करो, उनको प्राप्त करो ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ २
[४३६] पवस्व सोम घृम्नी सुधारो महां अवीनामनु पूर्व्यः ॥१०॥
अ० ९ । १०६ । ७ ॥

भा०—हे सोम ! (पूर्व्यः) सबसे पूर्व, सबका आदि मूलकारण, (घृम्नी) कान्तिमान्, (सुधारः) समाज और संसार को उत्तम रूप से धारण करनेहारा (अवीनां) गतिशील, आत्माओं में सबसे (महान्) बड़ा परम-आत्मा तू (अनु पवस्व) सबको पवित्र कर, सन्मार्ग में प्रेरणा कर ।

इति पञ्चमी दशतिः । नवमः खण्डः ।

॥६०६॥ अग्निः—३ प्रसदस्युः । ७ सम्पातः ॥ शेषाणां ऋषयो नोपलभ्यन्ते ।
देवता—१—५, ८—२० इन्द्रः । ६ विश्वेदेवाः । ७ उषाः । पंक्ति ॥ पञ्चमः ॥

१ २

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३

[४३७] विश्वतो दावन्विश्वतां न आभर यं त्वा शविष्ठमीमहे ॥ १ ॥

भा०—हे (विश्वतो दावन्) सबका संहार करने या सबको दान करनेहारे संदत्तः ! या दातः ! (यं त्वा) जिस तुम्ह (शविष्ठं) बलवान् को (ईमहे) याचना, प्रार्थना करते हैं कि (नः) हमें (विश्वतः) सब ओर से (आभर) सुख सामग्री प्राप्त कराओ ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[४३८] एष ब्रह्मा य ऋत्विज इन्द्रा नाम श्रुता गृणे ॥ २ ॥

भा०—(यः ऋत्विजः) जो ऋतुओं में प्रकट होने हारा (इन्द्रः) ऐश्वर्यशील, सूर्यरूप कालात्मा परमेश्वर है (एषः ब्रह्मा) वही सबसे बड़ा और सबको बढ़ाने वाला (नाम श्रुतः) विख्यात है । (गृणे) मैं उसकी स्तुति करता हूँ ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[४३९] ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अहये अवर्धयन्नहयं हन्तवा उ ॥ ३ ॥

ऋ० ५ । ३१ । ४ ॥

भा०—(ब्रह्माणः) ब्रह्मज्ञानी पुरुष (अहैः) वेदस्तुतियों द्वारा (इन्द्रं) इन्द्र की (महयन्तः) पूजा करते हुए (अहये) मेघ या न नाश होने वाले अन्धकार को (हन्तवा) नाश करने के लिये (उ) ही (अवर्धयन्) उसको बढ़ाते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं । अथवा (अहयं) इस समस्त संसार को (हन्तवा) संहार करने के कारण (उ) ही (अवर्धयन्) उसकी महिमा गाते हैं ।

गत्यर्थस्य एतेरयतेरहतेर्वा व्याप्त्यर्थस्य, आङ् पूर्वाद् हन्तेर्वा, नञो हन्तेर्वा, शहिः । अथवा—'य एतत् सर्वमन्तवत् तस्माद्दहिः' इति वाजसनेय-ब्राह्मणे ।

१ २ ३ २ ३

१ २ ३ २ ३ १ २

३ १ २

[४४०] अतवस्त रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्रं पुरुहते ह्यमन्तम् ॥ ४ ॥

ऋ० ५ । ३१ । ४ ॥ पूर्वाध ॥

भा०—जिस प्रकार (अनवः) प्राणधारण करनेहारे मनुष्य (अश्वाय) समस्त देश में गमन करने के निमित्त (रथं) रमण साधन या गमन साधन या वेगवान् यान=रथ को (तच्चः) बनाते हैं । उसी प्रकार (अनवः) विद्वान् जन (अश्वाय) भोक्ता जीव के लिये (रथं तच्चः) रसस्वरूप परमेश्वर की साधना करते हैं । (त्वष्टा) सबको रचने हारा शिल्पी विश्वविधाता (पुरुहूतं) सबसे स्तुति किया गया, (द्युमन्तं) दीप्तिमान् (वज्रं) सर्व विघ्ननिवारक, तमोनिवारक सूर्य रूप वज्र को बनाता है ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ १ २ ३ २ २ ३ २

[४४१] शं पदं मघं रयीपिणं न काममन्नतो हिनोति न स्पृशद्रथिम् ५

भा०—(शं) शान्तिकारक (पदं) स्थान और ज्ञान, (मघं) धन धान्य और क्रतु योगादि का उत्कृष्ट फल पहले (रयीपिणं) सुखसामग्री या ऐश्वर्य को अन्नो के लिये परोपकार में लगा देने वाले के लिये होता है । (अन्नतः) निकम्मा, मूर्ख, तपस्या आदि न करने हारा, अकर्म और निषिद्ध कर्म करने हारा पुरुष (कामम्) यथेष्ट फल को (न हिनोति) नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि (रथिम्) वह धन धान्य को (न स्पृशत्) छूता भी नहीं अर्थात् दान भी नहीं करता ।

२ ३ २ ३ १ २ १ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[४४२] सदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा अरेपसः ॥७॥

भा०—(गावः) ज्ञानी परिव्राजक, गमनशील किरणें या गौण (शुचयः) सदा ज्ञान के प्रकाश से युक्त, कान्तिमान् सदा शुद्ध और (विश्वधायसः) समस्त संसार को ज्ञान रसपान कराने वाले, सबको पुष्ट करने हारे और सबको रस पिलाने हारे होते हैं । क्योंकि (देवाः) विद्वान्, दानी और प्रकाशमान पदार्थ (सदा) सदा (अरेपसः) निर्दोष और निष्पाप होते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३

३ १ २ २ ३

[४४३] आयाहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तन्ति यदूधभिः ॥७॥

भा०—हे उपः ! तू (वनसा) तेज के साथ (आयाहि) आ, प्रकट हो । (गावः) जिस प्रकार गौवें दूध भरे थनों से सबको पुष्ट करती हैं उसी प्रकार (गावः) तेरी रश्मियां (ऊधभिः) वहनशील शक्तियों द्वारा सबको पालन पोषण करके (वर्त्तन्ति) तेरे मार्ग को (सचन्त) प्राप्त करती हैं, तेरा अनुगमन करती हैं ।

१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[४४४] उप प्रक्षं मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥८॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (मधुमति) मधुर फल से सम्पन्न (प्रक्षं) वट आदि वृक्ष पर आश्रय लेकर जिस प्रकार पक्षिगण और राजा का आश्रय लेकर जीव प्रजागण जिस प्रकार सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं उसी प्रकार (प्रक्षं) विशाल ब्रह्माण्ड में (क्षियन्तः) निवास करते हुए हम जीव (रयिम्) अपने उत्तम कर्मफल को (पुष्येम) प्राप्त करें और उन से वृद्धि को प्राप्त हों और (ते धीमहि) हम तेरा ध्यान करें ।

ब्रह्माण्ड रूप परम प्लक्ष या चमस का वर्णन उपनिषदों में तथा वेद-मन्त्रों में वर्णित है । इसी प्लक्ष से धौ भूमि बनाई गई है । वहां कर्मफल या मोक्षरूप मधु है । देखो बृहदारण्यक आर छांदोग्य के मधुविद्याप्रकरण जिसमें पृथिवी आदि को मधु कहा है । मस्तकरूप चमस में वैसे इन्द्रिय गण का आत्मा के प्रति वचन भी स्पष्ट है ।

१ २ ३ २ ३ १ ३ ३ १२ २२ ३ २ ४ ३ १ २२

[४४५] अर्चन्त्यर्कं मरुतः स्वर्का आस्ताभिति श्रुता युवा स इन्द्रः ॥९॥

भा०—(स्वर्काः) उत्तम कान्तिसम्पन्न ज्ञानी (मरुतः) प्रजापं वा प्राणगण (अर्कं) अपने शक्तिदाता सूर्यरूप आत्मा या परमात्मा को (अर्चन्ति) स्तुति करते हैं । (सः) वह (युवा) बलवान् (इन्द्रः)

परमेश्वर (श्रुतः) विख्यात कीर्ति वाला, (आस्तोभति) उनकी रक्षा करता है, उनके शत्रुजनों का सब दिशाओं में विनाश करता है ।


२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ २

[४४६] प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते १०

भा०—(वः) आप लोग (वृत्रहन्तमाय) वृत्रों को विनाश करने में श्रेष्ठ, (विप्राय) ज्ञानवान्, (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (गाथं) ऐसी गान या स्तुति को (प्र गायत) गाओ (यं) जिसको वह (जुजोषते) चाहता है, स्वीकार करता है, जो उसके यथार्थ गुणों का वर्णन करती है ।

इति षष्ठी दशतिः । दशमः खण्डः ।

इति प्रथमोऽर्धः प्रपाठकः ।



॥ ६० ७ ॥ अग्निः—१ पृषध्रुवः काण्वः सम्पातो वा । २ वन्धुः । ३, ४ वन्धुः

सुवन्धुर्विप्रवन्धुश्च । गौपायना लौपायना वा । ५ संम्बर्त्तः । ६ भौवन आप्तयः ।

७ कवष ऐल्सः । ८ भरद्वाजः । ९ आग्नेयः । १० वसिष्ठः ॥ देवता—१, २ अग्निः ।

३, ४, ८, १० इन्द्रः । ५ उषाः । ६, ७, ९ विश्वेदेवाः ॥ छन्दः—१, २, ५,

७ द्विपदापंक्तिः । ३, ४ पञ्चदशाक्षरा गायत्री । १० एकपदा अष्टाक्षरा गायत्री ।

६, ८, ९ द्विपदा त्रिष्टुप् ॥ स्वरः—१, २, ५, ७ पञ्चमः । ३, ४, १०

पङ्क्तः । ६, ८, ९ धैवतः ।

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

[४४७] अचेत्यग्निश्चिकितिर्हव्यवाड् न सुमद्रथः ॥ १ ॥

ऋ० ८ । २६ । ५ ॥

भा०—(सुमद्रथः) शोभायुक्त, रमणीय, तृप्तिकारी रस से युक्त या यश कान्ति या गतिसाधन देह से युक्त, (चिकितिः) ज्ञानवान्, (अग्निः) परमात्मा हृदय या ब्रह्माण्ड में और आत्मा देह में (हव्यवाड् न) अन्नादि चरु खाने वाले भौतिक अग्नि के समान (अचेति) चैतन्य है, जागृत है ।

४४७—'चिकितुः' 'हव्यवाड्स०' इति ऋ० ।

[४४८] ^{२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ २ १ २ ३ १ २} अग्ने त्वं नो अन्तमः उन त्राता शिवो भुवा वरुध्यः ॥ २ ॥
^{३ ० १ २ ४ १ १ १} अ० १ । २४ । १ । पूर्वार्धः ॥ यजु० ३ । २५ । १५ । ४८ पू० ॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! परमेश्वर ! (त्वं) तू (नः) हमारा (अन्तमः) समीपतम (त्राता) रक्षक, (शिवः) कल्याणकारी, शिवस्वरूप और (वरुध्यः) सेनानायक के समान वरण करने योग्य (भुवः) हो ।

[४४९] ^{२ ३ २ ३ २ ३ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २} भगो न चित्रो अग्निर्महानां दधाति रत्नम् ॥ ३ ॥

भा०—(महानां) वड़े २ देवों के बीच में (अग्निः) महान् परमेश्वर (भगो नः) सूर्य के समान (चित्रः) चयन करने योग्य, अद्भुत या पूजा करने योग्य है । वह (रत्नम्) रमणीय शक्ति को (दधाति) धारण करता है ।

[४५०] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ ३ २} विश्वस्य प्रस्तोभ पुरो वा सन्यदि वह नूनम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (विश्वस्य प्रस्तोभ) सबके संहारक, सबके उत्कृष्ट पूजा-पात्र ! तू (पुरः वा) पूर्वकाल में भी (सन्) विद्यमान रहा (यदि वा) और (इह) इस वर्तमान काल में भी (नूनम्) तू निश्चय से विद्यमान है । अर्थात् जैसे तू पहले था वैसे अब भी है । तू त्रिकाल में सत् है ।

[४५१] ^{३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} उषा अप स्वसुष्टमः सं वर्त्तयति वर्त्तनि सुजातता ॥ ५ ॥
^{३ ० १ ० १ ० २ १ ४ १ १} अ० १० । १७२ । ४ ॥

भा०—(उषा) अन्धकार को नष्ट करने वाली उषा (स्वसुः) जिस प्रकार रात्रि के (तमः) अन्धकार को (सुजातता) अपने उत्तम प्रादुर्भाव के कारण (अप) दूर कर देती है और राहगीर को (वर्त्तनि) सन्मार्ग में (संवर्त्तयति) रखती है, उसी प्रकार विशोका प्रज्ञा का उदय भी (स्वसुः) स्वयं सरण करने वाली अविद्या के अन्धकार को दूर करती और आत्मा के परम गन्तव्य ब्रह्म मार्ग को प्रकाशित कर देती है ।

उ २४ उ १२ उ १२ उ १ २ उ २
[४५२] इमा नु कं भुवना सीपधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥ ६ ॥

ऋ० १० । १५७ । १ ॥

भा०—(इन्द्रः च) आत्मा और (विश्वे देवाः च) सब इन्द्रियरूप देव मिलकर (इमा भुवना) इन समस्त भुवनों, पदार्थों को हम (सीपधेम कम्) प्राप्त करें, वश करें ।

२ उ २ उ १ २ उ ३ उ ३ उ १ २ उ २ उ १ २
[४५३] वि स्तुतया यथापथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ ७ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (पथा) मार्ग पाकर (रातयः) बहने वाली जलधाराएं बह जाती हैं उसी प्रकार (रातयः) नाना पदार्थों की दानराशियां, हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वद्) तुझ से (वि यन्तु) विविध प्रकार से निकल कर हमें प्राप्त हों ।

उ १२ उ २२ उ १ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २
[४५४] अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ८ ॥

ऋ० ६ । १७ । १५ ॥

भा०—(अया) इस प्रकार की परमेश्वर की गुणस्तुति से (देवहितं) परमेश्वर के दिये हुए (वाजं) ज्ञान, बल और अन्न को (सनेम) हम प्राप्त करें, करावें और (सुवीराः) उत्तम पुत्रों से युक्त, वीर्यवान् सामर्थ्यवान् होकर (शतहिमाः) सौ वर्षों तक (मदेम) आनन्दित, सुप्रसन्न, सन्नुष्ट होकर रहें ।

उ २ उ १२ २२ उ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २
[४५५] ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषं कृणुषी न इन्द्र ६


भा०—(मित्रो वरुणः) मित्र और वरुण, सूर्य और मेघ मिलकर (ऊर्जा) विद्युत् रूप बल, पराक्रम से युक्त होकर (इडाः) जिस प्रकार भूमियों को जलों से (पिन्वत) सेचन करते हैं उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर समाधिकाल में आत्मा की मनो-भूमियों को धर्म-

मेघ के रस से आ सेचित करें । और हे (इन्द्र) मेघ ! आप (इपं) अन्न की फसल को (पीवर्षी) खूब अधिक मात्रा में, ज़ोरों पर कसरत से (कृष्णहि) उत्पन्न करते हो उसी प्रकार हे आत्मन् ! आप (इपं) अभिलाषायोग्य परम सुख की अधिक मात्रा को (कृष्णहि) उत्पन्न करो ।

२ २ २
[४५६] इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १० ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमात्मा ही (विश्वस्य) समस्त ब्रह्माण्ड को (राजति) प्रकाशित करता है । और उसमें स्वयं प्रकाशित होता है उस पर शासन करता है ।

इति सप्तमी दशतिः । एकादशः खण्डः ।



॥ द० ८ ॥ अग्निः—१, १० गृत्समदः । २ गौराङ्घ्रिसः । ३, ५, ९ परच्छेपः । ४ रेभः । ६ पवथामरुत् । ७ अनानतः पारुच्छेपिः । ८ नकुलः ॥ देवता—१, ३, ४, १० इन्द्रः । २ सूर्यः । ५ विश्वेदेवाः । ६ मरुतः । ७ पवमानः । ८ सविता । ९ अग्निः ॥ छन्दः—१, ३, ५, ७, ९ अत्यष्टिः । २, ४, ६ अतिजगती । ८, १० अतिशकरी ॥ स्वरः—१, ३, ५, ७, ९ गान्धारः । २, ४, ६ निषादः । ८, १० पंचमः ॥

१ २ २ १ २ २ ३ २ २ १ २ २ ३
[४५७] त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृप्तसोममपिब
१ २ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
द्विष्णुना सुतं यथावशम् । स ई ममाद् महिकर्म कर्तव्ये
३ ३ २ १ २ २ ३ १ ३ १ २ २ ३ १ १
महामुरु सैनं सश्रद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम् ॥१॥
क्र० १० । ८६ । ४ ॥

भा०—(महिषः) बड़ा पूजनीय, (तुविशुष्मः) बड़ा बलशाली, (तृप्त) सबको तृप्त करने हारा आत्मा (त्रिकद्रुकेषु) तीनों लोकों में

४६७—तृप्तसोम, 'यथावशत्' 'सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः' इति ऋ० ।

(विष्णुना) सर्वव्यापक परमेश्वर से (सुतं) प्रेरित या उत्पादित, (यवा-शिरं) यव आदि अन्नों से मिले हुए (सोमं) घोषधिरसों के समान ज्ञान और आनन्द को (यथावशं) अपनी शक्ति के अनुसार (अपिबद्) पान करता है । (स ईं) वही इस प्रकार (मदि कर्म) बड़े २ काम (कर्त्तव्ये) करने के लिये भी (ममाद) सदा प्रसन्नाचित्त रहता है । वह (महाम् उरुसैनं) बड़े भारी, नाना दिशा में, नाना प्रकार की शक्तिरूप सेनाओं के स्वामी, विश्वक्सेन (देवं) परमात्म देव को (देवः) प्रकाशमान, ज्ञानवान् होकर (सश्चत्) प्राप्त होता है । वह (सत्यः इन्दुः) सच्चा, सब का आह्लाद करने हारा, या ऐश्वर्य और विभूतिमान् होकर (सत्यम्) सत्यस्वरूप (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् परमेश्वर को भी प्राप्त होता है ।

ताण्डयमहाब्राह्मणे—“स एतान् स्तोमान् अपश्यत् ज्योतिर्गौरायुरिति । इमे वै लोकाः स्तोमाः । अयमेव ज्योतिरयम्मध्यमो गौरसावुत्तम आयुः । ऋग्भाष्ये दयानन्दस्तु 'त्रिकद्रुकेषु लोकेषु' ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [४५८] अयं सहस्रमानवो दृशः कवीनां मनिज्योतिर्विधर्म ।
 ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 ब्रध्नः समीचीरुपसः समैरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे
 ३ १ २ ३ २
 मन्थुमन्ताश्चिता गोः ॥ २ ॥

भा०—(अयं) यह (सहस्रमानवः) सहस्रों मननशील विद्वानों से उपासित, (दृशः) दर्शनीय, (कवीनां) क्रान्तिदर्शी, मेधावी लोगों से (मतिः) एकमात्र मनन करने योग्य, (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप, (विधर्म) नाना प्रकार की प्रजाओं को धारण करने हारा, (ब्रध्नः) सबको प्राणसूत्र में बांधने हारा, महान्, सूर्य के समान परमात्मा (स्वसरे) स्वयं सरण करने हारे, दिन=जीवनकाल में या इस संसार में (समीचीः) उत्तम प्रकार से हृदय में प्रवेश करने हारा, (अरेपसः) तम और पाप के लेप से रहित,

रजो भाव से शुद्ध, (सचेतसः) ज्ञानयुक्त, (उपसः) विशुद्ध ज्योतिर्मय दशाश्रों, उपाश्रों, प्रज्ञाश्रों को (सम् ऐयरत्) उत्तम रीति से प्रेरित करता है । जो (गोः) सूर्य के (मन्थुमन्तः) अत्यन्त ज्ञान प्रकाशवान् नाना (चिताः) एकत्र हुए किरणों के समान होता है ।

[४५६] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३} एन्द्र याहुप नः परावतो नायमच्छ्रा विदथानीव सत्पतिरस्ता।
^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३} राजत्र सत्पतिः । हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वापुत्रासो
^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} न पितरं वाजसातये मंहिष्टं वाजसातये ॥३॥ ऋ० ३।१३।१॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! जिस प्रकार (अयम्) यह (सत्पतिः) सज्जनों का या सत्य का प्रतिपालक यजमान (विदथानि) यज्ञों में (राजा इव) राजा के समान (सत्पतिः) सज्जनों का पालक होकर (अस्ता राजा इव) शत्रुओं पर वाण आदि फेंकने वाला, वीर धनुर्धारी राजा जिस प्रकार शत्रु आदि के संकटों को दूर करने के लिये प्राप्त होता है उसी प्रकार तू (नः) हमारे पास (परावतः) दूर देशों से भी (उप आयाहि न) आ ही तो जा । (पुत्रासः पितरं न) जिस प्रकार पुत्र लोग पिता की (वाजसातये) दायभाग की प्राप्ति के लिये स्तुति करते हैं उसी प्रकार हम भी (प्रयस्वन्तः) अन्नदि हवि को आपके अर्पण करने के लिये अपने हाथों में लिये हुए (वाजसातये) अन्न और ज्ञान के लाभ के लिये (सुतेषु) इन यज्ञ स्थानों में (मंहिष्टं) सबसे बड़े दानशील (त्वा) तुम्हको (आ हवामहे) आह्वान करते हैं, आदर से याद करते हैं ।

[४६०] ^{१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} तामिन्द्रं जाह्वीमि मघवानमग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कृतं
^{१ २ ३ १ २ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३} श्रवांसि भूरि । मंहिष्टा गीर्भिरा च यज्ञिया ववर्त राय नो
^{१ २ ३ १ २ ३ २} विश्वा सुपथा कृणोतु वजी ॥४॥ ऋ० ८ । १७ । १३ ॥

भा०—(तं) उस (मघवानं) धन धान्य, सम्पत्ति, विभूतियों से सम्पन्न, (उग्रं) वेगवान्, (सत्रा) सत् पुरुषों के ज्ञाना, (भूरि श्रवांसि) नाना प्रकार की बल, शक्तियों, ज्ञानों, वेद ऋचाओं को (दधानम्) धारण करते हुए (अप्रतिष्कुतम्) किसी से भी न पराजित, (इन्द्रं) वीर राजा के समान परमेश्वर को (जोहवीमि) स्मरण करता हूं। वह (मंहिष्ठः) सबसे महान् दानशालि (गीर्भिः) वेदमन्त्रों द्वारा (यज्ञिया) यज्ञ के कार्यों में (आ ववर्त्त) पुनः २ स्मरण किया जाता है, आवृत्ति किया जाता है। वह (वज्री) सब विघ्नों का नाशक (नः) हमारे लिये (राधे) धन प्राप्त करने के लिये (विश्वा) सब (सुपथा) उत्तम २ मार्ग, द्वार, साधन (कृणोतु) करे, खोल दे।

२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
 [४६१] अस्तु श्रौषट् पुरो अग्निं धिया दधे आ नु त्यच्छर्द्धो दिव्यं
 ३ ३ १ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 वृणीमहे इन्द्रवाय वृणीमहे । यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा
 ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २
 सन्दाय नव्यसे । अध प्र नूनमुपयन्ति धीतयो देवाँ
 ३ २ ३ १ २
 अच्छ न धीतयः ॥५॥ अ० १। १३६। १ ॥

भा०—(धिया) आधानकर्म या ध्यानबल से (पुरः) साक्षात् (अग्निं) प्रकाशस्वरूप देव अग्नि को (दधे) धारण करता हूं, (त्यत् शर्द्धाः) उसके बल में (दिव्य) प्रदीप्त ज्योति को (अनु वृणीमहे) निरन्तर प्रत्यक्ष वरण करते या प्राप्त करते हैं और (इन्द्रवायू) आत्मा और प्राण दोनों को (वृणीमहे) साक्षात् करते हैं। (यत्) जो दोनों (ह) निश्चय से (नव्यसे) सदा नवीन (विवस्वते) सूर्य या सूर्य के समान आत्मा के (नाभौ) आकर्षण शक्ति में (सन्दाय) अच्छी प्रकार अल्प २ प्राणों को अर्पण करके, जोड़कर (क्राणा) समस्त देहों को रचते हैं। (अध)

श्रौर हम् (धीतय) ध्यान योग से उपासना करने हारे या अध्ययन द्वारा ज्ञान सम्पादन करने हारे (धीतय इव) रश्मियों के समान या विद्वानों या आगे जाने हारी श्रंगुलियों या शिष्यों के समान (देवान्) देवों-विद्वानों के (नूनं प्र उपयन्ति) अत्यन्त समीप पहुंचते हैं ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
 [४६२] प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवया-
 २ १२ २२ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ६
 मरुत् । प्र शर्द्धाय प्र यज्यव सुखादये तवसे भन्ददिष्टये
 १ २ ३ १ २

धुनिव्रताय शवसे ॥६॥ अ० ५ । ८७ । १ ॥

भा०—जिस प्रकार (मरुत्वते) पवनों वाले मेघ के लिये (गिरिजाः) विजुलियां चलती हैं । उसी प्रकार (वः मतयः) आपकी बुद्धियां या स्तुतियां (गिरिजाः) वदे-मस्तक वाले विद्वान् प्रवक्राओं से उत्पन्न हुई हुई (महे) वदे (मरुत्वते) वायुओं और प्राणों के चलों से युक्त, या प्रजाओं से युक्त, (विष्णवे) व्यापक जगदीश्वर को (यन्तु) पहुंचे । (एवयामरुत्) और प्राणों को चलानेवाला मुख्य प्राणस्वरूप आत्मा भी उसी (शर्द्धाय) बलवान्, (यज्यवे) जीवनयज्ञ के सम्पादक, (सुखादये) उत्तम आयुधों से भूषित (तवसे) वीर्यवान् (भन्दद्-इष्टये) कल्याणकारी यज्ञ के पात्र (धुनि-व्रताय) सब को कम्पन करने वाले, कर्म करनेहारे (शवसे) बल-स्वरूप उस ईश्वर के (प्र-यातु) खोज में प्रवृत्त होजायें ।

३ २ ३ १२ २२ ३ २४ ३ ३ २ ३ १
 [४६३] अया रुचा हरिरया पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति सयु-
 २ ३ २ ३ २ ३ १ २ १ २ ३ १ २ ३ १
 ग्वभिः सूरौ न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य रोचने पुनानो
 २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३
 अरुषो हरिः । विश्वा यद्रूपा परियास्यृकभिः सतास्येभि-

र्जाकभिः ॥ ७ ॥

अ० ९ । ११ । १ । १ ॥

भा०—(सयुग्वभिः) साथ योग देनेहारे सहायकों द्वारा (सूरः न) जिस प्रकार प्रेरक नेता (विश्वा द्वेषांसि तरति) सब शत्रुओं को तर-जाता है उसी प्रकार (सयुग्वभिः) अपने सहायक इन्द्रियगणों, अश्वों, योग-साधनों द्वारा (सूरः) सबका प्रेरक, विद्वान्, सूर्य के समान तेजस्वी (हरिः) गतिशील आत्मा (अया) इस (हरियया) अज्ञान हरने वाली (रुचा) ज्योति से (पुनानः) मल आदि का परिशोधन करता हुआ (विश्वा द्वेषांसि) सब प्रकार के विरोधियों को (तरति) पार कर जाता है । उस (पृष्ठस्य) सबके धारण करने हारे सोम की (धारा) धारण पोषण करनेहारी शक्ति (रोचते) सर्वत्र प्रकाशित होती है । वह (हरिः) सर्व-व्यापक, सर्वदुःखहारक, (अरूपः) सर्व प्रकार से प्रकाशमान, (पुनानः) सबको प्रेरित करता हुआ, (यद्) जो वह (विश्वा रूपा) सब पदार्थों या आकाशस्थ पिण्डों को (ऋक्भिः) प्रकाश ज्ञानयुक्त (सप्तास्येभिः) शिरोगत सप्त प्राणों, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा या विशाल ब्रह्माण्ड में सब नक्षत्रों को चलाने हारे सात महावायुओं द्वारा (परि यासि) घेरे बैठा है, व्यापक है ।

उ २४ उ २ ३ १ २ ३ ४ २ २ ३ १ २ ३ १ २
 [४६४] अ०भि त्यं देवं सवितारमोरयोः कविक्रतुमर्चाभि सत्यसवं
 उ २ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ४ ३ २ ३ १ २ २ ३
 रत्नधामभिप्रियं मतिम् । ऊर्ध्वा यस्यार्मात्तभा अदिद्युत-
 १ २ ३ १ २ ३ ३ २ ३ १ २
 त्सवीमनि हिरण्यपाणिरिमर्मात् सुक्रतुः कृपाम्बः ॥ ८ ॥

यजु० ४ । २५ ॥ अथर्व० ७ । १४ । १, २ ॥

भा०—(ओरयोः सवितारं) द्यौ और पृथिवी के उत्पादक, (कवि-क्रतुं) क्रान्तदर्शी, एवं ज्ञानसम्पन्न मेधावी, (सत्यसवं) सत्य को प्रकट करने हारे, (रत्नधाम्) रमणीय विभूतियों को धारण करने वाले, (अ-

४६४—प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वा अनुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिहि इत्यधिकः पाठः,

यजु० 'कृपात् स्वः' इति अथर्व० ।

भिप्रियं) सबके प्रिय, (मतिं) मनन-योग्य (त्वं देवं) उस देव की (आभि-अर्चामि) साक्षात् स्तुति करता हूँ । (यस्य) जिसकी (ऊर्ध्वा) ऊर्ध्व=ऊपर को जाने वाली या सबसे ऊपर विद्यमान (भाः) सूर्यरूप तेजःकान्ति, (अमतिः) अचिन्त्य, अद्वितीय, (सवीमनि) जगत् के उत्पत्ति कार्य में (अदियुतत्) सर्वत्र प्रकाशित होती है । वह (हिरण्यपाणिः) क्रियारूप या गतिरूप हाथों वाला, अथवा तेजोमय किरणों वाला, (सुकृतुः) उत्तम कारीगर (कृपा) अपने सामर्थ्य से (स्वः) सब प्रकाशमान सूर्य आदि द्यौलोक और परमसुख को (निः-अमिमीत) बनाता और देता है ।

३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३
 [४६५] अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनुं सहसो जातवेदसं
 २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 विप्रं न जातवेदसम् । य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या
 ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 कृपा घृतस्य विभ्राष्टिमनुशुक्रशोचिप आजुह्वानस्य
 ३ १ २
 सर्पिपः ॥ ६ ॥ ऋ० १ । १२७ । १ ॥

भा०—मैं (दास्वन्तं) दान करने हारे, सबके दाता, (वसोः) उस चास करने वाले (सहसः) बलरूप जीवात्मा के (सूनुं) प्रेरक, (जातः वेदसं) समस्त भूतिमान् धनादि पदार्थों के उत्पन्न करने हारे, (विप्रं न) विप्र, मेधावी पुरुष के समान (जातवेदसं) समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों के जानने हारे, (अग्निं) परमेश्वर को (होतारं) इस महा ब्रह्माण्डरूप यज्ञ का कर्ता (मन्ये) स्वीकार करता हूँ (यः) जो (ऊर्ध्वया) ऊपर आकाश में स्थित ज्वाला द्वारा (स्वध्वरः) उत्तम अहिंसित, अविनाशी, हिंसारहित यज्ञ का करनेहारा (देवाच्या) देवों तक पहुँचने हारे (कृपा) सामर्थ्य से (शुक्रशोचिपः) अत्यन्त दीप्त कान्ति वाले, (सर्पिपः) सर्व-व्यापी, प्रसरणशील (घृतस्य) कान्तियुक्त सूर्य या अग्नि में आहुति किये

अथ पावमानकारणम् ।

अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

॥ ६० ६ ॥ ऋषिः—१, ४ अमहीयुः । २ मधुच्छन्दाः । ३ भृगुवार्णिः जमद-
निर्वा । ५ त्रितः आत्थः । ६ कश्यपः । ७ जमदग्निः । ८ छन्द्युत जागस्त्यः ।

६, १० काश्यपोऽसितः । पवमानो देवता ॥ गायत्री ॥ पङ्क्तः ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[४६७] उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्याददे ।

३ २ ३ ३ १ २

उग्रं शर्म महि श्रवः ॥ १ ॥ ऋ० ९ । ६१ । १० ॥

भा०—हे परमेश्वर ! (ते) तेरे (अन्धसः) प्राणधारण सामर्थ्य
से (जातं) उत्पन्न हुए (दिविसद्) दैवलोक, सूर्य में विद्यमान (उग्रं)
उग्र, उत्कृष्ट, (शर्म) सुख, शरण और (महिः श्रवः) महान् ज्ञान या
बल, अन्न को (भूमि) भूमि पर के पुरुष भी (आददे) प्राप्त करते हैं ।
अर्थात् सूर्य में विद्यमान जीवन, सुख और ज्ञान दीप्ति आदि को हम भूमि
पर भी प्राप्त करते हैं ।

२ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[४६८] स्वादिष्टया मदिष्टया पवस्व सोम धारया ।

१ २ ३ १ २ ३ २

इन्द्राय पातवे सुनः ॥ २ ॥ ऋ० ९ । १ । १ ॥

भा०—हे (सोम) सबके प्रेरक ईश्वर ! आप (स्वादिष्टया) अत्यन्त
रस-दायक (मदिष्टया) अत्यन्त हर्ष या आनन्दकारक (धारया) अपनी
धारण शक्ति से (पवस्व) सब में व्यापक हो । (इन्द्राय) इस आत्मा के

४६७—'दिविपद्' इति ऋ० ।

४६८—१. पवतिर्गतिकर्मा (ति० २ । १४)

(पातवे) पान करने के लिये यह सोम, ज्ञानानन्द रस (सुतः) उत्पन्न किया जाता है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[४६६] वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः ।

३ १ २ ३ १ २
विश्वा दधान ओजसा ॥ ३ ॥ अ० ६ । ६५ । १० ॥

भा०—हे परमेश्वर ! तू (वृषा) धर्मस्वरूप, सुखों का वर्षक, सबसे श्रेष्ठ, (मत्सरः) सबको नृस करनेहारा और आनन्दस्वरूप होकर सबके हृदयों में व्यापक, (मरुत्वते) प्राणों और समस्त वायुओं और प्रजाओं के स्वामी आत्मा, सूर्य, ईश्वर और राजा के लिये (धारया) अपनी धारक पोषक शक्ति द्वारा (विश्वा) समस्त प्राणियों, लोकों और प्रजाओं को अपने (ओजसा) बल से (दधानः) धारण करता हुआ (पवस्व) प्रकाशित हो ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[४७०] यस्तं मदो वरेण्यस्तेनापवस्वान्धसा ।

३ १ २ ३ २
देवावीरघशंसहा ॥ ४ ॥ अ० ९ । ६१ । १९ ॥

भा०—हे (सोम) परमेश्वर ! (यः) जो (ते) तेरा (मदः) आनन्द या हर्ष प्रकाश, (देवावीः) देवों, विद्वानों या इन्द्रियगण में प्रकट होता है और जो (अघ-शंसहा) पाप की शिक्षा देने वाले दुष्ट पुरुष या अचेतनता और अज्ञान का नाशक ज्ञान और काम क्रोधादि दुष्ट भावों का भी नाश करता है (तेन) उस (अन्धसा) प्राणशक्ति से (आपवस्व) प्रकट हो ।

३ २ ४ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[४७१] तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः ।

१ २ ३ १ २
हरिरति कनिक्रदत् ॥ ५ ॥ अ० ९ । ३३ । ४ ॥

भा०—जिस प्रकार (धेनवः) दुधार (गावः) गौएँ (मिमन्ति) अपना दूध देने के लिये हंभारती हैं उसी प्रकार (तिस्रः वाचः) तीनों

वेदसंहितायें अपना २ विज्ञान, ज्ञान और कर्म का रस पान कराने के लिये (उद्-ईरते) अपना २ अभिप्राय प्रकट करती हैं और (हरिः) सर्व-व्यापक जगदीश्वर, एवं विद्वान् (कनिक्कदत्) अपनी ध्वनि या उपदेश मेघ के समान करता हुआ, ज्ञान और सुखों के वर्षक रूप से (एति) हमें प्रतीत होता है ।

१ २ ३ ५:२ ३ १ २ ३ १ २

[४७२] इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २

अर्कस्य योनिमासदम् ॥ ६ ॥ ऋ० ९ । ६४ । २२ ॥

भा०—हे इन्दो ! ऐश्वर्यशील ! (मरुत्वते) मरुत् प्राणों, वायुओं और समस्त तीव्र, वेगवान् बलशाली पदार्थों के स्वामी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (मधुमत्तमः) मधु के उत्तम रूप से धारण करने हारा तू (अर्कस्य) ज्ञान के सूर्य, प्रकाश या जीवन रूप यज्ञ के (योनिं) उत्पत्ति-स्थान पर (आसदम्) विराजमान होने के लिये (पवस्व) प्रकट हो ।

१ २ ३ ५२ २२ ३ ५२ २२ ३ २

[४७३] असाव्यंशुर्मदायाप्सु दत्ता गिरिष्ठाः ।

३ २ ३ ३ १ २

श्येनो न योनिमासदत् ॥ ७ ॥ ऋ० ६ । ६२ । ४ ॥

भा०—(गिरिष्ठाः) पर्वतों या मेघों में स्थित और विद्वानों की वाणियों में स्थित, या विद्वानों में रहने वाला, (अंशुः) सर्वव्यापक (अप्सु) कर्मों और ज्ञानों को उत्पन्न करने में (दत्तः) बलशाली, सोम, आनन्दरस (असावि) प्रकट होता है । वह (योनिम्) अपने प्रादुर्भाव होने के स्थान में (श्येनः न) श्येनस्वरूप आत्मा के समान ही (आसदत्) विराजमान होता है । आत्मा के समान परमात्मा भी हृदय में विराजमान है ।

^{२ ३ १२ ३ १२ ३ १ २}
[४७४] पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २}
मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥८॥ ऋ० ९ । २५ । १ ॥

भा०—हे (हरे) हरितवर्ण ! अथवा पापहरणशील, गतिशील, सर्वव्यापक ! (दक्षसाधनः) समस्त कार्यों को करने हारा (मदः) आनन्द रूप तू (मरुद्भ्यः) प्राणस्वरूप या प्रजारूप (देवेभ्यः) दानशील पुरुषों या इन्द्रियों को और (वायवे) सर्वव्यापक आत्मा के (पीतये) उपभोग के लिये (पवस्व) प्रकट हो ।

^{१ २ ३ १२ २ ३ २ ३ २ ३ १ २}
[४७५] परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत् ।

^{१ २ ३ २}
मदेषु सर्वथा असि ॥९॥ ऋ० ९ । २८ । १ ॥

भा०—(सोमः) सोम, वह आनन्दमय (स्वानः) सबको प्रेरित करता हुआ, या स्वयं प्रकाशित होता हुआ (गिरिष्ठाः) वाणी और हृदय में विद्यमान भी (पवित्रे) पवन साधन, शोधक या स्वतः पवित्र हृदय में (अक्षरत्) चरित होता है द्रवित होता है, प्रकट होता है । हे (सोम) हे सर्वप्रेरक ! आनन्दमय ! तू (मदेषु) सब आनन्दों में (सर्वथा) सब रूपों से उनको धारण करता हुआ, तन्मय होकर (असि) विद्यमान है ।

^{१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २}
[४७६] परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्याहितः ।

^{३ १ २ ३ १ २}
स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥१०॥ ऋ० ६ । ६ । १ ॥

भा०—(कविः) क्रान्तदर्शी, मेधावी, सोम, आत्मा (नप्त्योः) अधिसंबन्ध करने के फलकों, या द्यौ और पृथिवी के समान प्राण और अपान दोनों के


४७४—१. हरे पापहर्त्तः, इति सायणः ।

४७५—सुवानः, 'अक्षरा' इति ऋ० ।

४७६—सुवाना, इति ऋ० ।

बीच (हितः) विद्यमान (दिवः) सूर्य या ज्योति के (प्रिया) प्रिय (वयांसि) आत्माओं जीवों तक वह (कविक्रतुः) ज्ञानानुसार कार्य करने हारा (स्वानः) ब्रह्मज्ञान को प्रकट करने हारे विद्वानों द्वारा (परि वाति) सर्वत्र प्रचलित हो जाता है, सर्वत्र चर्चा किया जाता है ।

इति नवमी दशतिः । प्रथमः खण्डः ।



॥द० १०॥ ऋषिः—१ कविर्मेधावी । २ श्यावाश्वः । ३ त्रितः । ४, ८ अमहीयुः ।

५ भृगुः । ६ काश्यपः । ७ निभुविः काश्यपः । ९, १० काश्यपोऽसितः ॥

पवमानो देवता ॥ गायत्री ॥ पङ्क्तः ॥

१२ २२ ३ २३ १२ ३ १२

[४७७] प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम् ।

३ २ ३ १ २

सुता विदथे अक्रमुः ॥ १ ॥

ऋ० ९ । ३२ । १ ॥

भा०—(मदच्युतः) आनन्द को वहाने वाले (सोमासः) सौम्य स्वभाव वाले विद्वान् या आनन्दरस (विदथे) यज्ञ या ज्ञान के श्रवसर पर (सुताः) नियुक्त या अभिषिक्त, द्रवित होकर (मघोनां) हवि या धनादिसम्पन्न (नः) हमारे (श्रवसे) ज्ञान, कीर्त्ति, अन्न प्राप्त करने के लिये (प्र अक्रमुः) उत्तम रूप से प्रवृत्त होते हैं ।

१२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[४७८] प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्भयः ।

१ २ ३ १ २

वनानि महिषा इव ॥ २ ॥

ऋ० ९ । ३३ । १ ॥

भा०—(ऊर्भयः) जिस प्रकार समुद्र की तरंगें पुरुषों को समुद्र से नाना देशों के भीतर पहुंचा देती हैं या जैसे (महिषाः) बड़े २ लाटू पशु

४७७—'मघोनः' इति ऋ० ।

४७८—'नयन्ति' इति ऋ० ।

भैसे आदि पीठ पर उठाकर, उनके वाहन बन कर दूर देशों तक पहुंचा देते हैं उसी प्रकार (विपश्चितः) विद्वान्, ज्ञानवान्, कर्मवान् (सोमासः) सौम्य स्वभाव वाले जन (अपः) प्रजाओं को (वनानि) उत्तम सेवन करने योग्य पदार्थों के प्रति (नयन्त) प्राप्त कराते हैं ।

[४७६] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ ३ १ २} पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने ।

^{३ २ ३ १ १} विश्वा अप द्विपो जहि ॥ ३ ॥ ऋ० ६ । ६१ । २८ ॥

भा०—हे इन्दो ! हे विद्वन् ! आत्मन् ! (सुतः) तू तैयार होकर (जने) राष्ट्र में (पवस्व) प्रकट हो । और (नः) हमें (यशसः) कीर्तिसम्पन्न (कृधि) बना, (विश्वा द्विपः) समस्त द्वेष करने वालों को (अप जहि) नाश कर ।

[४८०] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे ।

^{१ २ ३ ३ १ २} पवमान् स्वर्दशम् ॥ ४ ॥ ऋ० ६ । ६५ । ४ ॥

भा०—हे विद्वन् ! आत्मन् ! हे (पवमान) सबको पवित्र करने-हारे ! (वृषा हि असि) तू सब सुखों के वर्पण करनेहारा है । (भानुना) सूर्य, या कान्ति से (द्युमन्तं) दीप्तिमान् (स्वर्दशम्) सुख या सब के द्रष्टा (त्वा) तेरी हम (हवामहे) स्तुति करते हैं ।

[४८१] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २} इन्द्रः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः ।

^{३ १ २ २ ३ १ २} सृजदश्वं रथीरिव ॥ ५ ॥ ऋ० ६ । ६४ । १० ॥

भा०—(चेतनः) चेतनास्वरूप (कवीनां) क्रान्तदर्शी तत्वज्ञों का (प्रियः) अत्यन्त आदर और प्रेम का पात्र (मतिः) मननशील (रथीः इव) सारथी के समान (अश्वम्) अश्व=इन्द्रियगण को (सृजत्) प्रेरणा करता हुआ (पवते) व्यवहार में प्रवृत्त होता है ।

[४८२] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २} असृक्त प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया ।

^{३ १ २ ३ १ २ २} शुक्रासो वीरयाशवः ॥ ६ ॥ ऋ० ६ । ६४ । ४ ॥

भा०—(वाजिनः) बलवान् (आशवः) शत्रिकारी आलस्यरहित (शुक्रासः) कान्तिमान् (सोमासः) योगिजन, (गव्या) गौ या वाणी की कामना से (अश्वया) अश्व अर्थात् इन्द्रियों को वश करने की इच्छा से और (वीरया) वीर्य, सामर्थ्य लाभ करने की इच्छा से (प्र असृक्त) प्रयत्न करते हैं ।

[४८३] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २} पवस्व देव आयुपगिन्द्र गच्छतु ते मदः ।

^{३ १ २ २ २ ३ १ २} वायुमारोह धर्मणा ॥ ७ ॥ ऋ० ९ । ६३ । २२ ॥

भा०—हे (देव) द्योतमान रसस्वरूप आत्मन् ! (पवस्व) तू प्रकट हो और (आयुपक्) साथ ही (ते मदः) तेरा आनन्दप्रवाह (इन्द्रं गच्छतु) आत्मा के पास जावे । और तू (धर्मणा) अपने धारक प्रयत्न से (वायुं) प्राणवायु को (आरोह) वश कर, उस पर आरोह हो ।

[४८४] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ २} पवमानो अजीजनो ह्यश्चित्रं न तन्यतुम् ।

^{१ २ ३ २ ३ २} ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत् ॥ ८ ॥ ऋ० ६ । ६१ । १६ ॥

भा०—(पवमानः) अन्तःकरण और बुद्धितत्व को विमल करने वाला साधक योगी सूर्य के समान (दिवः) छुलोक, मूर्धा के (चित्रं) विचित्र आदर योग्य (वैश्वानरं) सब नरों में व्यापक, (बृहत्) विशाल (ज्योतिः) प्रकाश को (तन्यतुं न) बिजली के समान (अजीजनत्) प्रकट करता है ।

[४८५] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} परि स्वानास इन्दवो मदाय वर्धणा गिरा ।

^{१ २ ३ १ २} मथो अर्षन्ति धारया ॥ ९ ॥ ऋ० ६ । १० । ४ ॥

भा०—(स्वात्तासः) सवन किये, सुसम्पादित, (इन्दवः) ऐश्वर्ययुक्त विद्वान्जन (मदाय) अति आनन्द के लिये (षईया) बहुत बड़ी (गिरा) वेदवाणी से (मधोः) मधु, सारभूत आनन्दरस की (धारया) धारा या धारणा शक्ति से (परि अर्पन्ति) सर्वत्र प्रकाशित होते, या व्यापते हैं ।


[४८६] परिप्रानिष्यदत्कविः सिन्धोरुमाचधिश्चितः ।

कारं विभ्रत्पुरुस्पृहम् ॥ १० ॥ अ० ६ । १४ । १ ॥

भा०—(कविः) तत्त्वदर्शी, विद्वान् (सिन्धोः) आनन्दमय समुद्र के (ऊर्मौ) तरङ्ग में (अधिश्चितः) बहता हुआ (पुरुस्पृहं) प्रजा के प्रेमपात्र (कारं) आत्मारूप शिल्पी को (विभ्रत्) धारण करते हुए जहाज़ के समान (परि प्र असिष्यदत्) सब ओर वेग से गमन करता है ।

इति दशमी दशतिः । द्वितीयः खण्डः ।

इति द्वितीयोऽर्धः । पञ्चमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥



अथ षष्ठः प्रपाठकः (प्रथमोऽर्धः) ।

॥ द० १ ॥ ऋषिः—१, ८, ६ अमहीयुः । २ बृहन्मतिराङ्गिरसः । ३ काश्यपोऽसितः । ४ प्रभूवसुः । ५ मेध्यातिथिः । ६, ७ निधुविः काश्यपः । १०

उच्यथः ॥ पवमानो देवता ॥ गायत्री ॥ षष्ठः ॥

[४८७] उपोपु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम् ।

इन्दुं देवा अयासिपुः ॥ १ ॥ अ० ६ । ६१ । १३ ॥

भा०—(देवाः) विद्वान् लोग या इन्द्रियगण (सुजातं) उत्तम गुणों से सम्पन्न उत्तम रूप से उत्पन्न, (अप्तुरं) प्रजाओं या इन्द्रियों या कर्मों, ज्ञानों में व्यापक, गतिमान्, (गोभिः) गौओं, उनके दुग्धों, वाणियों, रश्मियों से (परिष्कृतम्) सुशोभित, सुमिश्रित, (भङ्गं) सब दुःखों और

शत्रुओं के तोड़ने हारे (इन्दुं) इस आत्मरूप सोम या परमेश्वर के आनन्दरस को (उप अयासिपुः) प्राप्त करते हैं । ईश्वर, आत्मा, राजा और सोमरस चारों पक्षों में स्पष्ट है ।

[४८८] पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः ।

शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ २ ॥ ऋ० ६ । ४० । १ ॥

भा०—(विचर्षणिः) विविध प्रजाओं का द्रष्टा (सोमः) आत्मा (विश्वाः) समस्त (मृधः) संग्रामों को (पुनानः) पवित्र करता हुआ, सबके कलह मिटाता हुआ (अभि अक्रमीत्) प्रत्यक्षरूप से सबको व्यवस्थापक रूप में पार कर जाता है वह सबसे ऊंचा होकर विराजता है । उस (विप्रं) मेधा बुद्धि से सम्पन्न ज्ञानी को विद्वान्जन (धीतिभिः) अपनी मतियों और स्तुतियों से (शुम्भन्ति) अलंकृत करते हैं ।

[४८९] आविशन्कलशं सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रियः ।

इन्दुरिन्द्राय धीयते ॥ ३ ॥ ऋ० ६ । ६२ । १६ ॥

भा०—(सुतः) अभिषिक्त राजा जिस प्रकार राष्ट्र में प्रवेश करता है उसी प्रकार विद्वान् ज्ञानी साधक योगी का आत्मा (कलशं) सोलह कलाओं से बने इस औंधे मस्तक या ब्रह्माण्ड में (आविशन्) व्याप्त होता हुआ (विश्वाः) समस्त (श्रियः) उत्तम आश्रयस्थानों, सम्पदाओं, ज्ञाननादियों एवं सब लोकभूमियों में (अभि अर्षत्) व्याप्त होता है । (इन्दुः) वही इन्दु परमैश्वर्यसम्पन्न सिद्धयोगी, (इन्द्राय) उस महान् ऐश्वर्यवान् आत्मा को प्राप्त करने के लिये (धीयते) प्रस्तुत होजाता है, उसका ध्यान करता है ।

[४९०] असर्जि रथ्यो यथा पवित्र चम्बोः सुतः ।

कार्पन्वाजी न्यक्रमीत् ॥ ४ ॥ ऋ० ६ । ३६ । १ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (रथ्यः) रथयोग्य (वाजी) वेगवान्
 अश्व (कार्पमन्) आकर्षण करनेहारा (सुतः) प्रेरित होकर (चम्बोः) दोनों
 सेनाओं के बीच (पवित्रे) पैतरे पर (नि-अक्रमीत्) वेग से दौड़ता है ।
 उसी प्रकार यह आत्मा (सुतः) ऐश्वर्य से युक्त होकर (चम्बोः) निष्पादन
 फलकों, द्यौ और पृथिवी, प्राण और अपान के बीच (पवित्रे) पवित्र करने
 हारे प्राण वायु में (कार्पमन्) सब इन्द्रियों को कर्षण करता हुआ (रथ्यः)
 इस देह के योग्य (वाजी) वेगवान् अति बलवान् (असर्जि) होकर
 (नि-अक्रमीत्) नाना स्थानों में गमन करता है । सोम और रथ के
 घोड़े के दृष्टान्त से मुख्य प्राण और ब्रह्माण्ड के विधारक सूत्रात्मा वायु
 का वर्णन है ।

२४ ३१ २१३ २ ३२ ३ १ २

[४६१] प्र यद्वावो न भूर्ययस्त्वेपा अयासो अक्रमुः ।

१ २ ३ २४ ३ २ २

घ्नन्तः कृष्णामपत्वचम् ॥ ५ ॥ ऋ० ९ । ४२ । १ ॥

भा०—(यत्) जो (गावः न) किरणों के समान (भूर्ययः) सत्र
 के पालन करने हारे वा क्षिप्रगामी, (त्वेपाः) कान्तिमान् (अयासः)
 गतिशील, (कृष्णां) कृष्ण, कर्षण करने वाली, हानिकारक (त्वचम्)
 त्वचा, ऊपर की खाल या देखावे, अन्धकार, ढोंग, देहबन्धन को (घ्नन्तः)
 विनाश करते हुए (प्र अक्रमुः) विचरते हैं ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[४६२] अप घ्नन्पवसं मृधः क्रतुवित्साम मत्सरः ।

३ १ २ २ ३ १ २

नुदस्वा देवयुं जनम् ॥ ६ ॥ ऋ० ६ । ६३ । २४ ॥

४६१—'प्रये गावो' इति ऋ० ।

४६२—मृधः=मृधि उन्दने भ्वादिः, उन्दनं वलेदनं । मृधः सङ्गोपाः, बन्धनानि
 कर्मासङ्गा इति वा ।

भा०—हे (सोम) विद्वन् ! हे रसरूप (मत्सरः) हर्षकारी होकर विचरने हारा तू (ऋतुवित्) सब उत्कृष्ट ज्ञान और कर्मों का जानने और लाभ कराने हारा (मृधः) परस्पर के कलहों, संग्रामों या बन्धनों को (अपघ्नन्) विनाश करता हुआ (अदेव्युं) देवों, विद्वानों के प्रतिकूल नास्तिक (जनं) पुरुष को (नुदस्व) परे कर ।

[४६३] ^{३ १ २ ३ १२ ३ २ ३ २ ३ १ २} अया पवस्व धारया यथा सूर्यमराचयः ।

^{३ १२ २२ ३ २} द्विन्वानो मानुषीरपः ॥ ७ ॥ ऋ० ६ । ६३ । ७ ॥

भा०—हे विद्वन् ! रसरूप (यथा) जिस (धारया) धारा या धारण पोषण शक्ति से (मानुषीः) मनुष्य (अपः) प्रजाओं या प्राणों को (द्विन्वानः) प्रेरित करता है (यथा) जिससे (सूर्यं) सूर्य के समान सबके प्रेरक राजा या विद्वान् गुरुको (परोचयः) सब में प्रकाशित करता है (अया) उस धारा से (पवस्व) तू भी सर्वत्र प्रकाशित हो ।

[४६४] ^{१ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तव ।

^{१ १ २ ३ २ ३ २} वत्रिवांसं महीरपः ॥ ८ ॥ ऋ० ६ । ६१ । २२ ॥

भा०—हे रसरूप ! (यः) जो (महीः) बहुत सारे (अपः) जलों, कर्मों, प्राणों या लिंग-शरीरों और प्रज्ञानों को (वत्रिवांसं) आवरण किये, रोके हुए (वृत्राय) आवरणकारी मेघ के समान अज्ञान अन्धकार या कर्मबन्धन को (हन्तवे) विनाश करने के लिये (इन्द्रं) सूर्य के समान आत्मा की (आविथ) रक्षा करता है (सः) वह तू (पवस्व) प्रकाशमान हो ।

[४६५] ^{३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २} अया वीती पारस्व यस्त इन्द्रो मदेष्वा ।

^{३ १ २ ३ १ २ २} अवाहन्नवतीर्नव ॥ ९ ॥ ऋ० ९ । ६१ । १ ॥

भा०—हे रसरूप ! (तेः) तेरे (मदेषु) आनन्द-रसों में वह कर (इन्द्रः) आत्मा (नवतीः नव) ६६ वर्ष (यः) जो (अवाहन्) पार


कर जाता है (अया) इस (वीती) रीति से (परिसन्न) देह में व्याप्त रह, गति कर । ऐतिहासिक पक्ष में इन्द्र का ११ शम्बर की पुरियों का विनाश करना आदि आलंकारिक है ।

[४६६] परि शुचं सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा ।

स्वानो अर्ष पवित्र आ ॥ १० ॥ अ० ६ । ५२ । १ ॥

भा०—हे (सोम) विद्वन् ! आनन्दमय ! (नः) हमें (अन्धसा) जीवन्-धारण सामर्थ्य से, (शुचं रयिं) कान्तिस्वरूप धन को (परि सनद्) प्रदान कर, और (नः वाजं भरद्) हमें अन्न और ज्ञान भी प्राप्त करा । हे (सोम) विद्वन् ! (स्वानः) सम्पादित होता हुआ, ऐश्वर्यवान् तू (पवित्र) पवित्र करनेहारे दशा पवित्र नामक वल्लखण्ड के समान पवित्र, शुद्ध हृदय या ब्रह्म में तू (आ अर्ष) स्वयं व्यापक, विराजमान हो और विचर ।

इति प्रथमा दशतिः । तृतीयः खण्डः ॥



॥ ६० २ ॥ अपिः—१ मेध्यातिथिः । २, ७ भृगुः । ३ उचध्यः । ४ अवत्सारः । ५, ६ निभ्रुविः काश्यपः । ८, ९ काश्यपो मारीचः । १० अमितः । ११ कविः । १२ जमदग्निः । १३ अयास्य आङ्गिरसः । १४ अमहीयुः ।

पवमानो देवता ॥ गायत्री । पङ्कजः ॥

[४६७] अचिऋद् वृषा हरिर्महान्मित्रा न दर्शतः ।

स सूर्येण दिद्युते ॥ १ ॥ अ० ९ । २ । ६ ॥

भा०—(वृषा) वर्षणशील, (हरिः) सबको गति देने हारा, जगदीश्वर (महान्) सबसे बड़ा (मित्रः न) सबके प्रति जेही, सूर्य के समान

४९६—'परीशुक्तः' 'सनद्रयिः' 'स्वानो' इति अ० ।

४९७—'सूर्येण रोचते' इति अ० ।

(दर्शतः) दर्शनीय, (सूयेंण) अपने प्रेरक बल और तेज से (सं दिद्युते) उत्तमरूप से प्रकाशित होता है ।

[४६८] ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} आ ते दक्षं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे ।

^{२ ३ २ २ ३ १ २} पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥ २ ॥ ऋ० ६ । ६५ । २८ ॥

भा०—हे प्रभो ! (ते) तेरे (मयोभुवं) शान्ति और कल्याण के जनक, (वह्निं) सुखों के प्राप्त कराने वाले, (पान्तं) पालक, (पुरुस्पृहं) सबके अभिलाषा योग्य, (दक्षं) बल की (अद्या) इस समय हम (आ वृणीमहे) सब प्रकार से याचना करते हैं ।

[४६९] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २} अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्रं आनय ।

^{३ १ २ ३ १ २} पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३ ॥ ऋ० ६ । ५२ । १ ॥

भा०—हे (अध्वर्यो) यज्ञनिष्पादक ! (अद्रिभिः) पापाण-खण्डों से जिस प्रकार सोमरस निकाला जाता है उसी प्रकार ज्ञानोत्पादक गुरुओं द्वारा (सुतं) निष्पादन किये (सोमं) ज्ञान या आनन्द-रस को (पवित्रे) दशा पवित्र नामक बल-खण्ड के समान विवेकशील चित्त में (आनय) प्राप्त करा और (पातवे) पान करनेहारि (इन्द्राय) आत्मा के लिये (पुनाहि) इसे विमल, और स्वच्छ कर ।

[५००] ^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३} तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः ।

^{३ २ ३ १ २} तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ ऋ० ६ । ५८ । १ ॥

भा०—(सः) वह (मन्दी) स्तुति करने हारा, स्वतः तृप्त आत्मा (तरत्) इस देहबन्धन को तर जाता है । वही (सुतस्य) उत्पन्न हुए (अन्धसः) अन्धकार के नाशक ज्ञान और आनन्दरस की (धारा) धारा, या शक्ति द्वारा (धावति) ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है । वही (तरत्) अज्ञान

को पार करके (मन्दी) अत्यन्त आनन्दमय होकर (धावति) परम शुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त होजाता है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[५०१] आ पवस्व सहस्रिणं रथिं सोम सुवीर्यम् ।

३ १ २ २ २ ऋ० ६ । ६३ । १ ॥
अस्मे श्रवांसि धारय ॥ ५ ॥

भा०—हे (सोम) आनन्दरस रूप आत्मन् ! तू (सहस्रिणं) सहस्रों (सुवीर्यं) उत्तम सामर्थ्य से सम्पन्न (रथिं) धन को (आ पवस्व) प्राप्त करा । (अस्मे) हमें (श्रवांसि) नाना ज्ञान और अन्न (धारय) धारण करा ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
[५०२] अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः ।

३ १ २ ३ २ ऋ० ६ । २३ । २ ॥
रुचे जनन्त सूर्यम् ॥ ६ ॥

भा०—(प्रत्नासः) पुराने, प्राचीन, शाश्वत (आयवः) जीवन की कामना करने वाले पुरुष (नवीयः) अत्यन्त स्तुतियोग्य, उत्तम (पदं) प्राप्तव्य ब्रह्मपद या ज्ञातव्य ज्ञान को (अनु अक्रमुः) अनुसरण करते हैं । वे (रुचे) अपनी दीप्ति-प्रकाश के निमित्त (सूर्यं) सूर्य के समान प्रेरक मुख्य प्राण को या परमेश्वर को (जनन्त) सामर्थ्यवान् बनाते, उसकी सब शक्तियों की भावना करते या साक्षात् करते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
[५०३] अर्पा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत् ।

३ २ ३ २ ३ २ ऋ० ६ । ६५ । १६ ॥
सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ ७ ॥

भा०—हे (सोम) सबके प्रेरक ! हे (द्युमत्तम) प्रकाशमान् पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ ! (वनेषु) सेवन करने योग्य पदार्थों और कर्मफलों में या ब्रह्माण्डों में, (योनौ) अपने आश्रयस्थान पर (सीदन्) विराजमान होकर (आ) विचर और (द्रोणानि अभि) द्रव्यशालि, विनाशशालि

इन कलशस्वरूप देहों में भी (रोहवत्) प्राणरूप से नाद करता हुआ तू (आ अर्ष) व्याप्त हो ।

[१०४] वृषा सोम छुमाँ अस्ति वृषा देवं वृषवतः ।

वृषा धर्माणि दधिपे ॥ ८ ॥ ऋ० ९ । ६४ । १ ॥

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! (वृषा) सब काम्य-सुखों के वर्षक आप (छुमान्) दीप्ति से युक्त (अस्ति) हो । हे (देव) सुखों के देनेहारे ! (वृषा) तू सबसे श्रेष्ठ (वृषवतः) धर्मानुकूल कार्य करने और सुखों के वर्षाने वाले मेघ के समान (वृषा) स्वतः सर्वसुखों के वर्षक, धर्ममेघ स्वरूप होकर (धर्माणि) सबको धारण करने वाले नियमों को (दधिपे) धारण करता, निर्माण करता, स्थापन करता है ।

[१०५] इपे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः ।

इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ९ ॥ ऋ० ९ । ६४ । १३ ॥

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! तू (मनीषिभिः) मनन करने वाले या मन को तेरे प्रति प्रेरणा करने वाले विद्वान् साधकों द्वारा (मृज्यमानः) विवेचना किया गया, परिशोधित किया हुआ होकर (धारया) निरन्तर आनन्द के प्रवाह रूप में (इपे) अन्न और ब्रह्म सम्पादन के निमित्त (पवस्व) प्रकट हो । और (रुचा) अपनी कान्ति द्वारा ही हे (इन्दो) ऐश्वर्यसम्पन्न ! प्राणशाल ! तू (गाः) वाणियों या इन्द्रियों के प्रति भी (अभि इहि) प्राप्त हो ।

[१०६] मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः ।

अव्या वारेभिरस्मयुः ॥ १० ॥ ऋ० ९ । ६ । १ ॥

५०४—'दधिपे' इति ऋ० ।

५०६—'अव्यो वारेष्वस्मयुः' इति ऋ० ।

भा०—हे सोम ! (वृषा) वर्षणशील, सुखों का वर्षक, (देवयुः) देवों, विद्वानों, इन्द्रियों का हितकर तू (मन्दया) आनन्ददायक (धारया) रसरूप धारा से (पवस्व) प्रवाहित हो, और (अस्मयुः) हमारा हितकारी (वारोभिः) विघ्ननिवारक बलों से (अव्याः) हमारी रक्षा कर ।
अथवा—(अव्याः) चिति शक्ति के (वारोभिः) आवरण करनेहारों कोशों में से भी तू (पवस्य) क्षरित होकर प्रकट हो ।

[५०७] अया सोम सुकृत्यया महान्तस्त्रभ्यवर्द्धथाः ।

मन्दान इव वृषायसे ॥ ११ ॥ ऋ० ६ । ४७ । १ ॥

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! (अया) इस (सुकृत्यया) उत्तम सदाचाररूप विधि से तू (महान् सन्) बड़ा होता हुआ (अभि अवर्द्धथाः) साक्षात् बड़ा और (मन्दानः) हर्ष से (इव) ही (वृषायसे) मेव के समान नाद कर ।

[५०८] अयं विचर्षणिर्हितः पवमानः स चतति ।

हिन्वान आप्यं बृहत् ॥ १२ ॥ अ० ९ । ६२ । १० ॥

भा०—(अयं) यह आत्मा (विचर्षणिः) सबको विशेष रूप से देखने वाला, (पवमानः) सबको शुद्ध, पवित्र करता हुआ, सर्वव्यापक (सः) वह (बृहत्) बहुत अधिक (आप्यं) प्रजाओं के हितकारी वस्तु अन्न और ज्ञान को (हिन्वानः) प्रेरित करता हुआ (चेतति) जाना जाता, या स्वयं ज्ञानवान् होता, या ज्ञान ग्रहण करता है ।

[५०९] प्र न इन्द्रा मह तुन ऊर्मि न विभ्रदर्षसि ।

अभि देवा अयाम्यः ॥ १३ ॥ ऋ० ६ । ४४ । १ ॥

५०७—'सोम', 'महश्चिदम्भावर्धत', 'मन्दान उवृषायते' इति ऋ० ।

५०९—'महेतन' इति ऋ० ।

भा०—हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यसम्पन्न ! आप (महे तुने) विशाल ज्ञान प्राप्त करने के लिये (नः) हमारे लिये (ऊर्मिम् न) तरङ्ग के समान (विभ्रद्) हर्ष उत्पन्न करते हुए (अर्पसि) प्रकट हैं और (देवान् अभि) देवों, विद्वानों ज्ञानयोगियों के प्रति (अयास्यः) 'अयास्य' अर्थात् मुख्य प्राण रूप में प्रकट होते हो । 'अयास्य' का वर्णन बृहदा० उप० में देखो ।

[५१०] ^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} अप घनन्पत्रते मृधोप सामो अराव्याः ।

^{३ १ २ ३ २} गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥ १४ ॥ ऋ० ६ । ६१ । २५ ॥

भा०—(सोमः) ज्ञानवान् आत्मा (मृधः) काम क्रोध आदि आत्मा के साथ युद्ध करने वाले आभ्यन्तर शत्रुओं को (अपघ्नन्) विनाश करता हुआ (अराव्याः) अदानशील, कृपण वृत्तियों को भी (अप) दूर करता हुआ (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर के (निष्कृतम्) मोक्षपद को (गच्छन्) प्राप्त होता है ।

इति द्वितीया दशतिः । चतुर्थः खण्डः ।



॥ द० ३ ॥ ऋषिः—भरद्वाजः काश्यपो गोतमोऽत्रिर्विंशामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठश्चैते
सप्तर्षयः । पवमानो देवता । बृहती । मध्यमः ॥

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} [५११] पुनानः साम धारयापा वसानो अर्पसि ।

^{१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २} आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो ढिरण्ययः ॥१॥

ऋ० ६ । १०७ । ४ ॥

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! तू (धारया) धारा से (अपः वसानः) कर्मों और प्रजाओं प्राणों या लिङ्ग शरीरों में व्याप्त होकर सबको (पुनानः) पवित्र करता हुआ (अर्पसि) विराजता है । (रत्नधा) रमणीय पदार्थों

का पोषक (ऋतस्य) इस जीवन या ज्ञान के (योनिम्) मूलकारण में (आ सीदसि) स्थित है । और स्वयं (हिरण्ययः) कान्तिस्वरूप या सब इन्द्रियगण के लिये हित और रमणीय होता हुआ (देवः) सबका तर्पक, सबके प्रति (उत्सः) रस का सञ्चार कराने हारा है । यहां शुक्र, ज्ञान और योगसाधन से प्राप्त विशेष आनन्दमय अनुभव का वर्णन है ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ २
[५१२] परीतो पिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः ।

३ १ २ २ ३ २ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ ३

दधन्वो यो नर्यो अप्स्वन्तरा सुपाव सोमगद्भिभिः ॥२॥

ऋ० ६ । १०७ । १ ॥

भा०—(अध्वर्युः) इस जीवनयज्ञ या योगयज्ञ का सम्पादक, (सोमम्) अन्तरात्मा के आनन्द को (अद्भिभिः) भेषों से जल के समान, और विद्वानों से ज्ञानों के समान योगसाधनों द्वारा (सुपाव) पैदा करता है । (यः) जो सोम (नर्यः) मनुष्यों का हितकारी, (अप्सु) प्रजाओं या कर्मों या प्रज्ञाओं प्राणों के (अन्तरा) बीच में (दधन्वान्) व्याप्त रहता है, (यः सोमः) जो सोम (उत्तमं) उत्तम (हविः) हविः=वृषि परम संतोष और परम आनन्द का साधन है उसको वह योगी (इतः) इस हृदय स्थान से (सुतं) उत्पन्न हुए को (परिपिञ्चति) सब ओर को बहाता है ।

१ २ ३ १ २ २ ३ ३ १ २ २ ३ १ २
[५१३] आ सोम स्वानो अद्भिभिस्तिरा वाराण्यव्यया ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १

जनो न पुरि चम्त्रोर्विशद्धरिः सदा वनेषु दधिषे ॥ ३ ॥

ऋ० ६ । १०७ । १० ॥

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! (अद्भिभिः) योगसाधनों या योनियों द्वारा (सुवानः) उत्पन्न या साक्षात् किया जाकर (अव्यया) अवि-भेद के बालों के घने, छानने के कपड़े के समान तमोमय (वाराणि) आवरणों

को (तिरः) पार करता हुआ (जनः न पुरि) जिस प्रकार वीर पुरुष कोट लांबता हुआ नगर में प्रवेश करता है उसी प्रकार (चम्वोः) चमसों या चौ और पृथिवी में और आत्मा मस्तक के दोनों भागों में (विशट्) प्रवेश करता हुआ, (हरिः) सब तमोमय बाधाओं को दूर करता हुआ (वनेषु) सेवन करने योग्य स्थान, हृदय में (सदः) स्थिति (दधिषे) प्राप्त करता है । ब्रह्मानन्द, आत्मानन्द या योगज सुख का समान रूप से वर्णन है ।

[५१४] प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्शाणा ।

अशाः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम् ॥४॥

अ० ६ । १०७ । १२ ॥

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! (देववीतये) देवों, विद्वानों, इन्द्रियों के अथवा परमेश्वर के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (अर्शाणा) जल के समान ज्ञान, विशेष अनुभव, या प्राणशक्ति से (सिन्धुः न) महान् नदी या समुद्र के समान (पिप्यसे) बढ़ता है । और (मदिरः) हर्ष का उत्पादक, (जागृविः) निरन्तर जागने वाला, (अंशोः) व्यापनशील आत्मा के (पयसा) ज्ञान या स्वाभाविक आनन्द रस से मिलकर (मधुश्चुनं) मधुर आत्मज्ञान को बहाने वाले (कोशं) आनन्दमय कोश या परमसुख की निधि को (अच्छ) प्राप्त हो ।

मधु और देवों के मधुच्युत् कोश का वर्णन अथर्ववेद और बृहदारण्यक (बृहदा० उप० अ० २ । ५) में उत्तम रूप से वर्णित है ।

[५१५] सोम उ प्वाणः सौतमिरधिष्णुभिरवीनाम् ।

अश्वयेवं हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥५॥

अ० ६ । १०७ । १३ ॥

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! (सोतृभिः) सवन करनेहारे साधकों द्वारा (अवीनां) इन्द्रियों के (अधिष्णुभिः) मार्गों से (स्वानः उ) सवन किया जाता हुआ (हरितया) गतिशील (अश्वया) व्यापक चेतना से (मन्द्रया) आनन्दजनक (धारा) प्रवाह के रूप में (याति) हृदय में प्रकट होता है और (मन्द्रया धारया याति) उत्तम अश्व के समान आनन्दजनक धारा के रूप में प्रकट होता है अर्थात्, जैसे राजा तेज घोड़ी पर दुड़की चाल से चलकर नगर में सर्वत्र जाता है उसी प्रकार (सोम) आत्मानन्द भी मन्द्रा-धारा से हृदय में प्रकट होता है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[५१६] तवाहं सोम रारण सख्य इन्द्रो दिवेदिवे ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ ३ १ २
पुरुषि वश्रो निचरन्ति ममव परिधी रति ता इहि ॥६॥

अ० ६। १०७। १६ ॥

भा०—हे (सोम) परम रस ! (तव सख्ये) तेरी मित्रता में (अहं) मैं (इन्द्र) आत्मा (रारण) निरन्तर रमण करूं । हे (वश्रो !) समस्त प्रजा के भरण पोषण करने हारे ! (पुरुषि) ये इन्द्रियां या प्रजायें (मां) मुझ को (नि-श्व-चरन्ति) नीची वृत्तियों में ले दौड़ती हैं । इसलिये (तान्) उन (परिधीन्) चारों ओर से घेरे हुए वैरी रूप इन इन्द्रियों को (अति इहि) पार करले, वश करले उनपर विजय कर जिससे वे विपयर्सों में न भागकर भीतरी आनन्द की ओर ही शान्तमुख होजायं ।

३ १ २ ३ १ २ २ २
[५१७] मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वासि ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ ३ ३ ३ २ २
रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ॥ ७ ॥

ऋ० ९। १०७। २१ ॥

भा०—हे (सुहस्त्या) उत्तम हाथ की अंगुलियों के समान दशप्राण साधनों से युक्त ! अथवा अज्ञान को उत्तम रीति से हनन करनेहारे कुशल ! (सोम) आत्मन् ! तू (समुदे) समुद्र, आनन्द-रस के उत्पत्तिस्थान हृदयाकाश में (मृज्यमानः) पवित्र होता हुआ (वाचं) व्यक्त वेदवाणी को (इन्वसि) प्रेरित करता है । हे (पवमान) हृदय को पाप से शून्य, एवं पवित्र करनेहारे ! आप (पिशङ्गं) पीले, सुवर्ण के समान कान्तिमान । (बहुलं) अति अधिक (पुरुस्पृहं) प्रजाओं और इन्द्रियों के स्पृहा, अभिलाषा के विषय (रयिं) भोग्य पदार्थ, ऐश्वर्य विभूति को (अभि अर्पसि) स्वतः व्यापता है ।

३ १२ २२ ३ २३ १ २३ २ ३ १ २

[५१८] आभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम् ।

३ १२ २२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२

समुद्रस्याऽधिविष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥८॥

ऋ० ९ । १०७ । १४ ॥

भा०—(सोमासः) सोम=सौम्य स्वभाव के, शान्त, तपस्वी (आयवः) दीर्घजीवी, (मदच्युतः) हर्ष, सुख का प्रकाश करनेहारे, मौजी (मत्सरासः) स्वयं गौरव से परिपूर्ण, आनन्दयुक्त, (मनीषिणः) मन को अपने वश करने हारे, योगि जन (समुद्रस्य) उमड़ते हुए आनन्दसागर की (अधिविष्टपे) चरम सीमा में स्थित होकर (मद्यं) हर्षजनक (मदं) आनन्दरस को (अभि पवन्ते) चारों ओर बहाते या साक्षात् करते हैं ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

[५१९] पुनानः सोम जागृविरव्या वारैः परि प्रियः ।

१२ २२ ३ १ २ ३ १ २

त्वं विप्रो अभवोङ्गिरस्तम मध्वा यंज्ञं मिमिक्ष राः ॥९॥

ऋ० ९ । १०७ । ६ ॥

५१८—'अधिविष्टपि', 'मत्सरासः स्वर्किदः' इति ऋ० ।

५१९—'जागृविरव्यो' 'वारै' अभिवोङ्गिरस्तमो' 'ङ्मिक्ष नः' इति च ऋ० ।

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! (जागृविः) जागरणशील, (अघ्याः) अवि, चेतना या प्राण के (चारैः) वृत्तियों, चेष्टाओं या ऊहापोहों द्वारा (पुनानः) पवित्र करना हुआ (प्रियः) सबका प्रिय, (विप्रः) मेधावी, (त्वं) तू (अङ्गिरस्तमः) सबसे अधिक प्रकाशमान, आनन्दरूप परमरस में (परि श्रभवः) प्रकट होता है । तू (नः) हमारे (यज्ञं) जीवन-यज्ञ को (मध्वा) उस आनन्दरूप मधु से (मिमिक्ष) सींच दें, भर दे ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[५२०] इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

सहस्रधारो अत्यज्यमर्पति तर्मी मृजन्त्यायवः ॥ १० ॥

अ० ६ । १०७ । १७ ॥

भा०—(सुतः) सोमरस के समान तैयार किया हुआ, छाना हुआ, परिशांघा हुआ (मदः) आनन्दस्वरूप (सोमः) सोम (मरुत्वते) प्राणों, प्रजाओं और मध्यस्थानीय मरुद्गण के अधिपति (इन्द्राय) आत्मा, राजा और परमात्मा के लिये (पवते) वहता है । वह (सहस्रधारः) सहस्रों शक्तियों के रूप में (अव्यम्) अवि=चेतनामय मनःसाधन को (अति) अतिक्रमण करके (अर्पति) प्रकट होता है । (तम्) उस (ई) इस सोमरस को (आयवः) परम आयु से सम्पन्न साधक लोग (मृजन्ति) और भी परिष्कृत करते हैं । अवि-मेपी रूप चेतना का वर्णन अथर्व में विस्तार से है । जैसे—अविर्वै नाम देवतर्त्तेन परीवृता । तस्या रूपेणेमे वृत्ता हरिता हरितस्वजः । अथर्व० (१०८ । ३१)

इसीका वर्णन वशा, ब्रह्मगधी, मेपी, शतौदना, मधुकशा आदि नाना नामों से वेदों में आया है । यही सहस्रपियों की ब्रह्मरवती है जिसका सोम वत्स और छन्दः पात्र है, ब्रह्म और तप उसका दूध है । इत्यादि । अथर्व० ८ । १० (४) १४ ॥

[५२१] ^{१ २} पवस्व ^{३ १ २ ३ ५ ४} वाजसानमाऽभि ^{२ ३ १ २} विश्वानि ^{१ २} वार्या ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २} त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्मन् देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥११॥

ऋ० ६ । १०७ । २३ ॥

भा०—हे (सोम) आत्मानन्द ! (विश्वानि) समस्त (वार्या) आवरणकारी बाधाओं को (अभि) मुक्तावला करके, उनको हटाकर (वाजसातमः) ज्ञान और बल से सम्पन्न होकर (पवस्व) प्रकाशित हो। (त्वं) तू हे (सोम) परमरस ! हे (विधर्मन्) नाना प्रकार से पोषण करने वाले (मत्सरः) आनन्द रस में बहने वाला, (समुद्रः) समुद्र के समान हृदय में उमड़ने वाला (देवेभ्यः) द्योतमान, प्रकाशमान, ज्ञानी, दिव्यगुणी, साधकों या इन्द्रियों के लिये भी (प्रथमे) श्रेष्ठ कर्म, मुख्य उपदेश में (पवस्व) प्रकट हो।

[५२२] ^{१ २} पवमाना ^{३ २ ३ २ ३ १ २} असृक्षत ^{३ १ २} पवित्रमतिधारया ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३} मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभिप्रयांसि च ॥१२॥

ऋ० ६ । १०७ । २५ ॥

भा०—(पवमानाः) पवित्र, परिशोधित किये गये, (मत्सराः) आनन्दरस में विचरण करने वाले (धारया) अपनी धारणा के बल से (पवित्रं) पवित्र, पावन करनेहारे ज्ञान को (अति) अतिक्रमण करके (मरुत्वन्तः) मरुत्, प्राणों से युक्त (इन्द्रियाः) आत्मा के ऐश्वर्य से युक्त (हयाः) गतिशील ज्ञानी होकर (मेधाम्) मेधा (प्रयांसि) और बलों को (अभि) साक्षात् प्राप्त करते हैं।

इति तृतीया दशतिः । पञ्चमः खण्डः ।

५२१—'वाजसातये' 'काव्या' 'समुद्र' इति ऋ० ।

५२२—'पवमाना' 'अभिप्रयांसि' इति ऋ० ।

॥ ८० ४ ॥ ऋषिः— १, ९ उशनाः काव्यः । २ वृषगणो वासिष्ठः । ३, ७ पराशरः
शाक्यः । ४, ६ वसिष्ठो मैत्रावरुणः । ५, १० प्रतर्दनो दैवोदासिः । ८
प्रस्कण्वः काण्वः । पवमानो देवता । त्रिष्टुप् । धैवतः ॥

[५२३] प्र तु द्रव परि काशं निर्षीद नृभिः पुनानो अभिवाजमर्ष ।
अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोच्छ्रावर्ही रशनाभिर्नयन्ति ॥ १ ॥
अ० ६ । ८७ । १ ॥

भा०—हे (सोम) परम आनन्दरस ! (प्र द्रव) तू क्षरित हो । और
(कोशं) कोश, ब्रह्माण्ड, मूर्धास्थान को (परि निर्षीद) व्याप्त करके वि-
राजमान हो और (नृभिः पुनानः) विद्वान् पुरुषों से पवित्र या विवेचित,
परिशोधित होकर (वाजम्) ज्ञान के प्रति (अभि अर्प) साक्षात् प्रवाहित
हो, ज्ञान को प्राप्त हो । (वाजिनं) बलवान्, वेगवान् (अश्वं न) अश्व को
जिस प्रकार (मर्जयन्तः) परिमार्जन करते हुए, भाड़ते पोंछते हुए, या
सान्त्वना देते हुए (रशनाभिः) बागों से पकड़ कर संग्राम में ले जाते हैं
उसी प्रकार (वाजिनं) ज्ञान विभूति से युक्त सोमरूप आत्मा को परिमा-
र्जन, या शोधन करते हुए (रशनाभिः) योगसाधनाओं से (वर्हिः)
हृदयरूप मज्ज में या बृहत् ब्रह्म में (नयन्ति) लेजाते हैं ।

[५२४] प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमाविवक्ति ।
महिं व्रतः शुचिवन्धुः पात्रकः पदा वराक्षा अभ्याति रेभन् २
अ० ९ । ६७ । ७ ॥

भा०—(उशना इव) विद्वान् मेधावी, सोम्यस्वभाव, (देवः) विद्वान्,
सुखप्रद होकर (काव्यं) सुन्दर काव्य, वेदज्ञान या संसार के रहस्य को
(प्र ब्रुवाणः) उत्तम रीति से वर्णन, उपदेश करता हुआ (देवानां) वसुओं,
रुद्रों और आदित्यों, एवं इन्द्रिय गण, और प्राण अणानादि नव प्राणों के

(जनिम्) प्रादुर्भाव होने के रहस्य को (आ विवक्ति) स्पष्ट रूप से बतलाता है । और (महिब्रतः) विशाल कर्म और प्रज्ञा का करने वाला, (शुचिबन्धुः) अपने शुद्ध तेज द्वारा सबको अपने साथ बांधने द्वारा, सब पवित्र हृदयों का बन्धु, (पावकः) सबको पवित्र करने द्वारा, अग्निस्वरूप (वराहः=वर-शाहः) श्रेष्ठ उत्तम वाणी का बोलने द्वारा (रेभन्) उत्तम ज्ञानोपदेश करता हुआ (पदा) प्राप्त करने योग्य ज्ञान रहस्यों को और उत्तम स्थानों, ज्ञानदशा और सुखप्रद दशाओं को (अभि एति) प्राप्त होता है ।

'उशनाः—वशे, कनसिरौणादिः । वश कन्तौ अदादिः ।

[५२५] तिस्रो वाच ईरयति प्र वाह्नर्कृतम्यधीति ब्रह्मणो मनीषाम् ।
 गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतया
 वावशानाः ॥ ३ ॥ ऋ० ९ । ६७ । ३४ ॥

भा०—(वह्निः) ज्ञान का वहन करने वाला (तिस्रः वाचः) ऋग्, यजुः, साम स्वरूप तीन वेदवाणियों को (प्र-ईरयति) उत्तम रूप से प्रकट करता है । (ऋतस्य) सत्य, ज्ञान और धर्म का धारण करने वाली (ब्रह्मणः) ब्रह्म या वेदज्ञ की (मनीषां) मनको प्रेरणा करने वाली वाणी स्तुति को भी प्रेरित करता है । जिस प्रकार गौणं गोपाल के पास आजाती हैं उसी प्रकार ये (गावः) गौरूप वेदवाणियां मानो अपना रहस्य-तत्व (पृच्छमानाः) पृच्छती हुईं (गोपतिं) वेदवाणियों के परिपालक विद्वान् के पास (यन्ति) पहुंच जाती हैं (मतयः) मननशक्तियां या सुन्दर विचार धाराएं भी (वावशानाः) अपने अनुकूल पालक की कामना करती हुईं (सोमं) उस शम, दम आदि गुणसम्पन्न तत्वज्ञानी के पास (यन्ति) चली जाती हैं ।

ऋषि यास्क के मत से वह्निरात्मा भवति । स तिस्रो वाच ईरयति प्रेरयति विद्यामतिबुद्धिमताम् । ऋतस्यात्मनः कर्माणि ब्रह्मणो मतानि ।

अग्रमेवेतत्सर्वमनुभवति, इति आत्मगतिमाचष्टे । अर्थात्-वह आत्मा है । वह तीन वाणियों को प्रेरित करता है विद्या, मति और बुद्धि को । अतः अर्थात् आत्मा के कर्म ब्रह्म को अभिमत हैं । यह ही सत्य अनुभव करता है इस प्रकार इस मन्त्र में आत्मा की गति कही है । विवरणकार माधव के मत में विद्या अर्थात् महत् तत्त्व, बुद्धि अर्थात् अहंकार, मन अर्थात् प्रधानता से पाँचों ज्ञानेन्द्रियां, आत्मा इनको प्रेरित करता है । अतः आत्मा को धारण करने वाली मन की प्रेरणा ब्रह्म के अनुकूल होती है । इन्द्रिय रूप गौण गोपति आत्मा से उसको पूछती है अर्थात् सोमरूप आत्मा की कामना से उसी में लीन हो जाती है ।

उ २ उ २ उ १ २ उ १ २ उ २ उ २ उ १ २ उ १ २
[५२६] अस्य प्रेपा हेमना पूयमानो देवा देवेभिः समपृक्त रसम् ।

उ २ उ २ उ १ २ उ १ २ उ २ उ १ २ उ २ उ १ २
सुतः पवित्रं पर्येति रेभन् मितेव सन्न पशुमन्ति हाता ॥४५

अ० ६ । ६७ । १ ॥

भा०—(अस्य) इस विद्वान् आत्मा के (प्रेपा) प्रेरण करने वाले (हेमना) स्वर्ण के समान कान्ति वाले तेज से (पूयमानः) पवित्र, परिशुद्ध होता हुआ (देवः) अति दीप्तिमान्, या सबको आनन्दरस का देने हारा. (देवेभिः) इन्द्रियगण के साथ (रसं) आनन्द रस का (सम् अपृक्त) सम्पर्क करा देता है । उस समय (सुतः) वह प्रकट होकर (रेभन्) उपदेश करते हुए ज्ञाता के समान अनाहत ध्वनि करता हुआ (पवित्रम्) परम पावन पद को (परि-पृति) प्राप्त होता है और (मित्वा इव) जिस प्रकार कार्यकर्त्ता आकर (पशुमन्त) पशुओं से युक्त (सन्न) घर में आता है और पशु को जोतकर रथ में लगाता है उसी प्रकार वह (होता) साधक (मित्वा) ज्ञानी होकर (पशुमन्ति) पशुरूप इन्द्रियगण से युक्त (सन्न) इस शरीर को (परि-पृति) पूर्ण वश कर लेता है । सोमरस के

प्रादुर्भाव होने पर साधक की वृत्तियां स्वयं संसार के भोगों से विरत होकर आत्मानन्द में लग जाती हैं, उसी दशा को दर्शाया गया है।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[५२७] सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवां जनिता पृथिव्याः ।

३ १ २ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितात विष्णोः ॥५॥

ऋ० ९ । ६६ । ५ ॥

भा०—(मतीनां) सब मनोवृत्तियों का (जनिता) प्रादुर्भाव करने द्वारा, (दिवः) सूर्य के समान प्रकाशमान, तेजः पुञ्ज का (जनिता) उत्पादक, (पृथिव्याः) पृथिवी के समान विस्तृत त्वचा का (जनिता) उत्पादक, (अग्नेः) अग्निरूप वाणी का (जनिता) उत्पादक, (सूर्यस्य) सूर्यरूप चतु का (जनिता) उत्पादक, (इन्द्रस्य) प्राणरूप इन्द्र का उत्पादक, (विष्णोः) सर्वव्यापक आकाश के समान श्रोत्र या हृदयाकाश का (जनिता) उत्पादक वह (सोमः) आत्मा (पवते) प्रकट होता है। (देखो निरुक्त यास्क परि० २ । २२)

समष्टि व्यष्टि रूप से ब्रह्माण्ड में परमात्मा और पिण्ड में आत्मा समानरूप से स्पष्ट हैं। इसका विवरण देखो (कौपीतकी ब्राह्मणोपनिषत् अ० १, प्रतर्दनेन्द्र संवाद)

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[५२८] अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्त वाणीः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

वना वसाना वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयत वार्थाणि ॥६॥

ऋ० ६ । ६० । २ ॥

भा०—(वाणीः) वेद की वाणियां, या आत्मा का निरूपण करने वाली सब वाणियां (त्रिपृष्ठं) वाणी, मनः और काय तर्जियों स्थानों पर स्पर्श करने वाले, (वृषणं) सब सुखों, ज्ञानों और बलों के वर्षक, (वयोः—धाम्) प्राणरूप बल को धारण करने वाले, (अङ्गोषिणम्)

प्रत्येक अङ्ग में निवास करने वाले, आत्मा को (अभि वावशन्त) नित्य कामना करती हैं अर्थात् अपना सब गुप्त रहस्य उसी के प्रति प्रकट करती हैं और वह (वना) सब देहों में (वसानः) निवास करता हुआ (वरुणः) सबको व्याप्त करने वाला, सबके वरण योग्य, नदियों के लिये, (सिन्धुः न) महासमुद्र के समान (वार्याणि) सबके मनन हरने हारे, वरण योग्य धनों को (रत्नधाः) रत्नों को धारण करनेहारा, होकर (वि-दयते) नाना प्रकार से प्रदान करता या पालन करता है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ ३ १ २ २ २ २
[५२६] अक्रान्तसमुद्रः प्रथमे विधर्मन् जनयन् प्रजा भुवनस्य गोपाः।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २
वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥७॥

अ० ६ । ६७ । ४० ॥

भा०—(बृहत् सोमः) वह बड़ा विशाल सोम, सबका प्रेरक और उत्पादक परमात्मा और आत्मा (स्वानः) प्रकट होता हुआ (अद्रिः) कभी न टूटने वाला, अभेद्य, नित्य, अमर आत्मा (वृषा) सब सुखों के वर्षाने हारा, (अव्ये) अविनाशी, चिन्मय (पवित्रे) सबको पवित्र करने हारे (सानोः अधि) आनन्दस्वरूप ब्रह्म में या मूर्धा प्रदेश में (वावृधे) बढ़ता है, अपनी सहिमा को अनुभव करता है । वह (समुद्रः) समुद्र के समान सब इन्द्रियों का एकमात्र आश्रयस्थान, (प्रथमे) अति उत्कृष्ट (विधर्मन्) नाना आश्रयस्थानों में या अन्तरिक्ष स्थानों में या इन्द्रियों के छिद्र देशों में (प्रजाः) अपनी प्रजाओं को, इन्द्रियगणों को, (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ, (भुवनस्य) इस ब्रह्माण्ड और इस देह का (गोपाः) पालक (अक्रान्) सबको लांघ कर बैठा है, वह सबसे परे विद्यमान है ।

इसका रहस्य गीता, बृहदारण्यक, ऐतरेय आदि में स्पष्ट किया है । आत्मा परमात्मा दोनों पक्षों में यास्क ने लगाया है (यास्क परि० २ अ०) ।

[५३०] कनिक्कन्ति हरिरासृज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुनानः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ ३ ३ १ २ ३ २

१ २ ३ १ ३ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

नृभिर्यतः कृणुते निर्णिजं गामतां मतिं जनयत स्वधाभिः ॥८॥

क० ६ । ६५ । १ ॥

भा०—(आसृज्यमानः) सब ओर से प्रकट होता हुआ (पुनानः) शुद्ध पवित्र रूप से प्रकट होकर (हरिः) सर्वव्यापक, आत्मा (वनस्य) भोग्य या सेवन करने योग्य इस देह के (जठरे) मध्य भाग में (सीदन्) विद्यमान, (नृभिः) मनुष्यों द्वारा, (यतः) संयत होकर (गाम्) वाणी को (निर्णिजं) अति शुद्ध, परिमार्जित (कृणुते) कर देता है । (अतः) इसलिये आप लोग (स्वधाभिः) स्व=अपनी धारणा शक्तियों, या स्व=आत्मा को धारण करनेहारी चित्ति शक्तिद्वारा (मतिं) मनन, विचार (जनयत) करो, उसकी साधना, उपासना, स्तुति आदि करो ।

[५३१] एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षाः

सहस्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरावाज्यस्थात् ॥९॥

क० ६ । ८७ । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) आत्मन् ! (वृष्णः) वर्षणशील (ते) तेरे लिये (एषः स्यः) यह वह (सोमः) आत्मा सोम, आनन्दरूप रस (वृषा) आनन्द का वर्षक (मधुमान्) ब्रह्मज्ञान रूप मधु से युक्त (पवित्रे) पवित्र ज्योतिर्मय रूप में (परि अक्षाः) चारों ओर से सञ्चित होता है । वह (सहस्रदाः) हजारों सुखों का देने वाला, (शतदाः) सैकड़ों शक्तियों का देने वाला, (भूरि-दावा) बहुत आनन्द को देने वाला, (शश्वत्तमं) निरन्तर, स्थायी, नित्य, (बर्हिः) महान् आत्मा में (वाजी) बल, ज्ञान से सम्पन्न होकर (अस्थात्) स्थिति प्राप्त करता है ।

[५३२] पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो वसानो अधि सानो अय्य ।
 १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ५ २ २ ३ २ ३ १ २
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ १ ३ १ २ ३ १ २
 अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपानः ॥१०॥
 ऋ० ६। ६६। १३ ॥

भा०—हे (सोम) आत्मन् ! (मधुमान्) मधुर ब्रह्मरस से युक्त; (ऋतावा) सत्यज्ञान से युक्त, (सानोः अधि) हृदय देश या मस्तक भाग में (अय्ये) अवि-चेतना या प्राण के बने चित्त पर भी (अपः) नाना ज्ञान वृत्तियों को (वसानः) आच्छादित करता हुआ । (घृतवन्ति) दीप्ति या ज्योति से सम्पन्न (द्रोणानि) कलशों, मस्तकों में (मदिन्तमः) अति हर्ष आनन्द या आत्मा में संतोष उत्पन्न करने वाला (मत्सरः) हर्ष के रूप में हृदय में व्यापने वाला (इन्द्रपानः) आत्मा के एकमात्र पान करने योग्य होकर (अव रोह) नीचे की ओर बह आ ।

इति चतुर्थी दशतिः । पठः खण्डः ।

॥ ८० ५ ॥ ऋषिः—१ प्रतदनः । २, १० पराशरः शाक्त्यः । ३ इन्द्रप्रमतिर्वा-
 सिष्ठः । ४ वसिष्ठो मैत्रावरुणः । ५ कर्णश्रुन् मृडीको वा वासिष्ठः । ६ नोधाः गौतमः ।
 ७ कण्वो धोरः । ८ मन्युर्वासिष्ठः । ९ कुत्स आङ्गिरसः । ११ कश्यपो मारीचः ।

१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पववानो देवता ॥ त्रिष्टुप् ॥ धैवतः ॥

[५३३] प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्षत अस्य सेना ।
 १ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २
 भद्रान् कृण्वन्निन्द्रं हवान्तसखिभ्य आ सोमो वखा रभसानि दत्ते ॥११॥
 ऋ० ६। ६६। ११ ॥

भा०—(सेनानीः) सेना का नायक, (शूरः) बलवान्, शूरवीर, सेनापति जिस प्रकार (रथानां अग्रे) रथों, रथारोही सैनिकों के आगे (गव्यन्) पृथिवी के विजय के लिये (प्र एति) आगे २ बढ़ता है और

(अस्य सेना) इसकी सेना (हर्षते) उरसाह से प्रसन्न होती है, वह (सोमः) वीर राजा (सखिभ्यः) अपन मित्रों के लिये (भद्रान्) अति कल्याणकारी, सुखदायक (इन्द्र-हवान्) ऐश्वर्ययुक्त राजोचित आह्वानों, पुकारों और आज्ञावचनों कां (कृण्वन्) करता हुआ (रभसानि) अति वेग वाले (चखा) ढक देने वाले शत्रु के आक्रमणों को (आदत्ते) हटा देता है उसी प्रकार (सेनानीः) इन्द्रियगणों का नेता (रथानाम् अग्रे) रमण योग्य आनन्दप्रद देहों, या आभ्यन्तर रसों के मुख्य पद में स्थिर होकर (गव्यन्) वाणियों, या इन्द्रियसामर्थ्यों को, या आत्मभूमियों पर वश करता हुआ (प्रप्ति) आगे बढ़ता है । (अस्य सेना हर्षते) इसके समस्त इन्द्रिय, प्राणगण, या साधक प्रसन्न होते हैं । (सखिभ्यः) मित्र साधकों या प्राणगण को वह (भद्रान्) ऐश्वर्ययुक्त (इन्द्रह-वान्) आत्मा के नाना ज्ञानसामर्थ्य प्रदान करता हुआ (रभसानि वस्त्राणि) अति वेग से युक्त प्रबल आच्छादक आवरणों को (आदत्ते) दूर कर देता है । इन्द्रियां तन्मुख होजाती हैं । इन्द्र अर्थात् आत्मा के संस्मरण उस समय मंगल-जनक जंचते हैं और तामस आवरण आत्मा के सामने से हटने लगते हैं ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २

[५३४] प्र ते धारा मधुमतीरसृग्रन्धारं यत्पूतो अत्येव्यव्यम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

पवमान पवसं धाम गोनां जनयन्त्सूर्यमग्निवो अकैः ॥ २ ॥

श्र० ६ । ६७ । ३१ ॥

भा०—हे सोम आनन्दमय ! (मधुमतीः) अति आनन्ददायक मधु से मिली हुई, ब्रह्मज्ञान की (ते धाराः) तेरी रस-धाराएं तब (प्र असृग्रन्) खूब उत्पन्न होती हैं (यत्) जब तू (पूतः) छूने हुए ओपधि रस के समान पवित्र होकर (अव्यम्) प्राणमय कोश में से (अति एषि) पार होकर प्रकट होता है । हे (पवमान) पवित्रकारक ! (गोनां) इन्द्रियों के

भीतर तू अपना (धाम) तेजो रूप रस (पवसे) चुआता है और वहां प्रकट होकर (अर्कैः) अपनी पवित्र किरणों से (सूर्यं) सूर्य के समान तेजस्वी साधक को (अपिन्वः) आनन्दरस से पूर्ण करता है । इस दशा में आदित्य के समान साधक तमतमाता है ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
 [५३५] प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महंत धनाय ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

स्वादुः पवतामतिवारमव्यमासीदतु कलशं देव इन्दुः ॥३॥

ऋ० ६ । ६७ । ४ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! (महते) बड़े भारी (धनाय) खजाने के प्राप्त करने के लिये (प्र गायत) उत्तम रीति से स्तुति गान करो । और (देवान्) विद्वानों की हम (अभि-अर्चाम) सब प्रकार से अर्चा, पूजा, सत्कार और प्राणों की साधना करें । (सोमं हिनोत) सोम, आत्मानन्दमय रस को प्रेरित करो, प्राप्त करो । (अव्यं वारं) प्राणमय आवरण को (अति) पार करके (स्वादुः) आनन्दकारक आनन्दरस (पवताम्) प्रखरित हो और (इन्दुः, देवः) वह प्रकाशमान, ऐश्वर्यवान् देव (कलशं) इस घट, देह, हृदयाकाश, या सोलहोंकला वाले आत्मा में, घट में सोमरस के समान स्वच्छ होकर, (आसीदतु) राष्ट्र में राजा के समान आ विराजमान हो ।

१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[५३६] प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिपन्नयासीत् ।

३ १ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

इन्द्रं गच्छन्नागुप्रा संशिशानो विश्वा वसु हस्योरादधानः ॥४॥

ऋ० ६ । ६७ । २ ॥

भा०—(हिन्वानः) सबको प्रेरण करने वाला, (रोदस्योः जनिता) सूर्य और पृथिवी के समान प्राण और अपान देवों का उत्पादक, या प्रेरक

५३५—'स्वादुः पवते' 'देवयुर्नः' इति ऋ० ।

५३६—'सनिप्यन्' इति ।

भा०—(धारस्य) ध्यानवान् योगी की (साकमुत्तः) एक साथ ज्ञान या आनन्दरस का सेचन करने हारी (दश स्वसारः) दश बहनों के समान स्वयं सरण करनेहारी दश (धनुत्रीः) प्रेरण करने वाली (धतियः) ध्यानवृत्तियां, इन्द्रियां, या स्तुतियां (मर्जयन्त) आत्मा को निरन्तर अधिकाधिक पवित्र करती हैं । (हरिः) सब दुःखों को हरण करनेद्वारा आत्मानन्दरस (सूर्यस्य) कान्तिमान्, मुख्य, आदित्य के समान उज्ज्वल आत्मा के (जाः) स्त्रियों के समान उसके अधीन प्रकट चित्तवृत्तियों के प्रति (पर्यद्रवत्) बहता है । और वह स्वयं (अत्यः न वाजी) वेगवान् अश्व के समान (द्वोणं) पात्र या कलश में सोम रस के समान होनेवाली आत्मा में (ननचे) व्याप्त हो जाता है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २२
[५३६] अधियदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्पर्द्धन्ते धियः सूरं न विशः ।
३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अपां वृणानः पवतं कवीयान्ब्रजं न पशुवर्द्धनाय मन्म ॥७॥

ऋ० ६ । ६४ । १ ।

भा०—(वाजिनि-ह्व शुभः) जिस प्रकार घोड़े पर आभूषण एक से एक बढ़कर शोभा देते हैं और (सूरं न विशः) जिस प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी राजा के समस्त प्रजा के लोग भेट चढ़ाने में एक से एक बढ़ते हैं, उसी प्रकार (विशः) अन्तःप्रवेश करनेहारी (शुभः) शोभादायक, कल्याणकारिणी (धियः) चित्तवृत्तियां भी (अरिमन्) इसक राजा रूप आत्मा के समस्त (अधि स्पर्द्धन्ते) एक से एक बढ़ने का यत्न करती हैं । और (मन्म) जिस प्रकार अपने मन को हरने वाले (ब्रजं न) गौवों के बाढ़े में गोपालक (पशुवर्द्धनाय) अपने पशुओं की वृद्धि करने के लिये जाता है उसी प्रकार (कवीयान्) क्रान्तदर्शी विद्वान्,

आत्मा (अपः वृष्णानः) चित्तवृत्तियों, या नाना कर्मों या प्राणगण या लिंग शरीरों को वश करता हुआ (पशु-वर्धनाय) इन्द्रिय रूप पशुओं की शक्ति को बढ़ाने के लिये (मन्म) मनोमय संकल्पमय (ब्रजं) गमन या प्राप्त करने योग्य परमपद, आत्मस्वरूप ब्रह्म में (पवते) प्रवेश करता है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[५४०] इन्द्रुर्वाजी पवने गोन्याघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
हन्ति रक्षो वाधते पर्यराति वरिवस्कृण्वन्वृजनस्य राजा ॥॥
ऋ० ६ । ६७ । १० ॥

भा०—(वाजी) ज्ञान और बल से सम्पन्न (इन्द्रुः) हृदय में द्रवणशील (सोमः) आत्मानन्दरस (मदाय) आनन्द हर्ष की वृद्धि करने के लिये (सहः) सहन करने योग्य बल को (इन्द्राय) आत्मा में (इन्वन्) प्रेरित करता हुआ (गो-नि-ओघा) रश्मियों या ज्ञान वाणियों, स्तुतियों को नीची तरफ बहाने वाला होकर चन्द्र के समान अथवा दुग्ध-मिश्रित सोमरस के समान (पवते) क्षरित होता है । उस समय वह आनन्दरस (रक्षः) आत्मोल्लासि के बाधक, विघ्न करने वाले, कारण को भी (वाधते) दूर करता है और (अरारति) प्रिय न लगाने वाले अप्रिय कारण को (परि वाधते) दूर करता है । (वृजनस्य) समस्त बल का (राजा) स्वामी होकर वही (वरिवः) चरणीय आत्मगुप्त धन, अणिमादि सिद्धि और नवतुष्टियों को (कृण्वन्) प्रकट करता है ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[५४१] अथा पवा पवस्वैना वलूनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्रधन्व ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ १ ३ १ २ ३ २ २
ब्रधश्चिद्यस्य वातो न जूर्ति पुरुमथाश्चित्तकव नरं धात् ॥६॥
ऋ० ६ । ६७ । १२ ॥

५४०—'पर्यरातीवरिवः' इति ऋ० ।

५४१—'ब्रधश्चिद्यस्य वातो न जूर्ति' इति ऋ० ।

भा०—हे (इन्दो) हृदय में बहने वाले आनन्दरस ! (अया) इस (पवा) पवित्र करने हारी धारा से (एना) इन (वसूनि) वास या जीवन के साधन प्राण या ऐश्वर्यों को (पवस्व) प्रेरित कर, प्रकट कर । हे (इन्दो) सोम ! (सांश्रत्वे) मन के एकमात्र गमनस्थान, मनोहर (सरसि) जलाशय में जल के समान, कलश में ओपधि रस के समान, मानस हृदय में (प्रधन्व) द्रवित हो । (यस्य) जिस तेरे (जूर्ति) वेग को (ब्रध्नः) सूर्य के समान रश्मियों और आकर्षण से अपने साथ इन्द्रियों को बांध रखने वाला आत्मा (चित्) भी (वातः न) वायु के समान (धात्) धारण करता है और (पुरुमेधाः) नाना प्रकार की धारणावती बुद्धियों का मालिक, साधक (नरं) नायक आत्मा को (तक्वे) परमपद तक पहुंचने के लिये (धात्) धारण करता है ।

ब्रध्नः—बध्नातेरौणादिर्नक्, बन्धेश्च ब्रध्नादेशः (उणा० ३ । ५)

उ२२ २२ ३ १ २ २ ३ १२ २२ ३ २
[५४२] महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत दवान् ।

१२ ३ २ २ १ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

अदधादिन्द्रं पवमानं ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥

ऋ० ६ । ६० ४१ ॥

भा०—(महिषः) महान् आत्मा (महत्) बड़ा भारी कार्य तो (तत्) यह (चकार) करता है (यद्) कि (अपां गर्भः) सब कर्मों प्रज्ञाओं और प्राणों को अपने भीतर ग्रहण करने में समर्थ होकर (देवान्) सब इन्द्रियों को (अवृणीत) अपने भीतर छुपा कर आवृत करके सुरक्षित रखता है । (पवमानः) व्यापनशील प्राण (इन्दे) आत्मा में (ओजः) बल और तेज (अदधात्) प्रदान करता है (यत्) जिससे (इन्दुः) शरीर में व्यापक एवं द्रवणशील वीर्य, (सूर्ये) सन्नके प्रेरक और उत्पादक सूर्य रूप मुख्य प्राण में (ज्योतिः) प्रकाश, कान्ति, को (अजनयत्) उत्पन्न करता है ।

१ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
 [५४३] असर्जि वक्त्रा रथ्ये यथाजौ धिया मनीषा प्रथमा मनीषा ।

२ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 दश स्वसारो अधि सानो अग्ने मृजन्ति वाङ्मे सदने वच्छ्वा ॥१॥

श्र० ११ । ६१ । १ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (रथ्ये) रथों से विजय करने योग्य (आजौ) संग्राम में (धिया) प्रज्ञा और कर्म के विचारपूर्वक (वक्त्रा) सबको वचनोपदेश या आज्ञा करने वाला सेनापति (असर्जि) नियत किया जाता है, उसी प्रकार इस (रथ्ये) शरीर—साधना योग्य अथवा परमरस के प्राप्त करने वाले एक से दूसरे देह में जान वाले आत्मा के हितकारी (आजौ) योग साधनों के यज्ञ रूप संग्राम में (धिया) ध्यान, धारणा द्वारा (वक्त्रा) श्लोक आदि जप और स्तुति मन्त्रों को बोलने वाला साधक ही (असर्जि) सेनापति के रूप में नियत किया गया है। वह स्वयं (प्रथमा) सब से श्रेष्ठ, (मनीषा) मन या मनन करने वाले साधन की ईषा-प्रेरणा, चेष्टा की आश्रय चित्त शक्ति है जिसमें (मनोता) मनकी सब वृत्तियां श्रोत प्रोत हैं। (अधि सानो) अति उन्नत प्रदेश में—(दश स्वसारः) दश बहनों के समान एक ही आश्रय रूप आत्मा के अधीन स्वयं सरण करने वाली दश प्राण वृत्तियां (वङ्घ्रि) सबके बहन करने वाले आत्मा को (मृजन्ति) परिष्कृत, सुशोभित करती हैं और (सदनेषु) अपने २ स्थानों में (अच्छ्वा) प्राप्त होती हैं।

३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[५४४] अपामिवेदूर्मयस्तर्तुराणाः प्र मनीषा इरते साममच्छ्वा ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम् १२॥

श्र० ६ । १५ । ॥

भा०—(मनीषाः) मनन करने वाले आत्मा की ईषा अर्थात् चेष्टा करने वाली, ध्यानवृत्ति ही (अपां ऊर्मय इव) जलों की तरङ्गों के समान,

प्राणों की तरङ्ग (तर्जुराणाः) अति वेगवती होकर (सोमं) आनन्द-
रस रूप आत्मा को (अच्छ) उत्तम रीति से (प्र-ईरते) द्रवित
करती है । वे ध्यानमयी बुद्धिवृत्तियां ही (नमस्यन्तीः) उस आत्मा को
आदर से नमस्कार करती हुई, उसके प्रति मुकती हुई, अन्तर्मुख होकर
(उशान्तम् उशतीः) कामनायुक्त प्रेमी को प्रेम करने वाली प्रियतमाओं के
समान, मानो स्वयं कामना वाली होकर, या प्रकाशस्वरूप तेजोधारा के
समान चमकती हुई स्वयं वे (उशान्तम्) प्रकाश के पुंजस्वरूप आत्मा को
ही प्रियतम के समान प्राप्त कर उसमें ही (सं विशन्ति च) लीन हो
जाती हैं, उसके संग सो सी जाती हैं । और (आ च विशन्ति) उसी रूप
में प्रकट होती हैं, तन्मय हो जाती हैं ।

इति पञ्चमी दशतिः । सप्तमः खण्डः ।

इति प्रथमोऽर्धः प्रपाठकः ।

॥८० ६॥ ऋषिः— १ आन्धीगुः श्यावाश्विः । २, ३ ययातिर्नाहुपः । ४ मनुः सांवरणः ।
५, ८ अश्वरीपश्रुजिधानो । ६, ७ ऋभसनुः काण्यपौ । प्रजापतिर्वाश्यः ॥
पवमानो दवता ॥ छन्दः— १— ६, ६ अनुष्टुप् । ७ बृहती ॥ स्वरः—
१-६, ८, ६ गान्धारः । मध्यमः ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[५४५] पुरोजिती वा अन्धसः सुताय मादयित्नवे ।

अप श्वानं श्रथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वयम् ॥ १ ॥

अ० ६ । १०१ । १ ॥

भा०—हे (सखायः) मित्रो ! (वः) आप लोग (पुरोजिती) आगे
बहिर्मुखता को विजय करने हारी (अन्धसः) जीवन को धारण करने वाली
शक्ति से सम्पन्न सोम के (सुताय) उत्पन्न, (मादयित्नवे) अतिपरम आनन्द-
जनक रस को प्राप्त करने और उसकी रक्षा के लिये (दीर्घजिह्वयम्) लक्ष्मी

जीभ वाले, दूर तक विषय-रस लेने हारे । अतिनृणालु इस (श्वानम्) कुक्कुर के समान लोभी, भोगी मनको (अपश्चाथिष्टन) विषयों के रस से दूर रख कर शिथिल करो ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[५४६] अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्पति ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २ ॥

श्र० ८ । १०१ । ७ ॥

भा०—(पूषा) पुष्टिकारक, (भगः) सच के भजन सेवन योग्य, कल्याणकारी, ऐश्वर्यवान्, (रयिः) कांतिजनक, परम धनस्वरूप (अयं) यह (सोमः) परमानन्द (पुनानः) सब वाद्याभ्यन्तर को पवित्र करता हुआ या स्वयं-शुद्ध पवित्र रूप में प्रकट होता हुआ (अर्पति) द्रवित होता है । (विश्वस्य) समस्त (भूमनः) विशाल, भूमास्वरूप आत्मा का (पतिः) पालक होकर (रोदसी) घौं और पृथिवी दोनों को (विअख्यत्) अपने तेज से प्रकाशित करता है ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[५४७] सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

पवित्रवन्तो अक्षरन् देवान् गच्छन्तु वो मदाः ॥३॥

श्र० ९ । १०२ । ४ ॥

भा०—(मधुमत्तमाः) आत्मारसानुभव से युक्त (मन्दिनः) आनन्द और हर्ष के जनक (सुतासः) तैयार किये, प्रकट हुए (सोमाः) परमानन्दरस और विद्वान् जन (पवित्रवन्तः) पवित्रस्वरूप को धारण करने वाले, दीप्तिदशा में वर्तमान (इन्द्राय) आत्मा के लिये (अक्षरन्) चरित होते हैं । हे सोमरसो ! (चः) तुम्हारे (मदाः) आनन्द, हर्ष (देवान्) इन्द्रियगण या विद्वान् जनों को (गच्छन्तु) प्राप्त हों जिससे वे अन्तर्मुख हो जायें ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[५४८] सोमाः पवन्त इन्द्रवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ ४ ॥

ऋ० ९। १०१। १० ॥

भा०—(गातुवित्तमाः) मार्ग को उत्तम रीति से जानने हारे, (इन्द्रवः) आत्मा के प्रति साक्षात् द्रवित होने वाले, कान्तिस्वरूप, (सोमाः) ब्रह्मरस या योगीजन (मित्राः) हृदय अन्तःकरण के या सब के मित्र, (अरेपसः) निर्दोष, निर्मल, निष्पाप, (स्वाध्यः) उत्तम ध्यानयोग के साधक (स्वर्विदः) प्रकाश के प्रापक, सर्वज्ञता के दायक, (स्वानाः) प्रकट होते हुए (पवन्ते) चरित होते या विचरते हैं ।

सोमरस, आत्मानन्द और योगियों का समानरूप से वर्णन है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[५४९] अभी नो वाजसातमं रयिमर्षं शतस्पृहम् ।

१ २ ३ १ २

३ १ २ ३ १ २

इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम् ॥ ५ ॥

ऋ० ९। १०८। १ ॥

भा०—हे (इन्दो) दीप्यमान ! सोम ! विद्वन् ! (नः) हमें (वाजसातमं) अन्न, ज्ञान, बल को देने वाले, (शतस्पृहं) सैकड़ों की अभिलाषा के पात्र, (सहस्रभर्णसं) सहस्रों का भरण पोषण करनेहारे, (तुविद्युम्नं) बहुत ऐश्वर्य या तेज से सम्पन्न (विभासहम्) विशेष दीप्ति को भी मात करने वाले (रथिं) उस दिव्य धन आत्मा का (अभि अर्पं) प्रकाश कर, उसको प्राप्त कर, उस तक पहुँच ।

५४८—सुवानाः, इति ऋ० ।

५४९—‘अभि’ ‘पुस्सृहम्’ ‘विम्भासहम्’ इति ऋ० ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २
 [५५०] अभी नवन्ते अट्टहः प्रियामेन्द्रस्य काम्यम् ।

३ २ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २
 वत्सं न पूर्वं आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥ ६ ॥

अ० ६ । १० । १ ॥

भा०—(मातरः) गौपं, मातापं (पूर्वं आयुनि) पूर्व, बाल अवस्था में (जातं) नये उत्पन्न हुए (वत्सं) बच्चे को (न) जिस प्रकार (रिहन्ति) चारती हैं, स्नेह से चूमती हैं, उसी प्रकार (अट्टहः) समस्त संसार के प्राणियों के प्रति द्रोह का त्याग करनेहारे, अहिंसा के पालक, साधक (इन्द्रस्य) भीतरी आत्मा के (काम्यं) अत्यन्त कामना या स्नेह के विषय, जीवनरस के (अभी नवन्ते) निमित्त झुकते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको स्नेह करते हैं । योग के प्रथम अंग अहिंसा का निरूपण किया है ।

‘अहिंसा, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः । इति व्यासभाष्यम् । अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः सर्वप्राणिनां भवति’ । (यो० सू० । व्या० भा०) सब कालों में सब प्रकार से प्राणियों का द्रोह न करना अहिंसा है । अहिंसा पालन से समस्त प्राणी वैर त्याग देते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [५५१] आ हर्यताय धृष्णवे धनुष्ट्वन्ति पौंस्यम् ।

३ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ १ २ २ १ २ ३ १ २

शुक्रां वियन्त्यसुराय निर्णिजे प्रियामग्रे महायुवः ॥ ७ ॥

अ० ६ । ६६ । १ ॥

भा०—(हर्यताय धृष्णवे) अति प्रेमयुक्त राजा के लिये जिस प्रकार उसके सैनिक (पौंस्यं धनुः तन्वन्ति) बलयुक्त धनुष तानते हैं, जी-जान से शत्रु पर प्रहार करते हैं उसी प्रकार विद्वान्जन (हर्यताय) सबके अभिलाषा के योग्य कमनीय (धृष्णवे) सब वृत्तियों को दबाने हारे, उस सोम अर्थात् आत्मा के हित के लिये (पौंस्यं) मर्दानगी दर्शाने वाले (धनुः)

धनुष. कामरूप धनु को (तन्वन्ति) साधते, चश करते हैं । अथवा परम पुमान् परमेश्वर के नाममय श्रौंकाररूप धनुष को तानते हैं उसका जप और मनन करते हैं । और (महीयुवः) महत्व की आकांक्षा करने हारे साधक (विपाम् अग्रे) विद्वान् मेधावी पुरुषों के समस्त (असुराय) प्राणों के पेरक इस आत्मा के (निखिजे) स्वरूप को शोधन करने के लिये (वि यन्ति) विशेष रूप से जाते हैं । पौंस्य धनुष का तानना=ब्रह्मचर्य का पालन और विद्वानों के पास जाना=स्वाध्याय है ।

ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियोपस्थसंयमः । ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । यस्व-
लाभाद्भ्रतिवान् गुणान् श्रणिमादीन् उत्कर्षयति । सिद्धश्च त्रिनेयेषु ज्ञान-
माधातुं समर्थो भवति (व्यासभाष्ये) । स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः (यो०
सू०) तस्य वाचकः प्रणवः । २७ । तज्जपस्तदर्थभावनम् । २८ । ततः प्रत्यक्
चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ उपस्थ इन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है ।
इससे वीर्य प्राप्त होता है । इससे अखण्ड बल प्राप्त होता है इसी के बल
पर आचार्य शिष्यों में ज्ञान स्थापन करता है । स्वाध्याय से परमेश्वर में
भक्ति होती है । 'ओ३म्' परमेश्वर का नाम है । उसकी भावना से शक्ति
आत्मा का साक्षात् होता और सब विघ्न दूर होते हैं ।

२३ १ २ ३१२ २२ १ ३ २ ३ १ २

[५५२] परि त्यं हर्यतं हरिं वभ्रुं पुनन्ति वारेण ।

३ २३ ३ २३ ३ १ २ ३१२ २२

यो देवान् विश्वाँ इत्परि मदन सह गच्छति ॥ ८ ॥

ऋ० ६ । ६० । ७ ॥

भा०—(हर्यतं) सब के मनो को हरनेवाले अति कान्तियुक्त (हरिं)
सर्वव्यापक, सब दुःखों के हरणकारी (वभ्रुं) कान्तिमान्, सबके भरण
पोषण करने हारे, (त्यं) उस आत्मा को (वारेण) वरण करने वाले
भीतरी अन्तःकरण द्वारा या दोषों का वारण करने वाले प्रतिपक्ष-भावना
या वितर्क-बोधन द्वारा स्वच्छ करते हैं । (यः) जो आत्मा (विश्वान्

देवान्) समस्त देवों, इन्द्रियगण को भी (मदेन) आनन्द-रस के (सह) साथ (परि गच्छति) भर देता है, प्राप्त होता है ।

वितर्कनाधने प्रतिपत्तभावनम् । वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपत्त-
भावनम् । (यो० सू० २ । ३३, ३४) । प्रतिपत्तभावना से वितर्कों के नष्ट
होजाने पर योगी को सिद्धि के शीघ्र ही लक्षण प्रकट होते हैं ।

१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२

[५५३] प्रसुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १२ २२

अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥ ६ ॥

श्र० ६ । १०१ । १३ ॥

भा०—(अन्धसः) अज्ञान अन्धकार के नाश करने वाले, परमा-
नन्दस्वरूप सोमरस को (प्रसुन्वानाय) उत्पन्न करने हारे साधक के लिये
प्रकट हुई (तत् वचः) उस सोम की अनाहत वाणी को (मर्तः) साधारण
मरणधर्मा पुरुष जिसको अमृत, सोमरस प्राप्त नहीं हुआ, वह (न वष्ट)
नहीं प्राप्त कर सकता । (भृगवः) ज्ञानाग्नि से अज्ञान और पाप को भून डालने
वाले ज्ञानी लोग जिस प्रकार (मखं न) कर्मकारण को दूर कर देते हैं
उसी प्रकार (अराधसं) साधना न करने हारे, (श्वानं) कर्मफल के लोभी
कुकुर के समान, त्यक्तभोगों को पुनः २ चाहने वाले, चान्ताशी, चित्त कां
(अप हत) मारो ।

इति षष्ठी दशतिः । अष्टमः खण्डः ।

॥ ६० ७ ॥ ऋषिः—१—३, ५ कविभार्गवः । ४ ऋषिगणः । ६ सिकता निवा-
वरीः, खि [ऋषि] गणो (?) वा । ७ वेणुर्वैश्वामित्रः । ८ वेनो भार्गवः । ९ भारद्वाजो
वसुः । १० वत्सः । ११ अत्रिर्भौमः । १२ पवित्र आङ्गिरसः । पवमानो देवता ॥

जगती ॥ निषादः ॥

५५३—'प्र सुन्वानस्य' 'वृत्ततद्वचः' इति श्र० ।

उ २ ३ १ २ . ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३
 [५५४] अभि प्रियाणि पवतं चनोहितो नामानि यद्दो अधि येपु
 १ २ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 वर्धते : आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधिरथं विष्वञ्चमरुहद्वि-
 २ ३
 चक्षणाः ॥ १ ॥ ऋ० ६। ७५। १ ॥

भा०—(चनोहितः) पाकयोग्य अन्न के समान प्रवचन करने योग्य परिपक्व ज्ञान के निमित्त धारण किया गया, (यद्दोः) महान् आत्मा (येपु) जिन विशेष गुणों के आधार पर (अधि वर्धते) समस्त प्रजाओं के हृदयों में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उन सब (प्रियाणि) अत्यन्त प्रिय (नामानि) नामो, या विशेषणों या सबको नमाने वाले महान् कर्मों में (अभि पवते) साक्षात् रूप से प्रकट होता है। वही (बृहतः) सबको बढ़ाने वाले (सूर्यस्य) सबके प्रेरक परमात्मा के बनाये (विष्वञ्चं) समस्त प्राणियों को प्राप्त होने वाले (रथं) इम देह-रथ को (विचक्षणाः) साक्षी, दृष्टास्वरूप होकर (अधि-आ-अरुहद्) अधिरोहण करता है, उस पर शासन करता और उसका भोग करता है।

उ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [५५५] अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्देवेषु हरयः ।
 १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
 वि चिदश्नाना इषयो अरातयोर्यो नः सन्तु सनिपन्तु नो
 १ २
 धियः ॥ २ ॥ ऋ० ६। ७६। १ ॥

भा०—(हरयः) स्वयं हरणशील, गतिशील, (अचोदसः) बिना किसी के बाह्य बल के स्वयं प्रेरित (इन्दवः) ऐश्वर्यवान् जीव, (स्वानासः) प्रकृष्ट रूप से प्रकट हुए (देवेषु) देवों, दिव्यगुणयुक्त विद्वानों या इन्द्रियों के बीच में (नः) हमें (बृहत्) खूब (धन्वन्तु) प्राप्त हों और (नः) हमारे (अर्यः) अरि-शत्रुस्वरूप, (अरातयः) सुख, काव्यफल के न देने

५५५—'प्रसुवानासो बृहद्विेषु हरयः । विचनसन्न इषे अरातयाऽर्यो नशन्त सनि-
 पन्त नो धियः' इति ऋ० ।

वाले (इष्यः) केवल कामोपभोग या अन्न की कामना करने वाले, कामी, तृष्णालु इन्द्रियगण (अभ्यानाः) भोग करते हुए (वि चित्) न (सन्तु) रहें । (नः) हमें (धियः) उत्तम ध्यानवृत्तियों, ज्ञान और उत्तम कर्मों का (सनिपन्तु) प्रदान करें ।

३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[५५६] पप प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रद्विन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः।

३ २ १ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अभ्यन्तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्पन्ति पयसा

३ १ २
च धेनवः ॥३॥ ऋ० ६ । ७७ । १ ॥

भा०—(एषः) यह सोम (इन्द्रस्य) आत्मा के (वज्रः) वज्र के समान सब विघ्नो और पापों का नाशक (वपुषः) वीजों को चपन करने हारे से भी अधिक (वपुष्टमः) चीज चपन करने वाला, चीर्यवान् (कोशे) हृदय कोश, आभ्यन्तर मनोमय कोश के बीच में (मधुमान्) ब्रह्मानन्द के मधुर रस से पूर्ण (प्र-अचिक्रद्विन्द्रस्य) उत्कृष्ट रूप से अनाहत नाद उत्पन्न करता है । जिस प्रकार (वाश्राः) हम्भारच करती हुई (सुदुघाः) उत्तम दूध देने वाली (धेनवः) दूध पिलाने वाली गौएं (पयसा) दूध से (अर्पन्ति) धाराएं बहाती हैं उसी प्रकार ये (घृतश्चुतः) कान्ति की धाराएं बहाने वाले (ऋतस्य) ज्ञान के (सुदुघाः) दोहने वाले परमानन्दरस (च) भी (अर्पन्ति) हृदय में चरित होते हैं, प्रकट होते हैं ।

'ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा' । (पात० सू०)

[५५७] प्रो अयालीविन्द्रुरिन्द्रस्य निष्कृत सखा सख्युर्न प्रभिनाति

३ १ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

सङ्गिरम् । मथ इव युवातिभिः समर्पति सामः कलश

३ १ २ ३ २

शतयामना पथा ॥५॥ ऋ० ९ । ७६ । १ ॥

५५६—'वपुषो वपुष्टरः' 'अभीमृतस्य' 'पयसव' इति ऋ० ।

५५७—'शतयामना' इति ऋ० ।

भा०—(इन्दुः) प्रकाशमय जीव, आत्मा (इन्द्रस्य) इन्द्र परमेश्वर का (सखा) समान नाम रूप धारण करने वाला उसके (निष्कृतं) पद, ज्ञान, स्थान, मोक्ष को भी (अयासीद्) प्राप्त हो जाता है तो भी (सख्युः) अपने सखा परमात्मा की (संगिरं) उत्तम वेदवाणी, आज्ञा या शक्ति को (न) नहीं (प्र मिनाति) पार करता, नहीं मापता, नहीं उल्लंघन करता । वह (सोमः) सोम्य स्वभाव होकर (युवतिभिः) युवा स्त्रियों के साथ (मयं इव) जिस प्रकार मर्द, युवा पुरुष (सम् अर्पति) संग करता है उसी प्रकार वह अपनी (युवतिभिः) सदा साथ रहने वाली प्राण और ज्ञानवृत्तियों सहित (शतयामना) सैकड़ों प्रकार से जाने योग्य (पथा) मार्ग से (कलशं) पौढ़श-कलासम्पन्न ब्रह्म या आनन्दमय कोश में (सम् अर्पति) विचरण करता है ।

[२५८] ^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} धर्त्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसा दत्ता देवानामनुमाद्यो नृभिः
^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} हरिः सृजाना अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजांसि कृणुपे
^{३ २} नदीष्व ॥५॥ अ० ६ । ७६ । १ ॥

भा०—(दिवः) द्यौलोक के समान देहमें मूर्धाभाग, या प्रकाशरूप सूर्य या ज्ञान का (धर्त्ता) धारण करने वाला (कृत्व्यः) योग साधनों द्वारा उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, (रसः) आनंदरस स्वरूप (देवानाम्) ३३ देवों इन्द्रियों और विद्वानों का (दत्तः) बलदाता, (नृभिः) मनुष्यों द्वारा (अनुमाद्यः) हर्ष प्राप्त करने योग्य, (अत्यः न) गमन करने हारे अश्व या आत्मा के समान (सत्वभिः) अपने सात्विक विभूतियों द्वारा (नदीषु) अपनी अनाहत नाद करने वाली धाराओं में, नदियों में जल के समान (वृथा) बिना प्रयत्न के, स्वभावतः (पाजांसि) नाना प्रकार के बल (कृणुपे) प्रकट करता है ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २
 [५५६] वृषामतीनां पत्रने विचक्षणः सोमो अह्ना प्रतरीतोपसां
 ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 दिवः । प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रद्दिन्द्रस्य हाद्यां
 ३ १ २ ३ १ २
 विशन्मर्नापिभिः ॥६॥ * ऋ० ६ । ६६ १ ॥

भा०—(वृषा) सुखों का वर्षण करने वाला (सोमः) सोम (मतीनां) मनन शक्तियों या ज्ञान वृत्तियों को (विचक्षणः) विविध प्रकार से साक्षात् करने वाला (अह्नां) दिनों, (दिवः) आकाश और (उपसां) प्रभात वेलाओं के समान, प्राणों, मूर्धाभाग और तेज दासियोंके (प्रतरीता) खूब बढ़ाने वाला (सिन्धूनां) देह की नाड़ियों में (प्राणा) जीवन सञ्चार करने वाला आनन्दरस (इन्द्रस्य) आत्मा के (हाद्रिं) हृदय में (मनीपिभिः) मन की प्रेरणाओं द्वारा (आविशन्) प्रवेश करता हुआ (अचिक्रद्) भीतर २ नाद करता है ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [५६०] त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि ।
 ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २
 चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवद्धत ७
 ऋ० ६ । ७० । १ ॥

भा०—(यद्) जब (ऋतैः) सत्य ज्ञानों से आत्मा स्वयं (अवर्धत) समृद्ध हो जाता है तब (अस्मै) इस के लिये (सप्त) सात (धेनवः) रसपान कराने वाली गौवों के समान ये सात इन्द्रियां जो मस्तक के सात छिद्रों में विराजमान हैं (परमे) सब से उत्कृष्ट (व्योमनि) अपने रक्षास्थान मूर्धा, या ब्रह्माण्ड कपाल में विराजमान होकर (सत्याम्) सत्यस्वरूप, यथार्थ (आशिरं) ज्ञानधारा को (त्रिः) ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों प्रकारों से (दुदुहिरे) दोहन करता है । और (अन्या) अन्य (चत्वारि भुवनानि) चारों देह के भागों या अवस्थाओं को (निर्णिजे)

परिशोधन करने के लिये वह (चाखण्डि) उत्तम कान्ति और बल से युक्त कर देता है ।

[५६१] ^{१ २ ३ १२ ३ १२ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ २} इन्द्राय सोम सुषुतः परिस्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह ।
^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविना द्रविणस्वन्त इह सन्तिवन्दवः ॥८॥
 अ० ९ । ८५ । १ ॥

भा०—हे (सोम) ब्रह्मानन्दरस ! (सुषुतः) उत्तम रीति से उत्पन्न होकर तू (इन्द्राय) आत्मा के लिये (परिस्रव) वह, प्रकट हो (अमीवा) शरीरगत रोग (रक्षसा) मनोगत बाधक विघ्नों के (सह) साथ (अप भवतु) दूर हो । (द्वयाविनः) अमीवा और रक्षः अर्थात् शरीरगत रोग और मन की कुटिलता दोनों से भरे हुए पापी लोग (ते रसस्य) तेरे रस को (मा मत्सत) पाकर कभी प्रसन्न न हों । (इह) इस योगसाधना में (इन्दवः) अन्तःकरण में प्रकट होने वाले रस (द्रविणस्वन्तः) द्रुत गति वाले होकर बहते (सन्तु) रहें ।

[५६२] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ ३ २ ३ १ २} असावि सोमा अरुपा वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा
^{२२ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २२} अचिक्रदत् । पुनानो वारमत्यंप्यव्यं श्येनो न योनिं
^{३ १ २ ३ १ २} घृतवन्तमासदत् ॥ ६ ॥
 अ० ६ । ८२ । १ ॥

भा०—(राजा इव) राजा के समान (दस्मः) दर्शनीय, सबका शरण्य, (अरुपः) अरुणवर्ण, देदीप्यमान, कान्तिमान्, (वृषा) मेघ के समान सुखों का चर्पक, (हरिः) सबको हरण करने वाला, या सर्वव्यापक नेता, (सोमः) योगी आत्मा (असावि) तय्यार किया गया है । जो (गा अभि) इन्द्रियों, वाणियों और जलों के प्रति (अचिक्रदत्) अपना नाद करता है । और (पुनानः) प्रकाशमान होता हुआ (अव्ययं) कभी

क्षीण न होने वाले, अभेद्य (वारं) निवारक, रुकावट को भी (अति-पिपि) पर कर जाता है । और (श्येनः न) गतिशील आत्मा वाज के समान अपने (घृतवन्तं) अत्यन्त दंति युक्त (योगिं) मूलकारण, आश्रय परमेश्वर को (आसदत्) प्राप्त करता है ।

३२३ ३ १२ ३ २ ३१ २ ३ २ ३ २४
 [५६३] प्र देवमच्छा मधुमन्न इन्द्रवाऽसिप्यदन्त गाव आ न
 ३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२
 धेनवः । वहिषदो वचनवन्त ऊधभिः परि स्तुतुस्त्रिया
 ३ १२
 निर्णिजं धिरे ॥ १० ॥ ऋ० ६ । ६८ । १ ॥

भा०—(मधुमन्तः) मधुर रस वाले, ब्रह्मज्ञानी (इन्द्रवः) सौम्य-गुणसम्पन्न, सबके आल्हादक, ब्रह्म की तरफ जानेहारे योगी, (धेनवः गावः न) दूध देनेहारी गौएं जिस प्रकार अपने बच्चे के प्रति (प्र असिप्यदन्त) अपना दूध प्रवाहित करती हैं उसी प्रकार (देवं) प्रकाशस्वरूप उपास्य देव के प्रति (अच्छा) साक्षात् (प्र-असिप्यदन्त) गति करते हैं । और वे (वहिषदः) महान् ब्रह्म में रमण करने वाले, (वचनवन्तः) वेदवाक्यों का अनुमरण करने हुए, (ऊधभिः, ऊध्वे, सूर्यस्थान में आनन्दरस धारण करने हारे स्थानों से (परिस्तुतं) चुपे हुए (निर्णिजं) अति शुद्ध पवित्र आनन्दरस को (उस्त्रियाः) सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान होकर (धिरे) धारण करते हैं, या पान करते हैं ।

१ २ ३क २२ ३ १२ ३ १२ ३ २ ३क २२
 [५६४] अञ्जत व्यञ्जते समञ्जते ऋतुं रिहन्ति मध्वाऽभ्यञ्जते ।
 १ २ ३ २ ३ १२ ३ १२ ३ २ ३ २ ३ १
 निन्त्रोरुऽच्छ्वांस पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु
 २
 गृभ्णते ॥ ११ ॥ ऋ० ९ । ४६ । ४६ ॥

५६३—'वचनावन्त' इति ऋ० ।

५६४—'मध्नाऽभ्यञ्जते', 'पशुमासु' इति ऋ० ।

भा०—योगी, साधक, भक्तजन (अञ्जते) साक्षात् करते हैं, (वि-
अञ्जते) उसको नाना प्रकार से प्रकट करते हैं (सम्-अञ्जते) उसमें
उत्तम रीति से अपने को लीन करते हैं, तब (क्रतुं) कर्म करनेहारे आत्मा
के आनन्द को (रिहन्ति) आस्वादन करते हैं, उसका रस लेते हैं, उसको
सतृप्य हृदयों से पान करते हैं । (मध्वा अभि-अञ्जते) उसको भीतरी
आनन्दरस के साथ एकरस कर लेते हैं । वे (हिरण्यपावाः, ज्ञान से आत्मा
को परिष्कार करने वाले (सिन्धोः) समुद्र के समान सर्वत्र गतिशील, या
कर्मबन्धनों से बंधे जीवों को धारण करनेहारे आनन्द के अगाध सागर
परमात्मा के (उत्-श्वासे) अपनी ओर ऊपरकी तरफ प्रबल श्वास या प्राण
के आकर्षण शक्ति में (पतयन्तं) गति करते हुए (उच्चयं) आनन्दवर्षी
(पशुम्) दृष्ट जीव को (अप्सु) अपने ही प्रज्ञानों में (गृभ्यते) ग्रहण करते
हैं, ज्ञान करते हैं । अथवा (सिन्धोः) गतिशील प्राणों के (उच्छ्वासे)
ऊर्ध्व अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र की ओर की गति में (पतयन्तं उच्चयं पशुं) धावन
करते हुए आनन्दवर्षी दृष्ट जीवात्मा को (हिरण्यपावाः) हिरण्यमय, दीप्ति-
मान् ढकने को भी पार करने हारे साधक (अप्सु गृभ्यते) अपने ही
प्रज्ञानों या प्राणों के बीच में साक्षात् करते हैं ।

३ १ २ ३ १ २

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[५६५] पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगात्राणि पर्येषि विश्वतः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २


अतस्तनूर्न तदामो अश्नुते श्रुतास इद्वहन्तः सं तदाशत ॥ १२ ॥

अ० ९। ८३। १ ॥

भा०—हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानरूप ब्रह्म के स्वामिन् ! प्रभो ! (ते)
तेरा (पवित्रं) पवित्र ज्ञान (विततं) बड़ा विस्तृत, सर्वत्र व्यापक है ।
(प्रभुः) प्रकृष्ट सामर्थ्यवान् आप (विश्वतः) सब प्रकार से (गात्राणि)

सत्र देहों में (परि-एषि) व्यापक हो । (अतसतनूः) इस शरीर को तप-
स्याओं, योगसाधनाओं द्वारा तप्त न करने वाला तपहीन (आमः) कच्चा पुरुष
(तद्) उस तेरे पवित्र ज्ञानमय स्वरूप को (न अश्नुते) नहीं प्राप्त
करता । (श्रुतासः) तपोमय अग्नि में परिपक्व विद्वान् (इत्) ही (वहन्तः)
ज्ञान को स्वयं धारण करने हारे (तद्) उस सुख को (सम् आशत)
उत्तम रीति से प्राप्त करते और भोगते हैं ।

इति सप्तमी दशतिः । नवमः खण्डः ।



॥ द० ८ ॥ ऋषिः—१, ७, ११ अग्निश्वाशुयः । २ चक्षुर्मानवः । ३, ४, ९, १०
पर्वतनारदौ काश्यप्यावप्सरसौ वा । ५ त्रित आप्त्यः । ६ मनुराप्सवः । ८, १२

द्वित आप्त्यः । इन्द्रो देवता । उष्णिक् । ऋषभः ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६६] इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

श्रुष्टे जातास इन्द्रवः स्वर्विदः ॥ १ ॥ ऋ० ९ । ५८ । १ ॥

भा०—(इमे) ये (सुताः) उत्पन्न किये हुए (हरयः) हरणशील,
मनोहर (श्रुष्टे जातासः) व्यापक आत्मा में प्रादुर्भाव हुए, या सुखस्वरूप
ईश्वर में लीन हुए, (स्वर्विदः) प्रकाश, ज्ञान, और आनन्द का लाभ करनेहारे,
(इन्द्रवः) सौम्य गुण वाले, साधक योगी (वृषणं) सुखों के वर्षक
(इन्द्रम्) उस परमात्मा को (अच्छ यन्तु) भली प्रकार प्राप्त होते हैं ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ १ २

[१६७] प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

द्युमन्तं शुष्ममाभरे स्वर्विदम् ॥ २ ॥ ऋ० ६ । १०६ । ४ ॥

भा०—हे (सोम) सौम्यगुण वाले ! (इन्दो) ईश्वर के प्रति रस
प्रवाह के समान गति करनेहारे साधक ! (जागृविः) जागरणशील, कभी

आलस्य तन्द्रा को न प्राप्त होकर, (इन्द्राय) उस ईश्वर या आत्मा को लक्ष्य करके (परिस्रव) बढ़, आगे बढ़ ! (द्युमन्तं) कान्तियुक्त, (स्वर्विदम्) समस्त पदार्थों का ज्ञान लाभ कराने वाले (शुष्मम्) आत्मज्ञान रूप बल को (आ भर) सञ्चित कर ।

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

[५६८] सखाय आ निपीदत पुनानाय प्रगायत ।

३ २ ३ १ २ २ ३ २

शिशुं न यज्ञैः परिभूषत श्रियं ॥३॥ ऋ० ६ । १०४ । १ ॥

भा०—हे (सखायः) मित्रगण ! (आ निपीदत) आओ बैठो । (पुनानाय) योग-साधन द्वारा अपने त्रिविध मलों का शोधन करनेहारे आत्मा के विषय में (प्र गायत) उत्तम रूप से सत् स्तुति करो उसका वर्णन करो । और (शिशुं न) जैसे बालक को (श्रिये) मात्र शोभा के लिये सजाते हैं उसी प्रकार उस (शिशुम्) सबके भीतर शयन करने हारे आत्मा को (यज्ञैः) ज्ञान और कर्म दोनों प्रकार के यज्ञों द्वारा (श्रिये) आत्म सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये (परि भूषत) सब प्रकार से अलंकृत करो, उसकी शोभा बढ़ाओ ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[५६९] तं वः सखायो मदाय पुनानमभिगायत ।

३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

शिशुं न हव्यैः स्वद्यन्त गूर्त्तिभिः ॥४॥ ऋ० ६ । १०५ । १ ॥

भा०—हे (सखायः) मित्रो ! (वः) आप लोग (तं) उस (पुनानं) तपस्या आदि से मलों को शोधन करने हारे साधक, या मुख्य प्राण की (मदाय) आनन्द की प्राप्ति के लिये (अभि गायत) साक्षात् गुण स्तुति करो । और (गूर्त्तिभिः) स्तुतियों द्वारा और (हव्यैः) उत्तम सात्त्विक पदार्थों और विचारों द्वारा (शिशुं न) जिस प्रकार मधुर अन्नों का (स्वद्यन्त) रस चखाकर बालक को वश करते हैं उसी प्रकार

(शिशुम्) सबके भीतर विद्यमान आत्मा को (स्वदपन्तः) अमृत का रसा स्वादन कराकर अपने वश कर, उस तक पहुंचा ।

[५७०] प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नस्य दीधितिम् ।

विश्वा परिप्रिया भुवदध्र द्विता ॥५॥ ऋ० ६ । १०१ । १ ॥

भा०—(प्राणा) देहों को प्राण देने वाली (महीनाम्) बड़ी भारी ईश्वरीय शक्तियों में (शिशुः) प्रसुप्त रूप से विद्यमान, व्यापक चित् रूप आत्मा (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की (दीधितिम्) दीप्ति किरण या धारणा को (हिन्वन्) प्रेरित करता हुआ (विश्वा) समस्त (प्रिया) उत्तम प्रिय पदार्थों को (द्विता) दो प्रकार से, समष्टि व्यधि रूप से, स्थूल और सूक्ष्म भेद से, या गृहीत और ग्राह्य, या विषयी और विषय भेद सं (परि भुवत्) व्याप्त करता है ।

[५७१] पवस्व देववीतये इन्द्रो धाराभिरोजसा ।

आ कलशं मधुमान्तसोम नः सदः ॥७॥ ऋ० १।१०६।७॥

भा०—हे (सोम, रस स्वरूप ! हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवन् ! (देववीतये) देवों, विद्वानों, इन्द्रियों, पञ्चभूतों को कान्तिमान्, बलवान्, ज्ञानवान् करने के लिये तू (धाराभिः) अपनी धारण पापण करने हारी शक्तियों द्वारा (ओजसा) अपने बल से (पवस्व) प्रकट हो । और (मधुमान्) ज्ञानवान् तू (नः) हमारे (कलशं) देह या अन्तःकरण में (आसदः) अधिष्ठित रूप में आ विराजमान हो ।

[५७२] सोमः पुनान आमणाव्य वारं विधावति ।

अग्र वाचः पवमानः कानक्रदत् ॥७॥ ऋ० ६ । १०६ । १० ॥

भा०—(पुनानः सोमः) सोम इसके समान स्वच्छ कान्तिमान आनन्दरस या मलादि रहित अन्तःकरण वाला, शमादि गुणों से सम्पन्न सोमनाम योगी जन (ऊर्मिणा) अपनी ऊर्ध्व गति से (अव्यं वारं) अज्ञान के आवरण को (विधावति) पार कर ज्ञाता है । (पवमानः) वह और भी अधिक उज्वल और पवित्र होकर (वाचः) वेदवाणी के (अग्रे) उत्तम, रहस्य भाग में (कनिकदत्) गति करता हुआ स्तुतियों में मग्न हो जाता है ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[५७३] प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

भृतिं न भरा मतिभिर्जुजोषते ॥८॥ ऋ० ६ । १०३ । १ ॥

भा०—(वेधसे) स्वयं कर्म के विधाता मेधावी (पुनानाय) अन्तःकरण को मलादि से रहित करने वाले (सोमाय) शम दम आदि सौम्य गुणों से युक्त आत्मा या योगीजन के लिये (वचः) सब अध्यात्म वाणियों का (प्र-उच्यते) प्रवचन किया जाता है उपदेश किया जाता है । (मतिभिः) अपने मनन-क्रियाओं द्वारा स्वयं उपासक (जुजोषते) उस सोमस्वरूप अपने ही आत्मरस का सेवन करता है । हे उपासक लोगो ! जिस प्रकार (भृतिं न) शमी को नियम से भरण पोषण को द्रव्य या आजोविका दी जाती है उसी प्रकार उस आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाली (भृतिं) भरण पोषणकारिणी चित्ति शक्ति को (भर) नियम से अभ्यास द्वारा बढ़ाओ ।

द्वितो नाम ऋषिः स्वामानं प्रत्याह, इति सायणः । सोमाय 'मेधाविने'
इति साधवः ।

५७३—'वच उच्यते' इति ऋ० । 'उच्यते' इति सायणः ।

[५७४] गोमन् इन्दो अश्वमत्सुतः सुदक्ष धनिव ।

शुचि च वर्णमधि गोपु धारय ॥६॥ ऋ० ६ । १०५ । ४ ॥

भा०—हे इन्दो ! सोम्यगुणयुक्त ! आत्मन् । हे सुदक्ष ! उत्तम कर्म के साधक ! (नः) हमें (गोमत्) ज्ञानवाणियों से युक्त (अश्वमत्) सम्पन्न, अधिक सामर्थ्य वाली इन्द्रियों से युक्त धन (धनिव) दो । और (गोपु) हमारी वाणियों या इन्द्रियों में (शुचि वर्ण च) कान्तियुक्त तेजस्वी वर्ण को (धारय) धारण करो ।

[५७५] अस्मभ्यं त्वा वसुभिर्दमभि चार्णारनूपत ।

गोभिष्ट वर्णमभि वासयामसि ॥१०॥ ऋ० ६ । १०६ । ४ ॥

भा०—(अस्मभ्यं) हमें (वसुभिर्दं) प्राणों ऐश्वर्यों का ज्ञान, जीवन का लाभ कराने हारे (त्वा) तुम्हको (चार्णीः) सब वेदवाणियां (अनूपत) यथार्थ वर्णन करती हैं । हे आत्मन् ! (ते वर्णम्) तेरे वर्ण करने योग्य स्वरूप को (गोभिः) इन वेदस्तुतियों द्वारा (अभि वासयामसि) आच्छादित करते हैं, ढकते हैं, अलंकृत करते हैं ।

[५७६] पवते हर्यतो हरिरतिहरांसि रंहा ।

अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥११॥ ऋ० ६ । १०६ । ४ ॥

भा०—(हर्यतः) हरण-गमन करने योग्य, सब का प्राप्य, (हरिः) सोम, आत्मा (रंहा) वेग से (हरांसि) कुटिल, कष्टकारी विष्टों को भी (अति पवते) अतिक्रमण करके चमचमाता है । हे सोम ! (स्तोतृभ्यः) स्तुति करनेहारे, यथार्थ गुणवक्त्राओं को (वीरवद्) सामर्थ्यसम्पन्न (यशः) तेज (अभि अर्ष) प्रदान कर ।

५७४—'धन्व' 'शुचि ते' 'गोपुदोषरन्' इति ऋ० ।


५७६—'अभ्यर्षत' इति ऋ० ।

उ १ २ उ २ उ १ २ उ १ २
 [५७७] परि कोशं मधुश्चुतं सोमः पुनानो अर्षति ।
 उ २ उ १ २ उ १ २

अभिवाणीर्क्षणीं सप्तानूषत ॥१२॥ ऋ० ९ । १०२ । ३ ॥

भा०—(पुनानः) मल आदि रहित, प्रकट होने वाला या चरित होनेवाला (सोमः) आत्मा (मधुश्चुतं) मधुर आनन्द रस को चुश्राने वाले आनन्दमय (कोशं) कोश को (परि अर्षति) व्याप्त कर लेता है । (अर्षणीं) ब्रह्माण्ड या मूर्धादेश में स्थित सातों प्राणस्वरूप ऋषियों की (सप्त वाणीः) सात वाणियों, सातों ज्ञानप्रवाह (अभि-अनूषत) आत्मा की साक्षात् स्तुति करते हैं ।

इति षष्टी दशतिः । इति दशमः खण्डः ।



॥ द० १ ॥ ऋषिः—१ गौरिवीतिः शक्यः । २ ऊर्ध्वसज्ञा आङ्गिरसः । ३, ८ ऋषिषा भारद्वाजः । ४ कृतयज्ञा आङ्गिरसः । ५ ऋणव आङ्गिरसः । ६ शक्ति-
 वासिष्ठः । ७ उकराङ्गिरसः । पवमानो देवरा । १-४, ६ ककुप् ।

यवमध्या गायत्री । ७, ८ प्रगाथः । १-४, ६ ऋषभः ।

५ षड्जः । ७, ८ मध्यमः ॥

१ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २
 [५७८] पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋतुवित्तमो मदः ।
 १ २ उ १ २ उ १ २

महि द्युक्षतमो मदः ॥ १ ॥ ऋ० १ । १०८ । १ ॥

भा०—हे (सोम) परमेश्वर ! हे (मधुमत्तम) सब से अधिक आनन्द और ज्ञानसम्पन्न ! (ऋतुवित्तमः) ज्ञान की प्राप्ति और कर्मों का ज्ञान करने या कराने हारों में सबसे श्रेष्ठ (मदः) आनन्दस्वरूप आप (इन्द्राय) विभूतिसम्पन्न आत्मा के लिये (पवस्व) प्रकट होइये, आप (मदः)

अत्यन्त आनन्दस्वरूप होकर (शुद्धतमः) सब दिव्य, तेजःसम्पन्न पदार्थों में आप ही सबसे श्रेष्ठ और (महि) सबसे महान् हैं ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[५७६] अभियुम्नं वृहद्यश इपस्पतं दीदिहि देव देवयुम् ।

१२ ३२ ३ २ २

वि कोशं मध्यमं युव ॥२॥

ऋ० ६ । १०८ । ९ ॥

भा०—हे (इपस्पते) अन्न, एवं ज्ञान और मानस प्रेरणा के स्वामिन् ! हे देव ! (देवयुं) विद्वानों और समस्त दिव्य लोकों को अपने वश करनेहारे, आपके प्रति हम प्रार्थना करते हैं कि (वृहद् यशः) बहुत अधिक यश, अन्न, ज्ञान, सामर्थ्य (युम्नं) और धन, बल को (अभि दीदिहि) साक्षात् प्रकाशित करो, और (मध्यमं) बीच के (कोशं) आवरण करने वाले मनोमय, विज्ञानमय कोश को (वियुव) काट दो अर्थात् उन कोशों को काट कर आप आनन्दमय कोश को प्रवेश कराओ ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

[५८०] आ साता परि पिञ्चताश्वन्न स्तोममत्तुरं रजस्तुरम् ।

३ १ २ ३ १ २

वनप्रक्षमुदप्रुतम् ॥ ३ ॥

ऋ० ९ । १०८ । ७ ॥

भा०—हे साधकगण ! (स्तोमं) स्तुति योग्य, (अत्तुरं) ज्ञान और कर्मों से प्राप्त करने योग्य, (रजस्तुरम्) समस्त लोकों में व्यापक (वनप्रक्षम्) सबके आत्माओं में कूटस्थरूप से व्यापक, फलों को जैसे वृक्ष देता है उसी प्रकार सेवन करने योग्य आनन्दरसों को देने वाले (उद-प्रुतम्) ज्ञान से परिपूर्ण, शान्ति के दायक, आत्मरस को (आसात) अपने हृदय में प्रकट करो । (परि पिञ्चत) पुनः उसक आनन्दमय रसों का आ सेचन करो ।

५७६—'देवयुः' इति ऋ० ।

५८०—'वनप्रक्षम्' इति ऋ० । 'वनप्रक्षम्' इति केचित् ।

[५८१] एतमु^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वं मदच्युतं सहस्रधारं वृषभं दिवो दुहम् ।

विश्वा वसूनि विभ्रनम् ॥ ४ ॥ अ० ६ । १०८ । ११ ॥

भा०—(एतम् उ) इस ही (मदच्युतं) हर्ष रस के बरसाने हारे (सहस्रधारं) सहस्रों लोकों को धारण करने वाले, या सहस्रों सुखधाराओं के बहाने वाले, (वृषभं) सुखों के वर्षक, (दिवः) सूर्य के समान प्रकाशक, लोकों या ज्ञान प्रकाश का (दुहम्) दोहन करने वाले (विश्वा वसूनि) सब प्राणों और समस्त वास के देने हारे वसु रूप लोकों को (विभ्रतं) धारण करने वाले आत्मा, परमात्मा को प्राप्त करते हैं ।

[५८२] स सुन्वे या वसूनां या रायामानता य इल्लानाम् ।

सोमो यः सुचितीनाम् ॥ ५ ॥ अ० ९ । १०८ । १३ ॥

भा०—(यः) जो (रायां) पेश्व्यों, (वसूनां) समस्त प्राणों और सूर्यादि लोकों के और (इलानां) समस्त भूमियों, ज्ञानधाराओं और अन्नों का (आनेता) प्राप्त कराने हारा है और (यः सुचितीनां) जो उत्तम निवास योग्य शरीरों, क्षेत्रों का नेता, निर्माणकर्ता है (सः सोमः) वह सबका प्रेरक आत्मा और परमात्मा (सुन्वे) हृदय देश में साक्षात् किया जाता है ।

[५८३] त्वं ह्यांशु दैव्यं पवमान जनिमानि शुमत्तमः ।

अमृतत्वाय घोषयन् ॥ ६ ॥ अ० ६ । १०८ । १५ ॥

भा०—(अंग पवमान) हे सर्वव्यापक जगदीश्वर ! (शुमत्तमः) सबसे अधिक कान्तिमान् (त्वं हि) तू ही (दैव्यं) दिव्=अन्तरिक्ष शुक्ल या देव, पञ्चभूतों और दिव्य गुणयुक्त समस्त पृथिवी आदि लोकों की (जनिमानि) उत्पत्तियों और प्रकट होने वाले अद्भुत २ विकासों के मूल-

५८१—'दिवो दुहुः' इति अ० । 'दिवंदुहं' इति सा० ।

५८३—'त्वंध्यं ग दैव्या', 'घोषयः' इति अ० । 'घोषः' इति सा० ।

कारणों का (अमृतत्वान्न) नित्य, निरन्तर विद्यमान अमृतस्वरूप मोक्ष को प्राप्त करने के लिये (घोषयन्) उपदेश करता है ।

[५८४] एष स्य धारया सुतोऽव्या वारोभिः पवत मदन्तमः ।

२ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
१ २ ३ २ २ १ २
ऋद्धन्नुर्मिरपामिव ॥ ७ ॥ ऋ० ६ । १०६ । ६ ॥

भा०—(सुतः) निष्पन्न, अभिव्यक्त आनन्दरस (अव्याः वारोभिः) चिलिशक्ति के आवरणों से पार होकर (मदन्तमः) अति अधिक आनन्द से समृद्ध (अषां) जलों के (ऊर्मिः इव) प्रवाह या तरंग के समान ज्ञानों, कर्मों का तरंग (धारया) अपनी निरन्तर धारा या धारक शक्ति से (ऋद्धन्) संसार में क्रीड़ा सी करता हुआ, लीला करता हुआ । स्यः एष) जिसको ढूँढते हैं वह यह (पवते) हृदय देश में प्रकाशित होता है ।

[५८५] य उल्लिया अपिया अन्तरश्मनि निर्गा अकृन्तदोजसा ।

२ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
अभि व्रजं तल्पे गव्यमश्व्यं वर्मात्र धृष्णवारुज ॥ ८ ॥ ऋ० ६ । १०८ । ६ ॥

भा०—(यः) जो सोम (उल्लियाः) ऊर्ध्व गति करने वाली (अप्याः) कर्म और ज्ञान की बनी हुई (गाः) गतिशील इन्द्रियों को (ओजसा) अपने बल से (अन्तः अश्मनि) अश्मा=व्यापक या प्रस्तर के समान किसी से न हारने वाले, परिपक्व 'अश्माखण' नामक मुख्य प्राण के भीतर (निर्-अकृन्तत्) बनाता है, निर्माण करता है और जो (गव्यं) ज्ञान-सम्बन्धी और (अश्व्यं) कर्म या मनः सम्बन्धी (व्रजं) इन्द्रियगण को (अभि तल्पे) अपने चारों ओर विस्तारित करता है, हे (धृष्णो !) सबको विजय करने हारे परमात्मन् ! तू हमारे (वर्मा इव) कवचधारी सुरक्षित योद्धा के समान (आ रुज) सब विघ्न बाधाओं को दूर कर ।

इति नवमी दशतिः । एकादशः खण्डः ।

इति पञ्चमोध्यायः समाप्तः ।

इति पाचमानकाण्डं समाप्तम् ।

अथ षष्ठोऽध्यायः ।

अथ आरण्यकं काण्डम् *

॥ द० १० ॥ ऋषिः—१ भरद्वाजः । २ वसिष्ठः । ३, ६ वामदेवः । ४ शुनःशेषः ।
५ गृत्समदः । ७, ८ अमहीयुः । ९ आत्मा । १०-११ इन्द्रः । १२ वरुणः । १३, १४,
१५ पवमानः । १६ विश्वेदेवाः । १७ अन्नम् । १८ बृहती । १९, २० त्रिष्टुप् । २१, २२, २३
गायत्री । २४, २५ चतुष्पदा गायत्री । २६ एकपदा गायत्री । २७ मध्यमः । २८, २९
धैवतः । ३०, ३१ पङ्क्तः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[५८६] इन्द्र ज्येष्ठं न आभर ओजिष्ठं पुपुरि श्रवः ।

१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ २२

यद्दिष्टुक्षेम वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पत्राः ॥ १ ॥

ऋ० ६ । ४६ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (ज्येष्ठं) अत्यन्त प्रशंसनीय (ओजिष्ठं)
कान्ति और बल से युक्त, (पुपुरि) पूर्ण करने वाला, (श्रवः) ज्ञान
(नः) हमें (आभर) प्राप्त कराओ । हे (वज्रहस्त^१) सब विघ्नों को नि-
वारण करने हारे ज्ञान और वैराग्यरूप वज्र को अपने हाथ में लिये हुए, या
ज्ञानरूप वज्र से तमका हनन करने हारे परमात्मन् ! हे (सुशिप्र^२)
उत्तम दाढ़ों या शशियों वाले तेजस्विन् ! समस्त संसार के प्रलयकाल में
भक्षण करने वाले ! अथवा उत्तम ज्ञानी और बलशाली ! (यद्) जिसको

* क्वचित्महितासु काण्डमिदं न लभ्यते, अत एव तासु 'य उखिया' इति
ऋचोऽन्त्यपादाभ्यासो दृश्यते इति हेतौ रत्रैव पूर्वार्चिकस्य समाप्तिरिति विज्ञायते । क्वचि-
च्चाभ्यासो न दृश्यते, षष्ठोऽध्यायश्च तृतीयार्धप्रपाठकरूपेणैव लभ्यते । केचिदिममध्यायं
परिशिष्टमिव मन्वते । विविधा हि देवता अत्र स्तूयन्ते इति प्राक्परिगणितकाण्डत्रयाद्
भिन्नमिदमारण्यकं काण्डं व्यवहरन्ति ।

५८६—'आभरं', 'ये नेमे चित्र वज्रहस्त', 'ओभे' इति ऋ० ।

(दिष्टचेम) हम धारण करना चाहते हैं उस ज्ञान को (उभे रोदसी) इस लोक परलोक दोनों में (पप्राः) पूर्ण कर, प्राप्त करा । अथवा धारण करने योग्य समस्त ज्ञान और चेतना को ब्रह्माण्ड में तू पूर्ण कर रहा है ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[५८७] इन्द्रां राजा जगतश्चर्षणीनामधिज्ञामा विश्वरूपं यदस्य ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
ततो ददाति दाशुपे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतञ्चिदवाक् ॥२॥

अ० ७ । २७ । ३ ॥

भा०—(इन्द्रः) परमात्मा (जगतः) जंगम प्राणिसंसार का और (चर्षणीनाम्) मानवों का और (अधिज्ञामा) इस पृथिवी पर (विश्वरूपं) नावा प्रकार के पदार्थ, जीव, या ब्रह्माण्ड (यन्) जो भी हैं (अस्य) इस सब का (राजा) स्वामी है । (ततः) वह सर्वव्यापक ईश्वर (दाशुपे) दानशील पुरुष को ही (वसूनि) जीवनोपयोगी नाना ऐश्वर्य (ददाति) देता है । वही (उपस्तुतः) सबसे स्तुति किया गया (राधः) धन और ज्ञान (अवाक्) हमें (चोदयत्) दे ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ ३ २
[५८८] यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने वनं स्वः ।

१ २ ३ १ २ ३ २

इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् ॥ ३ ॥

भा०—(यस्य) जिस (रजोयुजः) कान्ति, ज्योति से युक्त या प्रकृति के रजोगुण से योग करने हारे आत्मा का (तुजे जने) दानशील पुरुष में (इदं) वह (स्वः) सुखकारी, दिव्य, समस्त (वनं) सेवन करने योग्य नाना सम्पदा हैं उस (इन्द्रस्य) परमात्मा का (रन्त्यं) रमणीय ऐश्वर्य भी (बृहत्) बहुत अधिक बढ़ा है ।

१. हस्तो हन्तेः (निर०), २. शिप्रं सपतेः ।

५८७—'अधिज्ञामि', 'विपुरुषं', 'उपस्तुतः' इति क० ।

[५८६] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} उदुत्तमं वरुणं पाशमस्मदत्राधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अथादित्यं व्रते वयन्तवानागसां अदितये स्याम ॥ ४ ॥

क्र० १। २४। ५ ॥

भा०—हे (वरुण) सर्वव्यापक, सब पापों के निवारक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मन् ! (उत्तमं) उत्कृष्ट अपने (पाशं) पाश, प्राकृतिक तेजोमय सात्विक बन्धन को (उत्-श्रथाय) उत्तम भोगों, द्वारा शिथिल कर और (अधमं) निकृष्ट तामस, काम मोहादि बन्धन को (अत्र श्रथाय) नीचे निम्न कौटि के भोगों द्वारा ढीला कर । और (मध्यमं) मध्य-स्थानीय राजस-बन्धन-आवेश, क्रोध, लोकैषणा आदि को (विश्रथाय) नाना प्रकार के भोगों से शिथिल कर । (अथ) और हे (आदित्य) सब को अपने भीतर लेने हारे ! तेजस्विन् ! (तत्र व्रते) तेरी नियम व्यवस्था में (वयं) हम (अनागसः) निरपराध, निष्पाप होकर (अदितये) दीनतारहित होने में (स्याम) समर्थ हों ।

[५९०] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वया वयम्पवमानेन सोम भरे कृतं विचिनुयाम शश्वत् ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} तन्नो मित्रा वरुणो मामहन्तामादितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥५

भा०—हे सोम ! जगदीश्वर ! (पवमानेन) समस्त संसार को पवित्र करने हारे (त्वया) तुझ सहायक से (भरे) फल प्राप्त कराने हारे इस जीवन में (शश्वत्) निरन्तर (कृतं) अपने उत्तम किये कर्म ही (वि चिनुयाम) विशेष रूप से संग्रह करें । (मित्रः) स्नेहवान्, (वरुणः) सब पापों का निवारक (आदितिः) कभी न खण्डित होनेवाला अश्वरुड, (सिन्धुः) समुद्र के समान सर्वव्यापक, सब का आश्रय, (पृथिवी) पृथिवी के समान सबको धारण करने हारा (उत) और

(द्यौः) सूर्य के समान प्रकाशस्वरूप (नः) हमें (तत्) ; वह अभिल-
पित उत्तम फल (मामहन्तां) प्रदान करे ।

[५६१] ^{११२ २२} इमं वृषणं ^{३ २७ ३ २} कृणुतैकमिन्माम् ॥ ६ ॥

भा०—हे प्राणो ! विद्वानो ! (इमं मां) इस सुक्त (एकं) अकेले
को (वृषणं) सब सुखों का वषण करने हारा (कृणुत इत्) बनादो ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
[५६२] स न इन्द्राय यज्यन् वरुणाय भरुद्भ्यः ।

^{३ १२ २२}
वारिवोवित्परिञ्च ॥ ७ ॥ ऋ० ६ । ६१ । १२ ॥

भा०—(सः) घह सोम (नः) हमारे (इन्द्राय) ऐश्वर्यशील,
(यज्यवे) जीवनयज्ञ के कर्ता, (वरुणाय) व्यवस्थापक वरुणस्वरूप
आत्मा (भरुद्भ्यः) और प्राणस्वरूप इन्द्रियों या, भीतरी पञ्च प्राणों
के लिये (वरिवोवित्) हितकारी पदार्थों को दाता होकर (परि ञ्च) हमारे
प्रति प्रकट हो ।

^{३ १२ २२ ३ २७ ३ २ ३ १ २}
[५६३] एना विश्वान्यर्यं द्युम्नानि मानुषाणाम् ।

^{१ २}
सिषासन्तो वनामहे ॥ ८ ॥ ऋ० ६ । ६१ । ११ ॥


भा०—हे जगदीश्वर ! आप (अर्यः) सब के स्वामी (मानुषाणां)
मनुष्यों के (विश्वानि) समस्त (एना) ये (द्युम्नानि) धन, रत्न आदि
(आ) हमें प्राप्त करावें । हम (सिषासन्तः) उनको सेवन करने या सब
में बांट देने की इच्छा से (वनामहे) याचना करते हैं ।

^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
[५६४] अहमस्मि प्रथमजा क्रनस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम ।
^{२ ३ १ २ ३ २ ७ ३ १ २ ३ २ ७ ३ १ २ ३ १ २}
यो मा ददाति स इदेव मावददमन्नमन्नमदन्तमधि ॥ ९ ॥

भा०—(अहम्) मैं महान् आत्मा, परमात्मा (ऋतस्य) इस सत् अभिव्यक्त जगत् से (प्रथमजा) प्रथम ही हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ (अस्मि) हूँ । (देवेभ्यः) देवताओं, पञ्चभूतों, इन्द्रियों से भी (पूर्वः) पूर्व मैं विद्यमान रहा । मैं ही (अमृतस्य) कभी विनाश न होने वाले, नित्य आत्मा का (नाम) स्वरूप हूँ । (यः) जो (मां) मुझको, मेरे स्वरूप को अन्यों के प्रति (एव) इस प्रकार से (ददाति) दान करता अर्थात् जो ब्रह्म या आत्म ज्ञान का उपदेश करता है (सः इत्) वंही (मा) मेरी (आवात्) रक्षा करता है । (अहम् अन्नम्) मैं अन्न के समान प्राण को धारण कराता हूँ । मैं ही (अन्नम्) अन्न रूप से सबको धारण कराता हूँ । मैं ही (अदन्तम्) कर्मफल का भोग करने वाले जीवों को (अग्नि) अपने में मग्न कर लेता हूँ ।

ब्रह्म की अन्नोपासना उपनिषदों में कही है । 'अत्ता चराचरग्रहणात्' (वेदा० सू०)

इति दशमी दशतिः । प्रथमः खण्डः ।



॥ ८०२१ ॥ ऋषिः—१ श्रुतऋक्षः । २ पवित्रः । ३, ४ मधुच्छन्दो वैश्वामित्रः । ५ प्रथः । ६ गृत्समदः । ७ नृमेधपुरुमेधौ ॥ देवता—१, ३, ४, ७, इन्द्रः ५ पवमानः । ६ विश्वेदेवाः । ६ वायुः ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६ गायत्री २ जगती । ५ त्रिष्टुप् ॥ ७ अनुष्टुप् ॥ स्वरः १, ३, ४, ६ षड्जः । २ निपादः । ५ धैवतः । ७ गान्धारः ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[५६५] त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च ।

१ २ ३ २ ३ १ २

परुष्णीषु रुद्रत्पयः ॥१॥ अ० ६ । ६३ । १.४ ॥

५६५—१. इरावती परुष्णीत्याह । पर्ववती भास्वती, कुटिलगामिनी (निरु० ६।२६)

२ ३ २ ३ २ ३ २ २ ३ २ ३ २
 [५६७] इन्द्र इन्द्र्योः सचा सभिश्ल आ वचो युजा ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २

इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥३॥ अ० १। ७। २ ॥

भा०—(इन्द्र इत्) आत्मा ही (वचोयुजा) वाणीमात्र से योग रखने वाले (हर्योः) हरण करने वाले श्रद्धा, शक्तियों ज्ञान, कर्म और इन्द्रियों को (सचा) एक साथ (संभिश्लः) मिला कर रखने वाला है । वही (वज्री) संहारक शक्ति से युक्त और (हिरण्ययः) सूर्य के समान कान्तिमानरूप वाला या स्वतः हित, प्रिय, रमणीय, और गतिशील आत्मा है ।

१ ३ १ २ ३ १ २

[५६८] इन्द्र वाजेषु नोऽव सङ्गप्रधनेषु च ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २

उग्र उग्राभिस्तामिः ॥४॥ अ० १। ७। ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (उग्रः) उग्र स्वभाव के आप (उग्राभिः कृतिभिः) अति वेदवाली शक्तियों द्वारा (वाजेषु) जानों और बलों के कार्यों में और (सहस्रप्रधनेषु च) बलशाली सहस्रों अर्नों के एकत्र होने के अवसरों, या युद्धों में (नः) हमारी (अ व) रक्षा करो ।

१ २ ३ १ २ २ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २

[५६९] प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हवियत् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

धातुर्धृतानात्सवितुश्च विष्णो रथन्तरमाजभारा वसिष्ठः ॥५॥

अ० १०। १८१। १ ॥

भा०—(यस्य) जिसके (प्रथः) विस्तार करने वाला, प्राण और (सप्रथः) उस विस्तार करने वाले का साथी अपान यह दोनों ही (नाम) स्वरूप हैं वह (वसिष्ठः) मुख्य आत्मा (आनुष्टुभस्य) प्रतिदिन स्तवन करने योग्य (यत्) जो (हविषः हविः) ग्रहण करने योग्य द्रव्य हवि का भी हवि, अर्थात् उत्तम है उस 'अमृत' (रथन्तरं) देहरूप रथ को चलाने, प्रेरणा करने वाले मुख्य प्राण को (धातुः) सबके पालन पोषण करने

हारे और (सवितुः) सबके उत्पादक (विष्णोः) सर्वव्यापक परमात्मा के पास से ही (आ जभार) प्राप्त करता है ।

३१ २ ३१२ ३२ ३१ २
[६००] नियुत्वान्वायत्रागह्यं शुक्रां अयामि ते ।

१ २ ३ २ ३ २
गन्तासि सुन्वतो गृहम् ॥ ६ ॥ ऋ० २ । ४१ । २ ॥

भा०—हे (वायो) प्राण ! या व्यापक आत्मन् ! आप (नियुत्वान्) नियमकारी बज्रों से सम्पन्न (आ गहि) हमें प्राप्त हों । (अयं) यह (शुक्रः) कान्तिमान् सूर्य, और देह में वीर्य, आज (ते) तेरे (अयामि) नियम में बंधा है । आप (सुन्वतः) योग साधना करने हारे, (गृहम्) ग्रहण करने वाले आभ्यन्तर इन्द्रिय, मन में भी (गन्तासि) प्राप्त होते हैं ।

१ २२ ३ १ २ १ ३ २
[६०१] यज्जायथा अपूर्व्यं मधवन् वृत्रहत्याय ।

१ २ ३ २ २ ३ २ १ ३ १ २ २
तत् पृथिवीमप्रथयस्तदस्तश्ना उतो दिवम् ॥ ७ ॥

ऋ० ८ । ८६ । ५ ॥

भा०—हे (अपूर्व्यं) अद्वितीय ! आदि मूलकारण ! हे (मधवन्) समस्त विभूतियों के स्वामिन् ! (यत्) जो तू (वृत्रहत्याय) आवरण-कारी तामस बन्धन को नाश करने के लिये (जायथाः) प्रकट होता है (तत्) वह तू (पृथिवीम्) इस विशाल भूमि को भी (अप्रथयः) प्रकट करता है और (दिवम् उत्) द्यौलोक को भी (अस्तश्ना) मध्य आकाश में धामता है ।

इति एकादशी दशतिः । इति द्वितीयः खण्डः ।

॥ द० १२ ॥ ऋषिः—१, ५, ७, १० वामदेवः । २, ३ गौतमः । ४ मधुच्छन्दाः ।
 ६ गृत्समदः । ८, ९ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः । ११ हिरण्यस्तूपः । १२, १३ विश्वामित्रः ।
 देवता—१ प्रजापतिः । २, ३ पवमानः । ४—६, १३ अग्निः । ७ रात्रिः ।
 ८ वैश्वानरः । विद्वेदेवाः । १० लिङ्गोक्तः । ११ इन्द्रः । १२ सर्वात्मा । छन्दः—
 १, ७ अनुष्टुप् । २, ३, ५, ६, ९, ११—१३ निष्टुप् । ४ गायत्री । ८ जगती ।
 १० महापंक्तिः । स्वरः—१, ७ गान्धारः । २, ३, ५, ६, ९, ११—१३ धैवतः ।
 ४ पङ्क्तः । ८ निपादः । १० पञ्चमः ॥

२ ३ १ ३ २ ३ १ २२ ३ २ ३ १ २२
 [६०२] मयि वर्त्रो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २२
 परमेष्ठी प्रजापतिर्दिवि द्याभिव दंहतु ॥१॥अथर्व० ६ । ६६ । ३ ॥

भा०—(परमेष्ठी) परम, उत्तम स्थान पर स्थित, परमात्मा (प्रजापतिः) समस्त स्थावर और जंगम प्रजा का पालक (दिवि) आकाश में जिस प्रकार (घाम् इव) सूर्य को स्थित करता है उसी प्रकार (मयि) मुझ में (वर्त्रः) बल, तेज, (अथो) और (यशः) यश (अथो) और (यज्ञस्य) आत्मा या परमेश्वर का (यत्) जो (पयः) मोक्ष नामक परम आनन्दरस है उसको (दंहतु) नित्य बनाये रखे ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [६०३] सं ते पयांसि ससु यन्तु वाजाः संवृणयान्यभिमातिपाहः ।
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि अवांस्युत्तमानि धिष्व ॥ २ ॥
 अ० १ । ११ । १८ ॥

भा०—हे (सोम) परमात्मन् ! (अभिमातिपाहः) अभिमान करने वाले पुरुषों को दण्ड देने वाले (ते) तेरे (पयांसि) पोषक ज्ञानरस, (वाजाः) समस्त ऐश्वर्य और अन्न, (वृणयानि) समस्त बल (सं यन्तु) प्राप्त हों और तू आप (आप्यायमानः) खूब परिपूर्ण होता हुआ (अमृताय)

६०२—'तन्मयि प्रजापतिर्दिवि' इति अथर्व० ।

इस अमृत, जीव के लिये (दिवि) मोक्षरूप स्वर्ग में (उत्तमानि) उत्तम (श्रवांसि) ज्ञानों, बलों और सुखों को (धिष्व) धारण करा ।

२ ३ १२ २२ ३ २ १ २ ३ १ ३
[६०४] त्वमिमा ओपधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः ।

१२ २२ ३ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २२
त्वमातनोरुर्ध्वान्तरिक्षं त्वं ज्योतिषो वि तमो ववर्थ ॥३॥

अ० १ । ६१ । २२ ॥

भा०—हे (सोम) परमात्मन् ! (त्वं) तू (इमाः) इन (विश्वाः) समस्त प्रकार की (ओपधीः) ओपधियों, वनस्पतियों को (अजनयः) उत्पन्न करता है । (त्वम् अपः) तू ही समस्त रसों को उत्पन्न करता है । और (त्वं गाः) तू ही समस्त गौ आदि पशुओं और भूमियों को पैदा करता है । (त्वं) तू ही (ज्योतिषा) सूर्य आदि के प्रकाश से (तमः) अन्धकार को (वि ववर्थ) विविध प्रकारों से दूर करता है । अध्यात्मपक्ष में—ओपधिः—देह । अपः—ज्ञान और कर्म । गाः—इन्द्रिय, चित्तवृत्तियां । सोम—आत्मा । तमः—तामस आवरण ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ ३ २ ३ १ २
[६०५] अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।

१ २ ३ १ २
होतारं रत्नघातमम् ॥४॥ अ० १ । १ । १ ॥

भा०—(यज्ञस्य देवम्) समस्त यज्ञों, उपासनाओं के उपास्य देव (पुरोहितम्) प्रकाशमान, ज्ञानवान्, पूज्य, साक्षीरूप से अन्धकार में दीपक के समान ज्ञान प्रकाश प्राप्त करने के लिये आगे मुख्य स्थान पर स्थापित (ऋत्विजम्) ऋतुओं आदित्यों और प्राणों द्वारा पूजनीय, (होतारं) सबको धारण करने और सब सुखों को प्रदान करनेहारे, सबके प्रतिपालक (रत्नघातमम्) समस्त रमणीय पदार्थों को धारण करने वाले, (अग्निम्) ज्ञानस्वरूप सबके अग्रणी, प्रकाशक परमात्मा की (ईडे) स्तुति करता हूँ ।

१ २ ३ २७ ३ २ ३ २ ३१ २ ३ १२ २२
 [६०६] ते मन्वत प्रथमन्नाम गोनाम्निः सप्त परमन्नाम जानन् ।

१ २ ३ २ ३६ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १४ २२ ३ १ २
 ता जानतीरभ्यनूपत क्षा आविर्भुवन्नरुणीर्यशसा गावः ॥ ५ ॥

अ० ४। १। १६ ॥

भा०—(ते) वे विद्वान् लोग (गोनां) वेद वाणियों के (प्रथमं) सबसे प्रथम, श्रेष्ठ, आदिमूल (नाम) उत्पत्ति स्थान को (अमन्वत) मनन करते हैं और वे (त्रिः सप्त) इक्कीस प्रकार से (परमं नाम) परम नाम की (जानन्) जिज्ञासा करते हैं । (ताः) वे वाणियां (जानतीः) सत्र रहस्य जनाती हुई (क्षाः) अपनी निवासभूमियों आदि मूलकारणों की (अभिनूपत) स्तुति करती हैं । और (यशसा) तेज से (अरुणीः) अरुण वर्ण वाली, (गावः) किरणों के समान वाणियों में (आविर्भुवन्) प्रकट होती हैं ।

वाणियों के २१ प्रकार के नाम २१ प्रकार के छन्द हैं जैसे—गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती ये सात । अतिजगती, शकरी, अतिशकरी, अष्टि, अत्यष्टि, घृति, अतिघृति ये सात । और कृति प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अतिकृति, उत्कृति ये सात । सब मिल कर २१ हुए ।

२ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३६ २२
 [६०७] समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्ध्वन्नद्यस्पृणन्ति ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ २ १ २ ३ १ २
 तमू शुर्वि शुचयो दीदिवांसमपान्नपातमुपयन्त्यापः ॥ ६ ॥

अ० २। ३५। ३ ॥

६०६—'नाम धेनोः' 'सप्त मातुः परमाणि विन्दन्' 'तज्जानतीरभ्यनूपत ना आविर्भुवन्नरुणीर्यशसा गोः, इति अ० ।

६०७—'अपां नपातं परितस्पुरापः' इति ऋ० ।

भा०—जिस प्रकार (अन्याः नद्यः) भिन्न २ नदियां (सं यन्ति) परस्पर मिल जाती हैं और (अन्याः) भिन्न २ नदियां (उपयन्ति) समीप देशों में गमन करती हैं और (समानं) समानरूप से एक ही (ऊँ) विशाल समुद्र को (पृणन्ति) भरा करती हैं, उसी प्रकार (आपः) ईश्वर तक को प्राप्त कराने वाली (नद्यः) समृद्ध स्तुति वाणियां अथवा आस प्रजापुं (अन्याः) नाना प्रकार की प्राणधारी जीव प्रजापुं (संयन्ति) एक साथ मिलजाती हैं और (अन्याः उपयन्ति) बहुतसी समीप ही एक प्रकार के अर्थ का बोध कराती हैं और (समानम् ऊँम्) समान ही रूप से उस विशाल महान् परमेश्वर को (पृणन्ति) स्तुति करती हैं और वे (आपः) ज्ञान और कर्म का उपदेश करने वाली वाणियां (शुचयः) शुद्ध प्रकाश करनेवाली (तम् उ शुचिम्) उसही शुद्ध पवित्र (दीदिवासम्) देदीप्यमान (अपां नपातम्^१) समस्त वेद के ज्ञानों और कर्मों के एकमात्र आश्रय ईश्वर को (उपयन्ति) प्राप्त होती हैं । (आपः=वाणियां, बुद्धियां, प्रजापुं, आसजन, लोक, नद्यः=स्तुतियां, वाणियां, नदियां) ।

१२ २२ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २२

[६०८] आप्रागाद्भद्रा युवतिरहः केतून्त्समीर्त्सति ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अभूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७ ॥

भा०—(रात्री) सुख के देनेवाली रात्रि के समान ब्रह्मविद्या (विश्वस्य) समस्त (जगतः) जंगम संसार का (निवेशनी) आश्रयस्थान और (भद्रा) कल्याणकारिणी है । वह (अहः) कभी नाश न होने वाले, अमर, सूर्य, आत्मा या अमर परमेश्वर की (युवतिः) उदयकालीन सूर्य के साथ संगत उषा और तेजस्वी पुरुष के संग स्त्री के समान ही सदा सत्संगति करानेवाली, (भद्रा) साधकों को सुख देनेवाली (आ) सब और

१. नपात्—नेत्युपमार्थः । पतन्तीव यत्र स नपात् “नपात्” इति निपातः ।

(प्रागात्) प्रकट होती है और (केतून्) किरणों के समान ज्ञानों को (सम् इत्सति) प्राप्त कराती है ।

[६०६] ^{३ २ ३ १ २} प्रक्षस्य ^{३ २ ३ २ ४} वृष्णां ^{३ २ ३ १ २} अरूपस्य ^{३ १ २} नू महः ^{३ १ २} प्र नो ^{३ १ २} वचो ^{३ १ २} विदथा
जातवेदसे । वैश्वानराय ^{३ १ २} मतिर्नव्यसे ^{३ १ २} शुचिः ^{३ १ २} सोम इव
पवते ^{३ १ २ ३ १ २} चारुरग्रये ॥ ८ ॥ अ० ६ । ८ । १ ॥

भा०—(प्रक्षस्य) सब के भीतर सम्पर्क करने हारे, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, (वृष्णाः) सुखों के वर्षक, (अरूपस्य) कान्तिमान्, (जात-वेदसे) समस्त पदार्थों के जाननेहारे परमेश्वर के (महः) पूजनीय तेजों को (विदथा) ज्ञान काल में, या यज्ञ में (नः) हमारी (वचः प्र) वाणी उत्तम रूप से वर्णन करे, (नव्यसे) स्तुति करने योग्य (वैश्वानराय) समस्त नरों में नाना प्रकार से व्यापक (अग्रये) उस ज्ञानस्वरूप, सबके अग्रणी, परमात्मा के लिये (शुचिः) शुद्ध, (मतिः) ज्ञान, संकल्प, (सोम इव) प्रेरक ब्रह्मानन्द के समान (चारुः) अत्यन्त उत्तम रूप में (पवते) प्रकट होता है ।

[६१०] ^{१ २ ३ १ २ ४} विश्वे देवा ^{३ २ ३ १ २ ४} मम शृण्वन्तु ^{३ १ २ ४} यज्ञमुभे ^{३ १ २ ४} रोदसी ^{३ १ २ ४} अपान्नपाच्च
मन्म । मा वो ^{१ २} वचांसि ^{३ १ २ ४} परिचक्ष्याणि ^{३ १ २ ४} वोचं ^{३ १ २ ४} सुस्नेष्विद्धो
अन्तमा ^{१ २} मदेम ॥ ९ ॥ अ० ६ । ९ । १४ ॥

भा०—हे (विश्वेदेवाः) समस्त दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानो ! आप लोग (मम) मेरे (मन्म) मनन करने योग्य (यज्ञम्) इष्ट उपासना को (शृण्वन्तु) सुनो । वह (उभे रोदसी) द्यौ और पृथिवी दोनों लोक और (अपां नपात् च) समस्त प्रजाओं, प्रजाओं और कर्मों का आश्रय ईश्वर भी उसको श्रवण करता है । (वः) आपके (वचांसि) वचनों को (मा

से जलों और पर्वतों से झरनों को पैदा कर देती है उसी प्रकार वह भी अज्ञानरूप 'अहि' का नाश करके (अपः) प्रज्ञानों को (ततर्द) प्रवाहित करता है । और (पर्वतानां) घड़े २ पर्वतों के (वक्षणाः) नदियों के समान विद्वानों के हृदय ग्रन्थियों या अंगों से बने देहादि बन्धनों को (प्र-अभिनत्) काट देता है ।

१ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[६१३] अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतम्मे चल्लुरमृतम्म आसन्

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

त्रिधातुरक्तो रजसो विमानोऽजस्रञ्ज्यातिर्हविरस्मि सर्वम् ॥१२॥

अ० ३ । २६ । ७ ॥

भा०—मैं (अग्निः) ज्ञानवान् परमेश्वर (जन्मना) श्रवण, मनन, निदिध्यासन की अपेक्षा विना किये ही, स्वभावतः (जातवेदाः) समस्त पदार्थों का जानने वाला (अस्मि) हूँ । (मे) मेरा (चल्लुः) सबको देखने और दिखाने वाला साधन (घृतं) अतिदीप्तिमान् है । (मे आसन्) मेरे मुख्य स्थान या मुख अर्थात् स्वरूप मैं (अमृतम्) कभी नाश न होने वाला अमृत मोक्ष है । और मैं (त्रिधातुः) समस्त पदार्थों को तीन वलों से धारण करने वाला (अर्कः) तेजःस्वरूप सूर्य, (रजसः) समस्त लोकों को (विमानः) निर्माण करता हुआ (अजस्रं) कभी नाश न होने वाला, अविनाशी, सदा वर्तमान, (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप और (सर्व) संवन्ध्यापक (हविः) हविः=भोग्य पदार्थों का दाता भी मैं ही (अस्मि) हूँ ।

२ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६१४] पात्यग्निर्विपो अग्रस्पन्दं वैः पाति यद्वश्वरणं सूर्यस्य ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

पाति नाभा सप्तशीर्षाणामग्निः पाति देवानामुपमादमुष्वः ॥१३॥


अ० ३ । ५ । ५ ॥

६१३—'विमानो घर्मो' इति अ० ।

६१४—'पाति प्रियं रिपो अग्र' इति अ० ।

भा०—(विपः) मेधावी, ज्ञानी (अग्निः) परमेश्वर (वेः) गति-
शील पृथिवी के (अग्रम्) गमन के (पदं) मार्ग को (पाति) सुरक्षित
करता है । (यह्नः) वह महान् (सूर्यस्य) सूर्य के (चरणं) चलने के
मार्ग को भी (पाति) पालन करता है (नाभा) नाभिस्थान, केन्द्र अथवा
अन्तरिक्ष या बन्धनस्थान मूर्धा में (अग्निः) यह अग्नि ही (सप्तशीर्षा-
णम्) सात शिर के वासी प्राणों के स्वामी जीव को भी (पाति) रक्षा
करता है । (ऋष्वः) दर्शनीय देव-या (देवानाम्) अग्नि आदि देवों और
विद्वानों को आनन्दकारक आत्मा या इन्द्रियों के ग्राह्य विषय की भी (पाति)
रक्षा करता है ।

इति द्वादशी दशतिः । तृतीयः खण्डः ।



॥ द० १३ ॥ ऋषिः—१, २, ८—१२ वामदेवः । ३-७ नारायणः । देवता—
अग्निः । २ ऋतुः । ३-६ पुरुषः । ७ स्रष्टा । ८ धावापृथिवी । ९, ११ इन्द्रः ।
१० आत्मा । १३ गौः ॥ छन्दः—१, २ पङ्क्तिः । ३-७, ९, १० अनुष्टुप् ।
१, २ पञ्चमः । ४-७, ९, १० गान्धारः । ७, ११, १२ धैवतः ॥

१ २

३ १ २ ३ २ ३ १ १

[६१५] भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्नरासनि ।

१२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १२ २२ ३ १ २

स त्वन्नो अग्ने पयसा वसुविद्रयि वच्चो दृशे दाः ॥ १ ॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवान् ! हे (समिधान) प्रकाशमान ! हे
(दीदिवः) देदीप्यमान ! (अन्तः, आसनि) प्रत्येक आश्रय स्थान देह
में, मुख में जीभ के समान (भ्राजन्ती) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, चित्-
शक्तिरूप (जिह्वा) ज्ञान ग्रहण करने हारी शक्ति (चरति) विचर रही
है । हे अग्ने ! (स त्वं) वह तू (वसुविद्) वास कराने हारे प्राणों या
ऐश्वर्यमय लोकों को जानने, या कर्मानुसार प्राप्त कराने हारा (नः) हमें

(पवसा) अन्न, ज्ञान, पुष्टिकारक पदार्थ के साथ (रयिं) जीवन और (वर्चः) बल और कान्ति, रक्षा सामर्थ्य (अदाः) प्रदान कर ।

३ १२ २२ ३ १२ २२

[६१६] वसन्त इन्द्रु रन्त्यो ग्रीष्म इन्द्रु रन्त्यः ।

३ १ २ २२ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १२ २२

वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्द्रु रन्त्यः ॥ २ ॥

भा०—(वसन्त इत्) वसन्त ही (नु) निश्चय से रमण करने योग्य है । और (ग्रीष्मः) ग्रीष्म भी (इत् नु) निश्चय से (रन्त्यः) आनन्द लाभ करने योग्य है । (वर्षाणि) वर्षाकाल और (अनु शरदः) वाद में आने वाले शरत् के दिन और (हेमन्तः) हेमन्त और (शिशिरः) शिशिर (इत्) ये सभी (नु) निश्चय से (रन्त्यः) जीवन का आनन्द लाभ करने के लिये ही हैं ।

ऋतुनामों से ईश्वर को याद किया गया है । (वसन्तः) सब प्राणियों को बसाने हारा वह परमात्मा (इत् नु) ही तो केवल (रन्त्यः) आनन्द लाभ करने योग्य है । (ग्रीष्मः) सबको ग्रास करने हारा परमात्मा भी आनन्द ही देता है । (वर्षाणि) सब सुखों की वर्षा करने वाली (अनु शरदः) तथा उनके समान ही सब दुखों का नाश करने वाली शक्तियों और (हे मन्तः) सब पदार्थों को भ्रंश या ताड़ना करने वाला और (शिशिरः) शनैः २ प्रत्येक पदार्थ की आयुबल और शरीर को घिसाने वाला काल रूप परमात्मा (इत् नु) ही (रन्त्यः) एकमात्र आनन्द लाभ कराने वाला है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[६१७] सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

स भूमिं सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥ ३ ॥

अ० १० । ६० । ४ ॥ यजुः० ३१ । ४ ॥

६१७—‘स भूमिं विश्वता धृत्वा’ इति ऋ० । ‘सर्वतः स्पृत्वा’ इति पाठभेदः

यजुः० । ‘सहस्रशीर्षा’ इति यजुः० ।

भा०—(सहस्रशीर्षाः) सहस्रों शिरों वाला, (सहस्राक्षः) हजारों आंखों वाला, (सहस्रपात्) हजारों पैरों वाला, (पुरुषः) पुरुष, ईश्वर विराट् (सः) वह (भूमिम्) ब्रह्माण्ड नामक भुवन को (वृत्त्वा) घेरकर, व्याप्त होकर और भी (दशाङ्गुलम्) दश अङ्गुल अर्थात् दशों दिशाओं से भी (अति अतिष्ठत्) परे तक विराजमान है ।

१० अङ्गुल-परमात्मा के दशों दिशा में फैलने वाली व्यापक शक्तियाँ हैं । आत्मपक्ष में भूमि-नाभि, दश अङ्गुल दश इन्द्रिय । सर्व व्यापक सर्वान्तर्यामी और सब का नियामक होने से समस्त प्राणियों के लक्षों शिर, आंखों और पैरों को लक्ष्य करके ईश्वर को सहस्रशीर्षा आदि विशेषणों से गौण रूप से दर्शाया है । अथवा ब्रह्माण्डगत नाना दैत्यों को उस के शिर हैं, प्रकाशमान नाना सूर्य उसकी चक्षुषं और नाना वास योग्य भूमियाँ उसके चरण हैं ।

३ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[५१८] त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोस्येहाभवत्पुनः ।

२ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ २

तथा विश्वङ् व्यक्रामदशनानशने अभि ॥ ४ ॥

अ० १० । ६० । ४ । यजुः० ३१ । ४ ॥

भा—(पुरुषः) इस महान् ब्रह्माण्डरूप पुर में शयन करने का सर्वव्यापक, परमात्मा (त्रिपात्) सत्, चित्, आनन्दस्वरूप (उदैत्) सबसे उत्कृष्ट होकर, सब पर वश किये हुए अधिष्ठाता के समान होकर वर्तमान है । (अस्य) इसका (पादः) ज्ञान और क्रियारूप शासन ही (इह) इस ब्रह्माण्ड पर (पुनः) बार बार (अभवत्) सत्त्वरूप में प्रकट होता और विलीन होता है । (तथा) और वही (विश्वङ्) सर्वत्र (अशनानशने अभि) भोजन करने हारे प्राणियों और न भोजन करने हारे स्थावर, जड़ पदार्थों में भी (वि-अक्रामत्) व्यापक है ।

[६१६] ^{१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतम् यच्च भाव्यम् ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} पादाऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥५॥

अ० १० । ६० । २ पूर्वार्ध, ३ उत्तरार्ध, यजुः० ३१ । २ पू० । ३ उ० ॥

भा०—(यद् भूतं) जो अबतक उत्पन्न जगत् है, (यत् च भाव्यं) और जो भविष्यत् काल में उत्पन्न होने वाला जगत् है (इदं सर्वं) यह सब (पुरुष एव) पुरुष ही है । अर्थात् (सर्वा) समस्त (भूतानि) उत्पन्न हुए पदार्थ और प्राणिकण (अस्य पादः) इसके चरण हैं, इससे व्याप्त हैं या इसके एक चतुर्थांश हैं, या कार्य होने से उस प्रभु स्वामी के ज्ञापक हैं । और (अस्य त्रिपाद्) इसके तीन चरण (दिवि) अपने प्रकाशस्वरूप में (अमृतं) विनाशरहित, अमृतरूप सत्, चित्, आनन्द हैं । अर्थात् कार्यरूप जगत् विकार को प्राप्त होता है । वह ब्रह्म का एक पाद है और अमृतस्वरूप तीन शक्तियां सत्, चित्, आनन्द यह उसके निज अमृत, अविनाशी, आविकारी कारणस्वरूप हैं ।

[६२०] ^{१ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २} तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः ।

^{३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २} उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ६ ॥

अ० १० । ६० ३ ॥ यजु० ३१ । ३ पू०, २ उ० ॥

भा०—(तावान्) इस संसार में जितना (अस्य) इस जगत् का (महिमा) विस्तार है (ततः) उससे भी (ज्यायान्) बड़ा वह (पूरुषः) पुरुष परमेश्वर है । (उत) और वही (अमृतत्वस्य) इस अमर जीव संसार का (ईशानः) स्वामी है (यत्) जो (अन्नेन) अन्न या कर्मफल भोग के द्वारा (अतिरोहति) मूल कारण से कार्य को उत्पन्न करता है अर्थात् संसार को उत्पन्न करता है ।

६२०—'रातावानस्य' 'अतो ज्यायां' इति ऋ०, यजु० ।

१ २ २ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [६२१] ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुपः ।

२ ३ १ २ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २
 स जानां अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ७ ॥

अ० १० । ६ । ५ ॥ यजु० ३ । ५ ॥

भा०—(ततः) उस पुरुष से (विराड्) हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मा-
 ण्ड (अजायत) उत्पन्न हुआ । (विराजः अधि) उस विराट् से (पूरुपः)
 पुरुष, जीव उत्पन्न अर्थान् प्रकट हुआ, (सः) वह विराट् ही (अति
 अरिच्यत) सबसे बढ़ा रहा । (पश्चात्) उसके पश्चात् उसने (भूमिम्)
 इस भूमि को और (अथो पुरः) इन देहों को या इन सौर जगत्तों को भी
 उत्पन्न किया ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २२ ३ १ २
 [६२२] मन्ये वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथेथाममितम-
 १ २ २२ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २२ ३
 भियोजनम् । द्यावापृथिवी भवतं स्याने ते नो मुञ्चत-

१ २
 मंहसः ॥ ८ ॥

अथर्व० ४ । २६ । १ ॥

भा०—हे (द्यावापृथिवी) सबको प्रकाश देनेहारे गुरो ! सूर्य के स-
 मान प्रकाशक परमात्मन् ! और पृथिवी के समान विस्तृत विशाल प्रकृति !
 मैं (वाम्) आप दोनों को (सुभोजसौ) उत्तम पालन करने वाले (मन्ये)
 मानता व जानना हूँ । आप दोनों (अमितं) अपरिमित अनन्त (योजनं)
 इस संसार को (अप्रथेथाम्) विस्तृत कर रहे हो । हे (द्यावापृथिवी)
 पूर्वोक्त पुरुष और प्रकृति ! आप हमारे लिये (स्याने) सुखकारक (भवतं)
 हांओ । (ते) वे दोनों आप (नः) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्)
 मुक्त करो ।

६२२—“मन्ये वां द्यावा.....ममिता योजनानि । प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां ते नो०”

इति अथर्व० ॥

[६२३] ^{१ २} हरी न ^३ इन्द्र ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} श्मश्रूयुता त ^{१ २} हरिता हरी ।

^{१ २} तन्त्वा ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} स्तुवन्ति कवयः पुरुपासा वनगवः ॥ ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ते) तेरा (श्मश्रूणि) किरणें (हरी) हरणशील, सर्वव्यापक हैं (उत उ) और (ते हरी) तेरे गतिमान् अश्व, प्राण और अपान (हरिता) सब शरीरों को गति में रखने वाले व सर्वत्र विद्यमान हैं । (तं त्वा) उस परम स्मरणाय तुझको (वनर्गवः) सुन्दर वाणियों वाले (कवयः) मेधावी (पुरुपासः) पुरुष (स्तुवन्ति) स्तुति करते हैं ।

[६२४] ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ ३ २} यद्बर्चो ^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} हिरण्यम्य यद्वा ^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} वर्चो गवामुन ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} सत्यस्य ब्रह्मणा ^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} वर्चस्नन मा संसृजामसि ॥ १० ॥

भा०—(हिरण्यस्य) हरणशील मन, सुवर्ण या सूर्य का (यद् वर्चः) जो बल, तेज है (उत वा) और (यत्) जो (वर्चः) तेज, बल (गवां) इन्द्रियों का या किरणों का है और जो (वर्चः) तेज (सत्यस्य) सत्यस्वरूप (ब्रह्मणः) वेद का है (तेन) उससे हम (मा) अपने आत्मा को (संसृजामसि) युक्त करें ।

[६२५] ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} सद्गस्तत्र इन्द्र ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} दद्वथाज ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} इणे ह्यम्य महतो ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} विरग्निन् ।

^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} क्रतुं न नृमणं ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} स्थावरञ्च वाज ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} वृत्रपु ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} शत्रून्सहना ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} कृधो नः ॥ ११ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमात्मन् ! हे (विरग्निन्) हे सत्यज्ञानमय ! (नः) हमें (तत्) वह (सहः) बाधक, दोषों को दवाने वाला सहन बल और (आजः) तेज, पराक्रम (दद्वि) प्रदान करो जिससे आप (अस्य महतः) इस महान् संसार पर (इंशे) प्रभुता करने हो । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! (नः) हमारे आप (क्रतुं न) कर्म के समान ही (नृमणं) उपभाग योग्य धन धान्य और (स्थविरम्) स्थिर (वाजं) बल, अन्न और

ऐश्वर्यं (कृधि) करो और (नः) हमारे (स-हना) हथियारों वाले
हिंसक (शत्रून्) शत्रुओं को (वृत्रेषु) नाना विघ्नों में (कृधि) डाल ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[६२६] सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपणि विभ्रतीर्द्व्यूभी ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

उरुः पृथुरयं वो अस्तु लांक इमा आपःसुप्रपाणा इह स्न ॥१२

भा०—हे गौत्रो ! आप (सहर्षभाः) सांडों के साथ और (सहवत्साः)
बछड़ों के साथ (द्व्यूभीः) दोहरे स्तनमण्डल को वहन करती हुई
(विश्वा) नाना प्रकार के (रूपणि) रूप (विभ्रतीः) धारण करती हुई
(उत् पेत) उन्नति को प्राप्त होंओ । (अयं लोकः) यह लोक (वः) तुम्हारे
लिये (उरुः पृथुः) खूब बड़ा विशाल (अस्तु) रहे । (इमाः) ये (आपः)
जल (सु-प्र-पावाः) उत्तम पान करने वाले स्थानों से साज्जित रहे । (इह
स्त) तुम यहां रहो । रश्मियों के पक्ष में-ऋषभ, सूर्य, वत्स, प्रहादि और
रंस धारण करने हारे दो ऊधस् मेघ और पर्वत हैं । इन्द्रियों के पक्ष में-
ऋषभ आत्मा, परमात्मा । वत्स-मन, दो ऊधस् ज्ञान और कर्म, आपः-
प्रज्ञान और लोक ।

इति त्रयोदशी दशतिः । चतुर्थः खण्डः ।

॥६० १४॥ ऋषिः—१ वैश्वानसः । विश्वाद् सूर्यपुत्रः । ३ कुत्सः । ४-६ सार्ष

राज्ञी । ७-१४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥देवता—१ अग्निः पवमानः । २-१४

सूर्यः ॥ छन्दः २ जगती । ३ त्रिष्टुप् । १, ४-१४ गायत्री ॥ स्वरः

१ निषादः । ३ धैवतः । १, ४-१४ पङ्क्तः ॥

३ २ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

६२७] अग्नि आयूंषि पवस आसुवोर्जमिपं च नः ।

३ १ २ ३ १ २

आरे वाधस्व दुच्छनाम् ॥१॥ ऋ० ६ । ६६ । १ ॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! (नः) हमें (आयूंषि) आयु (पवसे) प्रदान कर । (नः) हमें (ऊर्जम्) बल और (इषं) अन्न (च) भी दो । (दुच्छुनाम्) बुरे पागल कुक्कुर के समान लोभ और क्रोध से अन्धे पुरुषों को (आरे) दूर ही (बाधस्व) पीड़ित कर ।

३ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६२८] विभ्राड् बृहत्पिवतु सोम्यमध्वायुर्द्वद्यज्ञपतावविहुतम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

वानजूतो यां अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपत्ति बहुधा

२४

विराजति ॥२॥ अ० १० । १७० । १ ॥ यजु० ३३ । ३० ॥

भा०—(विभ्राट्) विशेषरूप से देदीप्यमान सूर्य के समान स्वतःप्रकाश, परमात्मा (बृहत्) बड़ा भारी (सोम्यं) उत्पादक और प्रेरक गुणों से युक्त (मधु) जलिनरस को (पिवतु) पान अर्थात् अपने भीतर धारण करे । और (यज्ञपतौ) यज्ञ, जीवनयज्ञ या अन्य देवपूजा आदि सत्कर्मों के अनुष्ठाता पुरुष को (अविहुतम्) सरल, अकुटिल, धार्मिक (आयुः) जीवन (दधन्) धारण कराता है । (यः) जो परमात्मा (वातजूनः) वात, वायु के समान गतिमान् शक्तियों से युक्त होकर (त्मना) स्वयं (प्रजाः) प्रजाओं को (अभि रक्षति) रक्षा करता है, (पिपत्ति) पालन पोषण करता है और (बहुधा विराजति) बहुत प्रकारों से सत्रके ऊपर शासक रूप से विराजमान है ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ ३ २

[६२९] चिञ्च देवानामुदगादनीकञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

आप्राद्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥३॥

अ० १ । ११ । ५ १ ॥

भा०—(देवानां) दिव्यगुण वाले विद्वानों और सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु आदि बसु और प्राणादि रुद्रों और १२ आदित्यों के (अनीकं) प्राण,

६२८—'प्रजाः पुपोष पुरुधा' इति अ० ।

बल देनेहारे, प्रमुख (चित्रं) पूजनीय, (मित्रस्य) स्नेहवान्, (चरुणस्य) पापनिवारक (अग्नेः) प्रकाशस्वरूप लोकों के (चक्षुः) प्रकाशक या द्रष्टा और (द्यावापृथिवी) द्यौलोक, पृथिवीलोक और (अन्तरिक्षं च) अन्तरिक्ष का भी (आत्मा) व्याप्त करनेहारा (जगतः) जगम संसार और (तस्थुषः च) स्थावर संसार का (आत्मा) गति देनेहारा, उनका आत्मास्वरूप अधिष्ठाता, (सूर्यः) सबका प्रेरक और उत्पादक है ।

१२ २२ ३१ २३ ३१ २ ३२

[६३०] आयङ्गोः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरम्पुरः ।

३१ २ ३१ २

पितरञ्च प्रयन्त्स्वः ॥ ४ ॥

ऋ० १० । १८६ । १ ॥ यजु० ३ । ६ ॥

भा०—(अयं) यह (गौः) गमनशील, सर्वत्रव्यापक या वेदवाणीस्वरूप, (पृश्निः) सर्वान्तर्यामी समस्त संसार के तेजः पुञ्जों को स्पर्श करनेहारा, (पुरः) साक्षात् (आ अक्रमीत्) प्रकट होता है । और (मातरं) ज्ञान के प्राप्त करने हारे ज्ञाता के (पुरः) समक्ष ही (असदत्) विराजता है और (पितरं) अपनी प्रजाओं और तत्स्थानीय इन्द्रियों के पालक को भी (स्वः) सुखस्वरूप होकर (प्रयन्) प्राप्त होता है ।

जिस प्रकार सूर्य, पृथिवी, माता पिता और अन्तरिक्ष में व्याप्त हैं उसी प्रकार परमेश्वर विद्वानों और प्रजापालकों के हृदय में प्रकट होता है । वे ईश्वर के प्रेम से प्रजा का पालन और उपकार करते हैं ।

३ १ २ ३ २३ ३ १ २ ३ २

[६३१] अन्तश्चरति रोचनास्यप्राणाद्पानती ।

२२ ३ १ २२

व्यख्यन्माहिपो दिवम् ॥ ५ ॥

ऋ० १ । १८६ । २ ॥

भा०—(अस्य) इस परमेश्वर की (रोचना) सबको रुचिकर, प्रेममयी दीप्ति (प्राणद्) प्राण प्रदान करती हुई (अपानती) प्राण वायु को बाहर करती हुई (अन्तः) देह के भीतर (चरति) गति करती है,

कर्मफल-भोग करती है । (महिपः) वह महान् परमात्मा (दिवम्) सूर्य को भी (वि-अख्यत्) प्रकाशित करता है ।

३ २४ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६३२] त्रिंशद्धाम त्रिराजति वाक् पतङ्गाय धीयते ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥ ६ ॥ ऋ० १० । १८६ । ३ ॥

भा०—वह परमात्मा (वस्तोः) दिन के (त्रिंशद् धाम) तीसों स्थान, तीसों घड़ियों तक (द्युभिः) दीप्तियों से (त्रिराजति) हृदय में विराजता है । (वाक्) यह वेदवाणी, उसी (पतङ्गाय) सर्वव्यापक ईश्वर के लिये (प्रति धीयते) प्रत्येक पुरुष द्वारा मनन करने योग्य है ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६३३] अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्षुभिः ।

१ २ ३ १ २

सूराय विश्वचक्षसे ॥७॥ ऋ० १ । ५० । २ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (अक्षुभिः) रात्रियों के साथ २ (नक्षत्रा) नक्षत्र (विश्वचक्षसे) सब के दर्शक, प्रकाशक, (सूराय) सूर्य के कारण (अप यन्ति) लोप को प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार हे परमात्मन् ! (विश्वचक्षसे सूराय) समस्त प्राणियों के प्रकाशक, सब के प्रेरक आपके उदय होने के कारण (त्ये) वे (तायवः) हृदय के चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि भीतरी पाप (अप यन्ति) दूर भाग जाते हैं ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[६३४] अदृशन्नस्य केतवां त्रि रश्मयो जनाँ अनु ।

१ २ ३ १ २

आजन्तो अग्नयो यथा ॥८॥ ऋ० १ । ५० । ३ ॥

भा०—(आजन्तः) प्रकाशमान् (अग्नयः) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष (यथा) जिस प्रकार सब प्राणियों पर दृष्टि रखते हैं उसी प्रकार (अस्य)

इस परब्रह्म परमेश्वर के (केतवः) ज्ञान कराने वाले (रश्मयः) किरण (जनान् अनु) जन्म लेने वाले प्राणियों को (अद्भन्) बराबर देसते हैं ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६३५] तरणिविश्वदर्शनो ज्योतिष्कृदसि सूर्य ।

२ ३ १ २ ३ २

विश्वमाभालि राचनम् ॥६॥ ऋ० १ । ५० । ४ ॥

भा०—हे (सूर्य) सबके प्रेरक परमात्मन् ! आप (तरणिः) सबको इस भवबन्धन के पार तारने वाले, (विश्वदर्शतः) समस्त संसार में एरुमात्र दर्शनीय, (ज्योतिष्कृद्) समस्त सूर्य आदि प्रकाशमान ज्योतियों को पैदा करने हारे, (असि) हैं । आप ही (विश्वं) समस्त (रोचनं) मनोहर कान्तिमान् सुन्दर पदार्थों को (आभासि) प्रकाशित करते हो । सूर्य एक सैकड़ में २२०० योजन जाने से और रोगों से पार करने के कारण 'तरणि' और ग्रहों को प्रकाशित करने वाला होने से 'ज्योतिष्कृद्' कहाता है ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[६३६] प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेपि मानुषान् ।

३ २ ३ ३ २ ३ २

प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृशे ॥१०॥ ऋ० १ । ५० । ५ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! आप (देवानां) विद्वानों प्राणों और सब सूर्य चन्द्रादि दिव्य पदार्थों के (विशः) भीतर निवास करने वाली प्रज्ञार्थों के (प्रत्यङ्) सामने और (मानुषान्) मनन करने हारे प्राणियों के (प्रत्यङ्) सन्मुख और (स्वः) धौलोक आनन्दमय मोक्ष के (दृशे) दर्शन करने के निमित्त (विश्वम्) समस्त संसार के (प्रत्यङ्) प्रति (उद्-एपि) उदय को प्राप्त होते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[६३७] येना पात्रक चक्षसा भुरगयन्तं जनाँ अनु ।

१ २ ३ १ २

त्वं वरुण पश्यसि ॥११॥ ऋ० १ । ५० । ६ ॥

भा०—हे (पावक) सबको पवित्र करनेहारे ! हे (चक्षुष्य) सब अ-
निष्टों का वारण करने हारे परमात्मन् ! (येन) जिस (चक्षुषा) चक्षु से
(जनान्) जन्तुओं को (भुरग्यन्तं) भरण पोषण करने हारे तुझको
हम देखते हैं उसी प्रेममय चक्षु से (त्वं) तू समस्त जीवों को (पश्यसि)
देखता है ।

१२ २२३१२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[६३८] उ द्यामेपि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः ।

२ ३ १ २
पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥१२॥ अ० १। ५०। ७॥

भा०—हे (सूर्य) सबके प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर ! (अक्तुभिः)
व्यापनशील, शक्तियों द्वारा (पृथुः) विशाल (रजः) समस्त लोकसमूह को
(अह) और (द्याम् उ) समस्त सूर्य और धौलोक के भी (जन्मानि)
जन्म लेने वाले समस्त पदार्थों और प्राणियों को (पश्यन्) देखता
(एपि) रहता है ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ २ ३ ऊपर
[६३९] अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरौ रथस्य नप्त्यः ।

१ २ ३ १ २
ताभिर्प्राति स्वयुक्तिभिः ॥ १३ ॥ अ० १। ५०। ९॥

भा०—(सूरः) सबको प्रेरणा करने हारा परमात्मा (रथस्य) सब
देहों में आत्मा के साथ (शुन्ध्युवः) शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने वाली, (नप्त्यः)
हुमार्ग पर न गिराने वाली इन्द्रियों को (अयुक्त) जोड़ देता है और
(ताभिः) उन द्वारा ही (स्वयुक्तिभिः) अपनी शक्तियों के द्वारा (प्राति)
वह सर्वत्र व्यापक है ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[६४०] सप्त त्वा हरितां रथे वहन्ति देव सूर्य ।

३ १ २
शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४ ॥ अ० १। ५०। ८॥

६३८—'वि द्यामेपि' इति अ० ।

भा०—हे (सूर्य) सबके प्रेरक और उत्पादक ! हे (देव) प्रकाश-
मान ! हे (विचक्षण) सबके आत्मन् ! (रथे) इस शरीररूप रथ में
(त्वा) तुझको (शोचिष्केशं) कान्तियुक्त किरणों वाले (सप्त हरितः) सात-
ज्ञान प्राप्त कराने वाले इन्द्रियगण (वहन्ति) धारण करते हैं अर्थात् वे तेरी
शक्ति से अनुप्राणित हैं ।

इति चतुर्दशी दशतिः । पञ्चमः खण्डः ।

इति षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः ॥

इति षष्ठोऽध्यायः । इत्यारण्यकं काण्डम् ।

इति सामवेद-संहितायां पूर्वार्चिकः समाप्तः ॥

इति प्रतिष्ठितविद्यालंकारपदवीविभूषितेन मीमांसातीर्थोपाध्यलंकृतेन श्री पण्डितजयदेव-
शर्मणा विरचिते सामवेदस्यालोकभाष्ये आग्नेयैन्द्रपावमानारण्यककाण्डचतुष्टयात्मकः
सामवेदसंहितायाः पूर्वार्चिकाख्यो भागः समाप्तः ।



ओ३म्
अथ महानाम्न्यार्चिकः *

प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रश्चैलोक्यात्मा देवता ।

[१]

[६४१] विदा मघवन् विदा गातुमनुशांसिषो दिशः ।

शिजा शचीनाम्पते पूर्वीणाम्गुरुवसो ॥१॥

[६४२] आभिष्ट्वमभिष्टाभिः स्वाऽश्नीशुः ।

प्रचतन प्रचतयेन्द्रं द्युम्नाय न इषे ॥२॥

[६४३] एवा हि शक्रो राये वाजाय वज्रिवः ।

शविष्ठ वज्रिन्नृजस मंहिष्ठ वज्रिन्नृजस ।

आ याहि पिव मत्स्व ॥३॥

भा०—(१) हे मघवन् ! परमेश्वर ! (विदाः) आप सब कुछ जानते हैं । अतः (गातु) मार्ग को (विदाः) आप प्राप्त करावें, आप (दिशः) दिशाओं का (अनुशांसिषः) उपदेश करें, हमें लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा दर्शावें। हे (पूर्वीणां) पूर्ण (शचीनां) शक्तियों के (पते) स्वामिन् ! हे (पुरुवसो) समस्त प्रजाओं के भीतर बसने और उनको बसाने वाले ! या अति अधिक धन सम्पन्न ! (शिक्ष) हमें शिक्षा करो, नियमों का उपदेश करो

* अथमार्चिकः नतु छन्दमार्चिके नाप्युत्तरार्चिके । सर्वत्र एवमेव पूर्वोत्तरयोर्मध्ये पठितत्वात्परिशिष्टमिति केचित् । तदयुक्तम् । सर्वत्र सामसंहितासु तथोपलब्धेः । यद्ये च होतुः षष्ठेऽस्य विनियोगदर्शनाच्च । १. सोपसर्गाया अस्या शक्त्याः सामगैः खड्गवयं कृतम् । तत्र प्रथमे आद्यपादद्वयमुपसर्गः द्वितीये मध्यमपादद्वयमुपसर्गः तृतीये चान्तिप्रपाद उपसर्गः । शेषैः सप्तभिः पादैरष्टाक्षरैः पदपंचाशदक्षरा शकरी पूर्यते । सर्वत्र रेखाङ्किताः पादा उपसर्गाः शेषाः ।

(२) हे त्रैलोक्यपते ! हे (प्रचेतन) उत्कृष्ट चेतनासम्पन्न ! चिन्मय जगदीश्वर ! हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् ! आप (स्वः न) सबको प्रेरणा करने वाले सूर्य के समान (शंशुः) सर्वव्यापक, (आभिः) इन (अभिष्टिभिः) अभीष्ट उपासनाओं से (इषे) अन्न और जीवन प्राप्त करने के लिये और (शुम्नाय) ज्ञानस्वरूप प्रकाश प्राप्त करने के लिये (नः) हमें (प्रचेतय) उत्तम रीति से ज्ञानवान् करो ।

(३) हे (मंहिष्ठ) सबसे महान् ! सबसे बड़े दाता और पूजा के योग्य ! हे (वज्रिन्ः) पापों का वर्जन करने वाले, ज्ञान से सम्पन्न ! आप (शक्रः) शक्तिमान् (एव हि) ही हैं । अतः हे (शविष्ठ) सबसे अधिक बलशालिन् ! सर्वव्यापक, वज्रिन् ! आप हमें (राये) धन, ज्ञान, शक्ति, तेज और (वाजाय) बल, अन्न के निमित्त (ऋञ्जसे) समर्थ करो । हे वज्रिन् ! (ऋञ्जसे) आप हमें समर्थ बनाओ । (आयाहि) आप हमारे हृदय में प्रकट होओ । (पिब) यह ज्ञान, स्तुतिमय भक्तिरस मेरे हृदय पात्र में से पान करो या स्वीकार करो (सत्त्व) और आनन्दमय होकर विराजो ।

[२]

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[६४४-६४६] विदा राये सुवीर्यम्भवा वाजानाम्पातिर्वशां अनु ॥

१ २ ३ १ ३ १ २ २ ३ १ २
मंहिष्ठ वज्रिञ्जसे यः शंशुः शूराणाम् ॥४॥

१ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २
यां माहेष्टो मघोनामंशुर्च शोचिः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
त्रिंशत्तवो आभि ना नयन्द्रा विदे तमु स्तुहि ॥५॥

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
इश हि शक्रस्तमूनये हवामहे जेतारमपराजितम् ।

१ २ ३ १ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
स नः स्वर्षदति द्विपः ऋतुश्छन्द ऋतं बृहत् ॥६॥

भा०—हे त्रैलोक्यपते ! आप हमें (राये) श्रेष्ठ धन, आत्मज्ञान के प्राप्त करने के लिये प्रथम (सुवीर्य) उत्तम वीर्य, सामर्थ्य, ब्रह्मचर्य को (विदाः) प्राप्त कराओ । (यः) जो (शूराणाम्) शूरवीरों में भी (शविष्टः) सब से अधिक बलवान् है, हे (मंहिष्ठ) सबसे महान् ! (वज्रिन्) बलवान् ! पापनाशक ! आप (वाजानां पतिः) समस्त ऐश्वर्यों, ज्ञानों और बलों के पति (भवः) हैं । और (वशान्) आपके वशीभूत समस्त लोकों के (अनु) अनुकूल हितके लिये उनपर (ऋञ्जसे) वश करते हो ॥४॥

भा०—(यः) जो (मघोनां) समस्त ऐश्वर्य वालों में (मंहिष्ठः) सबसे बड़ा दाता है वही (अंशुः न) समस्त संसार में अपनी प्रसरणशील रश्मियों से व्यापक सूर्य के समान (शोचिः) शुद्ध, कान्तिमान् है । हे (चिकित्स्वः) सर्वज्ञ ! आप (इन्द्रः) समस्त ऐश्वर्यशाली (नः) हमें भी (विदे) ज्ञान और बल को प्राप्त कराने के लिये (अभि नय) आगे ले चलो । हे मनुष्य ! तू (तम्) उसकी ही (स्तुधि) स्तुति कर ॥५॥

भा०—' हि) क्योंकि (शक्रः) सर्व शक्तिमान् परमेश्वर ही (ईंशे) सब का शासन करता है इसलिये (उतये) अपनी रक्षा के लिये (अपराजितं) किसी से भी न हारे हुए, (जेतारं) सब पर विजय करने वाले उस परमात्मा को (हवामहे) हम स्मरण करते हैं । (सः) वह (नः) (हमारे (द्विपः) शत्रुओं को (सु अर्पद्) विनाश करे । वह महान् परमेश्वर ही (क्रतुः) सब दुनियां का कर्ता (छन्दः) वेदज्ञानमय, सब का रक्षक, (ऋतम्) सत्यस्वरूप और (वृद्धत्) सबसे बड़ा है ॥६॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६४७] इन्द्रं धनस्य स्नानये हवामहे जेतारमपराजितम्

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

स नः स्वर्पदाति द्विपः स नः स्वर्पदति द्विपः ॥७॥

[६४८] ^{१ २ ३ १ २} पूर्वम्य यत्त ^{३ १ २ २ २} अद्रिवाँऽशुम्भदाय ।
^{३ १ २} सुम्न आ ^{२ २} धेहि नो वसो ^{३ १ २} पूत्तिः शविष्ठ शस्यते ।
^{३ २} वशी हि शक्रो ^{३ २ ३ १ २} नूनं तन्नव्यं सन्न्यसे ॥८॥

[६४९] ^{३ १ २ २ २} प्रभो जनस्य वृत्रहन्तमर्थेषु ^{३ २ १} ब्रवावहै ।
^{२ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} शूरो यो गोपु गच्छति सखा सुशेवो अद्रयुः ॥९॥

भा०—(धनस्य) परमैश्वर्य को (सातये) प्राप्त करने के लिये हम (अपराजितं जेतारं) न हारे हुए, पराक्रमी विजेता (इन्द्रं) परमात्मा को (हवामहे) पुकारते हैं । (सः नः द्विपः अति स्वर्पद् २) वह हमें शत्रुओं से पार करे, वह हमारे शत्रुओं से पार करे ॥७॥

भा०—हे (अद्रिवः) ज्ञानस्वरूप, अखण्ड ! सबके प्रलय करने हारे ! (पूर्वस्य) सबके पूर्व विद्यमान मूल कारण तेरा (यद्) जो स्वरूप (अशुः) सर्वव्यापक (मदाय) आनन्द देने के लिये है, हे (वसो) सबको बसाने हारे ! वह (नः सुम्ने) हमारे सुख के लिये हमें (आ धेहि) प्रदान कर । हे (शविष्ठ) सर्व शक्तिमान् ! तेरा (पूत्तिः) सबका पालन पोषण करने वाला स्वरूप ही (शस्यते) प्रशंसा किया जाता है । (नूनं) निश्चय से आप (शक्रः) शक्तिमान् होकर (वशी) सब पर वश करने हारे हो । (तत्) इसीलिये उस (नव्यं) स्तुतियोग्य आपको ही (सं न्यसे) मैं अपने हृदय में आराध्यदेव के समान स्थापन करता हूँ ॥८॥

भा०—हे (प्रभो, वृत्रहन्) समर्थ ! हे विघ्नविनाशक ! हम स्त्री पुरुष, गुरु या शिष्य (जनस्य) प्राणियों के (अर्थेषु) बड़े २ स्वामियों के भी ऊपर विद्यमान (ब्रवावहै) तेरी स्तुति करते हैं । (यः) जो आप (गोपु) वेदवाणियों में (गच्छति) प्रतिपाद्य अर्थ के रूप में व्याप्त हैं वह (सखा) हमारे आत्मा के मित्र, (सुशेवः) उत्तम रीति से संवा करने योग्य (अद्रयुः) एकमात्र अद्वितीय हैं ॥ ९ ॥

अथ पञ्च पुरीषपदानि

SSS SS

[६५०] (१) एवा^३ह्यो^२ऽ३ऽ३ऽ३व

भा०—हे इन्द्र ! परमेश्वर आप (एव) ऐसे (हि) ही (एव) निश्चय से हो।

(२) एवा^२ ह्यग्ने^{३ १ २}

हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! (एवं हि) आप ऐसे प्रकाशस्वरूप ही हो।

(३) एवा^{३ १ २}हीन्द्र

हे (इन्द्र) सर्वैश्वर्यसम्पन्न ! सब के प्रकाशक, स्वयं प्रकाशमान ! (एव हि) निश्चय आप ऐसे ही हो।

(४) एवा^{३ १ २} हि पूषन्^{२ २}

हे (पूषन्) सबके पोषण करने हारे परमात्मन् ! (एव हि) आप ऐसे ही हो।

(५) एवा^{३ १ २} हि देवाः^{२ २}

हे (देवाः) हे समस्त देवगण ! दिव्यगुणों मे सम्पन्न पदार्थों ! एवं विद्वानो ! (एव हि) आप सब परमेश्वर के गुणों से ही इस प्रकार के हो।

इति पञ्च पुरीषपदानि ।


इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ।

इति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमांसातीर्थोपाध्यलंकृतेन श्रीपण्डितजयदेवशर्मणा विरचिते
सामवेदस्यालोकभाष्ये सामवेदसंहितायाः महानाम्न्याचिकाख्यो

भागः पूर्तिमगात् ॥

* ओ३म् *

सामवेदसंहितायाः



उत्तरार्चिके

प्रथमः प्रपाठकः (प्रथमोऽर्धः)

अथ प्रथमोऽध्यायः

अपिः—१ असितः काश्यपो देवलो वा । २ काश्यपो मारीचः । ३ वैखानसा
आङ्गिरसः । ४ भरेद्वाजः । ५ विश्वामित्रो जमदग्निर्वा । ६ इरिमिठः । ७ विश्वामित्रो
गाथिनः । ८—१० जमदग्निराङ्गिरसः । ११ वसिष्ठः । १२ वामदेवः । १३
नोधा काक्षीवतः । १४ कलिः प्रागाथः । १५ पुष्कलोऽग्निः । १६ संहितः । १७
शफः । १८ श्यावाश्वः । १९ आन्धीगवः । २० अग्निर्वैश्वानरः । २१ साकमश्वः ।
२२ सौभरिः । २३ नृमेधः ॥ देवता—१—३, ८—१०, १५—१९ सोमः ।
४, २०, २१ अग्निः । ५ मित्रावरुणौ । ६, ११, १३, १४, २२, २३ इन्द्रः ।
७ इन्द्राग्नी । १२ सर्वे देवाः ॥ छन्दः—१—८, १२, १५, २१ गायत्री । ६,
११, १३, १४, २० बृहती । १० त्रिष्टुप् । १६, २२, २३ ककुप् । १७
उष्णिक् । १८ अनुष्टुप् । १६ जगती ॥ स्वरः—१—८, १२, १५, २१
पङ्जः । ६, ११, १३, १४, २० मध्यमः । १० धैवतः । १६, १७, २२,
२३ ऋपभः । १८ गान्धारः । निपादः ॥

१ २

३

१ २

३ १ २

[६५१] उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे ।

३ २ ३ १ २२

अभि देवां इयजते ॥ २ ॥

[६५२] ^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} अग्निं नै मधुना पयोऽथर्वाणां अशिश्त्रयुः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २} देवं देवाय देवयुः ॥ २ ॥

[६५३] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते ।

^{१ २ ३ १ २} शं राजन्नोपधीभ्यः ॥ ३ ॥ १ ॥ ऋ० ६ । ११ । १-३ ॥

भा०— (१) हे (नरः) मनुष्यो ! (अस्मै) इस (पवमानाय) शुद्धिकारक (देवां अग्निं इत्युक्ते) देवों, विद्वानों के प्रति अपना ज्ञान प्रदान करते हुए (इन्द्रवे) परमेश्वर की (उप गायत) स्तुति गान करो, उपासना करो ।

(२) (ते) तेरे (देवं) दिव्यगुणसम्पन्न (देवयुः) देवों, विद्वानों से अग्निलपित, (पयः) पोषणकारी आनन्द रस को (अथर्वाणः) अहिंसक तपस्वी लोग (मधुना) मनन करने योग्य ब्रह्मज्ञान के संग (अशिश्त्रयुः) मिलाकर आस्वादन करते हैं ।

(३) हे (राजन्) देदीप्यमान परमेश्वर ! (सः) वह तू (नः) हमारे (गवे) ज्ञानेन्द्रियगण या पशु सम्पत्ति में (शं) कल्याण, सुख (पवस्व) प्रदान कर । (जनाय) हमारी समस्त प्रजाजन को, (शं) सुख कल्याण हो और (अर्वाते) कर्मेन्द्रियों या अश्वादि सेनाहों में (शं) शान्ति सुख हो । और हमारे (ओपधीभ्यः) उष्णता, प्रताप या तेज को धारण करने वाले लोगों को भी (शं) सुख हो ।

[६५४] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} द्विद्युतन्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा ।

^{१ २ ३ १ २} सामाः शुक्रा गवाशिरः ॥ १ ॥

[६५५] ^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} हिन्वानो हेतुभिर्हित आ वाज वाज्यकमीत् ।

^{१ २ ३ १ २} सीदन्तो वनुषो यथा ॥ २ ॥

[६५६] ऋक्सोम स्वम्नय संजग्मानो दिवा कवे ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
पवस्व सूर्यो दृशे ॥ ३ ॥ २ ॥ ऋ० ६ । ६४ । २८-२०

आ०—(१) (सोमाः) सौम्य गुणों से युक्त विद्वान् योगीजन, (शुक्राः) शुक्ल-कर्म अर्थात् निष्पाप कर्म करने हारे, (गवाशिरः) अपनी इन्द्रियों पर वश करने हारे, (दविद्युत्त्या) अधिक प्रकाशमान (रुचा) कान्ति और (परिष्टोभन्त्या) सर्वत्र गुणवर्धन करने हारे (कृपा) प्रशंसनीय सामर्थ्य से युक्त रहते हैं ।

(२) (यथा) जिस प्रकार (वनुपः) हिंसक योद्धा लोग (सीदन्तः) विशेष पैतरों पर रहते हुए आक्रमण करते हैं, या जिस प्रकार (वाजी) बलवान् घोड़ा (हेतृभिः) हयटरों से (हिन्वानः) ताड़ा गया (वाजं) युद्ध के मैदान में (अक्रमीत्) दौड़ता है उसी प्रकार (वाजी) ज्ञानवान् पुरुष (हेतृभिः) लौकिक कष्टों या हेय, त्याज्य दुःखों से (हिन्वानः) प्रेरित होकर (हितः) सन्मार्ग में आकर (वाजं) ज्ञानपथ पर (अक्रमीत्) कदम रख देता है ।

(३) हे (कवे) क्रान्तदर्शिन ! मेधाविन् ! हे (सोम) सौम्यगुणों से युक्त महानुभाव ! विद्वन् ! (दिवा) प्रकाश, ज्ञान के बल पर (ऋधक्) दूर २ भी, लोक के (स्वस्तये) कल्याण के लिये (संजग्मानः) गमन करता हुआ तू (सूर्यः) सूर्य के समान (दृशे) सबको सत्य पदार्थों के दर्शाने के लिये (पवस्व) सर्वत्र जा ।

[६५७] पवमानस्य ने कवे वाजिन्तसर्गा असृक्षत ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २
अर्वन्तो न श्वस्यवः ॥ १ ॥

[६५८] अञ्छा कोशं मधुश्चुतमसृष्टं वारं अय्यय ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अवावशन्त धातियः ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २

[६५६] अचक्षा समुद्रमिन्दवाऽस्तं गावो न धेनवः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २

अग्मन्नृतस्य यानिमा ॥ ३ ॥ ३ ॥ अ० ६ । ६६ । १०-१२ ॥

भा०—(१) हे (कवे) मेधाविन् ! विद्वान् पुरुष ! हे (वाजिन्) ज्ञान-
वन् ! (अर्वन्तः न) जिस प्रकार रथ दौड़ाते हुए पुरुष के घोड़े बराबर
सरपट होजाते हैं उसी प्रकार (ते पवमानस्य) योगसाधना के मार्ग पर
गमन करते हुए तेरे (श्रवस्यवः) ज्ञान को प्राप्त करने हारे (सर्गाः) प्रयत्न
(अस्मत्त) आप से आप सफल होने लगते हैं ।

(२) (धीतयः) ध्यान करने हारे साधक लोग (अव्यये) कभी न
झींझने वाले, या प्राणमय (वारे) आवरण के ऊपर (मधुश्चुतं) मधु,
ब्रह्मानन्द रस को चुवाने वाले (कोशं) आनन्दमय कोश को (अचक्षा)
उत्तम रीति से (अस्मत्तं) प्रकट करते हैं और (श्रवावशन्त) उसी की कामना
करते हैं । अर्थात् तामस आवरण पार करके वे ज्ञानमय आनन्द को प्राप्त
करते हैं और उसी में मग्न होजाते हैं ।

(३) (धेनवः गावः) दुधारी गौएं जिस प्रकार (अस्तं न) घर को
स्वयं आजाती हैं उसी प्रकार (इन्दवः) ऐश्वर्यसम्पन्न, ज्ञान से प्रकाशित
चित्त वाले विद्वान् लोग (समुद्रं) उत्तम रीति से उमड़ने वाले आनन्द-
सागर, परम धाम, (अतस्य यानिन्) सत्य, ज्ञान और समस्त यज्ञ के मूल
कारण परमेश्वर को (अचक्षुः) भली प्रकार (आ, अग्मन्) प्राप्त होते हैं ।

इति प्रथमः खण्डः ।

—:0:—

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[६६०] अग्नि आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातय ।

३ २ ३ १ २

नि होता सति वाहपि ॥ १ ॥

[६६१] तं त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ।

वृहत्त्र्योन्वा यविष्य ॥ २ ॥

[६६२] स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि ।

वृहदग्ने सुवीर्यम् ॥ ३ ॥ ४ ॥ ऋ० ६ । १६ । १०-१२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [१] पृ० १ ॥

(२) हे (अंगिरः) प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (तं) उस प्रसिद्ध (त्वां) तुम्ह परमेश्वर को (समिद्धिः) दीप्ति के साधन ज्ञानों और (घृतेन) देदीप्यमान तेज से (वर्धयामसि) हम आपको बढ़ाते हैं, आपकी विशालता प्रकट करते हैं, अतः हे (यविष्य) सबसे अधिक सामर्थ्य वाले ! सर्वशक्तिमन् ! (वृहत्) आप अति अधिक (शोच, हृदय में प्रकाशित हों ।

(३) हे देव ! अग्ने ! विद्वन् ! प्रभो ! आप हमें (पृथु) अति विशाल (वृहत्) बड़े, (सुवीर्यं) उत्तम सामर्थ्य युक्त (श्रवाय्यं) श्रवण करने योग्य वेदज्ञान को (अच्छ) भली प्रकार (विवाससि) प्रकट करें ।

[६६३] आनो मित्रावरुणा घृतेन्यूतिमुक्षनम् ।

मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ १ ॥

[६६४] उरुशंसो नमोवृधा मन्ना दक्षस्य राजथः ।

द्राघिष्ठाभिः शुचिन्नना ॥ २ ॥

[६६५] गृणाना जमदग्निना यानावृतस्य सीदतम् ।

पात सोममृतावृधा ॥ ३ ॥ ५ ॥ ऋ० ३ । ६२ । ६१-१८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२२०] पृ० ११३ ॥

(२) हे (मित्रावरुणा) प्राण और अपान ! तुम दोनों (शुचिन्नतौ) शुद्ध पवित्र कर्म करनेहारों, (उरुशंसौ) अति प्रशंसनीय, (नमोवृधां) ज्ञान

बल, अन्न और स्तुति से बढ़ने वाले (दत्तस्य) आत्मा के (महा) महान् सामर्थ्य से और (दाधिष्ठाभिः) अति दीर्घ इष्टियों से आप (राजथः) प्रकाशित होते और सबके ऊपर विराजमान रहने हो ।

(३) तुम दोनों (ऋतावृधा) सत्य और ज्ञानयज्ञ के बढ़ाने हारे, (जमदग्निना) हृदय के भीतर प्रकाशित, अग्निस्वरूप आत्मा या परमेश्वर के ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा वाले योगी द्वारा (गृणानौ) अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हुए आप प्राण और अपान (ऋतस्य) इस जीवनयज्ञ या उपासना या योगयज्ञ के (योनौ) मूल भाग में (सीदतम्) स्थिति को प्राप्त करो और (सोमं) सर्वप्रेरक बल को (पातं) प्राप्त करो ।

^{१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २}
[६६६] आयाहि सुपुमाहि न इन्द्र सोम पिवा इसम् ।

^{२ ३ ३ २ ३ २ २}
पर्दं वहिः सदा प्रम ॥ १ ॥

^{१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
[६६७] आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र कशिना ।

^{२ ३ १ ३ ३ २}
उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥२॥

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २}
[६६८] ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः ।

^{३ १ २}
सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ ६ ॥ ऋ० ६ । १७ । १३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो मन्त्र संख्या [१६१] पृ० १०२ ॥

(२) हे (इन्द्र) आत्मन् ! (ब्रह्मयुजा हरी) ब्रह्म, ब्रह्मविद्या या वेद मन्त्रों के ज्ञानपूर्वक योग युक्त, समाहित होने वाले (हरी) गतिशील प्राण और अपान, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय (कशिना) दीक्षियों से युक्त होकर (त्वा) तुझको (वहताम्) आगे, उन्नति पथ पर लेजावें । और तू (नः) हमारे (ब्रह्माणि) वेदमन्त्रों को (शृणु) सुन और मनन कर । ज्ञानी पुरुषों का अपने आत्मा के प्रति सम्बोधन है ।

(३) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (वयम्) हम (ब्रह्माणः) ब्रह्मज्ञानी लोग (सोमपाः) सोमरस का पान करने वाले (सुतावन्तः) सम्पादित सोम

मय आनन्दरस को प्राप्त होकर (युजा) समाधि द्वारा (त्वा) तुम्ह (सोमपाम्) सोम, समस्त विश्व का पान अर्थात् आदान या वश करने हारे परमेश्वर को (हवामंद्) पुकारते हैं ।

[६६६] इन्द्राग्नी आगतं सुतं गीर्भन्भो वरेण्यम् ।

अस्य पातं धियेपिता ॥१॥

[६७०] इन्द्राग्निं जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चतनः ।

अया पातमिमं सुतम् ॥२॥

[६७१] इन्द्रमग्निं कविच्छ्रदा यज्ञस्य जून्या वृणे ।

ता सामस्येह तम्पताम् ॥३॥७॥ । ऋ० ३ । १२ । १,३॥

भा०—(१) हे (इन्द्राग्नी) ऐश्वर्यवान् आचार्य ! और ज्ञानसम्पन्न अग्ने ! उपदेशक ! जिस प्रकार वायु और सूर्य सब जगत् की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार (अस्य मध्ये) इस संसार के बीच में (इपिता) समस्त बातों का ज्ञान कराने हारे (गीर्भिः) अपनी वाणियों से और (धिया) अपनी धारणावती बुद्धि से (नभः) समस्त जगत् की और (वरेण्यं सुतं) वरण करने योग्य, श्रेष्ठ पुत्र की (पातं) रक्षा करो । अथवा—(नभः) सब को एक सूत्र में बांधने वाले (वरेण्यं) श्रेष्ठ (सुतं) ज्ञान और आनन्द का (पातं) उत्तम रीति से स्वयं पान करो, और अन्वियों को कराओ, उपदेश करो ।

(२) हे (इन्द्राग्नी) ऐश्वर्य के स्वामिन् इन्द्र ! राजन् ! और अग्ने ! ज्ञान के स्वामिन् ! विद्वन् ! ब्राह्मण ! जो (चेतनाः) चेतनास्वरूप (यज्ञः) आत्मा (युषां) आप दोनों को (जिगाति) प्राप्त है आप उस (जरितुः) सत्य गुणगान करने हारे पुरुष के (सचा) साथ रहकर (अया) इस प्रत्यक्ष शक्ति से (इमं सुतं) इस उत्पन्न संसार का (पातं) पालन करो ।

(३) मैं (कविच्छदौ) मेधावि पुरुष के आच्छादन, सत्संग और रक्षा करने वाले (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् और (अग्निं) ज्ञानवान् पुरुष को (यज्ञस्य) इस पूज्य आत्मा में (जूत्या) भीतरी ज्योति से (वृषो) वरण करता हूँ, अपनाता हूँ । (तौ) वे दोनों (इह) इस संसार में (सोमस्य) समस्त ऐश्वर्य के द्वारा (तृम्पतां) स्वयं तृप्त हों, और सबको तृप्त करें ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

[६७२] उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सदभूम्याददे ।

उग्रं शर्मं महि श्रवः ।

[६७३] स न इन्द्राय यज्येव वरुणाय मरुद्भ्यः ।

वरिवावित्परिस्त्रव ॥२॥

[६७४] एना विश्वान्यथे आ द्युम्नानि मानुषाणाम् ।

सिपासन्तो वनामहे ॥३॥ ८॥ अ० ६ । ६१ । १०, १२, १११

भा०—इन तीनों अर्चाओं का व्याख्यान क्रम से देखो अविकल संख्या [४६७] पृ० २३६, और [५६२, ५६३] पृ० २६८ ॥

[६७५] पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्धसि ।

आ रत्नधा यानिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो ङिरण्ययः ॥१॥

[६७६] दुहान ऊधदिव्य मधुप्रियं प्रतनं लघस्त्रमासदत् ।

आ पृच्छ्य धरुणं वाज्यपांसि नृभिर्द्धौते विचक्षणः ॥२॥६॥

अ० ६ । १०७ । ४, ५ ॥

भा०—(१) इसकी व्याख्या देखो अविकल संख्या [५११] पृ० २५२ ।

(२) (विचक्षणः) चतुर, बुद्धिमान्, (वाजी) ज्ञानी, (ऊधः) उन्नति के पथ में ले जाने वाले, (दिव्यं) दिव्य (धौतम्) मल और

भीतरी पापा आदि से मुक्त, शुद्ध पवित्र, (प्रियं) उत्तम, (प्रत्नं) प्राचीन आनादि (सधस्थं) नित्य साथ रहने वाले, (मधु) मनन योग्य आत्मानन्द या ज्ञान को (आसदत्) प्राप्त हो जाता है और दाद में वही योगी (नृभिः) ज्ञानवान् पुरुषों से भी (आपृच्छ्यं) गुरुओं से प्रश्न पूर्वक ज्ञान करने योग्य (धरुणं) सबके आश्रयभूत ईश्वर को (अर्पसि) प्राप्त होता है ।

[६७७] ^{१ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} प्रो तु द्रव्य परिक्लाशं निपीद नृभिः पुनानां अभिवाजमर्प ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जयन्ताच्छ्ला वदिरशनाभर्जयन्ति ।

[६७८] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} स्वायुधः पचत द्रव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} पिता देवानां जिनिता सुदत्ता विष्टम्भो दिवो धरुणः

^{३ २} पृथिव्याः ॥२॥

[६७९] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} ऋषिर्विप्रः पुरपता जनानामृभुध्रार उशना काश्यप ।

^{१ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ २ ३ १ २} स त्रिद्विवद निदितं यदासामपाच्येशुल्लं नाम गोनाम् ।

॥३॥१०॥

ऋ० ६ । ८७ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [५२३] पृ० २५६ ॥

(२) (इन्दुः) ऐश्वर्यशील, (देवः) देव, ईश्वर और राजा (स्वायुधः) उत्तम आयुधों से युक्त (अशस्तिहा) शासन न मानने वालों का नाश करने वाला, (वृजना) सेनाबलों की (रक्षमाणः) रक्षा करता हुआ, (देवानां पिता) सब देवों, विद्वानों का पालक (सुदत्ता) उत्तम बलशाली, कार्यकर्ता (दिवः) ज्ञान प्रकाश, और दिव्यगुण सम्पन्न सूर्य, द्यौलोक और सात्विक पुरुषों को (विष्टम्भः) थामने वाला, वशकारक (पृथिव्याः) इस पृथिवी, और राष्ट्र का एकमात्र धारण करने हारा है ।

६७८—(२) 'वृजिना' इति ऋ० ।

(३) (ऋषिः) अतीन्द्रिय ज्ञानों का दृष्टा, (विप्रः) ज्ञानवान् मेधावी, (जन्तानां पुरः एता) समस्त जनों, जीवों का नायक के समान अग्नेसर, (ऋभुः) सत्य ज्ञान से अति प्रकाशमान, (धीरः) कर्म और प्रज्ञानों का दाता, (उशनाः) सब पर वश करने वाला, एकमात्र योगी (काव्येन) ज्ञान-मय वेद साहित्य द्वारा (आसां) इन (गानां) वेदवाणियों का (अपीच्यं) मनोहर, गुप्त, (गुह्यं) हृदय से जानने योग्य (निहितं) भीतर रक्खा हुआ (नाम चिद्) सार (विवेद) स्वयं जाने और औरों को जनावे ।

इति तृतीयः खण्डः ।

[दि०] ^{३ १ २} अ० त्वा शूर ^{३ १ २} नानुमोऽदुग्धा ^{३ १ २} इव धेनवः ।

^{१ २ ३ ५२} ईशानमस्य ^{२२ ३२ ३ १ २} जगतः ^३ स्वर्दशमीशानमिन्द्र ^{३ १} तस्थुषः ॥१॥

[दि०?] ^{५२ २२ ३ २ ३ ५२} न त्वात्रां ^{२२ ३ २ ३ ५२} अन्यो दिव्या ^{३ १ २ ३ १ ३} न पार्थिवा ^{२२} न जातो ^{३ १ २ ३ १ ३} न जनिष्यते ।

^{३ १ २} अश्वाश्रन्ता ^{३ १ २ ३ १ ३} मघवन्निन्द्र ^{३ १ २ ३ १ ३} वाजिनो ^{३ १ २ ३ १ ३} गव्यन्तस्त्वा ^{३ १ २ ३ १ ३} हवामहे ॥२॥

॥११॥

अ० ७। ३२। २२-२६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३३] पृ० ११६ ।

(२) हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! परमेश्वर ! (त्वावान्) तेरे जैसा (अन्यः) दूसरा (दिव्यः) दिव्य गुणों से युक्त (न जातः) न पैदा हुआ और (न जनिष्यते) न पैदा होगा । और तेरे जैसा अन्य (पार्थिवः) इस पृथ्वी का कोई पदार्थ, या पृथ्वी का मालिक भी (न जातः न जनिष्यते) न हुआ और न होगा । हम (अश्वाश्रन्तः गव्यन्तः) अश्व और गौश्रों या प्राण और कर्मेन्द्रियों को चाहने वाले, (वाजिनः) ज्ञान और बल के इच्छुक होकर (त्वा हवामहे) तेरी स्तुति करते हैं ।

दि० १—(३) 'शतं भवास्त्युतिभिः' इति अ० ।

१ २ ३ ५२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[६८२] कया नश्चित्र आभुवदूर्ती सदावृधः सखा ।

२ ३ १ २ ३ २

कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥

१ २ ३ ५२ २२ ३ १ २ ३ १ २

[६८३] कस्त्या सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २

दृढा चिदारुजे वसु ॥ २ ॥

३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

[३८४] अभी पु णः सखीनामविता जरितृणाम् ।

३ १ २ ३ १ २

शतं भवास्मूनये ॥ ३ ॥ १२ ॥ ऋ० ४ । ३१ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [१६६] पृ० ६३ ।

(२) (मंहिष्ठः) पूजनीय, (सत्यः) सत्यस्वरूप, (मदानां) हर्षों, आनन्दों के बीच में (कः) कौनसा (अन्धसः) जीवन धारण कराने वाला या अन्धकार का नाश करने वाला परम रस है जो (आरुजे) आरोग्य के लिये और (दृढ चिद् वसु) दृढ़ वास योग्य जीवनरूप धन होकर (त्वा) आपको (मत्सत्) आनन्दित करे ।

(३) हे इन्द्र ! आप (नः) हमारे (सखीनां) मित्र (जरितृणां) सहिष्ठा का उपदेश करने वाले विद्वानों के (ऊतये) रक्षा के लिये (शतं) सौ वर्षों तक (अविता) रक्षक (भवासि) बने रहें ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २

[६८५] तं वो दस्ममृतीपहं वसोर्मन्दानमन्धसः ।

३ २ ३ ५२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे ॥ १ ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ ५२ २२ ३ १ २

[६८६] द्युत्तं सुदानुं तविर्षाभिरावृतं गिरिं न पुरुभाजसम् ।

३ २ ३ १ २ ३ १ १ ३ १ २ ३ ५२ २२

क्षुमन्तं घाजं शतिनं सहस्रिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ २ ॥

॥ १३ ॥

ऋ० ८ । ८८ । १-२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३६] पृ० १२० ।

(२) (सुखं) दिव्य गुणों में निवास करने हारे (सुदानुं) उत्तम दाता, (तच्चिपीभिः) बलों से (आवृतम्) घिरे हुए, परिपूर्ण, (पुरुभोजसं) प्रजाओं के पालक से हम (पुमन्तं) निवास योग्य गृहादिसम्पन्न, (शतिनं) सैकड़ों (सहस्रिणं) सहस्रों सुखों और लाभों से युक्त (गोमन्तं) गो-धन से पूर्ण (वाजे) ज्ञान और ऐश्वर्य को (ईमहे) याचना करते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६८७] नरोभिर्वो विदहसुमिन्द्रं सवाय ऊतये ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

पृहदायन्नः सुतसामं अध्वरे हुवे भरं न कारिणम् ॥१॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६८८] न यं दुधा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदे सुशिप्रमन्धसः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

य आदृत्या शशमानाय सुन्वत दाता जरित्रे उक्थ्यम् ॥२॥

॥ १४ ॥

अ० ८ । ६६ । १-२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अविकल संख्या [२३७] पृ० १२१ ।

(२) (यं) जिस (सुशिप्रं) उत्तम ज्ञानवान् पुरुष या आत्मा को (दुधाः) बड़ी कठिनता से रोके जाने योग्य, अदम्य, क्रोध, काम आदि के वेग भी (न वरन्ते) वारण नहीं करते, या नहीं घेरते और (स्थिराः न) स्थिर, तामसभाव या आलस्य आदि भी जिसको रोक नहीं सकते । और जिसको (मुरः) मरणशील क्षणिकभाव भी विचलित नहीं कर सकते, वह आत्मा (अन्धसः) सोमरस, जीवनदायक, अज्ञान नाशक ज्योति के (मदे) आनन्द में (शशमानाय) स्तुति उपासना करते हुए (सुन्वते) योग साधना करनेहारे (जरित्रे) अन्यो को सत्विद्या का उपदेश करनेहारे साधु पुरुष को (उक्थ्यं) वेदमय ज्ञान को (आदृत्य) आदरपूर्वक (दाता) प्रदान करता है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

[६८६] स्वादिष्टया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया ।

इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १ ॥

[६६०] रक्षोहा विश्वचर्षणिरभियोनिमयोहते ।

द्रोणे सधस्थमासदत् ॥ २ ॥

[६६१] वरिवो धातमो भुवो मंदिष्ठो वृत्रहन्तमः ।

परि राधा मघोनाम् ॥ ३ ॥ १५ ॥ ऋ० ६ । १ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [४६८] पृ० २३६ ।

(२) (रक्षोहा) राक्षसों, दुष्ट पुरुषों का नाशक (विश्वचर्षणिः) संसार का द्रष्टा, प्रभु (अयोहते द्रोणे) लोह के बने कूंडे में जलराशि के समान (अयोहते) गतिदायक शक्ति से गतिमान् (द्रोणे) जगत् में व्यापक होकर (सधस्थं) साथ ही स्थिर रहने वाले, स्वाभाविक (योनिं) इस अन्तरिक्ष को (अभि आसदत्) सर्वत्र व्याप्त किये हुए हैं ।

(३) हे (वृत्रहन्तम) आवरणकारी तम, अज्ञान के नाशक परमात्मन् ! आप (वरिवः धातमः) नाना प्रकार से वरण करने योग्य धनों, रत्नों को धारण करने हारे, (मंदिष्ठः) और सब से बड़े दानी (भुवः) हैं । आप ही (मघोनाम्) बड़े २ धनाढ्यों को भी (राधः) धन (परि) देकर पूर्ण करते हो ।

[६६२] पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः ।

माह युत्तनमो मदः ॥ १ ॥

[६६३] यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽस्य पीत्वा स्वविदः ।

स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीद्विपोच्छ्रा वाजं नैतशः ॥ २ ॥ १६ ॥

ऋ० ६ । १०८ । १-२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५७८] पृ० २६१ ।

(२) हे परमात्मन् ! (ते) आपके (यस्य) जिस आनन्दकारक रस को (पीत्वा) पान करके (वृषभः) अपने अन्तरात्मा में सुख का वर्षण कराने द्वारा आत्मा (वृषायते) गोरूप इन्द्रियों में भोक्ता के समान, उनमें बल का आधान करता और उनका भोग करता है । और (स्वर्विदः) सुख और प्रकाश को प्राप्त करानेहारे (अस्य) इस सोमरस को (पीत्वा) पान करके ही (सः) वह (सु-प्र-कृतः) उत्तम ज्ञान करनेहारा आत्मा (हृष-) सब मन की कामनाओं को (अभि अक्रीत्) इस प्रकार पार कर लेता है जैसे (पुतशः वाजं न) वेगवान् घोड़ा या सवार संग्राम को ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[६६४] इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥ १ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ २

[६६५] अयं भराय सानसिर्दिन्द्राय पवते सुतः ।

३ २ १ २ ३ १ २ ३ २

सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥ २ ॥

३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ २

[६६६] अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्रामं गृभ्णाति सानसिम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

वज्रं च वृषणं भरत्समण्डुजित् ॥ ३ ॥ १७ ॥

अ० ६ । १०६ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५६६] । पृ० २८६ ।

(२) (अयं) यह (सानसिः) सबके सेवन और भजन करने योग्य, (सुतः) उत्पादित आनन्दरस (इन्द्राय) आत्मा के (भराय) भरण, पोषण, उन्नति के लिये ओषधिरस के समान (पवते) क्षरित होता है । वह (सोमः) सोम्य स्वभाव, सबका प्रेरण करने हारा योगी (जैत्रस्य)

काम क्रोधादि पर वश करने हारे आत्मा को (चेतति) ऐसे जान लेता है (यथा विदे) मानो उसे साक्षात् प्राप्त ही कर लेता है ।

(३) (इन्द्रः) आत्मा (मदेपु) अपने आत्मिक ज्ञान के आनन्द प्रवाहों में (सानक्षिं) सेवन भजन करने और (ग्राभं) ग्रहण करने योग्य (वज्रं) काम क्रोधादि के वर्जन करने में समर्थ ज्ञानशक्ति को (आ श्रस्येत्) चारों ओर फेंके, फैलावे । (अशुजित्) क्रियाओं, प्रज्ञानों और प्राणों पर विजय प्राप्त करने द्वारा योगी (सं भरत्) अज्ञान का नाश करता हुआ या ज्ञान का संग्रह करता हुआ (वृपणं) सुखों की वर्षा करने हारे उस परमात्मा को (गृभ्णाति) पकड़ता, उसका आश्रय लेता या प्राप्त हो जाता है ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६६७] पुरोजिनी वा अन्धसः सुनाय मादयिन्नवे ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ २

अप श्वानं श्रथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वधम् ॥१॥

१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[६६८] यो धारया पावकया परि प्र स्यन्दते सुतः ।

२ ३ २ ३ २ २

इन्दुरश्वो न कृत्वयः ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[६६९] तं दुरोपमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया ।

३ १ २ ३ १ २

यज्ञाय सन्त्वद्वयः ॥३॥१८॥ ऋ० ६ । १०१ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५४५] पृ० २७३ ।

(२) (इन्द्रः) वह परम ऐश्वर्य, विभूतियों से सम्पन्न योगी (अश्वः न) अश्व के समान (कृत्वयः) कर्म करने में कुशल होता है । (यः) जो (पावकया) पवित्र करने वाली (धारया) धारणा या ज्ञान-धारा से (सुतः) निष्पन्न, निष्पात, उसमें निष्ठ होकर (परि प्र स्यन्दते) चारों तरफ अपने ज्ञान-उपदेशों द्वारा विचरण करता है ।

(३) (तं) उस (दुरोपं) दुःखकारी रोप या दाह, प्रताप या तेज वाले (सोमं) सोम्य योगी के पास (नरः) लोग (विश्वच्या धिया) विश्वच्यापी प्रेमबुद्धि से (अभि) आते हैं । मनुष्यों को चाहिये कि वे (अद्रयः) पर्वत के समान स्थिर, अभेद्य हृदय या मेघ के समान आदरपूर्ण, उदार हृदय होकर (यज्ञाय) दान आदि शुभ कार्यों के निमित्त (सन्तु) लगे रहें ।

[७००] अभि प्रियाणि पवते चना हितो नामानि यद्वा अधि येषु

वर्धते । आ सूर्यस्य बृहता बृहन्नाधि रथं विश्वञ्चमरुह

द्विचक्ष्णः ॥ १ ॥

[७०१] ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पातार्थियो अस्या-

अदाभ्यः । दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं नाम तृतीयमधि-

रावनं दिवः ॥ २ ॥

[७०२] अथ द्युतानः कलशां अचिक्रदन्नृभिर्येमाणाः कोश आ

द्विरणयये । अभी ऋतस्य दोदना अनूपताधि त्रिपृष्ठ

उपसो विराजति ॥ ३ ॥ १६ ॥ अ० ६ । ७५ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [५५४] पृ० २७६ ।

(२) (ऋतस्य) सत्यवादी, योगाम्यासी की (जिह्वा) वाणी (प्रियं) अति उत्तम, हृदय को तृप्त करने वाले, (मधु) आनन्दजनक रस और ज्ञान को (पवते) बहानी है । (अस्याः) इस (धियः पतिः) सत्य धारणा या बुद्धि का स्वामी और (वक्ता) सत्य वाणी का बोलने हारा (अदाभ्यः) कभी नाश नहीं किया जा सकता, पापियों से मार कर दबाया नहीं जा सकता ।

७००—(२) 'अधिरोचने' इति अ० ।

(३) 'अभीमृतस्य' 'विराजति' इति अ० ।

तव वह योगी (पुत्रः) अपने मा बाप का सुपुत्र (पित्रोः) मा बाप से भी (अपीच्यं) अज्ञात, (तृतीयं) तीसरे (दिवः अधि रोचनं) दिव्य गुण वाले ज्ञानप्रकाश से युक्त, सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाश करने वाला, विद्वानों के समाज की शोभा बढ़ाने वाला (नाम) स्वरूप या तेजस्वी पद (दधाति) प्राप्त करता है । एक माता का प्रेम का नाम, एक पिता का व्यावहारिक नाम, तीसरा वह प्रतिष्ठित नाम जिससे दुनिया उसका आदर करती है, जैसे महर्षि, महात्मा, लोकगान्ध, देशबन्धु आदि । यहाँ सत्यवाणी सोम है ।

(३) वह योगी आत्मा (द्युतानः) दीप्तिमान् होकर (नृभिः) नयन करने द्वारे प्राणों से (येमाणाः) नियन्त्रित होकर (हिरण्यये) हिरण्यमय, आनन्दमय (कोशे) कोश में (अत्र अचिक्रद्) शनैः २ प्रवेश करता है । (ऋतस्य) सत्यमय ज्ञान के (दोहनाः) दोहन या पूर्ण करने वाले प्रवाह (इम्) इसका (अभि अनूपत) स्तुति करते हैं, प्रकट होते हैं । (त्रिपृष्ठे) तीन प्राणों के स्पर्श या संगम-स्थान त्रिपुटी स्थल पर (उपसः) प्रातःप्रभा के समान विशोका प्रज्ञाओं के बीच (अधि विराजसि) विराजमान होता है ।

इति पञ्चमः खण्डः ।

[७०३] यज्ञायज्ञा वो अग्रये गिरागिरा च दक्षसे ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २

प्र प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिपम् ॥

३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[७०४] ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये ।

२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

भुवद्वाजेष्वविता भुवद्बुध उत वाता तनूनाम् ॥ २० ॥

ऋ० ६ । ४८ । १, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [३५] पृ० १५ ।

(२) (ऊर्जः) बल को (नपातं) न क्षीण होने देने वाले इस 'अग्नि' का मैं वर्णन करता हूँ । (सः) वह (हिना) तो सदा (अस्मयुः)

हमारा हितकारी है । (हव्यदातये) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को दान करने वाले उस परमात्मा को हम भी (दाशेम) अपना आत्मा समर्पण करें । वह (वाजेपु) संग्रामों या बल के कार्यों में (अविता) रक्षक (भुवद्) होता है और (वृधे) हमारी उन्नति के अवसरों पर (तनूनाम्) देहों और देहधारियों का (त्राता) पालक (उत) भी (भुवद्) होता है ।

२ ३ १ २ २ ३ १ ३ १ २ ३ १ २

[७०५] एहापु व्रथाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः ।

३ १ २ ३ १ ३

एभिर्वर्धाम इन्दुभिः ॥ १ ॥

२ ३ ६ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[७०६] यत्र क च ते मनो दत्तं दधसे उत्तरम् ।

२ ३ १ २

तत्र योनिं कृणवसे ॥ २ ॥

१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३

[७०७] न हि ते पूर्त्तमक्षिपद्भुवन्नमानां पते ।

२ ३ १ २

अथा दुवो वनवसे ॥३॥२१॥ ऋ० ६ । १६ । १६-१८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अदिकल सं० [७] पृ० ४ ।

(२) हे (अग्ने) ज्ञानी आत्मन् ! हे परमात्मन् ! तू (ते) अपने (मन) चित्त या मनन करनेहारे आत्मा का (उत्तरं) उन्नत (दत्तं) कर्म (दधसे) धारण कर । (तत्र) वहां तू (योनिं) आश्रयस्थान (कृणवसे) बना ।

(३) हे (अग्ने) ज्ञानवन् आत्मन् ! हे (नेमानां) इन्द्रियों और शरीर के (पते) पालक ! प्रभो ! (ते पूर्त्तम्) तेरा पूर्ति या वृत्ति करने वाला तेज या बल (अक्षिपद्) इन्द्रियों का नाश करने वाला (न्हि) न (भुवद्) हो । (अथ) और इस कारण (दुवः) परिचर्या, सेवा या साधना को (वनवसे) स्वीकार कर ।

३ २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ १ २ ३ १ २

[७०८] वयमु त्वामपूर्त्य स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽवस्यवः ।

१ २ ३ १ २

वज्रिश्चित्रं हवामहे ॥ १ ॥

[७०६] उप त्वा कर्मभूतये स नो युवाग्रश्चक्राम यो धृपत् ।

त्वामिद्धयवितारं ववृमह सखाय इन्द्र सानसिम् ॥२॥२२॥
ऋ० ८ । २१ । १-२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४०८] पृ० २०७ ।

(२) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (कर्मन्) समस्त कर्मों में (ऊतये) रक्षा और ज्ञान के निमित्त (त्वा) आपको (उप) उपासना करते हैं । (सः) वह (युवा) बलवान् (उग्रः) तेजस्वी है (यः) जो (धृपत्) शत्रु, काम, क्रोधादि को पराजित करता है । हे (इन्द्र) प्रभो ! (त्वामिद् हि) तुझको ही हम (सखायः) मित्र जीवगण मिलकर (सानसि) सबके प्रति समान रूप से आश्रय करने योग्य (अवितारं) रक्षक रूप से (ववृमहे) वरते हैं ।

[८१०] अध्राहीन्द्रिर्गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे ।

उदेव गमन्त उदभिः ॥ १ ॥

[७११] वाणं त्वा यव्याभिवर्धन्ति शूर ब्रह्माणि ।

वावृध्वांसं चिदद्रिवा दिधेदिवे ॥ २ ॥

[७१२] युञ्जन्ति हरी इपिरस्य गाथयारौ रथ उरुयुगे वचोयुजा ।

इन्द्रवाहा स्वर्धिदा ॥३॥२३॥ ऋ० ८ । ६८ । ७-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४०६] पृ० २०७

(२) हे (अदिवः) न विनाश होने वाले ज्ञान को धारण करने हारे ! हे शूर ! नदियों से (वाः न) जिस प्रकार जलमय समुद्र भरता है उसी प्रकार (दिवे दिवे) प्रतिदिन (ब्रह्माणि) ब्रह्मज्ञान या वेदमन्त्र (वावृध्वांसं) सबसे बड़े महान् (त्वा) तुझको (यव्याभिः) तुझ तक पहुँचने वाली स्तुतियों से (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं, अर्थात् वे तेरी महिमा को उससे और बढ़ाते हैं ।

(३) (इषिरस्य) सत्रको प्रेरणा करने वाले ईश्वर की (गाथया) स्तुति द्वारा ही योगी लोग (उर्युगे) विशाल २ समाधि वाले (रथे) रमण-योग्य स्थान इस देह या रसस्वरूप आत्मा में, रथ में, घोड़ों के समान (वचोयुजा) चाणी द्वारा ही समाहित या वश होजाने वाले (हरी) हरणशील प्राण और अपान दोनों को (युञ्जन्ति) योग से अपने वश कर लेते हैं । वे ही दोनों (स्वर्विदा) ज्योति और सुख को प्राप्त कराने हारे (इन्द्रवाहा) आत्मा के वहन करने वाले दो अश्व के समान हैं ।

इति षष्ठः खण्डः ।

इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथमोर्धः प्रपाठकः ॥



अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

द्वितीयोर्धः प्रपाठकः ।

ऋषिः—१, ४ श्रुतकक्षः । २, १४, १५ वसिष्ठः । २ मेध्यातिथिप्रियमेधौ । ५ इरिमिठिः । ६ कुसीदः काण्वः । ७ त्रिशोकः । ८ काण्वः प्रियमेधः । ९ विश्वामित्रः । १० मधुच्छन्दाः । ११ शुनःशेषः । १२ नारदः । १३ वामदेवः । १६ अवत्सारः । १७, १८ असितः काश्यपो अमहीयुर्वा । १९, २१ द्यावाश्वः । २० भरद्वाजादयः सप्त ऋषयः । २२ प्रथममन्त्रस्य द्यावाश्वः, द्वितीयमन्त्रस्य प्रजापतिः, तृतीयमन्त्रस्य अम्बरीषः ॥ देवता—१-१२ इन्द्रः । १३, १६ अग्निः । १४ उषाः । १५ अश्विनी । १७-२२ सोमः ॥ छन्दः—१, ११, १६-१६, २१ गायत्री । १२ उष्णिक् । १३-१५, २० बृहती । २२ प्रथमद्वितीयमन्त्रयो रूष्णिक् तृतीयस्था नुण्डुप् ॥ स्वरः—१-११, १६-१९, २१, २२ षड्जः । १२ ऋषभः ।

१३-१५, २० मध्यमः ॥

[७१३] ^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २} पान्तमा वा अन्ध्रम इन्द्रमभि प्र गायन ।
^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २} विश्वासाइ शतक्रतुं महिष्ठं चर्षणीनाम् ॥ १ ॥

[७१४] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ १ २} पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्याऽऽसनश्रुतम् ।
^{२ ३ १ २} इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ २ ॥

[७१५] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३-२ २ ३ २} इन्द्र इजो महोनां दाता वाजानां नृतुः ।
^{३ ३ २ ३ १ २} महौ अभिज्ञायमत् ॥ ३ ॥ १ ः ऋ० ८ । ६२ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अतिकल सं० [१५५] पृ० ८७ ।

(२) (पुरुहूतं) इन्द्रियों द्वारा, या प्रजाओं द्वारा अपनी रक्षा के निमित्त पुकार गये, (पुरुष्टुतं) प्रजाओं या इन्द्रियों द्वारा स्तुति किये गये, (गाथान्यं) गाथारूप, वेदवाणियों के श्रवण द्वारा प्राप्त करने योग्य, (सन-श्रुतं) सदाकाल से गुरुपदेशों में सुने गये, विशेष पुरुष-आत्मा को (इन्द्रः) इन्द्र, (इति) इस प्रकार (ब्रवीतन) कहो । राजां, आत्मा, परमात्मा सर्वत्र समान है ।

(३) (इन्द्र इत्) परमेश्वर ही (नः) हमें (महोनां) दिव्य तेजों से युक्त महान् (वाजानां) अश्वों और बलों का दाता, (नृतुः) सबको अपने बल पर नचाने वाला (महान्) सबसे बड़ा (अभिज्ञ) सर्वज्ञ (आयमत्) सबको व्यवस्था में बांधता है ।

[७१६] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} प्र व इन्द्राय मादन् हर्यश्वाय गायत ।
^{१ २ ३ १ २} मखायः सोमपान्ति ॥ २ ॥

[७१७] ^{२ ३ ३ १ २ ३ ३ ३ १ २} शंसदुक्थं सुदानव उन द्युक्षं यथा नरः ।
^{३ २ ३ १ २} चक्रमा सत्यराधसे ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ ३ १ २
[७१८] त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो ।

१ २ ३ १ २
त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥ ३ ॥ २ ॥ ऋ० ७ । ३१ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अत्रिकल सं० [१५६] पृ० ८७ ।

(२) (यथा) जिस प्रकार (नरः) नेता लोग (सुदानवे) उत्तम दानी के लिये (द्युत्तं) दिव्य विशेषणों से युक्त (उक्थं) स्तुति करते हैं उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष उस (सुदानवे) उत्तम दानी परमेश्वर के लिये (द्युत्तं) श्रेष्ठ दिव्य, (उक्थं) ओंकार पद वाली वेदमन्त्रमय स्तुति (शंसेद्) उच्चारण करे। हम भी (सत्यराधसे) सत्य ही से प्रकट होने वाले, या सत्यरूप उसी परमात्मा की स्तुति (चकृम) करें।

(३) हे (इन्द्र) ईश्वर ! (त्वं) तू (नः) हमारे (वाजयुः) ज्ञान और अन्न, बल के देने वाला (त्वं गव्युः) तू आप ही इन्द्रिय, वाणी और शशियों गौवों के देने वाला है। और हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रजाओं और कर्मों के करने वाले ! हे (वसो) सबको बसाने वाले परमात्मन् ! (त्वं) तू ही (हिरण्ययुः) स्वर्ण के समान मनोहर हितकारी भिय, काम्य पदार्थों का भी देने वाला है।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[७१६] वयसु त्वा तदिदृथा इन्द्र त्वा यन्त सखायः ।

१ २ ३ ३ ३ १ २
कान्वा उक्थोभर्जरन्ते ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[७२०] नद्यमन्यदापपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ ।

२ ३ ३ २ १ २
तवदु स्तोमैश्चिकेत ॥ २ ॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २
[७२१] इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।

१ २ ३ २ ३ १ २
यन्ति प्रसादमतन्द्राः ॥३॥३॥ ऋ० ८ । २ । १६-१८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अत्रिकल सं० [१५७] पृ० ८८ ।

(२) हे वज्रिन् ! हे ज्ञान-वज्र के धारक इन्द्र ! (अपसः) कर्म के (नविष्टौ) प्रारम्भ में मैं (अन्यद्) और किसी की (न घ ईम्, आपपन) स्तुति नहीं करता । (तव इत् उ) तेरा ही (स्तोमैः) स्तुतियों द्वारा (चिकेत) ज्ञान करता हूँ ।

(३) (देवाः) विद्वान् लोग या इन्द्रियगण (सुन्वन्तं) प्रेरणा या आज्ञा करते हुए या सोम सवन या इश्वरोपासना करते हुए या ज्ञान-ऐश्वर्य लाभ करते हुए पुरुष को ही (स्पृहयन्ति) प्रेम करते हैं । (स्वप्नाय) सांते हुए आलसी पुरुष को (न स्पृहयन्ति) प्रेम नहीं करते । (अतन्द्राः) आलस्य रहित होकर ही ये विद्वान्, देव या इन्द्रियगण (प्र-मार्दं) अत्यन्त हर्ष को (यन्ति) प्राप्त होते हैं ।

[७२२] इन्द्राय मद्गने सुत परिष्ठाभन्तु ना गिरः ।

अकर्मचन्तु कारवः ॥ १ ॥

[७२३] यस्मिन् विश्वा अधिश्चिया रणन्ति सप्त संसदः ।

इन्द्रं सुते हवामहे ॥ २ ॥

[७२४] त्रिकटुकेषु चतनं देवासा यज्ञमत्नत ।

तामद्द्वन्द्वन्तु ना गिरः ॥३॥ ४ ॥ अ० ८ । ६२ । १६-२१ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५८] पृ० ८८ ।

(२) (यस्मिन्) जिस इन्द्र में (विश्वाः श्रियः) समस्त विभूतियाँ (अधि) अधिक शोभा देती हैं और जिसमें (सप्त संसदः) उत्तम प्रकार से अपने स्थिति प्राप्त किये हुए होता स्वरूप सात इन्द्रियगण (रणन्ति) ज्ञान-यज्ञ में आनन्दलाभ करते हैं उस (इन्द्रम्) आत्मा को (सुते) योग यज्ञ में अतम्भरा सिद्ध होने पर (हवामहे) पुकारते हैं उसका स्मरण, चिन्तन, स्तुति करते हैं ।

(३) (देवासः) देवगण (त्रिकदुकेषु) तीनों लोकों में (चेतनं)
आत्मारूप (यज्ञं) यज्ञ का (अतत) अनुष्ठान करते हैं (तं) उसको
(इद्) ही (नः) हमारी (गिरः) वेदवाणियां (वर्धन्तु) बढ़ावें, उसी
की महिमा गावें ।

इति प्रथमः खण्डः ।

[७२५] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अयं त इन्द्र सामो निपूतो अथि वर्द्धिषि ।

^{१ २ ३ २ ४ - ३ १ २}
पहीमस्य द्रवा पिव ॥१॥

[७२६] ^{१ २ ३ १ ३ २ १ २ २ २ ३ २} शाचिगो शाचिपूजना य रणायते सुतः ।

^{१ २ ३ १ २}
आखण्डल प्रहूयसे ॥२॥

[७२७] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २} यस्ते शृङ्गावृषो णपात् प्रणपात् कुण्डपाम्यः ।

^{२ २ ३ १ २ २ २}
न्यस्मिन् दध आ मनः ॥३॥५॥ अ० ८ । १७ । १३-१३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० स० [१५६] पृ० ८६ ।

(२) हे (शाचिगो) समर्थ शक्तिशालिन् ! इन्द्रियों, रश्मियों, और
वाणियों से युक्त आत्मन् ! हे (शाचिपूजन) शक्तियों के कारण पूंजने
योग्य ! (ते) तुझ (रणाय) रमणीय देव के लिये यह (सुतः) उत्पन्न
हुआ समस्त संसार भोग के लिये है । हे (आखण्डल) अन्धकार को
तोड़कर नाश करने हारे विवेकी आत्मन् ! (प्र हूयसे) तुझको ही अर्च्छः
प्रकार बुलाया जाता है ।

(३) हे (इन्द्र) आत्मन् ! (यः) जो (ते) तेरा (शृङ्गावृषाः नपात्)
अज्ञान नाश करनेहारे वृषस्वरूप आत्मा को न गिराने हारा, (कुण्डपाम्यः)
कुण्ड अर्थात् रमण करने वाले प्राणों द्वारा पान करने योग्य, (प्र-नपात्)
आत्मा को रक्षा करने वाला ज्ञानरस है (अस्मिन्) इसमें योगी (मनः) मनन
शील ध्यान को (नि आदधे) नियत, या स्थिर, रूप से धारण करता है ।

[७२८] आ तू न इन्द्र जुमन्ते चित्रं ग्रामं सङ्गृभाय ।

महाहस्ती दाक्षिण ॥१॥

[७२९] विद्वा हि त्वा तुविकूर्भिन्तुविदप्यं तुवीमघम् ।

तुविमात्रमवोभिः ॥२॥

[७३०] न हि त्वा शूर देवान मत्तासो दित्सन्तम् ।

भीम न गां वारयन्ते ॥३॥६॥ ऋ० ८ । ८१ । १३॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अधिकल संख्या [१६७] पृ० ६३ ।

(२) हे इन्द्र (त्वा) तुझको हम (अवोभिः) तेरी रक्षाओं, ज्ञानों और कृपाओं के कारण (तुविकूर्भिन्) बहुत से कर्मों के करनेहारा (तुविदप्यं) बहुतसे धन सम्पदाओं का दाता, (तुवीमघम्) बहुत उचम धनों, ज्ञानों से सम्पन्न (तुविमात्रं हि) बहुतसे ज्ञान साधनों से युक्त भी (विघ) जानते हैं ।

(३) हे शूर ! (भीमं) भयजनक (गां न) जिस प्रकार सांड को फोड़ हटाने का साहस नहीं करता उसी प्रकार (भीमं) सबको भयजनक, सर्वव्यापक (दित्सन्तं) दान की कामना करते हुए तुझको (न देवाः) न विद्वान् लोग और (न मत्तासः) और न साधारण लोग (वारयन्ते) वारण करते हैं ।

[७३१] अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतय ।

तृष्पा व्यश्नुही मदम् ॥१॥

[७३२] मा त्वा मूरा अविष्यवा मोपहस्वान आदभन् ।

माकीं ब्रह्मद्विषं वनः ॥२॥

[७३३] इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे ।

^{१ २ ३ १ २} सरौ गौरौ यथा पिव ॥३॥७॥ ऋ० ८ । ४५ । २२-२४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६१] पृ० ८६।

(२) हे (इन्द्र) आत्मन् ! (मूराः) मूर्ख (अविष्यवः) तुझे पालने पोषणे की चेष्टा करने हारे भोगी विलासी लोग (त्वा) तुझे (मा दभन्) नाश न करें । (मा उपहस्वानः) तुझ पर उपहास करनेहारे, तेरे उपेक्षाकारी भी तेरा विनाश न करें । और (ब्रह्मद्विपः) वेद और ब्रह्मज्ञान का प्रेम न रखने वाले तेरा कभी सेवन न करें, तेरा कभी आनन्द लाभ न करें ।

• मूर्ख लोग देह की पालना कर आत्मा का नाश करते हैं उपहासकारी लोग नास्तिक भी आत्मा का नाश करते हैं, पापों में बह जाते हैं और वेद और ब्रह्मविद्या के द्वेषी भी आत्मज्ञान का आनन्द नहीं पाते ।

(३) (यथा) जिस प्रकार (गौरः मृगः) गौर मृग (सरः) जल से भरे तालाब पर जाकर जल पीता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) आत्मन् ! तू यहां इस हृदय में विराज कर ब्रह्मानन्द के रस को (पिव) पान कर । (इह) यहां ही (गो-परीणसं) इन्द्रियगण से परिवृत, जितेन्द्रिय (त्वा) तुझको (महे राधसे) बड़ी भारी ब्रह्मज्ञान-साधना के लिये (मन्दन्तु) साधक लोग आनन्दित करते हैं, जगाते हैं ।

[७३४] इदं वसो सुतमन्थः पिवा सुपूर्णमुदरम् ।

^{१ २ ३ १ २} अनाभियन् ररिमा ते ॥१॥

[७३५] नृभिर्ध्रौतः सुतो अश्नैरव्यावायैः परिपूतः ।

^{१ २ ३ १ २} अश्वो न नित्को नदीपु ॥२॥

[७३६] तं ते यत्र यथा गोभिः स्वाडुमकर्म श्रीणन्तः ।


^{१ २ ३ १ २} इन्द्र त्वास्मिन्त्सध्रमादे ॥३॥८॥ ऋ० ८ । २ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१२४] पृ० ६६ ।

(२) (नदीषु) नदियों में (निक्कः) स्नान कराये गये (अश्वः न) अश्व के समान (नृभिः) नेता लोगों द्वारा (धौतः) मलादि छुड़ाकर शुद्ध किया गया (अश्वैः) सूक्ष्म तत्वों तक पहुँचने, एवं आत्मानन्द का भोग करने हारे विद्वानों द्वारा (सुतः) उत्पन्न किया, सोमरस, आत्मज्ञान (अग्न्याः) चित्ति शक्ति या प्राण के (वारैः) प्रकट करने हारे योगाङ्गरूप साधनों द्वारा (परिपूतः) परिशोधित, (नदीषु निक्कः) प्रवाह के रूप में बहने वाली ज्ञानधाराओं में शुद्ध होता है ।

(३) (यथा) जिस प्रकार हम (गोभिः) गो-रसों से (श्रीणन्तः) मिलाते और परिपाक करते हुए (यवं) यव के बने पक्कान्न को (स्वादुं) आनन्ददायक यवागू पाक (अकर्म) बना लेते हैं उसी प्रकार (तं) उस ज्ञानमय आत्मा को (ते) वे साधक लोग (गोभिः) ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त रसों या तेजोमय ध्यानरश्मियों से (श्रीणन्तः) मिलाते, परिपक्व या दृढ़ करते या अभ्यास करते हुए (अस्मिन्) इस (सधमादे) आनन्द-जनक समाधि-दशा में हे (इन्द्र) आत्मन् ! (त्वा) तुम्हेंको (स्वादुं) स्वादु, अति हर्षदायक रूप से (अकर्म) साक्षात् करते हैं ।

इति द्वितीयः खण्डः ।



उ० २ २ ३ १ २
[७३७] इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते ।

२ ३ २ १ ३
पिवा त्वाऽऽस्य गिर्वणः ॥१॥

२ ३ १ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ २ २
[७३८] यस्ते अनु स्वधामसत्सुत नियच्छ तन्वम् ।

१ २
स त्वा ममत्तु सोम्य ॥२॥

[७३६] प्र ते अश्नोतु कुच्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः ।

२। ३ १ २ ३ २
प्र वाहू शूर राधसा ॥३॥६॥ ऋ० ३। ५१। १०-१२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६५] पृ० ६२ ।

(२) हे इन्द्र ! (ते) तेरा (यः) जो (स्वधाम्) स्व-अर्थात् अपने स्वरूप में धारणा करने के (अनु) अनन्तर (असत्) प्रकट होता है (सुते) उस उत्पन्न आनन्द में तू हे आत्मन् ! (तन्वं) अपने स्वरूप को (नि यच्छ) नियमित कर, समर्पित कर । हे सोम्य ! सोमरस के पान करने योग्य आत्मन् ! वह ज्ञानरस (त्वा) तुझको (ममत्तु) अति आनन्दित करे ।

(३) हे (इन्द्र) आत्मन् ! वह ज्ञानरस और आनन्दरस (ते कुच्योः) तेरे दोनों ज्ञान और कर्मरूप पार्श्वों को और (शिरः) शिर को (ब्रह्मणा) ब्रह्मज्ञान द्वारा (अश्नोतु) व्याप्त करे या दुःखों को बाधे । और हे शूर ! (ते वाहू) तेरी वाहुओं को (राधसा) बल, ऐश्वर्य से पूर्ण करे ।

आत्मा के दोनों कोखों और शिर का व्याख्यान देखो (तैत्ति० उप० १)

[७४०] आ त्वे ता नि पीदितेन्द्रमभि प्र गायत ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २
सखायः स्तोमवाहसः ॥१॥

[७४१] पुरुतमं पुरूणामीशानं वार्धाणाम् ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २
इन्द्र सोमि सचा सुत ॥२॥

[७४२] स घा ना योग आभुवत्स राय स पुरन्ध्या ।

२ ३ १ २ ३ १ २ २
गमद्वाजोभिरास नः ॥३॥१०॥ ऋ० १। ५। १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६४] पृ० ६१ ।

(२) (पुरूणां) प्रजाओं और इन्द्रियों में सबसे (पुरुतमम्) श्रेष्ठ (वार्धाणाम्) स्वरूप करने योग्य ज्ञानों और धर्मों के (ईशानम्) स्वामी (इन्द्रम्)

राजा और आत्मा की (सुते सोमे) उत्पन्न किये इस आनन्दकारी, सबके प्रेरक, भोग्य रस या ज्ञानरस, या ऐश्वर्य में मग्न होकर सव्य (सचा) साथ मिलकर (अभि प्र गायत) गान करो, उसकी स्तुति करो ।

(३) (स घ) वही आत्मा (नः) हमारी (योगे) समाधिदशा में (आभुवत्) साक्षात् होता है । (सः राये) वही नाना ज्ञान, तप, रूप धनसासि के अवसर में और (सः) वही (पुरन्ध्या) नाना पदार्थों को स्मृतिरूप से या देह को धारण करने वाली बुद्धि द्वारा भी (आभुवत्) प्रत्यक्ष साक्षात् होता है । (सः नः) वह हमारे पास (वाजेभिः) जानों द्वारा (गमत्) प्राप्त हो ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

[७४३] योगे यांगे नवस्तरं वाजेवाजे हवामहे ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

सखाय इन्द्रसूनये ॥१॥

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

[७४४] अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम् ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

यं तं पूर्वं पिता हुवे ॥२॥

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

[७४५] आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्रिणी भिरूतिभिः ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

वाजेभिरुप ना हवम् ॥३॥११॥ऋ० १ । ३० । ७, ६, ८ ॥

भा० —(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [१६३] पृ० ६१ ।

(२) (प्रत्नस्य) बहुत प्राचीन (ओकसः) परप आश्रयरूप मोक्ष के प्रति (नरं) लेजाने वाले (तुविप्रति) बहुतां की कामना पूर्ण करने हारे परमेश्वर को (अनु हुवे) पुनः २ प्रतिदिन स्मरण करता हूं । (यं) जिस (ते) तुम्हको (पिता) हमारे पालन करनेहारे साक्षात् गुरु, आचार्य आदि (पूर्वं) हमसे पहले (हुवे) स्तुति करते रहे ।

(३) (यदि) यदि वह परमेश्वर (नः) हमारी (हवम्) स्तुति को (श्रवत्) सुनले तो वह (सहस्रिणीभिः) सहस्रों बलशालिनी (ऊतिभिः)

रक्षा करनेहारी शक्तियों से और (वाजेभिः) सहजों सत्य ज्ञानों के सहित
(उ आगमत् घ) साक्षात् प्रकट ही होजावे ।

[७४६] इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम् ।

विदे वृधस्य दक्षस्य महान् द्वि षः ॥ १ ॥

[७४७] स प्रथमे व्योमनि देवानां सद्ने वृधः ।

सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित् ॥ २ ॥

[७४८] तमु हुवे वाजसानय इन्द्रं भराय शुष्मिणम् ।

भवानः सुम्न अन्तमः सखा वृधः ॥३॥१२॥ ऋ० ८।१३।१-३॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३८१] पृ० १६७ ।

(२) (सः) वह परमेश्वर (प्रथमे) सबसे श्रेष्ठ (व्योमनि)
विशेष रूप से शरण प्राप्त करने योग्य (देवानां सद्ने) विद्वान् ज्ञानी और
मुक्त पुरुषों के आश्रय या निवास करने योग्य लोक में (वृधः) सबसे बड़ा
है । वह (सुपारः) उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, और कष्टों से तराने वाला
(सुश्रवस्तमः) उत्तम यश और ज्ञान का धारण करनेहारा, (समप्सु-
जित्) समस्त कर्मबन्धनों या बन्धनों में फंसे जीवों में सबसे उत्कृष्ट एवं
आदि मूल कारण प्रकृति पर भी वश करने वाला है ।

(३) (तम्) उस (भराय) भरण पोषण करनेहारे, अथवा
(भराय=हराय) कर्मजाल को हरण करके मुक्तिमार्ग में लेजाने वाले
(शुष्मिणम्) सर्वशक्तिमान् को ही मैं (इन्द्रं) 'इन्द्र' नाम मे (हुवे)
पुकारता हूँ । वह परमात्मा (नः) हमारे (सुम्ने) सुखप्राप्ति और (वृधे)
वृद्धि करने के निमित्त (अन्तमः) अति समीप रहा, अन्तरंग (सखा) मित्र है ।

इति तृतीयः खण्डः ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २
[७४६] एना वा अग्निं नमसार्जो नपातमाहुने ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
प्रियं चेतिष्टमर्गति स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम् ॥१॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[७५०] स याजने अरुपा विश्वभोजसा स दुद्रधत्स्वाहुतः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
सुव्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधा जनानाम् ॥२॥१३॥

ऋ० १० । ६ । ५ ॥ यजु० ३ । ५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [४५] पृ० २० ।

(२) (सः) वह परमात्मा (अरुपा) दीप्तिमान्, (विश्वभोजसा) विश्व, समस्त संसार का भोग कराने हारे पालक सूर्य और पृथिवी दोनों को (योजते) नियुक्त करता है । वह (स्वाहुतः) उत्तम रूप से कीर्तित परमात्मा ही (दुद्रुवत्) सर्वत्र व्यापक है । वही (सुव्रह्मा) उत्तम ज्ञानवान्, सबका उत्पादक है और वही (यज्ञः) महादानी, यज्ञस्वरूप, (सुशमी) उत्तम शान्त गुण सम्पन्न है । (वसूनां) वास करने हारे (जनानां) जन्तुओं के (राधः देवं) उस आराधनीय देव की उपासना करो ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
[७५१] प्रत्यु अदर्श्यायत्युऽऽच्छन्ती दुहिता दिवः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अपो मदीवृणुत चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २
[६५२] उदुन्नियाः सृजते सूर्यः सत्त्वा उद्यन्नक्षत्रमचिवत् ।

१ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
तवदुषा व्युपि सूर्यस्य च स भक्तेन गमेमहि ॥२॥१४॥

ऋ० ७ । ८१ । १, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [३०३] पृ० १५५ ।

(२) (सूर्यः) सबका प्रेरक, उत्पादक परमात्मा ! (उदुन्नियाः) वास करने योग्य किरणों और भूमियों को (सत्त्वा) एक साथ सूर्य के समान (उदुसृजते) प्रकट करता है और (उद्यन्) उदित होता हुआ भी स्वयं (न क्षत्रम्) अपने स्थान से व्युत् न होने वाले नक्षत्र के समान स्थिर तथा

व्यापक (अर्चिवत्) तेजोमय है । हे (उपः) पापदाह करने वाली, ज्योतिष्मतिः ! प्रज्ञे ! (तव इत्) तेरे और (सूर्यस्य च) सूर्य के समान तेजोमय आत्मा के (वि उपि) प्रखर तेज से प्रकट होने के अवसर में (भक्तेन) भजन करने योग्य उस इंद्रदेव से (सं गमेमहि) हम सत्संग करें, उसका ध्यान करें ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ १

[७५३] इमा उ वां दिविष्ट्य उस्त्रा हवन्ने अश्विना ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

अयं वामह्येऽवसे शचीवसू विशं विशं हि गच्छथः ॥ १ ॥

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[७५४] युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते ।

३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

अर्वाग्रथं समनसा नियच्छतं पिवतं सोम्यं मधु ॥२॥१५॥

ऋ० ७ । ७४ । १, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३०४] पृ० १५५ ।

(२) (अश्विना) हे अश्वियो ! प्राण अपान नामक नेताओ ! या विद्वान स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (चित्रं) संग्रह करने योग्य, विविध प्रकार के (भोजनं) भोग योग्य पदार्थ (ददथुः) देते हो । और (सूनृतावते) सूनृता, नाम वेदवाणी को धारण करनेहारे के लिये धन (चोदेथां) प्रदान करते हो । आप (समनसा) समान मन वाले होकर (अर्वाग्) नीचे की ओर या (अर्वाग्) इन्द्रियों के प्रति जानेहारे (रथं) अपने वेग या वेगवान् आत्मा या मन और शरीर को (नियच्छतं) नियन्त्रित करो, वश करो और आप दोनों (सोम्यं मधु) सोमरसयुक्त मधुररस उत्तम शुद्धवायु, और आरोग्यता का (पिवतम्) पान करो ।

प्राणायाम का अभ्यासी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में आहुति दे और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करे ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

३ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[७५५] अस्य प्रत्नामनुद्युनं शुक्रं दुदुहे अह्यः ।

१ २ ३ १ २ २ २

पयः सहस्रसामुपिम् ॥ १ ॥

३ १ २ २ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २

[७५६] अयं सूर्य इवोपदृगयं सरांसि धावति ।

३ २ ३ २ ३ ३ १ २ २ २

सप्त प्रवत आदिवम् ॥ २ ॥

३ १ २ २ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

[७५७] अयं विश्वानि निष्ठति पुनानां भुवनापरि ।

१ २ ३ १ २ २ २

सोमो देवा न सूर्यः ॥ ३ ॥ १६ ॥ अ० ६ । ५४ । १, ३ ॥

भा०—(१) (अस्य) इस सोमस्वरूप परम आत्मा की (प्रत्नाम्) अनादि काल से चली आई, पुरानी (द्युतम्) वेदज्ञानरूप कान्ति को (अनु) अनुसरण करके (अह्यः^१) निःसंकोच, माननीय, विद्वान् लोग, (सहस्रसाम्) सहस्रों फलों को देने वाले, (शुक्रं) शुद्ध, पापरहित (ऋषि) अतीन्द्रिय बातों को दिखलाने हारे (पयः) ज्ञान, वेदराशि को (दुदुहे) दोहन करते, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं ।

(२) (अयं) यह सोम (सूर्य इव) सूर्य के समान (उपदृग्) समस्त पदार्थों और सब प्राणियों, सब लोकों का दृष्ट है (अयं) यह सोम (सरांसि) समस्त लोकों में (धावति) व्यापता प्रकाशित करता और गति देता है, (दिवम्) आकाश के (सप्त) सात प्रकार के (प्रवतः) गतिमान् पदार्थों को चलाता है । अध्यात्मपक्ष में—जीव, प्राणात्मा (सरांसि) इन्द्रियों में स्वयं गति करता है और सौः अर्थात् मूर्धास्थान में (सप्त प्रवतः) सात शीर्षस्थ प्राणों को भी गति देता है ।

(३) (अयं) यह (सोमः) सोम, परमात्मा (सूर्यः न) सूर्य के समान (विश्वानि) समस्त (भुवना उपरि) लोकों के ऊपर (पुनानः)

उनको गति देता हुआ और पवित्र करता हुआ (तिष्ठति) उनपर शासन करने वाले अधिष्ठाता के रूप में विराजमान है ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३ १ २ ३ २

[७५८] एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः ।

१ २ ३ १ २

हरिः पवित्रे अर्पति ॥ १ ॥

ऋ० ९ । ३ । ६ ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[७५९] एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि ।

३ १ २ २ २

कविर्विप्रेण वावृधे ॥ २ ॥

ऋ० ६ । ४२ । २ ॥

३ २ ३ १ २ २ २ ३ ३ ३ १ २

[७६०] दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परिपिच्यसे ।

१ २ ३ १ २

क्रन्दन् दवां अजीजनः ॥ ३ ॥ १७ ॥ ऋ० ९ । ४२ । २ ॥

भा०—(१) (एषः) यह सोम (देवः) ज्योतिर्मय आत्मा (प्रत्नेन) अनादिकाल से चले आये (जन्मना) जन्म, जननशक्ति, सामर्थ्य से (देवेभ्यः) इन्द्रियों के लिये भोगार्थ (सुतः) प्रकट होकर (हरिः) हरणशील, उनको गति देनेहारा होकर (पवित्रे) प्राण और अपान के बने मलशोधन करने वाले, साधन में (अर्पति) गति करता है ।

प्राणापानौ पवित्रे । तै० ३ । ३ । ४ । ४ ।

(२) (एषः) यह सोमस्वरूप जीव (प्रत्नेन) अनादिकाल से वर्तमान (मन्मना) मनन शक्ति द्वारा (देवेभ्यः) अपनी दिव्यगुण वाली इन्द्रियों के भोग के निमित्त (देवः) स्वयं प्रकाशस्वरूप, चेतन (कविः) मेधावी, ज्ञानी होकर भी (विप्रेण) मेधावी परम ब्रह्म प्रजापति के साथ (परिवावृधे) सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त होता है ।

प्रजापतिर्वै विप्रः, देवाः विप्राः । शतपथ ६ । ३ । १ । १६ ॥

(३) हे सोम ! (प्रत्नम् इत्) पुराने, अनादिकाल से चले आये (पयः) प्राण, जीवन को ही (दुहानः) रस या जीवनरूप में दुहता हुआ तू (पवित्रे) पवित्र करने हारे प्राण और अपान या परम पावन ज्ञान के द्वारा ही (परि सिच्यसे) पवित्र किया जाता है । (ऋन्दन्) शब्द करता हुआ, 'सोहं' का नाद करता हुआ या 'श्रौं' का नाद करता हुआ तू (देवान्) इन्द्रियगण को (अजीजनः) प्रकट करता है ।

प्राणाः पयः ॥ शत० ६ । ५ । ४ । १५ । और ६२ । ३ । ३ । ३१ ।

अन्तर्हितमिव वा पुतद् यत् पयः । ताण्डय० ८ । ६ । ३ ।

१२ ३ १२ ३२ ३१ २३ १२

[७६१] उप शिक्षापतस्थुपो भियसमा धेहि शत्रवे ।

१२ ३ २ ३२

पवमान विदा रयिम् ॥१॥ ऋ० ९ । १९ । ६क्ष

२३२ ३२३० ३१२ ३१ २२

[७६२] उपोपु जातमपुनुरं गोभिर्भङ्गं पारिष्कृतम् ।

१ २ ३ १ २

इन्दुं देवा अयासिपुः ॥२॥ ऋ० ६ । ६१ । १३ ॥

१ २ ३ १२ ३१ २

[७६३] उपास्मै गायता नरः पवमानायन्दवे ।

३ २ ३ १ २ २

अभि देवा इयक्षते ॥३॥ १८ ॥ ऋ० ६ । ११ । १ ॥

भा०—(१) हे (पवमान) पावन करने वाले ! हे (सोम) ऐश्वर्य-वन् ! (अपतस्थुपः) नीचवृत्ति से स्थिति रखने हारों को (उपशिक्ष) शिक्षा दो कि वे अपनी बुरी वृत्ति को छोड़कर भले मार्ग में आवें । (शत्रवे) शत्रु को (भियसम्) भय (अधेहि) दिलावो । हे प्रभो ! (रयिम्) धन को (विदा) प्राप्त कराओ ।

अग्निर्ऋषिः पवमानः । ऐ० २ । ३७ ॥ प्राणो वै पवमानः ॥ श० २ । २ । १ । ६ ॥ आत्मा वै पवमानः । तां० ७ । ३७ ॥ पुष्टं वै रयिः । श० २ । ३ । ७ । १३ । वीर्यं वै रयिः । श० १३ । १४ । २ । १३ ॥ पशवो वै रयिः ।

(२) व्याख्या देखो अत्रि० सं० [४८७] पृ० २४३ ।

(३) व्याख्या देखो अत्रि० सं० [६५१] पृ ३२८ ।

इति पञ्चमः खण्डः ।

[७६४] ^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०} प्र सामासो विपश्चिताऽपो नयन्त ऊर्मयः ।

^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०} वनानि महिषा इव ॥१॥

[७६५] ^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०} अभि द्रोणानि वभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया ।

^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०} वाजं गोमन्तमक्षरन् ॥२॥

^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०} ७६६ सुता इन्द्राय वायव वरुणाय मरुद्भ्यः ।

^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०} सोमा अर्पन्तु विष्णवे ॥३॥ १६॥ ऋ० ९ । ३३ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अत्रि० सं० [४७८] पृ० २४० ।

(२) (वभ्रवः) बभ्रु वर्ण वाले, कापाय वस्त्रधारी विद्वान् लोग (ऋतस्य) ज्ञान और तप की (धारया) धारणा से (शुक्राः) कान्तिमान्, (अभि द्रोणानि) राष्ट्रों के प्रति (अभि) आकर (गोमन्तम्) वेदवाणी से युक्त या पश्वादि से सम्पन्न (वाजं) ज्ञान या धन को (अभि चरन्) उत्पन्न करते, प्रदान करते हैं । अथवा अध्यात्म में—(वभ्रवः) पुष्टिकारक प्राण और (ऋतस्य) सत्यज्ञान के (धारया) धारण करने वाली ऋतभरा प्रज्ञा से (शुक्राः) कान्ति या ज्योति से सम्पन्न होकर (द्रोणानि) प्राण-न्द्रियों के प्रति (अक्षरन्) प्रवाहित होते हैं । और (गोमन्तं) वाणी से युक्त (वाजं) ज्ञान को (अभि अक्षरन्) साक्षात् प्रकट करत हैं ।

राष्ट्रं द्रोणकलशः । ता० ६ । ६ । १ । प्राणा वै द्रोणकलशः ता० ।

६ । ५ । १५ ।

७६२—'अपां नयन्त्यूर्मयः' इति ऋ० ।

७६६—'अर्पन्ति' इति ऋ० ।

(३) (सुताः सोमाः) उत्पन्न हुए ये ज्ञान या आनन्दप्रद समस्त पदार्थ (वायवे) प्राणस्वरूप (वरुणाय) ज्ञानी (विष्णवे) सर्वव्यापक ब्रह्म में लीन (इन्द्राय) आत्मा के लिये और (मरुद्भ्यः) विद्वानों के लिये (अर्पन्तु) प्राप्त हों ।

[७६७] प्र सोम देववीतये असन्धुर्न पिष्ये अर्णसाः ।

अंशा पयसा मादिरा न जागुविरच्छा कांशं मधुश्चुतम् ॥१॥

[७६८] आहर्यता अर्जुना अत्कं अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः ।

तर्मा हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वगभस्त्यो ॥२॥२०॥

ऋ० ६ । १०७ । १२, १३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अत्रि० सं० [५१४] पृ० २५४ ।

(२) (हर्यतः) हरण करने योग्य, प्रिय (अर्जुनः^१) इन्द्र, आत्मा (प्रियः) प्राणों का प्रिय, इष्ट (सूनुः न) पुत्र के समान (मर्ज्यः) संभाल कर, धो, पोंछ कर, साफ स्वच्छ करने योग्य है । वह (अत्के) सर्वव्यापक ब्रह्म में (आ अव्यत) मग्न होजाता है और (तम् ई) उसको ही (गभस्त्योः) दीप्तिस्वरूप प्राण और अपान, इन्द्र और पिंगला के बीच की (नदीषु) धाराओं या नादियों में (अपसः) वेगवान् प्राण या ध्यान वृत्तियों को उसी प्रकार (आ हिन्वन्ति) प्रेरित करता है (यथा) जिस प्रकार (अपसः) वेगवान् सुभट (रथं) अपने रथ को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं ।

१. अर्जुनो ह वा इन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम ॥ श० ५ । ४ । ३ । ७ ॥

[७६६] प्र सामासो मद्रव्युतः श्रत्रसे ना मघानाम् ।

सुता विदथ अक्रमुः ॥१॥

[७७०] आदीं हंसा यथा गणु विश्वस्यावीचशन्मतिम् ।

अत्यो न गोभिरज्यते ॥ २ ॥

[७७१] आदीं त्रिनस्य याषणा हरिं हिन्वन्त्याद्रभिः ।

इन्दुमिन्द्राय पीतय ॥ ३ ॥ २१ ॥ ऋ० १० । ३२ । १, ३, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७७] पृ० २४० ।

(२) (आन्) और (गणु) उत्पन्न होने वाले (ई) इस शरीर-गत प्राणगण को (हंसः) आत्मा (यथा) जिस प्रकार से (अवावशत्) वश करता है उसी प्रकार वह परमात्मा (विश्वस्य) समस्त संसार के (मति) मनो को भी (अवीवशत्) वश करता है । और (अत्यः न) जिस प्रकार अश्व (गोभिः) नाना प्रकार की चालों से (अज्यते) अपने गुण प्रकट करता है उसी प्रकार वह आत्मा अपनी इन्द्रियों की नाना सुख, दुःख, ज्ञान आदि गतियों से और वह प्रभु अपने बनाये गतिशाल पिण्डों और वेदवाणियों से अपनी सत्ता और स्वरूप को प्रकट करता है ।

[७७२] अया पवस्व देवयूरभन पर्येपि विश्वतः ।

मथोर्धारा असृक्षत ॥ १ ॥ ऋ० ६ । १०६ । १४ ॥

[७७३] पवते हर्यता हरिरतिहरांसि रंह्या ।

अभ्यर्ष म्त्तोतृभ्या वीरवद्यशः ॥ २ ॥ ऋ० ६ । १०६ । १३ ॥

[७७४] प्रसुन्वानायान्धसा मर्त्ता न वष्ट तद्वचः ।

अपश्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥ ३ ॥ २२ ॥

ऋ० ६ । १०१ । १३ ॥

भा०—(१) हे सोम ! योगिन् ! (देवयुः) अर्थों का प्रकाश करने वाले विद्वानों और इन्द्रियगणों से युक्त होकर (अया) इस (धारया)

धारणा ज्ञान और आनन्द की धारा द्वारा (पवत्स्व) प्रकट हो । तत्र (रेभन्) स्तुति करता हुआ तू (विश्वतः) सब प्रकार से (पर्यपि) व्याप्त या निष्ठ हो और तत्र (मधोः) मधुर, आनन्दजनक (धाराः) ज्ञानधारा और आनन्दरस की धाराएं (असृत्त) उत्पन्न हों ।

(२) व्याख्या देखिये अविकल सं० [१७६] पृ० २६०

(३) व्याख्या देखिये अविकल सं० [१५३] पृ० २६८

इति षष्ठः खण्डः ।

इति द्वितीयोध्यायः ।

इति द्वितीयाऽर्धः । इति प्रथमः प्रपाठकः ।

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

अथ द्वितीयः प्रपाठकः (प्रथमोऽर्धः) ।

ऋषिः—जमदग्निः । २, ५, १५ अगर्हीयुः । ३ कश्यपः । ४, १० भृगुर्वा-
रुणिर्जमदग्निर्वा । ६, ७ मेधातिथिः काण्वः । ८ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । ९ वसिष्ठः ।
११ उपमन्युर्वासिष्ठः । १२ संयुर्वाहिस्पत्यः । १३ प्रस्कण्वः काण्वः । १४ नृमेधाः ।
१६ नहुषो मानवः । १७ सिकतान्निवावरीः, आद्ययोर्द्वयोः पृष्णवोऽजाश्वरमस्य ।
१८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा । १९ जेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता—१—५, १०,
१५—१७ पवमानः सोमः । ६ अग्निः । ७ मित्रावरुणौ । ८, १२—१४,
१८, १६ इन्द्रः । ९ इन्द्राग्नी ॥ छन्दः—१—१०, १५, १८ गायत्री । ११
त्रिष्टुप् । १२—१४ प्रागाथं । १६, १६ अर्जुण्टुप् । १७ जगती ॥ स्वरः—
१—१०, १५, १८ पङ्क्तः । ११ धैवतः । १२—१४ मध्यमः । १६, १६
गान्धारः । १७ निषादः ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[७७५] पवस्य वाचां अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः ।

३ १ २ २ ३ १ २

अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ २ १ २ २ ३ १ २

[७७६] त्वं समुद्रिया अपाग्रिया वाच ईरयन् ।

१ २

पवस्व विश्वचर्षणे ॥ २ ॥

२ ३ १ २ २ ३ १ २

[७७७] तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे ।

१ २

३ १ २

तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥ ३ ॥ १ ॥ ऋ० ९ । ६२ । २५-२७ । ३

भा०—(१) हे सोम ! सबके प्रेरक ! आप अपनी (चित्राभिः) पूजनीय (ऊतिभिः) शक्तियों और रक्षा-कार्यों और ज्ञानों सहित (वाचः) हमें वेदवाणियों (पवस्व) प्राप्त कराते हो । और (विश्वानि) समस्त (काव्या) क्रान्तदर्शी, मेधावी पुरुषों की वाणियों के (अभि) साक्षात् वाच्य हो ।

(२) हे (विश्वचर्षणे) समस्त संसार के देखने हारे ! हे (सोम) सर्वोत्पादक ! जिस प्रकार मेघ या वायु स्वरूप सोम शब्द करता हुआ समुद्र से भरे जल को पृथ्वी पर बरसाता है इसी प्रकार (अग्रियः) सबके अग्रणी सबसे प्रथम वर्तमान, सबसे मुख्य, अनादि (वाचः) वेदवाणियों को (ईरयन्) प्रकट करते हुए आप (समुद्रियाः) भली प्रकार उन्नति की और लेजाने वाले (अपः) कर्मों को (पवस्व) उपदेश करते हो ।

(३) हे (कवे !) मेधाविन् ! हे (सोम) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक, रसस्वरूप ! (महिम्ने) विशाल महिमास्वरूप (तुभ्यं) तेरे, लिये (इमा भुवना) ये समस्त लोक (तस्थिरे) स्थिर हैं । (तुभ्यं) तेरे लिये ये (धेनवः) वाणियां और नदियां (धावन्ति) गति कर रही हैं, प्रकट होती

हैं, दौड़ रही हैं । अर्थात् ये समस्त लोक और वेदवाणियां, नदियां काम-
धुक् भूमियां तेरी ही महान् सत्ता को प्रकट करने के लिये हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[७७८] पत्रस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसां जन ।

२ ३ २ ३ १ २
विश्वा अप द्विपो जहि ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[७७९] यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतन्यतः ।

१ २ ३ १ २ ३ २
तवेन्दो द्युम्न उत्तमे ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[७८०] या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे ।

३ २ ३ २
रक्षा समस्य नो निदः ॥ ३ ॥ २ ॥ ऋ० ६ । ६१ । २८, ३० ॥

भा०—(१) हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवन् ! आप (सुतः) सामर्थ्यवान्
(वृषा) सब सुखों के वर्षाने वाले (पत्रस्व) हमारे समीप प्रकट होओ ।
और (जने) जनसमूह में (नः) हमें (यशसः) यशस्वी (कृधि)
करों । और (विश्वा) समस्त (द्विपः) हमसे अप्रीति करने हारे, हमारे
अनिष्टकारियों को (अप जहि) दूर करो ।

(२) हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवन् ! (यस्य ते) जिस तेरे (सख्ये) मित्र
भाव में रहते हुए (पृतन्यतः) सेनाएं लेकर चढ़ाई करने हारे विरोधियों
को (सासह्याम) पराजित करें उस (तव) तेरे (उत्तमे) उत्तम (द्यु-
म्नम्) तेज या ऐश्वर्य या बल के अधीन हम सदा रहें ।

(३) हे प्रभो ! (या) जो (ते) तेरे (तिग्मानि) तीक्ष्ण (आयुधा)
हथियार (धूर्वणे) हिंसाकारियों के लिये (सन्ति) हैं उन द्वारा (नः)
हमारी (समस्य) समस्त (निदः) निन्दाकारियों से (रक्ष) रक्षा कर ।
राजा के प्रति योजना भी स्पष्ट है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [७८१] वृषा सोमं द्युमाँ असि वृषा देव वृषव्रतः ।
 २ ३ २ ३

वृषा धर्माणि दधिपे ॥१॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[७८२] वृष्णस्ते वृष्णयं शवो वृषा वनं वृषा सुतः ।

१ २ २ ३ १ २ २ २

स त्वं वृषन्वपेदासि ॥२॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ २ २

[७८३] अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्द्रो समर्वतः ।

१ २ ३ १ २ ३ २

वि नो रायं दुरो वृधि ॥३॥३॥ श्र० ६ । ६४ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [१०४] पृ० २५० ।

(२) हे वृषन् ! सबसे महान् सब सुखों के वर्षा करने हारे ! हे (सोम) सर्वोत्पादक ! सर्वप्रेरक ! (वृष्णः) वर्षणशील (ते) तेरा (शवः) बल और ज्ञान (वृष्णयं) सुखवर्षक है । तेरा (वनं) भजन सेवन भी सुखदायक है और (सुतः) तेरी प्रेरणा भी सुखदायक है । (स त्वं) वह तू (वृषा इत्) सच्चा सुखवर्षक (असि) है ।

(३) हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवान् ! (वृषा) सब सुखों के वर्षक आप (अश्वः न) भोग्य आत्मा के समान (गाः) ज्ञानेन्द्रियों को (सं चक्रदः) अच्छी प्रकार नादित करो, ज्ञानवान् करो । और (अर्वतः) अश्व के समान दौड़ने हारी प्राणेन्द्रियों को भी (सं चक्रदः) बलवान् करो । अथवा (अश्वः न) राष्ट्र या राजा जिस प्रकार अपने गौ आदि पशुओं को अधिक समृद्ध और बलवान् बनाता है उसी प्रकार आप सर्वोत्पादक, सर्वेश्वर होकर (गाः) वेदवाणियों का उपदेश करो और (अर्वतः) ज्ञानी पुरुषों को उपदेश करो । आप (नः) हमारे (दुरः) द्वारों को (रायं) इष्ट ज्ञानरूप धन के निमित्त (वि वृधि) और अधिक खोल दो ।

७८१—(२) 'वृषागदः' 'सन्ध' इति श्र० ।

[७८४] वृषा ह्यलि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे ।
^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}

^{१ २ ३ १ २}
 पवमान स्वर्दशम् ॥१॥

[७८५] यदद्भिः परिपिच्यसे मर्भृज्यमान आयुभिः ।
^{२ ३ १ २ १ १ २ ३ १ २ ३ १ २}

^{१ २ ३ १ २}
 द्रोणे सधस्थमश्नुप ॥२॥

[७८६] आ पवस्व सुवीर्यं मन्दसानः स्वायुध ।
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २}

^{३ १ २ ३ १ २}
 इहो विन्दवागहि ॥३॥४॥ ऋ० ६ । ६२ । ४, ६, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [४८०] पृ० २४१ ।

(२) हे (सोम) आत्मन् ! (आयुभिः) मनुष्यों या प्राणों द्वारा (मर्भृज्यमानः) परिशोधित होकर (यद्) जब (अद्भिः) योगाभ्यास के कर्मों द्वारा, या ज्ञान धारणाओं द्वारा (परिपिच्यसे) पुनः २ स्वच्छ किया जाता है तब (द्रोणे) इस मूर्धास्थल या देह में (सधस्थम्) अपने साथ ही स्थिर, कूटस्थ परम आत्मा को भी (अश्नुपे) प्राप्त कर लेता है ।

(३) हे (स्वायुधः) उत्तम आयुधों से सम्पन्न समाधि में ध्येय इष्ट देव के संग मिलने के लिये उत्तम यम नियम के साधनों से सम्पन्न आत्मन् ! आप (मन्दसानः) आनन्दमय होकर (सुवीर्यं) उत्तम सामर्थ्य को (आ पवस्व) प्रकट करो । हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवन् ! द्रवणशील, रस रूप से बहने वाले ! (इह उ) यहाँ ही इस अन्तःकरण में (सु आगहि) उत्तम रूप से आ, प्रकट हो ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २}
 [७८७] पवमानस्य ते वर्यं पवित्रमभ्युन्दतः ।

^{३ १ २}
 सखित्वमावृणीमहे ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[७८८] ये ते पवित्रमूर्मयोऽभिक्षरन्ति धारया ।

१ २
तेभिर्नः सोम मृडय ॥२॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[७८९] स नः पुनान आ भर रयि वीरवतीमिषम् :

१ २ ३ १ २
ईशानः सोम विश्वतः ॥३॥ ५ ॥ अ० ६। ६१। ४-६ ॥

भा०—(१) हे परमात्मन् ! (पवित्रम्) समस्त शरीर को पवित्र करने वाले मेरे आत्मा या अन्तःकरण को (अभि उन्दतः) साक्षात् द्रवित करते हुए, आपकी तरफ बहते हुए भावयुक्त बनाते हुए (पवमानस्य) सबके परम पावन (ते) आपके (सखिःखं) भिन्नभाव का हम (आ वृणीमहे) वरण-करते हैं ।

(२) हे (सोम) समस्त संसार के उत्पादक ! प्रेरक ! (ते ऊर्मयः) तेरी शक्तियां (धारया) समस्त संसार को धारण करने वाली शक्ति के रूप में (पवित्रम्) हमारे अन्तःकरण में (अभि क्षरन्ति) प्रकट होती हैं तू (तेभिः) उनसे (नः) हमें (मृडय) सुखी कर ।

(३) हे (सोम) सर्वप्रेरक ! (सः) वह अतिप्रसिद्ध आप (ईशानः) समस्त संसार पर वश करने वाले स्वामी (नः) हमें (पुनानः) पवित्र करते हुए (रयि) प्राण और रयि-चितिशक्ति या पेश्वर्य को (आ भर) प्राप्त कराइये और (वीरवतीम्) बलसम्पन्न (इषम्) अन्न आदि पदार्थों वा इच्छा शक्ति को (विश्वतः) सब ओर से प्राप्त कराइये ।

इति प्रथम खण्डः ।

—:०:—

३ २ ३ १ ३ १ २ ३ १ २
[७९०] अग्निं दूनं वृणीमहे हातारं विश्ववेदसम् ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २

अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ॥ १ ॥

[७६१] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पातिम् ।

^{३ १ २ ३ २} हव्यवाहं पुरुषियम् ॥२॥

[७६२] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} अग्निं देवा इहावद जज्ञानो वृक्तवर्हिषे ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} असि हाता न ईड्यः ॥३॥६॥ अ० १ । १२ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अग्निः सं० [३] पृ० २ ।

(२) विद्वान् लोग (अग्निम्-अग्निम्) सबके आरो विद्यमान प्रकाश-स्वरूप, ज्ञानप्रद, आचार्यरूप सर्वोत्तम अग्नि और सब पापों के विनाशक (विश्पाति) सब प्रजाओं के स्वामी, (पुरुषियं) समस्त प्रजाओं के प्रेम पात्र, (हव्यवाहं) समस्त स्तुतियों को धारण करने वाले परमात्मा को ही (हवीमभिः) स्तुति करने योग्य मन्त्रों से (सदा) नित्य (हवन्ते) स्मरण करते हैं, पुकारते हैं ।

(३) हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! आप (देवान्) दिव्यगुणयुक्त सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि आदि देवों और विद्वानों को (वृक्तवर्हिषे) देह-बन्धनों को काट देनेहारे, जित्नुम्न, कुशल पुरुष के लिये (इह) इस संसार में (जज्ञानः) उनके सब रहस्यों को प्रकट करते हुए (आ वह) हमें प्राप्त कराओ । आप (हाता) सबको अपने भीतर आहुतिरूप में ले लेने हारे एवं सबको सुख ऐश्वर्य के दाता होकर (नः) हमारे (ईड्यः) एकमात्र स्तुति योग्य हैं ।

[७६३] ^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} मित्रं चरुं हवामहे चरुणं सोमपीतये ।

^{२ ३ २ ३ १ २} या जाता पूतदक्षसा ॥ १ ॥

[७६४] ^{३ २ २ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} ऋतन यावृतावृथावृतस्य ज्योतिषस्पता ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} ता मित्रावरुणा हुवे ॥ २ ॥

[७६५] वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः ।

करतां नः सुराधसः ॥ ३ ॥ ७ ॥ ऋ० १ । २३ । ४-५ ॥

भा०—(१) (वयं) हम लोग (सोमर्पातये) समाधि से उत्पन्न होने वाले उस ब्रह्मानन्द रस का पान करने के लिये (मित्रं) स्नेह करने योग्य प्राण, मन, चित्त और (वरुणं) शरीर के विद्वानों का चारण करने हारे अपान को (हवामहे) परस्पर में आहुति देने या उनको वश करतें हैं । (या) जो दोनों (पृनदक्षसा) पवित्र कर्म करने हारे, मल के शोधक होकर (जाता) विद्यमान एवं प्रकट हैं ।

(२) मैं (तौ) उन मित्रावरुणा) मित्र और वरुण दोनों को (हुवे) पुकारता हूँ (यौ) जो दोनों (ऋतेन) जीवनमय यज्ञ से या सत्य के बलपर (ऋतावृधौ) वास्तावक सत्य और जीवन को वृद्धि करने हारे (ऋतस्य) सत्य आत्मा को (ज्योतिषःपती) आनन्दमय विशोका, ज्योति के पालन करने हारे हैं ।

(३) (वरुणः) वरुणस्वरूप अपान (अविता) देह को दुःखों से बचाने वाला (प्र भुवन्) हांता हुआ और (मित्रः) मित्र, प्राण (विश्वाभिः) सब प्रकार की (ऊतिभिः) रक्षण शक्तियों से (नः) हमारे (सुराधसः) उत्तम साधनाएं (करताम्) सिद्ध करें ।

[७६६] इन्द्रमिद्राथिनो वृहदिन्द्रमर्कभिरार्कणः ।

इन्द्रं वार्षीरनूपन ॥ १ ॥

[७६७] इन्द्र इन्द्रयोः सत्त्वा माम्मश्ल आ वचा युजा ।

इन्द्रा वजी हिरण्यगः ॥ २ ॥

[७६८] इन्द्र वाजपु नोऽव सहस्रप्रथनेषु च ।


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ३ ॥

होकर हम (धिया) ध्यान और मननपूर्वक (धेनाः) ज्ञानरस पान कराने वाली वेदवाणियों का उच्चारण करें ।

(२) (विप्रासः) मेधावी विद्वान् लोग (ता) इन्द्रस्वरूप और आग्निस्वरूप परम गुरुओं के प्रति (शश्वन्तः) अनादि काल से (उतये) आत्मरक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिये (इत्था) इसी प्रकार की सत्य-वाणियों द्वारा (सवाधः) एक दूसरे से समान रूप से बंधे हुए विद्वान् जन (वाजसातये) ज्ञानप्राप्ति के लिये (ईडते) स्तुति करते हैं ।

(३) हम (विपन्यवः) विशेष स्तुतिकर विद्वान्जन (प्रयस्वन्तः) ज्ञानी (मेधसातौ) पवित्र ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिये (सनिष्यवः) भजन करने की कामना से (गीर्भिः) वेदवाणियों द्वारा (ता वां) उन आप दोनों को (हवामहे) स्तुति करते हैं ।

इति द्वितीयः खण्डः ।



[८०२] ^{१ २} वृषा ^{३ १ २} पवस्व ^{३ १ २} धारया । ^{३ २} मरुत्वते च मत्सरः ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} विश्वा दधान ओजसा ॥ १ ॥

[८०३] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ १ २ ३ १ २} तं त्वा धर्त्तारमोरायोऽरेऽण्वमान स्वर्दशम् ।

^{३ १ २ २ ३ १ २} द्विन्व वाजेषु वाजिनम् ॥ २ ॥

[८०४] ^{३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} अया त्रितो विपानया हरिः पवस्व धारया ।

^{३ २ १ २} युजं वाजेषु चोदय ॥ ३ ॥ १० ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [४६६]

(२) हे (पवमान) समस्त संसार को गति देने हारे परमात्मन् ! (ओरयोः) दुःखों को दूर करने वाले, आकाश और पृथिवी दोनों के (धर्त्तारं) धारण करने वाले (स्वर्दशम्) परमसुख या ज्ञान के प्रकाश को

दर्शाने हारे (वाजिनं) ज्ञान और बल के भंडार आपको (वाजेषु) बल के कार्यों, संग्राम आदि के अवसरों पर (हिन्वे) स्मरण करता है ।

(३) हे सोम ! (हरिः) सब दुःखों के हरण करने हारे आप (अया) इस (विपानया) विशेष रूप से पान करने योग्य (धारया) ब्रह्मानन्द की धारा से (चित्तः) चेतनामय स्वरूप से पृथक् प्रकट होकर (वाजेषु) ज्ञानों और ऐश्वर्यों में आप (युजम्) योग करने हारे इस साधक को (चोदय) प्रेरित करो ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ ०
[८०५] वृषा शोणा अभि कनिऋद्द्वा नदयन्नपि पृथिवीमुन द्याम् ।

१ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
इन्द्रस्येव वग्नुरा शूश्व आजौ प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम् ॥
३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ ३ २

[८०६] रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेपि मधुमन्तमंशुम् ।

१ २ २ ३ १ २ ३ १ ३ २ २ ३ १ २
पवमान सन्तनिमेपि कृशन्नन्निन्द्राय सोम परिपिच्यमानः ॥
३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[८०७] पवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन् वधस्तुम् । :

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
पारि वर्णं भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो अर्प परि सोम सिक्तः
॥ ३ ॥ ११ ॥ ऋ० ६ । ६७ । १३—१५ ॥

भा०—(१) (शोणः) गतिमान्, सर्वत्रव्यापक (वृषा) सब सुखों की वर्षा करने हारा परमात्मा (कनिऋद्द्) शब्द या ज्ञानोपदेश करता हुआ, या मेघ जिस प्रकार (गाः) भूमियों को जलसे सींचता है और महावृषभ जिस प्रकार गर्जता हुआ गौश्रों में वीर्य सेचन करता है और आचार्य जिस प्रकार गम्भीर उपदेश से शिष्यों रूप भूमियों को या उनकी चित्त-भूमियों को ज्ञान से सींचता है उसी प्रकार (नदयन्) प्रतिध्वनि करता हुआ

८०५—(१) 'नदयन्नेति' 'प्रचेतयन्नर्षति' इति ऋ० ।

[२] "नमयन् वधस्यैः" इति ऋ० ।

(पृथिवीम्) पृथिवी (उत घाम्) और आकाश में सर्वत्र (ऐपि) व्यापक है (इन्द्रस्य इव) भीतर बैठे २ अपने अन्तरात्मा के समान उसकी (वग्नुः) वाणी (आजौ) हृदय में (शृण्व) सुनता हूँ । वह तू (प्रचोदयन्) अन्तःकरणों को प्रेरित करता हुआ, सब आत्माओं को ज्ञानवान् करता हुआ (इमाम् वाचम्) वेदवाणी या स्तुति को (अर्पसि) सर्वत्र प्रकट करता, एवं प्राप्त होता है ।

१. शुन गतौ इत्यस्माच्छ्लोणः ।

(२) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! (रसाद्यः) आनन्द रस से परिपूर्ण, (पयसा) ज्ञान से (पिन्वमानः) वृक्ष करता हुआ, (मधुमन्तं) मधुर, ज्ञान, ब्रह्मविद्या से युक्त (अंशुम्) व्यापक आत्मा को तू (ऐपि) प्राप्त होता है । तू (पवमानः) समस्त आत्माओं को पवित्र करता हुआ (इन्द्राय) अन्तरात्मा के लिये (परिपिच्यमानः) रसके समान सेचन किया जाता हुआ, पुनः २ ध्यान किया गया (सन्तनिं) निरन्तर बंधी धारणा को (कृण्वन्) दृढ़ करता हुआ (ऐपि) हृदय में आ, विराज ।

(३) हे (सोम) आनन्दमय ! रसस्वरूप ! (मदिरः) हर्ष को जागृत करने हारा (उद्-प्राभस्य) सत्य ज्ञान के ग्रहण करने हारे आत्मा के (वधत्तुं) विधुत् द्वारा ताड़ना करने पर स्रवण करने वाले मेघ के समान, प्राणों के वश करने पर धर्ममेघ द्वारा आनन्द रसको वर्षा देनेहारे, चित्त या आत्मा को (नमयन्) अपने अधीन करता हुआ (पवस्व एव) अवश्य प्रकट हो । और (रुशन्तं) कान्ति से सम्पन्न (वर्णं) वरण करने योग्य स्वरूप को (परि भरमाणः) सब ओर से धारणा करता हुआ (सिक्रः) सर्वत्र व्याप्त या आनन्द से पूर्ण होकर (गव्युः) समस्त इन्द्रियों को प्रेरणा करता हुआ (अर्प) स्रावित हो, प्रकट हो ।

इति तृतीयः खण्डः ।

[८०८] ^{१२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वामिन्द्रि इवामहे माते वाजम्य चारवः ।

^{१ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ ३ ३} त्वां वृत्राण्यिन्द्र सत्पति नरन्त्वा काण्डान्ववतः ॥ १ ॥

[८०९] ^{१२ २२ ३ १ ३ १ २ ३ १ १} स त्व नाश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया महः स्तवाना अद्रिवः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ ३} गामश्वं रथ्यामिन्द्र सङ्किर सत्रां चाजं न जिग्युषे ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥

श्र० ६। ४६ । १-२ ॥

भा०—व्याख्या देखो अवि० सं० [२३४] पृ० १२० ।

(२) हे (चित्र) पूजनीय ! समस्त प्राणियों को ज्ञान और चेतना के देने हारे ! (वज्रहस्त) खड्ग के धारण करने वाले वीर पुरुष के समान ज्ञानमय खड्ग का अज्ञान अन्धकार के नाश के लिये धारण करने हारे ! हे (अद्रिवः) अभेद्य, अखण्डनीय बलधारक ! परमात्मन् ! (धृष्णुया) आप सबका धर्षण करने वाले, (महः) महान्, तेजःस्वरूप (स्तवानः) सबकी स्तुतियों के पात्र होकर (जिग्युषे) इन्द्रियों पर विजय करने हारे पुरुष के प्रति (चाजं न) जिस प्रकार ज्ञान ऐश्वर्य आप देते हैं उसी प्रकार (रथ्यं) इस रथरूप देह के हितकारी हमें (गाम्) गौ=ज्ञानेन्द्रियों और (अश्वम्) अश्व, कर्मेन्द्रियों को भी (सत्रा) उत्तम रीति से (सं किर) प्रदान करो ।

[८१०] ^{३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} आभ प्र वः सुराभसमिन्द्रमर्चे यथा विदे ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} यो जरितृभ्या मघवा पुरुवसुः । सहस्रेणैव शिञ्जति ॥ १ ॥

[८११] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ १ २ ३ १ २ ३ १ ३} शतानीकैव प्रजिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे ।

^{३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २} तगरारव प्र रसा अस्य पिन्विर दत्राणि पुरुभाजसः ॥ २ ॥

॥ १३ ॥ श्र० ८। ४६ । १-२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२३५] पृ० १२० ।

(२) (धृष्णुया) अपनी इन्द्रियों पर और चित्तकं शत्रु काम, क्रोधादि को वश करने वाला पुरुष या (शतानीक इव) सैकड़ों सेनाओं के पति

विजिगीषु पुरुष के समान (प्रजिगति उत्तम प्रकार से आगे बढ़ कर विजय कर लेता है । हे (दाशुषे) आत्म समर्पण करने हार के लिये (वृत्राणि) उसको घेर लेने वाले पाप विकल्पों को भी वह प्रभु (हन्ति) विनाश करता है । (अस्य) हम (पुरुभोजसः) इन्दियों के भोग भोगने हार आत्मा के (दत्राणि) त्याग किये हुए विषय ही (गिरेः इव वृत्राणि) मंघ से बरसे जलों के समान, या पर्वत से ऋरते ऋरनों के समान आनन्दों को बहाने वाले आनन्द घन, ज्ञानोपदेशक परमेश्वर से बहते (रसा) आनन्दरस ही उसको (प्र पिन्विरे) अति अधिक तृप्त और पूर्ण करते हैं ।

२ ३ १२ २ ३ १ २
[२१२] त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन् वाञ्छन् भूयांयः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
स इन्द्र स्तामवाहस इह श्रुध्युप स्वस्वरा मा गहि ॥१॥
१ २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ १

[२१३] मत्स्वा सुशिप्रिन् हरिवस्तमीमं ह त्वया भूपन्ति वधसः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ २ १ २
तव श्रवांस्युपमान्युक्थ्य सुतोऽविन्द्र गिर्वणः ॥ २॥ १४ ॥
ऋ० ८ । ९९ । १-२॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३०२] पृ० १५४

(२) हे (सुशिप्रिन्) उत्तम ज्ञानसम्पन्न ! (हरिवः) व्यापनशील शक्तियों से युक्त ! हे (गिर्वणः) वाणियों के एकमात्र पात्र ! (तं) उस तुम्ह इष्टदेव को हम (ईमं हं) प्राप्त होते हैं । हे देव ! (वेधसः) विद्वान् मेधावी लोग (त्वया) तुम्ह से, तेरे उत्तम गुणों से (भूपन्ति) अपने आपको अलंकृत करते हैं । तू स्वयं (मत्स्व) अपने ही में आनन्दस्वरूप होकर रह । हे (उक्थ्य) प्रशंसा के योग्य (श्रवांसि) सब श्रवण करने योग्य श्रुतियां (ते) तेरी ही (उपमानि) ज्ञान देने हारी हैं ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

[८१४] यस्त मदी धरोयस्तेना पवसंशान्त्रसा ।

देवाधीरघशमहा ॥१॥

[८१५] जघ्निरवृत्रमामत्रियं सस्तिर्वाजं दिवं दिवं ।

गोपातिरश्वसा अभि ॥ २ ॥

[८१६] सामिश्लो अरुषा भुवः सूपस्थाभिर्न धेनुभिः ।

सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥३॥१५॥ ऋ० ६।६१। १९-२१ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक् ५ सं० [४७८] पृ० २३७ ।

(२) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! सर्वप्रेरक ! (त्वम्) तू 'अमित्रियं' मित्रता या स्नेह से शून्य (वृत्रं) हृदय को अज्ञान से घेरने वाले पाप को (जघ्निः) नाश करने वाला है । और (दिवे दिवे) दिनों दिन (वाजं) ज्ञान, बल और अन्न, पुष्टि को (सस्तिः) देने द्वारा है । और तू ही (गो-सातिः अश्व-सातिः) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को भी शक्ति देने वाला (असि) है ।

(३) हे (सोम) यवैर्धर्यवन् ! ज्ञान के दातः ! (सूपस्थाभिः धेनुभिः न) सुख से समीप प्राप्त होने वाली, सुशील गौपुं जिस प्रकार मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं उसी प्रकार तू (सूपस्थाभिः) आचार्य के समीप जाकर सुख से प्राप्त करने योग्य (धेनुभिः) ब्रह्मास्वाद, रस का पान कराने वाली वेद और उपनिषद् की स्तुति वाणियों से (सामिश्लः) उत्तम रीति से युक्त होकर (अरुषः) अतिरोचक, कान्तिसम्पन्न (भुवः) होता है और तभी (श्येनः न) बाज़ के समान शीघ्र गतिकारी एवं ज्ञानवान् आत्मा रूप (योनिम्) अपने आश्रय रूप, शरणप्रद परमेश्वर में (आसीदन्) विराजमान होता है ।

अथवा—(नृपरधाभिर्न धेनुभिः) सुशील गावों से जिस प्रकार (शरुपः) लाल सांड (संमिश्रलः भुवः युक्र रहे और जिस प्रकार (श्वेनः न योनिन् आसीदत्) याज्ञ अपने आश्रय स्थान पर जाता है उसी प्रकार उत्तम रूप से स्थिर रहने वाली, रसप्रद हृन्दिषी या वाणियों द्वारा युक्र होकर आत्मा अपने गृह के समान परम आश्रमप्रद शरण, परब्रह्म में मग्न होजाता है ।

[८१७] अयं पृषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्पति ।

पतिविश्वस्य भूमना व्यन्व्यद्रोदसी उभे ॥१॥

[८१८] समु प्रिया अनूपन गावा मदाय घृष्वयः ।

सोमासः कृष्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥

[८१९] य आजिष्टस्तमाभर पवमान श्रवायस्म ।

यः पञ्च चर्षणीरभि रयि येन धनामहे ॥ ३ ॥ १६ ॥

अ० ६ । १०१, ७-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अधिकृत सं० [१४६] पृ० २७४ ।

(२) (प्रियाः) जनोहर (गावः) वाणियां मा हृन्दिषां (घृष्वयः) परस्पर स्पर्धा करती हुई, या अति तेजोयुक्त होकर (मदाय) आनन्द प्राप्त करने के लिये (समू अनूपन) आत्मा की स्तुति करती हैं । (पवमानासः) हृदय को विमल करते हुए (इन्दवः) परमैश्वर्यसम्पन्न साधक (सोमासः) शान्दम आदि भे सम्पन्न होकर मुमुक्षु गण (पथः) मोक्ष साधनों को (कृष्वते) करते हैं ।

(३) हे (पवमान) सबके हृदयों को पवित्र करने हारे परमात्मन् ! (यः) जो तू (आजिष्टः) सबसे अधिक वह कान्ति और तेज से युक्त है वह तू (श्रवायस्म) श्रवण करने योग्य, श्रुति से ज्ञान करने योग्य

रसरूप है । (तम्) उस परम आनन्द रस को हमें (आभर) प्राप्त कराओ ।
(यः पञ्चचर्पणीः) जो पाँचों ज्ञानदृष्टा इन्द्रियों का व्याप्त करता है, जिस
से हम (रथि) पुष्टि, वीर्य या ऐश्वर्य को (वनामह) प्राप्त किया चाहते हैं
वह भी हमें प्राप्त कराओ ।

[८२०] ^{१ २ ३ ६ २ २३ ३ १ २ ३ १ २} वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रनरीतापसां
^{३ २ ३ ५ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} दिवः । प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य हाद्यां-
^{३ १ २ ३ १ २} विशन्मनीपिभिः ॥ १ ॥

[८२१] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ २ ३ ३ १ २} मनीपिभिः पवते पूर्य कविर्नृभिर्यतः परि कोशां अमि-
^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ १ २ २ २} ष्यदत् । त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरन्दिन्द्रस्य वायुं
^{३ १ २ ३ १ २} सख्याय वर्धयन् ॥२॥

[८२२] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ १ २ २} अयं पुनान उयसा अरोच्यदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लो-
^{३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} ककृत् । अय त्रिः सप्त दुदुहान आशरं सामो हृद पवते
^{१ २ ३ २} चारु मत्सरः ॥३॥१७॥ ऋ० ६ । ८६ । २०-२२॥

भा०—(१) (पूर्यः) सबसे आदि में वर्तमान, अज, (कविः) ज्ञानी
मेधावी, आत्मा (मनीपिभिः) मन को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाले विद्वान्
(नृभिः) पुरुषों द्वारा (यतः) संयत, नियमित किया गया (पवते)
प्रकट होता है और (कोशान्) पाँचों कोशों को (परि आसिष्यदत्) व्याप
लेता है उनपर अपना अधिकार कर लेता है । (त्रितस्य) तीनों स्थानों पर
अर्थात् कण्ठ के ऊपर शिर, मध्यभाग और मूल इन तीनों स्थानों पर व्याप्त
(इन्द्रस्य) आत्मा के (नाम) स्वरूप को (जनयन्) प्रकट करता हुआ
(मधु) ज्ञानस्वरूप अमृत रस को (क्षरन्) चुआता हुआ (वायुम्)
प्राणबल को (सख्या) अनुकूल रूप में (वर्धयन्) बढ़ाता है, पुष्ट करता है ।

(३) (अयं) यह सोम (पुनानः) क्षरित होता हुआ (उषसः) प्रकाशित तेजःपटल को (अराचयत्) और अधिक उज्ज्वल कर देता है। (अयं) और यह सोम (सिन्धुभ्यः) शरीर के भीतर बहने वाली ज्ञान-धाराओं या नाड़ियों को (उ) भी (लोककृत्) अधिक कान्तिमान् करने वाला (अभवत्) होता है। (अयं सोमः) यह सोम, ब्रह्मानन्दरस (त्रिः-सप्त) २१ प्रकारों से (आशिरं) आनन्दरस को (दुदुहानः) उत्पन्न करता हुआ (हृदे) हृदय में (मत्सरः) आनन्द बहाता हुआ (चारु) उत्तम रूप से (पवते) प्रकट होता है।

[८२३] ^{३ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २} एवाह्यति धीरयुरेवा शूर उत स्थिरः ।

^{३ २ ३ २ ३ २} एवा ते राध्यं मनः ।

[८२४] ^{३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २} एवा रातिस्तुवीमघ विश्वोभिर्धायि धातृभिः ।

^{३ २ ३ २ ३ २} अथाचिदिन्द्र नः सचा ॥२॥

[८२५] ^{३ २ ३ २ ३ २ ३ २} मापु ब्रह्मव तन्द्रयु भुवा वाजानां पते ।

^{३ २ ३ २ ३ २ ३ २} मत्स्वा सुनस्य गोमतः ॥३॥१८॥ ऋ० ६। १८। २८-३०५

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३२] पृ० ११८

(२) हे (तुवीमघ!) ऐश्वर्यवन्! (इन्द्र) आत्मन्! (विधेभिः) समस्त (धातृभिः) धारण करने वाले लोग (रातिः) तेरे दिये दान को (एव) ही (धायि) धारण करते हैं। (अधचित्) और हे (इन्द्र) आत्मन्! आप (नः) हमारे (सचा) सदा सहायक हो।

(३) हे (वाजानां पते!) ज्ञानों, पृथ्वी बलों के स्वामिन्! आप (ब्रह्मा इव) ब्रह्मा, वेदज्ञ विद्वान् के समान सदा सावधान रहते हुए (तन्द्रयुः) कभी आलस्ययुक्त, निकम्मा (मा उ पु भवः) नहीं रहते प्रत्युत (गोमतः) इन्द्रियों के सम्पादित ज्ञान से मिले (सुतस्य) योगज

सुख को (मत्स्य) आनन्द-लाभ करो । प्रायः केवल ज्ञानी लोग अजगरी वृत्ति धारण कर लेते हैं । परन्तु ज्ञान, बल दोनों से युक्त पुरुष को तो उत्तम कर्म सदा करते रहना उचित है ।

[८२६] इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्समुद्रय्यन्नसं गिरः ।
^{२ ३ १ २} ^{३ १ २ ३ १ २}
^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
 रथीतमं रथीनां वाजानां सन्पनि पतिम् ॥१॥

[८२७] सख्य त इन्द्र वाजिना मा भेम शवसस्पते ।
^{३ १ २} ^{३ २ ३ १}
^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
 त्वामाभ नोनुमा जेतारमपराजितम् ॥२॥

[८२८] पूवारिन्द्रस्य रातयो न विदस्यन्त्यूनयः ।
^{३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
 यदा वाजस्य गोमतस्तावृथ्या महत मधम् ॥३॥१६॥

श्र० १ । ११ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अत्रिकल सं० [३४३] पृ० १७८

(२) हे (शवसस्पते) बलों के स्वामिन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के देने हारे ! (ते सख्ये) तेरे प्रेम भाव या मित्रभाव में रहते हुए हम (वाजिनः) बलशाली, ऐश्वर्यवान्, ज्ञानी होकर (मा भेम) भय न करें (जेतारं) सबसे उत्कृष्ट (अपराजितं) किसी से पराजित न होने वाले (त्वा) तुझ को (आभि प्र नोनुमः) साक्षात् प्रणाम करते हैं ।

(३) (इन्द्रस्य) उस ऐश्वर्य के दाता परमेश्वर के (पूर्वीः) सब से आदि काल से चले आये (रातयः) दिने दान और (ऊतयेः) रक्षाएं (न विदस्यन्ति) कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, (यदा) क्योंकि वह (स्तोवृथ्यः) सद्गुणों के प्रकाशक विद्वानों को (गोमतः) ज्ञान वेदवाणियों से युक्त (वाजस्य) बल या ज्ञान के (मधम्) ऐश्वर्य को भी (महते) प्रदान करता है ।

इति षष्ठः खण्डः ।

इति नृतीयोध्यायः । इति द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथमोऽङ्कः ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः

द्वितीयोर्धः ।

श्रुतिः—१ जमदग्निः । २ भृगुर्वाणिर्जमदग्निर्वा । ३ कविर्भागिवः । ४ कश्यपः । ५ मेधातिथिः काण्वः । ६, ७ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । ८ भरद्वाजो वाहेस्पत्यः । ९ सप्तर्षयः । १० पराशरः । ११ पुरुहन्मा । १२ मेध्यातिथिः काण्वः । १३ ऋषिष्ठः । १४ पितः । १५ ययातिर्नाहुषः । १६ पवित्रः । १७ सौभरिः काण्वः । १८ गोपूदयश्शूक्तिनौ काशवायनौ । १९ तिरश्चीः ॥ देवता—
३—४, ६, १०, १४—१६ पवमानः सोमः । ५, १७ अग्निः । ६ मित्रावरुणौ । ७ मरुत इन्द्रश्च । ८ इन्द्राग्नी । ११—१३, १८, १९ इन्द्रः ॥
छन्दः—१—८, १४ गायत्री । ६ बृहती सतोबृहती द्विपदा क्रमेण । १० त्रिष्टुप् । ११, १३ प्रगाथः । १२ बृहती । १५, १६ अनुष्टुप् । १६ जगती । १७ ककुप् सतोबृहती च क्रमेण । १८ उष्णिक् ॥ स्वरः—१—८, १५ यद्भुजः । ६, ११—१३ मध्यमः । १० धैवतः । १५, १६ गान्धारः । १६ निपादः । १७, १८ ऋषभः ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[८३०] एते असृग्रमिन्दवास्तिरः पवित्रमाश्रवः ।

१ २ ३ १ २ ३

विश्वान्यभिसौभगा ॥ १ ॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[८३१] विघ्नन्तो दुरिना पुरु सुगा तांकाय वाजिनः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २

त्मना कृशवन्तो अर्वतः ॥ २ ॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

[८३२] कृशवन्तो वरिवो गवैऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २

इडामस्मभ्यं संयतम् ॥ ३ ॥ १ ॥ अ० ६ । ६२ . . .

(१) जिस प्रकार (तिरः) तिरछे रूप से धामे हुय (पवित्रं) दशा पवित्र नामक दस खण्ड पर (एते) ये (आश्रवः) शीघ्र गति करनेवाले

सोम आपधि के रस (विश्वानि) समस्त (सौभगा) सौभाग्यों को (अभि) प्राप्त करने के लिये (असृग्रम्) छोड़े जाते हैं, प्रवाहित किये जाते हैं । उसी प्रकार (आशवः) व्यापनशील (इन्द्रवः) आह्लादकारक, आनन्द रस (एते) ये (तिरः) सत्स्वरूप, (पवित्रं) शुद्ध, मत्तादि दोषों से रहित चित्त में (विश्वानि सौभगानि अभि) समस्त ऐश्वर्यों के साक्षात् करने के लिये (असृग्रम्) प्रवाहित होते हैं ।

इस मन्त्र से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई ऐसा बहुतसे विद्वानों का मत है । तदनुसार सृष्टि प्रकरण में (आशवः) गतिशील (इन्द्रवः) प्रकाशमान पिएड (एते) ये सब (विश्वानि सौभगानि अभि) समस्त ऐश्वर्यों को साक्षात् प्रकट करने के लिये (तिरः पवित्रम्) सत्स्वरूप, परम ब्रह्मरूप मूलकारण से (असृग्रम्) उत्पन्न होते हैं ।

(२) (वाजिनः) ज्ञानवान् सोम शम दमआदि साधनों से सम्पन्न विद्वान् लोग (पुरु) बहुत से (दुरिता) दुष्ट कर्मों को (विघ्नन्तः) नाश करने हुए (मना) अपने सामर्थ्य से (अर्वतः) प्राणों की (कृण्वन्तः) साधना करते हुए (तोकाय) अपने सन्तान के लिये, अथवा अपने विविध दुखों के नाश करने के लिये या अगली जन्म-परम्परा के सुधार लिये (सुगा) सुखपूर्वक अनुगमन करने योग्य उत्तम मार्ग बनाते हैं ।

(३) और वे ही विद्वान् लोग (गवे) ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के लिये (सुस्तुतिम्) उत्तम स्तुति (कृण्वन्तः) करते हुए (अस्मभ्यं) हमारे लिये (वरिवः) धन और (इडाम्) उत्तम अन्न और (संयतं) उत्तम व्यवस्था (अभि अर्षन्ति) प्रकट करते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
[८३] राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि ।

३ १ २ ३ १ २
अन्तरिक्षं यातवे ॥ १ ॥

[८३४] आ नः सोम सहा जुवा रूपं न वर्चसे भर ।

सुष्वाणां देववीतये ॥ २ ॥

[८३५] आ न इन्द्रो शतविनं गवां पोषं स्वश्व्यम् ।

वहा भगत्तिमूनय ॥ ३ ॥ २ ॥ ऋ० ६ । ६५ । १६, १८, १७ ॥

भा०—(१) (राजा) प्रकाशमान रूप में (पत्रमानः) प्रकट होता हुआ, आत्मानन्द रस (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष से मेघ के समान अन्तःकरण से (यातवे) जाने के लिये (मनौ अधि) मननशील चित्त के भीतर (मेधाभिः) प्रज्ञाओं, कर्मों द्वारा (ईयते) व्याप्त होता है ।

(२) हे (सोम) आत्मन् ! तू (देववीतये) विद्वानों के इष्टसिद्धि के लिये (सुष्वाणाः) स्वतः उत्पन्न होतः हुआ (नः) हमें (वर्चसे) दीप्त कान्तिमान् तेजस्वी होने के लिये (सहः) सहनशीलता (जुवः) वेग और (रूपं) कान्ति (आ भर) प्राप्त करा ।

(३) हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवन् ! आप (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये हमें (शतविनं) सैकड़ों गौओं और (स्वश्व्यं) उत्तम २ घोड़ों से युक्त (पोषं) पुष्टिकारक पदार्थ और (भगत्तिम्) सेवन करने योग्य, उत्तम ऐश्वर्य (आ वह) प्राप्त कराइये ।

[८३६] तं त्वा नृष्णानि विभ्रतं सधस्थपु महां दिवः ।

चारुं सुकृत्यये महे ॥ १ ॥

[८३७] सवृक्तवृष्णमुकथ्यं महा माद्व्यतं मदम् ।

शतं पुरो रुरुक्षणिम् ॥ २ ॥

[८३८] अतस्त्वा रयिरभ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः ।

सुपर्णां अव्यथां भरत् ॥ ३ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[८३६] अत्रा हिन्वान इन्द्रियं ज्याया महित्वमानशे ।

३ १ २ ३

अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥ ४ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[८४०] विश्वस्मा इत्स्वर्दशे साधारणं रजस्तुरम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २

गापामृतस्य विर्भरत् ॥५॥३॥ ऋ० ६ । ४८ । १-५ ।

भा०— १) हे परमेश्वर ! (नृम्णानि) नाना धनों को (विश्रतं) धारण करते हुए (ते) उस (दिवः) दैतलोक या सूर्य के (सधस्थेषु) समान स्थान, अन्तराकाश में विद्यमान अनन्त लोकों में (चारं) व्यापक (महः) महान् (त्वा) तुझको हम (सुकृत्यथे) उत्तम पुण्य कर्म करके (ईमहे) प्राप्त होते हैं ।

(२) और पुनः (संवृकृष्ट्युं) आत्मा का धरण करने हारे काम क्रोधादि नाना शत्रुओं का मूल काट डालने वाले, (उक्थ्यं) वेदमन्त्रों से स्तुति करने योग्य, (महामहिमं) बड़े भारी पूजनीय कर्म करने वाले (शतं पुरः) सैकड़ों देहों के समान ब्रह्माण्डों के भोक्ता, या सैकड़ों देहधारियों को (रुक्षिणं) उच्च लोक-भोक्त में उठा लेने वाले आपको हम प्राप्त होते हैं ।

(३) (अतः) इसी कारण (त्वां राजानं) तुझ समस्त संसार के प्रकाशक स्वामी के पास हे (सुकृतो) उत्तम कर्म से सम्पन्न ! (दिवः) सूर्यलोक का भी (रयिः) समस्त बल और ऐश्वर्य (त्वा अभि अयत्) तुझको ही प्राप्त है । तू ही (सुपर्णः) उत्तम ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न होकर समस्त संसार को (अट्यथी) विना व्यथा या पीड़ा अनुभव किये ही (भरत्) पालन पोषण और धारण करता है ।

(४) (अथ) और (विचर्षणिः) सब संसार का द्रष्टा, निरीक्षक तू (अभिष्टिकृद्) सबको अभीष्ट कर्मफल देने वाला होकर (इन्द्रियं) इन्द्र अर्थात् जीवात्मा से युक्त देहों को प्रेरित करता हुआ (ज्यायः) बहुत

बड़े (महित्वं) महान् सामर्थ्य को (आनशे) धारण करता है । अथवा (इन्द्रियं ज्यायः महित्वम्-आनशे) परमैश्वर्यं युक्त, सबसे अधिक बड़े महान् सामर्थ्य को प्राप्त है ।

(५) (विः) देह से देहान्तर में गति करने द्वारा, पक्षि के समान यह जीव आत्मा (विश्वत्मा) सब प्रकार के (इ) ही (स्वः) सुखों या ज्ञानों का (दृशे) दर्शन करने के लिये (साधारणं) समस्त लोकों को समान रूप से धारण करने हारे, (रजस्तुर) समस्त लोकों को गति देने हारे (ऋतस्य) समस्त जगत् और ज्ञान की (गोपाम्) रक्षा करनेहारे परमात्मा को (भरत्) अपने चित्त में धारण करे ।

[८४१] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} इष पवस्व धारया सृज्यमानो मनीषिभिः ।

^{१ २ ३ १ २} इन्द्रो रुचाभि गा इहि ॥ १ ॥

[८४२] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} पुनानां चारवम्कृध्यूर्जं जनाय गिर्वणः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २} हरं सृजान आशिरम् ॥ २ ॥

[८४३] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} पुनानां देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कनम् ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} घृतानो वाजिभिर्दितः ॥३॥४॥ऋ० ६ । ६४ । १३-१५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [५०५] पृ० २५० ।

(२) हे (गिर्वणः) वाणियों के एरुमात्र पात्र ! प्रभो !

(आशिरं) इस शीर्ष होने वाले देह को (सृजानः) बनाता हुआ,

(पुनानः) स्वतः मलरहित, पवित्र, बन्धन रहित होकर भी (जनाय)

उत्पन्न होने हारे इस मनुष्य के लिये (वरिवः) ज्ञानरूप उत्तम धन, और

(ऊर्जं) अन्न आदि बल (कृधिः) उत्पन्न कर और प्रदान कर ।

(३) हे परमात्मन् ! (वाजिभिः) विद्वानों द्वारा (दितः) समाधि

में साक्षात्-किया हुआ और धारण किया गया (घृतानः) प्रकाशस्वरूप

(पुनानः) सब मलों को शोधता हुआ (देवर्वातये) दिव्यगुणों के प्राप्त कराने के लिये (इन्द्रस्य) आत्मा के (निष्कृतम्) आवासस्थान हृदय देश में (याहि) आ , विराजमान हो ।

इति प्रथमः खण्डः ।

—~~तृतीयः खण्डः~~—

[८४४] ^{३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} अग्निनाग्निः सामिध्यते कावर्गृहपतिर्युवा ।

^{३ २ ३ २ २} हव्यवाद् जुह्वास्यः ॥ १ ॥

[८४५] ^{१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} यस्त्वामग्ने हविष्पानिर्दूतं देव सपर्यति ।

^{१ २ ३ १ २} तस्य स्म प्राविता भव ॥ २ ॥

[८४६] ^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ १ २} या अग्निं देवर्वातये हविष्मान् आ विवासति ।

^{३ २ ३} तस्मै पावक मृडय ॥ ३ ॥ ५ ॥ ऋ० १ । १२ । ६, न. ६ ॥

भा०—(१) जिस प्रकार (अग्निना) अग्नि से (हव्यवाद्) चरु आदि हवि पदार्थों को जलवायु आदि पदार्थों तक पहुंचाने वाला (जुह्वास्यः) जुहू, नामक यज्ञ पात्र या ज्वालारूप मुख वाला (अग्निः) आहवर्नाथ अग्नि (समिध्यते) प्रज्वलित किया जाता है। अथवा जिस प्रकार एक अग्नि से दूसरा अग्नि जला लिया जाता है। उसी प्रकार (युवा) तरुण (कविः) विद्वान् मेधावी दूसरे विद्वान् से ज्ञान प्राप्त करता और (गृहपतिः) एक गृहस्थ भी दूसरे गृहस्थ से अपनी सत्ता को पाता है।

(२) हे अग्ने ! (यः) जो (हविष्पतिः) सब हव्य पदार्थों का स्वामी जीव (त्वां) तेरा (सपर्यति) भजन करता है, हे देव ! (तस्य) उसके आप (प्र प्राविता) रक्षा करने हारे (भव) होइये ।

(३) (यः) जो (हविष्मान्) उत्तम अर्द्धों और पदार्थों का स्वामी (देवर्वातये) विद्वानों या भौतिक दिव्य गुणों और पदार्थों को प्राप्त करने के

लिये (अग्नि) अग्नि के समान ज्ञानस्वरूप, सर्वप्रकाशक, परमात्मा के (आविवाप्ति) उपासना करता है । हे (पावक) सबको पवित्र करनेहार, परमेश्वर ! आप (तस्मै) उसको (मृडय) सुख शान्ति दें ।

३ २ २ ३ १ ७ ३ १ २ ३ १ २

[८४७] मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २

धियं घृताचीं साधन्ता ॥ १ ॥

३ १ २

[८४८] ऋतेन मित्रावरुणावृतावृथावृतस्पृशा ।

१ २ ३ १ २

ऋतुं बृहन्तमाशथे ॥ २ ॥

३ १ २ ३ १ २ २

३ १ २ ३ १ २

[८४९] कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया ।

१ २

३ १ २

दक्षं दधाते अपसम् ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० १ । २ । । ७-६ ॥

भा०—(१) मैं (पूतदक्षं) पवित्र, निष्पाप कर्म करने हारे, पवित्र बल वाले, मित्रं) सबके स्नेही और सबको मृत्यु के भय से बचानेहार, ब्रह्माण्ड में वर्तमान सूर्य के समान और देह में वर्तमान प्राण के समान (रिशादसं) शत्रुओं के समान कष्टदायी रोगों का विनाश करने वाले, (वरुणम्) बलिष्ठ प्राणवायु या भीतरी अपान वायु और उसके समान सब कष्टों के निवारक तेरा (हुवे) रहस्यपूर्ण अध्यात्म पदार्थों के ज्ञान के साथ २ ज्ञान करता हूँ ! (घृताचीं) जिस प्रकार सूर्य और वायु जल को ऊपर और सर्व देशों में लेजाते हैं उसी प्रकार वे दोनों प्राण और अपान भी शरीर की कान्ति को बढ़ाने वाले घृत या शुक्ररूप रस को सर्वत्र प्राप्त कराने हारी (धियं) क्रिया को (साधन्ता) साधने वाले होते हैं । उसी प्रकार हे परमेश्वर ! मृत्यु से त्राण करने वाला स्नेहमय और दुःखों का निवारक तेरा रुद्र और चरणीय दोनों रूप ही (घृताचीं धियं साधन्ता) आनन्दरस को प्राप्त कराने वाली बुद्धि को साधते हैं ।

(२) (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण दोनों (ऋतस्य) गति, ज्ञान और सत्य के बल पर (ऋतावृधौ) जल से बढ़ने हारे वायु सूर्य के समान, ऋतरूप ब्रह्म की शक्ति से बढ़ने वाले (ऋतस्पृशा) जल के द्रावरु सूर्य, वायु के समान (ऋत-वृधौ) ज्ञान का सर्वत्र प्रचार करने हारे (वृहन्तं) बड़े भारी (क्रतुं) संसार रूप यज्ञ को ब्रह्माण्डों और पिण्डों को (आशाथे) व्याप्त किये हुए हैं ।

(३) (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण (कवी) क्रान्तदर्शी सब प्रकार के व्यवहारों का दर्शन करने हारे, (तुविजाता) बहुत से कारणों से प्रसिद्ध, (उरुत्तथा) नाना जगत् के पदार्थों में व्यापक (दत्तं) बल और (अपसं) क्रिया को (दधाते) धारण करते हैं, स्थापन करते हैं ।

[८५०] इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अविभ्युपा ।

मन्दू समानवर्चसा ॥ १ ॥

[८५१] आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे ।

दधाना नाम यज्ञियम् ॥२॥

[८५२] वीडु चिदारुजत्नुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः ।

अविन्द उस्त्रिया अनु ॥ ३ ॥ ७ ॥ ऋ० १ । ६ । ७, ४, ५ ॥

(१) हे प्राण ! तू (अविभ्युपा) भयरहित (इन्द्रेण) इन्द्रस्वरूप आत्मा के साथ (संजग्मानः) गति करता हुआ (सं दृक्षसे हि) दिखाई देता है । इस कारण तुम दोनों प्राण और आत्मा (समानवर्चसा) समान कान्ति वाले होकर (मन्दू) आनन्द के उत्पादक होते हो । जीव और परमात्मा के पक्ष में, एवं सूर्य और वायु के पक्ष में भी स्पष्ट है ।

(२) मरुत्गण, इन्द्रियां या दर्शो प्राण (स्वधाम् अनु) अपने स्वरूप, या देह को स्वयं धारण करने में समर्थ जीवात्मा के साथ (आत्)

वाद में (पुनः) फिर (गर्भत्वम्) गर्भरूप से (एरिरे) प्रकट होते हैं और (यज्ञियं) जीवनरूप यज्ञ के योग्य (नाम) संज्ञा को (दधानाः) धारण करते हैं । आधिदैविक पक्ष में—स्वधा=जलके साथ वायुएं आकाश में गर्भित होकर यज्ञ के योग्य जलवर्षा कराते हैं ।

(३) जिस प्रकार सूर्य का तेज गुहा अर्थात् अन्तरिक्ष में किरणों द्वारा पदार्थों तक पहुंचता है और उनके भीतर प्रवेश करने वाली वायुओं से अन्तरिक्ष में जल को धारण करता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) आत्मन् ! (गुहा चित्) भीतरी गुहा, गर्भस्थान में भी (वीहु-चित्) अति दृढ स्थान को (आरुजन्तुभिः) पीड़ित करते हुए (वह्निभिः) वहन करने वाले प्राणों से प्रकट होकर (अनु) पश्चात् (उक्षियाः) अपनी किरणस्वरूप इन्द्रियों द्वारा (अनु अविन्दः) तू ज्ञेय पदार्थों को प्राप्त कर । अथवा हे (इन्द्र) आत्मन् ! तू गुहारूप हृदय देश में विराजमान होकर भी दृढ़ शरीर के भागों को फोड़ कर जीवन को वहन करने वाले इन प्राणों से अपने (उक्षियाः) ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त करता है ।

[८५३] ता हुवे ययोरिदं पन्न विश्वं पुराकृतम् ।

इन्द्राग्नी न मध्वतः ॥१॥

[८५४] उग्रा विघनिता मृध इन्द्राग्नी हवामहे ।

ता नो मृडात इदृश ॥२॥

[८५५] हथा वृत्राणयायां हथा दासानि सत्पती ।

हथा विश्वा अप द्विपः ॥३॥ अ० ६ । ६० । ५-६॥

भा०—(१) मैं उन (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि या परमात्मा आत्मा दोनों को (हुवे) स्तुति करता हूँ (ययोः) जिनके आधार पर

(इद्रं) यह (विधम्) विध (पत्रे) व्यवहार योग्य प्रसिद्ध होता है ।
और (ययोः) जिन्हों के आधार पर यह जगत् (पुराकृत्नम्) प्रथम काल में भी
बनाया गया था, जो इसको (न मर्धतः) विनाश नहीं होने देते ।

(२) उन (मृधः) हिंसक शत्रुओं को (विघनिता) विशेषरूप से
आघात करने हारे (उग्रा) वेग वाले (इन्द्राग्नी) पूर्व उक्त इन्द्र और
अग्नि दांनों को (हवामहे) स्वीकार करते, स्तुति करते हैं जिनके आधार
पर हम और (ता) वे दांनों (नः) हमें (इन्द्रंशे) इस प्रकार के जीवन
संग्राम में भी (मृढातः) सुखी करें ।

(३) (आर्या) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले वे दोनों (वृत्राणि)
मेंघों के समान आवरक विघ्नों को (हथः) आघात करते, या नाश करते हैं ।
(सत्पती) और वे दोनों सज्जनों के पालक (दासानि) नाशकारी पदार्थों
को (हथः) विनाश करते हैं और (विश्वा) समस्त (द्विपः) शत्रुओं को
(अप हथः) दूर मार भगाते हैं ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

३ १ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[८५६] अभि सोमास आगवः पवन्त मद्यं मदम् ।

३ १ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
समुद्रस्याधावष्टप मनीषिणा मत्सरासा मन्त्रयुतः ॥१॥

१ २ ३ १ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २
[८५७] तरत्समुद्र पवमान ऊर्षिणा राजा देव ऋतं बृहत् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत् ॥२॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ २
[८५८] नृभिर्वेमाणा हर्यना त्रिचक्षणा राजा देवः समुद्रथः ॥५॥

॥६॥ अ० ६ । १०७ । १४-१३॥

८५६—१. 'मत्सरासः स्वविदः' इति अ० ।

२. 'अर्षन् मित्रस्य,' 'प्रहिन्वान' इति अ० ।

३. 'देवः समुद्रियः' इति अ० ।

भा०—(१) व्याख्या देखो अत्रिकुल सं० [५१८] पृ० २५६ ।

(२) (पञ्चमानः) समस्त मलों को शोधन करने द्वारा (राजा) सूर्य के समान योगी (देवः) विद्वान् (ऊर्भिणा) अपनी उच्चगति द्वारा (बृहत्) बड़े (ऋतम्) सत्यज्ञान स्वरूप परिपक्व (समुद्र) समस्त रसों के आश्रय ब्रह्म को (तरत्) प्राप्त हो जाता है । और (मित्रस्य) सबके स्नेहशील प्राणस्वरूप (वरुणस्य) सब पापों के निवारक परमात्मा को (धर्मणा) यम नियम पूर्वक प्राप्त धारक बल से, या सदाचार से (द्वि-
न्वानः) सन्मार्ग में गति करता हुआ स्वयं (बृहत्) बड़े (ऋतं) सत्य ज्ञानस्वरूप अनन्त ब्रह्म को (प्र अर्प) प्राप्त होता है ।

(३) (नृभिः) विद्वान् नेताओं, या प्राणों के द्वारा (यमाणाः) सुव्यवस्थित (राजा देवः) प्रकाशस्वरूप योगी आत्मा इत्यतः, सबके प्रेमका पात्र (विच-
क्षणः) और सत्य का साक्षी रूप होकर (समुद्र्यः) महान् रससागर में आनन्द प्राप्त करने वाला होकर उसी में मग्न हो जाता है ।

[८५६] तिज्जा वाच ईर्यनि प्र वह्निर्ऋतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम् ।

गाथो यान्त गोपति पृच्छमानाः सोम यन्ति मतया वाव-

शानाः ॥२॥

[८६०] सोम गाथो धेनवा वावशानाः सोम विप्रा मतिभिः पृच्छु-

मानाः । सोमः सुत क्रूयते पूयमानः सोम अक्राधिष्टुमः

सन्नवन्ते ॥२॥

[८६१] पत्रा नः सोम परिपिच्यमान आपवम्ब पूयमानः भ्वन्ति ।

इन्द्रमविश बृहता मदन वज्रया घान्न जनया पुरन्धिम्

॥३॥१०॥ अ० ६ । ६७ । ३४-३६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५२५] पृ० २६० ।

(२) (धेनवः) दुग्धपान कराने हारी (गावः) गौश्रीं के समान ज्ञानरस का पान कराने वाली, ज्ञानवाणियां (सोमं) सोमस्वरूप आत्मा या परमात्मा के प्रति (वावशानाः) कामना प्रकट करती हैं । उसी को चाहती अथवा उसी की स्तुति करती हैं । और (विप्राः) मेधावी पुरुष (मतिभिः) अपने मननों द्वारा (सोमम्) उसी रसस्वरूप आत्मा की (पृच्छमानाः) जिज्ञासा करते हैं । वही (सोमः) रसरूप आत्मा (पूयमानः) विशुद्ध स्वरूप (सुतः) अन्तर्हृदय में प्रकट होकर (ऋच्यते, स्तुति किया जाता है । और (अर्काः) सूर्य के समान तेजस्वी, वेद के विद्वान् ज्ञानी पुरुष (सोमे) उसी परमात्मा के विषय में (त्रिष्टुभः) तर्कों प्रकार से मनसा, वाचा, कर्मणा, उसकी स्तुति करने हारे होकर उसकी (सं नवन्ते) अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं ।

(३) हे (सोम) रसस्वरूप ! (परिसिच्यमानः) बार २ निदिध्यासन द्वारा साक्षात् किया गया, (पूयमानः) विशुद्धरूप (स्वास्ति) कल्याणकारी होकर (नः आपवस्व) हमारे प्रति प्रकट हो । और (बृहता) बड़े भारी (मदेन) आनन्दरस से (इन्द्रम्) आत्मा को (आविश) प्राप्त कर और (वाचं) वाक्शक्ति को (वर्धय) बढ़ा । और (पुरन्धिम्) देह रूप पुर को धारण करने हारी चित्तिशक्ति या बुद्धि को (जनय) प्रकट कर ।

१ २२ ३ २२ ३ १ २२ ३ २
[८६२] यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीस्त स्युः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
न त्वा वज्रिन्तमहस्रं सूया अनु न जातमष्ट रादक्षी ॥१॥

[८६३] आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वो शविष्ठ शवसा ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
अस्मां अथ मघवन् गांमति व्रजे वज्रिश्चित्राभिरूतांभः

॥ २ ॥ ११ ॥

क० ८ । ७० । ५-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [२७८] पृ० १४२ ।

(२) हे (वृषन् !) सुखों की वर्षा करने हारे परमात्मन् ! हे (श-
विष्ठ !) सर्वशक्तिमन् ! आप (महिजा) बड़े भारी (शवसा) बल, शक्ति,
सामर्थ्य से (विश्वा) समस्त (वृषण्या) सुखवर्षक और जलवर्षक सबके
पोषक मेघ, पृथिवी आदि पदार्थों को (आ पप्रथ) पूर्ण कर रहे हो, सब
में व्याप्त हो । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! हे (वज्रिन्) पापनाशक ज्ञान
के स्वामी ! (गोमति) इन्द्रियों से सम्पन्न इस (व्रजे) गतिशील नश्वर
देह में (चित्राभिः) नाना आदरणीय (ऊतिभिः) रक्षाओं या ज्ञानधाराओं
से आत्मा की (अत्र) पालन कर, पुष्ट कर ।

३ २ २ ३ १ ० ३ २ ३ २ ३ १ २

[८६४] वयं घ त्वा सुतावन्तः आपो न वृक्षवर्हिषः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

पत्रित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन् परिस्तोतार आसंत ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[८६५] स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

कदा सुतं तृपाण आक आगम इन्द्र स्वव्दीव वंसगः ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

[८६६] कण्वभिर्धृष्यात्रा धृपद्राजं दर्पि सहस्त्रिणम् ।

३ १ २ ३ १ २ २ २

पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥ १३ ॥

अ० ८ । ३३ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [२६१] पृ० १३३ ।

(२) हे (वसो) सब को वास देने हारे परमात्मन् ! (सुते) इस उत्पन्न
जगत् में (एक) बहुत से (उक्थिनः) ज्ञानी, स्तोता लोग (त्वा) तुम्हें को ही
(निःस्वरन्ति) पुकारते हैं तेरी ही स्तुति गाते हैं । (तृपाणः) प्यासा पुरुष
जिस प्रकार (आकः) जल के स्थान के प्रति आता है उसी प्रकार हे (इन्द्र)
परमेश्वर! आप (स्वव्दी इव) उत्तम मेघवान् त्रायु के समान (वंसगः) शुभा

गमन युक्त होकर इस (सुते) अपने उत्पन्न किये पुत्ररूप संसार के प्रति (कदा) कब (आगमः) आएंगे, कब कृादृष्टि और आनन्दवृष्टि करेंगे ?

अथवा भक्त अपने आत्मा के प्रति कहता है—हे (वसो) आत्मन् ! बहुत से ज्ञानी अपने ज्ञानमय हृदय में तुझे ही स्वरसे गाते हैं । जिस प्रकार प्यासा जल के प्रति जाता है उसी प्रकार तू भी उत्कण्ठित होकर, उत्तम मेघ-वान् वायु के समान मनोहर गति वाला होकर कब हृदय-देश में प्रकट होगा और धर्म मेघ रूप में सुख की वर्षा करेगा ?

(३) हे (मघवन् !) सम्पूर्ण धनों और यज्ञों के स्वामिन् ! हे (वि चर्षणे !) समस्त संसार के द्रष्टः ! हे (धृष्यो) सहनशील ! समस्त संसार के भार को वहन करने हारे ! सब कष्टों और दुष्टों को दूर करन हारे ! आप (करवेभिः) भेधावी पुरुषों के निमित्त (सहस्रिणम्) सहस्रों ऐश्वर्यों से युक्त (धृपद) वाधक विरोधियों को पराजित करने वाले (वाजं) बल को (आदर्पि) देते हैं । उस ही (विशङ्करूपं) अत्यन्त मनोहर, पीतवर्ण के, सुवर्ण आदि और (गोमन्तम्) गौ आदि पशुओं से युक्त (वाजं) धन की (मत्सू) निरन्तर हम (ईमहे) याचना करते हैं ।

उ २ उ १ २ उ २ उ १ २ उ २

[८६७] तरणिरित्सपति वाजं पुरन्धया युजा ।

२ उ १ २ उ १ २ उ २ उ १ २ २ ३ १ २

आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमि नष्टं सुदुवम् ॥१॥

१ २ उ १ उ उ १ २ उ १ २ २ ३ १ २

[८६८] न दुष्टुतिर्द्रविणादपु शस्येत न खेधन्तं रायर्नशत् ।

उ २ उ १ २ उ २ उ १ २ १ १ २ २ ३ २

सुशक्तिरिन्मघवन् तुभ्यं मावते देष्यं यत्पार्थे दिवि ॥२॥

॥१३॥

श्र० ७ । ३२ । २०-२१ ॥

(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२३८] पृ० १२१ ।

(२) (द्रविणोद्देशु) द्रविण-धन और ज्ञान के दान करने हारे उदार पुरुषों के विषय में (दुः-स्तुतिः) बुरी निन्दा (न शस्यते) नहीं कही जाय और (स्नेधन्तं) दूसरों की हिंसा करने हारे पापी पुरुष को (रयिः) धन प्रजा और पुष्टि (न नशत्) प्राप्त हो । (यत्) जो (पायें) पालन करने हारे (दिवि) आकाश या सूर्य में (मावते) मेरे जैसे पुरुष के लिये (देष्यं) दान करने योग्य तेज जल वृष्टि आदि पदार्थ हैं । हे मधवन् ! (तुभ्यं इत्) तेरी ही वह (सुशक्तिः) उत्तम शक्ति है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

[८६६] निस्त्रो वाच उक्षीरत गावो भिमन्ति धेनवः ।

हरिरति कनिक्रदत् ॥ १ ॥

[८७०] अभि ब्रह्मीरनूपन यद्दीर्घतस्य मातरः ।

मर्जयन्तीदिवः शिशुम् ॥ २ ॥

[८७१] रायः ससुद्राश्चतुराऽऽमभ्यं सोम दिश्वतः ।

आपवस्व सहस्रिणः ॥ ३ ॥ १४ ॥ ऋ० ९ । ३३ । ४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७१] पृ० २३७ ।

(२) (ब्रह्मीः) ब्रह्म-वेद की वाणियों (ऋतस्य मातरः) सत्य का ज्ञान कराने हारी (दिवः) आकाश में सूर्य के समान, परम तेज और दिव्यगुणों में ज्ञान के स्वरूप में (शिशुं) शयन करने वाले, व्यापक परमात्मा को (अभि-अनूपत) साक्षात् रूप से स्तुति करती हैं ।

(३) हे (सोम) सबके उत्पादक ! परमेश्वर ! (अमभ्यं) हमारे लिये (सहस्रिणः) सहस्रों पदार्थों से सम्पन्न (रायः) धनों से पूर्ण

(चतुरः) चारों (समुदान्) समुदों, या उन्नति के साधन रूप या नाना ऐश्वर्यों और सुखों के उत्पादक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को (आ पवस्व) प्राप्त करा ।

उ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[८७२] सुनासां मधुमत्तमाः सोमो इन्द्राय मन्दिनः ।

उ १ २ ३ १ २ ३ १ २

पत्रिचवन्तो अक्षरन् देवान् गच्छन्तु वो मदाः ॥ १ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[८७३] इन्द्रुरिन्द्राय पवत इति देवासो अग्रवन् ।

उ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

वाचस्पतिर्भखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥ २ ॥

उ १ २ ३ १ २ ३ २

[८७४] सहस्रवारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

सोमस्पती रयीणां सखन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ३ ॥ १५ ॥

ऋ० ६।१०४।४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१४७] पृ० २६४।

(२) (इन्दुः) सोम्य गुणवाला आनन्दस्वरूप, सोममय ईश्वर (इन्द्राय) इस आत्मा के हित के लिये (पवते) प्रकट होता है । (इति) इस प्रकार (देवासः) चिद्वान् लोग (अग्रवन्) कहते हैं । और वही सोम (ओजसः) विशेष बल और प्रभाव के कारण (विश्वस्य) समस्त संसार का (ईशानः) प्रभु और (वाचस्पतिः) वेदवाणियों का स्वामी होकर (भखस्यते) यज्ञों द्वारा पूजा करने योग्य है ।

(३) (सहस्रवारः) सहस्रों धारण शक्तियों से सम्पन्न, (समुद्रः) समस्त रसों का भण्डार, या समुद्र के समान महान्, (वाचम् ईङ्खयः) समस्त विश्व की वेदमय वाणियों को प्रकट करने हारा, (रयीणां) समस्त जड़ और चेतन पदार्थों और ऐश्वर्यों का (पतिः) स्वामी और (इन्द्रस्य)

इस आत्मा का (सखा) परम मित्र (सोमः) सबका प्रेरक और उत्पादक परमात्मा (दिवेदिवे) प्रतिदिन (पवते) प्रकट हो ।

[८७५] ^{३ १ २ ३ ५ २} पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः ।
^{१ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २} अतस्तनूने तदामां अश्रुते शृतास इद्रहन्तः सं तदाशत ॥१॥

[८७६] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३ १ ३ २ ३ २ ३ २} तपोऽपि पवित्रं विततं दिवस्पदेऽर्चन्तो अस्य तन्तवो व्य-
^{२ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २} स्थिरन् । अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पृष्ठमधिरो-
^{३ ५ २} हन्ति तेजसा ॥ २ ॥

[८७७] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} अरूच्यदुपसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः ।
^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} मायाविनामिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः
 ॥ ३ ॥ १६ ॥ अ० ६ । ८३ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [५६५] पृ० २६५।

(२) (तपोः) समस्त संसार को तपाने हारे, सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर का (पवित्रं) पवित्र करने हारा, परम पावन स्वरूप, (दिवः) समस्त दिव्य, तेजोमय पदार्थों में (विततं) व्याप्त है । (अस्य) इस परमेश्वर के (अर्चन्तः) गुणों को प्रकट करते हुए (तन्तवः) नाना तन्तु, यज्ञमय सूत्र (व्यस्थिरन्) नाना प्रकारों से विद्यमान हैं । (अस्य) इसके (आशवः) व्यापक और अति वेगवान् सामर्थ्य या शक्तियां (पवितारं) सबके शोधक सूर्य और वायु को (अवन्ति) नष्ट होने से बचाते हैं । और (तेजसा) तेज के रूप में (दिवः) आकाश के (पृष्ठं) सबसे उन्नत भाग में भी (अधिरोहन्ति) पहुंचे हुए हैं ।

(३) व्याख्या देखो अचिकल सं० [५६६] पृ० ३०० ।

[८७८] प्र मंहिष्ठाय गायत क्रान्ने वृहतेः शुक्रशोचिपे ।

उपस्तुतासां अग्रये ॥ १ ॥

[८७९] आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो घुम्याहुतः ।

कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छ वाजभिरागमत् ॥२॥१७॥

ऋ० ८ । १७३ । ८, ९ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१०७] पृ०१७ ।

(२) (मघवा) ऐश्वर्यवान् (समिद्धः) प्रकाशमान, (घुम्यो) यशस्वी, कान्तियुक्त, (आहुतः) विद्वानों से पुकारा गया परमात्मा (वीरवद्) सामर्थ्य से पूर्ण पुत्रा मृत्यु मित्र आदि से युक्त (यशः) अन्न और तेज (आ वंसते) प्रदान करता है । (अस्य भवीयसी) सबसे अधिक शक्तिशाली (सुमतिः) उत्तम मनन या संकल्प शक्ति (नः) हमें (वाजेभिः) नाना बलों ऐश्वर्यों और ज्ञानों सहित (कुवित्) बहुधा (आगमत्) आवे, प्राप्त हो ।

[८८०] ते मदे गृणीमसि वृषणं पृच्छु साहामिम् ।

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्चियम् ॥ १ ॥

[८८१] येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ ।

मन्दानो अस्य वदिपो विराजसि ॥ २ ॥

[८८२] तद्द्या चिन्त उक्थिनोऽनुष्टुवन्ति पूर्वथा ।

वृषपत्नीरपो जया निवेदिवे ॥३॥ १८ ॥ ऋ० ८ । १८-१९

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [३८३] पृ० १९८ ।

(२) (येन) जिस सामर्थ्य से हे (इन्द्र) परमेश्वर ! आप (आयवे) जीवन के साधक, प्राणायाम के अभ्यासी और (मनवे) मननशील पुरुष

के प्रति अपनी (ज्योतीषि) ज्ञानदीप्सियों को (विवेदिथ) प्राप्त कराते हो, प्रकाशित करते हो, उस ही सामर्थ्य से (मन्दानः) आनन्दपूर्ण होकर (अस्य इस (बर्हिषः) महान् ब्रह्माण्डरूप यज्ञ के आश्रय बन कर (विराजसि) विराजते हो ।

(३) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (उक्थिनः) ज्ञानी लोग (अद्य चित्) आज तक भी (पूर्वथा) पहले के समान ही (ते) तेरी (अनुष्टुबन्ति) निरन्तर स्तुति करते हैं । तू (वृषपत्नीः) भीतरी आनन्दरस वर्षण करने हारे इन्द्र के सामर्थ्यों का पालन करने हारी (अपः) शक्तियों और बुद्धियों को (दिवेदिने) प्रतिदिन नित्य (जय) विजय कर उन पर वश कर ।

[८८३] ^{३ १ २२ ३२४} श्रुथी हवं ^{३ १ २ ३१२} निरश्च्या इन्द्र यस्त्वा मपर्यति ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} सुवीर्यस्य गांसतो रायस्पूद्धिं महौ असि ॥ १ ॥

[८८४] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} यस्त इन्द्र नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत् ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} चिकित्वन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम् ॥ २ ॥

[८८५] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} तमु पृचाम यं गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वावृधुः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} पुरूरायस्य पौंस्या सिपासन्तां वनामहे ॥३॥१६॥

अ० ८ । ६५ । ४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४६] पृ० १७६ ।

(२) हे इन्द्र ! (यः) जो (ते) तेरे लिये (नवीयसीम्) अति सुन्दर, अति स्तुति करने हारी (मन्द्रां) गम्भीर (गिरं) चाणी को (अजीजनत्) प्रकट करता है उस ज्ञानी, मननशील पुरुष को तू (ऋतस्य) सत्यज्ञान के (पिप्युषीम्) पुष्ट करनेहारी (प्रत्नां) अति प्राचीन (चिकित्वन्मनसं) ज्ञानशील मन से संयुक्त (धियं) बुद्धि या धारणा शक्ति को प्रदान करता है ।

(३) (तं) उस (इन्द्रं) ऐश्वर्यशील परमात्मा को (उ) ही हम नित्य (स्तवाम) स्तुति करें (यं) जिसकी (उक्तानि) वेदमन्त्र (वावृष्टुः) सदा महिमा बढ़ाते हैं । हम अल्पशक्ति जीव (अस्य) उस परमात्मा के (पुरुषि) नाना प्रकार के (पौंस्या) बल से किये जाने वाले विश्वसर्जन, धारण और प्रलय आदि पौरुष कर्मों को, या बलयुक्त नाना ऐश्वर्यों को (सिपासन्तः) नाना प्रकार से उपयोग और सेवन करते हुए (वनासहे) उसकी स्तुति या भजन करते हैं ।

इति षष्ठः खण्डः ।

इति चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।

इति द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ।

अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

अथ तृतीयः प्रपाठकः (प्रथमोर्ध्वः) ।

ऋषिः—१ आकृष्टामाषाः । २ अमहीयुः । ३ मेध्यातिथिः । ४, १२ बृह-
न्मतिः । ५ भृगुर्वाणिर्जमदग्निः । ६ सुतंभर आग्नेयः । ७ गृत्समदः । ८, २१
गोतमो राहूगणः । ९, १३ वसिष्ठः । १० बृहच्च्युत आगस्त्यः । ११ सप्तर्षयः ।
१४ रेभः काश्यपः । १५ पुरुहन्मा । १६ असितः काश्यपो देवलो वा । १७
शक्तिरुश्च क्रमेण । १८ अग्निः । १९ प्रतर्दनो देवोदासिः । २० प्रयोगो भार्गव
अग्निर्वा पावको वार्हस्पत्यः, अथर्वाग्नी गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ तयोर्वान्यतरः ॥
देवता—१—५, १०—१२, १६—१९ पवमानः सोमः । ६, २० अग्निः ।
७ मित्रावरुणौ । ८, १३—१५, २१ इन्द्रः । ९ इन्द्राग्नी ॥ छन्दः—१, ६
जगती । ३—५, ७—१०, १२, १६, २० गायत्री । ११ बृहती सप्तोबृहती च
क्रमेण । १३ विराट् । १४ अतिजगती । १५ प्रागाथं । १७ ककुप् च सप्तोबृहती

च क्रमेण । १८ उष्णिक् । १६ त्रिष्टुप् । २१ अनुष्टुप् ॥ स्वरः—१, ६, १४
निपादः । २—५, ७—१०, १२, १६, २० षड्जः । ११, १३, १५, १७
मध्यमः । १८ ऋषभः । १६ धैवतः । २१ गान्धारः ॥

[८८६] प्र त आश्विनीः पवमान धेनवा दिव्या असृग्रन् पयसा
धरीमणि । प्रान्तरिक्षात् स्थाविरीस्ते असृक्षन् ये त्वा
मृजन्त्यपिपाण वेधसः ॥ १ ॥

[८८७] उभयतः पवमानस्य रश्मयो ध्रुवस्य सतः परियन्ति
केतवः । यदी पथिन्न अधिमृज्यते हरिः सत्ता नि यानो
कलशेषु सीदति ॥ २ ॥

[८८७] विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभाष्ट सतःपरियन्ति
केतवः । व्यानशी पवस सोम धर्मणा पतिधिश्वस्य भुव-
नस्य राजसे ॥३॥१॥ ऋ० ९ । ६६ । ४, ६, ५, ॥

भा०—(१) हे (पवमान) परमपावन, व्यापक परमात्मन् ! (ते) तेरी
(आश्विनीः) सर्वत्र व्यापक, (दिव्याः) दिव्यगुणयुक्त, (स्थाविरीः) निरन्तर
स्थिर रहने वाली, (धेनवः) सबको आनन्दरस का पान कराकर तृप्त
करने वाली शक्तियां (पयसा) ज्ञान और बल और आनन्दरस एवं जल
के द्वारा (धरीमणि) धारण करने वाले आत्मा या अन्तरिक्ष में (प्र
असृग्रन्) उत्तमरूप से प्रकट होती हैं । हे (अधिपाण) ऋषियों, मन्त्रदत्ता
ज्ञानी पुरुषों द्वारा भजन करने योग्य आत्मन् परमात्मन् ! (ये) जो
(वेधसः) विद्वान् पुरुष (त्वा मृजन्ति) तेरे शुद्ध रूप को साक्षात्

(१) 'पवमान धीजूषो', 'प्रान्तकपयः स्थावरीरसृक्षत' इति ऋ० ।

३. 'व्यानशिः' 'धर्मभिः' इति ऋ० ।

करते हैं (ते) वे (स्याधिरीः) स्थिर कूटस्थ धारारूप धारणाओं को (अन्तरिक्षात्) अपने अन्तःकरण रूप भीतरी साक्षात् करने वाले साधन मन या अन्तःकरण से (प्र असृत्त) तेरा ज्ञान सम्पादन करते, तेरी साधना करते हैं, निदिध्यासन करते हैं । आत्मपत्र में—ऋषि= इन्द्रियगण ।

(२) (पवमानस्य) समस्त संसार में व्यापक, सब को गति देने हारे, परमेश्वर के (केतवः) ज्ञान कराने वाले (रश्मयः) किरण (भुवस्य सतः) सत्स्वरूप उस कूटस्थ ब्रह्म के (उभयतः) जड़ और जंगम दोनों प्रकार के संसार के प्रति (परियन्ति) व्याप्त हो रहे हैं । (यद्द्ं) जब भी (हरिः) समस्त संसार को गति देने और समस्त दुखों को हरने हारा ईश्वर (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण में (अधिमृज्यते) विविक द्वारा साक्षात् किया जाता है तब (सत्ता) हृदयों में सत्यस्वरूप होकर विराजमान वह (कलशेषु) सब शरीरों में भी विद्यमान (यानौ) उनके मूल आश्रय, अन्तरात्मा में घुसकर (सीदति) विराजमान है ।

(३) हे (विश्वचक्षः) समस्त संसार को देखने वाले परमात्मन् ! (सोम) सबके उत्पादक ! (सतः) सत्यस्वरूप, महान् (प्रभोः) सर्व शक्तिमान्, (ते) आपके (केतवः) सूर्य के किरणों के समान महिमा को जतलाने वाले चिह्न और ज्ञापक शक्तियां (विश्वा) समस्त (धामानि) लोकों में (परि यन्ति) फैली हुई हैं । और आप (व्यानशी) सर्वव्यापक (विश्वस्य भुवनस्य पतिः) समस्त संसार के स्वामी, (धर्मणा) अपने धारण करने हारे बल से (विराजसि) सबसे ऊपर विराजमान हैं ।

१२२ ३ २ ३ १२ २२ ३ २
[८८६] पवमानो अजीजनद्विवश्चित्रं न तन्यतुम् ।

१२ ३ २ ३ २
ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत् ॥१॥

[८६०] ^{१ २ ३ २ ३ २ ३ १ ३} पवमान रसस्तत्र मदी राजन्नदुच्छुनः । ^{३ २}

^{२ ४ २} वि वारमव्यमर्षनि ॥२॥

[८६१] ^{१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २} पवमानस्य ते रसो दक्षो विराजति शुमान् ।

^{२ ३ २ ३ २ ३ २}

ज्यातित्रयं स्वदृश ॥३॥२॥ ऋ६ ६ । ६१ । १६ ।-१८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४८४] पृ० २४२ ।

(२) हे [पवमान] सर्व व्यापक ! परमपावन परमेश्वर ! (तव) तेरा (रसः) रस, आनन्दमय (मदः) हर्ष कारक (अदुच्छुनः) दुष्ट कुत्ते के समान भोग लृष्णावाली इन्द्रियों के स्पर्श से दूर, अथवा पागल कुत्ते के समान दुःखदायी काम, क्रोधआदि भीतरी शत्रुओं से रहित होकर (अव्यं) आत्मा के (वारं) वरण करने योग्य स्वरूप को (वि अर्पति) व्याप लेता है ।

(३) (पवमानस्य) अन्तःकरण को पवित्र करने हारे, या प्रकाशित करने हारे (ते) तेरा (रसः) आनन्दरस (दक्षः) ज्ञान और बल रूप (शुमान्) कान्तिमय होकर (विराजते) विशेष रूप से चमकता है । और वह (ज्यातिः) ज्यातिः स्वरूप (विश्वम्) समस्त (स्वः) सुखों को (दृशे) प्रकाशित कर दर्शाने हारा है ।

[८६२] ^{२ ४ ३ १ २ १ ३ २ ३ २ ३ १ २} प्र यद् गावो न भूण्यस्त्वेषा अयासा अक्रतुः ।

^{१ २ ३ २ ३ ३ १ २} अन्तः कृष्णामप त्वचम् ॥१॥

[८६३] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २} सुवितस्य वनामदति सतु दुराख्यम् ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २} साह्याम दस्युमव्रतम् ॥२॥

[८६४] ^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} शृण्व वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ २} चरन्ति विद्युतो दिवि ॥३॥

[८६५] आ पवस्य महीमिपं गोमदिन्दो हिरण्यवत् ।

अश्ववत्सोम वीरवत् ॥४॥

[८६६] पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण ।

उपाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ ५ ॥

[८६७] परि नः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः ।

सरा रसव विष्टपम् ॥६॥३॥ अ० ९ । ४१ । ९-६॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [४६१] पृ० २४५ ।

(२) (सुवितस्य) सब संसार को उत्तम रूप से शासन करने हारे, सबके प्रेरक परमात्मा की (मनामहे) हम शरण में जाते और ध्यान करते हैं जिससे (सेतुम् अति) मर्यादा और सामाजिक बन्धन व्यवस्था को तोड़ने हारे, (दुरायम्) कष्टसाध्य, बेकायू, दुर्दान्त (अन्नतम्) कर्तव्य-कर्मों से गिर हुए निकम्मे (दस्युम्) प्रजा के विनाशक, डाकू आदि अपराधी, या आत्मा के नाशक काम क्रोध आदि को (सासह्याम) हम विजय करें ।

(३) जैसे (दिवि) आकाश में (विद्युतः) विजुलियां (चरन्ति) गति करती हैं उसी प्रकार जब आत्मा की, या ब्रह्मानन्दरस की (विद्युतः) विशेष कान्तियां, दीप्तियां, (दिवि) समस्त संसार में या मूर्धारूप ब्रह्माण्ड में (चरन्ति) वेग से गति करती हैं तब (शुष्मिणः) अति बलवान् (पवमानस्य) अन्तःकरण को पवित्र करने हारे और आनन्द का वर्षण करने हारे ब्रह्म का (स्वनः) घोष (वृष्टेः) मेघ के समान (शृणवे) सुनता हूँ । धर्ममेघ समाधि के अवसर में अनाहत आत्मरूप पर्जन्य ध्वनि का यह वर्षण है ।

८६५—'मनामहे' 'दुरायं' 'साहासो' 'अश्ववद् वाजवत्सुतः' इति अ० ।


८६६—'स पवस्व विचर्षणे' इति अ० ।

(४) हे (सोम !) परमात्मन् ! (इन्द्रो) ऐश्वर्य के स्वामिन् ! आप ; हमें (गोमत्) गौश्रों, चाणियों और इन्द्रियों से सम्पन्न (अश्वत्) घोड़ों और प्राणों और वेगवान् साधनों से युक्त, (वीरवत्) पुत्रादि वीर पुरुषों से युक्त, (इयं) अन्न, प्रबल इच्छा शक्ति और शासन आदि ऐश्वर्य को और (महीम्) बड़ी प्रसिद्धि को (आ पवस्व) प्राप्त कराओ ।

(५) हे (विश्वचर्पणे) समस्त संसार को देखने हारे परमात्मन् ! (रश्मिभिः) किरणों से (सूर्यः न) जिस प्रकार सूर्य (उपाः) उपा के समयों में (मही रोदसी) बड़े भारी आकाश और पृथिवी दोनों को पूर्ण करता है उसी प्रकार आप भी उनको पूर्ण करते और पालन करते हो । आप हमारे प्रति (पवस्व) अपनी कृपा दर्शाइये ।

(६) हे सोम ! (रसा इव) जिस प्रकार जल से पूर्ण नदी (विष्ट-पम्) मैदान में बहती है, उसी प्रकार आप भी (शर्मयन्त्या) सुख देने हारी (धारया) अपनी धारण समर्थ शक्ति या आनन्दरस की धारा से (विश्वतः) सब ओर से (नः) हमारे प्रति (परि सर) प्राप्त होइये ।

इति प्रथमः खण्डः ।



[८६८] ^{३ १ २} आशुरर्षं ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २} बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना ।

^{१ २ ३ २ ३ ३ १ २} यत्र देवा इति ब्रवन् ॥१॥

[८६९] ^{३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ ३} परिष्कारवज्रानिष्कृतं जनाय यातयन्निषः ।

^{३ २ ३ १ २ २} वृष्टिं दिवः परिस्त्रव ॥२॥

[९००] ^{३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २} अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ ।

^{१ २ ३ १ २ २} सिन्धोरूमा व्यक्षरत् ॥३॥

[९०१] ^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २} सुत पति पवित्र आ त्विषि दधान आजसा ।

^{३ १ २ ३ १ २} विचक्षणा विराचयन् ॥४॥

[६०२] आ^१वि^२वा^३स^४त् परा^५वना^६ अथो^७ अर्वा^८वतः सुतः ।

इन्द्राय^१ मिच्यते^२ मधु^३ ॥५॥

[६०३] समीचीना^३ अन्पत^१ हरि^२ हिन्वन्त्यद्रिभिः ।

इन्द्रामिन्द्राय^२ पीतये^३ ॥६॥ ॥७॥ ऋ० ६ । ३६ । १-६ ॥

भा०—(१) हे (वृहन्मते) महान् ज्ञानसम्पन्न परमात्मन् ! आप (आशुः) सर्वत्र व्यापक होकर (प्रियेण) अतिमनोहर, श्रेष्ठ, (धाम्ना) धारणशील तेज मे (परि अर्ध) व्याप्त हो रहे हैं । (यत्र देवाः) जहाँ २ विद्वान्गण, या दिव्यगुण से युक्त पृथ्वी, जल, वायु आदि पदार्थ हैं वहाँ ही आप भी व्यापक हैं, वे आप से भिन्न बल नहीं रखते । (इति) इस प्रकार आप (ब्रुवन्) उपदेश करते हैं ।

(२) हे (सोम) परमात्मन् ! (प्र निष्कृतम्) संस्कार या परिष्कार रहित स्थान, गर्भाशय, या भूमि को (जनाय) जन्तुओं के उत्पत्ति के लिये (परिष्कृतवन्) संस्कृत, स्वच्छ, परिष्कृत करते हुए (इयः) मनो कामनाओं, पुष्टिकारक पदार्थों, वा ओपधियों और अर्थों का (यातयन्) वहाँ स्वयं उत्पन्न करते हुए आप (दिवः) सूर्यलोक, आकाश या पुरुष दोनों पक्षों से (वृष्टिं) जलवर्षण वज्रवपन आदि क्रिया के कार्य को (परिस्त्रव) करवाते हैं । समष्टि और व्यष्टि रूप से सृष्टि की उत्पत्ति समान रूप से चर्चित है ।

(३) (यः) जो सोम (दिवः परि) सूर्य में (रघुयामा) हलका सूक्ष्म रूप होकर विचरता है (सः) वह (पवित्रे) मलादि दोष रहित, (सिन्धोः) स्रवण करने हारे जल के (ऊर्मोः) संघात रूप में (वि अक्षरन्) नाना प्रकार से चरित होता है ।

(४) (सुतः) सवका प्रेरक वह सोम, सर्वोत्पादक (ओजसा) अपने सामर्थ्य से (पवित्रे) स्वच्छ मलरहित पदार्थों में (त्विषिम्) कान्ति को

(दधानः) धारण करता हुआ (वि रोचयन्) नाना पदार्थों को प्रकाशित करता और (विचक्षाणः) समस्त पदार्थों को देखता और दिखाता हुआ अति (आप्ति) सर्वत्र व्यापक है ।

(५) (सुतः) वह सबका प्रेरक, सर्वोत्पादक (परावतः) दूर के (अथो) और (अर्वावतः) समीप के लोकों को (आदिवासत्) प्रकाशित करता है । (इन्द्राय) ऐश्वर्यशील सृष्टि या आत्मा के जन्म के निमित्त (मधु) आनन्दकारी मधुर ज्ञानरूप से (सिच्यत) सेचन किया जाता है ।

(६) (समीचीनाः) उत्तम उद्देश्य से एकत्र हुए विद्वान लोग (हरिं) सर्वव्यापक परमात्मा को (अदिभिः) दृढ़ साधनों द्वारा (हिन्वन्ति) साक्षात् करते हैं, और (इन्द्राय) अपने आत्मा के (पीतये) ज्ञान और आनन्दरस के पान कराने के लिये (इन्दुम्) हृदय में कान्ति रूप से द्रवित होने वाले आनन्दरस की (अनूपत) स्तुति करते हैं ।

[६०४] ^{३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} द्विन्वन्ति सूरमुख्यः स्वसारो जामयस्पतिम् ।

^{३ १ २ २ २ ३ १ २} महामिन्दुं महीयुनः ॥ १ ॥

[६०५] ^{१ २ ३ १ २ ३ ३ १ २ १ २ ३ २} पवमान रुचारुचा देव देवभ्यः सुतः ।

^{२ ३ १ ३ १ २} त्रिभुवा वसून्याविश ॥ २ ॥

[६०६] ^{१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} आ पवमान सुन्दृति वृष्टि देवभ्यो दुवः ।

^{३ १ २ ३ १ २} इषे पवस्व संयतम् ॥ ३ ॥ ५ ॥ अ० ६ । ६५ । १-३ ॥

(१) (उन्नयः) गतिशील, (स्वसारः) स्वयं सरण या गमन करने वाली (जामयः) भार्याओं, या भगिनियों के समान ये इन्द्रियां या प्रजागण (महीयुवः) महत्त्व की आकांक्षा करती हुई (महान्) पूजनीय, (इन्दुं)

भा०—(१) (जनस्य गोपाः) समस्त जनों और जन्तुओं का रक्षक, (जागृविः) सदा जागरणशील, कभी झालस्य न करने वाला (सुदक्षः) उत्तम बल से सम्पन्न, (घृतप्रतीकः) घृत, दीप्ति विशेष, श्रोजास्विता से सर्वत्र पहिचानने योग्य, (शुचिः) शुद्ध, स्वच्छ अन्तःकरण वाला, निष्कपट (अग्निः) सबको आगे ले चलने वाला, आचार्यस्वरूप, अग्नि के समान तेजस्वी नायक, परम पुरुष, सबके (नच्यसे) नये २ अपूर्व (सुविताय) कल्याण के लिये (अजनिष्ट) प्रकट होता है । और वही (बृहना) बड़े भारी (दिविस्पृशा) आकाश तक को स्पर्श करने वाले सूर्य-समान तेज से (भरतेभ्यः) भरण पोषण करने हारे विद्वान् पुरुषों के लिये (द्युमत्) ज्ञानमय प्रकाशस्वरूप होकर (विभाति) विशेष रूप से शोभा देता है । अग्नि और सूर्य के दृष्टान्त से विद्वान् और ईश्वर का वर्णन किया गया है ।

(२) हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (वने वने) जिस प्रकार जंगल २ में, या काष्ठ २में आग गुप्तरूप से रहती है उसी प्रकार जो वं, जीव में (शिश्रियाणं) व्यापक (गुहाहितं) हृदय में छुपे हुए (त्वां) तुझको (अंगिरसः) ज्ञानी लोग प्रत्येक पदार्थ में (अनु अविन्दन्) खोज करते और प्राप्त करते हैं । (सः) वह आप (सहः) सर्वशक्तिमान् (मध्यमानः) हृदयदेश में पुनः प्रत्याहरण या मनन करने योग्य, (महत्) महान् हैं । हे (अंगिरः) ज्ञानस्वरूप ! (त्वां) आपको (सहसस्पुत्रं) योगशक्ति, या योगबल से पुरुष की पापों से रक्षा करने हारा (आहुः) कहते हैं । आत्मा, विद्वान्, परमात्मा और अग्नि चारों पक्षों में स्पष्ट है ।

(३) (नरः) विद्वान् लोग (यज्ञस्य) देवपूजा एवं संगति आदि धर्मकार्य के (केतुं) बतलाने वाले, (प्रथमं पुरोहितं) सब से प्रथम, साक्षीरूप से स्थित परमेश्वर को (त्रि-सधस्ये) तीन प्राणों के एकत्र होने के प्रदेश त्रिपुटी में (समिन्धते) प्रज्वलित करते हैं । (सः) वह (बर्हिषे) इस जीवन यज्ञसे सम्पन्न, बराबर वृद्धि को प्राप्त, ज्ञान और जीवन रूप

यज्ञ में (इन्द्रेण) इस आत्मा और (देवैः) इन्द्रियों के साथ (होता) सबको अपनी और बुलातेने हारा, सब सुखों का दाता (सुक्रनुः) उत्तम प्रज्ञान और कर्म करने हारा, सबका रचयिता परमात्मा (यजथाय) यज्ञ सम्पादन या आनन्द प्रदान करने के लिये (सरथं) समान रूप से रमण करने योग्य हृदय-देश में (नि सिदिन्) विराजमान होता है । आधिदैविक पक्ष में—इन्द्र=महान् विद्युत् और देव=अन्य पंचभूत और वहिः=अन्तरिक्ष, यजथ=ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ ।

[६१०] अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
ममदिह श्रुतं हवम् ॥ १ ॥

[६११] राजा । वनभिद्रुहा ध्रुवं सदस्युत्तमे ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
सहस्रस्थूण आशाते ॥ २ ॥

[६१२] ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
सचेते अनवह्वरम् ॥ ३ ॥ ७ ॥ ऋ० २ । ४१ । ४-६ ॥

भा०—(१) हे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण, प्राण और उदान के समान अध्यापक और शिष्य ! (ऋतावृधा) सत्य ज्ञान और जीवन को बढ़ाने वाले (वां) आप दोनों के लिये (अयं) यह (सोमः) ओषधियों का रस, या जीवन का रस, या ज्ञान (सुतः) तय्यार है । (मम इत्) मेरा ही (हवं) आह्वान, आदेश (श्रुतम्) आप लोग श्रवण करो ।

जिस प्रकार प्राण और उदान-सब रस-ग्रहण करके जीवन को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सत्यज्ञान के वर्धक अध्यापक और शिष्य भी ज्ञान का रस लेते हैं । उनके प्रति सब लोग अपना प्रेम प्रकट करें ।

(२) हे मित्र और वरुण ! प्राण और अपान आप दोनों (राजानौ) इस शरीर के राजा, (अनभिद्रुहौ) परस्पर द्रोह में करने हारि (उत्तमे) ।

उत्कृष्ट (ध्रुवे) नित्य (सहस्रस्थूणे) सहस्रों स्तम्भों के समान सत्कर्मों के आश्रय विराजमान (सदसि) भवनरूप, सत्यस्वरूप, सर्वाश्रय-आत्मा में (आशाते) उपविष्ट हों । प्राण और उदान अध्यापक शिष्य, राजा, राजमन्त्री और ब्रह्म, जीव तथा जीव और मन सबका वर्णन भी समान है ।

(३) (तौ) वे दोनों (घृतासुती) प्रदीप्त तेज को उत्पन्न करने हारे, (आदित्या) आदित्य के समान प्रकाशमान, अखण्डित, (दानुनः पती) धनों के स्वामी (सन्नाजौ) सम्राट् के समान तेजस्वी मित्र और वरुण, प्राण और उदान (अनवह्वरं) सरल, कपटादि रहित होकर (सचेते) परस्पर मिलकर कार्य करते हैं ।

[६२३] इन्द्रो दधीची अस्थभिवृत्राण्यप्रतिष्कृतः ।

जघान नवतीर्नध ॥ १ ॥

[६१४] इच्छन्नश्वस्य याच्छ्वरः पर्वतेष्वपाश्रतम् ।

तद्विदच्छ्वरणावति ॥ २ ॥

[६१५] अत्राह गारमन्वत नाम त्वष्टुरपांच्यम् ।

इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३ ॥ अ० १ । ८४ । १३-१५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१७६] पृ० ६७० ।

(२) (पर्वतेषु) पोरुओं वाले मेरुदण्ड के मोहरों में (अपश्रितं) स्थित (अश्वस्य) शरीर में व्यापक, आत्मा का यत् जो (शिरः) मुख्य अंश है उसको (इच्छन्) चाहता हुआ (इन्द्रः) आत्मा (शय्यणावति) हृदय-देश में (तद्) उसको (विदद्) प्राप्त करता है ।

मधुविद्या या ब्रह्मविद्या का उपदेश करने वाला दधीचि का शिर अश्वियों ने काट दिया, वह शय्यणावत् तालव में पड़ा था । उसको इन्द्र ने अपना वज्र बनाने के निमित्त उसी स्थान पर पाया । ऐसी कथा प्रसिद्ध

है । इस अलंकार में ध्यान धारणा से सम्पन्न योगी आत्मा दधीचि है । उसका ब्रह्मज्ञानोपदेशक शिरोभाग जो प्राण और उदान को ठीक गति का शिक्षण करता है मस्तक भाग में है । काम क्रोधादि पर वश करने वाला इन्द्र आत्मा उसी चित् केन्द्र की खोज करता है जिसके प्राण और अपान वश में हैं । वह उसको मध्य मस्तक में पाता है और ८१० प्रकार की मनोवृत्तियों पर वश करता है । यह अलंकार है ।

(३) व्याख्या देखो अवि० सं० [१४७] पृ० ८१ ।

[६१६] इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूर्यस्तुतिः ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
३ २ ३ १ २
अभ्राद्वाष्ट्रिवाजनि ॥ १ ॥

[६१७] शृणुतं जरितुर्हवमिन्द्राग्नी वनतं गिरः ।

३ १ २ ३ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
ईशाना पिप्यतं धियः ॥ २ ॥

[६१८] मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिश्स्तये ।

१ २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ १ २ २
१ ३ ३ २

मा नो रीरधतं निदे ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० ७ । ९४ । १-३ ॥

भा०—(१) हे (इन्द्राग्नी) सूर्य और अग्नि सदृश गुरु शिष्य, ब्रह्म और जीव ! (वाम्) आप दोनों का (इयं) यह (पूर्यस्तुतिः) प्राचीन या पूर्ण सत्य गुण-वर्णन (मन्मनः) मननशील विद्वान् पुरुष से (अभ्राद्) मेघ से (वृष्टिः इव) वर्षा के समान (अजनि) प्रकट होता है ।

(२) हे (इन्द्राग्नी) गुरु शिष्य के समान ब्रह्म और जीव (जरितुः) स्तुति करने हारे विद्वान् के (हवम्) आह्वान या स्तुति को तुम दोनों (शृणुतं) श्रवण करो । और (गिरः) वेदवाणियों को (वनतं) सेवन करो । आप दोनों (ईशाना) ऐश्वर्यवान् होते हुए (धियः) सब प्रकार के कर्मों को (पिप्यतं) पूर्ण करते और सफल करते हो ।

(३) हे (नरा) नेताओ ! (हन्दाग्नी) गुरु, शिष्य ! या अध्यापक उपदेशक ! या परमेश्वर और आचार्य ! सूर्य और अग्नि के समान ब्रह्म और जीव ! आप दोनों (नः) हमें (पापत्वाय) पापकार्य के लिये और (अभि-
शास्तये) पराधीनता या हिंसा कार्य के लिये और (निदे) निन्दा-जनक कार्य, या निन्दा करने के लिये (मा रीरधतं) कभी किसी के वश में न होने दें ।

इति तृतीयः खण्डः ।

[६१६] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} पत्रस्व दक्षमाधनो देवेभ्यः पीतये हरे ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २} मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥ १ ॥

[६२०] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १} सं देवैः शोभते वृषा कावयोनाचधि प्रियः ।

^{१ २ ३ १ २} पवमानो अदाभ्यः ॥ २ ॥

[६२१] ^{१ २ ३ २ ३ २ २ ३ ३ १ २} पवमान प्रिया हितोऽभियानि कनिक्रदत् ।

^{१ २ ३ २ २ २} धर्मणा वायुमारुहः ॥ ३ ॥ १० ॥ अ० ६ । १५ । १, ३, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [४७४] पृ० २३६ ।

(२) (वृषा) सब सुखों का वर्षण करने वाला, (पवमानः) सब को ज्ञानदान से पवित्र करने हारा, (अदाभ्यः) किसी से हिंसा न करने योग्य, (प्रियः) सबको प्रिय (कधिः) विद्वान्, क्रान्तदर्शी, मेधावी (योनौ अधि) अपने आश्रय में ही (देवैः) अन्य विद्वानों, या सहचर इन्द्रियगणों, या वायु आदि देवों के साथ (शोभते) शोभा देता है ।

राजा, योगी आत्मा, परमात्मा सब के मूल में समान है ।

६१९—'वृषहा देवधीतय' इति अ० ।

६२१—'वायुमाविशः' इति अ० ।

(३) हे (पवमान) आत्मन् ! (धिया) ध्यान के बल से (अभि-
योनिं) अपने मूलस्थान, आश्रय, हृदयदेश में (हितः) स्थिर होकर
(कनिःकदत्) अनाहत नाद या ईश्वर की स्तुति करता हुआ (धर्मणा) अपने
धारक प्रयत्न द्वारा (वायुम्) प्राणवायु पर (आ अरुहः) वश कर ।

[१२२] तवाहं साम रारण सख्य इन्दो दिवदिवे ।

पुरुणि वभ्रो निचरन्ति मामव परिधी रति ताँ इहि ॥१॥

[१२३] तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो वभ्र ऊधनि ।

घृणा तपन्तमति सूर्य परः शकुना इव पक्षिम् ॥२॥११॥

ऋ० ९ । १०७ । १९-२० ॥

(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२१६] पृ० २५५ ।

(२) हे (सोम) परमात्मन् ! हे (वभ्रो) समस्त संसार के भरण
पोषण करने वाले परमेश्वर ! (नक्तं) रात में (तव) तेरे (उत) और
(दिवा) दिन में भी (ते) तेरे ही (ऊधनि) रसमय कोश में (अहं)
मैं (दुहानः) रस प्राप्त करता हुआ (ऊधनि शकुना इव) उपाकाल के
अवसर में पक्षियों या राक्षियों के समान हम (घृणा) दीप्ति से (तपन्तं)
जागृत्यमान (सूर्यम्) सूर्य के समान सर्वाधार (परः) परमदेव आपको
देखकर (अति पक्षिम्) कर्मबन्धन को पार करके मोक्ष को प्राप्त हो जाय ।

[१२४] पुनानो अक्रुमादाभ विश्वा मृध्रो धिचर्षणिः ।

शुम्भन्ति विप्र धीनिभिः ॥ १ ॥

[१२५] आ योनिमरुणो रुहद् गमदिन्द्रा वृषा सुतम् ।

ध्रुव सदसि सीदतु ॥ २ ॥

१२२—'सख्याय वभ्र' इति ऋ० ।

१२४—'गमदिन्द्रं वृषा सुतः' इति ऋ० ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [६२६] नू नो रथि महामिन्द्रोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः।
 १ २ ३ १ २


आ पत्रस्व सहस्रिणाम् ॥ ३ ॥ १२ ॥ ऋ० ६ । ४० । १-३ ॥

(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [४८८], पृ० २४४ ।

(२) (अरुणः) अरुणवर्ण, कान्तिमान्, सोम (योनिम्) मूल-
 स्थान, हृदय-देश में (अरुहद्) प्रकट होता है और (वृषा) सुखों का
 वर्षक (इन्द्रः) आत्मा (सुतम्) आनन्दस्वरूप में प्रकट हुए उसके प्रति
 (गमद्) झुक जाता है । वह आनन्दस्वरूप परमात्मा मेरे (ध्रुवे) स्थिर
 (सदसि) आश्रयस्थान, आत्मा में (सीदतु) सदा विराजमान हो-।

(३) हे (इन्द्रो) सोम ! (अस्मभ्यं) हमारे लिये (सहस्रिणं)
 सब सुखों से युक्त (महान्) विशाल (रथिम्) ऐश्वर्य को (विश्वतः) सब
 ओर से (नः आ पत्रस्व) प्राप्त कराओ ।

इति चतुर्थः खण्डः ।



२ ३ १ २ ३ १ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [६२७] पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वद्विः ।
 ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३
 सातुर्बाहुभ्यां सुयता नार्वा ॥ १ ॥

२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ १ ३ १ २
 [६२८] यस्ते मदो युज्यश्चारुस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व हंसि ।
 १ २ २ २
 स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
 [६२९] वोधा सु म मधवन्वाचभेर्मा यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम् ।
 ३ १ २ २ ३ १ २
 इमा ब्रह्म सवमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ १३ ॥ ऋ० ७ । २२ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचि० सं० (३६८) पृ० २०४ ।

(२) हे (हर्यश्व) हरणशील, अश्वरूप इन्द्रियों और मन से युक्त
 आत्मन् ! (यः) जो (ते) तेरा (युज्यः) योग समाधि से उत्पन्न होने
 वाला (मदः) आनन्द (चारुः) मनोहर, उपभोग करने योग्य (अस्ति)

है और (धेन) जिसके बल पर तू (वृत्राणि) आवरणकारी विष्टों, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को (हंसि) विनाश करता है । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! आधमन् ! हे (प्रभुवसो) समस्त प्राणियों में बसने हारे ! (सः) वह (त्वा) तुम्हको (मनसु) आनन्दित करे ।

(३) हे (मधवन्) ऐश्वर्यवन् ! (वसिष्ठः) वसिष्ठस्वरूप, इन्द्रिय या मुख्य प्राण, या विद्वान् पुरुष (यां) जिस (प्रशस्ति) उत्तम गुण वर्णन करने वाली (वाचं) वाणी को (अर्चति) प्रकट करता है (इमां) इस (मे) मेरी वाणी को (सुबोध) तू उत्तम रूप से ज्ञान कर । और (इमा) इन । ब्रह्म) वेदमन्त्रों को (सधमादं) एकत्र हर्ष प्राप्त करने के स्थान यज्ञ आदि, अथवा त्रिपुटी या हृदयदेश में (जुपस्व) सेवन कर, उनका मनन कर ।

[६३०] विश्वाः पृतना अभिभूतस्वरः सजुस्ततक्षुरिन्द्रञ्जनुश्च
राजसे । कृत्वे चरे स्व्यमन्यामुरीमुताग्रमाजिष्ठ तरसे
नरास्वनम् ॥ १ ॥

[६३१] नेभि नमन्ति चक्षसा मेपं विप्रा अभि स्वर ।
सुदीतया वो अद्बुहोऽपि कर्णे तरस्विनः समृक्ताभः ॥ २ ॥

[६३२] समु र्भालो अस्वगान्द्रं सोमस्य पीतये ।
स्वः पतिर्यदी वृत्र धृतव्रता ह्योजला समूताभः ॥३॥१४॥

श्र ८ । ६७ । १०, १२, १२ ॥

भा०—(१) न्याय्या देखिये अवि० सं० [३७०] पृ० १६१ ।

(२) (विप्राः) मेधावी, ज्ञानी लोग (चक्षसा) अपने दर्शन कराने हारे आलोक में साक्षात् करके (अभिस्वर) गायन में (नेभिं), वमन करने हारे (मेपं) सूर्य या मेघ के समान सुखों के वर्णन करने वाले उस परमात्मा को ही

(नमन्ति) नमस्कार करते हैं । (वः) आप लोग भी (सुदन्तियः) उत्तम कान्तिसम्पन्न और (अद्भुतः) परस्पर दोह न करते हुए (तरस्विनः) शोघ्र कार्य सम्पादक हांकर (ऋक्भिः) वेदमन्त्रों से (कथे) प्रत्यक कार्य में उसी का नमस्कार करें ।

(३) (रभेभ्यः) स्तुति करने हारे, गायक, विद्वान् लोग (सोमस्य) आनन्दरूप सोमरस के (पीतये) पान करने के लिये (इन्द्र उ) इस आत्मा को लक्ष्य करके ही (सम् अस्वरन्) एकत्र होकर गान करते हैं । (यद् ई) और जब (धृत्ततः) सब का धारण करने वाला आत्मा (वृधे) बढ़ता है, शक्तिशाली और उन्नत होता है तब ही वह (ओजसा) अपने तेज से (ऊतिभिः) अपने बलशालि, प्राणा सहित (सं) एक साथ वृद्धि को प्राप्त होता है ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[६३३] एं राजा चर्पणीनां याता रथेभिरधिगुः ।

१ २ ३ ४ २ ३ ३ ३ १ २ ३ २ ३ २

त्रिश्वासां नरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुण ॥ १ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६३४] इन्द्रन्तं शुम्भ पुरुहन्मन्त्रवस यस्य द्विता विधत्तैरि ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

हस्तेन वज्रः प्रतिधायि दर्शतो महां देवो न सूर्यः ॥ २ ॥

अ० ८ । ७० । १—२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अत्रि० सं० [२७३] पृ० १४० ।

(२) हे (पुरुहन्मन्) इन्द्रियों को वश करने हारे आत्मन् ! (तं) उस (इन्द्रं) ऐश्वर्यशालि परमेश्वर को (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (शुम्भ) पुकार, स्मरण कर । यस्य) जिस तेरे अपने (विधत्तैरि) विविध प्रकार से पालक पोषक परमेश्वर में (द्विता) स्वामी सेवक, भक्त भगवान् का सा भेद है । और जिसने (हस्तेन) हाथ से खड्ग के समान अज्ञानान्ध-

कार को नाशक (वज्रः) ज्ञानमय वज्र (प्रतिधाधि) धारण किया है, वह (दर्शतः) दर्शनीय (महान्) महान्, (देवः) सब सुखों का दाता, (सूर्यः न) सूर्य के समान सब ज्ञानों का प्रकाशक और प्रेरक है ।

इति पञ्चमः खण्डः ।

—:0:—

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
[६३५] परि प्रिया दिवः कविर्भयांसि नप्त्यो हितः ।

३ १ २ ३ १ २

स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥१॥

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[६३६] स सनुमातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत् ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २

महान्मही ऋतावृधा ॥२॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६३७] प्र प्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टा अद्रुहः ।

३ १ २ ३ १ २

वात्यपं पनिष्ठये ॥३॥१६॥ अ० १ । ६ । १, ३, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७६] पृ० २३६ ।

(२) (सः) वह सर्वोत्पादक परमेश्वर (सनुः) पुत्र के समान हर्ष का सञ्चारक, समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला, सब लोकों का प्रेरक (जातः) होकर (शुचिः) स्वच्छ, कान्तिमान् (महान्) यशस्वी है । वह (जाते) प्रसिद्ध हुए (ऋतावृधा) सत्य ज्ञान और जीवन को बढ़ाने वाले (मातरा) मा वाप दोनों को पुत्र के समान, आकाश और पृथिवी, गुरु शिष्य और स्त्री पुरुष, राजा और प्रजा दोनों को (अरोचयत्) उज्ज्वल करता है ।

(३) (पन्यसे) व्यवहार या स्तुति करने हारे (जनाय) पुरुष के लिये (जुष्टः) प्रेम से सेवन करने योग्य (अद्रुहः) द्रोह से रहित, हे परमेश्वर ! आप (क्षयाय) निवास और (पनिष्ठये) व्यवहारसिद्धि,

स्तुति और (वीती) रक्षा और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (प्र) अच्छी प्रकार (अर्प) हमें प्राप्त हो ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[६३८] त्वं ह्याशङ्क दैव्यः पवमान जनिमानि द्युमत्तमः ।
३ १ २ ३ १ २

अमृतत्वाय धोपयन् ॥१॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
[६३९] येना नवग्वा दध्यङ्घपोर्युते येन विप्रास आपिरे ।
३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवांस्याशत ॥२॥१७॥
क्र० ६ । १०८ । ३, ४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अश्विकल सं० [५८३] पृ० २६३ ।

(२) (नवग्वा) सदा अभिनव वेदवाणियों को प्राप्त करने वाला, नव-
शिक्षित (येन) जिस परमब्रह्म के द्वारा (दध्यङ्घ) विद्वान्, ध्यानवान्
होकर (अप ऊर्युते) ज्ञान प्रकट करता है । (येन) जिसके बल पर
(विप्रासः) विद्वान् मेधावी जन वेदमन्त्रों के तत्व या परमपद को (आपिरे)
पहुँचते हैं । और येन जिसके बल पर (देवानां) विद्वान् दिव्यगुणसम्पन्न
महात्माओं के (सुम्ने) सुखकारी यज्ञादि स्थानों में (चारुणः) उत्तम
(अमृतस्य) आत्मा के (श्रवांसि) ज्ञान-रहस्यों को (आशत) विद्वान्
लोग प्राप्त करते हैं । हे परमेश्वर ! वही तुम हमें प्राप्त होवो ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २
[६४०] सोमः पुनान ऊर्मिणाञ्च्यं वारं विधावति ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २
अप्रे वाचः पवमानः कनिकदत् ॥१॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[६४१] धीभिर्मजन्ति वाजिनं वने क्रीडन्तमत्यविम् ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन् ॥२॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ४ ३ १ २ ३ २
 [६४२] असर्जि कलशां अभि मीद्वान् त्ससिर्न वाजयुः ।

२ १ २ ३ १ २

पुनानो वाचजनयन्नसिप्यदत् ॥ ३ ॥ १८ ॥

अ० ६ । १०६ । १०-१३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५७२] पृ० २८८ ।

(२) (वने) शरीर में (क्रीडन्तं) नाना कर्मों को या क्रीडा, विनोद, करते हुए (वाजिनं) अति बलवान्, ज्ञानी (अत्यविम्) शरीरबन्धन को अतिक्रमण करके विराजमान, अतीन्द्रिय आत्मा को (धाभिः) धारणावाली बुद्धियों और उत्तम कर्मों द्वारा (मृजन्ति) परिशोधन करते, उसको स्वच्छ और समाहित करके और भी अधिक विवेक से उसके दर्शन करते हैं । (मतयः) मननशील मुनि लोग (त्रिपृष्ठं) मन, वाक्, काय तीनों स्थानों पर विराजमान उस आत्मा को (अभि सम् अस्वरन्) साक्षात् स्तुति करते हैं ।

(३) (मीद्वान्) ज्ञानन्दधन, वह सोम (वाजयुः) संग्राम में जाने हारे (ससिः न) अश्व के समान (कलशान् अभि) सकल देहों में (असर्जि) प्रकट होता है । और (पुनानः) सब मलों को दूर करता हुआ (वाचम्) वाणी को (जनयन्) प्रकट करता हुआ (असिप्यदत्) ददित होता है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १
 [६४३] सामः पवते जनिता मनीनां जनिता दिवो जनिता

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ ३
 पृथिव्याः । जनिताग्नेजनिता सूर्यस्य जानतेन्द्रस्य जान-

१ २
 नान विष्णाः ॥१॥

३ २ ३ १ १ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[६४४] ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषां मुगाणाम् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

श्यन्तां गृध्राणां स्वाधितिर्वनानां सामःपवित्रमत्येति रेभन् २॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ ३ २
 [६४५] प्राचीविपद्वाच उर्मि न लिन्धुर्गिरस्तामानपवमानो मनीषाः
 ३ २ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २
 अन्तः पश्यन्वृजनेमात्ररात्यातिष्ठति वृषभो गांषु जानन्
 ॥ ३ ॥ १६ ॥ ऋ० ६ । ६६ । ६, ७ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५२७] पृ० २६२ ।

(२) (सोमः) सोम (देवानां) इन्द्रियों और विद्वानों के बीच में (ब्रह्मा) समस्त विद्या के ज्ञाता के समान, (कवीनां) क्रान्तदर्शी तत्त्वज्ञानियों का (पदवीः) मार्गदर्शक, (विप्राणां) मेधावी पुरुषों में (ऋषिः) मन्त्रों के अर्थों का दृष्टा, (मृगाणां) मृगों के बीच में (महिषः) महिष के समान बलवान्, (गृध्राणां) गृध्र आदि पक्षियों में (श्येनः) श्येन के समान आकांक्षा शीलों में बलवान् (वनानां) जंगल के वृक्षों के बीच (स्वधितिः) कुठार के समान कर्मबन्धनों के नाश करने हारा (सोमः) आत्मा (रभेन्) अनाहत नाद करता हुआ (अति एति) सब जानों को पार करके (पवित्रं) शुद्ध निर्मल ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

यात्काचार्थ के मत से अध्यात्म पद में—(ब्रह्मा देवानां) यह आत्मा देवनकर्मा, फ्रीडाशील इन्द्रियों का ब्रह्मा अर्थात् साक्षी है । (पदवी कवीनां) चेतन के समान काम करने वाली, पदार्थों का ज्ञान करने वाली इन्द्रियों के पद को जानने वाला है । (ऋषिः विप्राणां) व्यापन कर्मा इन्द्रियों को गति देने वाला है । (महिषः मृगाणां) विषयों को खोजने वाली इन्द्रियों में से सबसे बड़ा है । (श्येनः गृध्राणां) विषयाभिलाषी ज्ञानशील इन्द्रियों के बीच यह आत्मा स्वतः चेतन ज्ञाता है । (स्वधितिः वनानां) विषयों के सेवने वाली इन्द्रियों के कर्मों को स्वयं अपने में धारण करता है । ऐसा सोम, आत्मा (पवित्रं) इन्द्रियों पर ही (रभेन्) स्वयं स्तुति किया जाकर (अति एति) उन द्वारा सब अनुभव करता, सबसे ऊपर विराजता है (निरु० प० अ० २ । १३) ।

(३) (पवमानः) पवित्र, शुद्ध, ज्योतिर्मय आत्मा (मनीषाः) मनन साधनों की प्रेरणा करने वाला (सिन्धुः न) नदी के प्रवाह के समान (वाचं) वाणी के (ऊर्मिम्) तरंग को (प्रावोविपत्) प्रेरित करता है । और (गिरः) वाणियों या स्तुतियों के (स्तोमान्) समूहों को भी प्रकट करता है और स्वयं अपने को (अन्तः) भीतर की ओर (पश्यन्) देखता हुआ (गोपु) इन्द्रियरूप गौश्रों में (वृषभः इव) बैल के समान वीर्य या बल का सेचन करता हुआ (अनराणि) न वरण करने योग्य, अर्थात् त्याग करने योग्य, अथवा अपने अधीन (इमा) इन (वृजिना) वेगवती इन्द्रियों वृत्तियों को (आतिष्ठति] वश करता है ।

इति षष्ठः खण्डः ।

—:०:—

३ २२ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[६४६] अग्निं वा वृधन्तमध्वराणां पुरुतमम् ।

२ ३ २ ३ १ २

अच्छा नप्त्रं सहस्वने ॥१॥

३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[६४७] अग्रं यथा न आमुवत् त्वष्टा रूपं च तच्चा ।

३ २३ ३ १ २

अस्य क्रत्वा यशस्वतः ।

३ १ २२ ३ २३ ३ २ ३ १ २

[६४८] अग्रं विश्वा अभिश्रियोऽग्निर्देवेषु पत्यते ।

२३ ३ १ २

आ वाजैरुप नो गमत् ॥३॥२०॥ ऋ० ८ । १०२ । ७-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविफल सं० [२१] पृ० ६ ।

(२) (त्वष्टा इव) जिस प्रकार तरखान शिल्पी (तच्चा) काट २ कर बनाने योग्य (रूपा) पदार्थों को बनाता है उसी प्रकार (यथा) यथावत् टीक ठीक (अग्रं) यह (अभिः) सबका अग्रणी, सबसे पूर्व विद्यमान ज्ञानवान् परमेश्वर भी (नः) हमारे लिये सब (रूपा) कान्तिमान् पदार्थों को (आमुवत्) बनाता है । हम लोग भी (यशस्वतः)

समस्त महिमा वाले (अस्य) इसके ही (ऋत्वा) ज्ञान और कर्म सामर्थ्य क द्वारा उत्पन्न हुए हैं ।

(३) (देवेषु) दिव्यगुणों से युक्त समस्त पदार्थों, लोकों और विद्वानों से (अयं) यह (अग्निः) ज्ञानवान् परमात्मा (विश्वाः) समस्त (श्रियः) लक्ष्मियों को (अभिपत्यते) प्राप्त है, उनका स्वामी है । वह (नः) हमारे पास (वाजैः) अर्जों बलों ज्ञानों और कर्मों और ऐश्वर्यों द्वारा (उप आगमत्) हमें प्राप्त हो ।

[६४६] इमामिन्द्र सुतं पितृ ज्यष्टममर्त्यं मदम् ।

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादनं ॥१॥

[६५०] नकिष्ट्वद्रथानरां हरी यादन्द्र यच्छस ।

नकिष्ट्वानु मज्मना नकिः स्वश्व आनशे ॥२॥

[६५१] इन्द्राय नूनमचनोक्तथानि च ब्रवीतन ।

सुता अमत्सुरिन्दवा ज्यष्टं नमन्यता महः ॥ ३ ॥ २१ ॥

अ० १ । ८४ । ४, ६, ५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अत्रिकल सं० [३४४] पृ० १७८ ।

(२) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यन्) क्योंकि तू संसार को चलाने हारे बलवान् अश्वों के समान (हरी) ज्ञान और शक्तिरूप बलों को (यच्छस) नियम में रखता है अतः (त्वत्) तुझ से (रथीतरं) बड़ा रथका स्वामी या अधिक आनन्दरस और बलवाला (नकिः) कोई दूसरा नहीं है । (मज्मना) बल के कारण भी (त्वा अनु) तरे मुकाबले पर (नकिः) कोई नहीं है । और (सु-अश्वः) उत्तम व्यापन शक्ति से सम्पन्न या वेगवान् कोई पदार्थ भी (नकिः आनशे) इस संसार में तुझसे बढ़कर और कोई व्यापक नहीं है ।

(३) हे मनुष्यो ! उस (इन्द्राय) ऐश्वर्यशील परमेश्वर की (अर्चत) उपासना करो और (उक्थानि च) सूत्रों वेदमन्त्रों का (प्रवातन) उद्धारण करो । जिस के आश्रय में (सुताः) ये समस्त संसार के उत्पन्न (इन्द्रवः) कान्तिमान, दिव्यगुण सम्पन्न पदार्थ और साधकगण (अमत्सुः) आनन्दलाभ कर रहे हैं । उस (सहः) सर्व शक्तिमान् (ज्येष्ठं) सबसे बड़े और अधिक प्रशंसनीय परमात्मा को (नमस्यत) नमस्कार करो ।

१ २ ३ १ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[६५२] इन्द्र जुपस्व प्रवहायाहि शूर हरिह ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २ २ १ २

पित्रा सुगस्य मतिर्न मध्राश्चकानश्चाकमदाय ॥१॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[६५३] इन्द्र जठर नव्य न पूणस्व मध्रादवां न ।

३ २ ३ २ ३ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अस्य सुनम्य म्गाऽऽऽर्त्तात्वा मदाः सुवाचा अस्थुः ॥२॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[६५४] इन्द्रस्तुर्गापगिमत्रो न जघान वृध्न यतिर्न ।

३ १ २ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २

विभेद वलं भूगुर्न मसादे शत्रून्मद सामस्य ॥३॥२२॥

भा०—(१) हे (इन्द्र) आत्मन् ! तू (जुपस्व) इप आनन्दरस का सेवन कर । (आयाहि) आ प्रकट होओ । हे (शूर) बलवान् शक्तिशालिन् ! हे (हरिह) इन्द्रियरूप घोड़ों का ताड़न करने हारे ! (सुतस्य) इप उत्पन्न आनन्दरस को (पित्र) पान कर (मतिः न) मनन करने हारे ज्ञानवान् क समान (चारुः) अत्यन्त मनोहर होकर (मदाय)

६५२—'चतुस्त्रिंशदक्षराणि स्तुता भवन्ति इत्यतः, 'प्रवह' 'हरिह' 'मतिर्न' इति नवोपसर्गाक्षराणि प्रथमस्यामुचि, द्वितीयस्यां 'नव्यं न' 'दिवो न' 'स्वर्न' इति नवोपसर्गाक्षराणि, तृतीयस्यां 'मिधो न', 'यतिर्न' 'भूगुर्न' इति नवोपसर्गाक्षराणि भवन्ति ॥

हमें आनन्द प्राप्त करने के लिये (मधोः) मधुर ब्रह्मरस की (चकानः) कामना कर सदा उसकी अभिलाषी बना रह उसी को सदा चाह ।

(२) हे आत्मन् ! जिस प्रकार (दिवः न) ज्योति से यह आकाश पूर्ण है उसी प्रकार (मधोः) ब्रह्म-आत्मरस से (जठरं) अपने मध्य भीतरी भाग को (नव्यन् इव) सदा तरो ताजा के समान (अस्य सुतस्य) इस सांमरस के (स्वः न) अत्यन्त सुखकारक स्वरूपों के समान (मदाः) हर्षतरंग रूप (वाचः) सुन्दर वाणियों (त्वा) तुम्हें (तु अस्थुः) प्राप्त हों ।

(३) (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यशील आत्मा (मित्रः न) सूर्य के समान (तुरापाट्) हिंसकों का नाशक (यतिः न) यम नियम के साधक ज्ञानी के समान (वृत्रे) आवरक काम, क्रोधदि शत्रुओं को (जघान) नाश करे (भृगुः न) पापों को भून डालने वाले योगी या आचार्य या अग्नि के समान (बलं) शत्रु की सेना को (विभेद) भेद डालता है (सोमस्य) उसी सोम के (मदे) हर्ष में (शत्रून्) कामादि अन्तः शत्रुओं को (स साह) पराजित करता है ।

इति सप्तमः खण्डः ।

इति तृतीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः

इति पञ्चमोऽध्यायः

अथ षष्ठोऽध्यायः ।

(द्वितीयोऽर्धः)

ऋषिः—त्रय ऋषिगणाः । २ काश्यपः ३, ४, १३ आसितः काश्यपो देवलो
वा । ५ अक्सारः । ६, १६ जमदग्निः । ७ अरुणो वैतहव्यः । ८ उरुचक्रितान्नेयः
९ कुहमुक्तिः काण्वः । १० भरद्वाजो वाहेस्त्यः । ११ भृगुर्गुणिर्जमदग्निर्वा
१२ मनुराप्लवः सप्तर्षी वा । १४, १६, २ । गोतमो राहूगणः । १७ ऊर्ध्वसञ्जा
कृतयशाश्च क्रमेण । १८ त्रित आस्यः । १९ रेभसू काश्यपो । २० मन्तुर्वामिष्ठ
२१ वसुश्रुत आत्रेयः । २२ नृमेघः ॥ देवता—१-६, ११-१३, १६-२०,
पवमानः सोमः । ७, २१ अग्निः । मित्रावरुणौ । ६, १४, १५, २२, २३
इन्द्रः । १० इन्द्राग्नी ॥ छन्दः—१, ७ जगती । २-६ म-११, १३, १६
गायत्री । २ । १२ बृहती । १४ १५, २१ पङ्क्तिः । १७ ककुप सतोबृहती
च क्रमेण । १८, २२ उष्णिक् । १८, २३ अनुष्टुप् । २० त्रिष्टुप् ॥ स्वर
१, ७ निषादः । २-६, ८-११, १३, १६ षड्जः । १२ मध्यमः । १४,
१५, २१ पञ्चमः । १७ ऋषभः मध्यमश्च क्रमेण । १८, २२ ऋषभः । १६
२३ गान्धारः । २० धैवतः ॥

[६५] ^{३ १ २} गावत्पवस्व ^{३ १ २} वसुविद्विरण्यविद्रताथा ^{३ १ २ ३ १ २} इन्द्रो भुवनण्यर्षितः ।
^{२ ३ १ २} त्वं सुधीरो ^{३ २ ३} असि सोम विश्वावेत् ^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} तं त्वानर उप गिरम
^{२ २} आसते ॥१॥

[६६] ^{२ ३ १ २} त्वं नृचक्षा ^{३ २ ३ १ २} असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता
^{२ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} विधावसि । सनः पवस्व वसुमद्विरण्यवद्वयं स्याम भुवन-
^{३ १ २} पु जीवसे ॥२॥

रययवत्) हिरण्य आदि सम्पत्तियों वाले, या आत्मा से युक्त ऐश्वर्य को (नः पवस्व) हमें प्रदान करें । (वयं) हम (भुवन्पु) लोकों में (जीवसे) दीर्घ जीवन प्राप्त करने के (स्याम) समर्थ हों ।

(३) हे (ईशान) समस्त संसार के स्वामिन् ! हे (इन्द्रो) ऐश्वर्य से सम्पन्न ! आप (हरितः) हरण करने हारी वेगवान् (सुपयस्यः) और सुन्दर, शोभन, कल्याणकारी मार्ग में गमन करने हारी सात्विक, राजस तामस, देव, मानव, तिर्यङ्, द्यौ, अन्तरिक्ष और भूलोक इन सष में उत्पन्न होने हारी तनों प्रकार की प्रजाओं को (युजानः) सन्मार्ग में नियुक्त करते हुए (इमाः) इन समस्त (भुवनानि) लोकों को (ईशसे) शासन करते हैं । (ताः) वे सष प्रजाएं (ते) आपके लिये (मधुमत्) ज्ञान से भरे, मधुर, भक्तिरसपूर्ण (घृतं) स्नेह और कान्ति से युक्त (पयः) आनन्दरस को (क्षरन्तु) प्रवाहित करें । (कृष्टयः) श्रमशील मनुष्य प्रजाएं हे (सोम) परमेश्वर ! (तव व्रते) आपकी आज्ञा में, व्यवस्था में (तिष्ठन्तु) रहें ।

[६५८] पवमानस्य विश्वावत्प्र त सर्गा असृक्षत ।

सूर्यस्यैव न रश्मयः ॥ १ ॥

[६५९] केतु कृत्वा न्दिवस्पारं विश्वा रूपाभ्यर्षसि ।

समुद्रः सोम पिन्वसे ॥ २ ॥

[६६०] जज्ञानो वाचामप्यालि पवमान विधर्माणि ।

क्रान्दन्द्वो न सूर्यः ॥ ३ ॥ २ ॥ अ० ९ । ६५ । ७, ६ ॥

भा०—(१) हे (विश्ववित्) सर्वज्ञ (सूर्यस्य इव) सूर्य के समान (पवमानस्य) सर्वव्यापक, (ते) तेरे (सर्गाः) बनाये समस्त जगत्, सूर्य

से उत्पन्न (रश्मयः न) किरणों के समान (असृत्त) उत्पन्न होकर गति कर रहे हैं ।

(२) हे (सोम) सब जगत् के उत्पादक ! (समुद्रः) समस्त लोकों को अपने भीतर से धारण करने और प्रकट करने हारें आप समुद्र के समान हैं, अनन्त हैं (दिवः परि) आकाश में (केतुं) अपनी महिमा को बतलाने वाले अथवा सब पदार्थों के ज्ञान कराने वाले सूर्य को (कृण्वन्) रचकर (विश्वा रूपा) समस्त कान्तिमान् और रूपवान् पदार्थों को (अभि अर्पसि) प्रकट करते, स्वयं व्यापते और (पिन्वसे) सब को पूर्ण कर रहे हो ।

(३) (सूर्यः न) सूर्य के समान (देवः) सर्वत्र प्रकाशक, (जज्ञानः) आप स्वयं हृदयदेश में प्रकट होकर (विधर्मणि) विशुद्ध आत्मा में (पवमानः) स्वयं प्रदीप्त होकर, या ज्ञानधारा के रूपमें क्षरित होकर गर्जते मेघ के समान (क्रन्दन्) उपदेश करते हुए आप (वाचं) वेदवाणी को (इष्यसि) ऋषियों के हृदयों में प्रेरित करते हो ।

[६६१] प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः ।

श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ॥ १ ॥

[६६२] अभि गात्रो अधन्विपुरापो न प्रवता यतीः ।

पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २ ॥

[६६३] प्र पवमान धन्वसि सोमन्द्राय मादतः ।

वृभियतो विनीयसे ॥ ३ ॥

[६६४] इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे ।

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥

[६६५] त्वं सोम नृमादनः पवस्व चर्पणीधृतिः ।

सस्त्रियो अनुमाद्यः ॥ ५ ॥

[६६६] पवस्व वृत्रहन्तम उक्थोभिरनुमाद्यः ।

शुचिः पावको अद्भुतः ॥ ६ ॥

[६६७] शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान् ।

देवावीरघशंसहा ॥ ७ ॥ ३ ॥ अ० ६ । २४ । १-७ ॥

भा०—(१) (पवमानासः) भ्रमण करते हुए; (इन्द्रवः) ज्ञान-सम्पन्न, (सोमासः) बढ़ते जलों के समान सौम्य गुणों से युक्त, शमदमादि के साधक, शान्त स्वभाव, मुक्तजन (श्रीणानाः) अपने अनुभव और ज्ञान में परिपक्व या तपस्वी होकर (आसु) प्रजाओं या लोकों में (वृञ्जते) भ्रमण करते हैं ।

(२) (गावः) गमनशील, ज्ञानी, विद्वानजन, (प्रवता) प्रकृत उत्तम मार्ग में (यतीः) गमन करते हुए (आपः न) जल-प्रवाहों के समान (अभि अधन्विपुः) बराबर आगे बढ़ते जाते हैं । और वे (पुनानाः) सब विघ्नों को पार करते हुए और अपने आत्मा को नित्य पवित्र करते हुए (इन्द्रम्) ऐश्वर्यशील उस सबके प्रभु को (आशत) प्राप्त होजाते और आत्मानन्द का लाभ करते हैं ।

(३) हे (पवमान) गतिशील ! हे (सोम) विद्वन् शिष्य ! तू (इन्द्राय) आचार्यरूप इन्द्र के लिये (मादनः) अति प्रसन्नता का कारण होता हुआ (प्र धन्वसि) उत्तम दशा को, उत्तम ज्ञान को प्राप्त हो और (नृभिः) सम्मार्ग के नेता गुरुओं द्वारा (यतः) नियमों में व्यवस्थित होकर (वि नीयसे) विनयपूर्वक शिषित किया जावे ।

(४) हे (इन्द्रो) उपासक शिष्य ! व ब्रह्मचारिन् ! (अग्निभिः) पर्वत के समान स्थिर प्रज्ञा वाले विद्वानों से (सुतः) प्रेरित एवं शिचित होकर (पवित्रं) पावन करने वाले ज्ञानस्वरूप प्रभु के प्रति तू (परिदीयसे) समर्पित किया जा रहा है । अर्थात् ज्ञान और सदाचार के मार्ग में आगे बढ़ रहा है । (इन्द्रस्य) ज्ञानवान् आचार्य के (धाम्ने) पद, स्थान के लिये (अरं) तू पर्याप्त रूप से योग्य होजा ।

(५) हे (सोम) शिष्य ! ब्रह्मचारिन् (त्वं) तू (नृमादनः) सब नेता गुरुओं के हर्ष को उत्पन्न करने और (चर्षणीधृतिः) निरीक्षक लोगों की दृष्टि में उत्तम आचार को धारण करने वाला होकर (सन्निः) ज्ञान करके, स्नातक होकर (यः) जो आप पुनः (अनुमाद्यः) सब के हर्ष का कारण बनकर (पवस्य) ज्ञान का प्रदान कर ।

(६) हे (वृत्रहन्तम) विघ्नों और काम, क्रोध आदि आभ्यन्तर, तामस आवरणों को नाश करने में सबसे उत्तम ! तू (उक्थोभिः) उत्तम वचनों द्वारा (अनुमाद्यः) आदर करने योग्य (शुचिः) शुद्ध, कान्तिमान्, (अद्भुतः) आश्चर्यजनक, (पावकः) समस्त प्रज्ञा को पवित्र, निष्पाप बनानेहारा होकर (पवस्व) सर्वत्र भ्रमण कर और ज्ञान प्रदान कर ।

(७) (सः) वह ब्रह्मचारी (मधुमान्) ज्ञानवान्, ब्रह्मवेत्ता, (शुचिः) मन्, वाणी और कार्य में पवित्र, (पावकः) औरों को पवित्र करनेहारा, पंक्तिपावन (सोमः) सोम (उच्यते) कहाता है जो (देवावीः) विद्वानों का और दिव्यगुणों का रक्षण करने हारा और (अघशंसहा) पाप की बात बतलाने वालों के पाखण्ड को नाश करने वाला होता है ।

इति प्रथमः खण्डः ।

[१६६] प्र काचिदेववातयेऽव्या वारभिरव्यत ॥

३ १ २२ ३ ३ २ २
साह्यान्विश्वः अभिस्पृधः ॥ १ ॥

[६६६] स हि ष्मा जरितृभ्य आवाजं गोमन्तमिन्वति ।
 १२ २२ ३२ ३ २३ ३ १२ ३ १२

पवमानः सहस्रिणम् ॥ २ ॥
 १२ ३ १२

[६७०] परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती ।
 २ ३ १ २ ३ १२ ३ २ ३ १२ ३ २

स नः सोम श्रवा विदः ॥ ३ ॥
 १२ ३ १२

[६७१] अभ्यर्थं बृहद्यशो मघवद्भ्यां ध्रुवं रायिम् ।
 ३ २ ३ १ १२ २ २ ३ १२ ३ २ ३ २

इषं स्तोतृभ्य आभर ॥ ४ ॥
 १२ ३ २ ५ १२

[६७२] त्वं राजव सुवतो गिरः लामा विवेशिय ।
 १ २ ३ १ २ २ २ २ १ २

पुनानो बह्वे अद्भुत ॥ ५ ॥
 ३ १ २

[६७३] स वह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः ।
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

सोमश्चमूपु सीदति ॥ ६ ॥
 ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[६७४] क्रीळुमखा न महयुः पांवत्र सोम गच्छसि ।
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

दधत्स्तान्ने सुवीद्यम् ॥ ७ ॥ ४ ॥ ऋ० ९ । २० । १-७ ॥

भा०—(१) ब्रह्मचारी (कविः) कान्तदर्शी, विद्वान् वाग्मी, मेधावी (देववीतये) ज्ञान से प्रकाशमान विद्वानों को प्राप्त होने के लिये (अग्न्याः वारेभिः) भेद के बालों से बने कम्बलों द्वारा (अव्यत) अपने को ढांपता है और (विश्वाः) समस्त (अभिसृष्टः) प्रतिस्पर्धी शत्रुओं के समान आगे आने वाली बाधाओं को (साह्वान्) पराजित करता है । अथवा (अग्न्याः) रक्षा करने वाली विद्या के (वारेभिः) आवरणों, घटों, साधनों से (अव्यत) अपने को युक्त करता है ।

(२) (सः हि) और वही (पवमानः) सर्वत्र गमन करता हुआ (जरितृभ्यः) विद्या का उपदेश करने वाले आचार्यों के लिये (सहस्रिणम्)

सहस्रों सुखों के देनेहारे (गोमन्तं) गवादि पशु से सम्पन्न धन को (इन्वति) गुरुदक्षिणा में लाकर देता है ।

(३) हे (सोम) ब्रह्मचारिन् ! तू (चेतसा) अपने ज्ञान से (विश्वानि) सबको (परिमृज्यसे) परिशोधित करता है, विवेक करता है । और (मती) मनन करने हारी शक्ति से (पवसे) तत्त्व तक पहुंचता है । (सः) वही तू (नः) हमें (श्रवः) वेदज्ञान को (विदः) प्राप्त करा ।

(४) हे (सोम) ब्रह्मचारिन् स्नातक ! (बृहद्) बड़े (यशः) यश को तू (अभि-अर्प) प्राप्त हो और (मघवद्भ्यः) बड़े धनाढ्य पुरुषों से तू (ध्रुवं) स्थिर (रथिं) धन को भी प्राप्त कर । और (स्तोतृभ्यः) सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाले गुरुओं के लिये (इषं) उनकी इच्छानुकूल अन्न, धन (आ हर) लेजा ।

(५) हे (सोम) हे स्नातक ! हे (बह्वे) ज्ञान को धारण करने हारे ! हे (अद्भुत) हे अभूतपूर्व विद्वन् ! तू (सुव्रतः) उत्तम व्रतानिष्ठ, सदाचारी (पुनानः) सर्वत्र गमन या पवित्र करता हुआ (राजा इव) स्तुति पात्र राजा के समान (गिरः) वेदवाणियों के (आ विवोशीथ) मर्म में प्रवेश कर अथवा स्तुतियों को प्राप्त कर ।

(६) (सः) वही (वह्निः) ज्ञान का नेता (सोमः) ब्रह्मचारी, शान्त, तपस्वी (अप्सु) प्रजाओं के भीतर (दुस्तरः) दुर्गम, अजेय (गभस्त्योः) ज्ञान और कर्म द्वारा (मृज्यमानः) शुद्ध पवित्र होकर (चमूपु) सत्पात्रों में, प्रजा के हृदयों में (सीदति) स्थिति पाता है ।

(७) हे सोम ! (क्रीडुः) क्रीड़ा करने वाला, किशोर-दशा में वर्त्तमान, सुप्रसन्न तू (मखः न) यज्ञ के समान (मंहयुः) पूजनीय (पवित्रं) पवित्र व्रत में (गच्छसि) आचरण करता है और (स्तोत्रे) सत्य गुण के प्रकाशक गुरु के अधीन (सुवीर्यं) उत्तम ज्ञान को और बल को (दधत्) धारण करता है ।

[६७५] यवं यवं नो अन्धसा पुष्ट पुष्टं परित्स्व ।

विश्वा च सोम सौभगा ॥ १ ॥

[६७६] इन्द्रो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः ।

नि वहिषि प्रिये सदः ॥ २ ॥

[६७७] उत नो गोविदश्ववित्पवस्व सामान्धसा ।

मन्त्रु तमोभिरहभिः ॥ ३ ॥

[६७८] या जिनाति न जीयते हन्ति शत्रूमभित्य ।

स पवस्व सहस्रजित् ॥ ४ ॥ ५ ॥ अ० ५ । ५५ । १-४ ॥

भा०—(१) हे (सोम) सबको उत्पन्न करने हारे प्राणों के प्रेरक परमात्मन् ! अन्नपते ! (नः) हमें (अन्धसा) प्राण धारण कराने हारे सामर्थ्य से (पुष्टं पुष्टं) खूब पुष्ट हुए (यवं यवं) यव तथा यव के समान अन्य धान्य भी (परि स्त्व) प्रदान कर । (विश्वा च) और समस्त (सौभगा) सौभाग्य देनेहारे पदार्थ भी प्रदान कर ।

(२) हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवन् ! (अन्धसः) जीवन धारण कराने हारे, प्राणों के प्राण, अथवा अन्धकार के नाशक तेरी (यथा स्तवः) जिस प्रकार सत्यगुण प्रकाशक स्तुति है और (यथा) जिस प्रकार तेरी प्रसिद्धि है, ठीक उसी प्रकार सम्पन्न होकर (प्रिये) सबको प्रिय लगने वाले, प्यारे, उत्तम (वहिषि) सूर्य में तेज के समान, देह में आत्मा के समान विश्व में, या उत्तम आसन पर (नि सदः) विराजमान हो ।

(३) हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! (उत) और (गोवित्) ज्ञानेन्द्रियों के वश करने हारे और (अश्ववित्) प्राणेन्द्रियों के वश करने हारे आप (अन्धसा) प्राण के धारक आप (मन्त्रु तमोभिः) शत्रु ही गुजर जाने वाले (अहोभिः) इन थोड़े से दिनों में ही (नः) हमें (पवस्व) प्राप्त हो ।

(४) (याः) जो (जिनाति) स्वयं जीत लेता है और (न जीयते) दूसरों से नहीं जीता जाता और (अभि-इत्य) सन्मुख आकर (शत्रुम्) शत्रु को (हन्ति) नाश करता है (सः) वह (सहस्रजित्) हजारों को जीतने वाला, बलस्वरूप तू (पवस्व) हमारे प्रति आ, प्रकट हो, हमें प्राप्त हो ।

[६७६] यास्त धारा मधुरच्युतोऽसृग्रमिन्द ऊतये ।

ताभिः पवित्रमासदः ॥ १ ॥

[६८०] सो अर्पेन्द्राय पीतये तिरा वाराण्यव्यया ।

सीदन्नृतस्य यानिमा ॥ २ ॥

[६८१] त्वं सोम परिस्रव स्वादिष्टा अङ्गिरोभ्यः ।

वरिवोविद् घृतं पयः ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० ६। ६२। ७-६ ॥

भा०—(१) हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! (ते) तेरी (मधुरच्युतः) मधुर रस को वहाने वाली, ज्ञान देने हारी, आनन्दप्रद (धाराः) धारण करने वाली शक्तियाँ (याः) जो (ऊतये) रचा करने के लिये हैं (ताभिः) उन से (पवित्रं) पवित्र करने हारे वायु या सूर्य, प्राण में सूक्ष्म रूप से (आसदः) विराजमान हो ।

(२) (सः) वह तू (इन्द्राय) इस अन्तरात्मा के (पीतये) पान के लिये, तृप्ति के लिये, (अव्यया) अवि अर्थात् चित्-प्रकृति के (वारा) आवरण करनेहारे आवरणों को (तिरः) दूर (अर्प) कर और (नृतस्य) प्रकाशस्वरूप सत्य के (यानिम्) आश्रय स्थान ब्रह्म को (सीदन्) प्राप्त होकर (आ) प्रकट हो ।

६८०—'तिरो रोमाण्यव्यया सिदिन्योता वनेपां' इति अ० ।

६८१—'त्वमिदौ परी' इति अ० ।

(३) हे (सोम) आत्मन् ! (त्वं) तू (अंगिरोभ्यः) ज्ञानी आत्माओं के लिये (वरिवोविद्) वरण करने योग्य सुखों, आत्मानन्दों को प्राप्त कराने द्वारा और (स्वादिष्टः) अत्यन्त अधिक रस का देने वाला होकर (घृतम्) अति प्रकाशमय (पयः) अमृत रस को (परिस्रव) प्रदान कर ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

२ ३ १ २ ३५ २४ ३ २ ३ १२ २ ३ १ २ ३ १ २
[६८२] तव श्रियां वर्ष्यस्येव विद्युतोऽग्नाश्चकिन्न उपसामिवेनयः ।
१२ २४ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २४ ३ १ २

यदापधीरभिसृष्टा वनानि च परि स्वयं चिनुपे अन्नमासनि ॥१॥

१ २ ३ २४ ३ १ २ ३ २४ ३ १ २ ३
[६८३] वातोपजूत इपितो वशां अनु तृषु यदन्ना वेविपद्विः
१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३
तिष्ठसे । आ ते यतन्ते रथ्याऽश्वथा पृथक् शब्दीस्यग्ने
३ १ २ ३ १ २
अजस्य धक्षतः ॥२॥

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २४ ३ १ २
[६८४] मेधाकारं विदधस्य प्रसाधनमग्निं हातारं परिभून् र
३ २ १२ २४ ३ १ २ ३ २४ ३ १ २ ३
मतिम् । त्वामभेस्य हविषः समानमित्त्वां मढो वृणते
२
नान्यं त्वत् ॥३॥७॥ ऋ० १० । ६१ । ५, ७, ८ ॥

भा०—(१) हे परमेश्वर ! (अग्नेः) ज्ञान प्रकाशक (तव) तेरी (श्रियः) विभूतियां (वर्ष्यस्य) मेघ की (विद्युतः इव) विद्युतों के समान (उपसां) प्रभात कालों में निकलती हुई (ईतयः) किरणों के समान

६८२—'त्रिआश्चकिन्न', 'उपसां न केतव' 'अन्नमास्ये' इति ऋ० ।

६८३—'वातोपजूत' 'अजराणि धक्षत' इति ऋ० ।

६८४—'परिमृत्यं' तमिदमेहविष्या समानमित्त्विन्महे' इति ऋ० ।

(चिकित्से) सर्वत्र जानी जाती हैं । (यत्) जब कि (ओपधीः) ओपधियों और (वनानि च) वृक्षादि वनस्पतियों में भी (अभिसृष्टः) लग कर उनमें भी व्याप्त होकर, (आसनि) मुख में (अन्नम्) अन्न के समान समस्त पदार्थों को (स्वयं) अपने भीतर लेलेता है ।

ओपधि अन्नादि और वनस्पतियों को जिस प्रकार अग्नि अपने भीतर जलाकर मानों ग्रास कर जाता है उसी प्रकार परमेश्वर सब पदार्थों को अपने भीतर लीन करता है इसी प्रकार विद्वान भी समस्त ओपधि वृक्षादि को अन्न के समान जानकर उनका खाद्यरूप से विवेक करे ।

(२) (चातोपजूनः) गन्धन आदि गुणों के ज्ञान से सम्पन्न (हृषितः) स्वयं इच्छा पूर्वक (तृपु) शीघ्र ही (वशां) कमनीय उत्तम गुण से युक्त वनस्पतियों को, (अन्ना) और अन्नों को (वेविपद्) प्राप्त कर के (वितिष्ठसे) नाना प्रकार से प्रकाशित करता है । हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! विद्वन् (अजरस्य) कभी वृद्ध न होने वाले, (धत्ततः) अग्नि के समान अज्ञान को भस्म करने हारे, (रथ्यः) रथपर चढ़े महारथी शूरवीर के छोड़े शस्त्र जिस प्रकार (पृथक्) पृथक् २ लक्ष्यों पर जाते हैं उसी प्रकार (ते) तेरे (शर्धासि) बल प्रयोग और ज्ञानरूप तेज भी (पृथक्) पृथक् २ नाना कार्यों में (आयतन्ते) लग रहे हैं, सफल हो रहे हैं ।

(३) हे (अग्ने) ज्ञानवन् (मेधाकारं) ज्ञान और धारणावती बुद्धि के उत्पादक (विदथस्य प्रसाधनम्) ज्ञान की परम उत्कृष्ट साधना के करने वाले (अग्नि) सबके आगे होकर चलने वाले दीपक के समान सर्व प्रकाशक, (होतारं) सबको अपने शरण में लेने और सब सुखों के देने वाले, (परिभूतरम्) सब और अपने सामर्थ्य या सत्ता को प्रकट करने हारे, (मतिं) मननशील (त्वाम्) तुझको ही (अर्भस्य) छोटे और (महः) बड़े, थोड़े और बहुत (हविषः) ज्ञान के लिये भी (समानम्—

हृत्) समान रूप से ही (वृणते) सब वरण करते हैं, चुनते हैं (स्व्
अन्यं न) तुझ से दूसरे को नहीं ।

[६८५] पुरूरुणा चिद्धवस्त्यवा नूनं वां वरुण ।
३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २
२ ३ १ २ ३ २

मित्र वंसि वां सुमतिम् ॥१॥

[६८६] ता वां सम्यग्दुहाणवमश्याम धाम च ।
१ २ ३ १ ३ १ ३ १ २

वयं वां मित्रा स्याम ॥२॥

[६८७] पानं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा ।
३ २ ३ १ २ ३ १ २

साह्याम दस्वून्तनूभिः ॥३॥ ८॥ ऋ० २ । ७० । १-३ ॥

भा०—(१) हे मित्र ! हे वरुण ! (वां) आप दोनों का (अयः)
रक्षण सामर्थ्य और ज्ञान (पुरूरुणा) बहुत अधिक (चित् हि) ही
(अस्ति) है । (नूनम्) निश्चय से (वां) आप दोनों ही अपनी (सुमतिम्)
उत्तम ज्ञान को (वंसि) देते हो ।

(२) (ता) वे दोनों (वां) आप लोग (अद्दुहाणा) किसी का दोह
तहीं करते । हम आपके (इपम्) प्रेरण बल, अज्ञ और संकल्प बल और
(धाम) धारण सामर्थ्य तेज को (अश्याम) उपभोग करें, प्राप्त करें
और (वयं) हम (वां) आपके (मित्रा) मित्र (स्याम) होकर रहें ।

(३) आप दोनों (मित्रा) हमारे स्नेह करने वाले होकर (पायुभिः)
अपने रक्षकों या रक्षा साधनों से (उत) और (सुत्रात्रा) उत्तम त्राण-
कर्ता पालकों द्वारा (नः) हमें (त्रायेथां) बचावें । हम (तनूभिः) अपने
शरीरों द्वारा (दस्वून्) नाशकारी पदार्थों और पुरुषों को (साह्याम)
बलपूर्वक पराजित करें ।

मित्र और वरुण से प्राण और अपान, सभापति और सेनापति, राजा और मन्त्री समझने चाहिये ।

[६८८] ^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३} उच्चष्टनाजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः ।

^{१ २ ३ २ ३ २} सोममिन्द्र चमूसुतम् ॥१॥

[६८९] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अनु त्वा रादसी उभे स्पर्धमान मदेताम् ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} इन्द्र यद्दस्युहाभवः ॥२॥

[६९०] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} वाचमष्टापदीमह नवस्रक्तिमृतावृधम् ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} इन्द्रात्परि तन्वं मम ॥३॥६॥ अ० ८। ७६। १०-१२ ॥

भा०—(१) हे (इन्द्र) आत्मन् ! (चमूसुतम्) सेना दलों में अभिषेक को प्राप्त पदाधिकारी के राजा या सेनापति के समान इन्द्रियों, प्राण और अपान रूप चमूसों में उत्पन्न हुए (सोम) सबके प्रेरक आत्मा के बल वीर्य और प्राण को (पीत्वा) पान करके (ओजसा) बल और कान्ति सहित (उच्चिष्टन्) उठते हुए आप (शिप्रे) अपने हनुस्वरूप ज्ञान और कर्म की शक्तियों को (अवेपयः) गति देते हो । परमात्म-पक्ष में हनु यावापृथिवी ।

(२) (यद्) जब तू (दस्युहा) विनाशक पदार्थों और बाधक विघ्नों का शत्रुओं के समान नाश (अभवः) करता है । हे (स्पर्धमान) सब से आगे बढ़ने हारे (इन्द्र) इन्द्रियों के स्वामिन् ! आत्मन् ! (त्वा अनु) तेरे पीछे २ तेरी शक्ति से (उभे रादसी) दोनों प्राण और अपान या शरीर के ऊपर और नीचे के दोनों भाग (मदेताम्) आनन्द अनुभव करते हैं ।

(३) मैं (अष्टापदी) आठ चरण वाली (नवस्रक्ति) नौ प्रकार की रचनावली (अतावृधम्) यज्ञ और सत्य की वृद्धि करने वाली (तन्वं)

विस्तृत (वाचं) वाणी का (इन्द्रान्) इन्द्रस्वरूप अपने आचार्य या उस परमगुरु परमेश्वर से (परि ममे) ज्ञान प्राप्त करता हूँ ।

अष्टापदी चार वेद और चार उपवेद ये वाणी के आठपद अर्थात् विद्या के आश्रय स्थान हैं । नवस्रक्लिः—नव स्रक्लयः रचना यस्याः । १ शिक्षा, २ कल्प, ३, व्याकरण, ४ निघण्टु, ५ निरुक्त, ६, छन्दः, ७ ज्योतिष, ८ धर्मशास्त्र, और ९ मीमांसा । ये नौ प्रकार की रचनाएं वेदों के आशय स्पष्ट करने के लिये हैं ।

[६६१] ^{१ २ ३ २ ३ २ १२ २२} इन्द्राग्नी युवामिमेऽभि स्तोमा अनूपत ।

^{१ २ ३ २} पिवतं शम्भुवा सुनम् ॥१॥

[६६२] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} या वां सन्ति पुरुस्पृहा नियुतो दाशुपे नरा ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २} इन्द्राग्नी ताभिरागनम् ॥२॥

[६६३] ^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २} ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं सुतम् ।

^{१ २ ३ १ २} इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥३॥ १०॥ ऋ० ६ । ६३ ७-६ ॥

भा०—(१) हे (इन्द्राग्नी) विद्युत् और सूर्य के समान सभापति और सेनापति ! (युवाम्) आप दोनों के (इमे) ये (सोमाः) प्रशंसा युक्त कार्य (अनूपत) वर्णन करते हैं । आप (शम्भुवा) सबके सुख और कल्याण का कार्य करने हारे (सुतम्) इस दुग्ध आदि रस एवं श्रोपधियों के रस और ज्ञान को (पिवतम्) पान करो । इन्द्राग्नी, से प्राण और अपान, गुरु शिष्य, सभापति और सेनापति सूर्य और विद्युत् आदि का ग्रहण उचित है ।

(२) हे (नरा) सबके नेताओ ! (दाशुपे) सबको शान्ति सुख देने हारे नरपति के निमित्त (वां) आपकी (या) जो (पुरुस्पृहाः) सबको प्रिय लगने वाली (नियुतः) अनेक निश्चित मतियें (सन्ति) हैं, हे

(इन्द्राग्नी) सूर्य विशुन् के समान ज्ञानोपदेश करने हारे अध्यापक और उपदेशक महोदयो ! आप (ताभिः) उनके सहित (आगतम्) प्रजाओं में आओ ।

(३) हे (नरो) दोनों नेताओ ! (ताभिः) आप पूर्वोक्त विवेचक शक्तियों के साथ ही (इदं) इस (सुतं) उत्पादित (सवनं) यज्ञ में (सोम-पीतये) उत्तम आनन्दप्रद, सोमरस, या धर्मपथ प्राप्त कराने के लिये (उप-सां गच्छतं) आइये ।

इति तृतीयः खण्डः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २}
[६६४] अर्पा सोम द्युमत्तमोभिद्रोणानि रारुवत् ।

^{२ ३ २ ३ २ ३ २}
सोदन्यानौ वनेष्वा ॥१॥

^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
[६६५] अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

^{३ २ ३ १ २}
सोमा अर्पन्तु विष्णवे ॥२॥ ✓

^{१ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
[६६६] इपं ताकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः ।

^{१ २ ३ १ २}

आपवस्व सहस्रिणम् ॥३॥११॥ अ० ६ । ६४। १६-२१ ॥

भा०—व्याख्या देखो अविक्ल सं० [५०३] पृ० २५६।

(१) (इन्द्राय) आत्मा के लिये, (वायवे) प्राण के निमित्त, (वरुणाय) अपान के लिये (मरुद्भ्यः) सैन्य ज्ञानेन्द्रियों और प्राणेन्द्रियों के लिये और (विष्णवे) उस सर्व व्यापक प्रजापति परमात्मा के साक्षात् ज्ञान के लिये (अप्साः) नाता ज्ञानों और कर्मों को व्याप्त करने हारे (सोमाः) आनन्दरस और विद्वान् जन (अर्पन्तु) प्राप्त हों ।

६६४—'सोदन् द्येनो न योनिमा, ६६५—'सोमा अर्पन्ति' इति अ० ।

(३) हे (सोम) परमात्मन् ! आप (नः) हमारे (तोकाय) सन्तति को और (अस्मभ्यं) हमें (विश्वतः) सब ओर से (ह्यं) अन्न और (सहस्रिणम्) सहस्रों सुखों के देने वाले बलशाली प्राणात्मा को (आ पवस्व) प्रकाशित करो ।

[६६७] सोम उ ष्याणः सोतृभिरधिष्णुभिरवीनाम् ।

अश्वथेव हारिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥१॥

[६६८] अनूपे गोमान् गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः ।

समुद्रं न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥२॥१२॥

अ० ६ । १०७ । ८-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५१५] २५५ ।

(२) जिस प्रकार (गोमान्) गोपाल (गोभिः) गौश्रों के साथ उनको चराने के लिये (अनूपे) निम्न देश में (अक्षाः) जाता है उसी प्रकार (सोमः) व्यापक आनन्दरस (दुग्धाः) दुग्ध के समान ज्ञानपूर्ण आनन्दमय धाराओं के साथ निम्न, हृदयदेश में चरित होते हैं । (संवरणानि) जल जिस प्रकार (समुद्रं न) समुद्र की तरफ बहते हैं उसी प्रकार उत्तमरूप से वरण करने योग्य, सेवन करने योग्य आनन्दरस भी समुद्ररूप विज्ञोभ रहित आत्मा में प्रकट होते हैं और (मन्दी) आनन्द में मग्न आत्मा (मदाय) अग्नि हर्ष प्राप्त करने के निमित्त (तोशते) आगे बढ़ता है ।

[६६६] यत्सोमो चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु ।

तन्नः पुनान आभर ॥१॥

[१००] वृषा पुनान आयूपि स्तनयन्नधि वहिषि ।

हरिः सन् यानिमासदः ॥२॥

[१००१] युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च साम गोपती ।

ईशाना पिप्यत धियः ॥३॥१३॥ अ० १। १६। १, २, २, ॥

भा०—(१) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! (पुनानः) तू सर्वव्यापक परमेश्वर (नः) हमें (यत्) जो (चित्रं) संग्रह करने योग्य उत्तम अद्भुत (दिव्यं) दिव्यगुण सम्पन्न, (पार्थिवम्) इस पृथ्वी पर (वसु) धन है (तत्) वह (आभर) प्राप्त करा ।

(२) हे (सोम) परमेश्वर ! तू (वृषा) सब सुखों का वर्षक (अधिर्वाहिषि) यज्ञ में, इस देह में, अन्तरिक्ष में, (स्तनयन्) गर्जते मेघ के समान उपदेशकरता हुआ (आयूपि) समस्त प्राणियों की आयुओं को (पुनानः) पुनः नया, शुद्ध पवित्र हराभरा करता हुआ (हरिः सन्) दुःखहारी होकर (योनिम्) हृदयदेश में (आसदः) आ विराजमान हो ईश्वर, पर्जन्य, प्रजापति, सोमरस और योगज ब्रह्मानन्दरस और राजा का समान रूप से वर्णन है । राजा के योनि अर्थात् आश्रय प्रजाएं हैं ।

(३) हे (सोम) सर्वोत्पादक तू और (इन्द्रः च) ऐश्वर्यवान् दोनों (गोपती) इन्द्रियों, प्रजाओं और राशियों के स्वामी (युवं हि) आप दोनों (स्वपती स्थः) सब सुख और ज्ञान, ज्योतिर्मय पिण्डों और धौलोक के स्वामी हो । आप (ईशाना) सबके ईश्वर हमारे (धियः) बुद्धियों को (पिप्यत) बढ़ाइये ।

सोम=परमात्मा इन्द्र=आत्मा अथवा इन्द्र=परमात्मा सोम आत्मा । आत्मा, और परमात्मा, जीव और मन, वायु और सूर्य, राजा और मन्त्री आदि का समान रूप से वर्णन है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

- [१००२] इन्द्रा मदाय वावृध्रे शवसे वृत्रहा नृभिः ।
 तामेन्महत्स्वाजपूतमर्भे हवामहे सवाजिपु प्र ना विषत् १
- [१००३] असि ढि वीर सेन्याशसि भूरि पराददिः । असि दभ्रस्य
 चिद्वयो यजमानाय शिक्तसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥ २ ॥
- [१००४] यदुदीरत आजयो धृष्णव धीयते धनम् । युङ्क्त्वा
 मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधाऽस्मा इन्द्र वसौ दधः
 ॥ ३ ॥ १४ ॥ ऋ० १ । ८१ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० [४११] पृ० २०६ ।

(२) हे वीर ! (सेन्यः असि) तू सेना का हितकर है । और (भूरि) ऋतु (पराददिः) शत्रुओं को पराजय देने हारा है । और तू (दभ्रस्य) स्वरूप थोड़े सामर्थ्य वाले निर्बल को (चित्) भी (वृधः) बढ़ाने हारा (असि) है । तू (सुन्वते) सुखों के उत्पन्न करने हारे (यजमानाय) यज्ञ के कर्ता, या करदाताओं को (ते भूरि वसु) तू अपना बहुत धन (शिक्तसि) देता है । जो 'इन्' अर्थात् स्वामी या नेता के सहित होती है वह 'सेना' कहाती है । इन्द्रियगण आत्मा नेताके संग होने से सेना कहाती हैं । उनका हितकर, उनमें उत्तम आत्मा 'सेन्य' है । वह काम क्रोध आदि का पराभव करके स्वरूप (दभ्र) दहराकाश को भी विशाल करता है और यजमान स्वरूप मुख्य प्राण को नाना प्रकार के ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों द्वारा प्राप्त भोग्य वस्तुर्प देता है ।

(३) इसकी व्याख्या देखिये अवि० सं० [४१४] पृ० २११ ।

- [१००५] स्वादोरिक्त्वा विषूवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः । या इन्द्रेण
 सयावरावृष्णा मदन्ति शोभथा वस्वारिनु स्वराज्यम् ॥१॥

१००५—'मदन्ति शोभसे' इतिः ऋ० ।

के लिये (वस्त्रीः) देह में बसी इन्द्रिय-वृत्तियां (अस्य) इसके (पुरुषि) बहुत से (व्रतानि) कर्मों और गुणों को (स्वराज्यम् अनु) आत्मशक्ति के क्षेत्र की वृद्धि के लिये (सश्विरे) सेवन करती हैं, पालन करती हैं, स्वीकार करती हैं ।

इति पञ्चमः खण्डः ।

१ २ ३१२ २२ ३ १२ २२ ३ २
[१००८] असाव्यं शुर्मदायाप्सु दत्ता गिरिष्ठाः ।

३ २४

३ १ २

श्येनो न योनिमासदत् ॥ १ ॥

३ १२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १२ २२ ३ २

[१००९] शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभिः सुतम् ।

१ ३ ३ २ ३ १ २

स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २ ॥

२ ३ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २

[१०१०] आदीमश्वन्न हेतारमशुशुभन्नमृताय ।

२ ३ १ २ ३ १ २

मधो रसं सधमादे ॥३॥१६॥ ऋ० ६ । ६२ । ४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७३] पृ० २३८ ।

(२) (देववातम्) देव अर्थात् इन्द्रियों से प्राप्त (अप्सु धौतं) ध्यानवृत्तियों, या प्राणों द्वारा संस्कृत, (नृभिः सुतम्) साधक पुरुषों, या प्राणों द्वारा उत्पादित, (शुभ्रं) शुद्ध, कान्तिस्वरूप, (अन्धः) जीवन धारण कराने हारे आत्मानन्दरस का (गावः) सूक्ष्म इन्द्रिय-वृत्तियें अथवा ज्ञानी पुरुष (पयोभिः) अन्न-रसों के साथ २ (स्वदन्ति) आस्वाद लेते हैं ।

(३) (आत्) तदनन्तर (अश्वं न) जिस प्रकार राजा लोग युद्ध में अपने अश्व को अपनी रक्षा के लिये नाना प्रकार के अस्त्रों और कवचों से सुसज्जित करते हैं उसी प्रकार (हेतारं) सब के प्रेक (ईम्) इस

(मधोः रसं) मधुर आत्मसम्बन्धी आनन्दमय रस को (सधमादे) शरीर रूप एकत्र आनन्द प्राप्त करने के स्थान में (अमृताय) मोक्ष या अमृतत्व प्राप्त करने के लिये (अशूशुभन्) नाना साधनाओं से सुशोभित करते हैं ।

३ २ ३ २ ३२३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१०११] अभिद्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम् ।

१२ २२ ३ १ २

विकोशं मध्यमं युव ॥ १ ॥

१ २ ३ २२ ३ २ ३ २३ ३ २ ३ १ २

[१०१२] आवच्यस्व सुदत्त चम्बोः सुतो विशां वह्निर्न विशपतिः ॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २३ ३ १ २ ३ १ २

वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपां जिन्वन् गविष्टये धियः ॥२॥

॥ १७ ॥

अ० ६ । १०८ । ६-१० ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [५७६] पृ० २६२१

(२, ३) हे (सुदत्त) उत्तम बलसम्पन्न सोम ! (विशां) प्रजाओं की (वह्निः) सुव्यवस्था का भार वहन करने हारे ! आत्मन् (चम्बोः) दोनों सेनाओं के बीच (सुतः) विराजमान (विशपतिः न) राजा के समान आप प्रजापति, परमात्मा (गविष्टये) गतिशील पशुओं, प्राणियों और पृथ्वी के समस्त जीवों के हित के लिये (अपः जिन्वन्) जलों को नीचे गिराते हुए (दिवः) अन्तरिक्ष से (रीतिं) अन्नों के देने हारी, विशाल (वृष्टिं) जलवृष्टि को (आवच्यस्व) प्रेरित कर और (धियः) उत्तम बुद्धियों को (पवस्व) प्रेरित कर मेघ रूप प्रजापति पक्ष में—धौ और पृथ्वी 'चमू' हैं । अध्यात्म पक्ष में—ज्ञानभूमि और कर्मभूमि, या ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रिय तदनुसार मस्तक के ऊपर के और नीचे के दोनों भाग चमू हैं । धर्ममेघ समाधि में प्रकट होने वाली ब्रह्मरस की वृष्टि और अपः=कर्म अथवा लिङ्ग शरीरमय प्राणों और धियः=ध्यानवृत्तियों को प्रेरित करता हुआ आत्मा, गौः=इन्द्रियों के हित के लिये या स्वयं वृषभरूप आत्मा के हित के लिये सोम=शुक्र कान्तिरूप में प्रकट होता है ।

३ १२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१०१३] प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नतस्य दीधितिम् ।

२ ३ ५ १ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१०१४] उप त्रितस्य पाप्योऽऽभक्त यद् गुहा पदम् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

यज्ञस्य सप्तधामभिरध प्रियम् ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१०१५] त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्टेऽरयद्रयिम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

मिमीते अस्य योजना वि सुकतुः ॥ ३ ॥ १८ ॥

ऋ० ६ । १०२ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [१७०] पृ० २१५ ।

(२) (यत्) जब (त्रितस्य) मन, वाक्, काय तीनों से साधना करने हारे योगी आत्मा के (पाप्योः) पापाण के समान कुचल डालने वाले, प्राण और अपान दोनों के बीच में प्रकट होकर वह आनन्दरस (गुहा) भीतरी आकाशगुहा में (पदं) स्थिति को (उप अभक्त) प्राप्त होता है, तब (यज्ञस्य) यज्ञस्वरूप आत्मा के (सप्तधामभिः) सातों ऊपर के धारणशील प्राणों से (प्रियम्) आनन्दकारी, उस आत्मानन्दरस का आस्वादन किया जाता है ।

(३) (त्रितस्य) साधक आत्मा की (धारया) धारणा से केवल (त्रीणि) तीन रसस्थान प्रकट होते हैं । और उन तीनों (पृष्टेषु) रस के सेचक मुख्य केन्द्रों में आत्मा अपने (रयिम्) कान्तिमय ऐश्वर्य को (ऐरयत्) प्रकट करता है । (सुकतुः) उत्तम योगी साधक (अस्य) इस आत्मा के (योजना) तीनों योग द्वारा-जागृत स्थानों को (वि मिमीते) विशेष रूप से जान लेता है और साध लेता है । तीन स्थान-१ ब्रह्मरन्ध्र,

२ आज्ञाचक्र या सोमचक्र और ३ मणिपूर या स्वाधिष्ठान चक्र अथवा मूलाधार, हृदय और भ्रूमध्य ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[१०१६] पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

इन्द्राय साम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१०१७] त्वां रिहन्ति धीतयो हरिम्पवित्र अद्बुहः ।

३ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्माण ॥ २ ॥

१ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३

[१०१८] त्वं द्यां च महिन्नत पृथिवीं चाति जग्धिषे ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ ३ ॥ १६ ॥

अ० ६ । १०० । ६, ७, ६ ॥

भा०—(१) हे सोम ! (वाजसातये) ज्ञान प्राप्ति के लिये (धारया) धारणावती बुद्धि द्वारा निरन्तर (सुतः) साक्षात् किया गया, प्रेरित या उत्पन्न किया गया, तू (मधुमत्तरः) बराबर क्रम से अधिक २ आनन्द और सुख का देने हारा होकर (इन्द्राय) इन्द्रियों के स्वामी आत्मा और (विष्णवे) सर्वव्यापक परमात्मा के प्रकाश के लिये और (देवेभ्यः) विद्वानों के हितार्थ या प्राणों के ज्ञान के लिये (पवस्व) प्रकट हो ।

(२) हे (पवमान) व्यापक रसस्वरूप ! (मातरः) गौण (जातं) उत्पन्न हुए (वत्सं न) बच्चे को जिस प्रकार (रिहन्ति) चाटती हैं । उसी प्रकार (धीतयः) ध्यानवृत्तियां (विधर्माणि) विशेष धारणा के स्थल, (पवित्रे) पवित्र शुद्ध धारणास्थान में (अद्बुहः) एक दूसरे का घात-प्रतिघात या निरोध न करती हुई (हरिं) सब दुःखों के हारक (त्वां) तुम्हको उत्सुकता से (रिहन्ति) आस्वाद लेती हैं तेरे आनन्द अनुभव करती हैं ।

(३) हे (महिद्यत) महान् कर्मों के करने वाले परमात्मन् ! आप (द्यां) आकाश या सूर्य, और (पृथिवीं च) पृथिवी दोनों लोकों को (अति जम्भिषे) पार करके भी दोनों को ग्रहण किये हुए हो । हे (पवमान) सर्वव्यापक ! (महित्वना) अपनी महिमा से आप (द्रापिं) रूपवान् जगत् को कवच को वीरपुरुष के समान (प्रतिमुञ्चथाः) धारण कर रहे हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१०१६] इन्द्रुर्वाजी पवते गोन्योद्या इन्द्रे सामः सह इन्वन्मदाय ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

हन्नि रक्षो वाधने पर्यरतिं वरिवस्क्रुणवन्वृजनस्य राजा ॥१॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१०२०] अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्रि दुग्धः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २

इन्द्रुग्निन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥२॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ ३ १ २ ३ २ २

[१०२१] अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्स्वेन रसेन पृञ्चन् ।

२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

इन्द्रुद्धर्मरायुतुथा वसानो दश क्षिपो अन्यत सानो अन्ये

॥ ३ ॥ २० ॥

ऋ० ६ । ६७ । १०-१२ ॥


भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५४०] पृ० २७० ।

(२) (अध) और (अद्रिदुग्धः) दूध साधनों द्वारा या धर्ममेघ द्वारा उत्पन्न किया गया (इन्द्रुः) आनन्दरूप सोमरस (मध्वा) ज्ञानसम्पन्न, मधुर, मनोहर (धारया) धारणा द्वारा (पृचानः) संयुक्त होकर (रोम) व्यवधायक पदार्थों को (तिरः) पार करके (पवते) बहता या प्रकट होता है । वह (इन्द्राय) आत्मा की (सख्यं) मित्रभाव, प्रेम या आनन्दरूपता को (जुषाणः) प्राप्त करता हुआ (देवः) प्रकाशमान, (मत्सरो) आनन्द हर्षस्वरूप होकर (देवस्य) दृष्टा, आत्मा के (मदाय) हर्ष और आनन्द का कारण होता है ।

(३) (स्वेन रसेन) अपने आनन्द रस से (देवान्) विद्वानों या इन्द्रियों को (पृच्छन्) तृप्त करता हुआ (देवः) सुख शान्तिप्रद, तेजोमय वीर्य, (पुनानः) स्वतः स्वच्छ और पवित्र एवं व्यापक होकर (व्रतानि) सब कर्मों को (अभिपवते) पवित्र कर सर्वत्र प्रकट होता है । (इन्द्रः) आत्मा (ऋतुथा) प्रत्येक ऋतु के अनुकूल, या प्राणों के बल से (धर्माणि वसानः) धारण-सामर्थ्य या नाना धर्मों अर्थात् गुणों को सम्पादन करता हुआ (अव्ये सानो) न गतिशील, प्राणमय, स्थिर सानु अर्थात् सुखग्राहक अन्तःकरण में (दश क्षिपः) दशों क्षिप्रगति करनेहारी इन्द्रियों को (अव्यत) प्राप्त होता है ।

ऊर्ध्वरेता योगियों की साधना से वीर्य ऊर्ध्वगामी होकर उन में सब ऋतुओं में सहनशीलता उत्पन्न करता और इन्द्रियों में बल पैदा करता है ।

इति षष्ठः खण्डः ।



[१०२२] आ ते अग्न इधीमदि द्युमन्त देवाजरम् । यद्धस्या ते
^{१ २} ^{३ १ २} ^{३ १ २} ^{२ ३ २ ३}
 पनयिषी समिहीदयनि धवीषं स्तोतृभ्य आभर ॥ १ ॥

[१०२३] आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । सुश्वन्द्र
^{१ २} ^{३ २ ३ २} ^{३ १ २} ^{१ २ ३}
 दस्य विशपते हव्यवाट् तुभ्य हूयत इपं स्तोतृभ्य आभर ॥

[१०२४] आभे सुश्वन्द्र विशपत दवी श्रीणीप आसनि । उतो न
^{१ २} ^{३ १ २} ^{३ १ २} ^{३ २ ३ १ २}
 उत्पुपूया उक्थेषु शवसस्पत इष स्तोतृभ्य आभर ॥ ३ ॥ २ ॥

अ० ५। ६। ४, ५, ६ ॥

भा०—(१) हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मन् ! हे (देव) सबके प्रकाशक ! (ते) तेरी प्राप्ति के निमित्त या तुझ से हम

१०२३—'शोचिषस्पते' । १०२४—'अभे सुश्वन्द्र सर्पिपो' इति अ० ।

(एमुन्तं) प्रकाशित, (अजरम्) न जीर्ण होने वाले, अमर, नित्य अपने आत्मा को (इधीमहि) प्रकाशित करते हैं । (यत्) और जो (हविः) मध्य आकाश में (पनीयसी) व्यवहार करने योग्य, अतिस्तुत्य (समिद्) समान रूप से प्रकाशित होने वाली सूर्य रूप ज्योति (दीदयति) चमकती है । (स्यः) वह भी (ते) तेरा ही प्रकाश है । इस कारण हे परमात्मन् ! (स्तोतृभ्यः) सत्य गुणों के प्रकाशक विद्वानों को आप ही (इपं) उत्तम ज्ञान और अन्न (आ भर) प्राप्त कराइये ।

(२) हे (ज्यातिपः स्पते) सूर्य आदि ज्योतियों के परिपालक परमात्मन् ! (शुक्रस्य) शुद्ध कान्तिस्वरूप (ते) आपको (ऋचा) ऋग्वेद के ज्ञान द्वारा (हविः) समर्पण करने योग्य इस आत्मा रूप हवि को (तुभ्यं) आपके लिये (आहूयते) सब प्रकार से अर्पित किया जाता है । हे (सुः चन्द्र) सबको उत्तम सुख, आह्लाद देने हारे ! हे (दस्म) सबके भीतर व्याप्त, वा विघ्नों के हर्ता ! हे (हव्यवाट्) समस्त संसार को वहन करने हारे ! हे (विशपते) समस्त प्रजाओं के स्वामी (स्तोतृभ्यः) सत्य गुणों के प्रकाशकों के निमित्त (इपम्) अन्न और उत्तम ज्ञान प्रेरणा को (आ भर) प्राप्त कराइये ।

(३) हे (सु-चन्द्र) सर्व उत्तम ऐश्वर्यों के स्वामिन् ! सर्वसुखकारक, (विशपते) प्रजेश्वर ! हे (शवसः स्पते) सर्वशक्तिमन् ! सब बलों के स्वामिन् ! आप (उभे) दोनों (दर्वी) अज्ञान का दलन करने हारे ज्ञान और कर्म या सूर्य और पृथिवी को (आसनि) अपने मुखस्थानिय तप में (श्रीणीपे) परिपक्व करते हो और (उक्थेषु) प्रशंसा करने योग्य धर्म-युक्त कर्मों में, यज्ञों में (नः) हमें (उत्पुपूर्याः) उत्तम फलों द्वारा पूर्ण करें (इपं स्तोतृभ्यः, आ भर) आप विद्वान् सत्यज्ञानी पुरुषों को अन्न और ज्ञान प्राप्त कराइये ।

[१०२५] इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् ।

३ १२ ३ १२ ३ १२

ब्रह्मकृत विपश्चित पनस्यवे ॥१॥

[१०२६] ^{१२ २२ ३ १ २ ३ १२ २२} त्वामिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः ।

^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} विश्वकर्मा विश्वदेवा महान् असि ॥२॥

[१०२७] ^{३ २ ३ १ २ ३ २ १ ३ ३ २ ३ २} विश्राजञ्ज्यातिषा स्वाऽऽरगच्छो रोचनन्दिवः

^{३ १ २ ३ १ २} देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥३॥२२॥ ऋ० ६।१८।१-३॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३८८] पृ० २०० ।

(२) हे इन्द्र ! (त्वम्) आप (अभिभूः) सबसे अधिक सामर्थ्यवान् (असि) हो । (त्वं) आप ही (सूर्य) सूर्य को (अरोचयः) प्रकाशित करते हो । और आप ही (विश्वकर्मा) समस्त संसार के बनाने वाले (विश्वदेवः) सबके प्रकाशक और उनके उपास्य देव सब ऐश्वर्यों के दाता, सब देवों के देव और (महान्) सबसे बड़े पूजनीय (असि) हो ।

(३) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! आप (दिवः) सूर्य आदि समस्त दैत्यों के (रोचनं) प्रकाशक, आनन्दमय, सात्विक (ज्योतिषा) ज्योति से (विश्राजन्) विशेष रूप से देदीप्यमान होकर (स्वः) आनन्दमय मोक्ष में (अगच्छः) व्याप्त हो । (देवाः) सब विद्वान्गण और तेजस्वी पृथिवी आदि लोक भी (ते) तेरी (सख्याय) मित्रता के लिये (येमिरे) प्रयत्न करते हैं ।

[१०२८] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} असावि सोम इन्द्र त शनिष्ठ धृष्णावागहि ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} आ त्वा पृणक्तिन्द्रिय रजः सूर्यो न राश्मिभिः ॥१॥

[१०२९] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} आ तिष्ठ वृत्रहन् रथ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी ।

^{३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} अर्वाचीनं सुने मना प्राधा कृणोतु चगुना ॥२॥

[१०३०] ^{२ ३ १ २ २ ३ १ २} इन्द्रमिद्धरी वहता प्रतिधृष्टशवसम् ।

^{१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २} ऋषीणां सुष्टुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम् ॥३॥२३॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४७] पृ० १८० ।

(२) हे (वृत्रहन्) विघ्नो के नाशक ! (रथम्) रमणीय, अत्यन्त प्रिय, रस रूप हृदय वा आत्मा में, रथमें वीर पुरुष के समान (आ तिष्ठ) आ, विराज । (ते) तेरे (हरी) हरण करनेहारे, भजन करने वाले मन और वाणी दोनों को (ब्रह्मणा) मन्त्र द्वारा (युक्ता) वाणी (वसुना) मनोहर ध्यान द्वारा हमें (ते) तेरे (अर्वाचीनां) अभिसुख (सु-कृणोतु) उत्तम प्रकार से करे जिससे तेरा साक्षात् करें ।

(३) (हरी) हरण करने हारे मन और वाणी, ज्ञान और कर्म दोनों (अप्रतिघृष्ट-शवसं) अदम्य और असह्य, बलवान् (इन्द्रं) आत्मा को (ऋषीणां) विद्वानों या इन्द्रियों की (सुस्तुतीः) उत्तम स्तुतियों और अभिलाषाओं को और (मानुषाणां) मनुष्यों के (यज्ञम्) यजन योग्य, उपास्य और संगति करने योग्य परमेश्वर को (उप वहतः) प्राप्त कराते हैं ।

इति सप्तमः खण्डः ।

इति द्वितीयोऽध्यायः ।

इति तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥

इति षष्ठोऽध्यायः ॥

अथ चतुर्थः प्रपाठकः (प्रथमोऽध्यायः)

अथ सप्तमोऽध्यायः



ऋषिः—१ (१) आकृष्टामापाः (२, ३) सिकतानिवावरी च । २, ११
ह्रस्वः । ३. मेधातिथिः । ४. हिरण्यस्तूपः । ५. अवत्सारः । ६. जमदग्निः । ७. कुत्स

भा०—(१): (यज्ञस्य) यज्ञ, जीवन और समस्त ब्रह्माण्ड का (ज्योतिः) प्रकाशक (प्रियम्) सबसे उत्कृष्ट (मधु) मग्न करने योग्य, योग समाधि द्वारा साक्षात् करने योग्य, (देवानां पिता) २४ देवों का पालक और (जनिता) उत्पादक, (विभूवसुः) सर्वव्यापक होने से स्व के भीतर वास करने और सबको वास कराने हारा, (स्वधयोः) अपनी सत्ता से देह और विद्या को धारण कराने वाले, जीवात्मा और प्रकृति इन दोनों के भीतर (अपीच्यम्) अति सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक (मादिन्तमः) सबसे अधिक आनन्दमय और (मत्सरः) सबके हृदयों में आनन्द को बहाने वाला (इन्द्रियः) ऐश्वर्यमय, अथवा इन्द्ररूप जीव आत्माओं का हितकारी, (रसः) सर्वव्यापक, रसस्वरूप परमात्मा (रत्नं) समस्त ज्योतिर्मय पिण्ड, हिरण्यगर्भ को या अति रमण योग्य सुखमय मोक्ष को (दधाति) धारण करता है ।

(२) (वाजी) सर्वशक्तिमान्, ऐश्वर्यवान् (दिवः पतिः) द्यौलोक का या सूर्यादि दिव्य पिण्डों का भी परिपालक, उनको नाश होने से बचाने वाला स्वामी, (शतधारः) सैकड़ों धारण-शक्तियों से युक्त, (विचक्षणः) समस्त संसार को देखने वाला, (अभिक्रन्दन्) नाद करता हुआ, गर्जता हुआ (कलशेषु) कलशों में, जीवधारियों के देहों में आत्मा के समान (अर्पति) व्याप्त रहता है । और वही (हरिः) सबके कष्टों और तापों को हरने वाला, सबको गति देने हारा (मित्रस्य) अपने स्नेहपात्र आत्मा के (सदनपु) निवासगृह, देहों में भी (सीदति) व्यापक होकर विराजता है । वही (वृषा) सब सुखों का वर्षक (सिन्धुभिः) विषयों के प्रति द्रुत गति से जाने वाली (अविभिः) तन्मात्राओं या इन्द्रियों या प्राण शक्तियों द्वारा, धारणाओं द्वारा (मर्मज्ञानः) चार २ शोधा, या चार २ खोजा, या साक्षात् परिष्कृत किया जाता है । :

(३) हे आत्मन् ! तू (सिन्धूनां) उन सूक्ष्म इन्द्रिय शक्तियों प्राणों के (अग्ने) आगे ही (पवमानः) ज्योतिःस्वरूप होकर प्रकट होने वाला (वाचः अग्ने) वाणी के भी आगे और (गोपु) प्राणेन्द्रियों के भी (अग्निः) नेता के समान (अग्ने) आगे होकर (गच्छसि) जाता है अर्थात् वह उनसे भी परे रहकर उनका ग्राह्य विषय नहीं होता । (वाजस्य) ज्ञान और बल का स्वामी प्राण के भी (अग्ने) आगे (महद् धनं) बड़े भारी आनन्दरूप कोप को (भजसे) धारण करता है और (सु आयुधः) उत्तम सत्संग साधनों से युक्त या उत्तम शक्तियों से सज्ज होकर हे (सोम) सबके प्रेरक, आत्मन् ! (सोतृभिः) योगियों द्वारा तू (सूयसे) साक्षात् किया जाता है ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ४ ३ २

[१०३४] असृजत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया ।

३ १ २ ३ १ २ २ २

शुक्रासो वीरयाशत्रः ॥१॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१०३५] शुभमाना क्रतायुभिर्मृज्यमाना गभस्त्योः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २

पवन्ते वारं अव्यये ॥२॥

१ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१०३६] ते विश्वा दाशुष वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा ।

१ २ ३ १ २ २ २

पवन्तामान्तरिच्या ॥३॥२॥ अ० ६ । ६४ । ४-६ ।

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४६२] पृ० २२४ ।

(२) (ऋतायुभिः) सत्य, यज्ञ और आत्मा की कामना करने वाले शिष्य साधकों द्वारा (शुभमानाः) स्तुति किये गये, प्रार्थना किये गये या उनसे शोभा प्राप्त करने वाले, (गभस्त्योः) अन्धकार को दूर करने हारे, ज्ञान और योगाभ्यास दोनों से (मृज्यमानाः) अपने को परिष्कृत शुद्ध, निष्पाप मत्सरहित, करते हुए (अव्यये) आत्मा से उत्पन्न, या

अन्यथ, अविनाशी (वारे) सब कष्टों के वारक, रक्षास्थान, अभय परमेश्वर
से (पवन्ते) विचरते हैं ।

(३) (ते) वे (सोमाः) सौम्यगुणसम्पन्न, विद्वान् योगीजन
(दाशुपे) आत्मसमर्पण करने हारे शिष्य के लिये (दिव्यानि) दिव्य,
पारलौकिक और (पार्थिवा) इहलोक के और (अन्तरिक्ष्या) मध्यमलोक
के (वसु) वास योग्य ज्ञानरूप ऐश्वर्य को (पवन्ताम्) प्रदान करते और
स्वयं प्राप्त करते हैं ।

१ २ ३ १२ २४ ३ १ २ ३ १ २

[१०३७] पवस्व देववीरती पावत्रं सोम रंक्षा ।

१ २ ३ १२ २४

इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥१॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १

[१०३८] आवच्यस्व महि प्सरो वृषेन्द्रो धुम्नवत्तमः ।

१२ २४ ३ २

आ योनिन्धर्णासिस्तदः ॥२॥

१ २ ३ २ ४ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१०३९] अधुंक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः ।

३ १ २ ३ १ २

अपो वसिष्ठ सुक्रतुः ॥३॥

३ १ २ ३ १ २ २४ ३ १ २

[१०४०] महान्तं त्वामहीरन्वापो अर्पन्ति सिन्धवः ।

११ २४ ३ १ २

यद् गोभिर्वासयिष्यसे ॥४॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[१०४१] समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः ।

१ २ ३ १ २ ३ २

सोम पवित्रे अरुमयुः ॥५॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २

[१०४२] अचिक्रद्दुवृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः ।

१२ २४

स सूर्येण दियुते ॥६॥

[१०४३] गिरस्त इन्द्र ओजसा मर्मृज्यन्ते अपस्युवः ।
 २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

याभिमदाय शुम्भसे ॥७॥

[१०४४] तन्त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे ।
 २ ३ १ २ ३ २

तव प्रशस्तये महे ॥८॥

[१०४५] गोषा इन्द्रो नृषा अस्यश्वषा वाजषा उत ।
 ३ २ ३ १ २ ३ २

आत्मा यज्ञस्य पूर्यः ॥९॥

[१०४६] अस्मभ्यमिन्द्रविन्द्रियं मधोः पवस्व धारया ।
 ३ १ २ ३ १ २

पर्जन्यो वृष्टिर्माँ इव ॥२०॥३॥ ऋ० ९। २। १-६०। १।

भा०—(१) (देववीः) पृथिवी तर्वाँ और प्राणों में भी व्यापक, उनको कान्ति देने हारा, उनको प्रेरित करने हारा, तू हे (सोम) आत्मन् ! (रंहा) वेग से (पवित्रे) हृदयदेग, मन को (अति) अतिक्रमण करके (पवस्व) प्रकाशित हों । हे (इन्द्रो) कान्ति और ऐश्वर्ययुक्त ! (वृषा) सुखों का वर्षक ! तू (इन्द्रं) आत्मा या परमात्मा के ऐश्वर्यमय स्वरूप में (विश) प्रवेश कर ।

(२) हे (इन्द्रो) आत्मन् ! (वृषा) सुखों का वर्षक (द्युम्नवत् तमः) अति अधिक तेजःसम्पन्न, यशस्वी, होकर (महि) बड़े (प्सरः) ज्ञान को (आ वच्यस्व) प्रकट कर । और (धर्षसिः) धृतिशील, भ्रुव होकर (योनिम्) अपने आश्रय स्थान या स्वरूप में (सदः) प्रतिष्ठित हो ।

(३) (सुतस्य) योग साधनों से निष्पन्न (वर्धसः) स्वयं कर्ता, विद्वान् योगी की (धारा) धारणा शक्ति (प्रियं मधु) अति आनन्द

अमृत रस को (अधुक्षत) दौहती हैं, प्रकट करती हैं और (सुक्रतुः) उत्तम कर्मनिष्ठ योगी (अपः) समस्त प्रज्ञानों और कर्मों और लोकों पर (व सिष्ट) वश करता है और उनमें वास करता है ।

मधु अमृतम् [सा०]

(४) हे सोम ! (यत्) जब (गोमिः) आदित्य की सी किरणों से तू (वासयिष्यसे) आच्छादित हो जाता है तब (त्वा) तुझे (महान्तं) महान् को (सिन्धवः) गतिशील, व्यापक (मीहीः) बड़े भारी (आपः) प्राप्त होने योग्य लोक (अनु अर्पन्ति) पीछे २ गमन करते अर्थात् अनुसरण करते, तेरे वशवर्ती होते हैं ।

(५) (पवित्रे) महान् आकाश में (सोमः) सूर्य (अस्मयुः) हमारा आश्रय (दिवः धरुणः) द्यौलोक को धारण करने वाला (विष्टम्भः) नाना प्रकार के पिरहों का स्तम्भक, आश्रय, (समुदः) समुद्रों को बहाने वाला होकर (अणु) अन्तरिक्ष में जैसे (मामृजे) विशुद्ध रूप में भासता है । उसी प्रकार योगी का आत्मा भी भीतर हृदयाकाश में आनन्दरस का सा होकर विराजमान होता है ।

(६) व्याख्या देखो अविकल सं० [४६७] पृ० २४६।

(७) हे (इन्द्रो) आत्मन् ! (ते) तेरे (आजसा) बल से (अपस्थुवः) कर्म और इच्छा को प्रकाश करन हारी (गिरंः) वाशियां (ममृज्यन्ते) परिष्कृत स्वच्छ शुद्ध हो जाती हैं (याभिः) जिनसे (मदाय) आनन्द की प्राप्ति के लिये तू (शुम्भसे) प्रकाशित होता है ।

(८) हे सोम ! परमात्मन् ! (मदाय) हर्ष के लिये (घृष्वये) आत्मा के स्पर्श करने वाले (मदाय) आनन्द को प्राप्त करने के लिये (लोककृत्नु) दर्शन करने हारे, सर्वदृष्टा या ज्ञान के उत्पादक या समस्त संसार के उच्चयिता (तं) उस परमात्मन्दस्वरूप (त्वा) आपको (महे)

बड़े भारी (तव) आपकी (प्रशस्तये) महिमा होने के कारण (ईमहे) प्राप्त होते हैं या प्रार्थना करते हैं ।

(६) हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! आप (गोपा) वाणियों, गौश्रों, रश्मियों और ज्ञान इन्द्रियों के दाता (नृपा) पुत्र भृत्यादि तथा नेता अग्रणी पुरुषों के देने हारे, (अश्वसा) देहों में आत्मा, ब्रह्माण्ड में सूर्य और प्राणेन्द्रियों और धन में अश्वों के देने हारे, (वाजसा) ज्ञानबल और अन्न के देने वाले (उत) भी (असि) हो । आप ही (यज्ञस्य) आत्मा, ब्रह्माण्ड, जीवन और सब कर्मों के (पूर्व्यः) पूर्ण करनेहारे, सबसे आदिम (आत्मा) आत्मा, कर्ता, स्वामी हो ।

(१०) हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! (मधोः) अमृत की (धारया) धारणा शक्ति से (इन्द्रियं) आत्मा के बल को बढ़ाने वाले या उसके स्वरूप के दर्शन रस को (अस्मभ्यम्) हमारे लिये जिस प्रकार (वृष्टि-मान्) वर्षाने वाला (पर्जन्यः) मेघ रस को वर्षाता है उसी प्रकार (पवस्व) बरसाओ ।

इति प्रथमः खण्डः ।

—:०:—

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१०४७] सना च सोम जेषि च पवमान महिश्रवः ।

१ २ ३ १ २

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १ ॥

२ ३ २ ३ २ ३ २ १ २ ३ १ २

[१०४८] सना ज्योतिः सना स्वाऽऽर्विश्वा च सोम सौभगा ।

१ २ ३ १ २

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २

[१०४९] सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि ।

१ २ ३ १ २

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ३ ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[१०५०] पवीतारः पुनीतेन साममिन्द्राय पातवे ।

१ २ ३ १ २
अथा नो वस्यसस्कृत्रि ॥ ४ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१०५१] त्वं सूर्ये न आमज तव कृत्वा तवोतिभिः ।

१ २ ३ १ २
अथा नो वस्यसस्कृत्रि ॥ ५ ॥

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[१०५२] तव कृत्वा तवोतिभिर्ज्योक् पश्येम सूर्यम् ।

१ २ ३ १ २
अथा नो वस्यसस्कृत्रि ॥ ६ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ २
[१०५३] अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विवर्हसं रथिम् ।

१ २ ३ १ २
अथा नो वस्यसस्कृत्रि ॥ ७ ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[१०५४] अभ्याऽऽर्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः ।

१ २ ३ १ २
अथा नो वस्यसस्कृत्रि ॥ ८ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१०५५] त्वां यज्ञैरधीवृधन् पवमान धिधर्मणि ।

१ २ ३ १ २
अथा नो वस्यसस्कृत्रि ॥ ९ ॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१०५६] रथिं वश्वित्रमश्विनमिन्द्रो विश्वायुमाभर ।

१ २ ३ १ २
अथा नो वस्यसस्कृत्रि ॥ १० ॥ ४ ॥ १-१० ॥

भा०—(१) हे (पवमान) सर्वव्यापक ! हमें (सहि) बहुत बड़ा (श्रवः) यश और ज्ञान का (सन) दान करो और (जेषि च) विघ्नो पर विजय करो । (अथ) और बाद में (नः) हमें (वस्यसः) ऐश्वर्यों से युक्त या ज्ञानियों में श्रेष्ठ (कृधि) करो ।

(२) हे (सोम) परमात्मन् ! हमें (ज्योतिः) प्रकाश, ज्ञान (सन) दो । (स्वः) सुख (सन) दो । और (विश्वा च सौभगा) समस्त सौभाग्ययुक्त पदार्थ दो । (अथ नः वस्यसः कृधि) और हमें उत्तम वसुमान् अथवा ज्ञानी जनों में श्रेष्ठ करो ।

(३) हे प्रभो ! हमें (दक्षम् उत क्रतुं) बल और उत्तम कर्म करने का सामर्थ्य (सन) दो और (मृधः) प्रतिस्पर्धी, विघ्नकारी हिंसकों को (अप जहि) विनाश करो, (अथ नः०) और हमें सब में श्रेष्ठ करो ।

(४) हे (पवितारः) प्रभु को साक्षात् करने हारे विद्वान् पुरुषो ! (इन्द्राय पातवे) आत्मा को पान कराने के लिये (सोमं) आनन्दरस या ज्ञान को (पुनीतन) उत्पादन करो, प्रकट करो (अथ नः०) और हमें श्रेष्ठ करो ।

(५) हे (सोम) परमात्मन् ! (तव) तेरे (क्रत्वा) ज्ञान सामर्थ्य या कर्म सामर्थ्य से और (तव ऊतिभिः) तेरी शक्तियों से (त्वं) तू (नः) हमें (सूर्ये) सबके प्रेरक आत्मा या परमात्मा में (आ भज) प्राप्त करा (अथ नः०) और हमें सबसे उत्तम बना ।

(६) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! (तव क्रत्वा) तेरे ज्ञान से (तव ऊतिभिः) तेरी प्रेरणाओं से (सूर्यं) सूर्य के समान ज्ञान और प्रकाशस्वरूप तेरा (ज्योक्) चिरकाल तक (पश्येम) दर्शन करें ।

(७) हे (सोम) सर्वप्रेरक ! हे (स्वायुध) उत्तम साधनों, बलों से युक्त ! (त्वं) तू (द्विवर्हसं) दोनों लोकों में बढ़ाने वाले रथि) प्राणरूप सामर्थ्य को (अभि अर्प) दे । और (अथ नः०) हमें श्रेष्ठ बना ।

(८) हे (सोम) प्रेरक ! (समत्सु) समान भाव से आनन्द के प्राप्त करने के अवसरों में हे (वाजिन्) बल और ज्ञान से सम्पन्न ! (अनपच्युतः) अविचल और (सासहिः) अभ्यन्तर शत्रुओं को दबाने हारा हांकर तू (अभि अर्प) प्रकट हो (अथ नः०) और हमें सबसे श्रेष्ठ बना ।

(९) हे (पवमान) सर्वव्यापक ! (विधर्माणि) अपने विशेषरूप से परिष्कृत और नाना शक्तियों के आश्रय स्थान आत्मा में (यज्ञैः) कर्म, ज्ञान, तप आदि यज्ञों द्वारा साधकजन (त्वां) तुम्हको ही (अवीवृधन्) बढ़ाते हैं और तू (अथ नः०) हमें सबसे उत्तम बना ।

(१०) हे (इन्द्रो) परमेश्वर ! तू (चित्रं) संग्रह करने योग्य नाना प्रकार के (अधिनम्) इन्द्रियों को धारण करने हारे (विश्वायुं) समस्त आयु को देने वाले (रयिं) आत्मिक सामर्थ्य, वीर्य को (आ भर) दे । और (अथ नः०) हमें श्रेष्ठ उत्तम बना ।

[१०५७] ^{२३ २ ३ १ २ ३ १२ ३१२ २२} तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः ।

^{२१ २ ३ १ २} तरत्स मन्दी धावति ॥ १ ॥

[१०५८] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} उक्षा वेद वसूनाम्मर्त्तस्य देव्यवसः ।

^{२१ २ ३ १ २} तरत्स मन्दी धावति ॥ २ ॥

[१०५९] ^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} ध्वस्त्रयोः पुरुषन्त्यांरा सहस्राणि दद्वहे ।

^{२३ २ २ १ २} तरत्स मन्दी धावति ॥ ३ ॥

[१०६०] ^{१२ २२ ३२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} आ ययोस्त्रिशतं तना सहस्राणि च दद्वहे ।

^{२३ २ ३ १ २} तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ ५ ॥ अ० ९ । ५८ । १-४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [५००] पृ० २४८ ।

(२) (उक्षा) ऊपर की ओर स्रवण करने वाली (देवी) सुख और प्रकाश की देने वाली, प्रकाशस्वरूप, सोमरूप शुक्र की धारा (मर्त्तस्य) मरणधर्मा शरीर के भीतर (वसूनां) वास करने हारे प्राणों को (अवसः) रक्षा करने का सामर्थ्य (वेद) प्राप्त कराती हैं । तभी (तरत्स मन्दी धावति) वह योगी आत्मा आनन्दमय होकर, सब कष्टों को पार करता हुआ ब्रह्म की ओर चला जाता है ।

(३) हम (ध्वस्त्रयोः) दुःखों को ध्वंस करनेहारे, या स्वतः विनष्ट होने वाले (पुरुषन्त्यां) पुरुषरूप आत्मा के सदा समीप वर्तमान प्राण और अपान श्रोणों के हे (सोम) परमेश्वर ! (सहस्राणि) हजारों आस प्रधास तथा बल,

कर्मों को हम (आदम्नहे) धारण करें, अपने वश करें । उन बलों से ही (तरत्स०) वह आत्मा सैकड़ों कष्ट पार करके ब्रह्म की ओर चला जाता है ।

(४) हम (ययोः) जिनके बल पर (त्रिंशत् सहस्राणि) तीस हज़ार ३०००० (तना) दिन, रात अर्थात् लगभग ४०० वर्ष पर्यन्त (आदम्नहे) जीवन ग्रहण करते हैं उनके बल पर ही (तरत्स मन्दी धावति) वह आनन्दमय जीव सब दुःखों को पार करके ब्रह्म की ओर चला जाता है ।

[१०६१] एते सोमा अमृतं गृणानाः शवसे महे ।

मदिन्तमस्य धारया ॥ १ ॥

[१०६२] अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि ।

सनद्वाजः परिश्रव ॥ २ ॥

[१०६३] उन नो गोमतीरिषा विश्वा अर्ष परिश्रुभः ।

गृणानो जमदग्निना ॥ ३ ॥ ६ ॥ ऋ० ६ । ६२ । २२-२४ ॥

भा०—(१) (मदिन्तमस्य) अति आनन्दकारक परमात्मा की (धारया) आनन्दरूप धारणा शक्ति से (महे) बड़े भारी (शवसे) ज्ञान प्राप्ति के लिये (गृणानाः) वेद का अध्ययन, प्रवचन करते हुए (एते सोमाः) ये विद्वान् गुरुजन (अमृतं) उत्पन्न हों । 'शवसे' इति ऋ० ।

(२) हे (सोम) परमात्मन् ! (वीतये) सर्वत्र कान्ति या प्रकाश करने के लिये (गव्यानि) ज्ञान-वाणियों के योग्य (नृम्णाणि) मनुष्यों के चित्तों को (पुनानः) पवित्र करता हुआ तू (अभि अर्षसि) साक्षात् प्रकाशित होता है । हे (सनद्-वाजः) ज्ञान के देने हारे, बल के देने हारे ईश्वर ! आप हमें ज्ञान और बल (परिश्रव) प्राप्त करावें ।

(३) हे परमात्मन् ! (जमदग्निना) आत्मा को साक्षात् करने हारे योगी द्वारा (गृणानः) स्तुति किये हुए (नः) हमारे लिये (गोमतीः)

वेदवाणियों से सम्पन्न (विश्वाः, इपः) सब कामनाओं और ऐश्वर्यों को और (परिस्तुभः) सब प्रार्थनाओं को (उत) भी (अर्धे) पूर्ण स्वीकार कर प्रदान करो ।

[१०६४] ^{३२३ ३१२ ३१२ ३१२ ३ १ २ ३ १ २} इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सम्मडेमा मनीषया ।
^{३ २३ ३ १ २ २ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २} भद्रा हि नः प्रमतिरस्य सख्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं
 तव ॥ १ ॥

[१०६५] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} भरामेधं कृणवामा हवीषि ते चिनयन्तः पर्वणा पर्वणा
^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} वयम् । जीवातवे प्रतरां साधया धियोऽग्ने सख्ये मा
^{२ २ ३ १ २ २} रिषामा वयं तव ॥ २ ॥

[१०६६] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १} शकम त्वा समिध साधया धियस्त्व देवा हविरदन्त्या-
^{२ १ २ ३ १ २ २ ३ २ १ २ २ ३ १} हुनम् । त्वमादत्यां आवह तान्हुऽरेऽग्नेस्यग्ने सख्ये
^{२ २ ३ १ २ १ २} मा रिषामा वयं तव ॥ ३ ॥ ७ ॥ ऋ० १ । ६४ । १, ४, ३ ॥

भा०—(१) (अर्हते) पूजनीय (जातवेदसे) तत्व के ज्ञाता, इस विद्वान्, परमेश्वर और आचार्य के लिये (मनीषया) अपनी मति से (रथम् इव) उत्तम ज्ञानरस के समान सुखकारक (स्तोमं) गुण कीर्त्तन (संमहेम) करें । (संसदि) सभा में (अस्य) इसकी (प्रमतिः) उत्तम मति और ज्ञान (नः) हमारे लिये (भद्रा) कल्याण और सुखकारिणी होती है । इसके (सख्ये) मित्रभाव में (मा रिषाम) हम कभी कष्ट न पावें । हे प्रभो ! और हे विद्वन् गुरो ! (वयं तव) हम तुम्हारे हैं । इन्द्रियों का आत्मा के प्रति, भक्तों का ईश्वर के प्रति और शिष्यों का गुरु के प्रति समानरूप से वचन है ।

(२) हे अग्ने ! ज्ञानस्वरूप प्रकाशक ! (ते) तेरे लिये (इधमं) प्रदीप्त, तेजस्वी होने के साधन को (भराम) हम प्रस्तुत करें । (हवीषि)

प्रहण करने योग्य नाना पदार्थों को (कृणवाम्) सम्पादन करें । और (वयं) हम (ते) तेरा (पर्वणा) पोरु २ पर, या पूर्ण साधन या प्रति पर्व, या अध्याय २ द्वारा (चित्तयन्तः) शक्ति और ज्ञान का लाभ करते हुए, (जीवातवे) अपने जीवन के निमित्त (तव सख्ये) तेरे सहयोग या मैत्री में (मा रिपाम्) कभी पीड़ित न हों । और तू (प्रतरां) बहुत उत्तम प्रकार से (धियः) हमारी प्रज्ञाओं और कर्मों को (साधय) सुदृढ़ बना ।

(३) हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! प्रभो ! गुरो ! (धियः) हमारी बुद्धियों को (साधय) उत्तम बना । हम (समिधम्) उत्तमरूप से प्रकाशित होने हारे (त्वा) तेरी सेवा करने में (शकेम) समर्थ हों । (त्वे) तेरे आधार पर (देवाः) विद्वान् लोग (आहुतम्) श्रद्धापूर्वक दान किये हुए अन्न आदि पदार्थ को (अदन्ति) भोग करते हैं । (त्वन्) और तू सूर्य के समान (आदित्यान्) किरणों, बारहों मासों, अथवा आदित्य के समान तेजस्वी या संचत्सर के अधीन रहने वाले मासों के समान गुरु के अधीन रहने वाले शिष्यों को यथायोग्य (आ वह) प्राप्त कर, हम (तान्) उनको (उष्मसि) चाहते हैं । और हे (अग्ने) प्रकाशक ! (तव सख्ये) तेरी मित्रता में (वयं) हम (मा रिपाम्) कभी दुःख, पीड़ा प्राप्त न करें ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

—:०:—

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१०६७] प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम् ।

३ १ २ ३ १ २

अर्थमणं रिशादसम् ॥ १ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१०६८] राया हिग्गयया मतिरियमवृकाय श्वसे ।

३ १ १ २ ३ १ २

इयं विप्रा मेघसातये ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
 [१०६६] ने स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह ।

३ ३ क २ र

इषं स्वश्च धीमाहि ॥ ३ ॥ ८ ॥ अ० ७ । ६६ । ७-६ ॥

भा०—(१) (सूर) सूर्य के समान सबके प्रेरक, मुख्य आत्मा के (उदिते) उदय होने पर, जागृत होने पर (मित्रं) मित्र, (वरुणं) और वरुण, प्राण और अपान (वां) आप दोनों को (रिपादसं) विघ्नों के नाशक (अर्थमणम्) न्यायकारी स्वामी के समान पालक जानकर (प्राति-गृणीषे) उन दोनों को उपदेश करता हूँ ।

(२) (इयम्) यह हमारी (मतिः) मति, बुद्धि, मननशक्ति, (हिरण्यया) हितकारी, मनोहर (राया) सम्पत्ति द्वारा, (अवृकाय) हिंसक, चोरों से अतिरिक्त साधु पुरुष के (शवसे) बल वृद्धि करने के लिये हो । हे (विप्राः) विद्वान् पुरुषो ! यह हमारा ज्ञान (मेघसातये) अन्य पवित्र दीक्षित, शिष्यों को ज्ञान दान करने के लिये हो ।

(३) हे देव ! वरुण ! हे (मित्र) मृत्यु को मेटने हारे ! (सूरिभिः) तत्व के ज्ञाता विद्वानों के साथ हम (स्याम) रहें । और (ते) तेरे (इषं) अन्न, ज्ञान और (स्वः च) सुख, आनन्द-स्वरूप को (धीमाहि) ध्यान और धारण करें ।

३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २
 [१०७०] भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि वाधो जर्वा मृत्यः ।

१ २ ३ १ २ २ २
 वसु स्वाहं तदाभर ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१०७१] यस्य ते विश्वमानुषगभूरर्द्धस्य वदति ।

१ २ ३ १ २ २ २
 वसु स्वाहंन्तदा भर ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१०७२] यद्वाङ्मिन्द्र यत् स्थिर यत्पर्शाने परा भृतम् ।

१ २ ३ १ २ २ २
 वसु स्वाहं तदाभर ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० ८ । ४५ । ४०-४२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [१३४] पृ० ७२ ।

(२) हे इन्द्र (ते) तेरे (भूरेः) बहुतसे (यस्य) जिस (दत्तस्य) दिये हुए दान के विषय में (विश्वम्) समस्त संसार (आनु-
षग्) बराबर सेंदा युक्त रह कर (वेदति) जानता या प्राप्त करता है (तत्)
वह (स्पार्ह) अभिलाषा करने योग्य (वसु) वासयोग्य जीवनरूप उत्तम-
भन (आ हर) हमें प्राप्त करा ।

(३) व्याख्या देखो अविकल सं० [२०७] पृ० १०८ ।

३ २ ३ २ ४ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१०७३] यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्त्री वाजपु कर्मसु ।

१ २ ३ १ २

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ १ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

[१०७४] तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता ।

१ २ ३ १ २

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ २ ॥

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१०७५] इदं वां मदिरं मध्वधुत्तन्नद्रिभिर्नरः ।

१ २ ३ १ २

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ ३ ॥ १० ॥ ऋ० ८ । ३८ । १-३, ११

भा०—(१) हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र, गुरो ! और अग्ने ! विद्वन् ! आचार्य
और अध्यापक आप दोनों (यज्ञस्य) इस महान् अध्वयनाध्यापन ज्ञान
दानरूप यज्ञ और परमेश्वर के (ऋत्विजा) यथान्तु प्रवर्तक एवं प्राण
साधना द्वारा उपासना करने हारे (स्थः) हो । और (वाजपु) ज्ञान यज्ञों
में और (कर्मसु) सब कर्मों में (सस्त्री) ज्ञातक पारंगत हो । (तस्य)
रस उक्त यज्ञ के विषय में आप (बोधतम्) हमें ज्ञान कराइये ।

(२) आप दोनों (रथयावाना) रथरूप देह या रसस्वरूप प्रभु को
प्राप्त होने हारे (वृत्रहणा) समस्त अज्ञान आवरण का नाश करने हारे,
(अपराजिता) कभी पराजित न होने वाले, (तोशासा) विद्वों के नाशक

हैं, (इन्द्राग्नी) आप इन्द्र और अग्नि परमात्मा और आचार्यस्वरूप दोनों मुझको उस यज्ञ का ज्ञान कराइये ।

(३) (नरः) विद्वान् मनुष्य (अदिभिः) अखण्ड व्रतों से (वां) आप दोनों के (इदं) इस दर्शनीय (मधु) अमृत, ज्ञान को (अधुचन्) प्राप्त करते हैं (तस्य) उसका (बोधतम्) हमें भी ज्ञान कराइये ।

इति तृतीः खण्डः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१०७६] इन्द्रायेन्दो मरुत्वने पवस्व मधुमत्तमः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २

अर्कस्य योनिमासदम् ॥१॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

३ २

[१०७७] तन्त्रा विप्रा चचोविदः परिष्कृण्वन्ति धर्णासिम् ।

१ २ ३ १ २

सं त्वा सृजन्त्यायवः ॥२॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१०७८] रसं ते मित्रो अर्थमा पिबन्तु वरुणः कवे ।

१ २ ३ १ २

पवमानस्य मरुतः ॥३॥११॥ ऋ० ६ । ६४ । २२-२० ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो आविकल सं० [४७२] पृ० २३८ ।

(२) हे प्रभो ! (चचोदिवः) वेदवाणी का तत्व जानने हारे वे (विप्राः) मेधावी लोग (तं) उस स्मरणीय (धर्णासि) समस्त संसार को देह के समान धारण करने हारे (त्वां) तुझ परम आत्मा को (परिष्कृण्वन्ति) नाना प्रकार से बखानते हैं । (त्वां) तुझको ही (आयवः) मनुष्य लोग (सं सृजन्ति) योग साधनों से खोजते और आत्मा को पवित्र करते हैं ।

(३) हे (कवे) क्रान्तदर्शिनू विद्वन् ! (मित्रः) मृत्यु से बचाने हारा प्राण और (वरुणः) वरुणरूप अपान और (अर्थमा) समान और (मरुतः) शेष प्राणगण भी (पवमानस्य ते) प्रवाहित होते हुए तेरे (रसं) बल को (पिबन्तु) पान करें ।

[१०७६] ^{३ १ २} मृज्यमानः ^{३ १ २ २ २} सुहस्त्या ममुद्रे वाचामन्वामि ।

^{३ २ ३ १ २} राधि पिशङ्ग बहुलं ^{३ १ २ २ ३ २ ३ १ २} पुरुष्पृहं ^{३ २ २} पवगानाभ्यर्षामि ॥१॥

[१०८०] ^{३ २ ३ १ २} पुनानां वारं ^{३ २ ३ १ २} पवमानां अज्यये वृषा ^{३ १ २} अचिक्रदद्वने ।

^{३ १ २} देवानां ^{३ १ २} सोम पवमान ^{३ २ ३ १ २} निष्कृतं ^{३ १ २} गाभिरञ्जाना अपर्षसि

॥२॥१२॥ अ० ६ । १०७ । २१-२२॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिक्र सं० [२१७] पृ० २५५ ।

(२) (अज्यये वारे) प्राणमय या कर्ममय आवरण में से (पुनानः) पवित्र होता हुआ, (पवमानः) व्यापक आत्मा (वृषः) सुखों का वर्षक होकर (वने) इस ब्रह्माण्ड या अन्तरिक्ष में मेघ के समान (अचिक्रदत्) अनाहत रूप से नाद करता और सुखों को वर्षा करता है । हे (सोम) प्रेरक ! आप (गीर्भिः) रश्मियों से (अञ्जानः) अभिव्यक्त होते हुए (देवानां) समस्त प्रकाशमान पदार्थों के (निष्कृतं) स्थान या मूलकारण को (अपर्षसि) प्राप्त हो । आत्मपक्ष में-वह (गाभिः) प्राणों से (अञ्जानः) प्रकट होकर हृन्दिनों के आश्रय को प्राप्त है ।

^{३ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}

[१०८१] ^{१ २ ३ १ २} पतमु न्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम् ।

^{१ २ ३ १ २} समादित्यभिरख्यत ॥१॥

[१०८२] ^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २} समिन्द्रेणात् वायुना सुत एति पवित्र आ ।

^{१ २ ३ १ २} सं मृयम्य रश्मिभिः ॥२॥

[१०८३] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} न ना भगाय वायवे पूष्णो पवस्व मनुमान् ।


^{१ २ ३ १ २ २} चारुमित्रं वरुणं च ॥३॥१३॥ अ० ६ । ६१ । ७-६ ॥

भा०—(१) (एतम्) इस (उ त्वं) ही उस (सिन्धुमातरं) द्रव्य शील प्राणों के माता अर्थात् उत्पादक या ज्ञाता आत्मा को (दश क्षिपः) बाहर फेंके गये दस गौण प्राण, इन्द्रियां (मृजन्ति) परिष्कृत करती हैं । वह (आदित्येभिः) किरणों के समान लगी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा (सम् अ-ख्यत) भली प्रकार देखना है । परमेश्वर के पक्ष में—उस (सिन्धुमातरं) समस्त आकाश और सागर आदि के निर्माता प्रभु को दशों दिशाएं सुशोभित करती हैं । वह सूर्य से सबको प्रकाशित करता है ।

(२) (इन्द्रंय) आत्मा (उत वायुना) और प्राण से (सुतः) निष्पा-दित होकर वह आनन्दरस (सूर्यस्य) सबके प्रेरक मुख्य प्राण को (रश्मि-भिः) किरणों से पवित्रे, पवित्र करने हारे अन्तःकरण में (सम् आ एति) उत्तम रीति से विदित होता या प्राप्त है ।

(३) (सः) वह (मधुमान्) अमृत स्वरूप (भगाय) ऐश्वर्य-वान् (वायवे) प्राण स्वरूप (पूषणः) पृष्टिकारक, आत्मा के निमित्त और (मित्रे) प्राण और (वरुणे च) अपान के लिये भी (पवस्व) प्रकट हो । परमेश्वर पक्ष में—(मित्रे वरुणे च) सर्व ज्ञहवान् और सर्व-दुःख वारक के रूप में प्रकट होता है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।



३२ २ ३ २ ३ २ २ ३ १ २
[१०८४] रेवतीर्त्नः सधमाद् इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः ।

३ २ ३ २ ३ १ २

जुमन्नो याभिर्मदेम ॥१॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

३ २

[१०८५] आ घ त्वावान्मना युक्तः स्तातृभ्यो घृष्णवीयानः ।

३ २ ३ ३ २ ३ २ २

ऋणारक्ष न चक्र्याः ।

१२ २२ ३ १२ २२ ३ २
[१०८६] आ यहुवः शतक्रन्वाकामं जरितृणाम् ।

३ २३ ३ १२ २२

ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥३॥१४॥ ऋ० १ । ३० । १३-१५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५३] पृ० ८६ ।

(२) हे (धृणो) शत्रुओं के या काम क्रोधादि के धर्षण अर्थात् मान मर्दन करने हारे (चक्र्योः) रथ के चक्रों का (अक्षं न) धुरा जिस प्रकार स्वयं अपने आश्रय रहकर भी रथ को दूर देश में पहुंचाता और आप भी जाता है उसी प्रकार हे आत्मन् ! (त्वावान्) तेरे सदृश तू ही (त्मना युक्तः) स्वयं अपने आपमें समाहित होकर (इयानः) इसको अभीष्टतक पहुंचाता हुआ (आ ऋणोः) मोक्ष तक पहुंचता और साथ ही स्वयं भी वहां प्राप्त होता है ।

(३) (अक्षं न) जिस प्रकार धुरा (शचीभिः) अपने में लगे अरों द्वारा रथ को दूर देश तक पहुंचा देता है । उसी प्रकार हे शतक्रतो ! सैकड़ों प्रजानों से युक्त आत्मन् ! (जारितृणाम्) विद्वान् ज्ञानोपदेशकों को भी (आकामं) उनकी कामनाओं के अनुसार (दुवः) उनके मनोरथ या प्रार्थित पदार्थ (शचीभिः) अपनी शक्तियों से (आ ऋणोः) प्राप्त करा देते हो ।

सर्वासकाम ब्रह्मवेदी जीवनमुक्त की दशा का वर्णन है । उसके साथ ही राजा और प्रभु का वर्णन भी स्पष्ट है ।

३ २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ १ २
[१०८७] सुरूपकृत्नुमृतये सुदुघामिव गोदुहे ।

२ ३ २ ३ २

जुहूमसि द्यविद्यवि ॥१॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१०८८] उप नः सवनागहि सोमस्य सोमपाः पित्र ।

३ २३ ३ २ ३ १ २

गोदा इद्रेवतो मदः ॥२॥

[१०८६] अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम् ।

मा नो अतिथ्य आगहि ॥३॥१५॥ अ० १ । ४ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखां अविकल सं० [१६०] पृ० ८६ ।

(२) (सोमपाः) सोम अर्थात् आत्मानन्द के रस का पान करने हारा, समस्त आत्म पदार्थों और ज्ञानों का रक्षक साम्य गुणों को धारण करने हारे विद्वानों का पालक, सूर्य के समान विद्यार्थियों का प्रकाशक आचार्य और परमात्मा (सोमस्य) उत्पन्न कार्य ऊगत् के बीच में (स-वना) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थों और ज्ञानों को प्रकाशित करने के लिये (नः) हमारे (उप) समीप (आगहि) आत्रे और (विव) स्वयं ज्ञान प्राप्त करके अन्धों का पान करावे । (गोदाः) ज्ञान की आंखों को देने वाला (इन्) ही (रेवतः) इष्ट पदार्थ को प्राप्त करने वाले जीव को (मन्दः) हर्षकारी होता है ।

(३) हे परमेश्वर ! (ते) तेरे (अन्तमानां) समीप में प्राप्त (सुमती-नां) उत्तम मेधावी ज्ञानियों के पास से (विद्याम) हम तेरा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करें (नः, आगहि) आप हमें प्राप्त होइय, (मा नो अतिथ्यः) हमें त्याग न कीजिये ।

[१०६०] उभ यादन्द्र रोदसी आपद्रायोपा इव ।

महान्तं त्वा महीनां सभ्रजं चर्षणीनाम् ।

देवां जानिष्यजीजनद्द्रा जानिष्यजीजनत् ॥१॥

[१०६१] दीर्घं ह्यङ्कुश यथा शक्तिं विमर्षि मन्तुमः ।

पूर्वेण मघवन् पदा वयामजा यथा यमः ।

देवां जानिष्यजीजनद्द्रा जानिष्यजीजनत् ॥२॥

१ २ ३ २ २ ३ २
 [१०६२] अत्र स्म दुर्हृणायतो मर्त्तस्य तनुडि स्थिरम् ।

३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

अध्रस्पदं तमी कृधि यो अस्मां अभिदासति ॥

३ १२ २२ ३ १२ २२

देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत् ॥३॥१६॥

ऋ० १०। १३४। १, ६, २०।

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३७६] पृ० १६६।

(२) हे (मन्तुमः) ज्ञानवान् ! सर्वज्ञ ! (यथा) जिस प्रकार आप (दीर्घ) दूर तक जाने वाले (अक्रुशम्) ज्ञानांकुश को (विभिषि) धारण करते हो उसी प्रकार (शक्ति) उसके प्रयोग के सामर्थ्य और उपाय को भी जानते हो । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! (यथा) जिस प्रकार से (यमः) इन्द्रियों और उनके समान लोकों पर वश करने हाग (अजः) अजन्मा आत्मा परमआत्मा (पूर्वेण) पूर्व (पदा) ज्ञान और सामर्थ्य से (चयां) व्यापक प्रकृति को वश करता है और तमी (देवी) दिव्यगुण वाली यह प्रकृति (जनित्री) समस्त संसार को उत्पन्न करने हारी (अजीजनत्) इस संसार को उत्पन्न करती है । (भद्रा) कल्याण और सुख को देने हारी (जनित्री) प्रकृति (अजीजनत्) इस संसार को उत्पन्न करती है । और (भद्रा) वह सुखदात्री (जनित्री) माता के समान संसार की जननी होकर भी महिमा को प्रकट करती है ।

(३) हे परमेश्वर (दुर्हृणायतः) दुष्ट चोर (मर्त्तस्य) मनुष्य की (स्थिरं) स्थिति को (अवतनु हि स्म) नीचा कर । (यः) जो (अस्मान्) हमें (अभिदासति) गुलाम बनाना चाहता है (तन् ईम्) उसको ही (अध्रः पदं) नीचे के स्थान में (कृधि) करदे । (देवी जनित्री ०) उस दिव्यगुण वाली सबकी माता प्रकृति तेरी महिमा को

प्रकट करती है । वह कल्याणकारी सब की माता होकर भी तेरी महिमा को प्रकट करती है ।

इति पञ्चमः खण्डः ।

[१०६३] परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत् ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
१ २ ३ १ २
मदेषु सर्वथा अग्नि ।

[१०६४] त्वं विप्रस्त्व कविर्मधुप्रजातमन्धसः ।

१ २ ३ १ २
मदेषु सर्वथा असि ॥२॥

[१०६५] त्वं विश्व सजोषसो देवासः पीतिमाशत ।

१ २ ३ १ २

मदेषु सर्वथा असि ॥३॥१७॥ अ० ६ । १८ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७५] पृ० २२६ ।

(२) हे (सोम) परमात्मन् (त्वं) तू (विप्रः) मेधावी (कविः) क्रान्त दर्शी है । (अन्धसः) अज्ञ से (जातम्) उत्पन्न हुए जीवन शक्ति के रूप में प्रकट होने वाले (मधु) अमृतस्वरूप वीर्य और आनन्द को (प्र) प्रदान कर । तू (मदेषु) सब आनन्दों में (सर्वथाः) समस्त संसार को धारण करने हारा है ।

(४) (त्वं) व (विश्वे) समस्त (सजोषसः) समान रूप से आप को प्रेम करने हारे (देवासः) विद्वान् लोग (पीतिम्) आपके रसास्वादन का आनन्द (आशत) प्राप्त करते हैं और (मदेषु) सब आनन्दों में आप ही सबको धारण करने हारे हो ।

[१०६६] स सुन्वे यो वसुना यो रायामानता य इडानाम् ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ १ १ २ २ २
२ ३ १ २ ३ २
सोमो यः सुक्षितीनाम् ॥१॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१०६७] यस्य त इन्द्र पिबाद्यस्य मरुता यस्य वार्मणा भगः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवस मह ॥२॥१८॥

अ० ६ । १०८ । १३-१४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१८२] पृ० २६३ ।

(२) हे (सोम) परमेश्वर (यस्य) जिस (ते) तेरे रस को (इन्द्रः) यह आत्मा (पिबात्) पान करता है (यस्य) जिस तेरे रस को (मरुतः) ये दश प्राण और समस्त विद्वान्गण और (यस्य वा) जिस तेरे रस या बल को (अर्थमणा) अर्थमा अर्थात् समान वायु के साथ (भगः) उदान वायु और सूर्य पान करते हैं और (येन) जिसके बल पर (मित्रावरुणा) प्राण और अपान दोनों को (आ करामहे) परिचालित करते हैं और (इन्द्रम्) जिसके बल पर विद्वानजन आत्मा को (आ) साक्षात् करते हैं । वह तू (महे अथसे) बड़ी रक्षा प्राप्त करने के लिये है तू ही शान्तिप्रद अभय स्वरूप है ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१०६८] तं वः सखाया मदाय पुनानमभिगायत ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 शिशुन्नहव्यैः स्वदयन्त गूत्तिभिः ॥१॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१०६९] स वत्स इव मातृभिरिन्दुहिन्वाना अज्यते ।

३ १ २ २ ३ ३ २ ३ १ २
 देवावीमदो मातेभिः परिष्कृतः ॥ २ ॥

३ १ २ २ ३ १ ३ २ १ २ ३ ३ १ २
 [११००] अयं दत्ताय साधनाय शर्धाय वीतये ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
 अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥३॥१९॥ अ० ६ । १०५ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१६६] पृ० २८७ ।

(२) (मातृभिः) दूध पिलाने वाली माताओं द्वारा (वत्सः इव) जिस प्रकार बच्चा (हिन्वानः) प्रेरित और परिबर्धित और प्रालित

पोषित होकर (अज्यते) प्रकट होता है । उसी प्रकार (इन्द्रुः) सोम= विद्वान् शिष्य भी (मातृभिः) विद्वान् ज्ञानियों द्वारा बालक के समान (हिन्वानः) शिषित किया गया (अज्यते) विद्या आदि उत्तम गुणों से प्रकट होता है । वह (देवावीः) विद्वानों के पास जाने हारा (मदः) सबको हर्षकारक (मतिभिः) विशेष मननयोग्य प्रज्ञाओं या मननशील विद्वानों द्वारा (परिष्कृतः) परिष्कृत, अलंकृत होता है ।

(३) (अयं) यह (सोमः) उत्तम गुणों से युक्त ज्ञानवान् पुरुष (दत्ताय) बलशाली कार्य को (साधनः) साधन करने वाला और (अयं) यह (शर्धाय) बल या ज्ञान के प्राप्त करने (वीतये) और कान्ति, दीप्ति या तेज प्राप्त करने के लिये यत्नवान् हो । (अयं) यह (देवेभ्यः) विद्वानों के हित के लिये (मधुमत्तरः) माधुर्य आदि गुणों से और अधिक युक्त होकर (सुतः) उत्पन्न या दीक्षित है ।

सोम के दृष्टान्त से स्नातक का वर्णन किया है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[११०१] सोमाः पवन्त इन्द्रवोऽस्मभ्य गातुवित्तमाः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥१॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[११०२] ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशितः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो ध्रुवा घृते ॥२॥
३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[११०३] सु ज्वाणासो व्यदिभिश्चिताना गोरधि त्वच्चि ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥३॥२०॥

ऋ० १ । १०१ । १०, १२, ११ ॥

भा० — (१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५४८] पृ० २७५ ।

(२) (ते) वे (पूनासः) पवित्र हृदय वाले (विपश्चितः) मेधावी (सोमासः) सोम्यगुण वाले विद्वान् (घृते) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप ब्रह्म में (जिगत्नवः) उन्नति की तरफ जाने वाले (ध्रुवाः) स्थिर, अखण्डित, दृढ़ (सूर्यासः) आदित्यों के समान तेजस्वी, विद्वान्, आदित्य ब्रह्मचारी होकर (दर्शितासः) दर्शनीय, भव्य हों ।

(३) (गोः) सूर्य के समान तेजस्वी गुरु के (अधि त्वचि) आश्रय या संरक्षकता में (सु स्वानासः) ज्ञानवान् होते हुए (अद्रिमिः) विद्वानों द्वारा (वि चितानाः) नाना प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हुए (वसुविदः) आत्मज्ञान के जानने हारे (अस्मभ्यम्) हमें (अभितः) सब ओर से (ह्यं) ज्ञान का (सम्-अस्वरन्) उपदेश करें ।

३ २ ३ १ २ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[११०४] अया पवा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्रधन्व ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

ब्रह्मश्चिद्यस्य वातो न जूर्ति पुरुमेधाश्चिच्चकवे नरं धात् ॥१॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[११०५] उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुने श्रवाय्यस्य तीर्थे ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

पथि सहस्रा नैगुनो वसूनि वृक्षं न पक्वं धूनवद्रणाय ॥२॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[११०६] महीमि अस्य वृषनामशुपे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधेत्र ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

अस्वापयान्निगुतः स्नेहयच्चापामित्रा अपाचितो अचेतः

॥ ३ ॥ २१ ॥ अ० ९। ६७। ६२-५४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [६४१] पृ० २७० ।

(२) हे (सोम) परमेश्वर ! (श्रवाय्यस्य) श्रवण करने योग्य उपदेश के दाता तुझ प्रसिद्ध जगद्गुरु के (तीर्थे) ज्ञानसागर से तराने वाले स्थान, या आश्रमस्वरूप (श्रुते) वेद में (अधि) और भी अधिक (एना) इस प्रकार की (पवया) पवित्र करने वाली ज्ञान धारा या धारणा से (नः)

हमारे लिये (पयस्व) उपदेश करो । (वृत्तं न पक्वं) जिस प्रकार फल चाहने वाला पके फलों से लदे वृत्त को घल से कंपाता है और सहस्रों फल नीचे आ टपकते हैं उसी प्रकार आप (नैगुतः) जो मुख से कभी न कहे जाते हों ऐसे अत्यन्त गुह्य, ज्ञानों के रक्षक हैं । आप (पष्टिं सहस्रा) ६० हजार या १०६० (वसूनि) ज्ञान रत्नों को (रणाय) आत्मा के आनन्द प्राप्ति के लिये (धूनवत्) हमें प्राप्त कराओ ।

(३) (अस्य) इस आत्मा के (इमे) ये (वृष नाम) सुखों का वर्षण और उद्धर्तों का नमन ये दोनों काम (मही) बड़े भारी (शूपे) सुखकारी, मन के एकमात्र गतिस्थान हृदय में होते हैं । हे साधक (वा) और (पृशने) स्पर्शन करने वाले (बधत्रे) हिंसा या पीड़ा से बचाने वाले आश्रय त्वगिन्द्रिय में (निगुतः) छुपे हुए, निगूढ़, काम और क्रोध आदि शत्रुओं को (अस्वापयन्) सुलाता हुआ (स्नेहयतं च) और उन का नाश करता हुआ तू (अमित्रान्) उन शत्रुओं और (अचितः अप) ज्ञान रहितों को दूर कर और (अचेतः) चेतना रहित जड़ पदार्थों मूर्खों, हृदयहीनों को भी (अप) दूर कर ।

इति पठः खण्डः ।



२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ २
[११०७] अग्ने त्वं नो अन्तम उन प्राता शिवा भुवा वरूथ्यः ॥१॥

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[११०८] वसुरग्निर्वसुश्रवा अरुह्या नक्षि द्युमत्तमो रयिं दाः ॥२॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[११०९] तं त्वा शोचिष्ट दादिवः सुन्नाय नूनमीमहं सखिभ्यः ।
॥३॥ २२ ॥ अ० ५ । २४ । १, २, ४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [४४८] पृ० २२६ ।

(२) (वसुः) सबमें वास करने हारा (वसुश्रवाः) ज्ञान का श्रवण करने वाला 'ज्ञानधन' (अग्निः) ज्ञानवान् (द्युमत्तमः) अति अधिक

तेजस्वी, आत्मा (नत्ति) हृदय में व्यापक है । वह तू हमें (रयि) समस्त जीवन रूप धन को (दाः) दान कर ।

(३) हे (शोचिष्ट) कान्ति और तेज से युक्त ! हे (दीदिवः) दीप्तिमान् अग्ने ! प्रभो, हम (सुग्नाय) सुख के लिये और (सखिभ्यः) अपने समान ख्याति वाले अपने मित्रों और बन्धुओं के लिये (नूनं) अवश्य (इमहे) आप से याचना करते हैं ।

[१११०] इमा^{३ २३} नु^{३ १ २} के^{३ १ २} भुवना^{३ १ २} सीपधमेन्द्रश्च^{३ १ २} विश्वे^{३ १ २} च^{३ २} देवाः ॥३॥
३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[११११] यज्ञं^३ च^{२३ ३} नस्तन्वं^{१ २} च^{३ १ २} प्रजां^{३ १ २} चादित्यैरेन्द्रः^{३ १ २} सह^{३ १ २} सीपघातु ॥२

[१११२] आदित्यैरिन्द्रः^{३ १ २} सगणो^{३ १ २} मरुद्भिरस्मभ्यं^{३ १ २} भेषजा^{३ १ २} करत् ॥ ३ ॥ २३ ॥ ऋ० १० । १५७ । १, २, ३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अत्रिकल सं० [४५२] पृ० २२७ ।

(२) (नः) हमारे (यज्ञम्) आत्मा को (तन्वं च) और शरीर को (प्रजां च) और प्रजा सन्तति को (इन्द्रः) परमात्मा (आदित्यैः) द्वादश मासों, या आदित्य स्वरूप विद्वानों और प्राणों के (सह) साथ (सीपघातु) रक्षा कर ।

(३) (इन्द्रः) आत्मा (मरुद्भिः) प्राणों और (आदित्यैः) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा या वायुओं और ऋतुओं के द्वारा सूर्य के समान (सगणः) अपनी अनन्य लहायक शक्तियों सहित (अस्मभ्यं) हमारे लिये (भेषजा) आरोग्यकारक उपाय (करत्) करें ।

[१११३-१५] प्रवोर्चोप ॥२४॥
१ २२

भा०—(१) (वः) आप लोग (प्र) परमेश्वर की उत्तम रूप से,

(२) (अर्चं) स्तुति करो,

(३) और (उप) उपासना करो ।

[सायणाचार्य ने इस मन्त्र को एक ऋचा मान कर व्याख्या की है । माधव ने अपने विवरण में इस मन्त्रों को तीन मन्त्रों की एक संचित प्रतीक माना है जो क्रम से ' प्र च इन्द्राय० ' ' अर्चन्त्यकं० ' ' उप प्र सं मधुम० ' इन मन्त्रों के साथ शहरों से बनी है । इन तीनों मन्त्रों की क्रम से व्याख्या देखिये अद्विकल सं० [४४६, ४४५, ४४४] पृ० २२५, २२४ तदनुसार इनको यहां संक्षेप से रख देने का प्रयोजन ' उद्देश्यपुत्र ' नामक ऊहगान को दर्शाना मात्र है ।

इति सप्तमः खण्डः ।

इति प्रथमोऽर्धः प्रपाठकः ।

इति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ।

अथाष्टमोऽध्यायः

अथ चतुर्थप्रपाठकस्य (द्वितीयोऽर्धः)

ऋषिः—१ वृषगो वामिष्ठः । २ असितः काश्यपो देवलो वा । ११ भृगु-
वार्णिर्जमदमिः । ८ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः । ४ यजत आत्रेयः । ५ मधुच्छन्दो
वेशामित्रः । ७ सिकता निवावरी । ८ पुरुहन्मा । ९ पर्वतानारदौ शिखण्डिन्यौ
काश्यप्यावप्सरसौ । १० अग्रयो धिष्ण्याः । २२ वत्सः काण्वः । नृमेधः । १४
अग्निः ॥ देवता—१, २, ७, ९, १० पवमानः सोमः । ४ मिश्रावरुणौ । ५, ८,
१३, १४ इन्द्रः । ६ इन्द्राग्नी । १२ अग्निः ॥ छन्दः—१, ३ त्रिष्टुप् । २,
४, ५, ६, ११, १२ गायत्री । ७ जगती । ८ प्रागाथः । ९ उष्णिक् । १०
द्विपदा विराट् । १३ ककुप्, पुर. उष्णिक् । १४ अनुष्टुप् ॥ स्वरः—१—३
धैवतः । २, ४, ५, ६, १२ षड्जः । ७ निषादः । १० मध्यमः । ११ ऋषभः ।

१४ गान्धारः ॥

- १ २१ ३१२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [१११६] प्रकाव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमाविवक्ति ।
 १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 महिषतः शुचिवन्धुः पावकः पदा वराडो अभ्येनि रमन् ॥१॥
 २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
- [१११७] प्रहंसासस्तपलावगुमच्छामादस्तं वृषगणा अयासुः ।
 ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
 अङ्गोषिणं पवमानं सखायो दुर्मर्ष वाणं प्रवदन्ति साकम् ॥२॥
 १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
- [१११८] स योजत उरुगायस्य जूति वृथा क्रीडन्तं मिमंते न गावः ।
 ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 परीणसं कृणुते तिग्मशृंगो दिवा हरिर्दृष्टो नक्तमृजः ॥३॥
 अ० ६। ६७। ७-६५
- २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
 [१११९] प्र स्वानासो रथा इवावन्तो न श्रवस्यवः ।
 १ २ ३ १ २
 सोमासो राये अक्रमुः ॥ ४ ॥
- ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [११२०] द्विन्वानासो रथा इव दधन्वरे गभस्तयोः ।
 १ २ ३ १ २
 भरासः कारिणामिव ॥ ५ ॥
- १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [११२१] राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरजते ।
 ३ १ २ ३ १ २
 यज्ञां न सप्त धातृभिः ॥ ६ ॥
- १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [११२२] परिस्वानास इन्द्रवो मदाय वर्हणा गिरा ।
 १ २ ३ १ २
 मधो अर्पन्ति धारया ॥ ७ ॥
- ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [११२३] आपानासो विवस्वतो जिन्वन्ति उपसो भगम् ।
 २ ३ २ ३ १ २
 सुरा अण्वं वितन्वने ॥ ८ ॥

१११७—'तृपलं मन्थु', 'आंगूष्यं पवमान', 'दुर्मर्ष साकं प्रवदन्ति वाणं' ।

१११८—'संरहत उरुगायस्य' इति अ० । ११२३—'जनन्त उपसो भगं' ।

[११२४] अयं हारा मतीनां प्रतना ऋचन्ति कारवः ।

वृणां हरस आयवः ॥ ६ ॥

[११२५] समीचीनास आजन हाता नः सप्त जानयः ।

पद्मकस्य पिप्रतः ॥ १० ॥

[११२६] नाभा नाभि न आददं चक्षुषा मूर्धं दृशे ।

कवरपन्यमादुहं ॥ ११ ॥

[११२७] अभि प्रियं दिवस्पद्मध्वयुभिर्गुहा हितम् ।

सुरः पश्यति चक्षसा ॥ १२ ॥ १ ॥ श्र० ६ । १० । १-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अदिकल सं० [५२४] पृ० ४८७ ।

(२) (हंसामः) नीर शीर का विवेक करने हारे हंसों के समान सत्यासत्य का विवेक करने हारे परमहंस योगी लोग (वृषलाः^१) सत्य, रजस् और तमस् तीनों को पार करके जाने हारे, या काम क्रोधादि का प्रहार करने हारे, उन पर वशी, (वानुम्) रमणीय भनाहन नाद को (अच्छ) लक्ष्य करके (वृषगणाः) उत्तम, धर्ममेघ समाधि के साधक योगिजन (अमात्^२) अध्यक्ष बल या ज्ञान से (अस्तं) शरणा-योग्य आत्मा को (प्र अयासुः) प्राप्त होते हैं । (सखायः) वे समान आत्मा नाम वाले, या परम प्रभु के प्यारे (साकं) एक साथ (पवमानं) व्यापक (दुर्मर्षं) न सहन करने योग्य, असत्य तेज से युक्त (अंगोपिण्यं^३) इस देह में

११२५—'आसते होतारः', 'सप्त जागयः' ।

११२६—'चक्षुश्चिरस्ये सचा' । ११२७—'अभिप्रिया दिवस्पदं' इति श्र० ।

१. वृषलः क्षिप्रप्रहारी, सप्रप्रहारी सोमो वा इन्द्रो वा (नित्० ५।२।७)

२. अमा पुनर्निर्मितं भवति (नित्० ५।१।८)

३. उप दोरे दीप्तौ च । दीप्तं सोमं इति (मा० वि०)

वसने हारे, कान्तिस्वरूप या स्तुति करने योग्य (वाणं) भोक्ता आत्मा को (प्र चदन्ति) उपदेश करते हैं ।

(३) (सः) वह योगी (उरुगायस्य) विशाल गुणों वाले; स्तुतियों से सम्पन्न परमात्मा की (जूर्ति) उद्योति या प्रेरणा को (योजते) समाधि द्वारा साक्षात् करता है । (गावः) अन्य इन्द्रियगण या अन्य लोग (वृथा) अनायास (फ्रीदन्तं) नाना प्रकार से जगत् सर्जन प्रलय आदि लीला करते हुए उस परमात्मा को (न) नहीं (मिमर्ते) ज्ञान करते । (सः हरिः) वह सब दुःखों को हरण करने वाला, हरि (तिग्मशृंगः) तीक्ष्ण तेज से युक्त होकर आदित्य के समान (परीणसं) नाना प्रकार का तेज प्रकट करता है, और वह (ऋज्रः) विस्पष्ट प्रकाश से युक्त ऋजु मार्ग पर चलने हारा, धार्मिक, होकर (दिवा नक्तं) रात दिन (दृश) प्रकाशित होता है ।

इसमें सूर्य और स्वराट् योगी का वर्णन है । जिसके मुख पर दिन रात तेज का मण्डल दीखने लगता है ।

(४) (स्वानासः) विशुद्ध रूप में प्रकट होने वाले (सोमासः) ज्ञानी लोग (रथा इव) वेगवान् रथों के समान और (अर्धन्तः न) अर्थों के समान (अचस्यवः) अन्न, ज्ञान और परम ऐश्वर्य की कामना करने हारे (राये) आत्म साक्षात्कार या परमात्मानन्द प्राप्ति के लिये (अक्रमुः) और आगे कदम रखते हैं ।

(५) वे (रथा इव) रथों के समान प्रबल वेगवान् होकर और (कारिणाम्) योद्धाओं के (भरासः) संग्राम या यज्ञकर्त्ताओं के कर्त्ताओं के समान (हिन्वानासः) आगे बढ़ते हुए (गभस्त्रयोः) प्राण और अपान दोनों की साधनाओं द्वारा (दधन्विरे) साधना करते हैं ।

(६) (प्रशस्तिभिः) उत्तम कीर्तियों, स्तुतियों से (राजानः न) राजाओं के समान और (सप्तधातृभिः) सात ज्ञान धारण करनेहारे

याज्ञिक ऋत्विग्यो द्वारा या सात मुख्य प्राणों द्वारा आत्मा के समान (गोभिः) प्रकाश की किरणों द्वारा (अञ्जते) आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं ।

(७) (इन्द्रवः) ज्ञान सम्पन्न योगिजन (स्वानासः) ब्रह्मरस का सम्पादन करते हुए, (बर्हणा) बड़ी, ब्रह्मरूप (गिरा) वेदवाणी द्वारा (मधोः) अमृत रस या आत्मानन्द को (धारया) धारक शक्ति से युक्त होकर (मदाय) ब्रह्मानन्द प्राप्ति के लिये (परि अर्पन्ति) और आगे बढ़ते हैं । [देखो अवि० सं० ४८५ । पृ० २४२]

(८) (अप नासः) अपान को वश करने हारे योगिजन (विवस्वतः) विशेष रूप से देह में निवास करने हारे आत्मा के (उपसः) पापदाहक, तमोनाशक तेज के (भगम् ऐश्वर्य) को (जिन्वन्ति) प्राप्त करते हैं । वे (सुराः) सूर्य के समान आदित्य योगी उस (अरवं) अति सूक्ष्म आत्म-तत्त्व को (वितन्वते) विशेषरूप से साक्षात् करते हैं ।

(९) (प्रत्नाः) पुरातन, उच्छृष्ट अभ्यासी, (कारवः) योगक्रिया के करने हारे (वृष्णः) वर्षणशील, सुखवर्षक आत्मा के (हरसः) स्वरूप को प्राप्त होने वाले (ध्यायवः) उस तक पहुँचे हुए जन (मतीनां) मनन शक्तियों के (द्वारा) द्वारों को (अप ऋणवन्ति) खोल डालते हैं ।

(१०) जिस प्रकार यज्ञ में एक यजमान का कार्य सम्पादन करने के लिये सात ऋता लोग बैठते हैं उसी प्रकार (समीचीनासः) उत्तमरूप से गति या ज्ञान सम्पादन करने हारे, शान्तस्वरूप, सोमस्वरूप (सप्त) सात, या प्रसर्पणशील, प्राण (होतारः) आत्मा का अनुसन्धान करनेहारे (जानयः) ज्ञानोत्पादक इन्द्रियगण और विद्वान्जन (एकस्य) एक ही आत्मा के (पदं) स्थान, स्वरूप, ज्ञान या सामर्थ्य को (पिप्रतः) पूर्ण करते हुए (आशत) विराजते हैं; आनन्द का भोग करते हैं ।

(११) (नाभि) सबको केन्द्ररूप होकर बांधने हारे आत्मा को (नः) हम (नाभा) अपने शरीर के केन्द्र, या मुख्य बन्धनस्थान अपने मन में (आददे) धारण करें जिससे (चक्षुषा) ज्ञान चक्षु से हम (सूर्य) सर्वप्रेरक प्रकाशक आदित्यरूप परमात्मा का (दृशे) दर्शन करें । (कवेः) क्रान्तदर्शी, मेधावी के (अपत्यं) अविनाशी, अपने आश्रित को नीचे न गिरने देने वाले ध्रुव स्वरूप परमात्मा के (आदुहे) आनन्द रस का ग्रहण करें ।

अपत्यं कस्मादपततं भवति, न अनेन पतति इति (निरु० ३ । १ । १)

(१२) (सूरः) सूर्य के समान आदित्य योगी, उत्तम योगबल से सम्पन्न होकर (चक्षसा) दिव्य चक्षु द्वारा (अभिप्रियं) अत्यन्त मनोहर (अध्वर्युभिः) जीवन यज्ञ के सम्पादक, इन्द्रियों के सूक्ष्म सामर्थ्यो सहित (गुहा हितम्) हृदयाकाश रूप गुहा, या गुह्यरूप परमात्मा के भीतर (दिवः) दीप्त तेजःस्वरूप आत्मा के (पदं) स्वरूप को (पश्यति) देखता है ।

दिवस्पदं तस्यात्मनः पदम् (सा०) ।

इति प्रथमः खण्डः ।

[११२८] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} असृग्रमिन्द्रवः पथा धमेन्नृतस्य सुश्रियः ।

^{३ १ २ ३ १ २} विदाना अस्य योजना ॥ १ ॥

[११२९] ^{२३ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २} प्र धारा मधा अश्रियो मधीरपा विगाहते ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} हविर्हविःपु वन्द्यः ॥ २ ॥

[११३०] ^{२ ३ २ ३ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २} प्र युजा वाचा अश्रियो वृषा अचिक्रदद्वन ।

^{२ ३ २ ३ १ २ ३ २} नक्षामिसत्या अध्वरः ॥ ३ ॥

- २ ३ १२ २२ ३ २३ १ २ ३ १२ २२
 [११३१] परि यत्काव्या कविर्नृम्णा पुनानो अर्पति ।
 १२ ३ १ २
 स्वर्वाजी लिपासति ॥ ४ ॥
 १ २ ३ २२ ३ २ ३ १ २
- [११३२] पत्रमानो अभिस्पृधो विशो राजेव सीदति ।
 १ २ ३ १ २ ३ १ २
 यदीमृगवन्ति वेध्रसः ॥ ५ ॥
 २ ३ २ ३ १ २ ३ २२ ३ १ २
- [११३३] अव्या वारे परि प्रियो हरिर्वनेषु सीदति ।
 ३ १ २ ३ २
 रेभो वनुष्यते मती ॥ ६ ॥
 २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १२ २२
- [११३४] स वायुमिन्द्रमश्विना साकं मदेन गच्छति ।
 २ ३ १ २ ३ १ २
 रणा यो अस्य धर्मणा ॥ ७ ॥
 २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३
- [११३५] आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पत्रन्त ऊमयः ।
 ३ १ २ ३ १ २
 विदाना अस्य शकमभिः ॥ ८ ॥
 ३ १ २ ३ २२ ३ १ २ ३ १ २
- [११३६] अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वो वाजस्य सातये ।
 २ ३ १ २ ३ १ २
 श्रवो वसूनि सञ्जितम् ॥ ९ ॥
 २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
- [११३७] आ ते दत्तं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे ।
 २ ३ १ २ ३ १ २
 पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥ १० ॥
 २ ३ १ २ २२ ३ २२ ३ १ २ ३ १ २
- [११३८] आपन्द्रमात्ररयमाविप्रमा मनीषिणम् ।
 २ ३ १ २ ३ १ २
 पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥ ११ ॥

११३१—'नृम्णा वसानो' । ११३३—'अव्यो वारे' ।

११३४—'अस्य धर्मणा' । ११३५—'आमित्रा वरुणा भगे' इति अ० ।

[११३६] आ रथिमा सुचतुनभा सुकृतो तनूष्वा ।

पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥ १२ ॥ २ ॥

आश्वा नव ऋ० ६ । ७ । १-६ । शेषास्तिस्रः ऋ० ६ । ६५ । १८-६० ॥

भा०—(१) (इन्द्रवः) आत्मसम्पत्ति से सम्पन्न, शमादि गुणयुक्त योगीजन, (ऋतस्य) सत्यज्ञान के (धर्मन्) धारण करने हारे परमात्मा के स्वरूप में (सुभ्रियः) उत्तम रूप से आश्रय प्राप्त करने वाले (पथा) सत्य ज्ञान के मार्ग से (अस्य) इस आत्मा के (योजना) योग-समाधि द्वारा मिलानों के आनन्दों का (विदना) लाभ करते हुए (असृग्म्) कृतकृत्य होजाते हैं ।

(२) (हविःपु) समस्त अभिलाषा योग्य, या इष्टदेव को समर्पण करने योग्य पदार्थों में भी उत्तम (हविः) स्वीकार करने और वरने योग्य पदार्थ आत्मा ही (वन्द्यः) स्तुतियोग्य है । वह (महीः) बड़े (अपः) ध्यान, धारणाओं, और कर्मों और प्रज्ञाओं को समुद्रों के समान (विगाहते) पार कर जाता है और (मघोः) अमृत की (अभ्रियः) आगे प्रकट होने हारी, मुख्य, उत्तम (धाराः) शक्तियों को (प्र) प्राप्त करता है ।

(३) (अभ्रियः) मुख्य या प्रबल (वृषा उ) सुखों का वर्षक आत्मा ही (प्रयुजाः) प्रयोग करने योग्य (वाचः) वाशियों को (वने) भजन करने योग्य ब्रह्म में (अचिक्रदद्) उच्चारण करता है । वह योगी आत्मा (सत्यः) सत्याचरण करने हारा, सज्जनों में श्रेष्ठ, (अध्वरः) किसी की हिंसा न करने हारा, (सन्न) अपने आश्रयस्वरूप, परम शरण परमेश्वर को (अभि) प्राप्त होता और साक्षात् करता है ।

(४) (यत्) जब (कविः) मेधावी, ज्ञानवान् (नृम्णानि) मनुष्यों के मननशील साधन, चित्त को (पुनानः) शुद्ध पवित्र करता हुआ (काव्या) उत्तम वेदवाणियों का (परि अर्पति) ज्ञान प्राप्त करता है

तव वह (वाजी) ज्ञानवान् होकर (स्वः) परमसुख मोक्षरूप आनन्द को (सिपासेति) सेवन करना है ।

(५) (यद्) जब (ईम्) इस आत्मा को (वेधसः) योगसाधक ज्ञानी लोग (ऋयवन्ति) प्राप्त करते हैं तब (पवमानः) देदीप्यमान, आत्मा (अभिसृष्टः) स्पर्धा करने हारे, विघ्नकारी, बाधक कारणों या व्युत्थान लक्षणों का दूर करके (विशः राज इव) प्रजाओं पर राजा के समान (सीदति) प्रबल होकर बैठता है ।

(६) (हरिः) दुःखों के विनाशक आत्मा (प्रियः) अत्यन्त प्यारा होकर (वनेषु) देहों में (अव्याः वारे) चितिशक्तिरूप अवि के आवरणकारी, या वरण-योग्य त्रिपुटी आदि स्थान में (परिसीदति) विराजता है । और (रेभः) अप्रतिहत नाद करने हारा, या स्तुतिशील (मती) मनन-शक्ति द्वारा (वनुष्यते) प्राप्त किया जाता है ।

वनुष्यतिर्हन्तिकर्माऽनवगतसंस्कारो भवति (निरु० ५ । १ । २)

(७) (यः) जो (अस्य) इस सोम के (धर्मणा) धारणयोग्य गुण या धारणा बल से (रणा) रमण करता है, (सः) वह आत्मज्ञानी (वायुम्) प्राणवायु, (इन्द्रम्) आत्मा और (अश्विनौ) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों को (मदेन) आनन्द और हर्ष के साथ (गच्छति) वश कर लेता है ।

(८) (मधोः) हर्षकारक आनन्दरूप सोमरस की (ऊर्मयः) ऊर्ध्वगतियां या तरंगों (मित्रे) प्राण और (वरुणे) अपान (भगे) और समान में (पवन्ते) गति करती हैं । और साधकजन (अस्य) इस आत्मा की (शक्-मभिः) शक्तियों द्वारा (सं-विदानाः) उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ।

(९) हे. (रोदसी) सूर्य और पृथिवी, प्राण और अपान तुम दोनों (स्व-भभ्यं) हमें (वाजस्य) ज्ञान और (मध्वः) आनन्दस्वरूप अमृत की (सातये)

प्राप्ति के लिये (रथिं) प्राण सामर्थ्य, बल, (श्रवः) उपदेश, (वसूनि) जीवनोपयोगी पदार्थों पर (सं जितं) वश करादो ।

(१०) हे सोम ! (वयं) हम लोग (अद्य) आज (मयोभुवं) शान्ति को उत्पन्न करने हारे, (वह्निं) शक्तियों के वहन करने हारे, (पान्तं) हमारे पालक, (पुरुस्पृहं) सब के कामना के योग्य, (ते दत्तं) तेरे बल को (आवृणीमहे) उत्तम समझ कर प्राप्त करते हैं । अवि० [४६८]

(११) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! (वरेण्यम्) वरण करने योग्य, सर्वोत्तम, (विप्रं) मेधावी और (मनीषिणं) सबके हृदयों के प्रेरणा करने हारे (पान्तं) सब के पालक (पुरुस्पृहम्) सब के प्रेमपात्र आपको हम (आ) साक्षात् करते हैं ।

(१२) हे (सुक्रतो) उत्तम कर्म और ज्ञान से युक्त ! प्रजा से सम्पन्न ! हे (सोम) सब के प्रेरक ! (रयिम्) रयिस्वरूप (सुचेतुनम्) उत्तम ज्ञाता (तनूपु आ) हमारे देहों में भी व्याप्त (पान्तं) रक्षक (पुरुस्पृहम्) प्रजा के प्रेमपात्र और सबके स्नेही आपको (आ) वरण करते हैं ।

इतिः द्वितीयः खण्डः ।

[११४०] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २} मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमांशम् ।

^{३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २} कथिं संघ्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्र जनयन्त देवाः ॥ १ ॥

[११४१] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वा विश्वे अमृतं जायमानं शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} तव कतुभिरमृतत्वमायन् वैश्वानर यत्पित्रा दीदः ॥ २ ॥

[११४२] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} नाभि यक्षानां सदनं रथीणां महामाहावमभि सं नवन्त ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य कतु जनयन्त देवाः ॥ ३ ॥ ३ ॥

श्र० ६ । ७ । १ ; ४, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [६७] पृ० ३४ ।

(२) हे (अमृत) मरणहित अमृतस्वरूप ! हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! आत्मन् ! (शिशुं न) लोम बालक के प्रति जिस प्रकार प्रेम से आकृष्ट होकर उसको बार २ देखने की इच्छा से उस पर भुक्तते और प्रेम प्रकाश करते हैं (विश्वे देवाः) समस्त दिव्यगुणयुक्त सूर्य, चन्द्र, वायु आदि पदार्थ और विद्वान् गण उसी प्रकार (शिशुं) सर्वत्र गुप्त रूप से व्यापक (जायमानं) अपने सामर्थ्य से सर्वत्र प्रकट होने हारे आपको (अभि संनवन्ते) साक्षात् कर स्तुति करते हैं । हे (वैश्वानर) समस्त मनुष्यों के हृद्यों में व्यापक ! वे विद्वान् योगी लोग (तव) आपके ही (ऋतुभिः) उपदिष्ट कर्मों और ज्ञानों द्वारा (अमृतत्वम् आयन्) अमृतत्व या मोक्षपद को प्राप्त करते हैं । और आपका रसरूप तेज (पित्रोः) मात पिता के बीच में पुत्र के समान ही देह के पालक प्राण और अपान के मध्य सुषुम्ना नाड़ी में (अदीदेः) प्रकाशित होता है ।

(३) (यज्ञानां) देवपूजा, सत्संग, मैत्री और समस्त दान पुण्य आदि परोपकार के कार्यों के (नाभिं) एकमात्र आश्रय, केन्द्र (रयीणां सदनं) समस्त ऐश्वर्यों और वीर्य-सामर्थ्यों के भण्डार (महां) बड़े भारी (आहावं) तृष्णा का शान्त करने के निमित्त सब को अपने प्रति बुलाने वाले जलाशय के समान जीवनाधार रस के समुद्र, आपको (देवाः) विद्वान् लोग (अभि सं नवन्ते) साक्षात् स्तुति करते हैं । और उसको (अध्वराणां) समस्त हिंसा रहित पवित्र कार्यों के (रथ्यम्) महारथी के समान वहन करनेहारे (वैश्वानरं) समस्त हृद्यों में व्यापक, सबके नेता और (यज्ञस्य) आत्मा का (केतुं) ज्ञापक (जनयन्त) बतलाते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २
[११४३] प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विषा गिरा ।

१ २ ३ २ ३ २

महि क्षत्रावृत्तं बृहत् ॥१॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २
[११४४] सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च ।

३ २ ३ १ २ ३ २
देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[११४५] ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य ।

१ २ ३ २ ३ १ २
महि वां क्षत्रं देवेषु ॥३॥४॥ अ० ५ । ६ । १-३ ॥

भा०—(१) (वः) आप लोग (मित्राय) जीवन को स्नेह करने हारे प्राण और (वरुणाय) दोषों का वारण करने वाले अपान को या विद्वान् और उपदेशक को (विपा) ज्ञानयुक्त, मन से प्रेरित, सार्थक (गिरा) वाणी से (प्र गायत) स्तुति करो । हे मित्र और वरुण, (महि-क्षत्रा) बड़े बलशाली आप दोनों (बृहत्) बड़े भारी (अतं) सत्य आत्म-ज्ञान को प्रकाश करते हो ।

(२) (या) जो (मित्रः च वरुणः च) मित्र और वरुण प्राण और अपान हैं वे (उभा) दोनों (घृतयोनी) कान्ति, प्रकाश और तेज के उत्पत्ति-स्थान और (सम्राजा) स्वयं उत्तम रीति से प्रकाश देनेहारे (देवेषु) दिव्य पदार्थों, विद्वानों और इन्द्रियगण में (प्रशस्ता) प्रशंसा योग्य (देवा) सुख के दाता हैं ।

(३) (ता) वे दोनों (नः) हमारे लिये (पार्थिवस्य) पृथिवी और (दिव्यस्य) आकाश से होने वाले (महः) बड़े भारी (रायः) ऐश्वर्य सामर्थ्य को (शक्तं) भोगने और धारण करने में समर्थ हैं । (देवेषु) समस्त दिव्य पदार्थों और विद्वानों में (वां) आप दोनों का भी (महि क्षत्रं) बड़ा भारी बल है ।

१ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[११४६] इन्द्रा यादि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः ।

अएवीभिस्तना पूतासः ॥१॥

१२ २२ ३२ ३ १२ २२ ३ १ २
 [११४७] इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः ।

२ ३ १ २ ३ १ २

उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ २ ॥

२२ २२ ३ १ २ ३ २ ३, २

[११४८] इन्द्रायाहि तू तुजान उप ब्रह्माणि हरिवः ।

३ १ २ ३ १ २

सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥५॥ ऋ० १ । ३ । ४-६ ।

भा०—हे (इन्द्र) परमात्मन् ! हे (चित्रभानो) आश्चर्यकारक ज्ञानों और प्रकाशों से सम्पन्न ! (आयाहि) हमें तू प्राप्त हो । (इमे) ये समस्त (सुताः) संसार के पदार्थ (त्वायवः) तेरे आश्रय पर हैं और (अग्नीभिः) कारणस्वरूप, सूक्ष्म प्रकाशावयवों द्वारा (तना) विस्तृत विरचित और (पूतासः) पवित्र होने से ग्रहण करने योग्य हैं । अथवा (आग्नीभिः पूतासः) योगसाधनाओं से पवित्र (सुताः) ये ऐश्वर्यवान् योगीजन (त्वायवः) तेरी कामना करते हैं, तुझे चाहते हैं, तू इन्हें प्राप्त हो ।

(२) हे (इन्द्र) परमात्मन् ! (धिया) बुद्धि या उत्तम कर्म द्वारा (इषितः) प्राप्त करने योग्य (विप्रजूतः) विद्वानों से जाना गया, (सुतावतः) ज्ञान से सम्पन्न (वाघतः) वेदार्थ को जानने हारे विद्वान् ब्राह्मणों के (ब्रह्माणि) वेद मन्त्रों द्वारा की स्तुतियों को तू (उप आयाहि) प्राप्त हो ।

(३) हे (इन्द्र) विद्वन् या प्राणवायो ! (हरिवः) हरणशील अश्वरूप इन्द्रियों के स्वामिन् ! (तूतुजानः) वेगवान् आप (सुते) उत्पन्न जगत् में व्यापक (ब्रह्माणि) वेद मन्त्रों की स्तुतियों या उस के ज्ञाता विद्वानों को (आयाहि) प्राप्त करते हैं और (नः) हमारे (चनः) स्तुतियों को स्वीकार करो ।

[११४६] ^{१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} नमीडिष्व यो अचिषा वना विश्वा परिष्वजत् ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥१॥

[११५०] ^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २} य इद्ध आ विवासति सुगमिन्द्रस्य मर्त्यः ।

^{३ १ २ ३ १ २ ३ २} घुम्नाय सुतग अपः ॥२॥

[११५१] ^{२ ३ १ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} ता नो वाजवतीरिष आशून् पितृतमर्वतः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २} एन्द्रमग्निं च वाडवे ॥३॥६॥ अ० ६ । ६० । १०-१२ ॥

भा०—(१) हे मनुष्य ! (तम् अग्निम्) उस सबके पापों के दहन करने हारे ज्ञानमय परमात्मा की (इडिष्व) उपासना कर (यः) जो (अचिषा) अपने तेज से (विश्वा) समस्त (वना) भोगने योग्य कर्म-बंधनों को वनों में अग्नि के समान (परिष्वजत) जा लगता है और जैसे अग्नि वनों में लगकर उनको जलाकर काला कर देता है उसी प्रकार वह अपनी (जिह्वया) अग्नि की ज्वाला के समान भस्म करने वाली शक्ति से सबको (कृष्णा) छिन्न भिन्न, दग्ध (कृणोति) कर डालता है । जंगलों को नला देने वाली अग्नि से कर्मदाहक ज्ञानाग्नि की तुलना है ।

(२) (यः मर्त्यः) जो मरणधर्मा मनुष्य (इद्धः) स्वयं प्रकाशित, ज्ञानवान होकर (इन्द्रस्य) आत्मा के (सुगमं) सुख करने वाले ज्ञान को (आ विवासति) उद्घाटन करता है उस (घुम्नाय) प्रकाशस्वरूप ज्ञानों के लिये (अपः) कर्म बन्धन (सुतराः) सुख से तरण योग्य हो जाते हैं ।

(३) हे प्राण और अपान ! (ता) वे आप दोनों (वाजवतीः इषः) ज्ञानसम्पन्न कामनाओं और (आशून्) शीघ्रगामी वेगवान् (अर्वतः) ज्ञानेन्द्रियों को (पितृत) तृप्त करो जिससे हम (इन्द्रम् अग्निम् च) इस आत्मा और उस ज्ञानस्वरूप ईश्वर को (वाडवे) अपने में सुख से धारण करें ।

इति तृतीयः खण्डः ।

[११५२] प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्रमिनाति
 ३ १ २ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
 सङ्घिरम् । मर्य इव युवतिभिः समर्पति सोमः कलशे
 ३ १ २ ३ २
 शनयामना पथा ॥१॥

[११५३] प्र वो द्वियो मन्द्रयुवो विपन्युवो मनस्युवः संवरणेषु-
 २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 क्रमुः । हरिं क्रीडन्तमभ्यनूपत स्तुभो भि धेनवः पयसे
 २ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 दशिश्चयुः ॥२॥

[११८४] आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिपमिन्दो पवस्व पवमान
 ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 ऊमिणा । या नो दोहात त्रिरहन्नसश्चुषी जुमद्वाजवन्म-
 २ ३ १ २
 धुमत्सुवीर्यम् ॥३॥७॥ अ० ६ । ६८ । १६-२८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो आविकल सं० [५५७] पृ० २८० ।

(२) हे (सोमाः) विद्वान् पुरुषो ! (वः) आप लोगों की (धियः) प्रज्ञाएं, बुद्धियां, वाणियां (मन्द्रयुवः) आनन्दस्वरूप परमात्मा की तरंगें लगी हुई (पनस्युवः) स्तुति करने की इच्छा करती हुई, (विपन्यवः) और स्तुति करती हुई (संवरणेषु) हृदयों में विशेषरूप से या विविध यज्ञगृहों सभास्थानों, विद्वान्-मण्डलों में (अक्रमुः) फैलती हैं । (स्तुभः) विद्वान् लोग (क्रीडन्तं) जगत् का सर्जन और (हरिं) प्रलय करने हारे परमात्मा को (इत्) ही (अभ्यनूपत) साक्षात् स्तुति करते हैं और (धेनवः) रसपान करने कराने हारे व्याख्याता लोग भी अपने (पयसा) वर्णनरस से, दुग्धरस से गौवों के समान उसको ही (अभि अशिश्चयुः) अपना आधार बनाते हैं । अथवा (धेनवः) वेदवाणियां (पयसा) अपने ज्ञानरस से उसका ही अभिपेक करती हैं ।

११५२—१. 'शनयाम्ना' २. 'संवसनेष्वक्रमुः' 'सोमं मनीषा अभ्यनूपत' 'पयसे अशिश्चयुः' 'पवमानो अस्तिधे' इति अ० ।

(३) (हे इन्दो) तेजस्विन् ! सोम ! (पद्यमान) सर्वत्र व्यापक ! (या) जो (नः) हमारे लिये (अहन्) दिन में (त्रिः) तीनवार (असश्चुपी) बिना रोक टोक के (क्षुमत्) काँसियुक्त (वाजवत्) बलयुक्त, ज्ञानयुक्त (मधुमत्) आनन्दरस से पूर्ण (सुवीर्यम्) उत्तम बल (दोहते) प्राप्त करावे ऐसी (संयतं) उत्तम रीति से सुप्रबन्ध युक्त (पिप्युषीम्) सदा वृद्धि करने हारी (इपं) समृद्धि को (ऊर्मिणा) अपनी अनन्त शक्ति से (पवस्व) प्राप्त कराओ ।

[११५५] नकिष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम् ।

इन्द्रं यज्ञैर्विश्वगुप्तमश्वन्मधुष्टं धृष्णुमोजसा ॥ १ ॥

[११५६] अपाढमुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुज्रयः ।

स धेनवो जायमाने अनोनवुद्यावः क्षामीरनोनवुः ॥२॥

अ० ८ । ७० । ३-४॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२४३] पृ० १२४ ।

(२) (यस्मिन्) जिसके (जायमाने) प्रादुर्भाव होने पर (उरुज्रयः) अति वेगवान् पराक्रमी (मही) बड़ी २ (धेनवः) गौओं के समान अधिक सम्पत्ति देनेहारे प्रजागण या विद्वानगण (अनोनवुः) भुक्ते और स्तुति करते हैं । उस (अपाढं) असह्य (पृतनासु सासहिं) सेनाओं में सबसे अधिक सामर्थ्य वाले शासक के प्रति (द्यावः) तेजस्वी, उत्तम श्रेणी के धनाढ्य और ज्ञानी पुरुषगण या साधारण प्रजाएं (क्षामीः) पृथिवी के निवासी जमींदार या भूपाल भी (अनोनवुः) विनयपूर्वक स्तुति करते हैं । आत्मपक्ष में—पृतना=इन्द्रियगण । धेनवः=वाणियाँ, वेद-ऋचाएं आधिदैविक पक्ष या ब्रह्मपक्ष में, धेनवः=वेदवाणियाँ, द्यावः, क्षामीः=तेजोमय लोक और पार्थिव लोक । इति चतुर्थः खण्डः ।

११५५—'धृष्णुमोजसा' २. अपालूह' 'द्यावः क्षमी' इति अ० ८ ।

- [११५७] सखाय आ निषादित पुनानाय प्रगायत ।
 १ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ २
 २ ३ २ ३ १२ २२ ३ ३
 जिशुन्न यज्ञैः परिभूपन श्रिये ॥ १ ॥
- [११५८] सभी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम् ।
 १ २ ३ १२ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 ३ २ १ २ ३ १ २ २
 देवाव्यांसेमदमभि द्विशवसम् ॥ २ ॥
- [११५९] पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये ।
 ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम् ॥ ३ ॥ ६ ॥

श्र० ६ । १०४ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२६८] पृ० २८७ ।

(२) (मातृभिः) माताओं से जिस प्रकार (वत्सं न) वधे या बलुदे को उनका दूध प्राप्त करने के लिये मिलाया जाता है उसी प्रकार (ई) इस (सोमं) सोम रूप शुक्र को (मातृभिः) ज्ञान के साधन इन्द्रियों और मनन-शक्तियों से और (सोमं मातृभिः) जिज्ञासु शिष्य को ज्ञान कराने वाले गुरुओं से (अभि सं सृजत) साक्षात् रूप से संयोजित करो । उस (गयसाधनम्) समस्त प्राणों को वश करने हारे, (देवाव्यं) दिव्य कान्ति, सामर्थ्य और बल के प्रेरक प्रकाशक या रक्तक (मदम्) हर्षकारक और (द्विशवसं) ज्ञान और कर्म दोनों प्रकार के बल को धारण करनेहारे वीर्य तथा शिष्य को (अभि) उत्तम रूप से सम्पादन करो, शिक्षित करो ।

(३) (दक्षसाधनं) शरीर के बल को सम्पादन करने वाले इस सोम अर्थात् शुक्र को इस प्रकार (पुनात) सम्पादन करो, प्राप्त करो कि (यथा) जिस प्रकार वह (शर्धाय) शरीर के बल की वृद्धि और (वीतये) कान्ति के निमित्त हो । और (यथा) जिस प्रकार (मित्राय) प्राण और

११५८—'अभि प्रिद्विशवसम्' इति क्वचित् प्रामादिकः सायणादिव्याख्यातृभिर-

नादृतत्वात् ।

(वरुणाय) अपान इन दोनों जीवनाधारों के लिये भी (शन्तमम्) अति अधिक सुख और कल्याणकारक हो ।

[११६०] प्र वाज्यज्ञाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम् ॥१॥
^{२ उ० २२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २}

[११६१] स वाज्यज्ञाः सहस्ररेता अद्भिर्मृजानो गोभिः श्रीणानः ॥२॥
^{२ उ० २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २}

[११६२] प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्धेमाणो अद्भिभिः सुतः
 ॥ ३ ॥ १० ॥ अ० ६ । १०६ । १६-१८ ॥

भा०—(१) (वाजी) शक्तिमान्, ज्ञानी या आनन्दरस (सहस्रधारः) सहस्रों धारण करने वाली शक्तियों से युक्त होकर (अव्यं) ध्रुव, प्राणमय, (पवित्रं) पावन करने वाले (वारं) वरणीय, या दुःखों के वारक आत्मा को तिरः वि प्र अज्ञाः) साक्षात्, नाना प्रकार से उत्तम रीति से प्राप्त हो ।

(२) (सः) वह सोम योगी का आत्मा या आनन्दरस (वाजी) ज्ञानवान्, बलवान्, (सहस्ररेताः) सहस्रों पदार्थों का मूलकारण, सहस्रों शक्तियों से युक्त (अद्भिः) कर्मों और प्रज्ञाओं में (मृजानः) पवित्र होता हुआ, अधिक विस्पष्ट होता हुआ (गोभिः) वाणियों द्वारा (श्रीणानः) परिपक्व होकर (अज्ञाः) हृदय में प्रकट हो ।

(३) हे (सोम) आत्मन् ! (नृभिः) नेताओं द्वारा (धेमानः) हृदय-देश में यम नियमों द्वारा या ईश्वर-प्रणिधान द्वारा विचार किया जाकर (अद्भिभिः) स्थायी अखंडित तपःकर्मों, या ज्ञानी पुरुषों से (सुतः) साधित होकर (कुक्षौ) आत्माकाशरूप गुहा में (आयाहि) आ, प्रकट हो ।

[११६३] य सामासः परावति य अर्धावति सुन्विरे ।
^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}

ये वादः शर्यणावति ॥ १ ॥

[११६४] य आज्ञापु कृत्वसु य मध्ये पस्त्यानाम् ।
^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २}

ये वा जनपु पञ्चसु ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[११६५] ते नो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २

स्वाना देवास इन्दवः ॥४॥११॥ क्र० ९। ६५। २२-२४ ॥

भा०—(१, २, ३) (ये) जो (सोमासः) सोम, विद्वान् लोग (परावति) दूर देश में और (ये) जो (अर्वावति) समीप-देश में और (ये वा) जो (शर्यणावति) विपम अरश्यभूमि में और जो (अर्जीकेषु) ऋजु और सरल, सम देशों में और जो (पस्त्यानां) गृहमेधी, गृहस्थियों के (मध्ये) बीच में (कृत्वसु) बनाये हुए गृहों में, (ये वा) और जो (पञ्चसु) पांचों प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और पांचवें निपाद जो चारों वर्णों के भी धर्म पालन न कर सकने के कारण देश या नगर की सीमा से बाहर कर दिये जाते हैं उनमें भी (सोमासः) ज्ञान-सम्पन्न विद्वान् लोग हैं (ते) वे (नः) हमें (दिवः) आकाश या प्रकाश और शुभ पदार्थों की ज्ञान प्रकाश से उत्तम हितोपदेशों की (वृष्टिं) वर्षा अर्थात् अति अधिक राशि को (परिपवन्तां) दें और (सुवीर्यं) हमें उत्तम बल भी प्राप्त करावें । क्योंकि (देवासः) विद्या आदि शुभ दिव्य गुणों से युक्त विद्वान् (स्वानाः) ज्ञानी पुरुष ही (इन्दवः) सोम या 'इन्दु' कहाते हैं ।

इति पञ्चमः खण्डः ।



१ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[११६६] आ ते वत्सां मनो यमत्परमाच्चित्सथस्थात् ।

२ ३ १ २ ३ २

अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ १ ॥

३ २ ४ ३ २ ४ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

[११६७] पुरुत्रा हि सदङ्ङसि दिशो विश्वा अनु प्रभु

३ १ २

समत्सु त्वा हवामहे ॥ २ ॥

[११६८] ^{३ २ ३ १ २ २ ३ १ २} समत्स्वग्निमवसे वाजयन्ता हवामहे ।

^{१ २ ३ १ २} वाजेषु चित्रराधसम् ॥३॥१२॥ ऋ० ८ । ११ । ७-९ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अ विकल सं० [८] पृ० ४ ।

(२) हे (अग्ने) परमात्मन् ! (पुरुत्रा) समस्त प्रजाओं को आप ('सद्द्') समान दृष्टि से देखने वाले (असि) हो । (विश्वा दिशः, अनु) समस्त दिशाओं में (प्रभुः) आप ही ईश्वर, उत्तम सामर्थ्यवान् हो । ('समत्सु) आनन्द, उत्सवों, यज्ञों और संग्रामों के अवसरों पर (त्वा) तेरी ही (हवामहे) याद करते हैं ।

(३) हम (समत्सु) एकत्र आनन्द उत्सवों, यज्ञों और संग्रामों के अवसरों में (वाजेषु) ज्ञान, बल और अज्ञादि के प्राप्ति, उत्पत्ति और वृद्धि के कार्यों में (वाजयन्तः) ज्ञानों और ऐश्वर्यों की कामना करते हुए या बल प्राप्त करते हुए हम (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (अग्निम्) आगे के नेता-स्वरूप, आचार्य, परमगुरु परमात्मा का ही (हवामहे) स्मरण करते हैं ।

[११६९] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वं न इन्द्राभर आजो नृम्णं शतक्रतो विचक्षणो ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} आ धीरं पृतनासहम् ॥ १ ॥

[११७०] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ ।

^{१ २ ३ १ २} अथा ते सुस्रमीमहे ॥ २ ॥

[११७१] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुपबुधे सहस्रकृत ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २} स नो रास्व सुवीर्यम् ॥ ३ ॥ १३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [४०५] पृ० २०६ ।

(२) हे (वसो) सब में निवास करने हारे सर्वव्यापक ! (त्वं हि) आप ही हमारे (पिता) पालक हैं । (त्वं) आप (माता) माता के

समान उत्पादक और ज्ञानदाता (बभूविध) हैं । (अथ) और हे (शतक्रतो) सैकड़ों ज्ञानों, कर्मों को अनायास सम्पादन करने वाले ! हम (ते) आपके (सुम्नं) आनन्द, सुख की (ईमहे) प्रार्थना करते हैं ।

(३) हे । शुष्मिन् । सर्वशक्तिमन् ! हे (पुरुहूत) बहुतां से स्तुति योग्य हे (सहस्कृत) सब बलों और बलशाली शक्तिमान् पदार्थों के उत्पादक ! (वाजयन्तम्) ज्ञान और बल को दान करने हारे आपसे मैं (उपश्रुवे) प्रार्थना करता हूँ कि (नः) हमें (सुवीर्यम्) उत्तम बल, वीर्य और पुत्र, तेज और यश का (रास्व) प्रदान करें ।

[११७२] यदिन्द्र चित्र म इहनास्ति त्वादातमद्रिवः ।

राश्रस्तन्नो विद्वस उभया हस्त्याभर ॥ १ ॥

[११७३] यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र शुक्षन्तदाभर ।

विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः ॥ २ ॥

[११७४] यत्ते दिक्षु प्रराध्य मनो अस्ति श्रुनंवृहत् ।

तेन दृढा चिदद्रिव आ वाजे दर्पि सातये ॥ ३ ॥ १४ ॥

ऋ० ५ । ३६ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [३४५] पृ० १७६ ।

(२) हे इन्द्र ! परमात्मन् ! (यत्) जो (शुक्षम्) अन्न, धन और यश आप (वरेण्यं) वरण करने योग्य श्रेष्ठ (मन्यसे) जानते हैं (तद्) वही (आभर) हमें प्राप्त करावें । (तस्य) उस अचिन्त्य महिमा चाले (अकूपारस्य) अति सुन्दर, अनिन्दनीय, असीम परम आनन्द के

११७२—'उपश्रुवे सहस्कृत' इति ऋ० ।

११७३—'दावने' । ११७४—'यत्ते दिक्षु' इति ऋ० ।

सागरस्वरूप, सबको उत्तमरूप से पालन करने हारे (ते) तुम्ह (दावनः) दानशील के दान को हम (विद्याम) प्राप्त करें ।

(३) हे (अदिवः) ज्ञानस्वरूप या प्रलय करने हारी शक्ति के मालिक ! (यत्) जो (ते) तेरा (दिक्षु) समस्त दिशाओं में (प्रराध्यं) उत्तम रूप से प्याराधन करने योग्य, (वृहत्) बड़ा विशाल, (श्रुतं) श्रवण करने योग्य (मनः) मनन करने योग्य बल और ज्ञान है (तेन) उस से ही (दृढाचिद्) पुष्ट, उत्तम (वाजं) ज्ञान और बल को (सातये) सबको समान रूप से दान करने के लिये (आदर्षि) खण्ड २ करके, अनुभव और विचारक्रम से देते हो ।


इति षष्ठः खण्डः ।

इति द्वितीयोऽर्धः ।

इति चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः । इत्यष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥

अथ पञ्चमः प्रपाठकः (प्रथमोर्धः)

अथ नवमोऽध्यायः ।



अग्निः—१ प्रतर्दनो दैवोऽग्निरग्निः । २-४ अस्तितः काश्यपो देवलो वा । ५, ११ उच्यथः । ६, ७ अमहीयुः । ८, १५ निभ्रुविः कश्यपः । ९ वसिष्ठः । १० सुकशः । १२ कविः । १३ देवानिधिः काण्वः । १४ भर्गः प्रागाथः । १६ अम्बरीषः । अजिष्वा च । १७ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः । १८ उशानाः काव्यः । १९ नृमेधः । २० जेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता—१-८, ११, १२, १५-१७ षषमानः सोमः । ९, १८ अग्निः । १०, १३, १४, १६, २० इन्द्रः ॥ छन्दः—२-११, १५, १८ गायत्री । त्रिष्टुप् । १२ जगती । १३, १५ बृहती । १४

की (रभेन्^२) अर्चना, ध्यान, गुणगान करता हुआ (अति एति) कर्म बन्धन को पार कर जाता है ।

(२) (यः) जो (ऋषिमनाः) मन्त्रद्वारा के समान मनन शक्ति से युक्त, स्वयं (ऋषिकृत्) अपने आपको ऋषि, तत्त्वदर्शी बनाने द्वारा, विवेकी, (स्वर्पाः) स्वयं उत्तम २ सब पदार्थों के मर्मों का द्रष्टा, (सहस्रनीथः) सहस्रों प्रकार से ईश्वर को स्तुति करने द्वारा, या सहस्रों सुख और ज्ञान औरों को प्राप्त कराने द्वारा, (कवीनां) बहुत मेधावी, प्रज्ञावान् पुरुषों को (पदवीः) ज्ञान प्राप्त कराने द्वारा, सन्मार्ग का दर्शक, स्वयं (महिषः) महान् है, वह मुमुक्षु जीव (तृतीयं) तीसरे (धाम) लोक को अथवा इस कर्मबन्धन को पार करके प्राप्त होने योग्य परम ज्योतिःस्वरूप मोक्ष को (सिपासन्) प्राप्त करता हुआ, (विराजम्) विराट परमेश्वर की (षुप्) स्तुति करता हुआ (अनु राजति) उसके अनुग्रह से आनन्द प्राप्त करता है और सद्गति को प्राप्त होता है ।

(३) (चमूपत्) अपनी ग्राहक इन्द्रिय-शक्तियों में पूर्ण रूप से विराजमान (श्येनः) गतिशील आत्मा कर्मबन्धन को पार करके मोक्ष मार्ग से गमन करने द्वारा, (शकुनः) शक्तिसम्पन्न, (विभृत्वा) समस्त लोकों में विहार करने में स्वतन्त्र होकर (गोविन्दुः) समस्त ज्ञान-रश्मियों और आदित्यमय लोक या परमब्रह्म को प्राप्त करने द्वारा, जितेन्द्रिय या समस्त लोकों को प्राप्त करने द्वारा, (आयुधानि) सकल सामर्थ्यों को (विभ्रत्) धारण करता हुआ, (महिषः) महिमा में सम्पन्न, महत्त्व को प्राप्त होकर (अपां) समस्त लोकों के (ऊर्मिम्) प्रेरक (समुद्रं) समुद्र के समान एकमात्र उत्कृष्ट सब के आश्रय परमेश्वर को (स्तवमानः) भजन करता हुआ (तुरीयं) मोक्षस्वरूप (धाम) आनन्द को (विवक्ति) प्राप्त करता है । इस सूक्त में परमहंस की परमगति का स्पष्ट वर्णन है, ऐसे परम मुक्ति लाभ करने वाले को वेद गोविन्दु, शकुन, श्येन आदि नामों से

पुकारता है । पौराणिकों ने गरुड़ गोविन्द, समुद्रशायी आदि की कल्पना इन्हीं शब्दों के आधार पर की प्रतीत होती है ।

[११७८] ^{३ १२ २२ ३ २ २ १२ २२ ३ १ २} एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन् ।

^{१ २ ३ ३ ३ २} वधन्तो अस्य वीर्यम् ॥१॥

[११७९] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ १ २} पुनानासश्चमूपदा गच्छन्तो वायुमश्विना ।

^{१ २ ३ ३ १ २} ते नो धत्त सुवीर्यम् ॥२॥

[११८०] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} इन्द्रस्य सोम रात्रभे पुनानां हाहं चोदय ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} दवानां योनिमालदम् ॥३॥

[११८१] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} मजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः ।

^{१ २ ३ १ २} अनु विप्रा अमादिपुः ॥४॥

[११८२] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ ३ २} देवेभ्यस्त्वा मदायकं सृजानमतिमेध्यः ।

^{१ २ ३ १ २} स गोभिर्वालयामसि ॥६॥

[११८३] ^{३ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २} पुनानः कलशेषा वस्त्रारायारुपो हरिः ।

^{२ ३ १ २} परि गव्यान्यव्यत ॥६॥

[११८४] ^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} मघोन आ पत्रस्व नो जाहि विश्वा अप द्विषः ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} इन्द्रो सखायमाशिश ॥७॥

[११८५] ^{३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २} नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम् ।

^{३ १ २ ३ १ २ २} भक्षीमहि प्रजामिषम् ॥८॥

[११८६] ^{३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २} वृष्टिं दिवः पारस्रव द्युम्नं पृथिव्या आध ।

^{१ २ ३ १ २} सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥९॥२॥ अ० ६ । ८ । १-६ ॥

भा०—(१) (एते सोमाः) ये सोम्यगुणसम्पन्न विद्वान्गण (अस्य) इस इन्द्र के (वीर्यं) सामर्थ्य या यश को (वर्धन्तः) बढ़ाते हुए, फैलाते हुए (इन्द्रस्य) ईश्वर के (प्रियं) उत्तम (कामम्) अभिलषित धर्म, सृष्टि के उत्पादन, रक्षा और परोपकार आदि को (अहरन्) प्रकाशित करते हैं ।

(२) (चमूपदः) अपने ज्ञान ग्रहण शक्तियों में जितेन्द्रिय होकर विराजमान (पुनानासः) पवित्र होते हुए (अश्विना) प्राण और अपान दोनों और (वायुम्) सबके प्रेरक आत्मा को (गच्छन्तः) उपलब्ध करते हुए (तेन) उस परमेश्वर या अपने भीतरी इन्द्र स्वरूप आत्मा के बल पर (उ) ही (सुवीर्यम्) उत्तम यश, बल और सामर्थ्य को (धत्त) धारण करते हैं ।

(३) हे (सोम) साधक ! (राधसे) इन्द्रस्वरूप परमात्मा की आराधना के लिये (हार्दि) हृदय में विराजमान (देवानां) देवगण, इन्द्रियों तथा पञ्चभूतों के (आसदं) प्रतिष्ठास्थान और (योनिं) मूलकारण चित्ति शक्ति को (चोदय) प्रेरित कर ।

(४) हे (सोम) योगिन् (त्वा) तुझको (दश) दश (क्षिपः) यम और नियम, या दश धर्मलक्षण, या दश प्राण (मृजन्ति) पवित्र, परिशोधन करते हैं और (सप्त) सात (धीतयः) ज्ञानेन्द्रिय या मूर्धा में स्थित सप्त छिद्रों में प्रवाहित प्राणशक्तियों, या सात स्थानों में लगाई गई ध्यानवृत्तियां (हिन्वन्ति) तुझको पूर्ण आनन्दित करती, बढ़ाती हैं । (विप्राः) ज्ञानी पुरुष तुझको लक्ष्य करके, तेरे अनुकूल होकर (अमादिपुः) प्रसन्न होते हैं ।

(५) (देवेभ्यः) इन्द्रियगण या विद्वानों को (मदाय कं) आनन्दलाम करने और आनन्दकारी, ज्ञान से तृप्त करने के लिये (मेष्यः) आत्मा में

आनन्दरस वर्पण करने वाली प्राण शक्ति को (अति) पार करके (सृजानः) वर्तमान आत्मानन्दरस को (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा (सं वासयामसि) आच्छादित करते हैं । उसका वेदवाणियों द्वारा वर्णन करते हैं ।

(६) (कलशेषु) हृदय प्रदेशों में (पुनानः) पवित्र होता हुआ (अरुषः) कान्तिमान् (हरिः) दुःखहारी, व्यापक आनन्दरस (गव्यानि) वेदवाणियों या प्राणों के वने (वस्त्राणि) आच्छादनों को (परि अव्यत) धारण करता है, उनसे परे चला जाता है ।

(७) हे (इन्दो) आत्मन् ! (मघोनः) सम्पत्तियों से युक्त ज्ञानवान् (नः) हमारे प्रति तू (आपवस्व) प्रकट हो । और (विश्वाः) समस्त (द्विपः) दूसरे के प्रति अप्रेम या द्वेष के भावों को (अप) दूर कर । (सखायम्) परम सखा परमात्मा में (आविश) प्रवेश कर, उसे प्राप्त कर ।

(८) हे (सोम) साधक आत्मन् (स्वर्दिदः) सोच सुख को प्राप्त करने और जानने हारे (इन्द्रपीतं) ईश्वर के अनुग्रह से, या आत्मा के अपने ही रस से वृत्त (नृचक्षसम्) समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखने हारे (त्वा) तुझको हम (भक्षीमहि) सेवन करें और (प्रजाम्) उत्तम सन्तान और (इषम्) बल, अन्न और सत् ज्ञान को भी (भक्षीमहि) प्राप्त करें ।

(९) हे (सोम) परमात्मन् (दिवः) अपने तेजमय प्रकाश से आकाश से मेघ के समान (पृथिव्याः शधि) पृथिवी के ऊपर (वृष्टिं) सुखों की वर्षा (परिस्रव) बरसा । और (युम्ने) तेज, यश या धन और (सहः) सहन शक्ति, या बल को (नः) हमारी (पृत्सु) इन्द्रियों और प्रजाओं में (धाः) धारण करा ।

इति प्रथमः खण्डः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [११८७] सोमः पुनानो अर्षति सहस्रवागे अत्यविः ।

३ १ २ २ ३ २

वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम् ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २

[११८८] पवमानमवस्यवा विप्रमभिप्रगायत ।

३ २ ३ १ २
 सुष्वाणं देववीतये ॥२॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[११८९] पवन्ते वाजसानये सोमाः सहस्रपाजसः ।

३ २ ३ १ २

गुणानां देववीतये ॥३॥

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

[११९०] उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः ।

३ १ २ ३ १ २
 द्युमदिन्द्रो सुवीर्यम् ॥४॥

१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[११९१] अत्या हियाना न हेतुभिरसृग्रं वाजसातये ।

२ २ ३ १ २ ३ १ २

विनारमव्यमाशवः ॥५॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २

[११९२] ते नः सहस्रिणं रयिं पवन्तामा सुवीर्यम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २

स्वाना देवास इन्द्रवः ॥६॥

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[११९३] वाथा अर्षतीन्द्रवोऽभि वत्सं न मातरः ।

३ १ २ २ २

दधन्विरे गभस्त्योः ॥७॥

२ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

[११९४] जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिकदत् ।

२ ३ २ ३ १ २

विश्वा अप द्विषा जहि ॥८॥

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[११९५] अप क्षन्तो अरावृणः पवमानाः स्वर्दशः ।

१ २ ३ १ २

यानावृणस्य सीदत ॥९॥३॥ अ० ६ । ख० ३ । १-९ ॥

भा०—(१) (सोमः) आत्मा, (पुनानः) पवित्र करने हारा (सहस्रधारः) हज़ारों, अनेक अगणित शक्तियों से सम्पन्न होकर (वायोंः) सर्वव्यापक (इन्द्रस्य) परमात्मा के (निष्कृतं) कर्म-बन्धनों से परे परम पद को (अत्यविः) प्राण के आवरण को पार करके (अर्पति) प्राप्त होता है ।

(२) हे (अवस्यवः) रक्षा चाहने वाले विद्वान् लोगो ! (पचमानं) सब को पवित्र करने हारे (विप्रम्) विशेष ज्ञान से और आनन्द से सबको पूर्ण करने हारे, (देववीतये) परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (सुष्वाणं) उत्तम रूप से प्रकट होने हारे उत्तम ज्ञान को या प्रसव या उत्तम प्रेरणा करने हारे उस आत्मा को (अभि प्र गायत) लक्ष्य कर स्तुति करो ।

(३) (सहस्रपाजसः) सहस्रों ज्ञानों से युक्त, सहस्रों आत्मिक बलों से युक्त (सोमाः) शमदम आदि गुण से सम्पन्न विद्वान् गण (देववीतये) परमात्मा को प्राप्त करने के लिये (गृणानाः) उसकी स्तुति करते हुए (पचन्ते) अपने आत्मा को पवित्र करते हैं ।

(४) हे (सोम) सबके उत्पादक ! (नः) हमें (वाजसातये) ज्ञान प्राप्त करने के लिये (बृहतीः इपः) बड़ी २ प्रेरणायें, दीप्तियें, शक्तियें (पवस्व) प्रकाशित कर । हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवन् ! हमें (धुमत्) दिव्य गुणों से युक्त (सुवीर्यम्) उत्तम सामर्थ्य भी दो ।

(५) (वाजसातये) ज्ञान और सुख के लाभ के लिये (हियानाः) प्रयत्न करते हुए (आशवः) मोक्ष या ज्ञान मार्ग से भी शीघ्रगति करते हुए विद्वान् लोग (हेतृभिः) साधनों से (अव्यं वारं) तामस या प्राकृतिक या प्राणमय आवरण को (वि-अति-असृग्न्) पार कर जाते हैं ।

(६) (ते) वे (इन्द्रवः) योगिजन (देवामः) विद्वान् पुरुष (स्वानाः) साधना करते हुए (नः) हमारे लिये भी (सुवीर्यम्) उत्तम बलयुक्त, यश उत्पादक (सहस्रिणं) हज़ारों तत्वों के प्रदर्शक (रायिम्) ज्ञान और ऐश्वर्य को (पचन्ताम्) प्राप्त करें और प्रकट करें ।

(७) (वाशाः) उत्तम उपदेश करने हारे (मातरः) ज्ञान सम्पादन करने हारे (इन्द्रवः) विद्वानगण परमात्मा के प्रति इसी प्रकार (अर्पन्ति) जाते हैं जैसे (मातरः वत्सं न) गौवें अपने बच्चे के प्रति जाती हैं । और वे (गभस्त्वोः) उसी प्रकार प्राण अपान दोनों के बल से अपने को (दधन्विरे) धारण करते हैं, स्थिर, दृढ़ बनाये रहते हैं ।

(८) हे (पवमान) परमपावनकारी ! तू (इन्द्राय) परमात्मा के लिये (जुष्टः) प्रेम करने हारा साधक (मत्सरः) अपने ही में सदा सुप्रसन्न आत्मानन्द, स्वतः तृप्त (कनिक्रदत्) सबको समान भाव से उपदेश करके (विश्वाः) समस्त (द्विपः) द्वेष करने हारे प्राणियों को और द्वेष बुद्धियों को (जहि) नाश कर अर्थात् अज्ञात शत्रु हो जा ।

(९) हे (पवमानाः) समस्त संसार को अपने धर्मोचरणों से पवित्र करते हुए, पंक्तिपावन (स्वर्शः) मोक्ष सुख का दर्शन करने वाले आप लोग (श्रावणः) दान रहित, कदर्यवृत्तियों को (अप ध्वन्तः) दूर करते हुए (ऋतस्य) सत्यज्ञान के (योनौ) परम आश्रय, ब्रह्म में (सीदत) प्राप्त होवो ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

—:०:—

१, २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[११६६] सोमा असुग्रमिन्द्रवः सुता ऋतस्य धारया ।

इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[११६७] अभि विषा अनूपत गात्रो वत्सं न धेनवः ।

इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ २ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[११६८] मद्रव्युत् जति सादने सिन्धोरुर्मा विपश्चित् ।

१, २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
(१३) सोमा गौरी अग्निश्रितः ॥ २३ ॥

३ १२ २२ ३ २ ३ १ ३
 [११६६] दिवो नाभा विचक्षणोऽग्न्या वारे मधीयते ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २
 सोमो यः सुकृतुः कविः ॥ ४ ॥

१२ २२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [१२००] यः सोमः कलशेषा अन्नः पवित्र आहितः ।

२ ३ २ १ २
 तमिन्दुः पारपस्वजे ॥ ५ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१२०१] प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि ।

२ ३ १ २ ३ १ १
 जिन्वन् कोशं मधुश्चुतम् ॥ ६ ॥

१ २ ३ २ ३ १ १ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१२०२] निन्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्तः सवर्दुधाम् ।

३ १२ २२ ३ २
 हिन्वानो मानुषा युजा ॥ ७ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २
 [१२०३] आ पवमान धारय रयि सहस्रवर्चसम् ।

३ १ २ ३ १ २
 अस्मं इन्द्रो स्वाभुवम् ॥ ८ ॥

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ २
 [१२०४] अभि प्रिया दिवः कविर्विप्रः स धारया सुतः ।

१ २ ३ १ २
 सोमो हिन्वे परावति ॥ ९ ॥ ४ ॥ अ० ६ । १२ । १-६ ॥

भा०—(१) (इन्द्राय) परमेश्वर के निमित्त (मधुमत्तमाः) अमृतमय ज्ञानों से समृद्ध (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की (धारया) धारा, व्यवस्था, या वाणी से (सुताः) प्रेरित हुए (इन्द्रवः) ज्ञानेश्वर्यादि से सम्पन्न सब के आह्लादक (सोमाः) शुभ गुणों से युक्त विद्वान् लोग (असृग्मम्) उत्पन्न होते हैं ।

(२) (वसं न) जिस प्रकार बड़ड़े के प्रति (धेनवः) दूधार (गावः) शौण्डं इमारती हैं, प्रेम से उसको अपने प्रति बुलाती हैं वही प्रकार (सोमस्य पीतये) ज्ञानरस का प्राप्ति करने के लिये (इन्द्रं)

अपने आत्मा और ऐश्वर्यवान् परमात्मा को (विप्राः) मेधावी लोग प्रेम से (अनूपत) स्तुति करते हैं, उसके सत्यगुणों का स्मरण करके उस को पुकारते हैं ।

(३) (विपश्चित्) ज्ञान और कर्म फल का सञ्चय करने वाला, (मदच्युत्) हर्ष और आनन्द का जनक, (सोमः) शमादि सम्पन्न, विद्वान् पुरुष, (गौरी) वेदमयी वाणी में (अधिश्रितः) आश्रय पाकर (मदच्युत्) ज्ञानी होकर (सादने) अपने आश्रय देने वाले (ऊर्मौ) ऊर्ध्व गति की तरफ़ लेजाने हारे (सिन्धौ) सिन्धु के समान सब को गति देने, सबको बांधने और अपने में आश्रय देने हारे, प्राणों के प्राण और ज्ञान के समुद्र परमात्मा में (ज्ञेति) निवास करता है ।

(४) (विचक्षणः) विशेष तत्व का द्रष्टा, (कविः) क्रान्तदर्शी, मेधावी, (सुक्रतुः) उत्तम प्रज्ञावान्, (दिवः) समस्त दैत्यों को (नाभौ) अपनी शक्ति में बांधने वाले (अग्न्याः वारे) महान् प्रकृति को भी आवरण करने हारे परमात्मा या प्राण के बने अन्तःकरण में (महीयते) महत्व को प्राप्त करता, बड़ी शक्ति प्राप्त करता है ।

(५) (यः) जो (सोमः) आनन्दमय परमात्मा (कलशेषु) अन्तःप्राप्त देहों में अन्तर्यामी होकर विराजता और (पवित्रे) पवित्र हुए आत्मा के बीच (आहितः) विशेष रूप से प्रकट होता है (तम्) उसको (इन्दुः) ज्ञानी पुरुष, जीव (परि सस्वजे) जा चिपटता है, आश्रय करता है, उसमें प्रविष्ट होता है ।

(६) (इन्दुः) ज्ञानी पुरुष (समुद्रस्य) समस्त आनन्द-रसों के सागर परमेश्वर के (अधिविष्टपि) परम तेज या ज्ञानरूप परमपद में विराजमान होकर (मधुश्चुतम्) परम आनन्दरस को देने हारे, आनन्दमय (कोशं) कोश को (जिन्वन्) प्राप्त करता हुआ, मधुमय पुष्प, कोश

को प्राप्त भौरे के समान (वाचं) स्तुतिमय वेदवाणी के उत्तम ज्ञान को (इष्यति) प्राप्त करता है ।

(७) (वनस्पतिः) समस्त लोकों का स्वामी (नित्यस्तोत्रः) नित्य-स्तुतिकर्ता ज्ञानी, (युजा) योग सम्पादन करने हारे (मानुषा) मनुष्यों के (अन्तः) भीतर (सवर्दुषाम्) सुख, परमानन्द रस का दोहन करने वाली (धेना) सरस्वती या आनन्द पान कराने वाली ज्ञानमयी चित्ति शक्ति को (हिन्वानः) प्रेरण करने और उसके बल को बढ़ाने हारा है ।

(८) हे (पवमानः) सर्वव्यापक ! हे (इन्द्रो) तेजःस्वरूप ! (सहस्रवर्चसम्) सहस्रों दीप्तियों से युक्त; (स्वाभुवम्) उत्तम सामर्थ्य से सम्पन्न, (रथि) ऐश्वर्य और बल को (अस्मे) हमें (धारय) धारण करा ।

(९) (कविः) क्रान्तदर्शी, (सुतः) ज्ञानसम्पन्न ! विद्वान् (परावति) परम रक्षास्थान, परमात्मा में स्थित होकर (विप्रः) मेधावी (धारया) परमात्मा से प्राप्त अपनी धारणा शक्तिया, रसधारा से (सः) वेह (दिवः) सूर्य के समान ज्ञान के प्रकाश से उज्ज्वल (प्रिया) अति उत्तम कान्तियुक्त लोकों में (अभि हिन्वे) विहार करता है ।

इति तृतीयः खण्डः ।

२ ३ ५ २ ३ ५ २ ३ ५ २ ३ २
[१२०५] उक्तं शुभमास ईरते सिन्धोरूमैरिव स्वनः ।

वाणस्य चोदया पविम् ॥ १ ॥

३ २ ३ ५ २ ३ ५ २ २ ३ २ ५

[१२०६] प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः ।

२ ३ ३ २ ३ ५ २

यद्व्य एषि सानवि ॥ २ ॥

^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २}
[१२०७] अव्या वारैः परि प्रियं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः ।

^{१ २ ३ १ २}
पवमानं मधुश्चुतम् ॥ ३ ॥

^{१ २ ३ ३ २ १ २}
[१२०८] आपवम्ब मदिन्तम पवित्रं धारया कवे ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २}
अर्कस्य यानिमासदम् ॥ ४ ॥

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २}
[१२०९] स पवस्व मदिन्तम गोभिरक्षानो अकुभिः ।

^{१ २ ३ १ २}
एन्द्रस्य जठरं विश ॥ ५ ॥ ५ ॥ अ० ६। ५०। १-५ ॥

भा०—(१) हे सोम ! (सिन्धोः) नदी या समुद्र के (ऊर्मैः) उमड़ने वाले तरङ्ग का (इव) जिस प्रकार (स्वनः) ध्वनि (उत् ईरते) उठता है उसी प्रकार (ते) तेरे (शुष्मासः) बल और शक्तियों के तरङ्ग भी सर्वत्र उठते हैं, प्रकट होते हैं । तू (वाणस्य) इस संसार या इस शरीर के (पवि) वाणी या प्रवर्त्तक शक्ति को (चोदय) प्रेरित कर ।


(२) (ते) तेरे (प्रसेव) प्रकट होने पर (मखस्युवः) तेरी अर्चना के इच्छुक भक्तजन की (तिस्रः वाचः) तीनों प्रकार की वेदवाणियाँ ज्ञानमय, गानमय और कर्ममय, ऋक्, साम, यजुः स्वरूप उस समय (उत् ईरते) उठती हैं, प्रकट होती हैं । जब तू (अव्ये) चित्तिशक्ति या प्राण के बने (सानौ) उन्नत मस्तक देश या आनन्द प्रकट करने वाले अन्तःकरण में (एपि) धारणा द्वारा प्रकट होता है ।

(३) विद्वान् लोग (प्रियं) तृप्तिकर, उत्कृष्ट, (हरिं) दुःखों को दूर करने वाले, (पवमानं) हृदय को पवित्र करने वाले, (मधुश्चुतम्) अमृतरस को चुआने वाले उस प्रभु को (अद्रिभिः) योगसाधनों या गुरुओं, ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट साधनों से (अव्याः वारैः) चित्तिशक्ति की वृत्तियों, धारणा और निदिध्यासनादि व्यापारों द्वारा (हिन्वन्ति) साक्षात् करते हैं, उत्पादन करते हैं ।

(४) हे (मदिन्तम) सबसे अधिक आनन्द प्राप्त करनेहारे आत्मन् ! हे (कवे) मेधाविन् ! विद्वन् ! (अर्कस्य) प्रकाशमान परमात्मा के (गोभिः) परम स्थान को (आसदं) प्राप्त होने के लिये (धारया) अपनी धारणा शक्ति या वाणी से (पवित्रं) स्वच्छ, शुद्ध, उस पतितपावन के प्रति (आपवस्व) गति कर, उसकी तरफ लौट जा उसकी स्तुति कर ।

(५) हे (मदिन्तम) आनन्द प्रदान करने हारे आत्मन् ! (अ-
क्तुभिः) ज्ञान-साधनों और (गोभिः) आदित्यरश्मियों, वेदवाणियों द्वारा (अन्जानः) अभिव्यक्त और भी प्रकाशमान होकर (सः) वह परम रूप होकर (पवस्व) क्षरित हो, गति कर, उद्योग कर और (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यशील परमात्मा के (जठरे) भीतर गर्भ में (विश) प्रवेश कर, उसी में रम ।

इति चतुर्थः खण्डः ।



३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[१२१०] अया वीती परिभव यस्त इन्द्रो मदेष्वा ।

३ १ २ ३ १ २ २

अवाहन्नवतीनव ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१२११] पुरः सद्य इत्था धिये दिवा दासाय शंवरम् ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

अथ त्यं तुर्वशं यदुम् ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ ५ २ २ ३ १ २

[१२१२] परि नो अश्वमश्वविद्गोमदिन्द्रो हिरण्यवत् ।

१ २ ३ २ ३ ५ २

क्षरा सहनिणीरिषः ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० । ६ । ६१ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [४६५] पृ० २४६ ।

(२) हे सोम ! (इत्था धिये) सत्य प्रज्ञानों से युक्त और सत्यकर्मा (दिवोदासाय) सूर्य के समान ज्ञानमय प्रकाश में निवास करनेहारे, जीवन्मुक्त पुरुष के लिये (शंवरं) सुख, कल्याण के विनाशक उस (तुर्वशं)

हिंसक स्वभाव, क्रोध और (यदुं) नियम करने योग्य काम को (अध) भी (अव अहन्) नाश करता है ।

(३) हे (इन्दो) रसरूप आत्मन् ! (अश्वविद्) इन्द्रिय और मन को उत्तम रूप से लाभ करने द्वारा, (गोमत्) ज्ञानेन्द्रियों और (हिर-य्यवत्) हरणशील प्राणेन्द्रियों से युक्त (अश्वं) मन को वश करके (नः) हमें (सहस्रिणीः) सहस्रों प्रकार से वर्तने वाली या बलवती (ह्यः) कामनाओं को (हर) पूर्ण कर ।

[१२१३] अपघ्नन् पवते मृधोप सोमा अराव्णः ।

गच्छीन्नन्द्रस्य निष्कृतम् ॥१॥

[१२१४] महो नो राय आभर पवमान जहो मृधः ।

रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥२॥

[१२१५] न त्वा शतं चन हुतो पथो दित्सन्तमामिनन् ।

यत् पुनानो मखस्यसे ॥३॥७॥ अ० ६ । ६२ । २५-२७ ॥

भा—(१) (सोमः) परमात्मा (इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्) जीव आत्मा के पवित्र अन्तःकरण में प्रकट होना हुआ (अराव्णः मृधः) सुख न देने हार, दुखदायी कारणों को (अपघ्नन्) विनाश करता हुआ (पवते) प्रकट होता है ।

(२) हे (पवमान) हे सबको पवित्र करने हारे परमात्मन् ! (नः) हमें (रायः) नाना प्रकार की धन धान्य सम्पदाएं (आ भर) प्राप्त करा । (मृधः) हिंसक शत्रुओं को (जहि) नाश कर । हे (इन्दो) ऐश्वर्यशील हमें (वीरवत्) पुत्र पौत्रों से युक्त (यशः) यश और सम्पत्ति का (रास्व) दान कर ।

(३) हे (सोम) परमात्मन् ! या आचार्य ! उपदेशक ! विद्वन् ! (राधः) ज्ञानरूप साधनों का ज्ञानोपदेश (दित्सन्तम्) करने की इच्छा

चाले (त्वा) आपको (शतं चन) सैकड़ों भी (हुतः) कुटिलाचारी हिंसक.
पुरुष (न अभिनन्) नहीं मार सकते । (यत्) क्योंकि (पुनानः) सबको
पवित्र करते हुए आप (मस्त्रस्यसे) सबको ज्ञान का प्रदान करना चाहते हो ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१२१६] अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २
हिन्वानो मानुपीरपः ॥१॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

[१२१७] अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि ।

३ १ २ ३ १ २
अन्तरिक्षेण यातवे ॥२॥

३ २ ३ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २

[१२१८] उत त्या हरितो रथे सूरौ अयुक्त यातवे ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १

इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन् ॥३॥ ॥ अ० ६ ६३ । ७-६१ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४६३] पृ० २४६ ।

(२) (पवमानः) आत्मा को पवित्र करने हारा (सूरः) सूर्य के
समान ज्ञानी (मनौ) मननशील चित्त में (अन्तरिक्षेण) भीतर के
हृदयाकाश में, या परमसुख, या मोक्ष मार्ग में (यातवे) जाने के लिये
(एतशं) अश्व के समान गमन-साधन मन को (अयुक्त) योगसमाधि
द्वारा ईश्वर से मिला, उसके प्रति जोड़े ।

(३) (इन्दुः) ईश्वर के प्रति द्रुतगति से जाने हारा (सूरः) ज्ञानी,
योगी (उत) भी (त्या हरितः) उन हरणशील प्राणों को (इन्दुः)
'परमेश्वर ही (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् हैं' (इति) इस प्रकार (ब्रुवन्) कहता
हुआ (रथे) अपने रमण करने योग्य परब्रह्म में ही आपको (अयुक्त)
योगसमाधि से जोड़ दे ।

इति पञ्चमः खण्डः ।

उ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
 [१२१६] अग्निं वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूनमध्वरे

२ १२ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

कृणुध्वम् । यां मर्त्येषु निधुविर्ऋतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः

पावकः ॥१॥

२ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१२२०] प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन् यदा महः संवरणाद्व्यस्थात् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १

आदस्य वातो अनुवाति शोचिरथ स्म ते व्रजं कृष्ण-

मस्ति ॥२॥

१ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१२२१] उद्यस्य ते नवजानस्य वृणोऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

अच्छाद्यामरुषो धूम एपि संदूनो अग्न ईयते हि देवान्-

॥३॥ ६॥ अ० ७। ३। १-३ ॥

भा०—(१) हे विद्वान् गण ! (वः) आप लोग (अग्निभिः)
 सूर्यादि अग्नियों के समान प्रकाश करने हारे विद्वानों के साथ (सजोषाः)
 समान रूप से प्रेम करने हारे, निष्पक्षपात, (यजिष्ठ) दानशालि पुण्यकर्मी
 (अग्निम्) तेजस्वी, अग्निसम, विद्वान को (अध्वरे) हिंसारहित धर्म
 कार्यो और व्यवहारों में (दूतं) दूत के समान अपना संदेशहर (कृणु-
 ध्वम्) बनाओ (यः) जो (मर्त्येषु) मनुष्यों में (निधुविः) खूब स्थिर
 निश्चय वाला, धैर्यवान् (ऋतावा) सत्याचारी, सत्यकर्मी, (तपुः) तपस्या
 युक्त सहनशील और राजाओं को तापकारी, (मूर्धा) सब में शिर के
 समान मुख्य और (घृतान्नः) तेजस्वी, सात्विक भोजन करने हारा
 (पावकः) पवित्रकारी है । अध्यात्मपक्ष में-शेष अग्नियों, इन्द्रियादि सात
 ज्वालाचियों से युक्त उस अग्नि, ज्ञानवान् आत्मा को अपने जीवन रूप
 अध्वर=यज्ञ में दूत, उपदेशक; या मार्गदर्शी, प्रेरक बनाओ जो सरणधर्मा
 पुरुषों में भी आत्मा रूप से अचल सत्यज्ञानी, तपस्वी, मूर्धन्य, तेजस्वी और

हृदय को पवित्र करने हारा है । परमात्म पद में—(अग्निभिः सजोपाः) सूर्यादि समस्त तेजों में भी व्यापक (घृताक्तः) तेजोयुक्त समस्त हिरण्य-गर्भादि लोकों को प्रलय काल में अपने में लीन करने हारा (तपुः) सब का तापक, (पावकः) सब का शोधक, (निध्रुविः) नित्य ध्रुव (श्रुतावा) सत्य स्वरूप, सत्योपदेष्टा है उसको अपने समस्त कार्यों में ज्ञानदाता गुरु समझो ।

(२) (प्रोधन्) शब्द करता हुआ (अश्वः न) अश्व जिस प्रकार (अविष्यन्) भोजन करने की कामना से (यवसे) घास पर जाता है उसी प्रकार (यदा) जब (महः) महान् श्रेष्ठ (संवरणान्) संवरण निरोधस्थान या वरण योग्य उत्तम ब्रह्मचर्याश्रम, या गुरुगृह से अपने यश और धनादि प्राप्ति और गृस्थादि भोग्य आश्रमों के लिये (वि अस्थात्) बाहर आता है और (आत्) अनन्तर (अस्य) इसके (शोचिः) तेज के (अनु) अनुकूल (वातिः) प्राण भी (वाति) गति करता है (अध) तब ही हे विद्वान् ! (ते) तेरा (व्रजनं) मार्ग या गमन करना (कृष्णम्) समस्त लोकों को अपनी ओर आकर्षण करने वाला (अस्ति) होता है । ब्रह्मचर्य करने के बाद गृहस्थ में भी उत्तम सदाचार और स्वस्थता से व्यवहार और जीवन यापन करने वाले विद्वानों के जीवनपथ पर दुनियां भी खिंची चली आती है । मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः । गीता ।

(३) हे अग्ने ! (नवजातस्य) सावित्री के गर्भ से अभी नये ही बाहर आये नवस्नातक, (वृष्णः) ज्ञानों के वर्षण करने हारे (यस्य ते) जिस तेरे (अजराः) जरारहित होकर बलवान् प्रखर, (हृधानाः) तेज (उच्चरन्ति) प्रकट होते हैं । और (अरुषः) कान्तिमान् (धूमः) प्रति पक्षियों में कम्पना उत्पन्न करने हारा होकर (धाम्) सूर्य या तेज प्रकाशक और ज्ञान को (पृषि) प्राप्त करता है वह तू हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! (देवान्) विद्वानों के प्रति (दूनः) ज्ञान संदेश ले जाने के लिये दून या

अति उग्रस्वभाव (अस्तृतः) कभी न हिंसित (वज्रः न) विघ्न नाशक
 आयुध के समान (गिरा) वेदवाणी द्वारा (सम्भृतः) उत्तम रीति से
 धारण किया गया (वज्रत्वे) संसार को धारण करता है ।

इति षष्ठः खण्डः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१२२५] अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आनय ।

३ १ २ ३ १ २
 पुनाहीन्द्राय पानवे ॥१॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ४ कर १ २
 [१२२६] तव त्वे इन्द्रा अन्धसो देवा मधोव्याशत ।

१ २ ३ १ २
 पवमानस्य मरुतः ॥२॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ४ ३ १ २ ३ १ २
 [१२२७] दिवः पीयूषमुत्तमं सोमनिन्द्राय वज्रिण ।

३ २ ३ १ २

सुनाता मधुमत्तमम् ॥३॥११ ऋ० ६ । ५१ । १, ३, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४६६]पृ० २४८ ।

(२) हे (इन्द्रो) सोम ! आत्मन् ! परमात्मन् ! (पवमानस्य) पवित्र
 करने हारे, या स्वयं पवित्र, (मधोः) अमृतरसस्वरूप (ते) तेरे (अन्धसः)
 जीवन धारण करने की शक्ति या उपभोग्य आनन्दरस का (त्वे) त्वे (म-
 रुतः) प्राणस्वरूप (देवाः) देव अर्थात् तेजस्वी सूर्य आदि और विद्वान्जन
 (वि आशत) विविध प्रकार से उपभोग करते हैं ।

(३) हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (दिवः पीयूषम्) आकाश को
 आनन्द से भर देने वाले, चन्द्रालोक के समान अति आल्हादजनक, ज्ञान-
 स्वरूप प्रकाश के (पीयूषम्) अमृतरसस्वरूप, (मधुमत्तम्) अति मधुर,
 आनन्दकारी, (सोमम्) ब्रह्मानन्दरस को (वज्रिणे) ज्ञान और वैराग्य रूप
 वज्र के धारण करने हारे (इन्द्राय) आत्मा के लिये (सुनात) उत्पन्न करे ।

[१२२८] धर्त्ता दिवः पवते कृत्वयो रसो दत्ता देवानामनुमाद्या
 नृभिः । हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजांसि
 कृणुषे नदीष्वाम् ॥१॥

[१२३६] शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वाः सिषासन् रथिरो
 गावष्टिपु । इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिन्दुहिन्वानो
 अज्यते मनीषीभिः ॥२॥

[१२३०] इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरे
 प्वाविश । प्रनः पिन्व विद्युदभ्रव रोदसी धिया नो वाजी
 उपमादि शश्वतः ॥२॥१२॥ अ० ६ । ७६ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५५८] पृ० २६ ।

(२) (शूरः न) जिस प्रकार शूरवीर योद्धा अपने (गभस्त्योः)
 दोनों हाथों में (आयुधा) नाना प्रकार के हथियार (धत्ते) धारण करता
 है उसी प्रकार सोमस्वरूप साधक अपने प्राण और अपान नामक ग्रहण
 (साधनों से नाना ज्ञानसाधनों को, या ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों को
 धारण करे और (रथिरो) रथी, वीर के समान (गविष्टिपु) गौ=इन्द्रियों
 या वेद मन्त्रों के इष्ट मार्गों में (स्वः) सुख को (सिषासन्) यथावत्
 प्राप्त करता हुआ (इन्द्रस्य) अपने आत्मा के (शुष्मम्) बल या प्राण को
 (ईरयन्) प्रेरित करता हुआ (अपस्युभिः) सिद्ध, कर्मयोगी (मनीषीभिः)
 विद्वानों द्वारा (हिन्वानः) अपने योगमार्ग में ज्ञानोपदेश द्वारा प्रेरित
 होता हुआ (इन्दुः) परमैश्वर्य सम्पन्न होकर (अज्यते) ज्ञान, प्रकाशों
 द्वारा देदीप्त हो ।

(३) हे (सोम) ब्रह्मानन्द के साधक मुमुक्षो ! हे (पचमान) हृदय को पवित्र करने हारे ! तू (तविव्यमाणः) महान् सामर्थ्यवान् होकर (इन्द्रस्य) परमात्मा के (जठरेषु) बनाये हुए या प्राणियों को उत्पन्न करने हारे लोकों में (ऊर्मिणा) ऊर्ध्वगति द्वारा (आविश) प्रविष्ट हो ! (विद्युत् सभ्रा इव) जिस प्रकार विद्युत् उत्पन्न होकर मेघों को जल बरसाने के लिये पूर्ण करती है उसी प्रकार तू (रोदसी) प्राण और अपान दोनों को पूर्ण कर और (नः) हमारे लिये (शश्वतः) बहुत से (वाजान्) बलों और जानों को (उप माहि) उत्पन्न कर ।

१ २ ३ २४ ३२ ३६ २२ ३२ ३ १ २

[२१३१] यादन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्ना ह्यसे नृभिः ।

१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १ ३ १ २

सिमा पुरुनृपूना अस्यानवंसि प्रशर्द्ध तुर्वशे ॥१॥

२ ३ २ ३ १ १ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१२३२] यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

कएवासस्त्वा स्तोमेभिर्वहवाहस इन्द्रा यच्छन्त्यार्गाह

॥२॥१३॥ अ० ८ । ४ । १-२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२७६] पृ० १३४ ।

(२) हे इन्द्र ! आप (रुमे) रमणीय, (रुशमे) हिंसक (श्यावके) गतिमान और (कृपे) सामर्थ्यवान् पुरुष में (सचा) समान भाव से (मादयसे) आनन्द और हर्ष को प्राप्त कराते हो । (ब्रह्मवाहसः) ज्ञान धारण करने हारे (कएवासः) मेधावी पुरुष (त्वा) तुमको (स्तोमेभिः) अपनी स्तुतियों द्वारा (यच्छन्ति) बांधते हैं, वश करते या प्राप्त होते हैं । तू (आर्गाहि) आ, दर्शन दे । यहां आत्मा के प्रति सम्बोधन करके कहा गया है । 'रुम,' 'रुशम,' 'श्यावक' और 'कृप' ये चार शब्द ब्राह्मण, त्रिविध वैश्य और शूद्र चारों प्रकार के स्वभावों को दर्शाते हैं । "जात पांत पूछे लहैं कोई हरिको भजे सो हरिको होई ।"

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ १ २ २

[१२३३] उभयं शृणुवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

सत्राच्या मघवान्सोमपीतये धियां शविष्ठ आगमत् ॥१॥

२ ३ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१२३४] तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे निष्टनक्षतुः ।

३ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

उतोपमानां प्रथमो निपीदसि सोमकामं हि ते मनः

॥ २ ॥ १४ ॥ अ० ८ । ६१ । १, २ ॥

भा० — (१) व्याख्या देखो आविकल सं० [२६०] पृ० १४८ ।

(२) (हि) क्योंकि (तं) उस (स्वराजं) स्वयं प्रकाशस्वरूप, स्वतः सबके प्रकाशक, (वृषभम्) समस्त सुखों के वर्षक, परमेश्वर को (धिषणे) आकाश और पृथिवी (ओजसा) अपने बल से (निःततक्षतुः) धारण करती हैं । हे प्रभो ! तू (उपमानां) ज्ञानयोग्य अथवा अपने बनाये समस्त पदार्थों के भी (प्रथमः) प्रथम ज्ञानोपदेश करने हारा या रचने हारा होकर उनमें (निपीदसि) गुप्तरूप से व्यापक है । (ते) तेरे (मनः) मन, संकल्प या ज्ञान सामर्थ्य सदा (सोमकामं हि) सबको प्रेरणा करने वाला, सबका उत्पादक, इच्छामय कारणरूप संकल्प मात्र है ।

‘सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ इत्यादि प्रकार का सृष्टि रचने का भगवान् का संकल्प समस्त पदार्थों में व्यापक है, जो सर्वत्र अद्भुतरूप से स्थावर, जंगम एवं दिव्य सृष्टियों को बराबर बनाता है और उन सबमें भगवान् स्वतः व्यापक भी है । (तत् सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत् । तदनुप्रविश्य सच्च्यञ्चाभवत् निरूक्तं चानिरूक्तं च । इत्यादि (तैत्तिरीय उप० ब्रह्मानन्द वल्ली २। अनु० ६।) आकाश और पृथिवी परमात्मा को अपने भीतर धारण करती हैं । जैसे (सुएडकोपनि० २ मु० व० १. क० ४) ‘अरिन्मूर्धा, चतुपी चन्द्र-

२२३३—२, ‘तमोजसे’ इति अ० ।

सूर्यो दिशः श्रोत्रे, वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो, हृदयं विश्वमस्य, पद्भ्यां पृथिवी, ह्येव सर्वभूतान्तरात्मा” । अथवा छान्दोग्य में, वैश्वानर प्रकरण में—
 “तस्य ह वा पृतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चतुर्विधरूपः प्राणः पृथ-
 ग्वरमोऽऽत्मा संदेहो ब्रह्मलो, वस्तिरेव रयिः, पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलो-
 मानि हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वहार्यपचनः आस्यमाहवनीयः ।” (छा० उप०
 अ० ५ । ख० १७) अथवा स्वयं वेद श्रुति—“यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतो-
 दरम् । दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।” (अथर्व० का० १.०।
 सू० ८ । सं० १)

इति तप्तनः खण्डः ।

[१२३५] पवस्व देवं आयुषागेन्द्रं गच्छतु ते मदः ।

वायुमारोह श्रमणा ॥ १ ॥

[१२३६] पवमानं नि तौशसे रयिं सोमं श्रवाण्यम् ।

इन्द्रो समुद्रमाविश ॥ २ ॥

[१२३७] अत्रघ्नन् पवमे मृथः क्रतुवित्साम मत्सरः ।

सुदस्वा देवयु जनम् ॥३॥१५॥ इ० ६ । ६३ । २२-२४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [४२३] पृ० २४२ ।

(२) हे (पवमान) सोम ! विद्वन् ! आप (श्रवाण्यं) यश और कौर्त्सि के जनक अथवा वेद द्वारा श्रवण करने योग्य (रयिं नितौशसे) आत्मज्ञान का ऐश्वर्य का प्रदान करते हो एवं अभ्यास करने हो । अतः हे (इन्द्रो) ज्ञान-प्रकाशक ! आप (समुद्रन्) समुद्र के समान गम्भीर, अगाध, ज्ञानमय परब्रह्म ज्ञान में (आविश) प्रवेश करें ।

१२३५—‘प्रियः समुद्र’ इति सू० ।

(१) कन्यासु संहितासु ‘अपक्षन् पवसे मृथः’ एतावदेव क्रकप्रतीक-
 सुफलम्यते ॥

३१२ ३१२ ३१२ ३१२
 [१२३८] व्याख्या देखो अतिकूलं सं० [४६३] पृ०-२३२ ।

[१२३८] अभी नो वाजसातमं रथिमर्षं शतस्पृहम् ।

इन्दो सहस्रमर्षं तनुविद्युत्सं विभासहम् ॥ १२३९ ॥

[१२३९] वयं ते अस्य राधसां वसार्वसो पुरुस्पृहः ।

नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुप्ते ते अधिगो ॥ १२४० ॥

[१२४०] परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्य मदच्युतः ।

धाराय ऊर्द्धा अध्वरे अजा न याति गव्ययुः ॥ १२४१ ॥

६१ ॥ १६ ॥ १, ५, ३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अतिकूलं सं० [४६३] पृ०-२३२ ।

(२) हे (अधिगो) ध्रुव ! सबसे अधिक शक्तिशालिन् (इहे) (वसो)
 सबके अन्तर्यामिन् ! (वयं) हम लोग (ते वसोः) सबको वास देने
 (हारे और सबमें बसने हारे तरे (पुरुस्पृहः) सबको प्रेम करने हारे
 (और) सबके प्रेमपात्र (अस्य राधसः) इस आराधनीय (इषः) सबके
 प्रेरक, सबके इच्छाके विषय, जीवन और अन्नादिक शक्तिस्वरूपके
 (नेदिष्ठतमाः) अति निकटवर्ती होकर हम (ते सुप्ते) तेरे सुखसंयं स्वरूप
 में (नि स्याम) रहें ।

(३) (यः) जो (इन्दुः) सोम अर्थात् वीर्य, (गव्ययुः) गौं=
 इन्द्रियोंमें व्याप्त होनेवाला या इन्द्रियोंकी शक्तिसे युक्त (नि) जिस
 प्रकार (अजा) अपनी दक्षिणसे, (अध्वरे) हिसारहित जीवन या

१२३८—अन्यासु संहितासु प्रतीकमात्रम् 'अभी नो वाजसातमं' ।
 १२३९—'वयं ते अस्य वृत्रहनं वसो वसवः पुरुस्पृहः'... 'स्याम सुप्तेऽधिगो' ।
 १२४०—'परिष्ठवानो अक्षरं' 'अजानेति' इति आ०

प्राणायाम और योगसमाधि रूप यज्ञ में (धारा) धारण सामर्थ्य वा निष्ठा या दाणीरूप से (ऊर्ध्वः) ऊर्ध्व प्रदेशों में (याति) गमन करता है । (स्यः) वही (स्वानः) पुनः सूक्ष्म नाड़ीजालों में चरित होकर (मदच्युतः) आनन्द-रूप अमृत का स्रवण करता हुआ (इन्दुः) कान्तिमान् होकर (अग्नये) प्राणमय कोश में बल से (अक्षरद्) चरित होता या प्रकट होता है ।

१२ ३१ २३२ ३ २ ३२ ३ २ ३ १२ २२
[१२४१] पवस्व सोम महान्तसमुद्रः पिता देवानां विश्वाभिधामा॥१॥

३१ २ ३१ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २
[१२४२] शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सांम दिवं पृथिव्यै शं च प्रजाभ्यः॥२॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २
[१२४३] दिवो धर्त्तासि शुक्रः पांयूपः सत्ये विधर्मन् वाजी पवस्व
॥ ३ ॥ १७ ॥ अ० ६ । १०६ । ४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अविकल सं० [४२६] पृ० २१६।

(२) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! तू (शुक्रः) शुद्धस्वरूप, कान्तिमान् (दिवः) आकाश और दिव्य, जागृत्यमान सूर्य में तेजःस्वरूप होकर (पृथिव्यै) पृथिवी में जलस्वरूप और अन्नस्वरूप होकर (प्रजाभ्यः) समस्त प्रजाओं के लिये अन्न, औषधि और वीर्यरूप होकर (शं) कल्याणकारक, शान्तिदायक और आनन्ददायक है ।

(३) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! तू (शुक्रः) तेजःस्वरूप, शुक्ल, कान्तिमान् (दिवः) सूर्य को भी (धर्त्ता) धारण करने हारा, (सत्ये) सत्यस्वरूप (विधर्मन्) विश्व को नाना रूप से धारण करने हारे परमेश्वर में (पीयूपः) समस्त जीवों द्वारा पान करने, उनको तृप्त कर अनुकूल संवेदन करने योग्य, अनन्त आनन्दस्वरूप, (वाजी) बलवान्, ऐश्वर्यवान् होकर (पवस्व) प्रकाशित हो ।

इति अष्टमः खण्डः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २}
[१२४४] प्रेष्टं वो अतिथिं स्तुपे मित्रमिव प्रियम् ।

^{२ ३ २ ३ १ २ २ २}
अग्ने रथं न वेद्यम् ॥ १ ॥

^{३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २}
[१२४५] कविमिव प्रशंस्यं यं देवास इति द्विता ।

^{१ २ ३ २}
नि मर्त्येष्वदादधुः ॥ २ ॥

^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ ३ १ २ २ २}
[१२४६] त्वं यविष्ठ दाशुषो नूँः पाहि शृणुही गिरः ।

^{१ २ ३ २ ३ १ २ २ २}
रक्षा तोकमुत त्मना ॥ ३ ॥ १८ ॥ अ० ८ । ८४ । १

(१) व्याख्या देखो अधिकल सं० [५] पृ० ३ ।

(२) (देवासः) विद्वान् लोग (प्रशंस्यं) उत्तम रीति से स्तुत करने योग्य, (कविम् इव) क्रान्तदर्शी, मेधावी के समान । इति) इस प्रकार प्रत्यक्षरूप से (यं) जिसको जानकर (द्विता) दो रूपों में (मर्त्येषु) मनुष्यों में (नि-आदधुः) धारण करते हैं ।

विद्वानों की दृष्टि में आत्मा के दो रूप हैं—एक समस्त संसार में व्यापक सर्वसाक्षी परमेश्वर और दूसरा कर्मकर्ता और फल भोक्ता जीव दोनों का सामान्य नाम 'आत्मा' है ।

(३) हे (यविष्ठ) सब में व्यापक ! सबसे अधिक शक्ति वाले ! (त्वं) तू (दाशुषः) दानशील, उदार होकर (नूँ) मनुष्यों को (पाहि) पालन कर । (गिरः) स्तुति वाणियों को (शृणुही) श्रवण कर । (उत) और (त्मना) स्वयं अपने सामर्थ्य से (तोकं) बालक या उसके समान कार्य जगत् की (रक्ष) रक्षा कर ।

^{१ २ ३ १ २}
[१२४७] एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २}
गिरिन विश्वतः पृथुः पतिद्विवः ॥ १ ॥

३ १२ २२ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [१२४८] अभि हि सत्य सोमपा उभे चभूथ रोदसी ।

१२ २२ ३ २ ३ १२ २२ ३ २

इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः ॥ २ ॥

१२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १२ २२

[१२४९] त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दत्ता पुंगमसि ।

३ २ ३ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ २

हन्ता दस्योर्मनो वृधः पतिर्दिवः ॥ ३ ॥ १६४ ॥

शु० म । ६८ । ४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३६३] पृ० २०२ ।

(२) हे (सध्य) सत्यस्वरूप परमात्मन् ! (इन्द्र) हे पेश्वर्यवन् !

आप (सोमपाः) समस्त संसार के पालन करने वाले, प्रलय-काल में सब संसार को स्वयं सूक्ष्म कारण रूप में अपने भीतर पान अर्थात् लीन करने वाले हो । आप (उभे) दोनों (रोदसी) लोकों को या उत्पत्ति और विनाशरूप दोनों मर्यादाओं को (चभूथ) चश करने में समर्थ हो । आप (सुन्वतः) उत्पन्न होते या अपनी शक्ति से प्रेरणा करते हुए (दिवः) सूर्य या प्रकाश को भी (वृधः) बड़े भारी, बढ़ाने वाले (पतिः) मालिक हो ।

(३) हे (इन्द्र) परमात्मन् ! आप (शश्वतीनां) अनादिकाल से चले आये (पुंगम) देहरूप पुरों के (दत्ता) दारण करने वाले, मुक्तिदायक (असि) हो । (दस्योः) नाशकारी अज्ञान के (हन्ता) नाश करने वाले और (मनोः) मननशील ज्ञानी आत्मा के (वृधः) बढ़ाने वाले और (दिवः) सूर्य तथा उसके समान देदीप्यमान आदित्य) योगी पुरुषों और ज्ञानी और ज्ञान-प्रकाश के भी (पतिः) स्वामी हो ।

१२४७—३. धर्ता पुरान् इति पाठः सायणसम्मतः । परमार्थतस्तु सायणोऽपि

दारयिता इत्येव पर्यायमुल्लिखति । मुम्बई, अजमेरादिमुद्रितो 'धर्ता'

इति पाठस्तु मौष्यकद्विरनादृतः । पुरामिन्द्ररित्यादिशुश्रूयन्तरविरोधाच्च ।

[१२५०] पुरां भिन्दुयुवा कविरामतोजा अजायत ।

इन्द्रा विश्वस्य कर्मणा धत्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ १ ॥

[१२५१] त्वं बलस्य गोमतो पावराद्रिवा विलम् ।

त्वां देवा अपिभ्युषन्तुज्यमानास आत्रिपुः ॥ २ ॥

[१२५२] इन्द्रमीशानमाजसाभिस्तोमैरनूषत ।

सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ ३ ॥ २० ॥

अ० ११ ११ । ४, ५, ८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [३५६] पृ० १८६ ।

(२) हे (अद्रिवः) दीर्घ या विनाश न होने वाले, अविनाशी स्वरूप वाले आत्मन् ! (त्वं) तू (गोमतः) इन्द्रियों से युक्त (बलस्य) प्राण के (विलम्) प्रवेशस्थान शरीर बन्धन को (अप अवः) खोल देता है, (देवः) समस्त अग्नि आदि देव (अपिभ्युषः) तेरी रक्षा में भय न करते हुए (तुज्यमानासः) पीड़ित होकर अथवा तुरु से ही शक्ति प्राप्त करते हुए । (त्वां) तेरे पास (आ अत्रिपुः) शरण में प्राप्त होते हैं ।

जैसा ऐतरेयोपनिषद् में—“ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् । ता एनमनुवन् आयतनं नः प्रजानीहि । ताभ्यः पुरुषेभ्यः आनयत् । ता अनुवन् सुकृतं वतेति पुरुषो वाव सुकृतम् । ताः अत्रचीदुः सथायतनं प्रविशतेति ॥ ३ ॥ अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्, वायुः प्राणोः भूत्वा नासिके प्राविशद्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशद् । ” इत्यादि समस्त देवताओं को पुरुष शरीर में प्रविष्ट कराकर आत्मा इन्द्रस्वरूप स्वयं नानुव द्वार से प्रविष्ट होगया । “स एतमेव सीमानं विदार्य एतथा द्वारा प्रापद्यत । सैषा विद्वृतिर्नामद्वास्तदेतज्जानन्दनम् । ” इत्यादि प्रकरण में इस मन्त्र का रहस्य खोला गया है । (ऐतरेय उप० अ० ११ ख० ११ । ३)

(३) हे विद्वानो ! (ओजसा) अपने ओज, बल और वीर्य से (ईशानं) समस्त संसार को वश करने हारे मालिक (इन्द्र) परम आत्मा की (स्तोत्रैः) वेदमन्त्रों द्वारा (अभि अनूपत) स्तुति करो । (यस्य) जिसके (रातयः) दिये हुए दान हज़ारों और (उत) और भी (भूयसीः) बहुत अधिक (सन्ति) हैं ।

इति नवमः खण्डः ।

इति प्रथमोऽर्धः प्रपाठकः ।

इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ।

अथ दशमोऽध्यायः

अथ पञ्चमप्रपाठकस्य (द्वितीयार्धः) प्रपाठकः ।

ऋषिः—१ पराशरः । २ शुनःशेषः । ३ असितः काश्यपो देवलो वा । ४, ७ राहूगणः । ५, ६ नृमेधः प्रियमेधश्च । ८ पवित्रो वसिष्ठो वोभौ वा । ९ वसिष्ठः । १० वत्सः काण्वः । ११ शतं वैखानसाः । १२ सतर्पयः । १३ वसुभरद्वाजः । १४ नृमेधः । १५ भर्गः प्रागाथः । १६ भरद्वाजः । १७ मनुरापसवः । १८ अम्बरीषश्चाजिश्वा च । १९ अश्वयो धिष्ण्याः ऐश्वराः । २० अमर्हीयुः । २१ त्रिशोकः काण्वः । २२ गोतमो राहूगणः । २३ मधुच्छन्दा वैशामित्रः ॥ देवता—१—७, ११—१३, १६—२० पवमानः सोमः । ८ पावमान्यध्येतृस्तुतिः । ९ अग्निः । १०, १४, १५, २१—२३ इन्द्रः ॥ छन्दः—१, ६ त्रिष्टुप् । २—७, १०, ११, १६, २०, २१ गायत्री । ८, १८, २३ अनुष्टुप् । १३ जगती । १४ निचृद्बृहती । १५ प्रागाथः । १७, २२ उष्णिक् । १२, १६ द्विपदा पंक्तिः ॥ स्त्रः—१, ६ धैवतः । २—७, १०, ११, १६, २०, २१ पङ्क्तः । ८, १८, २३ गान्धारः । १३ निषादः । १४, १५ मध्यमः । १२, १६ पञ्चमः । १७, २२ ऋषभः ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
 [१२५३] अक्रान्तसमुद्रः प्रथमे विधर्मन् जनयन् प्रजा भुवनस्यः

३ २ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २
 गोपाः । वृषा पवित्र अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृषे
 ३ १ २ २

स्वानो अद्रिः ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१२५४] मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १
 मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान् मत्सि द्यावापृथिवी

देव सोम ॥ २ ॥

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २
 [१२५५] महत्तसोमो महिषश्चकारापां यदुगर्भोऽवृणीत देवान् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
 अद्धादिन्द्रे पवमान आजोऽजनयत्सूर्योऽज्यातिरिन्दुः

॥ ३ ॥ १ ॥

ऋ० १। ६७। ४०-४२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [५२६] पृ० २३६ ।

(२) हे आत्मन् ! तू (वायुम्) वायु और प्राण को (मत्सि) प्रसन्न और चेतन करता है, (इष्टये) अभीष्ट-प्राप्ति और (राधसे) आराधना के कारण (नः) हमको (मत्सि) आनन्दित करता है । (पूयमानः) सर्वत्र प्रकाशित होकर (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण, सूर्य और मेघ और प्राण और अपान दोनों को (मत्सि) हर्षित करता है, गति देता है । (शर्धेः) बलस्वरूप होकर (मारुतं) प्राण और प्रबल वायु को भी (मत्सि) हर्षित करता, मानों आनन्द में नचाता है । (मत्सि देवान्) समस्त सूर्य चन्द्रादि देवों एवं इन्द्रियों को (मत्सि) आनन्दित करता, उनको नियम, से गति देता है, और हे (देव सोम) सबके प्रकाशक और उत्पादक प्रेरक आत्मन् ! (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी, ज्ञानी और अज्ञानी नर और नारी दोनों को (मत्सि) हर्षित करता, एवं तृप्त करता है ।

(३) व्याख्या देखो अवि० सं० [५४२] पृ० २७१ ।

- [१२५६] एष देवा अमर्त्यः पणो विरिव दीयते ।
 अभि द्रोणान्यासदम् ॥ १ ॥
- [१२५७] एष विप्रैरभिष्टुतोऽपो देवा विगाहते ।
 दधद्रत्नानि दाशुष ॥ २ ॥
- [१२५८] एष विश्वानि वायां शूरा यन्निव सत्वभिः
 पत्रमानः सिषासति ॥ ३ ॥
- [१२५९] एष देवा रथर्यति पत्रमानो दिशस्यति ।
 आविष्कृणाति वग्नुम् ॥ ४ ॥
- [१२६०] एष देवा विपन्युभिः पत्रमान ऋतायुभिः ।
 हरिवाजाय मृज्यते ॥ ५ ॥
- [१२६१] एष देवा विषाकृतोऽनिह्वरांसि धावति ।
 पत्रमानो अदाभ्यः ॥ ६ ॥
- [१२६२] एष दिवं विधावति तरा रजांसि धारया
 पत्रमानः कनिक्रदत् ॥ ७ ॥
- [१२६३] एष दिवं व्यासरत्तिरा रजांस्यस्तृतः ।
 पत्रमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥
- [१२६४] एष प्रप्नेन जन्मना देवा देवभ्यः सुतः ।
 हरिः पवित्रं अर्पति ॥ ९ ॥
- [१२६५] एष उ स्य पुरुवना जज्ञाना जनयन्निषः ।
 धारयाः पवते सुतः ॥ १० ॥

भा०—(१) (देवः) प्रकाशमान, (अमृत्यः) मरणरहित, अमृत-स्वरूप जीव (द्रोणकलशाति) द्रोणकलशां, अर्थात् देहों के (अभि) प्रति (आसदम्) प्रवृत्त होकर उनमें विराजने के लिये (पर्यावीः इव) पक्षी या किरणों से युक्त सूर्य के समान या पत्तों से युक्त वृक्ष के समान (दीयते) प्राप्त होता या उनमें विराजता है ।

द्रोण अर्थात् गति करने का स्थान और कलश अर्थात् कला या खण्ड २ संचय करके बना हुआ । फलतः यह शरीर द्रोणकलश है । इनमें शुक्रस्वरूप दीक्षिमय चतनावान् आत्मा 'सोम' है । वह इन शरीरों में निवास करने के लिये पिण्डों में पत्ती के समान आता है । इस आत्मा के सोम और इन्द्र-विषयक अलंकार का स्पष्टीकरण देखो (यजुर्वेद अ० २० । मं० ८६-९५) यथा—“आन्त्राणि स्थालीर्मधु पिन्वमाना गुदाः पात्राणि सुदुवान धनुः । श्वनस्य पत्रं न प्रीहा शचीभिरासन्दी नामिरुदरं न माता ॥ ८६ ॥ इत्यादि ।

(२) (एषः) वह आत्मा (विप्रैः) मेधावी, ज्ञानी पुरुषों द्वारा (अभिस्तुतः) ठीक २ प्रकार से साक्षात् करके वर्णित किया हुआ (देवः) प्रकाशस्वरूप (अपः) समस्त प्रज्ञानों, कर्मों और लोकों को (निगाहत) अमण करता है । और (दाशुषे) आत्म-समर्पण करने द्वारे साधक के (रत्नानि) नाना रमण योग्य सुखों, पदार्थों, या देहों को (दधत्) पुष्ट करता या धारण करता, या देता है ।

(३) (एषः) वह (प्रवमानः) समस्त शरीर में व्यापक और गतिमान् या उसको पवित्र करता हुआ, या उसमें स्वतः पवित्र होता हुआ, (सत्वभिः) अपने सात्विक बलों से (शूर इव यन्) वीर योद्धा के समान गति करता हुआ (विश्वानि) समस्त (वार्याणि) वरण करने योग्य आनन्दों, सुखों का (सिपासति) सेवत करता है ।

(४) (एपः) वह (देवः) प्रकाशमान, (पवमानः) समस्त शरीर और हृदय को पवित्र करता हुआ (रथयति) रथ के समान शरीर में रहता है और (दिशस्यति) उपदेश प्रदान करता और (च्वमुम्) ज्ञानवाणी या स्तुति को (आविः कृणोति) प्रकट करता है ।

(५) (एपः) वह (हरिः) दुःख हरण करने हारा (देवः) देव (पवमानः) व्यापक आत्मा (विपन्युभिः) विद्वान्, सत्य अर्थों के प्रकाशक (ऋतायुभिः) सत्य कामना वाले विद्वानों द्वारा (वाजाय) बल की प्राप्ति के लिये (मृज्यते) और भी पवित्र किया जाता है ।

(६) (एपः देवः) वह सुखों का दाता सर्वप्रकाशक आत्मा (पवमानः) पवित्र किया हुआ (विपा) विशेष पालना करने हारी शक्ति से (कृतः) सम्पन्न होकर (अदाभ्यः) विना किसी रुकावट के, अदम्य या अविनाशी, अमृत होकर (ह्वरांसि) समस्त कुटिल विचारों, या पापसकल्पों, या बंधनों को (अति धावति) पार कर जाता है ।

(७) (एपः) वह (पवमानः) शुद्ध, पवित्र होकर (रजांसि) अमस्त रजोगुण के कर्मों और लोकों को (धारया) अपनी धारणा शक्ति द्वारा (अति) अतिक्रमण करके (कनिक्रदत्) अनाहत नाद या परमेश्वर की स्तुति करता हुआ (दिवं) ज्ञानमय, प्रकाशमय मोक्ष को (विधावति) प्राप्त कर, विचरण करता है ।

(८) (एपः पवमानः) वह मुक्तात्मा सोम (अस्तृतः) वासनाओं से बाधित न होकर (सु-अध्वरः) सुकृत कर्म करके कभी नाश को न प्राप्त होने वाला, होकर (रजांसि) रजोमय विद्वों को (तिरः) एक तरफ हटाकर (दिवं) प्रकाशमान मोक्षलोक को (वि आसरत्) विशेष रूप से प्राप्त होजाता है ।

(९) (एपः) वह (देवः) प्रकाशमान (सुतः) सम्यक् मार्ग में निष्ठ होकर (हरिः) सब दुःखों, या बन्धनों का काटने वाला, आत्मा

(देवेभ्यः) विद्वान् पुरुषों के हितार्थ (प्रत्नेन) पुराने परिपक्व (जन्मना) उपार्जित उत्तम जन्म द्वारा (पवित्रे) परम पावन, परमात्मा में (अर्पति) जा लगता है ।

(१०) (एषः उ स्यः) और वही यह (पुरुव्रतः) नाना सत्कर्म अनुष्ठान करने द्वारा (जज्ञानः) शरीर में आकर (इषः) नाना कर्मों, कर्मफलों को (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (सुतः) गुरुओं से उपदेशों द्वारा उत्तम मार्गों में प्रेरित और ज्ञान सम्पन्न होकर (धारया) अपनी धारणा शक्ति या वाणी, स्तुति द्वारा (पवते) उत्तम मार्ग में गति करता है ।

इति प्रथमः खण्डः ।

—:0:—

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ १ २

[१२६६] एष धियायात्यएव्या शूरो रथेभिराशुभिः ।

२ ३ १ २ ३ २

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥ १ ॥

३ २ ३ २ २ ३ २ ३ १ २

[१२६७] एष पुरु धियायते बृहते देवतातये ।

२ ३ १ २ ३ १ २

यत्रामृतास आशत ॥ २ ॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१२६८] पतं मृजान्ति मर्ज्यमुपद्राणेवायवः ।

३ २ ३ १ २ २

प्र चक्राणं महीरेपः ॥ ३ ॥

३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[१२६९] एष हिता विनीयन्ऽन्तः शुन्ध्यावता पथा ।

१ २ ३ २ ३ १ २

स्यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः ॥ ४ ॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१२७०] एष रुक्मभिरियनं वाजी शुभ्रेभिरंशुभिः ।

२ ३ १ २ ३ १ २

पतिः सिन्धूनां भवन् ॥ ५ ॥

[१२७१] एष शृङ्गाणि दीधुवच्छिशीते यूथ्यो ३ वृषा ।
^{३ १२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}

वृन्त्या दधानं आजन्मा ॥ ६ ॥

[१२७२] एष वसूनि पिबन्तः परुषा ययिवा अति ।
^{३ १२ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}

अव शदिषु गच्छति ॥ ७ ॥

[१२७३] एतमु त्थ दश क्षिपो हरिं हिन्वान्ति यातवे ।
^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}

स्तायुध मदिन्तमम् ॥ ८ ॥ ३ ॥

श्र० ६ । १५ । १, २, ७, ३, ५, ४, ६, ८ ॥

भा०—(१) (रथोभिः) रथों द्वारा जिस प्रकार (शूरः) शूरवीर योद्धा सेनापति के पद पर अभिषिक्त होकर जाता है उसी प्रकार दूरतके व्यापन करने हारे सात्विक साधनों से युक्त होकर (एषः) यह शमादि-गुणसम्पन्न योगी (आशुभिः) शीघ्रगामी, दूरतक शीघ्र फैलने वाले (अरण्या) सूक्ष्म (धिया) प्रज्ञा, निदिध्यासन, उपासना कर्म या, साधनों द्वारा (इन्द्रस्य) आत्मा और प्रभु परमात्मा के (निष्कृतम्) परम दिव्य धाम को (गच्छन्) जाता हुआ (याति) परम सुख को प्राप्त करता है ।

(२) (एषः) ब्रह्म आत्मा योगी उस (वृहते) बड़े भारी (देवतातये) दिव्यगुण सम्पन्न प्रभु को साक्षात् करने के लिये (पुरु) नाना प्रकार के सत्कर्मों द्वारा (धियायते) ध्यान करता और योग-समाधि का अनुष्ठान करता है । अथवा (धिया अयते) ध्यान, ज्ञान और कर्म द्वारा मनसा, वाचा, कर्मणा प्राप्त होता है । (यत्र) जहाँ जिसमें वे (अमृतसः) अन्य मुक्तात्मागण अमृत स्वरूप होकर (आशत) मोक्षसुख का भोग करते हैं ।

(३) (आयवः) दीर्घ आयु को कामना करने हारे, या ज्ञानी मनुष्य (एतं) इस (सोमम्) शमदमादि-सौम्यगुणों से सम्पन्न, (मर्षं) प्रयत्न से शोधने योग्य, या खोजने योग्य (सहीः) बड़ी (इषः) इच्छाओं को

था बल साधनाओं को (प्र चक्राणाम्) उत्तमरूप से करते हुए आत्मा को (द्रोणेषु) द्रुतगति वाले अति वेगयुक्त मानसव्यापारों या कोशों में (सृजन्ति) अत्यन्त परिष्कृत करते हैं ।

(४) (यद् ई) जब (भूर्णयः) भरणशील प्राण और अपान को यथास्थान, यथामार्ग में प्राणायाम द्वारा लेजाने वाले ज्ञानी पुरुष (तुज्जन्ति) प्राण और अपान की आहुतियां प्रदान करते हैं तब (एपः) यह सोम (अन्तः) भीतर (हितः) गुप्तरूप से विद्यमान (शुन्ध्यावता) शुद्धियुक्त (पथा) मार्ग से (विनीयते) प्राप्त कराया जाता है ।

(५) (एपः) यह सोम (रुक्मिभिः) उत्तम क्रान्ति से सम्पन्न, देदीप्यमान तेज वाले, (शुभ्रेभिः) श्वेत शुद्ध (अशुभिः) किरणों से युक्त (वाजी) बलवान् और ज्ञानवान्, (सिन्धूनां) गतिशील प्रवृत्तियों, प्राणों और प्रनादियों का (पतिः) पालक (भवन्) होता हुआ (ईयते) जाना जाता है ।

(६) जिस प्रकार (यूथ्यः वृषा) गोयूथ में विचरण करने द्वारा महावृषभ (शृङ्गाणि दोधुवन्) अपने सींग हिलाता हुआ (शिशिते) सभीप के पदार्थों को भी कंपाता है उसी प्रकार (एपः) यह विद्वान् अपने (शृङ्गाणि) किरणों को या प्रेरक बलों को (दोधुवन्) प्रेरित करता हुआ (ओजसा) अपने बल से (नृभ्या) प्राणों को (दधानः) धारण करता हुआ (शिशिते) सब प्राणों को भी कम्पित करता उनको संचालित करता है ।

(७) (एपः) यह ज्ञानी (वसूनि) वास करने वाले प्राणों को (पिबन्तः) पीड़ित या प्रेरित करता हुआ (पर्या) प्रत्येक पद या भोजित को (अति ययिवान्) पार करता हुआ (शादेषु) कठिन तपस्याओं या भूमियों में (अव आच्छति) प्रवेश करता है ।

(८) (हरिः) दुःखों के हरने वाले मनोहर, सबके प्रेरक, सबके धारक, (त्यंष्टं) उस इस (सु-आयुधम्) उत्तम साधनाओं से सम्पन्न, (मदिन्त-मं) अति आनन्द और हर्षयुक्त सोमरूप साधक आत्मा को (दश क्षिपः) दशों प्राणगण (पातवे) प्राप्त करने या आनन्दरस पान कराने के लिये (दिन्वन्ति) प्रेरित करते हैं ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

३ २ ३ २४ ३ २४ ३ १ २

[१२७४] एष उ स्य वृषा रथोऽन्या वारोभिरव्यत ।

२ ३२ १ २ ३ १ २

गच्छन् वाजं सहस्रिणम् ॥ १ ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१२७५] एतं त्रितस्य योपणो हरिं दिन्वन्त्यद्रिभिः ।

२ ३ १ २ ३ १ २

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २ ॥

३ २ २ ३ २ ३ २ ४ ३ १ २

[१२७६] एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विचु सीदति ।

१ २ ३ २ ४ ३ १ २

गच्छञ्जारो न योपितम् ॥ ३ ॥

३ २ ४ २ १ २ २ ३ १ २ २ २

[१२७७] एष स्य मद्यो रसोऽवचष्टे दिवः शिशुः ।

२ ४ ३ २ ३ १ २

य इन्दुर्वारमाविशत् ॥ ४ ॥

३ २ ४ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २

[१२७८] एष स्य पीतये सुनो हाररर्षति धर्णासिः ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ २

क्रन्दन्योनिमभि प्रियम् ॥ ५ ॥

३ २ ४ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१२७९] एतं त्यं हरितो दश मर्मृज्यन्ते अपस्युवः ।

२ ३ १ २ ३ १ २

याभिर्मदाय शुम्भते ॥ ६ ॥ ४ ॥

भा०—(१) (स्यः एषः) वह यह सोम अर्थात् शम आदि षट्क-सम्पत्ति से युक्त मुमुक्षु जन (वृषा) सुखों का हृदयभूमि में वर्षण करने हारा, (रथः) गतिशील, रमणस्वभाव, सर्वत्र प्रसन्न होकर विचरने हारा, (सहस्रिणम्) बल से युक्त या नाना प्रकार के सुखों के देने वाले (वाजं) ज्ञान ऐश्वर्य को (गच्छन्) प्राप्त होता है और वह (अन्याः) चित्तिशक्ति या मुख्य प्राण के (वारैः) वरण योग्य साधनों से (अव्यत) मुक्तिमार्ग पर गमन करता है ।

(२) (एतं) इस (हरिम्) दुःखों के हरने वाले, सबके नेता, मुमुक्षु आत्मा को (त्रितस्य) तीनों प्रकार के दुःखों से परे और मानस, वाचिक, कायिक तीनों बलों से युक्त मुख्य प्राण के साथ (योपणाः) प्रेम करने हारी, उसका सेवन करने हारी, हृन्दिन्द्रिय-वृत्तियां (इन्द्राय) परम आत्मा के (पीतये) आनन्दरस प्राप्त करने के लिये (हिन्वन्ति) प्रेरित करतीं या उस के बल की वृद्धि करती हैं ।

(३) (एषः स्यः) यह वह योगी (मानुषीषु) मनुष्य (विष्टु) प्रजाओं में (श्येनः न) पक्षियों में वेगवान् गरुड़ के समान अधिक बल, सामर्थ्य और ज्ञान से सम्पन्न होकर और (योषितम्) स्त्री के प्रति (गच्छन्) गमन करते हुए (जारः न) उसके प्रिय पुरुष के समान गुप्तरूप से परमसुख का अभिलाषी होकर (सीदति) तन्मय भाव से विराजता है ।

(४) (यः) जो (इन्दुः) परम ऐश्वर्यसम्पन्न आत्मा (वारम्) चरण करने योग्य मोक्षमार्ग में (आविशत्) प्रवेश करता है (एषः स्यः) वह यह (मधुः) अतिहर्षयुक्त (रसः) आनन्दमय, रमण्य होकर (दिवः) प्रकाशमान उस परम आत्मा की गोद में, माता की गोद में (शिशुः) बालक के समान, या मध्य आकाश में सूर्य के समान रहकर (श्वचष्टे) समस्त भुवनों को देखता है ।

(५) (एषः स्यः) यह वह सोम मुमुक्षु आत्मा (पीतये) आनन्द-रस पान करने के लिये (सुतः) तैयार, निष्पन्न होकर (क्रन्दत्) शब्द करता हुआ, स्तुति करता हुआ, (हरिः) सब इन्द्रियों का नेता, (धर्षसिः) सब प्राणों को धारण करने हारा होकर (प्रियं) अपने प्रिय, उत्तम (योनिम्) आश्रयरूप शरण परमेश्वर के (अभि-अर्पति) प्रति गमन करता है ।

(६) (त्वं एतं) उस इसको (अपस्युवः) कर्म करने की इच्छा करने हारी चेष्टावान् (दश) दस (हरितः) हरणशील इन्द्रियां, या प्राणवृत्तियां निरुद्ध होकर (मर्मृज्यन्ते) और अधिक उज्ज्वल होती हैं (याभिः) जिनसे वह मुमुक्षु (इन्द्रस्य) अपने भीतर विराजमान ऐश्वर्य-शील आत्मा के (मदाय) परम आनन्द प्राप्त करने के लिये (शुम्भते) स्वयं प्रकाशित, या सुशोभित, या तैयार होता है ।

इति तृतीयः खण्डः ।



उ२ उ२ उ१२ २२ उ१२ २२ उ१२
[१२८०] एष वाजी द्वितो नृभिर्विश्वविन्मनसस्पतिः ।

२ उ २ उ १ २
अव्यं वारं विधावति ॥ १ ॥

उ२ उ१२ उ १ २ उ१ उ १ २

[१२८१] एष पवित्रे अक्षरत्नोमो देवभ्यः सुतः ।

२ उ १ २ उ२
विश्वा धामान्या विशन् ॥ २ ॥

उ२ उ१ २ उ२ उ २ उ१२

[१२८२] एष देवः शुभायतेऽधि योनावमर्त्यः ।

उ १ २ उ१ २
वृत्रहा देववीतमः ॥ ३ ॥

१२८०—१. 'अव्यो वार', ६. "संवसानं विवस्वतः पति वाचो अदाभ्यम्"

इति च ख० ।

[१२८३] एष वृषा कनिकदद्दशभिर्जामिभिर्यतः ।

अभि द्राणानि धावति ॥ ४ ॥

[१२८४] एष सूर्यमरोचयत्पवमानो अग्निं द्यवि ।

पवित्रे मत्सरो मदः ॥ ५ ॥

[१२८५] एष सूर्येण हासते संवसानो विवस्वता ।

पतिवाचो अदाभ्यः ॥ ६ ॥ ५ ॥

“एष वाजी” इत्यारभ्य “एष सूर्यमरोचय” इत्यन्तं, ऋ० ६ । २८ । १-४ ॥ पञ्चम्याश्चर्चः प्रथमः पादः “पवमान” इत्यारभ्य “हासते” इत्यन्तं पादद्वयं च, ऋ० २७ । ६ । २५ ॥ “संवसान” इत्यारभ्य “अदाभ्य” इत्यन्तं ऋ० ६ । २६ । ४ ॥

भा०—(१) (एषः) यह सोम, आत्मा (वाजी) ज्ञानवान्, बलवान् सबको कंपाने हारा । विश्ववित्) समस्त संसार के सब पदार्थों की व्यवस्था को जानने हारा, सर्वज्ञ (मनसस्पतिः) सबके मनों और समस्त ज्ञानों का स्वामी, परमात्मा और देह में आत्मा (नृभिः) सब मनुष्यों और देह में प्राणों द्वारा (हितः) धारण किया हुआ है ! वही (अग्न्यं) आत्मा या प्राण के (चारं) वरण करने योग्य सीमा को भी (वि धावति) पार कर जाता है, उनसे परं है ।

(२) (एषः) यह (सोमः) सौम्यगुणों से युक्त, सब का प्रेरक, परमात्मा (देवेभ्यः) विद्वान् ज्ञानी पुरुषों के और समस्त दिव्यगुणयुक्त पदार्थों के निमित्त (सुतः) सूक्ष्मरूप से सब में प्रकट हुआ (पवित्रे) शुद्ध कान्तिमय रूपों में (अक्षरत्) प्रकट होता है और (विश्वा) समस्त (धामानि) लोकों या तेजों में (आविशान्) व्यापक है ।

(३) (एषः देवः) वही प्रकाशमान देव (अमर्त्यः) अमरणधर्मा, अविनाशी, (वृत्रहा) सब आवरणकारी अन्धकारों का नाशक, (देववीतमः)


सर्व दिव्य पदार्थों को अपने भीतर रख लेने में सबसे अधिक सामर्थ्यवान्, सब में व्यापक, सबका प्रकाशक (योनौ अधि) मूलकारण रूप प्रकृति में (शुभायते) भासमान है ।

(४) (वृषा) समस्त काम्य सुखों का वर्षण करने द्वारा, (एषः) यह आत्मा (दशभिः) दश (जामिभिः) भगिनीस्वरूप दश दिशाओं से (यतः) धारण किया गया (द्रोणानि) समस्त लोकों में (धावति) व्यापक हो रहा है । आत्मपक्ष में— (दश जामिभिः) वह आत्मा ज्ञान उत्पन्न करने वाली दश इन्द्रियों सहित (द्रोणानि धावति) देहरूप कलशों में व्यापक है ।

(५) (एषः) वह परमात्मा (पवमानः) सर्वत्र व्यापक (अधि-धावि) आकाश में सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश में स्वयं (मदः) आनन्द स्वरूप (पवित्रे) पवित्र करने वाले आत्मा में (मत्सरः) आनन्दरस का स्रवण करने द्वारा हांकर (सूर्य) सूर्य के समान प्राण को भी (अरोचयत्) प्रकाशित करता है ।

(६) (एषः) यह सोम सर्वव्यापक, शक्तिमान् परमात्मा (विवस्वता) दीप्तिमान् (सूर्येण) सबके प्रेरक सूर्य के साथ (संवसानः) समस्त संसार को आवृत करता हुआ (वाचः) समस्त वेदवाणी का (अदाभ्यः) अद्वितीय (पतिः) स्वामी होकर (आसते ह) निश्चय से विराजमान है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।



[१२८६] एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते ।

उ २ उ २ उ १ २ उ २ उ १ २
उ २ उ १ २
पुनानां ज्ञन्नपस्विपः ॥ १ ॥

उ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
[१२८७] एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्परिषिच्यते ।

उ १ २ ३ १ २
पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २ ॥

उ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ २
[१२८८] एष नृभिर्विनीयते दिवा मूर्धा वृषा सुतः ।

२ ३ १ २ ३ २
सोमो वनेषु विश्ववित् ॥ ३ ॥

उ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[१२८९] एष गव्युगचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः ।

१ २ ३ १ २ २ २
इन्दुः सत्राजिदस्तुतः ॥ ४ ॥

उ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१२९०] एष शुष्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः ।

उ २ ३ १ २ ३ २
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५ ॥

उ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१२९१] एष शुष्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति ।

उ १ २ ३ २
देवाधीरघशंसहा ॥ ६ ॥ ६ ॥

अ० ६। २७। १-४, ६ ॥ ६। २८। ६ ॥

भा०—(१) (एषः) यह (कविः) क्रान्तदर्शी, ज्ञानी, सर्वज्ञ परमात्मा, (द्विषः) द्वेष करने हारे दुष्ट पुरुषों को (अपन्नन्) दूर ही विनाश करता हुआ (पुनानः) सबको पवित्र करने हारा, पतितपावन (अभिस्तुतः) उत्तम रीति से प्रार्थना और स्तुति किया गया (पवित्रे) शुद्ध, पवित्र हृदय-देश में (अधि तोशते) चिराजता है ।

(२) (एषः) यह सोम, सब का प्रेरक (दक्षसाधनः) समस्त बलों का साधक, उत्पादक, (स्वर्जित्) समस्त उत्तम लोक और आनन्द, मोक्षसुखों का विजय करने हारा, (वायवे) प्राणस्वरूप (इन्द्राय) आत्मा के लिये (पवित्रे) पवित्र हृदय-देश में (परि-सिच्यते) सब प्रकार से ध्यानवृत्तियों द्वारा प्रवाहित, आप्लावित अर्थात् मनन किया जाता है ।

(३) (एपः) यह (दिवः मूर्धा) महान आकाश या प्रकाश का मूर्धास्वरूप, मुख्य केन्द्र, सब का प्रेरक, (वृषा) सब सुखों का वर्षक, (सोमः) सोम (विश्ववित्) सर्वज्ञ, (नृभिः) विद्वान् नेता लोगों द्वारा (वनेषु) सेवन करने योग्य कार्यों, देहों और लोकों में (विनीयते) नाना प्रकार से प्राप्त किया जाता, एवं स्मरण किया जाता है ।

(४) (एपः) यह (पवमानः) सर्वव्यापक, सब को पवित्र करने हारा, (हिरण्ययुः) समस्त प्रकाशमान लोकों में व्यापक, (इन्द्रुः) ऐश्वर्यशील, (सत्राजित्) समस्त संसार पर विजय करने हारा, (अस्तृतः) किसी से भी स्वयं हिंसित या विनाश न होने हारा अद्वितीय, (गन्धुः) समस्त गतिमान् पियहों में भी व्यापक, सबका हितकारी, (अचिक्रदत्) वेद द्वारा उपदेश करता है ।

(५) (एपः) यह सोम (हरिः) सबका नेता, सब दुःखों का हर्ता (वृषा) सब सुखों का वर्षक, (शुष्मी) सर्वशक्तिमान्, (इन्द्रुः) सर्वैश्वर्यवान्, (इन्द्रं) भीतरी अन्तर आत्मा को (पुनानः) पवित्र करता हुआ (अन्तरिक्षे) हृदयदेश में (असिष्यदत्) प्रवाहित होता है ।

(६) (एपः) यह (अदाभ्यः) अमर, हिंसित न होने वाला, स्वतः पीडारहित (देवावीः) सब इन्द्रियों, देवों, पञ्चभूतों और दिव्य लोकों में भी व्यापक और उनका, रक्षक (अघशंसहा) पापवार्ता कहने हारे का विनाशक, (सोमः) सोम परमेश्वर (पुनानः) सब को पवित्र और प्रकाशित करता हुआ (अर्पति) सर्वत्र व्यापक है ।

इति पञ्चमः खण्डः ।

[१२६२] स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्पति ।

विघ्नव्रक्षांसि देवयुः ॥ १ ॥

[१२६३] स पवित्रे विचक्षणो हरिर्ऋषिर्धर्षति ।
^{२ ३ ५ २} ^{३ ५ २} ^{२ २} ^{२ ३}

अभि धीर्नि कनिकदत् ॥ २ ॥
^{३ २ ५} ^{३ ५ २}

[१२६४] स वाजी रोचने दिवः पवमानो विधावति ।
^{२ ३ ५ २ ३ ५ २ ३ ५ २ २ ३ ५ २}

रत्तोहा वारमव्ययम् ॥३॥
^{३ ५ २ २ ३ ५ २}

[१२६५] स त्रितत्याधिसानति पवमानो अरोचयत् ।
^{२ ३ ५ २ ३ ५ २ ३ ५ २}

जामिभिः सूर्ये सह ॥४॥
^{३ २ ३ ५ २ ३ २}

[१२६६] स वृत्रहा वृषा सुता वरिवोविददाभ्यः ।
^{१ २ ३ ५ २ २ ३ ५ २ ३ ५ २ २}

सोमो वाजमिवासरत् ॥५॥
^{२ ३ ५ २}

[१२६७] स देवः कविनेषितोऽभि द्रोणानि धावति ।
^{२ ३ ५ २ ३ ५ २ ३ ५ २ २ ३ ५ २}

इन्दुरिन्द्राय महयन् ॥६॥७॥ क्र० ९ । ३७ । १-६ ॥

भा०—(१) (सः) वह (वृषा) मेघ के समान आनन्द-रसों और सुखों का वर्षक (सोमः) रसस्वरूप, सब का उत्पादक (देवयुः) विद्वानों और प्राणों की अभिलाषा पूर्ण करने द्वारा, (पीतये) आनन्द पान कराने के निमित्त (सुतः) निष्पन्न होकर (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण, और अन्तरिक्ष में (अर्षति) व्याप्त होता है ।

(२) (सः) वह (हरिः) शक्तिमान्, सर्व दुःखों का हर्ता, (विचक्षणः) सब का दृष्टा, (धर्षसिः) समस्त जगत् का धर्ता, (कनिकदत्) ज्ञानोपदेष्टा आत्मा (पवित्र) पवित्र, अन्तःकरण में (अर्षति) प्रकट होता है ।

(३) (सः) वह आत्मा (वाजी) चलवान्, ज्ञानवान् (दिवः) सूर्य और प्राण का भी (रोचनः) प्रकाशक (पवमानः) सब को पवित्र करने हारा, (रत्तोहा) दुष्टों, दुष्ट भावों और विघ्नों का विनाशक, (अव्ययम्)


अवि अर्थात् प्राणों के बने (वारं) स्थूल आवरण को (विधावति) विशेष रूप से पारकर, रसरूप से प्रकट होता है ।

(४) (सः) वह (त्रितस्य) प्राण के (अधिसानवि) विशेष-स्थान, त्रिपुटि में (पवमानः) परिशुद्ध होकर (जामिभिः) अन्य ज्ञानो-त्पादक इन्द्रिय वृत्तियों के (सह) साथ मिलकर (सूर्यं) सूर्य के समान सब के प्रेरक मुख्य, प्राण को (अरोचयत्) और अधिक दीप्त, प्रकाशित करता है ।

(५) (सः) वह (वृग्रहा) सब विघ्नों का विनाशक (सुतः) निष्पन्न (सोमः) सब इन्द्रियों और प्रजाओं का प्रेरक आत्मा (अदाभ्यः) किसी से हिंसित या पराजित न होकर (वरिवोविद्) सबसे उत्तम आत्म रूप या आत्मानन्द कोश=खजाने को लाभ कराने द्वारा (वाजम् इव) युद्ध में शूरवीर के समान परम ज्ञानमय ब्रह्म की और (असरत्) गति करता है ।

(६) (सः) वह (देवः) देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप (कविना) क्रान्तदर्शी मेधावी सबके गुरु आत्मा या परमात्मा द्वारा (हंपितः) प्रेरित होकर उसका प्रेमपात्र होकर (इन्दुः) भीतर ही द्रवित होता हुआ (इन्द्रा-य) इन्द्रियों के स्वामी आत्मा को (मंहयत्) आनन्द प्रदान करता हुआ (द्रोणानि) समस्त ज्ञान कलशों, कोष्ठों, देहों और लोकों में (अभिधावति) विचरण करता है ।

इति षष्ठः खण्डः ।



१ २ ३ २ ३ १२ २४ ३ १ २ ३ १ २
[१२६८] यः पावमानीरध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम् ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

सर्वं सः पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वजा ॥ १

उ २४ ३ १२ २२ ३ १२ ३ १२
[१२६६] पावमानीर्यो अर्धेत्युषिभिः संभृतं रसम् ।

२ ३ १२ ३ २ ३ १२ २२ ३ २
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सपिर्मधूदकम् ॥२॥

उ २ ३ १२ ३ २ ३ १ २ ३ १२
[१३००] पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुद्रुघा हि घृतश्रुतः ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
ऋषिभिः सम्भृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हिनम् ॥३॥

उ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २
[१३०१] पावमानीर्दधन्तु न इमं लोकमथा अमुम् ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
कामांसमर्द्धयन्तु नो देवीदेवैः समाहृताः ॥४॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१३०२] येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनने सदा ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २
तेन सहस्रधायेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥६॥

उ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[१३०३] पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
पुण्यांश्च भक्षान् भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥६॥८॥

आधे द्वे अ० ९ । ६७ । ३१, ३२॥ शेषा ऋग्वेदे नोपलभ्यन्ते ।

भा०—(१) जो (ऋषिभिः) मन्त्र का साक्षात् दर्शन करने वाले ऋषियों द्वारा (सम्भृतम्) अच्छी प्रकार धारित, और प्राप्त एवं साक्षात् किये और अन्यो को उपदेश किये हुए (रसं) आत्म-ज्ञानस्वरूप मधु विद्यामय, रसरूप (पावमानीः) सोम, पचमान सम्बन्धी ऋचाओं को (अर्धेत्युषिभिः) अध्ययन करता है, उनके तत्त्वार्थ ज्ञान का लाभ करता है (सः) वह (सर्वं) सब (मातरिश्वना) अन्तरिक्ष में व्यापक परब्रह्म या प्राणस्वरूप जीवनशक्ति द्वारा या (मातरि ज्ञानसाधने इन्द्रिये आत्मनि वा श्वपति गच्छति इति मातरिश्वा मनः) ज्ञानसाधन इन्द्रियगणों या आत्मा में निरन्तर गति करने हारे मन द्वारा (स्वदितं) आस्वादन करने योग्य (पूतं) पवित्र ज्ञान का (अश्नाति) लाभ करता है और उप-योग करता है । 'मनःपूतं समाचरेत्' इति मनुः ।

(२) (यः) जो (ऋषिभिः सभृतं रसं) मन्त्रद्वारा, विद्वान् ऋषियों द्वारा प्राप्त अर्थात् मात्तात् किये गये ज्ञान रसस्वरूप (पावमानीः) पवमान सोम सम्बन्धी वेद की ऋचाओं का (अध्येति) अध्ययन करता है (तस्मै) उसके लिये (सरस्वती) वेदवाणी (क्षीरं) शुद्ध दुग्ध के समान आत्मज्ञान (सर्पिः) घृत के समान रंनेहपूर्ण, उज्ज्वल, ज्योतिःस्वरूप आत्मदर्शन और (मधु) मधु के समान आनन्ददायक मधुर ब्रह्मा, स्वाद और (उदकं) जल के समान शीतल, शान्तिरस को (दुहे) दोहन करती है ।

(३) (याः पावमान्यः ऋचः) जो पवमान सोमसम्बन्धी ऋचाएं हैं वे (स्वस्त्ययनीः) कल्याण और योगक्षेम को प्राप्त कराने वाली, (सुदुघाः) सुखसे ही परमानन्द रस को देने वाली, (घृतश्चुतः) ज्ञान और सात्विक प्रकाश के उत्पन्न करने वाली हैं । वे तो सात्तात् (ऋषिभिः) ऋषियों द्वारा (सभृतः) प्राप्त (रसः) परम रसस्वरूप (ब्राह्मणेषु^१) वेद के विद्वानों के भीतर (हितम्) स्थापित (अमृतं) कभी न नाश होने वाली अमृत, अध्यात्म ब्रह्मज्ञान के समान हैं ।

(४) (पावमानीः) पवमान सोम-सम्बन्धी ऋचाएं ही (नः) हमें (इमं) इस (लोकं) लोक (अथा) और (अमुं लोकं) परलोक को (दधन्तु) धारण करावें । और वे (देवीः) दिव्यगुणप्रकाशक होकर (देवैः) विद्वान् ज्ञानी पुरुषों द्वारा (समाहृताः) उपदेशों और व्याख्यानों द्वारा सर्वत्र प्रकाशित होकर (नः) हमारे (कामान्) शुभसंकल्पों को (समर्धयन्तु) पूर्ण करें ।

(५) (देवाः) विद्वान् योगी जन (येन) जिस (पवित्रेण) समस्त संसार को पवित्र करने हारे उपाय से (सदा) नित्य अपने (आत्मानं) आत्मा को (पुनते) पवित्र करते हैं (तेन) उस (सहस्रधोरण) सहस्रों

१. विपायो विरजोऽविर्चिफितसो ज्ञादणो भवति । [वृ० उप० अ० ४ ।

धारणा शक्तियों से सम्पन्न, योगसाधन या पातितपावन ईश्वर प्रणिधान से ही यह (पावमानीः) पवमान सोम-सम्बन्धी ऋचाएं भी (नः) हमें (पुनन्तु) पवित्र करें ।

(६) (स्वस्त्ययनीः) कल्याण और योगक्षेम को प्राप्त कराने हारी, (पावमानीः) पावमान सन्बन्धी ऋचाएं ही हैं । (तामिः) उनसे आत्मा या साक्षात् (नानन्दनं) परमानन्द अवस्था, मोक्ष को (गच्छति) प्राप्त होता है और (पुण्यान् च) पुण्य, (भक्षान्) सेवन करने योग्य सुख भोगों को (भक्षयति) उपभोग करता है और (अमृतत्वं च) अमृतस्वरूप परमपद को भी (गच्छति) प्राप्त करता है ।

स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सैषा विदृतिर्नाम द्वास्तेदेतन्नान्दनं तस्य त्रय आवसथाः । त्रय स्वप्नाः । अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति । स जातो भूतान्यभिव्यस्यत् किमिहान्यं वावदिपद् इति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत् इदमदर्शमिति तस्मादिदन्दो नाम इन्द्र इत्या चक्षते परोक्षम् । इत्यादि । एतरेय० उप० ४ । ४ ।

इति सप्तमः खण्डः ।



१ २ ३ ५ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १
 [१३०४] अगन्म महा नमसा यविष्टं यो दीदाय समिद्धः स्व
 २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 दुर्गोणे । चित्रभानुं रोदसी अन्तरूर्वीं स्वाहुनं विश्वतः
 ३ १ २

प्रत्यञ्चम् ॥ १ ॥

२ ३ ५ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ १
 [१३०५] स महा विश्वा दुर्गितानि साह्वानग्निष्टवे दम आ जात-
 २ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 वेदाः । स नोरक्षिषद् दुर्गितादवद्यादस्मान् गृणाति उत्त ना
 ३ १ २
 मघानः ॥ २ ॥

१ २४ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१३०६] त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः।
 १२ २४ ३ १ २ ३ २ २ ३ २ ३ १ २
 त्वं वनू सुपणनानि सन्तु यूयं पात स्वास्तभिः सदा
 नः ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० ७ । १९।२-३ ॥

भा०—(१) (यः) जो (स्वे) अपने (दुरोगे) इस ब्रह्माण्ड
 रूप अनन्त संसार में (समिद्धः) प्रकाशमान होकर (दीदाय) चमकता
 है । उस (विश्वतः) सर्वत्र (प्रत्यब्धं) व्यापक, (उर्वी) महान् (रोदसी)
 पौ और पृथिवी लोकों के (अन्तः) बीच (स्वाहुतं) स्वयं सब को
 वश करने हारे, सबके आश्रयरूप (यविष्ठं) सबसे अधिक बलवान्, सब
 में व्यापक, (चित्रभानुं) पूजनीय, कांतिमय परमेश्वर को (महानमसा)
 बड़ी विनय से (अगन्म) हम प्राप्त हों ।

यदार्चिमद् यदणुभ्योऽणु यस्मिंल्लोका निहिता लोकिनश्च । (सुण्डक०
 २ । २ । २)

(२) (सः) वह (महा) अपनी महिमा से (विश्वा दुरितानि)
 समस्त पापों को (साहान्) दूर करने हारा, (अग्निः) अग्निस्वरूप
 परमात्मा (जातवेदाः) समस्त पदार्थों का जानने हारा (दमे) हमारे
 हृदयरूप या ब्रह्माण्डरूप गृह में या यज्ञस्थल में (आ स्तवे) सर्व प्रकार
 से स्तुति किया जाता है । (सः) वह (नः) हमें (अंवघात्) निन्द-
 नीय (दुरितात्) पापाचरण से (रक्षिपत्) रक्षा करे । और (गृणतः)
 स्तुति करने हारे (अस्मान्) हम लोगों को बचावें । (उत) और (मघोनः) ज्ञान
 धन-सम्पन्न (नः) हमें पापाचरण से बचावें ।

(३) हे अग्ने ! ज्ञानस्वरूप (त्वं) तू (वरुणः, उत मित्रः)
 सब पापों से निवारण करने और सर्वश्रेष्ठ होने से 'वरुण' और सबको
 स्नेह करने हारा और मृत्यु से बचाने वाला होने से 'मित्र' है । (वसिष्ठाः)
 अपने २ वश में स्थित अथवा परमपद में वास करने हारे ज्ञानी अथवा

अपने स्वरूप में स्थित मुमुक्षु लोग या प्राणगण (मतिभिः) मननशक्ति-
यों द्वारा (त्वा) तुझे या तेरी महिमा को ही (वद्धन्ति) बढ़ाते हैं । (त्वे)
तुझ में, तेरी साक्षिता में (वसूनि) समस्त ज्ञान, धन, (सुपणानि)
उत्तम २ सुख प्रदान करने वाले अथवा सुख से दान करने योग्य (सन्तु)
हों । हे विद्वान् लोगो ! (यूथं), आप लोग भी (नः), हमें (सदा)
नित्य (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी कार्यों, उत्तम उपायों और आशीर्वादों से
(पात) रक्षा करो ।

उ२८ ३१२ २४ ३१ २ ३१ २

[१३०७] महान् इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिर्मा इव ।

१२३ १ २

स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे ॥ १ ॥

२ ३ २२ ५२ ५३ १२ ३२ ३ १ २

[१३०८] कर्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम् ।

३ १ २ ३ १ २

जामि वृचत आयुधा ॥ २ ॥

३ २ ३२ ३ १ २ ३ ५२ २४ ३ १ २

[१३०९] प्रजामृतस्य पिप्रतः प्रयद्भरन्त वह्नयः ।

१ २ ३२ ३ १ २

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥३॥१०॥ अ० ८ । ६ । १, ३, २ ॥

भा०—(१) (वृष्टिमान्) वृष्टि करने वाला (पर्जन्यः इव) मेघ
जिस प्रकार अपने सामर्थ्य से सर्वत्र फैल कर स्वयं वृष्टि करता है उसी
प्रकार (यः) जो (इन्द्रः) इन्द्र (ओजसा) अपने बल से (महान्)
बड़ा होकर (वत्सस्य) वत्स के समान अपने आश्रय पर रहने वाले
समस्त संसार की (स्तोमैः) स्तुतियों द्वारा (वावृधे) बढ़ा कीर्तिमान्,
प्रसिद्ध होता है ।

(२) (कर्वाः) ज्ञानी स्तोतागण (स्तोमैः) अपने स्तोत्रों द्वारा
(यद्) जब (इन्द्रं) इन्द्र अर्थात् आत्मा ही को (यज्ञस्य) जीवनरूप
यज्ञ का (साधनं) साधन (अक्रत) बना लेते हैं तब विद्वान् लोग

(आयुधा) अन्य प्राणादि इन्द्रिय-साधनों को या यज्ञ के पात्रादि को (जामि) प्रयोजनरहित ही (व्रुवते) कहते हैं । साधक लोग जब अध्यात्म यज्ञ करते हैं तब द्रव्ययज्ञ व्यर्थ जान पड़ता है ।

(३) (यद्) जब (विप्रतः) पूर्ण करने हारे (वह्नयः) अग्नि के समान दीप्तिमान् ज्ञान को धारण न करने हारे (विप्राः) मेधावी, ज्ञानी लोग (ऋतस्य) सत्यज्ञान रूप आत्मा की (प्रजां) उत्तम रीति से प्रादुर्भाव होने हारी आत्मशक्ति और सत्यज्ञान या प्रजा शिष्य आदि को (प्र भरन्त) उत्तम रीति से धारण करते हैं तभी वे (ऋतस्य) ज्ञान और सत्य के (वाहसा) प्रापक बल से ही उसे धारण करते हैं ।

इतिः अष्टमः खण्डः ।

— 0 —

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१३१०] पवमानस्य जिघ्नतो हरश्चन्द्रा असृक्षत ।

३ १ २ ३ १ २

जीरा अजिरशोचिपः ॥ १ ॥

१ २ ३ ३ १ २ ३ ३ २ ३ १ २

[१३११] पवमानो रथीतमः शुभ्रभिः शुभ्रस्तमः ।

१ २ ३ १ २

हारश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥ २ ॥

१ २ ३ २ २ ३ १ ३ ३ १ २

[१३१२] पवमान व्यश्नुहि रश्मिभिर्वाजसातमः ।

१ २ ३ २ ३ १ २

दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥३॥१॥ ऋ० ६। ६६। २५-२७ ॥

भा०—(१) (पवमानस्य) पवित्र शुद्ध रूप में प्रकट होते हुए (हरेः) समस्त दुःखों का हरण करने हारे और (जिघ्नतः) समस्त अज्ञान-पटलों का वार २ नाश करते हुए सोम, अर्थात् आत्मा, की (चन्द्राः) आह्लादकारिणी (जीराः) और दुःखनाशिनी (अजिरशोचिपः) अविनाशशील कान्तियां (असृक्षत) उत्पन्न होती हैं ।

(२) वह (पवमानः) परमपावन आत्मा (रथीतमः) इस देहरूप रथ पर गति करने हारा, सब से उत्तम रथी, (चन्द्रः) आह्लादक, (हरिः) दुःखनाशक (मरुद्गणः) प्राणगण के साथ वर्तमान (शुभ्रेभिः) शुभ्र तेजों से (शुभ्रशस्तमः) अति शुभ्रस्वरूप, कान्तिमान्, निर्मल है ।

(३) हे (पवमान) सब को पवित्र करने हारे ! स्वयं पवित्ररूप में प्रकट होता हुआ तू (स्तोत्रे) विद्वान् पुरुष में (सुवीर्यं) यश, बल और पुत्रादि धन को (दधत्) धारण पोषण करता हुआ (रश्मिभिः) अपने किरणों से (वाजसातमः) ज्ञान और बल का प्रदान करने हारा होकर (व्यरनुहि) विविध ऐश्वर्यों को प्राप्त कर ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
[१३१३] परीतो पिञ्चता सुनं सोमो य उत्तमं हविः ।

:३ १२ २२ ३ २ २ ३ ३ २ ३ १ २
दधन्वा यो नर्यो अण्स्वा३ऽन्तरा सुपाव सोममद्रिभिः ॥१॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१३१४] नूनं पुनानोऽग्निभिः परिस्रवादवधः सुरभिन्तरः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गाभिरुत्तरम् ॥२॥

[१३१५] परि स्वानश्चक्षसं देवमादनः क्रतुर्गिन्दुर्विचक्षणः ॥३॥१२॥

ऋ० ६। १०७। १-३ ॥

भा०—(१) (यः सोमः) जो सोम, शरीर में वीर्य, ब्रह्माण्ड में धारक तेज या सूर्यबल, देवों अर्थात् इन्द्रियों में आत्मा और पृथिवी आदि पिण्डों आकाश का रूप (उत्तमं) उत्तम, श्रेष्ठ (हविः) उपादान करने योग्य अन्न और खाद्य और जीवनप्रद आश्रय होता है और (यः) जो (नर्यः) नेता, इन्द्रियगण और सूर्यादि लोकों के लिये हितकारी और (अण्) समस्त कर्मों, प्रज्ञानों और देह के जलीय रुधिरादि अंशों और लोकों के भीतर विद्यमान रहता हुआ उनको (दधन्वान्) स्वतः धारण कर रहा है, उस (सोमं)

सोम अर्थात् वीर्य को (अदिभिः) न दीर्घ होने हारे अखण्ड, ब्रह्मचर्यादि साधनों, विद्वानों और सूर्यादि लोकों से (आ सुपाव) उत्पन्न किया जाता है । अतः उस (सुतं) उत्पन्न वीर्य और तेज को हे विद्वान् लोगो!(इतः) इस मूल स्थान से ऊपर (परिपिञ्चत) शिर आदि प्रदेशों की ओर द्रवित करो अर्थात् ऊर्ध्वरेता बनो । व्याख्या देखो [५१२] पृ० ।

(२) हे सोम ! तू (अदब्धः) किसी से दिसित न होने वाला, सब से अधिक बलशाली (सुरभिंतरः) सब प्राणों से अधिक उत्तम गंध और बल वाला, (नूनं) निश्चय से (अविभिः) प्राणों द्वारा (पुनानः) अति पवित्र होता हुआ (परि स्रव) समस्त शरीर में गति कर । और (सुतेचित्) शरीर में उत्पन्न होने पर (अन्धसा) प्राण जीवन देने वाले अन्न और (गोभिः) इन्द्रियों के पुष्टिकारक दुग्धादि रसों द्वारा (श्रीणन्तः) तुझे परिपक्व करते हुए (अप्सु) शारीरिक कर्मों और मानसिक विचार क्रियाओं में हम (मदामः) आनन्द-लाभ करते हैं ।

(३) (इन्दुः) परमैश्वर्यवान् उक्त सोम रूप शुक्र का पालन करने हारा ब्रह्मचारी, (विचक्षणः) नाना प्रकार के विज्ञानों का द्रष्टा, (ऋतुः) कर्म करने हारा, (देवमादनः) अपनी इन्द्रियों और दिव्यगुण युक्त विद्वान् पुरुषों को हृष्ट पुष्ट करने और आनन्द देने हारा, (स्वानः) स्वयं निष्पन्न होता हुआ (परिचक्षसे) सब के देखने योग्य होजाता है ।

१ २ ३ १ २ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१३१६] असावि सोमो अरुषा वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा
 २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २
 अचिक्रदत् । पुनानो वारमत्यन्व्ययं श्येनो न योनिं
 ३ १ २ ३ १ २

धृतवन्तमासदत् ॥ १ ॥

उ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३
 [१३१७] पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिना नामा पृथिव्या गिरिपु
 १ २ १ २ ३ १ २ ३ ३ १ २ ३ २ २ २

क्षयं दध्रे । स्वसार आपो अभि गा उदासरत्सङ्गावाभि-
 ३ १ २ ३ २

र्वसते धीत अध्वरे ॥ २ ॥

उ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २ २
 [१३१८] कविर्ध्रस्यापर्येपि माहिनमत्यो न मृष्टा अभि वाजम
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३

र्षसि । अपसेधन् दुरिता सोम ना मृड घृता वसानः
 १ २ ३ १ २

परियासि निर्णिजम् ॥ ३ ॥ १३ ॥ ऋ० ६ । म२ । १-३ ॥

भा०—(१) (अरुपः) दीप्तिमान्, (वृषा) सुखों का वर्षक; श्रेष्ठ (हरी) सब दुःखों का हर्ता, सबका नेता (सोमः) सोम, तेजस्वी विद्वान् पुरुष (असावि) उत्पन्न होता है । वह (राजा इव) राजा के समान (दस्मः) दुष्टभावों का नाशक एवं दर्शनीय होकर (गाः) जैसे प्रजाओं के प्रति राजा अपनी घोषणाएं करता है उसी प्रकार आत्मरूप सोम इन्द्रियों के प्रति और आचार्य विद्वान् प्रजारूप शिष्यों के प्रति (अचिक्रदन्) वेद का उपदेश करता है । (पुनानः) स्वयं पवित्र और देदीप्यमान होता हुआ, (अन्ययं) प्राणमय (चारं) आवरण को (अत्येपि) पार करके (श्येनः न) जिस प्रकार बाज़ पक्षी उड़कर अपने निवास घोंसले की तरफ़ त्वला जाता है उसी प्रकार वेगवान् होकर वह भी (घृतवन्तं) प्रकाशस्वरूप (योनिं) मूलस्वरूप आश्रय को (आसदन्) प्राप्त होता है । यहां प्राणमय कोश से विज्ञानमय कोश पर वश करने हारे योगाभ्यासी का वर्णन है । व्याख्या देखो अचिक्रल संख्या [५६२] पृ० २८३ ।

(२) (पर्णिनः) ज्ञानसम्पन्न, (महिषस्य) महान्, बलवान् सोम-रूप आत्मा का (पिता) पालक (पर्जन्यः) मेघ के समान आचन्द्रसों का दाता प्रजापति परमात्मा ही है । वह (पृथिव्याः) भूलोक के (नामा)

नाना प्रकार के सम्बन्धों में (गिरिषु) विद्वानों में (स्यं) निवास को (दधे) धारण करता है । (आपः) ज्ञान-वृत्तियां (स्वसारः) अपने ही स्वरूप से प्रकट होकर निकलने हारी, (गाः अभि) इन्द्रियों के प्रति (उत् आसरन्) ऊर्ध्वगति करती हैं और वह आत्मा (वीते) कान्तिमान् (अध्वरे) ज्ञानयज्ञ में (आवभिः) विद्वानों के संग (संवसते) निवास करता है ।

(३) हे (सोम) आत्मन् ! तू (कविः) कान्तदर्शी, मेधावी होकर (वेधस्) विशेष विधान करने हारी मति द्वारा (माहिनम्) पूजनीय परमात्मा के प्रति (परि-एषि) गति करता है । (मृष्टः) अति शुद्धस्वरूप होकर (अत्यः न) वेगवान् घोड़ा जिस प्रकार संग्राम में जाता है उसी प्रकार (अभि वाजम्) ज्ञान को लक्ष्य कर, ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (अभि अर्षसि) मोक्षपथ में गति करता है । हे (सोम) विद्वन् ! (दुरिता) दुष्ट चेष्टाओं को (अप सेधन्) दूर करता हुआ (नः) हमें (मृड) सुखी कर । और तू (घृता) कान्ति या तेजों के भीतर (वसानः) आच्छादित होकर ही (निर्णिजम्) शुद्ध स्वरूप को (परि-यासि) प्राप्त कर ।

१ २ ३ २ ३ १२ २२
[१३१६] श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भजत ।

१ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १२ २२
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रतिभागन्न दीधमः ॥१॥

१ २ ३ १२ २२ ३ १२ २२ ३ १ २
[१३२०] अलर्षिरार्ति वसुदामुस्तुडि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।
१ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
यो अस्य कामं विधत्तो न रोषति मनो दानाय चोदयन्
॥ २ ॥ १४ ॥ ऋ० ८ । ६६ । १, २ ॥

भा०—(१) न्याख्या देखो अविकल सं० [२६७] पृ० १३६ ।

१३२०—'अनर्षरार्ति,' सो अस्मिं कामं इति ऋ० ।


(२) हे मनुष्य ! तू (अर्थात् रातिं) निष्पाप सात्विक, दानशील, (व-सुदाम्) वास योग्य पदार्थ प्राण आदि का दान करने हारे परमेश्वर की (उप स्तुहि) स्तुति कर । क्योंकि (इन्द्रस्य) उस ऐश्वर्यशील परमात्मा के (रातयः) सब दान (भद्राः) कल्याणकारी हैं । (यः) जो स्वामी के समान (मनः) अपने मन अर्थात् ज्ञान को (दानाय) दान करने के लिये (चोदयन्) प्रेरित करता हुआ (अस्य विधत्तः) इस अपने भक्त, सेवा करने हारे स्तोता की (कामं) इच्छा को (न) नहीं (रोपति) नाश करता ।

[१३२१] यत् इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ।
 मघवञ्छुग्धि तव तन्न ऊतये विधिषो वि मृधो जहि ॥१॥
 [१३२२] त्वं हि राधसस्पते राधसां महः जयम्यासि विधत्ता ।
 तं त्वावयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥२॥१५॥
 अ० ८ । ६१ । १३, १४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [२७४] पृ० १४० ।

(२) हे (राधसः पते) हे सकल धनों और ऐश्वर्य के स्वामिन् ! (त्वं) तू (हि) निश्चय से (महः) बड़े भारी (जयस्य) निवासस्थान और (राधसः) बड़े भारी धन का (विधत्ता) विशेष रूप से धारण करने हारा स्वामी (आसि) है । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! हे (इन्द्र) विघ्नों के नाशक ! हे (गिर्वणः) वाणियों के एकमात्र विधय ! (सुतावन्तः) उत्पन्न समस्त पदार्थों, ज्ञानों और ऐश्वर्यों के स्वामी होकर हम ज्ञानी पुरुष (त्वां) तुझ को ही (हवामहे) आह्वान करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं ।

इति दशमः खण्डः ।



[१३२३] त्वं^{१ ३} सोमासि^{३ २ ३} धारयुर्मन्द्र^{१ २ २ २} ओजिष्ठो^{३ २} अध्वरः ।

पवस्व^{१ २} मंहयद्रयिः^{३ १ २} ॥ १ ॥

[१३२४] त्वं^{२ ३ २ ३ १ २} सुतो^{३ १ २ ३ १ २} मदिन्तमा^{३ १ २ ३ १ २} दधन्वान्मत्सरिन्तमः ।

इन्दुः^{१ २} सत्राजिदस्तृतः^{२ १ २ २} ॥ २ ॥

[१३२५] त्वं^{१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २} सुष्वाणा^{३ २ ३ २ ३ १ २} आद्रिभिरभ्यर्षे^{३ २ ३ १ २} कनिक्रदत् ।

द्युमन्तं^{३ २ ३ २ ३ १ २} शुष्ममाभर ॥ ३ ॥ १६ ॥ ऋ० ६ । ६७ । १-३ ॥

भा०—(१) हे (सोम) परमेश्वर ! (त्वं) तू (धारयुः) धार-
णायुक्त अथवा धारा या वेदवाणी का स्वामी, (मन्द्रः) अति आनन्दपूर्ण
(ओजिष्ठः) अति बलवान्, (मंहयद् रयिः) ऐश्वर्य का प्रापक होकर
(अध्वरे) उपासनामय यज्ञ में (पवस्व) प्रकाशित हो ।

(२) (त्वं) तू (सुतः) निष्पन्न होकर (मदिन्तमः) अति हर्ष-
जनक, (मत्सरिन्तमः) अन्य समस्त इन्द्रियों एवं प्रजाजनों और देहों में
हर्ष का प्रसारक (इन्दुः) कान्तिसम्पन्न (अस्तृतः) किसी से भी पराजित
न होकर (सत्राजित्) सब से अधिक उत्कृष्ट, सब पर विजयशालि होकर
सबको (दधन्वान्) धारण करता है ।

(३) (त्वं) तू (आद्रिभिः) विदीर्ण न होने वाले, अभेद्य, दृढ़,
तपो या अखण्ड तपस्वियों द्वारा, (सुष्वाणः) निष्पादित किया हुआ
परिपक्व या अभ्यास किया हुआ (कनिक्रदत्) उत्तम ज्ञान का उपदेश देने
हारा होकर (अभि अर्षे) प्रकट हो हमें प्राप्त हो । और (द्युमन्तं) यशोजनक
(शुष्मं) बल को (आ भर) प्राप्त करा ।

[१३२६] पवस्व^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} देव^{२ ३ २ १ २} वीतय^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} इन्दो^{२ ३ २ १ २} धाराभिराजसा ।

आ कलशं^{२ ३ २ १ २} मधुमान्तसोम नः^{२ ३ २ १ २} सदः ॥ १ ॥

[१३२७] नव द्रुप्ता उदप्रत इन्द्रमदाय वावृधुः ।

त्वां देवासो अमृताय कं पपुः ॥ २ ॥

[१३२८] आ नः सुतास इन्दवः पुनाता धावता रयिम् ।

वृष्टिधावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥३॥१७॥अ० १०।१०।६।७-६॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकलं सं० [५७१] पृ०

(२) हे (सोम) सबके उत्पादक ! आनन्दरसस्वरूप ! (तव) तेरे (उदप्रतः) रस को प्रवाहित करने हारे (द्रुप्ताः) द्रुतगति से बहने वाले आनन्दरस (इन्द्रं) आत्मा को (मदाय) अति आनन्द प्राप्त कराके निमित्त (वावृधुः) बढ़ाते हैं, उसे और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं । (देवासः-विद्वान् योगीजन (कं) आनन्दस्वरूप (त्वां) तुम्हको (अमृताय) अमृत-स्वरूप परम आनन्द-प्राप्ति के लिये (पपुः) पान करते हैं ।

(३) हे (इन्दवः) आत्मा के भीतर प्रवाहित होने हारे, कान्ति-युक्त ! (सुतासः) ज्ञानानन्द रसो ! या ज्ञानी पुरुषो ! तुम निष्पन्न होकर (पुनाताः) स्वतः पवित्र (रीत्यापः) सब रसों के प्रापक (वृष्टिधावः) ज्ञान कान्ति के वर्षक, (स्वर्विदः) सुखों के प्राप्त कराने हारे, आप (रयिम्) अति रमणीयरूप आत्मा के प्रति (आ धावत) गति करो और आत्मा को सुख शान्ति प्राप्त कराओ ।

[१३२९] परि त्यं हर्यतं हरिं वभ्रु पुनन्ति वारणम् ।

यो देवान्नेवश्वं इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ १ ॥

[१३३०] द्विथं पंच स्वयशसं सखायो अद्रिमंहनम् ।

प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्तापयन्त ऊर्मयः ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
 [१३३१] इन्द्राय सोमपातत्रे वृत्रघ्ने परिषिच्यसे ।
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 नरे च दक्षिणावते वीराय सद्नासदे ॥ ३ ॥ १८ ॥
 अ० १ । ६८ । ७, ६, १० ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [५५२] पृ० २७७ ।

(२) (यं) जिस मुख्य प्राणरूप, सबके प्रेरक, सोम के (द्विः पंच च) दोगुना पांच अर्थात् दश (सखायः) समान नाम वाले इन्द्रिय नामक प्राण (ऊर्मयः) ऊर्ध्वगति होकर (स्वयशसं) अपने कीर्त्तिस्वरूप (अद्रिसंहतम्) पर्वत के समान अभेद्य बल से युक्त (इन्द्रस्य) अन्तः-रात्मा के अति कामना योग्य, (प्रियम्) अपने प्यारे को (प्रज्ञापयन्तः) उत्तम रीति से ज्ञान कराते हैं, सुखरूप जलों से मानो उसका अभिषेक करते हैं उसका साक्षात् ज्ञान करो ।

(३) हे (सोम) सबके प्रेरक बल ! आनन्दमय ! (पातत्रे) तेरे पान या पालन करने हारे, (वृत्रघ्ने) अज्ञान रूप विघ्न के विनाशक (दक्षिणावते) क्रिया शक्ति से सम्पन्न (सद्नासदे) प्रत्येक आश्रयस्थान, जीवनरूप यज्ञ के गृह अर्थात् शरीर में स्थिर रूप से वर्त्तमान (वीराय) शक्तिशाली (नरे) सबके नेता, प्रवर्त्तक, (इन्द्राय) आत्मा के निमित्त तू (परि-सिच्यसे) प्रवाहित किया जाता है ।

१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २
 [१३३२] पवस्व सोम महे दक्षायाश्वा न नित्तो वाजी धनाय ॥१॥

१ २ ३ १ ३ १ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१३३३] प्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे द्युम्नाय ॥२॥

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१३३४] शिशुं जज्ञानं हरिम्मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्
 ॥ ३ ॥ १६ ॥ अ० ६ । १०६ । १०-१२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४३०] पृ० २१६ ।

(२) (ते) वे (सोतारः) निष्पादक, साधक योगीजन (रसं) रसस्वरूप उस (सोमं) सबके प्रेरक, आनन्दरस सोम को (महे) बड़े भारी (शुभ्राय) यश और ज्ञान और (मदाय) आनन्द प्राप्ति के लिये (प्र पुनन्ति) उत्तम रीति से परिशोधित करते हैं ।

(३) (शिशुं) इस शरीर में शयन करने हारे (हरिं) दुःखों के हर्ता और इन्द्रियों के नेता रूप में (जज्ञानं) प्रादुर्भाव होने हारे मुख्य प्राणरूप (इन्द्रुम्) देदीप्यमान (सोमं) सोमरूप आनन्दरस को (देवेभ्यः) देवों, इन्द्रियों और विद्वानों के लिये (पवित्रे) पवित्र हृदय या परमपावन ईश्वर के ध्यान में (मृजन्ति) परिशुद्ध करते हैं उसका साक्षात् करते हैं ।

[१३३५] उपां षु जानमसुरं गोभिर्भगं परिष्कृतम् ।

इन्द्रुं देवा अयासिषुः ॥ १ ॥

[१३३६] नमिद्धर्धन्तु नो गिरो वत्सं सं शिश्वरीरिव ।

य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ २ ॥

[१३३७] अर्षा नः सोम शं गव धुत्सव पिप्युषीमिषम् ।

वधां समुद्रमुक्थ्य ॥ ३ ॥ २० ॥ अ० ६ । ६१ । १३-१५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [४८७] पृ० २४३ ।

(२) (शिश्वरीः) माताएं जिस प्रकार (वत्सं इव) बालक को अपने दुग्धरसों से बढ़ाती हैं, उसी प्रकार (नः) हमारी (गिरः) ज्ञान-कथाएं (तमिद्) उस आत्मा के आनन्द को ही (वर्धन्तु) वृद्धि करें । उसके बल को बढ़ावें (यः) जो (इन्द्रस्य) अन्तरात्मा रूप इन्द्र के (हृदंसनिः) हृदय में व्यापक रहता है ।

(३) हे सोम ! तू (नः) हमारे (गवे) गोरूप वाणी के लिये (शं) शान्तिदायक कल्याणकारी सुख को (अर्ष) प्रेरित कर और

(पिप्युषी) । निरन्तर सामर्थ्य बढ़ाने वाली (इषं) इच्छा शक्ति और अन्न के समान पोषक बल को (धुत्स्व) प्राप्त करा और हे (उक्थ्य) प्रशंसनीय ! (समुदं) रसों के सागर रूप आत्मा को (वर्ध) बढ़ा ।

इति एकादशः खण्डः ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[१३३८] आ घा ये अग्निमिन्धत स्तृणन्ति वर्धिरानुषक् ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥१॥

३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २

[१३३९] बृहन्निदिधम एषां भूरि शस्त्रं पृथुः स्वरुः ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१३४०] आयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आजति सत्त्वभिः ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३॥२१॥ ऋ० ७ । १५ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१३३] पृ० ७२ ।

(२) (युवा) बलवान् । इन्द्रः) परमेश्वर या आत्मा (येषां) जिनका (सखा) मित्र है (एषां) इनका (इधमः) तेज (बृहत् इत्) बहुत ही बड़ा है और (शस्त्रं) उनकी स्तुति, महिमा गान करने वाली वाणी भी (भूरि) बहुत है और (स्वरुः) उनका स्वर या प्राण बल या तेज भी (पृथुः) बड़ा है ।

(३) (येषाम् इन्द्रः युवा सखा) बलवान् परमात्मा जिनका मित्र है उनमें से (आयुद्ध इत्) युद्ध न करने वाला भी अकेला (शूरः) शूर-वीर के समान (युधावृतः) योधागण से घिरे प्रतिपत्ती शत्रु पर (सत्त्वभिः) अपने बलों द्वारा (आजति) चढ़ाई करता है, और उसे उखाड़ फेंकता है ।

२४ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१३४१] य एक इद्विदयने वसु मर्त्तय दाशुपे ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

इशानो अप्रतिष्कून इन्द्रो अङ्ग ॥१॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१३४२] यश्चिद्वि त्वा बहुभ्य आ सुनावाँ आविवासति ।

३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥२॥

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २

[१३४३] कदा मर्त्तमगधसं पदा जुम्पमिव स्फुरत् ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

कदा न शुश्रवद् गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ३ ॥ २२ ॥

अ० १। ८४। ७, ६, ८।

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३८६] पृ० २०० ।

(२) (बहुभ्यः) बहुत से पुरुषों में से (यः चित् हि) जो कोई भी (सुतावान्) ज्ञान योग से प्राप्त ब्रह्मानन्द रस के निष्पादक इस परमात्मा का स्वरूप (आविवासति) साक्षात् देख लेता है (अङ्ग) हे नर ! (इन्द्रः) परमेश्वर उसको शीघ्र ही (तत्) वह (उग्रं शवः) उग्र, वीर्य सम्पन्न बल (पत्यते) प्रदान करता है ।

(३) (अङ्ग) हे पुरुषो ! (इन्द्रः) वह परमेश्वर तो (नः गिरः) हमारी वाणियों को (कदा) जब कभी भी (शुश्रवद्) सुन लेता है और (अराधसं) आराधना न करने हारे, तुच्छ नास्तिक को (पदा) चरण स्पर्श मात्र से नष्ट होजाने वाले (जुम्पम् इव) सांप की छतरी, खुम्ब या पदबंदरे के तन्हे पौदे के समान (पदा) अपने सामर्थ्य से (कदा) कभी भी (स्फुरत्) विनाश कर देता है ।

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

[१३४४] गायान्त त्वा गायत्रिणोर्चन्त्यर्कमार्किणः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥१॥

२४ ३ १२ २२ ३ १२ २२ ३ १ २

[१३४५] यन्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कर्त्तवम् ।

२४ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

तादिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ।

२ २४ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[१३४६] युधवा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा ॥२॥

१ २ ३ १ २ २४

अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिञ्चर ॥ ३ ॥ २३ ॥

श० १ । १० । १-३७ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४२] पृ० १७७ ।

(२) (यत्) जब (सानोः सानु) ऊंची से ऊंची चित्तभूमि में साधक (आरुहः) चढ़ जाता है और (भूरि) बहुत कुछ मन संकल्प (कर्त्तव्यं) पूर्ण करने के लिये (अस्पष्ट) साधन करता है । (तद्) तब (इन्द्रः) परमेश्वर (अर्थं) उसके इष्ट प्रयोजन को (चेतति) जान लेता है और तब (वृष्णिः) सुखों की वर्षा करने हारा वह आत्मा (एजति) सेनापति के समान आगे बढ़ता है ।

(३) हे (सोमपाः) सोमरूप आनन्दरस का पान करने हारे (इन्द्र) आत्मन् ! (अथा) अब (नः) हमारे (गिराम्) वाणियों की (उपश्रुतिम्) ध्वनि को (चर) श्रवण कर । और (केशिना) ज्ञान, साधना से सम्पन्न (वृषणा) सुखों के वर्षक (कक्ष्यप्रा) कक्षा वालों को पूर्ण करने हारे प्राण और अपान दोनों को (युधवा हि) साधना में नियुक्त कर ।

इति द्वादशः खण्डः ।

इति द्वितीयोऽर्थः प्रपाठकः पञ्चमश्च प्रपाठकः समाप्तः ।

इति दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥

अथ एकादशोऽध्यायः

अथ षष्ठः प्रपाठकः (प्रथमोऽर्धः)

ऋषिः—१, ६ मेधातिथिः काण्वः । १० वसिष्ठः । ३ प्रगाथः काण्वः ।
 '४ पराशरः । ५ प्रगाथो घोरः काण्वो वा । ७ त्र्यरुणत्रसदस्यू । ८ अग्नयो धिष्ण्या
 ऐश्वरा । ९ हिरण्यस्तूपः । ११ सारंपराशी ॥ देवता—१ इध्मः समिद्धो वाग्निः
 तनूनपात् नराशंसः इन्द्रश्चः क्रमेण । २ आदित्याः । ३, ५, ६ इन्द्रः । ४, ७-९
 पवमानः सोमः । १० अग्निः । ११ सारंपराशी ॥ छन्दः—४-३, ११ गायत्री ।
 ४ त्रिष्टुप । ५ बृहती । ६ प्रगाथ । ७ अनुष्टुप् । ४ द्विपदा पंक्तिः । ९ जगती ।
 १० विराड् जगती ॥ स्वरः—१-३, ११ षड्जः । ४ धैवतः । ५, ६ मध्यमः ।
 ६ गान्धारः । ८ पञ्चमः । ९, १० निषादः ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१३४७] सु पभिद्धो न आवह देवाँ अग्ने हविष्मते ।

१ २ ३ १ २
 होताः पावक यज्ञि च ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१३४८] मधुमन्त तनूनपाद् यज्ञं देवेषु नः कवे ।

३ १ २ ३ १ २
 अद्या कृणु ह्युतये ॥२॥
 २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ २

[१३४९] नराशंसमिह प्रियमास्मन्यज्ञ उपह्वय ।

१ २ ३ १ २
 मधुजिह्वं हविष्कृतम् ॥३॥
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

[१३५०] अग्ने सुखतमे रथे देवाँ इडित आवह ।

२ ३ २ ३ १ २
 आस होना मनुर्हितः ॥४॥१॥ अ० १ । १४ । १-४ ॥

भा०—(१) हे (अग्ने !) प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (सुसमिद्ध)
 उत्तम रूप से हमारे हृदय में प्रकाशित होकर आप (नः) हमें (देवान्)

दिव्यगुणयुक्त, ज्ञानवान् पुरुषों और दिव्य उत्तम पदार्थों को (आवह) प्राप्त कराइये । हे (होतः) सब पदार्थों के दाता ! हे (पावक) सब के अन्तःकरणों के पवित्र करण हारे ! आप (हविष्मते) अन्तरात्मा में ज्ञानरूप हवि को धारण करने हारे ज्ञानी पुरुष को (च) भी (यत्ति) आप प्रेम करते और उसको प्राप्त होते और अभिलषित पदार्थों को देने हैं ।

(२) (कवे) मेधाविन् ! हे (तनूनपात्) शरीर के छोटों से छोटों भागों की रक्षा करने हारे ! या देह को न गिरने देने वाले प्राणस्वरूप ! (नः) हमारे (यज्ञ) जीवनमय राष्ट्रमय और दान आदि सत्कर्मरूप यज्ञ को (अथ) आज के समान सदा, (नः) हमारे (उत्तये) रक्षा के निमित्त (देवेषु) विद्वान् पुरुषों इन्द्रियगण और दश प्राणों में (कृणुहि) सम्पादन करें ।

(३) (नराशंस) समस्त विद्वान् नेता पुरुषों द्वारा स्तुति किये गये, (प्रियम्) उत्कृष्ट, अत्यधिक प्रिय (मधुजिह्वं) मधुरूप ब्रह्मविज्ञान को अपने भीतर आदान करने और वेदवाणी द्वारा उपदेश करने, हारे (हविष्कृतं) ब्रह्मज्ञान रूप हवि को सम्पादन करने हारे अन्तरात्मा और उस प्रभु को भी इस (इह अस्मिन् यज्ञे) यहाँ इस उपासना कार्य में या संसार में (उपह्वये) ध्यान करुं ।

(४) हे (अरने !) प्रकाशस्वरूप ! (सुखतमे) अति अधिक सुख कारक (रथे) रमण करने के साधन इस देह में (ईडितः) समाधि द्वारा अर्चिन और परिशोधित होकर (देवान्) इन इन्द्रियों और दिव्यगुणों को (आवह) प्राप्त करा । तू ही (मनुः हितः) इस हृदयगुहा में मननशील होकर या समाधि द्वारा धारण किया गया है । तू ही (होता) इन प्राणों को अपने भीतर आदान करने और सुखों के देने हारा (असि) है ।

[१३५१] यद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २
सुवाते सविता भगः ॥१॥

[१३५२] सु^{३२}प्रा^{१२}वीर^३स्तु^{२६} स^३क्षयः^३ प्र^३नु^३ यामिन्त्सुदानवः।^{२२}

य नो अहोऽनिपिप्रति ॥२॥

[१३५३] उ^{३२}त् स्वराजो^{३२} अ^३दिति^३रद^१ब्ध^२स्य^३ व्रतस्य^३ य।^२

महो राजान ईशने ॥२॥२॥ ऋ० १। ६६। ४-६ ॥

(१) (यद्) जो (अद्य) इस समय आज या इस कल्प में (भगः) सेवन करने योग्य है, (सूर्य) सूर्य प्राणात्मा के (उदिते) उदित हो जाने पर (अनागाः) सब अपराधों और दोषों से विमुक्त, पाप रहित, (मित्रः) सब का स्नेही, (अर्थमा) न्यायकारी, सब को समान रूप से स्वामी या शत्रुओं का नियन्ता, (सविता) सब संसार का उत्पादक परमात्मा (सुवाति) हमें सुख प्रदान करें।

(२) (यः) जो (अंहः) पाप को (अति पिप्रति) पार कर लेते हैं वे (यामिनि) प्रति दिन (सुदानवः प्र) उत्तम कल्याणकारी उपदेश और उत्तम ऐश्वर्य दान करने हारे हों। और (सक्षयः) निवास सहित हमारा (सुप्रावीः) उत्तम रक्षा का प्रबन्ध भी (अस्तु) हो।

(३) (उत्) और (यः) जो (अदितिः) अखण्डित चरित्र वाले (अदब्धस्य) अविनाशी, सुसम्पादित (व्रतस्य) व्रत, कर्त्तव्य कर्म के कारण (स्वराजः) स्वतः अपने अन्तरात्मा के बल से प्रकाशित होने वाले हैं। वे ही (महः राजानः) बड़े ऐश्वर्यशाली होकर (ईशते) सब पर शासन करते हैं।

व्रत को पालक सदाचारी दूढ़ पुरुष ही महान् वशी हो जाता है।

[१३५४] उ^३त्वा^२ म^३दन्तु^३ सोमाः^३ कृणु^३ष्व^३ रात्रौ^३ अद्रि^३वः।^२

अत्र ब्रह्माद्विषा जहि ॥१॥

[१३५५] प^३दा^२ प^३णी^३न^३रा^३ध^३सो^३ नि^३वा^३ध^३स्य^३ महो^३ अ^३सि।^२

न हि त्वा कश्चन प्रति ॥२॥

[१३५६] त्वमीशिपे सुनानामिन्द्र त्वमसुतानाम् ।

त्वं राजा जनानाम् ॥३॥३॥ ऋ० ८ । ६४ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६४] पृ० १०३ ।

(२) हे (इन्द्र) ज्ञानवन् ! (पयीन्) केवल अदले बदले के व्यवहार को करने हारे, धन लोभी (अराधसः) यज्ञादि द्वारा आराधना न करने हारे-मूर्ख-पुरुषों को अपने (पदा) ज्ञान से (नि बाधस्व) पूर्ण रूप से पीड़ित कर अर्थात् उनकी लोभवृत्ति को नाश करदे । तू (महान्) सबसे बड़ा (अस्ति) है । (त्वा प्रति) तेरे मुकाबले में (कः चन) कोई भी (नहि) नहीं है ।

(३) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वं) आप (सुतानां) उत्पन्न, शिक्षित और (असुतानां) अनुत्पन्न और अशिक्षित, जो कालान्तर में उत्पन्न या शिक्षित होंगे उन सब पर (ईशिपे) सामर्थ्यवान् है क्योंकि (त्वं) तू (जनानां) सब मनुष्यों, और उत्पन्न होने हारे प्राणियों का (राजा) अधिपति, राजा है ।

इन्द्र=परमात्मा, आचार्य और राजा हैं । वे क्रम से योगी और शिष्यों को और प्रजाओं को निरन्तर शिक्षा दें और उनकी व्यवस्था करें ।

इति प्रथमः खण्डः ।

—:0:—

[१३५७] आ जागृविर्विप्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो असदश्चमू-

षु । सपन्ति यं मिथुसानो निकामा अध्वर्यवो रथिरा-

सः सुहस्ताः ॥ १ ॥

१३५७—१. 'ऋता मतीना' । २. 'धरे नधातोभे', 'विप आवः', 'सत्पुनः'

३. 'अद्रिसुष्णन्' इति ऋ० ।

१ २ ३२४ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १२
 [१३५८] स पुनान उपसुरे दधान आभ अप्रा रोदसी वी प
 २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २२ २२ ३ २ ३

आवः । प्रियाचिद्यस्य प्रियसास ऊर्ता सतो धनं कारिणे
 १२ २२

नं प्रयंसत् ॥ २ ॥

१ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३
 [१३५९] स वर्द्धिता वर्द्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वां अभि नो
 १ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

ज्योतिषा वीत् । यत्र नः पूर्वे पितरः पदक्षाः स्वविदो

३ १२ २२ ३ २
 अभिगा अद्रिमिष्णान् ॥ ३ ॥ ५ ॥ अ० १ । ६७ । ३७-३६ ॥

भा०—(१) (जागृविः) जागरणशील, कभी आलस्य न करने
 हारा, सर्वदा सचेत, (मतीनां) मनन करनेहारी बुद्धियों या मनन करने
 योग्य वेदवाणियों के (ऋतं) सारभूत सत्यज्ञान को (पुनानः) प्रकाशित
 करता हुआ (विप्रः) मेधाबुद्धि से सम्पन्न विद्वान् (सोमः) शम, दम
 आदि साधनों से सम्पन्न होकर (चमूपु) प्रजाओं में (असदन्) विरा-
 जता है । (यं) जिसके पास (निकामः) नाना प्रकार की कामनाओं
 से युक्त (मिथुनासः) गृहस्थ नर नारी (अध्वर्यवः) अपने यज्ञादि
 कर्मकाण्ड में लगे हुए विद्वान्, (रथिरासः) देहधारी, (सुहस्ताः) उत्तम
 कर्म करने में कुशल पुरुष भी (सपन्ति) ज्ञान और सत्संग प्राप्त करने
 के लिये आते हैं ।

(२) (सः) वह विद्वान् (पुनानः) अपने स्वरूप में स्वतः और
 अधिक शुद्ध पवित्र होता हुआ अपने को (सुरे) सबके उत्पादक और
 प्रेरक परमेश्वर में (उपदधानः) ईश्वर प्राणधान द्वारा लगाता हुआ
 (उभे) दोनों (रोदसी) प्राण और अपान या इहलोक और परलोक, सूर्य
 और पृथिवी के समान ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों को ज्ञान तेज से (आ
 अप्राः) पूर्ण करता है, (सः) और वह (वि आवः) विविध प्रकार का
 ज्ञान प्रकट करता है । और (सतः) अपने उद्देश्य तक पहुंचे हुए (यस्य)

जिसकी (प्रिया) श्रेष्ठ, और (प्रियसासः) कल्याणदायिनी कामनायें (उती) रक्षण करने, भयों और विघ्नों से बचाने के लिये होती हैं । वह (नः) हमें (धनं) आत्मज्ञान रूप उत्तम धन को (कारिणे न) अपने चाकर के समान समझ कर (प्र यंसत्) प्रदान करे ।

(३) (सः) वह (वर्धिता) सत्र की वृद्धि करने हारा और (वर्धनः) स्वयं भी आगे बढ़ाने हारा, या सबके संशयों को काटने हारा और बन्धनों का भी मूलोच्छेद करने हारा (पूयमानः) शुद्ध पवित्र ज्ञानवान् होकर । (सोमः) शमदमादि पट्क सम्पत्ति से युक्त विद्वान् (मीद्वान्) आनन्द और सुखों का वर्षक, धर्ममेघ समाधि से भिद्ध, (ज्योतिषा) आत्मज्ञानमय ज्योति से (नः) हमें (अभि आवीत्) उस स्थान पर ले जावे (यत्र) जहां (नः) हमारे (पदज्ञाः) परम पद, प्राप्त ब्रह्म के ज्ञाता (स्वर्धिदः) मुक्ति सुख का लाभ करने हारे (गाः) वेदवाणियों को (अभि) साक्षात् करके (पूर्वे पितरः) पूर्व पिता पितामह गुरु आदि पुरुषा एवं आचार्य लोग (अदिम्) उस अखण्ड ब्रह्म को (इण्णन्) प्राप्त होते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ ३ १ २ ३ १ ३

[१३६०] मा च्चदन्त्याद्विशंसत सखायो मा रिपरयत ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

इन्द्रमित्सनाता वृषणं सचा सुत मुहुरुक्था च शंसत ॥१॥

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१३६१] अवक्रक्षिणं वृषभं यथा जुवं गां न चर्षणीसहम् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

विद्वेषणं संवननमुभयङ्करं मंहिष्टमुभयाचिनम् ॥ २ ॥ ५ ॥

ऋ० मं । १ । १-२ ॥

भा०—(१) हे (सखायः) मित्रो ! समान रूप से प्रवचन करने हारे विद्वान् लोगो ! (अन्यद्) ईश्वर की स्तुति से अतिरिक्त व्यर्थवाद

१३६०—२. 'वृषभं यथा जुवं', 'संवननोभयंकरं' इति ऋ० ।

(मा चित्) कभी मत (वि शंसत) उच्चारण किया करो । आप कभी (मा रिषयत) बलेश को प्राप्त न होओ । (च) और (सुते) ज्ञान उत्पन्न होजाने पर (सचा) एकत्र होकर एक साथ (वृषणं) आनन्द-सुखों की चर्चा करनेहारे (इन्द्रम्, इत्) परमेश्वर को ही लक्ष्य करके (उक्था) वेद-मन्त्रों को (सुहुः) बार २ (शंसत) उच्चारण और उनका उपदेश किया करो ।

(२) और हे विद्वानो ! आप लोग (जुवं) वेगवान्, शक्तिशाली, (श्रवक्रविणं) सबको अपने ही ओर खींचने हारे (वृषभं) बलवान् श्रेष्ठ (गां न) बैल के समान बलवान्, (वृषभं) समस्त सुखों के वर्षक (चर्पणीसहम्) समस्त संसार के मानवों के अपराधों को सहन करने हारे, उन पर क्षमाशील, उनके व्यवस्थापक, (विद्वेषणं) दुष्टों को दण्ड देने के कारण उनकी झप्रीति का पात्र और (संवन्नं) श्रेष्ठ पुरुषों, के शरण करने योग्य (उभयंकरं) अनुग्रह और दण्ड, पालन और संहार दोनों के करने हारे अतएव (मंहिष्ठं) सबसे बड़े दाता, (उभयाविनं) सज्जन और दुर्जन, ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों के जीवनों की समान भाव से रक्षा करने हारे (इन्द्रम् इत् स्तोत) उस परमेश्वर की ही स्तुति करो ।

इन्द्रियों को आत्मा और विद्वानों को परमात्मा के प्रति इस भाव से रहना चाहिये । इन्द्रियों के पक्षमें—आत्मा (विद्वेषणं संवन्नं) द्वेष और राग से युक्त, ईर्ष्या और जिहासा या पाने और त्यागने की इच्छा द्वारा दोनों कार्यों को करनेहारा और सुखकर और दुःखकर दोनों प्रकारोंके मार्गों पर जानेहारा है ।

[१३६२] उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते ।।

सत्राजितो धनवा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१॥

[१३६३] कण्वा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्धातमाशत ।।

इन्द्रं स्तोमैभिर्महयन्त आयवः प्रियमधाखो अस्वरन्

॥ २ ॥ ६ ॥

अ० ८ । ३ । १५, १६ ॥

भा०—(१) (रथा इव) रमणसाधन, रथ जिस प्रकार (वाजयन्तः) संग्राम में गमन करते हुए (अहितोतयः) अपने रथा के साधनों को निरन्तर स्थिर रखने हारे (सत्रान्तितः) समस्त शत्रुओं का विजय करके (धनसा) धन, लक्ष्मी को प्राप्ति कराते हैं और राजा के प्रति ही आते, उसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (त्वे) वे (मधुमत्तमाः) अति ज्ञान, और आनन्दरूप मधु से पूर्ण (गिरः) वेदवाणीस्वरूप (स्तोमासः) वेद के स्तुति सूक्त, हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (उत् ईरते) भक्तजनों और विद्वानों के हृदयों और कण्ठों से तुम्हें परमेश्वर के प्रति उठते हैं ।

(२) (भृगवः) पाप को भून डालने हारे, तपस्वी, (कण्वाः) विद्वान् पुरुष (सूर्या इव) सूर्य की किरणों के समान (विश्वम् इत्) इस समस्त संसार को (धीतम्) ज्ञान योग और ध्यान योग से प्राप्त करके (आशत) भोग करते हैं । और वे (प्रियमेधासः) सूक्ष्म तत्त्वदर्शिनी, धारणावती बुद्धियों और ज्ञानधाराओं के प्रेमी (आयवः) मनुष्य (स्तोमेभिः) नाना प्रकार के स्तुति-वचनों से (इन्द्रं) परमैश्वर्यवान् परमेश्वर की (महयन्तः) अर्चना करते हुए (अस्वरन्) वेद की स्तुतियों का गान करते हैं ।

[१३६४] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} पर्युषु प्रधन्व वाजसातय परि वृत्राणि सत्राणिः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ १ ॥

[१३६५] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} अजीजना हि पवमान सूर्ये विधारे शक्मना पयः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २} गार्जग्या रहमाणः पुरन्ध्या ॥ २ ॥

[१३६६] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २} वाजा अभि पवमान प्रगाहसे ॥३॥७॥११०११,३,२॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४२८] पृ० २१८ ।

(२) हे (पवमान) सब के प्रकाशक प्रेरक और उत्पादक ! आप (गोजीरया) गति के वेग से युक्त (पुरन्ध्या) ब्रह्माण्ड को धारण करने वाली शक्ति से (रहमाणः) सबको गति देनेहारे होकर अपने ही (शक्मना) शक्ति से (पयः) सबके पुष्टिकारक जल को (विधारे) विशेष रूप से ऊपर किरणों द्वारा धारण कर लेने के लिये (सूर्य) सूर्य को (अजीजनः) उत्पन्न करते हो । अथवा—(पयः सूर्य विधारे अजीजनः) सबके पोषक सूर्य को भी निरालम्ब आकाश में उत्पन्न करते हो ।

(३) व्याख्या देखो अविकल सं० [४३२] पृ० २२० ।

२ ३ १ ३.

[१३६७] परिप्रधन्व० ॥१॥

३ १२ २ ३ १२ २२ ३ २ २ १ २ ३ २ ३ १ २

[१३६८] एवामृताय महं क्षयाय स शुक्रो अर्प दिव्यः पीयूषः॥२॥

२ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१३६९] इन्द्रस्ते सोमसुनस्य पेयात् ऋत्वे दक्षाय विश्वे च देवाः

॥ ३ ॥ ८ ॥ अ० ६ । १०६ । १, ३, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४२७] पृ० २१८ ।

(२) हे प्रभो ! तू (दिव्यः) दिव्य (पीयूषः) सबको पुष्ट करने वाला, पान करने योग्य आनन्दरसरूप, (अमृताय) अमृत, परम ब्रह्मसुख या मुक्ति प्रदान करने के लिये और (महं) बड़े भारी (क्षयाय) शरण प्राप्त कराने के लिये (एव) ही है । हे सबके उत्पादक (सः) वह आप (शुक्रः) शुद्ध कान्तिस्वरूप होकर हम पर (अर्प) अपनी ज्ञान और

१३६७—३. 'पेयाः' इति अ० । एच. एच. 'स्तीवन्सनसम्पादिते' लन्दनमुद्रिते

ग्रन्थे आद्ये द्वे अर्चावेकीकृत्य मुद्रिते 'परिप्रधन्वा एवामृतायेत्यादि, तत्र

प्रामादिकम् । अजमेरमुद्रिते तु पूर्णो मन्त्रपाठः ।

सुतः) उत्तम रीति से उत्पन्न, प्रकट या प्रेरित होकर (मत्सरासः) निर-
पेक्ष गति करते हुए स्वयं प्रेरित, (आश्रवः) शीघ्रगामी (सर्गासः) समस्त
लोक (ततं) विस्तृत विशाल (तन्तुं) सर्ग, स्थिति, प्रलय के अनादि
तन्तु ब्रह्म को आश्रयण करके (साकं) एक ही काल में (परि-ईरतेः)
अपनी २ कक्षा में परिक्रमा करते हैं, वास्तव में (किञ्चन पुच्छंभी
(धाम) शक्ति और तेज (इन्द्राद् कृते) बिना उस परमेश्वर के कहीं से
भी (न) नहीं (पत्रते) प्रकट होता । यहां तेजस्वी लोकों को 'सोमा'
' मत्सरासः ' शब्दों से कहा गया है । अध्यात्मपत्र में ये प्राण हैं और
इन्द्र=आत्मा ।

(२) (मतिः) मननशक्ति बुद्धि उस परमेश्वर इन्द्र में समाधि द्वारा (उप-
पृच्यते) लग जाती है तब (मधु) आनन्द-रस (सिच्यते) अन्तःकरण
में प्रवाहित होने लगता है । (मन्दाजनी) अति आनन्ददायक रसधार
(आसनि) मुख के भीतर या मुख्यस्थान शिरोभाग में (अन्तः) भीतर
(चोदते) प्रेरित होती है । (सन्तनिः) सर्वत्र समान भाव से विस्तृत
हाने हारा (पवमानः) प्रकट होता हुआ, कान्तिस्वरूप (द्रप्सः) वीर्य
और रसस्वरूप आनन्दरस (मधुमान्) ज्ञान और आनन्ददायक होकर
(द्वारम्) मृकटियों के मध्यभाग त्रिपुटीस्थल में या वरणीय प्रदेश में
(परि-अर्पति) प्रकट होता है ।

इसमें ब्रह्माण्डगत सोम के अतिरिक्त शरीरगत सोम का स्वरूप भी
दर्शाया गया है ।

(३) जैसे (उच्चा) वीर्य सेचन में समर्थ सांड (मिमेति) शब्द
करता है और (धेनवः) गौएं (तं) उसकी तरफ (प्रति यन्ति) चलती हैं ।
इसी प्रकार (देवीः) दिव्यगुण वाली शक्तियां या बुद्धियां (देवस्य) दिव्यगुण
युक्त अन्तरात्मा के (निष्कृतं) गुप्त स्थान या विशुद्ध स्वरूप को भी (न-

पयन्ति) पहुंचती हैं । (सोमः) शुक्रस्वरूप सर्वप्रेरक शक्ति (अर्जुनम्) शुभ्र या देह के उपचय अपचय करने में समर्थ (अव्ययम्) प्राणमय (वारम्) आवरणकारी कोष को (अति अक्रमीत्) अतिक्रमण करता है और (निक्रम्) शुद्ध (अत्कं) कत्रच के समान रक्षण करने हारे शरण योग्य पद को (अव्ययत) प्राप्त होता है ।

३ २४ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[१३७३] अग्निं नरो दीधिनिभिररगयोर्हस्तव्युनं जनयत प्रशस्तम् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २
दुरेदृशं गृहपतिमथव्युम् ॥१॥

२ ३ २४ ३ १ २ ३ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१३७४] तमग्निमस्ने वसवो न्यगवन्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित् ।

३ २ ३ २४ ३ २ ३ १ २
दक्षाद्या यो दम आस नित्यः ॥२॥

१ २ ३ १ २ २ ३ २ २

[१३७५] प्रेक्षां अग्ने दीधिः पुगे नोऽजस्रया सूर्या यविष्ठ ।

१ १ २ २ ३ १ २ ३ ३ १ २

त्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजाः ॥ ३ ॥ १० ॥

श्र० ७ । १ । १-२ ॥

भा० — (१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [७२] पृ० ३७ ।

(२) (सुप्रतिचक्षं) उत्तम रूप से दर्शन करने योग्य, (तम्) उस वरण करने योग्य (अग्निम्) अग्निरूप ज्ञानवान् तेजस्वी आत्मा को (वसवः) आवास के साधन या देह में वास करने हारे देव, इन्द्रियगण या विद्वान् लोग (कुतश्चित्) सब ओर से (अवसे) रक्षा प्राप्त करने के

२. अज गतिस्थानोपार्जनेषु । अजी भुंजी भर्जने । अर्जं वर्जं भर्जने, इति

म्वादयः । अजं प्रतियत्ने इति चुरादिः । एभ्यो बहुलमुणः ।

अर्जुनः=गतिमान्, स्तिरः, उपार्जनशीलः, भर्जनशीलः, प्रतियत्न-

वान् इत्यर्थः ।

लिये (अस्ते) अपने गृह, देह, या हृदयगुहा में (निऋणवन्) योग समाधि द्वारा खोजते हैं जो (दत्तार्यः) बल को प्राप्त कराने में चतुर (नित्यः) अव्यय आविनाशी, (दमे) दमन करने योग्य शरीररूप गृह में (आस) विद्यमान रहता है ।

(३) हे । अग्ने) प्रकाशक आत्मन् ! (यविष्ठ) हे बलशालिन् ! अति युवतम ! अजर, अमर ! (प्रैद्धः) योग-साधनों से प्रदीप्त, प्रज्वलित होकर (अजस्रया) निरन्तर प्रकाशमान (सूर्या) ज्वाला, ज्ञानमय ज्योति से (दीदिहि) प्रकाशित हो । (शश्वन्तः) अनादिकाल से बड़े सपत्नी (वाजाः) ज्ञानी पुरुष (त्वां) तुझको (उपयन्ति) प्राप्त होते हैं ।

२२ २२ ३१२ ३१२३२
[१३७६] आयं गौः पृश्निरक्रमांसलदन्मातरं पुरः ।

३१२ ३१ २
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥१॥

३१२ ३१२ ३१२ ३२
[१३७७] अन्तश्चरन्नि रोचनास्य प्राणादपानर्ता ।

१२ २२ ३१२ २२
व्यख्यन्महिषो दिवम् ॥२॥

३१२ ३१२ ३१२ ३१२ २
[१३७८] त्रिशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय धीयते ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥३॥११॥ अ० १० । १८९ । १-३॥

भा०—(१) (२) (३) व्याख्या देखो अविकल सं० क्रम से [६३०, ६३१ और ६३२] पृ० ३१८, ३१६ ।

इति तृतीयः खण्डः ।

इति षष्ठस्य प्रपाठकस्य प्रथमोऽध्वः

इत्येकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥

अथ द्वादशोऽध्यायः

—७५—

अथ षष्ठप्रपाठकस्यः द्वितीयाऽर्धः ।

ऋषिः—१ गोतमो राहूगणः, वसिष्ठस्त्वृतीयस्याः । २, ७ वीतहृद्यो भरद्वाजो वा वार्हस्पत्यः । ३ प्रजापतिः । ४, १३ सोभरिः काण्वः । ५ मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ । ६ ऋजिष्वोर्ध्वसत्रा च क्रमेण । ८, ११ वसिष्ठः । ९ तिरश्चीः । १० सुतंभर आत्रेयः । १२, १६ नृमेधपुरुमेधौ । १४ शुनःशेष आजीगर्तिः । १५ नोधाः । १६ मेध्यातिथिमेधातिथिर्वा काण्वः । १७ रेणुर्वैश्वामित्रः । १८ कुत्सः । २० आगस्त्यः ॥ देवता—१, २, ८, १०, १३, १४ अग्निः । ३, ६, ८, ११, १५, १७, १८ पवमानः सोमः । ४, ५, ९, १२, १६, १६, २० इन्द्रः ॥ छन्दः—१, २, ७, १०, १४ गायत्री । ३, ६ अनुष्टुप् । ४, १२, १३, १६ प्रागर्थ । ५ बृहती । ६ ककुप् सतोबृहती च क्रमेण । ८, ११, १५, १० त्रिष्टुप् । १७ जगती । १६ अनुष्टुभौ बृहती च क्रमेण । २६ बृहती अनुष्टुभौ क्रमेण ॥ स्वरः—१, २, ७, १०, १४ षड्जः । ३, ६, १० गान्धारः । ४-६, १२, १३, १६, २० मध्यमः । ८, ११, १५, १८ धैवतः । १७ निषादः ।

[१३७६] उपप्रयन्ता अध्वर मन्त्र वाचमाश्रये ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
३ २ ३ १ २ ३ २
आरे अस्य च शृण्वत ॥ १ ॥

[१३८०] यः स्त्रीद्वितीये पूर्यः सक्षप्रानासु कृष्टिषु ।

१ २ ३ २ २ १ २
अरजदाशुष गयम् ॥ २ ॥

[१३८१] स नो वेदो अमात्यमग्नी रजतु शन्तमः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
३ २ ३ १ २
उनास्मान्पात्वहसः ॥ ३ ॥

१३८१—'अग्नी रजतु विश्वतः' इति ऋ० ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१३८२] उत द्युवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रहाजनि ।

^३ ^{१२} ^{२२}
धनञ्जयो रणोरणे ॥ ४ ॥ १ ॥

[१, २, ४] अ० १ । ७४ । १-३ [३] अ० ७ । १५ । ३ ।

भा०—(१) (अध्वरं) हिंसा आदि रहित पर-उपकार आदि पवित्र कर्मों को (उप प्रयन्तः) अनुष्ठान करते हुए हम लोग (आरे) दूर देश में (च) भी (अस्मे) हमारी स्तुति को (शृण्वन्ते) सुनने वाले (अग्रये) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के दाता परमात्मा की स्तुति के लिये (मन्त्रं) मनन करने योग्य वेदमन्त्र काः (वोचेम) उच्चारण करें ।

(२) (यः) जो (संजग्मानासु) समान भाव से संग करने हारी और (स्त्रीहितिषु) परस्पर झह करने हारी, या परस्पर लड़ने हारी (कृष्टिषु) प्रजाओं में (पूढ्यः) सब से प्रथम विद्यमान, या मुख्य पद पर विराजमान, आदरणीय, पूर्ण स्वभाव, निरपेक्ष, निष्पक्ष, न्यायशील ज्ञानी पुरुष है वही (दाशुषे) दान करने हारे त्यागी पुरुषों के (गयं) प्राण और धन की (अरक्षत्) रक्षा करे ।

(३) (सः) वह (शंतमः) अत्यन्त शान्तिदायक, शम आदि युक्त, निष्ठ, निष्पक्षपात, ज्ञानी पुरुष, (नः) हमारे (अमात्यं) सहायक-पुत्र आदि और (वेदः) ज्ञान और धन की (रक्षतु) रक्षा करे । (उत) और (अस्मान्) हमको (अंहसः) पापों से (पातु) बचावे ।

(४) और इसी प्रकार (जन्तवः) सब लोग (द्युवन्तु) उसका वर्णन करें और जानें कि (वृत्रहा) आवरणकारी अज्ञान और अधकार का नाश करने हारा (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्, पथ-दर्शक और प्रकाशस्वरूप आचार्य और राजा (रणे रणे) रमणीय २ प्रदेशों और संग्रामों में (धनंजयः) ज्ञान और धन का विजय करने हारा हो ।

१ २ ३ १२ २२ ३ १ २
[१३=३] अग्ने युञ्चवा हि ये तवाशवासो देव साधवः ।

२ ३ १ २ ३ १ २
अरं वहन्त्याशवः ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २२ ३ २ २
[१३=४] अच्छा नो याह्यावहाभिप्रयांसि वीतये ।

२ ३ १ २ २ २
आ देवान्त्सामपीतये ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २
[१३=५] उदग्ने भारत द्युमदजक्षण दविद्युतत् ।

२ १ २
शोचा विभाह्यजर ॥ ३ ॥ २ ॥ अ० ६ । १६ । ४३-४५ ॥

भा०—(१) हे (देव) प्रकाशमान आत्मन् ! (ये) जो (सा-
धवः) ज्ञानसाधन और कर्मसाधन में कुशल (तव) तेरे (आशवः)
शीघ्रगामी (अश्वसः) विषय ग्रहण करने हारे, (अरं) पर्याप्त ज्ञान
और फलराशि को (वहन्ति) प्राप्त करते हैं उन इन्द्रिय आदि साधनों
और विद्वानों को (युञ्च हि) निश्चय पूर्वक कार्य में नियुक्त कर । व्याख्या
देखिये अविफल सं० [२५] पृ० ११ ।

(२) हे (अग्ने) परमपुरुष परमेश्वर ! (नः) हमारे (अच्छ)
सन्मुख (याहि) प्राप्त हो, हमें दर्शन दो और (वीतये) तत्व साक्षात्कार
करने और (सामपीतये) ऐश्वर्य, आनन्दरस को पान करने के लिये
(देवान्) इन्द्रियगणों या विद्वान्जनों को नित्य (प्रयांसि) ज्ञान (अभि-
आ-वह) प्राप्त कराओ ।

(३) हे (भारत) समस्त संसार के भरण पोषण करने हारे ! हे
(अजर) जरामरणरहित ! (अग्ने) प्रकाशस्वरूप परम आत्मन् ! (दवि-
द्युतत्) निरन्तर प्रकाशमान होता हुआ तू (अजक्षेण) निरन्तर वर्तमान,
(द्युमत्) प्रकाशमान तेज से (शोच) स्वयं प्रकाशित हो और (उद-
वि-भाहि) उत्तम रीति से समस्त जगत् को भी प्रकाशित कर ।

[१३८६] प्रसुन्वानानयान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः ।

अप श्वानमराधसं हता मखन्न भृगवः ॥ १ ॥

[१३८७] आ जामिरत्क अव्यत भुजे न पुत्र आगयोः ।

सरज्जारा न योपणां वरो न योनिमासदम् ॥ २ ॥

[१३८८] स वीरो दत्तसाधना वि यस्तस्तम्भ रोदसी ।

हरिः पवित्र अव्यत वधा न योनिमासदम् ॥ ३ ॥ ३ ॥

अ० ६ । १०२ । १३-१५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१५३ तथा ७७४]
पृ० २६८ और ५५३ ।

(२) (जामिः) आनन्द को उत्पन्न करने हारा, निर्दोष, शुद्ध अन्तःकरण वाला साधक सोम (अत्के) अपने आच्छादक, आनन्दमय कोष में (आगयोः) मां वाप के (भुजे) गोद में (पुत्रः न) पुत्र के समान और (योपणां) कामिनी स्त्री के प्रति (जारः न) उस में आसक्त पुरुष के समान और (योनिं) कन्यागृह के प्रति (वरः न) वरण करने योग्य पुरुष के समान (सरत्) गमन करता हुआ (योनिं) अपने आश्रय आत्मा में (आसदं) स्थिर, आनन्दरूप स्थिति प्राप्त करने के लिये (अव्यत) पहुंच जाता है ।

(३) (दत्तसाधनः) अपने बलोपार्जन का साधक (यः) जो (रोदसी) प्राण और अपान के वेगों को (तस्तम्भ) रोक लेता या वश कर लेता है (सः) वह (हरिः) इन्द्रियों का विजय करने हारा (वेधाः) ज्ञानी गृहस्थ (योनिं न) जैसे अपने घर में आता है उसी प्रकार वह भी (वेधाः) मेधावी, ज्ञानवान् साधक (योनिम्) आश्रयस्थान, परम

शरणरूप मोक्ष को प्राप्त करने के लिये (पवित्रे) परम पावन परमात्मा में (अग्न्यत) विचरता है ।

इतिः प्रथमः खण्डः ।

— 0 —

३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[१३८६] अश्रात्तव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुपा सनादसि ।

३ १ २ ३ १ २

युधेदापित्वमिच्छसि ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ २

[१३६०] नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

यदा कृणोपि नदनुं समूहस्यादित्पितेव ह्यसे ॥ २ ॥ ४ ॥

अ० ८ । २१ । १३, १४ ॥

भा०—(१) श्याख्या देखो भविकल सं० [३६६] पृ० २०४ ।

(२) हे प्रभो ! आप (रेवन्तं) केवल धनसम्पन्न, धनाभिमानी पुरुष को (सख्याय) अपनी मित्रता के लिये (नकिः) कभी नहीं (विन्दसे) प्राप्त करते । क्योंकि (सुराश्वः) शराव पीकर, या राज्य लक्ष्मी के भद्र से फूले हुए (ते) वे लोग हितैषियों तक को (पीयन्ति) मारते हैं । और जब (नदनुं) सत्य गुणों का उपदेश करने हारें पुरुष को आप अपना मित्र (कृणोपि) बना लेते हो और (समू कहसि) उसको उत्तम रीति से उन्नति के मार्ग पर लेजाते हो । (यात् इत्) तब ही हे परमेश्वर ! आप (पिता इव) पिता के समान (ह्यसे) याद किये जाते हो ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१३६१] आ त्वा सहस्रमाशुतं युक्ता रथे हिरण्यये ।

३ २ ३ १ २

३ २ ३ १ २ १ २

ब्रह्मयुजा हर्य इन्द्र केशिनो ब्रह्मन्तु सोमपीतये ॥ १ ॥

३३८६—१. दुओश्वि गतिवृद्धयोः [भ्वादिः]

१. सुराश्वः शताः इति सुराश्वः ।

ब्रह्मास्वाद रस की (रमम्) यह (आसुतिः) निष्कर्ष या प्राप्ति (मदाय) परम हर्ष के प्राप्त करने के लिये (चासुः) सर्वोत्तम (पत्यते) जानी और प्राप्त की जाती है ।

[१३६४] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २} आसोता परिपिचताश्वं न स्तोममसुरं रजस्तुरम् ।

^{३ १ २ ३ १ २} वनप्रक्षमुदप्रुतम् ॥ १ ॥

[१३६५] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} सहस्रधारं वृषभं पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने ।

^{३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ २} ऋतेन य ऋतजातो वि वावृधे राजा देव ऋतं बृहत्
॥ २ ॥ ६ ॥ अ० ६ । १०८ । ७, ८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [५८०] पृ० २६२ ।

(२) (सहस्रधारं) सहस्रों धारणकारिणी शक्तियों या आनन्द धाराओं, या नाना स्तुति वाणियों से युक्त (वृषभं) सुखों के वर्षक (पयो-दुहं) पुष्टिकारक आनन्द का दोहन करने हारे (प्रियं) आत्मा के समान सब से अधिक प्राप्ति के विषय (देवाय) परम इष्टदेव के (जन्मने) अन्तरात्मा में प्रादुर्भाव करने के निमित्त साक्षात्कार करा । जो आत्मारूप सोम (राजा) ज्ञान से प्रकाशित, इस देहोन्द्रिय संघात का प्रकाशक राजा (ऋतजातः) तप से परिष्कृत होकर (ऋतेन) सत्य ज्ञान से (वि वावृधे) अधिक शक्तिशाली होता है और जो स्वयं (देवः) दिव्यगुण हांकर (ऋतं) सत्य स्वरूप और (बृहत्) सबसे बड़ा, या सबका वर्धक है ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

[१३६६] ^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} अग्निर्वृत्राणि जड्घनद्द्रविणस्युर्विपन्यया ।

^{१ २ ३ १ २ २} समिद्धः शुक्र आहुनः ॥ १ ॥

१२ ३२ ३२ ३१ २ ३२ ३१२
 [१३६७] गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरं ।

१२ ३२ ३ २३ २
 आसीदन्तस्य योनिमा ॥ २ ॥

१२ ३ २३ १२३ १२ ३ १२
 [१३६८] ब्रह्म प्रजावदाभर जानवेदो विचर्षणे ।

२३ २३१२ ३२
 अग्रे यदीदयद्विवि ॥३॥७॥ अ० ६ । १६ । ३४, -३६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४] पृ० ३ ।

(२) (पितुः पिता) सब पालकों का पालक, पिता का भी पिता, (अग्निः) ज्ञानवान् परमात्मा (अक्षरे) अविच्युत, स्थिर (मातुः) प्रमाता आत्मा के (गर्भे) अन्तःकरण में (विदिद्युतानः) प्रकाश करता हुआ (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (योनि) मूल आश्रय ईश्वरीय ज्ञान, वेद को (आसीदन्) स्थापना करता हुआ समस्त आवरणरूप अज्ञानान्धकारों का नाश करता है । अथवा सूर्य आदि पालकों का उत्पादक ज्ञानी एवं सबका अग्रणी, अनादि सिद्ध परमेश्वर (मातुः गर्भे) जगत् को रचाने वाली प्रकृति के गर्भ में, उसके बीच (विदिद्युतानः) अपने प्रकाश को स्थापित करता हुआ (ऋतस्य योनिम्) अव्यक्त जगत् के मूल कारण रूप तत्त्व को (आसीदन्) अपने वश करता है ।

(३) हे (जातवेदः) संमस्त संसार के उत्पन्न पदार्थों को जानने हारे ! (विचर्षणे) सबके द्रष्टः ! आप हमें (प्रजावद्) पुत्र आदि सहित (ब्रह्म) ऐसे अन्न और ज्ञान को (आ भर) प्राप्त कराइये (यत्) जो (दिवि) दिव्यगुण से युक्त ज्ञानमय उत्कृष्ट लोक में भी (दीदयत्) प्रकाशित रहे । अर्थात् ऐसा अन्न और ज्ञान प्राप्त कराओ जिसका परलोक और विद्वानों में भी आदर हो ।

३ २ ३ २ ३ १२ ३ १२ ३ २ ३ २ ३ १२ ३ १२
 [१३६९] अस्य प्रेषा हेमना पूयमाना देवो देवेभिः समपृक्त रसम् ।

३२ ३२ ३ १२ ३ १२ ३ २ ३ १२ ३ २ ३ १२

सुतः पवित्रं पर्येति रेभन् मितेव सन्न पशुमन्ति होता ॥ १ ॥

३ १ २ ३ २ १ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३
 [१४००] भद्रा वस्त्रा समन्याऽऽऽनसानो महान् विचित्रवचनानि
 १ २ १ २ ३ ४ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

शंसन् । आवच्यस्व चम्बोः पूयमानो विचक्षणो जागृवि-

३ १ २
 देववीतौ ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१४०१] समु प्रियो मृज्यते सानो श्रव्ये यशस्तरौ यशसां जैतो
 ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३

अस्मे । अभि स्वर धन्वा पूयमानो गृयं पात स्वस्तिभिः

१ २
 सदा नः ॥ ३ ॥ ८ ॥

शु० ६ । ६७ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१२६] पृ० २६१ ।

(२) हे सोम ! महायोगिन् विद्वन् ! (भद्रा) कल्याणकारी (समन्या) परस्पर प्रेम पूर्वक सम्मिलन करने योग्य, या संग्राम योग्य, फेरिया, तेजस्वी या कापाय (वस्त्रा) वस्त्र (वसानः) धारण करता हुआ (महान्) बड़ा (कविः) मेधावी पुरुष होकर (निवचनानि) निरन्तर उपदेश करने योग्य वचनों को (शंसन्) उपदेश करता हुआ (विचक्षणः) भले बुरे, खत असत् का विवेक करता हुआ (देववीतौ) परमेश्वर के प्राप्ति के मार्ग में (पूयमानः) अपने श्रुतःकरण से पवित्र होकर (चम्बोः) दौलोक और पृथिवी ज्ञानवान् और अज्ञानों दोनों प्रकार के जनों में (आवच्यस्व) विचरण कर ।

(३) (यशसां) यशस्वियों के बीच, (यशस्तरः) अति अधिक यशस्वी, (जैतः) इस पृथिवी में उत्पन्न होकर (उ) भी (श्रव्ये) प्राणायाम और (सानौ) उच्चतम अध्यात्म तपः-कोटि में स्थित एवं (प्रियः) अतिप्रिय होकर (अस्मे) हमारे लिये विद्या आदि सद्गुणों से (समु मृज्यते) उत्तम रीति से परिष्कार को प्राप्त होता, या भूषित होता है । ज्ञतः (पूयमानः) पवित्र होकर (धन्वा) गमनशील, परिव्राट् होकर

(अग्नि स्वर) उत्तम २ उपदेश कर । अध्यात्मपत्र में—आनन्द भूमि को प्राप्त साधक अपने आत्मा से कह रहा है । हे इसी प्रकार के विद्वान् पुरुषो ! (यूयं) आप लोग भी (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी उपदेशों और उपायों से (पात) रक्षा करो ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ० १ २

[१४०२] एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ ३ ३ १ २

शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वासं शुद्धैराशीर्वान्ममत्तु ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३ १ २ ३ १ २

[१४०३] इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः ।

३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

शुद्धो रयिनिधारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥२॥

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१४०४] इन्द्र शुद्धो हि नां रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ २

शुद्धो वृत्राणि जिघ्रसे शुद्धो वाजं सिपालसि ॥३॥६॥

अ० ८ . ६५ । ७-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अविकल सं० [३५०] पृ० १८१ ।

(२) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (शुद्धः) शुद्धस्वरूप आप (नः) हमें (आगहि) सन्मुख साक्षात् दर्शन दें । और (शुद्धाभिः) शुद्ध पवित्र (ऊतिभिः) मरुत् रूप या प्राणात्मक शक्तियों सहित आप (शुद्धः) शुद्धस्वरूप ही हैं । अतः (शुद्धः) शुद्धरूप ही आप (रयिं) धारण करने योग्य ऐश्वर्य को (नि धारय) पूर्णरूप से धारण करें और हे (सोम्य) परमानन्द के पात्र शक्तिमय ! आप (शुद्धः) शुद्ध रूप ही (ममद्धि) नित्य आनन्द प्राप्त करावें ।

(३) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (शुद्धः) शुद्धस्वरूप आप (नः) हमें (रयिं) समस्त ऐश्वर्य, जीवन, प्राण और जगत् के समस्त पदार्थ (सिपालसि) प्रदान करते हैं । क्योंकि (दाशुषे) दाता आत्म समर्पक को आप

(शुद्धः) निरपेक्ष शुद्धभाव से ही (रत्नानि) समस्त सुखकारी पदार्थ देते हो । (शुद्धः) स्वयं शुद्ध होकर ही (वृत्राणि) भावरक अन्धकारों और विघ्नों एवं दुष्ट पुरुषों का विनाश करते हो । और (शुद्धः) शुद्धस्वरूप होकर ही आप समस्त संसार को (वाजं) ज्ञान, धन और वज्र (सि-पासि) प्रदान करते हो ।

इति तृतीयः खण्डः ।

[१४०५] अग्ने स्तोमं मनामहे सिद्धमद्य दिविस्पृशः ।

देवस्य द्रविणस्य वः ॥१॥

[१४०६] अग्निर्जुपत नो गिरो होता यो मानुषेष्व्या ।

स यत्तद् देव्यं जनम् ॥२॥

[१४०७] त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टा होता वररायः ।

त्वया यज्ञं वितन्वते ॥३॥१०॥ अ० ५ । १२ । ६-४ ॥

भा०—(१) (द्रविणस्यवः) धन और द्रुत गति से प्राप्त करने योग्य इष्टदेव को प्राप्त करने की कामना वाले या ऐश्वर्यवान् होकर हम (अथ) आज, अथ (देवस्य) प्रकाशस्वरूप (अग्नेः) सबके अग्रणी ज्ञानदाता, नायक परमेश्वर के (सिद्धम्) नित्य (स्तोमं) स्तुति, सत्यगुण वर्णन रूप वेद का (मनामहे) मनन करते हैं ।

(२) (वः) जो (अग्निः) ज्ञानवान् परमेश्वर (होता) समस्त संसार का आदान और विसर्ग, प्रलय और सर्ग करने हारा (मानुषेषु) समस्त मननशील पुरुषों के हृदयों में (आ) साक्षात् रूप से विद्यमान

१४०५—१. 'अग्नेः स्तोमं मनामहे सिद्धमद्य' इति अ० ।

'सिद्धमिति पाठो जीवानन्दीयः', सिद्धमिति सायणस्मृतः ।

होकर (नः) हमारी (गिरः) समस्त वाणियों को (जुपते) श्रवण करता है (सः) वही (दैव्यम्) दिव्यगुणयुक्त, ज्ञानप्रकाश वाले (जनं) दिव्य पदार्थ और मोक्षस्थ आत्मा को (यत्तत्) आनन्द सुख प्रदान करता है ।

(३) हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! आप ही (वरेण्यः) सबके वरण करने योग्य, (होता) सब संसार के दाता, प्रतिगृहीता, समस्त यज्ञों के कर्ता, (जुष्टः) सबके प्रेमपात्र, सबके सेवन योग्य और (सप्रथाः) सब से महान् (असि) हो । (त्वया) आप ही के निमित्त से सब लोग अपने (यज्ञं) इष्ट साधन रूप धर्म-कार्यों और पूजा आदि का (वितन्वते) सम्पादन करते हैं ।

उ १ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २
[१४०८] अभि त्रिपृष्टं वृषणं वयोधामङ्गोपिणमवावशन्त वाणीः ।
२ उ १ २ उ १ २ उ २ ७ उ १ २ उ १ २ उ १ २
वना वसानो वरुणा न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वायाणि ॥ १ ॥
१ २ उ १ २ उ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २

[१४०९] शूरग्रामः सर्ववीरः सहावाञ्जिता पवस्व लनिता धनानि ।
उ १ २ उ १ २ उ १ २ २ २ उ १ २ २ २ उ
तिग्माशुभ्रः क्षिप्रधन्वा समत्स्वपाठः साह्वान् पृतनासु ।
१ २
शत्रून् ॥ २ ॥
उ १ २ उ १ २ उ १ २ उ १ २ २ २ उ १ २

[१४१०] उरुगज्यूतिरभयानि कृण्वन्तसमीचीने आपवस्वा पुरन्धी ।
उ १ २ २ २ उ २ उ १ २ २ २ २ २ उ २ उ २ उ
अपः सिपासन्नपसः स्वाऽऽर्गाः संचिक्रदो महो अस्मभ्यं
१ २
वाजान् ॥ ३ ॥ ११ ॥ अ० ६ । ६० । २-४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५२८] पृ० २६२ ।

१४०८—१. 'अङ्गूपाणामवावशन्त' 'वरुणो न सिन्धून्' इति ऋ० । 'वायाणिः'
इति पाठस्तु अजमेरुसुद्रितः प्रामादिकः ।

(२) हे (सोम) प्राणरूप आत्मन् ! तू (शूरग्रामः) गति में वेगवान् इन्द्रियसंघ का स्वामी, (सर्ववीरः) सबसे अधिक सामर्थवान्, (सहावान्) सहनशील, गर्मी सर्दी और सुख दुःख आदि द्वन्द्वों का सहन करने हारा, (जेता) सबको पराजय करने हारा या (जेता) काम क्रोध आदि और इन्द्रिय के वेगों पर विजयशील (धनानि) समस्त रमणीय विषय भोगों को (सनिता) प्रति इन्द्रिय विभाग करने हारा (तिग्मायुधः) तीक्ष्ण साधना रूप आयुधों से सम्पन्न, (क्षिप्रधन्वा) अतिशीघ्र गति देने हारा या स्वयं सबसे अधिक वेगवान् (समस्तु) परस्पर स्पर्द्धा के स्थलों में (अपाठः) किसी से न दबने हारा (धृतनासु) प्रजारूप इन्द्रिय वृत्तियों में (साह्वान्) सबको अपने वश करने हारा होकर (आऽवस्व) प्रकट हो । और हमारे शरीर और अन्तःकरण को भी पवित्र कर ।

(३) (सोम) हे आत्मन् ! हे विद्वन् ! (उरु गव्यूतिः) स्वयं समस्त गौ. अर्थात् वाणियों और इन्द्रियों के लिये रक्षा या शरण्य होकर सर्वत्र (अभयानि) अभय (कृणवत्) करते हुए (पुरन्धी) इस देहरूप पुर को धारण करने हारे प्राण और अपान दोनों को (समाचिने) समुचित प्रकार से (आपवस्व) गति दो और पवित्र करो । और (अपः) समस्त कर्मों और प्रज्ञाओं को (सिपासन्) यथाकाल और यथास्थान विभाग करते हुए (स्वः) सुख आनन्ददायक (गाः) वेदवाणियों को (अस्मभ्यम्) हम लोगों को (महः) श्रेष्ठ २ (वाजान्) ज्ञानतत्वों के देने के लिये (संचिक्रदन्) उच्चारण करो, उपदेश करो ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१४११] त्वमिन्द्र यशा अस्य जीपी शवसस्पतिः ।

२ ३ १ २ ३ १ ३ २ ३ १ २

३ १ २

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुर्वनुत्तश्चर्षणीधृतिः ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ १ ३ १ २ ३ १ २

[१४१२] तमु त्वा नूनमसुरप्रचेतसं राधो भागमिवेमहे ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्नुवन्

॥२॥१२॥ अ० ८ । ६० । ५, ६ ॥

भा०—(१) हे इन्द्र ! (त्वं) तू (यथाः) यथास्वी (शवस-
स्पतिः) शक्ति और बल का मालिक, (ऋजीषी) सब को ऋजु, सरल,
उत्तम धर्ममार्ग में प्रेरणा करने हारा (पुरुः—अनुत्तः) बहुतां से भी प्रेरित
या संचालित न होकर, स्वतन्त्र ही (चर्पणीधृतिः) साक्षिरूप से दृष्टा
होकर सबको धारण करने हारा है । (त्वं) तू (अप्रतीनि) जिनका
मुकाबला न किया जा सके ऐसे दुर्घट (वृत्राणि) विघ्न और दुःसाध्य
असुर, अधर्मी पुरुषों को (एक इत्) अकेला ही (हंसि) विताश करता
है । अवि० सं० [२४८]

(२) हे (असुर) प्राणों में रमण करने हारे आत्मन् ! हे
(इन्द्र) ऐश्वर्यवन् (तं) पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त पूर्वप्रसिद्ध (प्रचेतसं)
प्रकृत उत्तम ज्ञानवान् (त्वा उ) तुझ से ही हम (राधः) आराधना
करने योग्य ज्ञान को (भागम् इव) अन्न के समान (ईमहे) याचना
करते हैं । हे (इन्द्र) आत्मन् ! (ते) तेरी (कृत्तिः) कीर्ति ही (मही)
बड़ी भारी (शरणा इव) शरण रक्षा के समान है (ते) तेरे से (सु-
म्नानि) प्राप्त होने योग्य समस्त सुखसाधन (नः) हमें (अश्नु-
वन्) प्राप्त हों ।

१४१२—“सुम्नानो अश्नुवन्” इति च अ० । ‘पूर्वनुत्त’ इति अजमेरुमुद्रितः

प्रामादिकः पाठः ।

[१४१३] यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा हातारममर्त्यम् ।

अस्य यज्ञस्य सुकृतुम् ॥१॥

[१४१४] अपानपातं सुभगं सुदीतिमग्निमु श्रेष्ठशोचिपम् । स नो
ग्नित्रस्य वरुणस्य सा अपामा सुम्न यक्षते दिवि


॥२॥१३॥ ऋ० ८ । १६ । ३, ४ ॥

भा०—(१) (देवता) विद्वान् पुरुषों के भी (देवं) उपासनीय
देव, (हातारं) सय यज्ञों के सम्पादक (अमर्त्यम्) मरणरहित, अमृत-
स्वरूप (अस्य) इस (यज्ञस्य) समस्त विश्वका संचालन, उत्पादन और
प्रजनन रूप यज्ञ के (सुकृतुम्) उत्तम रूप से रचने हारे अतएव (यजिष्ठं)
सय यज्ञ कर्त्ताओं में श्रेष्ठ (त्वां) आपको (ववृमहे) वरण करते हैं ।
व्याख्या देखो [११२]

(२) (अपां नपातं) लोकों, कर्मों और प्रजाओं के पतन, विनाश
या लोप न होने देने हारे, (सुभगं) पृथ्व्यसंपन्न, (सुदीति) उत्तमकान्ति
से युक्त (श्रेष्ठशोचिपम्) सबसे श्रेष्ठ, प्रशंसनीय तेज से सम्पन्न (अग्निम्)
अग्नि स्वरूप, सर्वप्रकाशक आत्मा को वरण करो क्योंकि (सः) वह जीवरूप
अग्नि (ग्नित्रस्य) समस्त जीव को स्नेह से देखने हारे और (वरुणस्य)
सय द्रुःखों का वरण करने हारे परमेश्वर के (अपां) समस्त प्रजाओं,
कर्मों और समस्त लोकों के (सुम्नं) सुख को (दिवि) ज्ञान प्रकाशमान
सुकृतुदशा में भी (नः) हमें (यक्षते) प्राप्त कराता है ।

अग्नि का आत्मस्वरूप देखो नासिकेतोपाख्यान काठक उपनिषद् और
मुण्डक उपनिषद् में ।

इति चतुर्थः खण्डः ।



[१४१५] ^{१ २ ३ २ ४ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २} यत्नं पृत्सु मर्त्यमवा वाजेपु यञ्जुनाः ।

^{२ ४ ३ १ २ ३ १ २} स यन्ता शश्वतीरिपः ॥ १ ॥

[१४१६] ^{१ २ ३ १ २ २ २} न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित् ।

^{१ २ ३ १ २} वाजा अस्ति श्रवाय्यः ॥२॥

[१४१७] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} स वाजे विश्वचर्षणिरर्षद्विरस्तु तरुता ।

^{१ २ ३ १ २} विप्रैभिरस्तु सनिता ॥३॥ १४ ॥ अ० १। २७। ७-३ ॥

भा०—(१) हे (अग्ने) परमेश्वर ! (यं) जिस (मर्त्य) मरण-धर्मा पुरुष को आप (अवाः) सृष्ट्यु से बचा लेते हैं और (यं) जिसको (वाजेपु) ज्ञान और श्रेष्ठ कर्मों में (जुनाः) प्रेरित करते, चला देते हो (सः) वह आपकी (शश्वतीः) नित्य अनादि काल से चली आई (ह्यः) प्रेरणाओं और अनादि शक्तियों को (यन्ता) वश कर लेता है ।

(२) हे (सहन्त्य) सब विप्रों के विनाशक ! (अस्य) इस आपके (कयस्य चित्) किसी भी उपासक साधक को (पर्येता) कष्ट देने हारा या उस पर आक्रमण करने हारा (नकिः) कोई भी नहीं । प्रत्युत उसके पास (श्रवाय्यः) श्रवण करने योग्य उत्तम (वाजः) ज्ञान या बल (अस्ति) प्राप्त होता है ।

(३) (सः) वह (विश्वचर्षणिः) समस्त मनुष्यों का स्वामी (अर्षाङ्गः) ज्ञानी पुरुषों या इन्द्रियगणों से ही (वाजे) ज्ञान को, बल को, या जीवन संग्राम को (तरुता) पार करने हारा (अस्तु) हो और वही अग्नि (विप्रैभिः) विद्वान् मेधावी पुरुषों द्वारा (सनिता) इष्टफल का दाता (अस्तु) हो ।

[१४१८] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३} नाकमुक्षो मर्ज्जयन्त स्वसारा दश धीरस्य धीतयो
^{१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २} धनुत्रीः । हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणान्ननक्षे अत्यो न
वाजी ॥१॥

२ ३ २ ३ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१४१६] सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृषा दधन्वे पुरुवारो
 ३ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

अद्भिः । मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन् संगच्छते कलश
 ३ १ २

उस्त्रियाभिः ॥२॥

३ १ २ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१४२०] उत प्रपिप्य ऊधरध्याया इन्दुर्धाराभिः सचत
 ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३

सुमेधाः । मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभिश्चीणन्ति
 १ २ ३ २ ३ २

वसुभिर्न निक्तैः ॥ ३ ॥ १५ ॥ अ० ६ । ६३ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१३८] पृ० २६८ ।

(२) जिस प्रकार (मातृभिः न) माताओं द्वारा (शिशुः) उनकी गोद में सोने हारा बालक शिशु (दधन्वे) पालित पोषित होता है उसी प्रकार (अद्भिः) विषयों तक प्राप्त होने वाली (मातृभिः) ज्ञान कराने वाली इन्द्रियों द्वारा बालक के समान उनकी गोद में या भीतर प्रसुप्त रूप से शिशु के समान सोने हारा और उनको (वावशानः) निरन्तर चाहने हारा (सोमः) शुक्रस्वरूप, या आनन्दमय ब्रह्मरस (दधन्वे) पालित पोषित होता या धारण किया जाता है । और जिस प्रकार (मर्यः) पुरुष (योषां न) स्त्री के पास अपने गृह में जाता और उससे आनन्द लाभ करता है उसी प्रकार वह सोम आत्मा (निष्कृतम् अभि) अपने मूल आश्रय मस्तकदेह में (यन्) जाता हुआ (कलशे) नाना कलारूप चित्ति शक्ति की नाना वृत्तियों से युक्त सहस्रदल कमल, मूर्धा भाग या देह में (उस्त्रियाभिः) ऊर्ध्वसर्पण करने वाली इन्द्रिय शक्तियों से (संगच्छते) मिलकर एक हो जाता है ।

(३) (उत) और जब वह सोम, शुक्रस्वरूप योगी के तालुभाग में लगी इन्द्रयानि से टपकने हारा रस (अध्यायाः) कभी न विलुप्त

होने हारे सदा चेतन चितिशक्तिरूप गौ के (ऊधः) रस के भगदार रूप ऊर्ध्वस्थान मस्तक भाग को (प्रापित्ये) भर देता है, पूर्ण कर देता है; जब (सुमेधाः) उत्तम ज्ञानधारण में समर्थ धारणावती मेधा बुद्धि से युक्त; (इन्द्रुः) ज्ञान और तप से प्रकाशमान योगी (धाराभिः) अपने धारणा के अभ्यासों या स्तुति वाणियों से (सचते) सोम का रस प्राप्त करने एवं आत्मा के स्वरूप तक पहुँचने में समर्थ होता है तब ही (गावः) गमनशील सूक्ष्म इन्द्रियों की संवित् शक्तियाँ या वाणियाँ (चमूपु) अपने २ स्थानों में स्थित होकर (पयसा) अपने २ विषयग्रहण के रस से (मूर्धानं) मूर्धास्थल अर्थात् शिरोदेश के सहजदल कमल में स्थित सोम आत्मानन्द को (अभिः श्रीणन्ति) ऐसे घेर लेती है, आच्छादित कर लेती है जैसे (निक्लिः) स्वच्छ सुन्दर (वसुभिः) चलों से मातायें अपने बालकों को या शुद्ध २ (वसुभिः) ज्ञानरूप उपहार धनों से प्रजापुं अपने राजा को आच्छादित कर देती और भर देती हैं ।

यहां सम्प्रज्ञात समाधि का वर्णन किया है, ऊर्ध्वरेता योगी के ध्यान करने और ब्रह्मसात्वादन करने के रहस्य को खोला गया है ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[१४२१] पित्रा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
आपिनो वोधि सधमाद्ये वृधेऽऽसां अवन्तु ते धियः ॥१॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१४२२] भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा नस्तरेभिमातये ।

असां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरानः सुन्नपु यामय ॥२॥१६॥

अ० २ । ३ । १-२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२३६] पृ० १२२ ।

(२) (वयं) हम (ते) तेरी (सुमतौ) उत्तम मति, प्रज्ञा वेदरूप ज्ञान के अधीन रहकर (वाजिनः) ज्ञानवान् पुरुष (स्याम) होंगे ।

(अभिमातये^१) अभितः=चारों ओर से नाना प्रकार के माति अर्थात्
ईसाकारी विषयभोग रूप शत्रु की बढ़ती के लिये (नः) हमें (माःस्तः^२)
मत ढक, अर्थात् उसमें मत फँसा । (चित्राभिः) ज्ञानमय, नाना प्रकार
की संग्रह करने योग्य (अभिष्टिभिः) अपनी प्रेरणाओं से (अत्मान्) हमें
(अवतात्) रचा कर । और (नः) हमें (सुम्नेषु) सुखनागों में (आ
यामय) व्यवस्थित रख, चला ।

१२ ३२ ३१२ ३ २ ३ १२ ३१ २
[१४२३] त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमं व्यो-
३ २३ १२ २२ ३ २३ १२ ३ २३

मनि । चत्वार्यन्या भुवनानि निशिंजे चारुणि चक्रे यद्-
१२ २२

तैरुद्धत ॥ १ ॥

१२ २२ ३१२ ३ १२ ३२३ ३ १ २ ३
[१४२४] स भक्षमाणो अमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना
१२ १२ ३२ ३२३ १२ ३१२ ३२ ३
विशथथे । तेजिष्ठा अपो मंहना परिव्यत यदी देवस्य
१२ ३ १२ ३२

अन्नसा सदो विदुः ॥ २ ॥

१२ ३१२ २२ ३१२ ३१२ ३१२
[१४२५] ते अस्य सन्तु, कतवोऽमृत्यवोऽद्वाभ्यासो जनुपी उभ
२२ १२३ १२ ३२२ ३१ २२ ३१२
अनु । येमिर्नुष्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना

अग्रम्णात ॥ ३ ॥ १७ ॥

अ० ६ । ७० । १-३ ॥

१. स्तृब् आच्छादने ऋयादिः । हिंसाधेस्य स्तृणातेरिति सायणः ।

२. अभिमन्यते इति अभिमातिः शत्रुरिति सायणः । रोग इति माधवः ।

१४२३—१. 'दुदुहे' 'पूर्व्यं व्योमनि', ३. 'स भिक्षमाणो' इति ऋ० ।

'भिक्ष्यमाण', 'भक्ष्यमाण' इति पाठौ सायणसम्मतौ, जीवानन्दीये 'भक्ष्य-
माण' इति च सर्वे प्रामादिकाः पाठः निर्णयसागरीये अक्षसायणभाष्ये,
वन्यासु सामसंहितासु लन्दन-कालिकातामुद्रितासु च तथाऽनुपलम्भात् ।

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६०] पृ० २२२ ।

(२) (यदि) जिस दशा में विद्वान् लोग (देवस्य) उस उपास्य-देव के (सद्ः) आश्रयस्थान हृदय देश को (श्रवसा) गुरुपदेश द्वारा (विदुः) ज्ञान कर लेते हैं तब (सः) वह पवमान सोमसाधक (चारुणः) अति उत्तमरूप, उपभोग करने योग्य (अमृतस्य) अमृत या अमरत्व का (भक्षमाणः) सेवन करता हुआ (काव्येन) अपने ज्ञान-सामर्थ्य से (उभे द्यावा^१) दिव्यगुणयुक्त आत्मा और परमात्मा दोनों को (विश-श्रथे^२) प्राप्त करता है और (मंहना) अपने तपोमहत्त्व से (तेजिष्ठाः) अति तेज से सम्पन्न (अपः) लोकों या प्राणों में (परि व्यत) विचरता है । ऋग्वेद में 'भिक्षमाणः' पाठ है । इसलिये उस पक्ष में (सः) वह साधक (चारुणः, अमृतस्य) उत्तम अमरत्व की (भिक्षमाणः) याचना करता हुआ (उभे द्यावा विशश्रथे) दोनों तेजोमय आत्माओं को प्राप्त करता है, इत्यादि पूर्ववत् । अथवा (उभे द्यावा) दिव्यगुणयुक्त प्राण और अपान दोनों को (विशश्रथे) शिथिल या वश कर लेता है । दोनों के बन्धनों को ढीला कर देता है । दोनों को वश करके विदेह-मुक्त होजाता है ।

(३) (अस्य) इस सोमरूप योगी आत्मा के (उभे जनुषी अनु) दोनों जन्म अर्थात् इह और पर दोनों लोकों में (अमृत्यवः) अमर, अविनाशी, (अदाभ्यासः) अखण्डित, अमिट (ते) वह २ (केतवः) ज्ञान और रश्मियां, विभूतियां (सन्तु) उत्पन्न हो जाती हैं (याभिः) जिन के बल से वह (नृमणा) मनुष्यों के अभिलाषा योग्य और (देव्या)

१. द्यावापृथिव्यौ प्राणापानौ, (शत०)

२. 'अथ हिंसार्थः' क्रत्यादिः, अथ प्रयत्ने प्रस्थाने च, चुरादिः, अथ मोक्षणे, चुरादिः, अथि दौर्बल्ये, चुरादिः, अथि शैथिल्ये, भ्वादिः, अन्थ विमोचनप्रतिहर्षयोः, क्रत्यादि० ।

देवों, विद्वानों के प्राप्त करने योग्य लोक लोकान्तरों को भी (पुनते) प्राप्त करता है । (आत् इत्) और उस विभूति के प्राप्त कर लेने के अनन्तर (राजानम्) सर्वतः प्रकाशमान्, सर्वतो वशी राजात्वरूप उस आत्मा को (मननाः) मनन करने से प्राप्त मानसिक संकल्प ही (अग्रभूयत) धारण किये रहते हैं, अर्थात् उस दशा में उसके समस्त संकल्प ही उस आत्मा को लोक लोकान्तरों तक पहुंचाते हैं ।

इति पञ्चमः खण्डः ।



उ २ ५ २ उक्त्वा ३ २ २ ३ ५ २ २ ३ १ २
[१४२६] अभि वायुं वीत्यर्षा गणानोऽशभि मित्रावरुणा पूयमानः ।

उ १ २ २ ३ १ २ उ २ ३ १ ३ १ २ ३ १ २

अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्रवाहुम् ॥ १ ॥

उ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१४२७] अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभिधेनुः सुदुघाः पूयमानः ।

उ २ ३ ५ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अभि चन्द्रा भर्त्सवेना द्विरयाभ्यश्वात्रथिनो देवसोम ॥२॥

उ १ २ ३ ५ २ २ ३ २ ३ १ ३ ३ १ २ ३ १ २

[१४२८] अभी नो अर्षं दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः ।

उ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ उक्त्वा २ ३ १ ३ ३ १ २

अभि येन द्रविणमश्रवामाभ्यार्षेयं जमदग्निवन्नः ॥३॥२८॥

ऋ० ९ । ६७ । ४९-५१ ॥

भा०—(१) हे (सोम) विद्वन् ! (वायुं) कोष्ठगत वायुरूप प्राण को (वीति) सर्व शरीर में व्याप्त होने के लिये (अभि-अर्ष) प्रेरित कर । और (मित्रावरुणा) प्राण और अपान दोनों को (पूयमानः) पावन करता हुआ, उत्तम रूप से गति देता हुआ (अभि) उनको भी प्रेरित कर । (रथेष्ठाम्) इस देहरूप रथ पर सारथि बन्दकर स्थित (धीजवनं) श्यांन, संकल्पमात्र के वेग से जाने वाले, (नरं) इन्द्रियगणों के नेता

मन को (अभि) उत्तम रीति से प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित्त होकर हे सोम ! विद्वन् ! तव (वज्रवाहुम्) अज्ञान का नाश करने हारे ज्ञानरूप वज्र को हाथ में लिये ऋतम्भरावस्था में प्रज्ञाऽऽलोक के खुल जाने पर (वृषणं) सब सुखों के वर्षक (इन्द्रं) उस आत्मा को (अभि-अर्प) साक्षात् कर ।

(२) हे सोम ! विद्वन् ! (पूयमानः) पवित्र होकर या निरन्तर उन्नति की साधना करता हुआ तू (सुवसनानि) उत्तम रूप से आच्छादन करने हारे (वस्त्रा) चमचमाते विभूति, सिद्धियों अर्थात् सात्विक आचरणों या पंचकोषों को (अभि-अर्प) वश कर । और (सुदुघाः) उत्तम रूप से ज्ञानरस या आनन्दरस का दोहन करने हारी (धेनूः) भीतरी व आनन्दवाहिनी सुपुम्णा आदि नादियों पर, या इन्द्रिय-शक्तियों पर (अभि) वश कर और (नः) हमें (चन्द्रा) आह्लादकारी (हिरण्या) ज्ञानरूप ऐश्वर्य (भर्त्सवे) भरण, पोषण करने या आत्मतृप्ति करने के लिये (अभि-अर्प) प्रदान कर । हे (देव) ज्ञानद्रष्टः ! शमादिसाधनों से युक्त योगिन् ! (रथिनः) देहरूप रथों के स्वामी, जितेन्द्रिय (अश्वान्) ज्ञानी पुरुषों को (अभि-अर्प) हमें प्राप्त करा ।

(३) हे (सोम) विद्वन् ! आप हमें (दिव्या वसूनि) दिव्यगुण युक्त जीवन के वास-हेतु पदार्थों का प्रदान करें और (पूयमानः) सर्वत्र प्रकाशमान, शुद्ध पवित्र चित्त होकर (विश्वा पार्थिवा) समस्त पृथिवी पर होने वाले ऐहिक पदार्थों का (अभि) उपदेश करें । और आप हमें ऐसे (अभि) सामर्थ्य दें कि (येन) जिससे हम (दक्षिणम्) ज्ञान, धन और अन्नादि पदार्थों को (अश्वत्थाम) प्राप्त करें और उपभोग भी करें । और हे सोम ! आप (नः) हमें (जमदग्निवत्) समस्त अग्निरूप सूर्यादि पदार्थों को दमन करने हारे परमात्मा के समान (आप्यं) ऋषियों द्वारा प्राप्त करने योग्य वेदज्ञान का (अक्षि) उपदेश करें ।

१२ २२ ३ १ २ ३ १ २
 [१४२६] यज्जायथा अपूर्व्यं मघवन् वृत्रहत्याय ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २२

तत्पृथिवीमप्रथयस्तदभ्ना उता दिवम् ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २२

[१४३०] तत्त यज्ञा अजायत तदर्कं उत हस्कृतिः ।

१२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम् ॥२॥

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २

[१४३१] आमासु पक्कमैरय आ सूर्यं रोहयो दिवि ।

३ १ २ २२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

घर्मं न सामन्तपता सुवृत्तिभिर्जुष्टेर्गैर्वणसे वृहत् ॥३॥१६

श्र० ङ । ८६ १-७ ॥

भा०—(१) हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! समस्त संसार को यज्ञरूप में सम्पादन करने हारे, समस्त विभूतियों के स्वामिन् ! हे (अपूर्व्य) सबसे पूर्व होने हारे ! अद्वितीय मूलकारण परमेश्वर ! (यत्) जब (वृत्र-हत्याय) आवरणकारी ' तुच्छ्व ' रूप प्रकृति के रजः पटल को गति देने और उस में विज्ञोभ उत्पन्न करने के लिये (जायथाः) उस में शक्तिरूप से प्रकट होना है (तत्) तन्न (पृथिवी) अति विस्तृत व्यापक पृथिवी, मूलकारण प्रकृति को या जीवों के निवास के लिये इस पृथिवी को (अ-प्रथयः) तू ही विस्तृत करता है और (दिवं) इस समस्त आकाश स्थित लोकसमूह को भी (अस्तभ्नाः) अपने २ स्थान पर स्तम्भित, स्थापित करता है ।

(२) (तद्) और तत्र ही (ते) तेरी शक्ति से सम्पादित (यज्ञः) समस्त वायु, तेज, पृथिवी, आकाश, काल, दिग्, आत्मा, मन इत्यादि देवगणों का उचित रूप सं संघटित यज्ञ भी (अजायत) सुसम्पन्न होता है (तद्) और तत्र ही (अर्कः) यह प्रकाशमान तेजस्वी सूर्य भी प्रकट होता है (उत) और साथ ही (हस्कृतिः) दिन की रचना होती है ।

(तत्) उस समय ही तू हे परमात्मन् ! (विश्वम्) यह समस्त जगत् (यत् जातं) जो कुछ उत्पन्न हुआ (यत् च) और जो (जन्वम्) आगे उत्पन्न होता उस सब में (अभिभूः) सब ओर और सब प्रकारों से व्याप्त होकर सबका मूल उत्पत्ति कारण तू ही (असि) है ।

(३) हे परमेश्वर ! तू ही (आमासु) न पके, अपक, कच्चे, स्थावर और जंगम पदार्थों में (पक्कं) परिपक्व भाव को (ऐरयं) प्राप्त करता है । और इस निमित्त तू ही (सूर्यं) सबके प्रेरक सूर्य को (दिवि) इस महान् आकाश में (आरोहयः) इतनी उच्चता पर स्थापित करता है । हे विद्वान् लोगो ! (सामन्) सामवेद द्वारा (घर्म न) जिस प्रकार आप घर्मयोग या प्रवर्ग्येष्टि को (तपत) प्रतप्त करते हो उसी प्रकार आप लोग (सुवृक्लिभिः) उत्तम ज्ञानस्तुतियों या ज्ञान चर्चाओं द्वारा (गिर्वणसे) समस्त वेदवाणियों के एकमात्र वर्णनीय उस इन्द्र के विषय में (जुष्टं) अतिप्रिय, रुचिकर (बृहत्) महान् या बृहत् साम द्वारा ज्ञान प्राप्त करो ।

सत्यमिति सत्यवचा रथांतरः । तप इति तपो नित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मादृगल्यः । तद्धि स्तपस्तद्धि तपः । (तैत्ति० उप० शिचावत्ती अनु० ६) अर्थात् ज्ञानप्राप्ति ही तप है । प्रवर्ग्येष्टि में संसार की रचना का ज्ञान दर्शाया जाता है । (देखो शतपथ में प्रवर्ग्येष्टि प्रकरण)

१२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२
[१४३२] मत्स्रपायि ते मद्ः पात्रस्येव हारिवो मत्सरो मद्ः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

वृषा ते वृष्ण इन्द्रुर्वाजी सहस्रसानमः ॥१॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१४३३] आ नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदी वरेण्यः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३

सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमर्त्यः ॥२॥

२४ ३ १२ ३२ ३१ २३ १२

[१४३४] त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम् ।

३ २ ३ १ २ ३ २४ ३ २ ३ २ ३ १ २

सहावान्दस्युमत्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥३॥२०॥

क्र० १ १७५ । १-३१।

भा०—(१) (पात्रस्य इव मदः) जिस प्रकार पात्र में रक्खा तृप्तिकारी हर्षजनक जल और दुग्धादिरस (अपायि) पान कर लिया जाता है उसी प्रकार हे (हरिवः) हरणशील शक्तियों, अन्धकार और अज्ञान के हरने वाले किरणों से युक्त परमेश्वर ! (मत्सरः) आनन्दरूप में सर्वत्र प्रसरणशील (मदः) आनन्दप्रद तेजोरूप, सर्वप्रेरक उत्पादकराक्त्रि रूप से (ते) संसार में व्यापक तेरा महान् सामर्थ्य (अपायि) पान किया जाता है अर्थात् विद्वान्जन उसको अपने भीतर धारण करते हैं अथवा आप ही उस महान् शक्ति के धारण करने हारे हो । (वृष्णः) समस्त सुखों और शक्तियों के वर्षक (ते) तेरा (इन्दुः) ऐश्वर्य, विभूति और सामर्थ्य (वाजी) बलवान् (सहस्रसातमः) सहस्रों पदार्थों को देने हारा, (वृषा) सब सुखों का वर्षक है ।

अध्यात्म पक्ष में—इन्दु=आत्मा, मत्सरः=आनन्दरस, इन्दुः=विभूति सिद्धयोगी, वाजी=ज्ञानवान् । वृषा=ज्ञानवर्षक, सहस्रसातमः—सहस्रों उपदेशों का दाता, अथवा सहस्रों को सन्तोष, आशीर्वाद, एवं सुखसाधनों का प्रदाता, इत्यादि ।

(२) हे (इन्दु) परमेश्वर (ते) तेरा (मत्सरः) हर्षप्रद ज्ञान और आनन्दरस (न) हमें (आगन्तु) प्राप्त हो । तू ही (वृषा) सुखों का वर्षक, (मदः) आनन्द और तृप्तिकारक (वरेण्यः) एकमात्र वरण करने योग्य, प्रिय, (सहावान्) सब कष्टों का सहन करने हारा, बलवान् या सहायसम्पन्न, (सातसिः) सेवन करने योग्य, (पृतनापाट्) समस्त प्रजाओं का शासक और (अमर्त्यः) अविनाशी है ।

यहां योगी का साधकः आत्मा के प्रति, भक्त का ईश्वर के प्रति, प्रजा-
गण का राजा के प्रति समानरूप से वचन है ।

(३) हैं (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वं) आप ही (शूरः) सबमें गति
देने हारे, (सनिता) समस्त पदार्थों के दाता होकर (मनुषः) मननशील
जीव के (रथं) इस रमण स्थान देइ या समस्त विश्व को (चोदयः),
प्रेरित कर रहे हों । आप (दस्युम्) नाश करने हारे, दुष्टः (अन्नतम्)
नियम रहित, निकम्मे, नियम को न पालने हारे पुरुषों (सहावान्)
शक्तिशाली या सहायसम्पन्न होकर (शोचिषा) अपने तेज से (आपः)
ऐसे ही तपाते हो जैसे (शोचिषाः) अग्नि के ताप से हम लोग (पात्रं न)
हंडिया को तपाया करते हैं ।


इति षष्ठः खण्डः ।

इति षष्ठस्य द्वितीयोऽर्धः प्रपाठकः । इति द्वादशोऽध्यायः ।



अथ त्रयोदशोऽध्यायः

अथ षष्ठप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः ।



अपिः—१ कविर्भर्गवः । २, ६, १६ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः । ३ असितः
काश्यपो देवलो वा । ४ सुक्क्षः । ५ विभ्राट् सौर्यः । ६, ८ वसिष्ठः । ७ भर्गः
प्रागाथः १०, १७ विश्वामित्रः । ११ मेधातिथिः काण्वः । १२ शतं वैखानसाः ।
१३ यजत आत्रेयः ॥ १४ मधुच्छन्दा विश्वामित्रः । १५ उशनाः । १८ हर्यतः
प्रागाथः । २० बृहद्वि आथर्वणः । २० गृत्समदः ॥ देवता—१, ३, १५ पवमानः
सोमः । २, ४, ६, ७, १४, १६, २० इन्द्रः । ५ सूर्यः । ८ सरस्वान् सरस्वती ।
१० सविता । ११ ब्रह्मणस्पतिः । १२, १६, १७ अग्निः । १३ मित्रावरुणौ ।
१८ अग्निर्हवींषि वा ॥ छन्दः—१, ३, ४, ८, १०—१४, १७, १८
गायत्री । २ बृहती चरमस्य, अनुष्टुप् शेषः । ५ जगती । ६, ७ प्रागाथम् । १५,

१६ त्रिष्टुप् । १६ वर्धमाना पूर्वस्य, गायत्री उत्तरयोः । १० अष्टिः पूर्वस्य, अति-
शक्ती उत्तरयोः ॥ स्वरः—१, ३, ४, ८, ९, १०—१४, १६—१८
षड्जः । २ मध्यमः, चरमस्य गान्धारः । ५ निपादः । ६, ७ मध्यमः । १५,
१६ धैवतः । २० मध्यमः पूर्वस्य, पञ्चम उत्तरयोः ॥

१२ ३२४ ३ २३२ ३१२ २२
[१४३५] पवस्व वृष्टिमा सु नोऽगामूर्मिं दिवस्परि ।

३ १२३१२ २२
अयच्मा वृहतीरिपः ॥ १ ॥

१२ ३ १२ ३ २ ३ १२ ३१२ २२
[१४३६] तथा पवस्व धारया यया गाव इहागमन् ।

१२ ३ १२ ३ २
जन्या स उप ना गृह्णम् ॥ २ ॥

३ १२ ३ १२ ३ १२ ३ १२
[१४३७] घृतम्पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः ।

३ १२ ३ १२ २२
अस्मभ्यं वृष्टिमापव ॥ ३ ॥

१२ ३ २ १२ ३ १२ ३ १२
[१४३८] स न ऊर्जेन्याऽरेव्ययं पवित्रं धाव धारया ।

३ १२ ३ २ ३ १२
देवासः शृण्वन् हि कम् ॥ ४ ॥

१२ ३ १२ ३ १२
[१४३९] पवमानो असिष्यदद्रक्षास्यपजङ्घनत् ।

३ २ ३ २ ३ १२
प्रतनयद्रोचयद्बुचः ॥ ५ ॥ १ ॥ ऋ० ९ । ४९ । १-२ ॥

भा०—(१) हे पवमान सोम, सर्वभ्रैरक, सूर्य ! (नः) हमारे
प्रति (सु) सुष्ठु, उत्तमं रीति से (वृष्टिं) सुखों और जलों की वृष्टि की
(आपवस्व) सब ओर से वर्षा करो । और (दिवः) धौलोक और मूर्धादेश
से (अपां) बलों, प्रज्ञानों और कर्मों की (ऊर्मिम्) तरङ्ग या ऊपर उठने
वाली परम्परा को (परि-पवस्व) सब ओर से प्रेरित कर । और (वृहती)
पुष्टिकारक, अति अधिक (अयच्मा) यच्म अर्थात् चिपट जानेहारे सूक्ष्म रोग
कीटों से रहित (इपः) अर्जों और इष्टदेव और विद्वानों की, उत्तम संगति
के नाशक दुर्विचारों से रहित मन की सत्कामनाओं को प्रेरित करो ।

(२) हे (सोम) परमेश्वर वा योगिन् ! (तथा) उस (धारया) धारा से या धारणा शक्ति से (पवस्व) प्रेरित कर (यथा) जिससे (गावः) दीप्त-रश्मियां, कान्तियां एवं ज्ञानवाणियों (इह) इस हमारे अन्तःकरण, एवं गृह में (आगमन्) प्राप्त हों । और (जन्यासः) जन, मनुष्य एवं प्राणियों के हितकारक पदार्थ भी (नः) हमारे (गृहम्) देह और गेह को (उप) प्राप्त हों ।

(३) अपनी (धारया) धारणा, पालन पोषण करने हारी शक्ति से (यज्ञेषु) नाना प्रकार के यज्ञों में (देववीतये) दिव्य गुणयुक्त पदार्थों को प्राप्त होकर (अस्मभ्यं) हमको (घृतं) कान्तिस्वरूप प्रदीप्त, प्रकाशयुक्त, ज्ञान, कर्मोपदेश को (पवस्व) प्राप्त करा । और (अस्मभ्यं) हमें (वृष्टि) अन्तः आनन्द-सुखों की वृष्टि को भी (आपव) प्रदान कर ।

(४) हे सोम ! (सः) वह तू (नः) हमारे (ऊर्जे) बल सम्पादन के निमित्त (धारया) अपनी धारणा पोषण करने हारी शक्ति से (अव्ययं) सूर्य, प्राण, आत्मारूप (पवित्रं) पवन करने हारे वायु, अन्तःकरण या धारणा देश के प्रति (विधाय) विशेष रूप से गति कर । (देवासः) समस्त विद्वान् और दिव्य जल, अग्नि आदि तत्त्व पदार्थ और इन्द्रियों (कम्) आनन्दकारी तेरी ध्वनि को (शृणवत्) श्रवण करते हैं ।

(५) (पवमानः) अति शुद्धकान्तिरूप से देदीप्यमान सोमरूप अन्तरात्मा का ब्रह्मानन्द रस (असिध्यद्) जब द्रवित होता है तब (प्रत्नवत्) पूर्व के अपने पुरातन (रुचः) कान्तियों को (रोचयन्) चमकाता हुआ (रक्षांसि) समस्त पाप, कुवासना, दुःसंकल्पों को अनायास (अप जंघनत्) दूर मार भगाता है ।

इस सूक्त में सूर्य, आत्मा, राजा, प्राण, शुक्र आदि समस्त प्रेरक शक्तियों को सोमधारा के दृष्टान्त से वर्णित किया गया है । मधु, घृत आदि

शब्द वेद में ज्ञान के वाचक भी हैं । जैसे शतपथ में पञ्चमहायज्ञ प्रकरण में—पय आहुति=ऋग्वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय, अग्न्याहुति=यजुर्वेद का स्वाध्याय, सोमाहुति=सामवेद का स्वाध्याय, मेदाहुति=अथर्ववेद के मन्त्रों का स्वाध्याय और मधु आहुति=अन्य शेष विद्या जैसे वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी इत्यादि का स्वाध्याय कहा जाता है । (शत० का० १२ । ५ । ६ । ३ । ८)

इत्यादि रूप से यह सोम का सवन ज्ञानपरक समझना चाहिये । इसी प्रकार अन्यत्र भी स्वाध्याय-प्रशंसा प्रकरण में 'मधु ह वा ऋचः । घृतं ह सामानि 'अमृतं यजूषि' यद् हवा अयं वाकोवाक्यमधीतो वीरोदनः मांसोदनी भवतः । (शत० का० ११ । ५ । ७ । ५)

[१४४०] प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर !

१ २ ३ १ २ ३ ३ २ ३ १ २
३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
अरङ्गमाय जामयऽपश्चादध्वने नरः ॥ १ ॥

[१४४१] एमेतं प्रत्येतन सामेभिः सामपातमम् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
अमत्रभिर्ऋजीषिणामिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः ॥ २ ॥

[१४४२] यदी सुतेभिरिन्दुभिः सामेभिः प्रातिभूपथ ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २
वेदा विश्वस्य मेधिरा घृपत्तांमदपते ॥ ३ ॥

[१४४३] अस्मा अस्मा इदन्ध्रसोऽध्वर्यो प्रभग सुतम् ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
कुवित्समस्य जेन्धस्य शङ्खताशमशस्तेरवस्वरत् ॥४॥२॥
ऋ० ६ । ४२ । १-४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अत्रि० सं० [३५२] पृ० १८२ ।

(२) हे विद्वान् पुरुषो ! (एतं) इस (सोमपातमं) सोमरस का पान करने हारों में से सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान के परम आगार, परमेश्वर को

(सोमेभिः) ज्ञानों और ज्ञानियों द्वारा (आ प्रति एतन्) प्राप्त या साक्षात् करने का प्रयत्न करो । (अमत्रेभिः) धारण करने वाले धारणा बुद्धि के संकल्पों द्वारा (ऋजीपियं) ऋजु मार्गों पर प्रेरणा करने हारे, सन्मार्गदर्शी, सत्संगतिकारी परमेश्वर को (सुतेभिः) सुप्रसिद्ध, सम्यक् रूप से प्रेरित (इन्दुभिः) आह्लादकारी विद्वानों द्वारा उनके उपदेश पाकर (प्रत्येतन्) उसका सत्यज्ञान प्राप्त करो, उसको पहिचानो ।

(३) हे विद्वान् पुरुषो ! (यदि) जब (सुतेभिः) सिद्ध, निष्पन्न (इन्दुभिः) प्रकाशमान, ज्ञानज्योतियों से युक्त (सोमेभिः) पूर्वोक्त सोमों द्वारा (इन्द्रं) अपने आत्मा या अपने उपास्य इष्टदेव को (प्रतिभूपथ) अलंकृत करो तो वह (मेधिरः) मेधाबुद्धि से युक्त (धृपन्) सब पर वश करने हारा ईश्वर (विश्वस्य) सब कुछ (वेद) जान लेता है और (तं तं) उस २ संकल्प को भी (एपते) पूर्ण करता है ।

(४) हे (अध्वर्यो) यज्ञ करनेहारे विद्वान् ! (अस्मै अस्मै इत्) इस ही इन्द्र के लिये (अन्धसः) जीवन धारण करने हारे मूलतत्त्व के (सुतम्) निष्पादित आनन्द-रस को (प्रभर) समर्पित कर । क्योंकि (ममस्य) समस्त (जेन्यस्य) वश करने योग्य (शर्धतः) ऊपर उठते हुए (अभिशस्तेः) अभिमानी, घातक काम क्रोधादि शत्रुरूप से (कुवित्) बहुत चार (अवस्वरत्) बचा लेता है ।

इति प्रथमः खण्डः ।

—:0:—

३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[१४४४] वभ्रवे नु स्वतवसे रुणाय दिविस्पृशे ।

१ २ ३ १ २
सोमाय गाथमर्चन ॥ १ ॥

[१४४५] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} हस्तच्युनेभिरद्रिभिः सुनं सोम पुनीतन ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} मधागाधावता मधु ॥ २ ॥

[१४४६] ^{२ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २} नममेदुपसीदत दध्ने दभिथ्रीणीतन ।

^{२ ३ १ २} इन्द्रुमिन्द्रे दधातन ॥ ३ ॥

[१४४७] ^{३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २} अमित्रहा विचपणिः पवस्व सोम शं गवे ।

^{३ १ २ ३ १ २} देवभ्यां अनुकामकृत् ॥ ४ ॥

[१४४८] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} इन्द्राय सोम पातवे मदाय परिपिच्यसे ।

^{३ १ २ २ ३ १} मनुश्चिन्मनमरुपतिः ॥ ५ ॥

[१४४९] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} पवमान सुवीर्यं रयिं सोम रिरीहि णः ।

^{१ २ ३ १ २ ३ १ २} इन्द्रविन्द्रेण नो युजा ॥ ६ ॥ ३ ॥ अ० ६ । ११ । ४-६ ॥

भा०—(१) हे विद्वान् पुरुषो ! (बभ्रवे) सब का भरण पोषण करने हारे (स्वतवसे) दूसरे की बिना अपेक्षा किये, स्वयं बलशाली, (दिविस्पृशे) इस देह में मूर्धास्थान और ब्रह्माण्ड में, महान् आकाश में भी व्याप्त एवं समस्त कान्तिमान् सात्विक दिव्यगुण वाले लोकों और पदार्थों के भीतर विद्यमान, (सोमाय) प्रेरकस्वरूप, शक्ति, प्राणात्मा, परमात्मा एवं राजा आदि की (गाथम्) वास्तविक सत्य गुण कथा का (अर्चत) वर्णन करो ।

(२) हे विद्वान् पुरुषो ! (हस्तच्युतेभिः) हाथों के समान प्रेरक साधनों से प्रेरित, (अद्रिभिः) पर्वत एवं शिलाओं के समान स्थिर, सदाचारी, विद्वानों द्वारा निष्पादित तैयार किये गये (सोमं) ज्ञानराशि को (पुनीतन) बराबर उन्नत करो, उसका सम्पादन करो और बढ़ाओ और उसको निःसंशय करके पवित्र बनाओ । और (मधो) अत्यन्त आनन्द करने हारे अमृतस्वरूप अपने आत्मा में उस (मधु) परम-आत्मज्ञानरूप अमृत को (आधावत) प्राप्त करो ।

(३) हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग उस सोम, सबके प्रेरक अन्त-
यामी, शक्तिमान् परमेश्वर एवं इस शरीर के स्वामी प्राणात्मा के (नमसा
इत्) नमस्कार, श्रद्धा, भक्ति द्वारा (उप सीदत) समीप पहुंचो, उसकी
उपासना करो । (दक्षा) ध्यान और धारणा-बल से (अभि श्रीणीतन)
साक्षात् उसको अपने भीतर परिपक्व करो । और उस (इन्दुम्) ऐश्वर्य-
सम्पन्न सोमरूप जीव को (इन्द्रे) परमेश्वर में (दधातन) स्थापित करो ।
अथवा ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को अपने आत्मा में धारण करो ।

(४) हे (सोम) सर्वोत्पादक परमेश्वर ! (अमित्रहा) द्वेष करने तथा
स्नेह न करने हारे दुर्वासनायुक्त पुरुषों का नाश करने हारा, (विचर्षणिः)
विविध पदार्थों का विशेष रूप से द्रष्टा होकर, (देवेभ्यः) दिव्य-गुण-युक्त
पदार्थों, विद्वानों एवं इन्द्रिय शक्तियों के (अनुकामकृत्) कामनानुकूल कार्य
करने हारा होकर (गवे) ज्ञानशील आत्मा के लिये (शं) कल्याण-सुख
को (पवस्व) प्रवाहित कर ।

(५) हे (सोम) सबके प्रेरक ! ज्ञान-आनन्द रस स्वरूप !
(इन्द्राय) अन्तरात्मा के (पातवे) पान करने और (मदाय) हर्षोत्पादन
के लिये (परिपिच्यसे) तू ही सब प्रकार से हृदय में और सर्वत्र आनन्द-
ग्राहक स्थलों में विचारधारा से प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि तू ही
(मनः चित्) मननशील मन को भी जानने हारा एवं (मनसस्पतिः)
मनःस्वरूप आत्मा का परिपालक है ।

(६) हे पवमान ! सर्वत्र प्रकाशमान, सर्वव्यापक, सबके प्रेरक
सबके प्रकाशक ! सोम ! तू (नः) हमें (सुवीर्यं) उत्तम सामर्थ्य युक्त
(रयिं) प्राणबल (रिरीहि) प्रदान कर । और हे (इन्द्रो) योगिन् !
गुरो ! (इन्द्रेण) परमात्मा या आत्मारूप (युजा) सहायक से (नः
रिरीहि) हमें वह बल प्राप्त करा ।

^{२३ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २ २}
[१४५०] उद्धेदभिश्चुतामघं वृषभन्नयापिसम् ।

^{१ २}
अस्तारमेपि सूर्ये ॥ १ ॥

^{२ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ २ २}
[१४५१] नव न्या नवति पुरो विभेद बाह्वोजसा ।

^{१ २ ३ १ २}
अहिं च वृत्रहावधीत् ॥ २ ॥

^{२ ३ १ २ ३ १२ २२ २ ३ १ २}
[१४५२] स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्रोमद्यवमत् ।

^{३ १ २}
उरुधारेव दोहते ॥ ३ ॥ ४ ॥ श्र० ६ । ६३ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [१२५] पृ० ६७ ।

(२-३) (यः) जो इन्द्र (बाह्वोजसा) बाहुओं, विघ्नकारी बाधाओं को दूर करने हारे साधनों के सामर्थ्य या बल से (नव नवति) ६६ निन्यानवे (पुरः) पुरों, देहों या देह पर गुजरने हारे उसके परिपोषक एवं तर्पक वर्षों को (विभेद) तोड़ डालता है, विनाश करता है और (वृत्रहा) आवरणकारी अज्ञान-अन्धकार को नाश करने हारा वह आत्मा (अहिं) सर्प के समान हृदय-मन्दिर में भा घुसने वाले अज्ञान और उससे पैदा होने वाले काम आदि विकार, आत्मा के प्रकाश के ऊपर अज्ञान वाले आवरण को (अवधीत्) विनाश करता है (सः) वह (इन्द्रः) वशी आत्मा या ऐश्वर्यवान् परमात्मा (शिवः) कल्याणमय, (सखा) सब का मित्ररूप हमारे लिये (उरुधारा इव) दूध की यहीं धार बहाने वाली कामधेनु के समान, (अश्वावत्) इन्द्रियों की शक्ति से सम्पन्न बल और (गोमत्) वेदवाणियों से युक्त ज्ञान और (यद्यमत्) जब आदि धान्यों से युक्त उत्तम पुष्टिकारक अन्न को एवं समष्टि रूप से अश्वों, गौश्वों और अस्यादियुक्त ऐश्वर्यों को (द्रोहते) प्रदान करता है ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

[१४५३] ^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} विभ्राड् वृहत्पिवतु सोम्ये मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविहतम् ।
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} वातजूनां यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपार्ति बहुधा
^{२ २} विराजति ॥ १ ॥

[१४५४] ^{३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} विभ्राड् वृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्मं दिवा धरुण सत्य-
^{२ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} मपितम् । अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्जज्ञे
^{२ ३ १ २ ३ २} असुरहा सपत्नहा ॥ २ ॥

[१४५५] ^{३ २ ३ १ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते
^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३} वृहत् । विश्वभ्राड् भ्राजा मदि सूर्यो दृश उरु पप्रथे सह
^{२ ३ १ २} अाजो अच्युतम् ॥ ३ ॥ ५ ॥ अ० १० । १७० । १-३ ॥

भा०—(१) सूर्य के दृष्टान्त से ईश्वर, आदित्य ब्रह्मचारी, योगी और उत्तम राजा का वर्णन किया है । (विभ्राट्) विशेष रूप से चमकने हारा, आदित्य ब्रह्मचारी, योगी (यज्ञपतौ) समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पन्न और प्रलयरूप दान-आदानमय यज्ञ के स्वामी परमात्मा और प्राणापानाहुतिमय यज्ञ के स्वामी आत्मा में (अविहतम्) सरल, शुद्ध एवं नित्य जागृत, नित्य चेतन, अमर (आयुः) जीवन को (दधत्) धारण करता हुआ (वृहत्) बड़े भारी (सोम्यं) सोम स्वरूप, प्रेरक व शासन शक्ति के साक्षात् करण से प्राप्त (मधु) अमृत ब्रह्मानन्द रस का (पिबंतु) पान करे । (यः) जो (वातजूतः) प्राणवायु द्वारा प्रेरित प्रथम (त्मना) स्वयं अपने आप को (अभिरक्षति) रक्षा करता और निरपेक्ष होकर (प्रजाः) अपनी इन्द्रियों और प्रजाओं को भी पालन पोषण करता है और (वि राजति) विशेष रूप से प्रकाशित होता है ।

१४५४—२, 'प्रजाः सुपीमः पुरुषा विराजति' इति अ० १ ।

(२) (विश्राट्) विशेष रूप से तेज से प्रकाशमान (वृहत्) विशाल, बड़ा भारी (सुभृतं) उत्तम रूप से (पालित) पोषित एवं धारित, (वाजसातमं) ज्ञान और बल प्रदान करने हारों में उत्तम है, (धर्म) धारण करने हारा सात्त्वान् आनन्द का प्रवर्धक आत्मरूप (दिवः) समस्त सूर्य एवं द्यौलोक और विद्वानों के (धरुणे) आश्रय स्वरूप धारण करने हारे परम आश्रय परब्रह्म में (अर्पितम्) प्रतिष्ठापित, (सत्यं) सत्य-स्वरूप, (अमित्रहा) विपरीत जाने हारे शत्रुरूप काम क्रोधादि अन्तःशत्रु और वहिःशत्रुओं का भी नाश करने हारा, (वृत्रहा) आत्मा के आवरक अज्ञान और योगसमाधि के विघातक अभ्यन्तर और ब्राह्म विघातक व्युत्थान वृत्तियों का नाशक, (हस्युहन्तमं) शरीर आत्मा के उत्तम सम्पदाओं के विनाशक कार्यों का नाश करने हारा, (असुरहा) प्राणों में रमण करने वाले आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों को वश करने हारा (सपत्नहा) प्रतिस्पर्द्धियों का विनाशक (ज्योतिः) तेजःस्वरूप अर्थात् तेज को धारण करने हारा आदित्य के समान सूर्यव्रतचारी आदित्य योगी (जज्ञे) उत्पन्न होता है ।

(३) वह आदित्ययोगी (इदं) यह (श्रेष्ठं) सर्वोत्कृष्ट (ज्योतिः) तेज (ज्योतिषां) समस्त प्रकाशमान पदार्थों में (उत्तमं) उत्कृष्ट कोटि का, (विश्वजित्) सब के विजेता, और (धनजित्) सब विभूतियों से भी उत्तम (वृहत्) विशाल (उच्यते) कहा जाता है । वह (विश्वभ्राट्) समस्त संसार का प्रकाशक (आजः) सब पापों और पापी पुरुषों का सताप देने हारा, स्वयंप्रकाश, (महि) बड़ा भारी (सूर्यः) सूर्य के समान सब का प्रेरक, सब को प्रकाश देने हारा होकर (अच्युतं) अविनाशी (सहः) सहनशील, सब के अभिभावक तेज, (ओजः) और बल को (उरु) बहुत अधिक (पप्रथे) विस्तीर्ण होता है, फैलाता है ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[१४५६] इन्द्र क्रतुञ्ज आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।।

१ २ ३ १ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जावा ज्योतिरशीमहि ॥

२ ३ १ २ ३ १ १ ३ २ १ २ ३ १ २
 [१४५७] मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो मा शिवासोऽवक्रमुः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपांसति शूर तरामसि ॥२॥६॥

अ० ७ । ३२ । २६-२७ ॥

भा०—(१) हे इन्द्ररूप योगिन्, आदित्य ! अथवा परमेश्वर (यथा) जिस प्रकार (पुत्रेभ्यः) अपने पुत्रों के लिये (पिता) उनका पालक समस्त आवश्यक भोजन वस्त्रादि पदार्थ लाता और उनको शिक्षा देता है उसी प्रकार आप भी (नः) हमें (श्वतुं) ज्ञान, बल और कर्म को (आ हर) उपदेश करके प्राप्त कराइये और (अस्मिन्) इस जीवनमय ऋतुरूप यज्ञ में हे (पुरुहूत) बहुतसी प्रजाओं से याद किये गये सर्व स्मरणीय, परमात्मन् ! (नः शिक्त) हमें शिक्षा दो । हम (जीवाः) जीवगण (यामनि) तेरी सिखाई ज्ञान प्रकाशमय व्यवस्था में रह कर (ज्योतिः) जीवन प्राण और ज्ञानमय ज्योति का (अशीमहि) भाग करें देखो अविकल सं० [२५६] भी ।

(२) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! हे गुरो ! (अज्ञाताः) बिना जाने पहिचाने, लुके छिपे चोर (वृजनाः) पापी, (दुराध्यः) दुष्ट, कूट, पट्यन्त्र करने हारे, कुटिलाचारी (अशिवासः) अमङ्गलकारक, नीच पुरुष और दुष्ट भाव (नः) हमें (मा अवक्रमुः) कभी न दबा सकें । हे (शूर) शूरवीर ! शत्रुओं को दमन करने में बड़े बलवन् प्रभो ! (त्वया) तुझ सहायक को पाकर (वयं) हमें (प्रवतः) अति विनयशील होकर भी (शश्वतीः) बहुत से (अपः) कार्यों को (अतितरामसि) निर्विकल समाप्त करें ।

३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१४५८] अद्याद्या श्वः श्व इन्द्र त्रास्व परे च नः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

विश्वा च नो जरितृन्त्सत्पत अहा दिवा नक्तं च राक्षिषः ॥१॥

भा०—(१) (जनीयन्तः) पुत्रोत्पादन के निमित्त भार्याओं की कामना करते हुए और (पुत्रीयन्तः) उनमें पुत्रों की कामना करने हारे होकर भी (अग्रवः) उज्जतिशील और (सुदानवः) उत्तम दानी होकर हम लोग (सरस्वन्तं) समस्त आनन्दरस के सागररूप तुम्ह परमात्मा को (हवामहे) नित्य स्मरण करते हैं ।

[१४६१] उत नः प्रिया प्रियासु सप्त स्वसा सुजुष्टा ।

सरस्वती स्तोम्याभूत् ॥ ६ ॥ ६ ॥ अ० ६ । ६१ । १० ॥

भा०—(१) (उत) और (नः प्रियासु) हमारी प्रेमपत्नी, प्यारियों के बीच में (प्रिया) सबसे अधिक प्रिय (सरस्वती) स्वतः सरण करने हारी अथवा ब्रह्मानन्द रस से भरी पूरी (सप्तस्वसा) २ आंख, २ नाक, २ कान, १ रसना, इन सात स्वतः सरण करने हारी सात ज्ञानधाराओं के बीच एकमात्र आठवीं भगिनी के समान बहने वाली वाणीरूप सरस्वती (नः) हमारी (स्तोम्या) स्तुति करने योग्य (अभूत्) है । अथवा (सप्तस्वसा=सप्त छन्दोसि) सात छन्दों वाली वेदवाणी स्तुति करने हारी है ।

[१४६२] तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

प्रियो यो नः प्रचोदयात् ॥ १ ॥ अ० ३ । ६२ । १० ॥

[१४६३] सोमानां स्वरणं कृणुहि ॥ २ ॥ अ० १ । १८ । १ ॥

[१४६४] अग्न आग्न्युषि पवसे ॥ ३ ॥ १० ॥ अ० ६ । ६६ । १६ ॥

भा०—यही मन्त्र ब्रह्मगायत्री, गुरुमन्त्र, वेदमाता सावित्री आदि नामों से कहा जाता है । (तत्) उस (सवितुः) सर्व जगत के प्रेरक, उत्पादक (देवस्य) स्वतः प्रकाशमान, सब के प्रकाशक सबसुखों के दाता परमेश्वर के

१४६३—कच्चित् पुस्तकेषु द्वितीयतृतीययोर्कचोः पूर्णः पाठो दृश्यते । बह्विषु संहि-

तासु प्रतीकमात्रमुपलभ्यते इति तदेवात्राप्युद्भियते शिष्टाचारात् ।

(वरेण्यं) सर्वोत्कृष्ट, वरण करने योग्य श्रनुपम, (भर्गः) अविद्या, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अज्ञान से पैदा होने हारे तामस अंशुओं को अग्नि और सूर्य के प्रखर तेज के समान भस्म कर डालने हारे तेज का हम (धीमहि^१) ध्यान करें, धारण करें (यः) जो परमेश्वर (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों और कर्मवृत्तियों को (प्रचोदयात्) उत्तम सन्मार्ग में प्रेरित करता है ।

गोपथ ब्राह्मण में गायत्री मन्त्र एक मनन करने योग्य व्याख्या इस प्रकार की है ।

“वेदाश्छन्दांसि सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयोऽज्ञमाहुः ।

कर्माणि धियस्तदु ते ब्रवीमि प्रचोदयात् सविता याभिरेति ॥”

उस उत्पादक परमात्म देव का परम वरणीय भर्गरूप तेज ‘वेद’ ‘छन्द’ है जिसको कवि विद्वान् लोग ‘अज्ञ’ कहते हैं । और ‘धियः’ का तात्पर्य ‘कर्म’ है, हे शिष्य ! यही मैं, तुम्हको उपदेश करता हूँ कि उन कर्मों द्वारा ही परमात्मा सबको प्रेरित करता है । *

(२) व्याख्या देखो अविकल सं० [१३६] पृ० ७६ ।

(३) व्याख्या देखो अविकल सं० [६२७] पृ० ३१६ ।

१. धीमहि ध्यायामः धारयेम इति सायणः । आद्यं रूपं ध्याषतेः परञ्च दिवादेधीङ् आधार इत्यस्य ज्ञेयम् ।

* इस गायत्री मन्त्र का का पं० डब्ल्यू० जोन्स का किया निम्नलिखित अनुवाद बड़े महत्व का है—

“हम (तत्) उस (देवस्य सवितुः) देव सविता परमात्मा के (भर्गः) उत्तम तेज की (धीमहि) उपासना करते हैं जो (देवः) सब को प्रकाशित करता है, जो (सविता) सब को उत्पन्न करता है और जिससे सब उत्पन्न होते हैं, और जिसमें (भर्गः) सब लीन होजाते हैं, उसी को हम (नः धियः) अपनी बुद्धियों को (वरेण्यं) परमपद के प्राप्त करने के लिये (प्रचोदयात्) प्रेरणा करने की प्रार्थना करते हैं ।

१ २ ३ १ २

[१४६५] ता नः शक्तं पार्थिवस्य० ॥ १ ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

[१४६६] ऋतमृतेन सपन्तेषिरन्दक्षमाशाते ।

३ १ २ ३ १ २

अद्रुहा देवौ वर्द्धते ॥ २ ॥

३ १ २ ३ २ २ ३ २ ३ ३ १ २

[१४६७] वृष्टिद्यावा रीत्यापपस्पती दानुमत्याः ।

३ २ ३ १ २

वृहन्तं गर्तमाशाते ॥ ३ ॥ ११ ॥ अ० ५ । ६८ । ३-५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [११४३] पृ० ५६७ ।

(२) राजा मन्त्री, जीवात्मा मन, परमात्मा जीवात्मा, प्राणापान, सूर्यवायु, यजमान, अध्वर्यु, सूर्य, पृथिवी, गुरु शिष्य आदि का वर्णन है । वे दोनों मित्र और वरुण (अद्रुहौ) परस्पर द्रोह न करते हुए (देवौ) प्रकाशमान ज्ञान से स्वयं प्रकाशित होने, एवं दूसरे को भी प्रकाशित करने हारे, या परस्पर एक दूसरे के आकांक्षी (ऋतं) सत्यज्ञान को (ऋतेन) वेद ज्ञान से (सपन्ता) प्राप्त करते हुए (इषिरं) सबके प्रेरक (दक्षं) बल को (आशाते) प्राप्त कर लेते हैं । अध्यात्म पक्ष में— “ (ऋतं) सत्य ज्ञान को (ऋतेन) ब्रह्म से... ” प्राणापान पक्ष में— (ऋतं) आत्मा को (ऋतेन) तप से इत्यादि पूर्ववत् ।

(३) वे मित्र और वरुण (वृष्टिद्यावा) वर्षण और प्रकाश से युक्त (रीत्यापा) गति या ज्ञान द्वारा ही इष्ट को प्राप्त करने हारे अथवा जलों के समान कर्म और ज्ञानों को चहाने हारे (दानुमत्याः) दान देने योग्य (इषः) चेतनादायक अन्न के (पती) स्वामी होकर (वृहन्तं) विशाल (गर्तम्) उत्तम देहरूप या ब्रह्माण्ड रथ में (आशाते) व्याप्त रहते हैं । राजा, मन्त्री पक्ष में (गर्ते) उत्तम राष्ट्र या विजयरथ ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१४६८] युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुपः ।

१ २ ३ २ ३ २

रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ६ ॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१४६९] युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे ।

१ २ ३ २ ३ १ २

शोणा धृष्णु नृवाहसा ॥ २ ॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१४७०] केतुं कृगवन्नकंतवे पेशो मर्या अपेशसे ।

२ ३ १ २

समुपद्भिरजायथाः ॥ ३ ॥ १२ ॥ अ० १ । ६ । १-३ ॥

भा०—(१) जो विद्वान् साधक योगी लोग (तस्थुपः) स्थिर आसन होकर (परिचरन्तं) समस्त देह में गति करने हारे, (अरुपः) सब मर्मस्थानों में विराजमान, उनका नाश न करने हारे (ब्रध्नं) विशाल, सब इन्द्रियगण को अपने बल से बांधने और उनकी चलाने हारे मुख्य प्राण को (युञ्जन्ति) योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं वे (रोचनाः) कान्तिसम्पन्न होकर (दिवि) सात्विक ऊर्ध्व स्थान, ज्ञान-प्रकाशमय मोक्ष में (रोचन्ते) विराजते और शोभा पाते हैं या (दिवि) मूर्धास्थान में विशेष तेज से प्रकाशमान होते हैं । अथवा—जो विद्वान् योगी (तस्थुपः परिचरन्तं) समस्त स्थावर और जंगम पदार्थों में व्यापक (अरुपं) सब के प्रति ज्ञेहवान् (ब्रध्नं) सर्वाश्रय, सबसे महान्, प्रह्लास्वरूप परमेश्वर को (युञ्जन्ति) योग समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं वे (दिवि) प्रकाशमान मोक्ष स्थान में (रोचनाः) तेजोमय होकर (रोचन्ते) विराजमान होते हैं ।

अथवा, जो शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये (ब्रध्नं) सूर्य को, (अरुपं) अग्नि को, (चरन्तं) वायु को सम्यक् रीति से कार्य में नियुक्त करते हैं वे प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं और आनन्द लाभ करते हैं ।

महर्षि दयानन्द प्रदर्शित दिशा से ये तीनों अर्थ स्पष्ट हैं ।

(२) (अस्य) जिसको पूर्ण मन्त्र में 'ब्रध्न' कहा है जो सूर्य आदि शब्दों से भी सम्बोधित होता है उस मुख्य प्राणात्मा-रूप हृन्द के (रथे) रमण करने के साधक इस देह रूप रथ में (काम्या) कान्तिसम्पादक व कमनीय, रुचिकर, प्रिय, (हरी) हरणशील (विपक्षसा^२) नाना प्रकार से शरीर को धारण करने हारे अथवा विविध पार्श्वों में गति करने हारे (शोणा) स्वतः गतिशील, (धृष्णू) शरीर को धारण करने हारे, दृढ़, (नृवाहसा) नेतास्वरूप आत्मा के वाहनरूप प्राण और अपान दोनों को जो योगाभ्यास द्वारा (युञ्जन्ति) लगाते हैं, वश कर लेते हैं वे प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं । सूर्यपक्ष में—(हरी) हरणशील आकर्षण और वेगगुण । राजा पक्ष में—(रथे) युद्धोपकरण रथ । परमात्मापक्ष में—(हरी) सूर्य और वायु । सभी सम्प्रदायवादियों ने अपने सर्वव्यापक इष्टदेव के ब्रह्माण्डमय विशाल रथ की कल्पना की है । जिसमें जगन्नाथ का रथ और विष्णु का रथ दर्शनीय हैं ।

(३) हे (मर्थाः) मनुष्य लोगो ! मरणशील मनुष्यो ! या जन्तुगण ! जिस प्रकार (उपद्रिः) अपनी दाहक रश्मियों से (अकेतवे) निद्रा में प्रचेत प्राणी के लिये (केतुं) प्रातः चेतना करता हुआ और (अपेशसे) अरूप अर्थात् प्रकाश के अभाव में अदृश्य पदार्थों को (पेशः) रूपवान् अर्थात् दृश्यमान करता हुआ उदित होता है उसी प्रकार यह आत्मा भी (अकेतवे) ज्ञान रहित इस देहादि संघात के निमित्त (केतुं) ज्ञान, चेतना प्रकट करता हुआ और (अपेशसे) रूप रहित अपने लिये (पेशः)

१. रथो रहतेर्वागति कर्मणः, स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोऽस्मि-
स्तिष्ठति इति रथतेर्वा रसतेर्वा । (निरु० ६ । ११)

२. विपक्षसा—पक्ष परिग्रहे (भ्वादिः)

इस देह को रूपवान् (कृणवन्) करता हुआ (समुपद्भिः) संताप देने
 द्वारे कर्म विपाकों द्वारा पुनः (अजायथाः) उत्पन्न होता है । अथवा—हे
 जीवो ! आत्मा अचेतन देह को चेतन और अरूप अपने आपको सरूप करता
 हुआ कर्मफलों से पुनः उत्पन्न होता है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

- ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
- [१४७१] अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि ।
 २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
- त्वं हयं चकृपे त्वं ववृप इन्दुं मदाय युज्याय सोमम् ॥१॥
 २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३ १ २
- [१४७२] स ईरथो न भुरिपाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि ।
 २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
- आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्गता वन ऊर्ध्वा नवन्तः ॥
 ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३
- [१४७३] शुभी शर्थो न मारुतं पवस्वानभिगस्ता दिव्या यथा
 २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
- त्रिद्वि । आपो न मन्त्रु सुमतिर्भवा नः सहस्राण्स्ताः पृतनां-
 २ ३ ३ ३ २
- पाडू न यज्ञः ॥ ३ ॥ १३ ॥ ऋ० ६। ८८। १, २, ७ ॥

भा०—(१) हे इन्द्र ! आत्मन् ! परमात्मन् ! (अयं सोमः) यह
 सोम, शमादि सम्पन्न योगी (तुभ्यं) तेरे लिये (सुन्वे) साधना करके
 निष्पन्न होता है । (तुभ्यं पवते) तेरी प्राप्ति के लिये यत्न करता है ।
 (यं) जिसको (त्वं) तू (चकृपे) बचाता है और (त्वं ववृपे) तू ही
 सामर्थ्य देता है या वरण करता है उस (इन्दुम्) ऐश्वर्य और तप से युक्त
 (सोमम्) शमदमादि साधन सम्पत्ति से युक्त पुरुष को (मदाय) आ-
 नन्दप्राप्ति, मोक्षलाभ और (युज्याय) अपने संग रखने अर्थात् ब्रह्मसाक्षा-
 त्कार के लिये (त्वं) तू (अस्य पाहि) उसको विघ्नों से बचाता है ।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥

(कठोपनि० १ । १२ । २२)

(२) (सः) वह सोमरूप योगी (वसूनि) इस में वास करने हारे (पुरुणि) इन्द्रियों को (रथः न) स्थिर, स्थाणु के समान (भूरिपाट्) अति अधिक सहनशील होकर (महः सातये) तेज को प्राप्त करने के लिये (अयोजि) योग साधन में लग जाता है । (आत् ईम्) और अनन्तर (वने) अभिलाषा के योग्य (स्वर्पातौ) इस परम सुख की प्राप्ति के कार्य में (नहुष्याणि) मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य (विश्वा) समस्त (ऊर्ध्वा) उत्कृष्ट (जाता) पदार्थ आपसे आप उसको (नवन्त) प्राप्त हो जाते हैं । यद्वा- (स भूरिपाट् महः पुरुणि वसूनि सातये रथ इव अयोजि) जब वह अति सहनशील विशाल-आत्मा वाला योगी बहुत विभूति, श्रद्धा, सिद्धि की प्राप्ति के लिये संग्रामरथ के समान योगसमाधि में लग जाता है । (आत् ई विश्वा नहुष्याणि ऊर्ध्वा जाता नवन्त) तब ही समस्त मानुष उत्कृष्ट भोग्य पदार्थ स्वतः उसके आगे आ भुक्तते हैं । इसका स्पष्टीकरण देखो । (छान्दोग्य उप० अ० ८ । ख० १३)

(३) हे सोम ! आत्मन् ! आत्मयोगिन् ! आप (मारुतं) प्राणों के (शर्धः न) प्राणबल के समान (पवस्व) इस देह को गति देते और (यथा) जिस प्रकार (दिव्या) दिव्यगुण युक्त (विड्) प्रजारूप प्राण-न्द्रिय गण (अनभिशस्ता) अनिन्दित और अखाण्डित है उसी प्रकार आप भी अखाण्डित और अनिन्दित हैं । आप (आपः न) जलों के समान (मञ्चु) शीघ्रगामी, मनोवेग से इन्द्रिय प्रणालिकाओं में बहते हो, अतः आप (सहस्राप्साः^१) अनेकों रूप होकर (पृतनापाट् न) युद्ध

विजयी सेनापति के समान इस देहरूप वेदी में होने वाले यज्ञ में यजमानस्वरूप (यज्ञः^२) आत्मा होकर आप (नः) हमारे लिये (सुमतिः) शुभ संकल्प युक्त (भव) रहो ।

[१४७४] त्वमग्ने यज्ञानां हाता विश्वेषां हितः ।

देवभिर्मानुषे जन ॥ १ ॥

[१४७५] स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभियजा महः ।

आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ २ ॥

[१४७६] वेत्था हि वेधा अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा ।

अग्ने यज्ञेषु सुकृतो ॥ ३ ॥ १४ ॥ श्र० ६ । १६ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२] पृ० २ ।

(२) हे परमेश्वर ! आत्मन् ! (सः) वह आप (मन्द्राभिः) स्तुति के योग्य, हर्षजनक, उपादेय, प्रशंसनीय (जिह्वाभिः) जिह्वाओं, वाणियों से या आदान-प्रतिदान करनेहारी इन्द्रियों एवं पञ्चभूतमय शक्तियों से (महः) महान् होकर (अध्वरे) हिंसारहित व्यवहार एवं एक दूसरे की सत्तानाश न करनेहारी व्यवस्था में (यज) इस ब्रह्माण्ड के समस्त पदार्थों को संगत करते और परस्पर मिलाते हो । और (देवान्) पञ्चभूतों, विद्वानों और इन्द्रियगण की (आयक्षि) आप अपनी शरण में लेकर उन्नति

२. यज्ञ इति आत्मनो महतो भूतनामधेयेषु परिपाठतः "यज्ञ आत्मा भवति यदेनं तन्वते" (नि० परि० अ० २ । ११)

१४७६—१. जिह्वाभिर्ज्वालाभिरिति सायणः । काल्यादिभिरित्यपि कचित् क्वचित् । काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूमवर्णा । त्फुलिङ्गिनी विश्वस्वीति सप्त जिह्वाः अग्नेरुपनिषत्सु प्रसिद्धाः । लीलेत्यष्टमी क्वचित्पठ्यते । ताश्चाध्यात्मं चित्तेरेव इन्द्रियवर्तिन्यो वृत्तयो भवन्ति ।

के मार्ग में लेजाते और (यच्चि च) संगत करते तथा उनको उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हो ।

(३) हे (अग्ने) विद्वन् ! और परमात्मन् ! हे (सुक्रतो) शुभज्ञान और जगत्-रचन आदि नाना कर्मों से सम्पन्न ! हे (देव) प्रकाशक ! हे (वेधः) समस्त संसार के विधाता ! आप (यज्ञेषु) समस्त प्रकार के यज्ञों और आत्माओं में (अध्वनः) समस्त बड़े मार्गों और (पथः) लघु मार्गों को भी (अब्जसा) उत्तम रीति से (वेत्थ) जानने हारे हो, हमें भी उनका ज्ञान कराओ ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[१४७७] होता देवा अमर्त्यः पुरस्तादति मायया ।

३ १ २ ३ १ २
विदथानि प्रचोदयन् ॥ १ ॥

३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
[१४७८] वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्रणाश्रते ।

१ २ ३ २ ३ १ २
विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥ २ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[१४७९] धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमादधे ।

१ २ ३ २ ३ १ २

दक्षस्य पितरं तना ॥ ३ ॥ १५ ॥ अ० ३ । २७ । ७-९ ॥

भा०—(१) (अमर्त्यः) मरणरहित, अमर (देवः) सबका प्रकाशक परमात्मा (विदथानि^१) ज्ञान करने योग्य उत्तम कर्मों और आत्मतत्त्वों को (प्रचोदयन्) हृदय में प्रेरित करता हुआ (मायया^२) विशेष ज्ञानशक्ति या बुद्धि से (पुरस्तात्) साक्षात् (एति) प्रत्यक्ष होता है ।

(२) (वाजी) बलवान् और ज्ञानवान् पुरुष (वाजेषु) बल के कार्यों में (धीयते) नियुक्त किया जाता है और उसी प्रकार का ज्ञानवान्

१. विदथानि वेदितव्यानि इति सायणः ।

२. मायया, कर्मविषयाभिज्ञान इति सायणः

चलशाली पुरुष (अध्वरेषु) परस्पर की हिंसादि से रहित व्यवस्थापन आदि कार्यों में (प्रणीयते) विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है, क्योंकि (यज्ञस्य) दान, यज्ञ, तप, स्वाध्याय एवं संगतिकरण आदि सत्कार्यों को (साधनः) साधन करके हारा (विप्रः) ज्ञानवान् विपश्चित् पुरुष होता है ।

(३) पूर्व मन्त्र में विप्र, वाजी आदि शब्द से कहा गया विद्वान् ही (धिया) अपन धारण ज्ञानशक्ति और कर्म सामर्थ्य के कारण (वरेण्यः) सबसे वरण करने योग्य, सबसे श्रेष्ठ होकर (चक्रे) काम करे । वही (भूतानां) सब पदार्थों और प्राणियों को (गर्भं) अपने वश में (आदधे) धारण करता है । और उसको (दक्षस्य) सर्वशक्तिमान् परमात्मा की (तना) उत्पादित प्रजा, उस (पितरं) अपने पालक को पिता के समान (आदधे) धारण करती जानती और मानती है ।

इति पञ्चमः खण्डः ।



२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[१४८०] आ सुतं लिञ्चन श्रियं रोदस्योरभिधियम् ।
३ १ २ ३ २

रसा दधात वृषभम् ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ २ २ ३ २ ३ १ २
[१४८१] ने जानत स्वमोक्ष्यांसं व्रतासो न मातृभिः ।
३ १ २ ३ १ २

मिथो नसन्त जामिभिः ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
[१४८२] उप स्रक्तेषु वप्सनः कृण्वते धरुणं दिवि ।
१ २ ३ २ ३ ३ २

इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥३॥१८॥ ऋ० ८ । ७२ । १३-१५ ॥

भा०—(१) (सुते) उत्पन्न, या उत्पादित अर्थात् माता पिता और आचार्य से शिक्षित पुत्र में अभिषेक योग्य राजा के समान (रोदस्योः)

मा वाप के (अभि) आश्रित (श्रियं) सम्पत् साधनों को (आसिञ्चतं) प्राप्त कराओ और (रसा) रसमय सारिष्ठ पदार्थों में जिस प्रकार अग्नि को नीचे रखकर उनको परिपक्व किया जाता है उसी प्रकार सारयुक्त स्थलों में उस (वृषभं) सुखों के वर्षक बलवान् पुरुष को आश्रयरूप से ही (आदर्धात्) नियुक्त करो । अध्यात्म पक्ष में—(रोदस्योरभिश्रियं सुते आसिञ्चत) प्राण और अपान में आश्रित बल को साधित चित्त में धारण करो और (वृषभं रसा आदर्धात्) अग्निस्वरूप आत्मा को आनन्द रस में प्राप्त कराओ ।

सायण ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है (सुतं श्रियं आसिञ्चत) गौ के दुग्ध में वह बकरी का गरम दूध डालो जो (रोदस्योरभिश्रियम्) खूब उफान खारहा हो और फिर मिले दूध में आंच दो । आश्रय !

(२) (चत्सासः) जिस प्रकार बछड़े (जामिभिः) अपनी २ पैदा करने वाली (मातृभिः) माताओं से (मिथः) परस्पर (नसन्त) मिल जाते हैं उसी प्रकार वे पुत्रादि भी अपने बन्धुओं से खेहवश मिले रहते हैं और (स्वं) अपने (ओक्व्यं) एक ही प्रदेश में रहने वाले बन्धुवर्ग को (सं जानते) भली प्रकार जान लेते हैं और उनके साथ ही मिल जाते हैं । अध्यात्म में—(ते) वे प्राण प्रमातृरूप इन्द्रियों से इसी प्रकार मिल कर रहते हैं जैसे बछड़े अपनी उत्पादक माताओं से । और उन इन्द्रियों को वे दर्शों प्राण अपने स्थान के नित्यवासी जान कर उनसे एक हो रहते हैं ।

(३) (स्रकेपु) सर्जन स्थानों में या इन्द्रिय प्रदेशों में या काली आदि ज्वालाओं में (वप्सतः) भक्षण करते हुए ग्रहण या प्रलय करते हुए उस अग्निरूप महान् आत्मा को विद्वान् पुरुष (दिवि) ज्ञान-प्रकाश में सूर्य के समान (धरुणं) उसको धारक बल या आश्रय रूप से (उष कृएवते) स्वीकार करते हैं । उस (अग्निं) अग्निस्वरूप, पाप दहन करने

हारे, ज्ञानवान् परमेश्वर को (इन्द्रे) इन्द्ररूप आत्मा में भी (नमः) बल और (स्वः) सुख और आनन्दरूप से (उप कृणवते) उपासना करते हैं।

सामाजिक पक्ष में—(सकेषु) आमोद प्रमोद स्थलों में विहार करते हुए उस नवयुवक रूप अग्नि को विद्वान् उच्च प्रतिष्ठा देते हैं और तभी वह पालन पोषण के भार को अपने में धारण करके बल और पारिवारिक सुख को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार इन मन्त्रों में सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिवार का उत्तम वर्णन किया गया है ।

१२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[१४८३] नदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृग्णः ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रून् नू यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १ ॥

३ १ २ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१४८४] वावृधानः शवसां भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
अव्यनच्च व्यनच्च सस्त्रि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २ ॥

२ ३ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ ३ १ २
[१४८५] त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिभवंत्यूमाः ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३
स्वादाः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सुमधु मधुना

१ २
भियोध्रीः ॥ ३ ॥ १६ ॥ ऋ० १० । १२ । ४, २ ॥

भा०—(१) (तत्) वह परम आत्मा (इत्) ही (भुवनेषु) इन समस्त लोकों में (ज्येष्ठं) सब से अधिक प्रशस्त, उत्कृष्ट, वर्णनाय (आस) है, (यतः) जिससे (त्वेषनृग्णः) कान्ति दीप्ति से युक्त बलशाली (उग्रः) तेजस्वी, विशाल शक्तिशाली सूर्य और उसके समान तेजस्वी पुरुष (जज्ञे) उत्पन्न होता है । (सद्यः जज्ञानः) उत्पन्न होकर ही वह (शत्रून्) शत्रुओं और पापों को (निरिणाति) दूर करता है (यं भनु) जिसको देखकर (विश्वे) समस्त (ऊमाः) जीव प्रजागण (मदन्ति) हर्षित होते हैं ।

(२) वह परमात्मा (शवसा) अपने महान् सामर्थ्य, बल से विक्रमशालि, प्रतापी होकर (शत्रुः) विघ्नो का शासन करनेहारा (दासाय) विनाश करनेहारे पापी जन के लिये (भियसं) भीति, डर (दधाति) उत्पन्न करता है और (अव्यनत्) स्थावर पदार्थ जो विशेष रूप से प्राण नहीं लेते और (व्यनत् च) चेतन प्राणी जो नाना प्रकार से प्राण लेते हैं उनको (सस्ति) पवित्र करता है, निहलाता है अर्थात् उनमें भी स्वतः नाना गुणों द्वारा व्यापक होता और उनको पवित्र करता है । हे इन्द्र ! (ते) वे सब (प्रभृताः) उत्तम रूप से तेरे द्वारा धारण, पालन पोषण किये गये स्थावर और जंगम सब पदार्थ (मदेपु) हर्ष में मग्न होकर (ते) तेरे आगे (नवन्त) झुकते और तेरी महिमा गाते हैं ।

(३) (त्वे) तुझमें (अपि) ही (विश्वे एते ऊमाः) समस्त ये भूत, प्राणायण (यद्) जब (द्विः) एक से दो और (त्रिः) दो से तीन होजाते हैं तब भी वे (ऋतुं) अपने उत्तम प्रज्ञान को (वृञ्जन्ति) तुझ पर ही व्यय कर देते हैं अर्थात् समस्त पृथिव्यादि भूत और सब प्राणियों के चित्त और सब यज्ञ ऋतु तुझ पर ही समाप्त होजाते हैं । हे इन्द्र ! (स्वादोः) आनन्द देने वाले प्रिय धनादि से भी (स्वादीयः) बहुत अधिक आनन्ददायक, प्रिय पदार्थ, पुत्र आदि को (स्वादुना) आनन्ददायी पति के प्रति पत्नी और पत्नी के प्रति पति के द्वारा (सृज) उत्पन्न कर । और (अदः) उस (मधु) अति आनन्ददायी सन्तान को भी (सुमुधुना) उत्तम प्रिय पदार्थ पुत्रवधू एवं पौत्र आदि से (अभियोधीः) आनन्द प्रसन्न कर । जैसा ब्राह्मण ग्रन्थों में आया है "त्वयि इमानि सर्वाणि भूतानि मनांसि क्रतवोऽपि वृञ्जन्ति ।" तुझ में ही समस्त भूत, सब मन और सब यज्ञ आदि समाप्त होजाते हैं । पुरुष ही स्त्रीरूप से भी रहता है क्योंकि विवाह के पश्चात् स्त्री भी उसका आधा अङ्ग होजाती है । श्रुति भी है "अधो वा एष यत् पत्नीति" (शत०) और पुत्र भी उक्त पुरुष का ही तीसरा रूप

है जैसे वेद में—“आत्मा वै पुत्रनामासि” (शत०) दो से तीन होजाते है जैसे—“द्वौ द्वौ सन्तौ मिथुनौ प्रजायेते प्रजापत्या” । “पुत्रो ह स्वादु” पत्नी के प्रति पति और पति के प्रति पत्नी ही स्वादु है जैसे—“मिथुनं वै स्वादु, प्रजाः स्वादु” इत्यादि (शत०) । अध्यात्म पक्ष में—स्वादु=देहादि संघात से प्राप्तव्य सुखोपभोग । उससे भी अति आनन्ददायक स्वादीयः= ब्रह्मानन्दरस को स्वादुना=प्रिय रूप आत्मा से (सं सृज) संगत कर । (अदः सुमधु) अति मधुर इस अमृत आत्मा को (मधुना) उस परम अमृत, आत्मा या परमेश्वरदर्शन या मोक्ष से मिला, आनन्दित कर ।

[१४८६] ^{१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १२ २२ ३} त्रिकटुकेषु मडिपा यवाशिरं तुविशुष्मस्तृपत्साममपिव-

^{१ २ ३ १ २ ३ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} द्विष्णुना सुने यथावशम् । स ई ममाद मडिकर्म कर्त्तव्ये
^{३ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २} महामुरुं सैनं सश्वद्देवा देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम् ॥१॥

[१४८७] ^{३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३} साकं जातः क्रतुना साकमाजसा यवाक्षिथ साकं वृद्धा

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} वायः सासहिमृथा विचर्षणिः । दाता राध्रः स्तुत्रेण काम्य
^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} वसु प्रचतन सैनं सश्वद्देवा देवं सत्य इन्दुः सत्य-

^{२ २} मिन्द्रम् ॥ २ ॥

[१४८८] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} अथ त्विषीमां अभ्योजसा कृवि युधाभवदा रोदसी अ-

^{३ २ ३ १ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} पृणदस्य मज्जना प्रवावृध । अधत्तान्यं जठरे प्रेमरि
^{३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} च्यत प्रचतय सैनं सश्वद्देवा देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्

॥ ३ ॥ २० ॥

ऋ० २ । २२ । १, ३, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [४५७] पृ० २२८।

२४८७—‘यथावशम्’ इति ऋ० ।

२४८६—कृवि इति । तिसृषु ऋक्षु “सत्यमिन्द्रं सत्यमिन्दुः” इति विपर्यस्तः ऋ० ।

(२) हे इन्द्र ! हे (प्रचेतन) प्रकृष्ट ज्ञानवान् ! (क्रतुना) वेदमय ज्ञान के (साकं) साथ (जातः) वर्त्तमान रह कर आप (ओजसा) अपने बल से (ववाचिथ) इस ब्रह्माण्डमय जगत् का वहन करते हो, इसको धारण करते हो । अतःएव (वीर्यैः) नाना प्रकार की शक्तियों के (साकं) साथ (वृद्धः) समस्त संसार में व्यापक, महान् (मृधः) सब शत्रुओं को (सामहिः) वश करने हारे, (विचर्षाणिः) सब संसार के द्रष्टा (स्तुवते) स्तुति करने हारे भक्तजन के कामना करने योग्य (वसु) धन के (दाता) देने हारे हैं । (सः) वह (देवः) प्रकाशरूप (सत्यः) सत्यस्वरूप (इन्दुः) जीवात्मा, योगी, (सत्यं) सत्यस्वरूप (देवं) सर्वप्रकाशक (एनं) इस (इन्द्रं) ऐश्वर्यशील परमात्मा को (सश्वत्) प्राप्त करे ।

(३) (अध) इस प्रकार के ब्रह्मदर्शन के अनन्तर (त्विधीमान्) कान्तिमान् इन्द्र (ओजसा) बल से, (क्रिविम्) जीव के बन्धनरूप पाँचों अन्नमय आदि कोशों को (युधा) विघ्न नाशक प्रयत्न से (अभि अभवत्) ताड़ देता है । (रोदसी) द्यौ और पृथिवी और प्राण और अपान दोनों को (अपृणाद्) व्याप्त करता है । तब (अत्य मज्जना) इसके ही बल से (प्रवावृधे) वह जीव भी शक्तिशाली, और महान् हो जाता है । वह प्रभु (अन्यं) जीव को अपने (जठरे) गर्भ में, शरण में (अधत्त) धर लेता है (ईम्) और इसको (प्र अरिच्यत) विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता है और (प्रचेतय) प्रकृष्ट रूप से ज्ञानवान् कर देता है । (सः) वह (देवः) दिव्य ज्ञानवान् (इन्दुः) योगी जीव (सत्यः) सत्य संकल्प, सत्यरूप होकर (एनं) उस (देवं) देव (सत्यं) सत्यस्वरूप (इन्द्रं) परमेश्वर को (सश्वत्) प्राप्त होता है ।

इति षष्ठः खण्डः ।

इति षष्ठस्य तृतीयोऽर्ध । षष्ठश्च प्रपाठकः समाप्तः ॥

इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥

अथ चतुर्दशोऽध्यायः ।

अथ सप्तमः प्रपाठकः (प्रथमोऽर्धः)

अधिः—१ १, ६ प्रियमेधः । २ नृमेधपुर्मेधौ । ३, ७ व्यरुणव्रतदस्यू । ४
 शुनःशेष आजीगर्तिः । ५ वत्सः काण्वः । ६ अग्निस्तापसः । ८ विश्वमना
 वैश्वः । १० वसिष्ठः । सोभरिः काण्वः । १२ शतं वैश्वानसाः । १३
 वसूयव आत्रेयाः । १४ गोतमो राहूगणः । १५ केतुराग्नेयः । १६ विरूप
 चांगिरसः ॥ देवता—१, २, ५, ८ इन्द्रः । ३, ७ पवमानः सोमः । ४, १०—
 १६ अग्निः । ६ विश्वेदेवाः । ६ सामेति ॥ छन्दः—१, ४, ५, १२—१६
 गायत्री । २, १० प्रागाथं । ३, ७, ११ बृहती । ६ अनुष्टुप् ८ उष्णिक् ।
 ६ निचिदुष्णिक् ॥ स्वरः—१, ४, ५, १२—१६ षड्जः । २, ३, ७, १०,
 ११ मध्यमः । ६ गान्धारः । ८, ६ ऋषभः ॥

उ ३२ २२ ३१ २३ १ २ ३ २
 [१४८६] अग्निं प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्चयथा विदे ।

उ २ ३ ७ ३ १ २

सुतं सत्यस्य सत्पतिम् ॥ १ ॥

१२ २२ ३१ २ ३१ २ ३ २ २

[१४६०] आ हरयः ससृजिरेऽरुपीरग्निं वर्हिषि ।

२ ३ २ ३ १ २

यत्राभि संनवामहे ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१४६१] इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे चज्रिणं मधु ।

१ २ ३ २ ३ २

यत्सामुपहरे विदत् ॥ ३ ॥ १ ॥ अ० ८ । ६६ । ४, ६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६८] पृ० ।

(२) (वर्हिषि) धान्य या कुशा घास या दग्ध के समान उत्पन्न
 होकर पुनः ज्ञानाग्नि या योग समाधि द्वारा काटने योग्य निरन्तर वृद्धिशील

इस देहबन्धन में (हरयः) गतिशील (अरुषीः) रक्त वर्ण की धारायें इस भूलोक में जल धाराओं के समान (ससृजिरे) नदियों के समान गति कर रही हैं और उस पर (अधि) अधिकार कर रही हैं (यत्र) जिस देह में रह कर हम इन्द्रियगण तथा विद्वान्जन (आभिसनं वामहे) उस आत्मरूप इन्द्र की साक्षात् महिमा का अनुभव करते और गान करते हैं अर्थात् जिस देह में हम उस इन्द्र के साक्षात् अधीन रहते हैं ।

ईश्वर पक्ष में—बर्हिः=यह संसार, अरुषी=कान्तिमान्, हरयः=सूर्यसदृश गतिमान् पियड ।

(३) (गावः) ये सब गतिमान् रक्तधारायें तथा इन्द्रियगण (इन्द्राय) इस इन्द्ररूप आत्मा के लिये (आशिरम्) उसके जीवन के आश्रयरूप (मधु) हर्ष कर उस शुक्र या ज्ञान को (दुदुहे) उत्पन्न करती हैं, (यत्) जिसको वह इन्द्र (उपह्वरे) भीतरी हृदय कोश में (सीम्) सब ओर से (विदत्) प्राप्त करता है ।

ईश्वर पक्ष में—ये गतिमान् तेजस्वी पियड (आशिरं) समस्त ब्रह्माण्ड के आश्रयरूप (मधु) शक्ति को उत्पन्न करते हैं जिसको वह इस ब्रह्माण्ड में धारण किये हैं ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१४६२] आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूपतः ।

२ ३ १ २ ३ १ २

२ ३ १ २

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन् परमज्या ऋचीषम ॥१॥

२ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१४६३] त्वं दाता प्रथमा राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत् ।

३ २ ३ १ २

२ २

३ २ ३ १ २

३ २

तुविद्युमनस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥२॥२

ऋ० ङ० १०। १-२

भा०—(१) हे विद्वान् पुरुषो ! (नः) हमारे (हव्यं) स्मरण करने स्तुति करने, और पुकारने, आश्रय करने योग्य (इन्द्रम्) उस परमेश्वर

को (विश्वासु समस्तु) समस्त आनन्द और उत्सवों में तथा परस्पर मेल
मिलाप करने के अवसरों पर (आभूपत) नाना वचनालंकारों से सुभू-
षित करो । हे (वृत्रहन्) विघ्नों के निवारक ! हे (परम) सबसे उत्कृष्ट
विजयशालि, हे (ऋचीपम) ऋचाओं द्वारा मनन करने योग्य परमात्मन् !
आप (नः) हमारे (सवनानि) यज्ञों और (ब्रह्माणि) वेद स्वाध्यायों एवं
ब्रतादि के अवसरों पर (उप) सदा समीप हृदय देश में विराजें । देखो
अवि० सं० [२६६] पृ० १३७ ।

(२) हे परमेश्वर ! (त्वं) आप (पृथसां) समस्त पदार्थों और
ज्ञानों के (प्रथमः) सबसे पहले (दाता) देने हारे (असि) हो और
(सत्यः) सत्यस्वरूप सच्चे, (ईशानकृत्) सामर्थ्य और प्रभुत्व के देने हारे
हो । (शवसः) बलस्वरूप (पुत्रस्य) पुरुषों की विघ्नों से रक्षा करने
हारे (महः) महान् (तुविद्युग्नस्य) बहुत धनेश्वर्यसम्पन्न आपके (युञ्ज्या)
सत्संगति को समाधि द्वारा हम (आवृणीमहे) प्राप्त करें ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ २ ३ ३ २ २

[१४६४] प्रत्नं पीयूषं पूष्यं यदुक्थ्यमहो गाहादिव आ निरधुत्तत ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २

इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन् ॥१॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

[१४६५] आर्दीं कश्चित्पश्यमानास आर्ध्वं वसु रुचा दिव्या अभ्य-

३ १ २ २ ३ १ २

नूषत् । दिवां न वारं रुचिता व्यूर्युते ॥२॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[१४६६] अथ यद्विमे पयमान रादसी इमा च विश्वा भुवनाभि

३ १ २ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

मज्जना । यूथं न नि ष्ठा वृषभो विराजसि ॥३॥३॥

ऋ० ६ । ११० । ८, ६, ६, ॥

१४९५—'दिवः पीयूषं', १४६६—'वारं न देवः' १४६७—'विश्वा भुवनेषु वि-

तिष्ठसे' इति ऋ० ।

भा०—(१) विद्वान् लोग (यत्) जब (प्रत्नं) सनातन अति उत्तम (पूर्वं) पूर्व पुरुषाओं से सेवित, अति पुरातन (उक्था) अति प्रशंसनीय (पीयूषं) अमृतस्वरूप ब्रह्मानन्द रस को (महतः) बड़े (गाहात्) अति गम्भीर (दिवः) दौलोक, मूर्धा स्थल या सहस्रदलकमल से (आ निरधुवत) साक्षात्कार द्वारा प्राप्त करते हैं तब वे (जायमानं) प्रकट होते हुए, साक्षात् ज्ञान का विषय होते हुए (इन्द्रं) आत्मा और परमात्मा की (सम् अस्वरन्) उत्तम रीति से स्तुति करते हैं ।

(२) जब (दिवः) प्रकाशस्वरूप आत्मा के (वारं) आवरण को (सविता न) सूर्य के समान समस्त जगत् का प्रेरक परमात्मा (वि ऊः) खोलता या हटा देता है (आत्) तब ही (केचित् दिव्या) प्रकाश में वर्तमान होकर भी कुछ एक (वसुरुचः) आत्मा के साधक या इन्द्रियादि उपकरणों के चमत्कारों को प्रेम करने वाले साधक (आप्यं) अपने प्राप्त करने योग्य बन्धुरूप (इम्) इस प्रभु को या समाधि से उत्पन्न आनन्द को ही (पश्यमानासः) देखते हुए उसकी (अभि अनूपत) स्तुति करते हैं ।

(३) (यूथेन) जिस प्रकार गौओं के गोल में (वृषभः) सांड खड़ा रहता और शोभा देता है उसी प्रकार (यद्) जब आप हे (पवमान) सबके प्रेरक ! प्रभो ! (इमे) इन (रोदसी) धौ और पृथिवी प्राण और आपन दोनों को और (इमा) इन (विश्वा) समस्त (भुवना) लोकों या इंन्द्रियमय शेष प्राणों के (मज्जना) बलपूर्वक (नि स्थ) भीतर व्याप्त होते ही तब (वि-राजति) आप विशेष रूप से शोभा को प्राप्त होते हैं ।

३ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २

[१४६७] इमसू पुत्वमस्माकं सर्नि गावन्न नव्यासम् ।

१ २ ३ २ ३ १ २

अग्ने देवंपु प्र वोचः ॥१॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
 [१४६८] विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ ।

३ २ ३ १ २

सद्यो दाशुपे चरसि ॥२॥

१ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१४६९] आ नो भज परमेष्वा वाजेपु मध्यमेपु ।

२ ३ २ ३ १ २

शिक्षा वस्वो अन्नमस्य ॥३॥४॥ ऋ० १ । २७ । ४, ६, १॥

भा०— (१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२८] पृ० १२ ।

(२) हे (चित्रभानो) उपास्य ! कान्तिसम्पन्न ! विचित्र रश्मियों से युक्त ! नाना प्रकार के सूर्यों के स्वामिन् ! प्रभो ! जिस प्रकार (सिन्धोः) विशाल नदी के (उपाके) समीप से (ऊर्मा) छोटी २ नहरें फाट ली जाती हैं, उसी प्रकार आप अपने विशाल विभूतिप्रवाह में से (दाशुपे) अपने आत्मसमर्पण करने हारे भक्त के प्रति (विभक्तासि) विविध प्रकार से नाना विभूतियां बांट देते हैं और (सद्यः) शीघ्र ही (चरसि) अभिमत आनन्दरस बहा देते हैं ।

(३) हे अग्ने ! (परमेपु) उत्कृष्ट (वाजेपु) ज्ञान और बलयुक्त पदार्थों में से (नः आ भज) हमें प्राप्त करा और (मध्यमेपु) मध्य कोटि के पदार्थों में से भी हमें प्राप्त करा और (अन्नमस्य) समीपतम (वस्वः) वास योग्य पदार्थों को भी (शिक्ष) प्रदान कर ।

३ २ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१५००] अहमिद्धि पितुः परि मेवामृतस्य जग्रद् ।

३ १ २ २

अहं सूर्य इन्द्राजनि ॥ १ ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

३ २

[१५०१] अहं प्रत्नेन जन्मना गिरः शुष्भामि कएवचत् ।

२ ३ ३ २ ३ २ ३ २

येनेन्द्रः शुष्ममिद्धे ॥ २ ॥

[१५०२] यं त्वामिन्द्र न तृष्टुवुर्कपयो ये च तुष्टुवुः ।

ममेद्वर्धस्व सुष्टुतः ॥ ३ ॥ ५ ॥ अ० ८ । ६ । १०-१२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [१५२] पृ० ८५ ।

(२) ऋषि का आत्मरूप से दर्शन है । मैं जीव (कणवत्) मेधावी विद्वान् पुरुष के समान (प्रत्नेन) अपने पूर्व के, सनातन (जन्मना) जन्म अर्थात् अपने स्वाभाविक रूप से ही (गिरः) नाना वेदस्तुति वाणियों को (शुग्भामि) प्रकट करता हूँ । (येन) जिससे (इन्द्रः) मेरा आत्मा (शुग्मं) आत्मिक बल को (इत्) ही (दधे) धारण करता है ।

(३) हे आत्मन् ! (ये) जो अज्ञानी लोग (त्वां) तुम्हको (न) नहीं (तुष्टुवुः) स्तुति करते और (ये च) जो (ऋषयः) आत्मसाक्षात्कार करने वाले मन्त्रदण्ड, ऋषिगण तथा गुरुशिष्य तथा ज्ञानी, जिज्ञासु जन् (त्वां तुष्टुवुः) तेरा यथार्थ वर्णन करते हैं उनसे (सु-स्तुतः) उत्तम रूप से स्तुतियों द्वारा अलंकृत होकर (मम इद्) मेरी ही स्तुतियों द्वारा मुझे (वर्धस्व) वृद्धि को प्राप्त करा ।

अर्थात् प्रत्येक जीव अपनी ही की हुई उपासना और प्रार्थना से बलवान् होता है । दूसरे की की, प्रार्थनोपासना उसके लिये निष्फल है ।

शक्ति प्रथमः खण्डः ।

—:०:—

[१५०३] अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत ।

ये देवत्राय आयुपुतेभिर्नो महया गिरः ॥ १ ॥ अग्नेदे नास्ति ।

१५०३—अग्नेदे (३ । २४ । ४) समानाक्षरसन्निवेशवतीयमू उपलभ्यते ।

“ अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्देवेभिर्महया गिरः । यज्ञेषु ये उ चायवः ॥ ”

१२ २२ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २
 [१५०४] प्र स त्रिंश्वेभिरग्निभिरग्निः स यस्य वाजिनः ।

१ २ ३ २ ३ २ ४ ३ २ ४ ३ १ २

तनये तोके अस्मदा सम्यङ् वाजैः परीवृतः ॥२॥ अग्नेवेनास्ति ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१५०५] त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्द्धय ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २२

त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥ ३ ॥ ॥ ६ ॥

श्रु० १० । १४१ । ६ ॥

भा०—(१) हे (सहस्कृत) बलपूर्वक, बड़ी तपस्या, ब्रह्मचर्य और समाधि बल से साक्षात्कृत (अग्ने) ज्ञानवन् ! तेजस्विन् ! परमात्मन् ! तू (विश्वेभिः) अन्य समस्त (अग्निभिः) अग्निरूप सूर्यादि पदार्थों और ज्ञानी योगियों-द्वारा (ब्रह्म) वेद ज्ञान का (जोषि) सब को सेवन कराता है । इस-लिये हे देव ! जो विद्वान् ज्ञानी पुरुष (देवत्रा) दिव्य गुणयुक्त, विद्वानों और जीवनयुक्त प्राणों के भीतर और (ये श्रायुपु) जो कर्मपरायण ज्ञानवान् मनुष्यों के भीतर हैं (तेभिः) उन द्वारा (नः) हमें (गिरः) वेदवाणियों का (महय) उपदेश प्रदान कर ।

(२) (यस्य) जिस (वाजिनः) ज्ञान और बल से सम्पन्न परमेश्वर की (विश्वेभिः) समस्त (अग्निभिः) अग्नि के समान तेजस्वी सूर्य आदि लोकों तथा विद्वानों से (प्र) प्रतिष्ठा होती है । (सः अग्निः) वह ही ज्ञानवान् होने से परम अग्नि है । और वही (सम्यङ्) उत्तम रीति से सर्वत्र पूजनीय होकर (वाजैः) ज्ञान और कर्म सामर्थ्यों और पेश्वर्यों से (परीवृतः) युक्त हुआ (अस्मत्) हमारे (तनये) पुत्र और (तोके) पौत्रों में भी (आ) पूजा को प्राप्त हो ।

(३) हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! तू अन्य (अग्निभिः) विद्वान्, तेजस्वी सूर्यादि लोकों और पुरुषों द्वारा (नः) हमारे (ब्रह्म) वेदज्ञान और (यज्ञं च) यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों और जीवन की (वर्द्धय) वृद्धि कर और

(नः) हमें (देवतातये) विद्वानों के प्रति दान, मान, सत्कार आदि पुण्य कार्य करने और (रायः दानाय) धन, -ऐश्वर्य आदि पदार्थ दान करने के लिये (चोदय) प्रेरणा कर ।

[१५०६] त्वं सोम प्रथमा वृक्तवर्हिषो महे वाजाय श्रवसे धियं दधुः ।

स त्वं ना वीर वीर्याय चोदय ॥ १ ॥

[१५०७] अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं न कश्चिज्जानपानमन्ति-

तम् । शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः ॥ २ ॥

[१५०८] अजीजनो अमृतमर्त्याय कर्मृतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुणः ।

सदा सरो वाजमच्छा सनिष्यदत् ॥ ३ ॥ ७ ॥

अ० ६ । ११० । ७, १, ४ ॥

भा०—(१) हे सोम ! सब के प्रेरक परमात्मन् ! (प्रथमाः) उत्कृष्ट, प्रथम श्रेणी के (वृक्तवर्हिषः) देहबन्धन को काटने हारे, मुक्त पुरुष वे हैं जो (महे) वड़े (वाजाय) ज्ञानस्वरूप (श्रवसे) यशस्वरूप महा-महिम तुझे प्राप्त करने के लिये (धियं) अपनी धारणावती बुद्धि, चित्तवृत्ति को (दधुः) स्थापित या स्थिर करते हैं । हे (वीर) सर्वशक्तिमन् ! (सः त्वं) वह तू (नः) हमें भी (वीर्याय) बल, सामर्थ्य, शक्ति प्राप्त करने के लिये (चोदय) प्रेरित कर, मार्ग दर्शा ।

(२) जिस प्रकार मानो कोई बुद्धिमान् पुरुष (कश्चित्) किसी (अचित्तम्) अक्षय (जनपानम्) मनुष्यों के जलपान-गृह को (भरमाणः न) पूर्ण करने की चेष्टा करता हुआ (गभस्त्योः) बाहुओं की (शर्याभिः) अंगुलियों से (उत्सं न) जल के निरन्तर निकलते स्रोत को काट लेता है उसी प्रकार हे (सोम) विद्वन् ! आप अपने (श्रवसा) ज्ञान-बल से

अक्षय (जनपानं) समस्तजनों को जलभण्डार के समान आनन्दरस-सागर को (भरमाणः) पूर्ण करते हुए, मंघ को वायु के समान (उत्सं) मूल निकास रूप ब्रह्म तत्व को (श्रवसा) गुरूपदेश, ज्ञान, योग्याभ्यास से (तत्तर्द्विथ) उद्भेद कर देते हो, तद्य उसे अध्यात्म रस प्राप्त होने लगता है ।

(३) हे (सोम) विद्वन् ! (मर्त्याय) मरणधर्मा इस जीव के लिये आप (अमृतं) अमृत्स्वरूप, अविनाशी (कम्) सुख को (अजीजनः) उत्पन्न करते हो और (अमृतस्य) अविनाशी (चारुणः) प्राप्त करने योग्य, उत्तम (ऋतस्य) सत्यज्ञानरूप वेद के उपदेश किये हुए (धर्मम्) धर्ममार्ग से (वाजं) ज्ञान और बल को (सनिष्यदत्) प्रदान करते हुए (सदा) नित्य (अच्छ) भली प्रकार (सरः) प्रकट होते हो ।

[१५०६] ए॒दुमिन्द्राय॑ सिञ्चत॒ पिवाति॑ सोम्यं मधु ।

प्र रात्रा॑सि चोद॒यते॑ महि॒त्वना ॥१॥

[१५१०] उ॒पो ह॑रीणां पति॑ राधः पृञ्चन्तम॒त्रवम् ।

नूनं॑ श्रुधि॒ स्तुवतो॑ अश्व॒स्य ॥ २ ॥

[१५१६] न ह्या॑ऽऽग पुरा च न जक्ष॑ वीर॒तरस्त्वत् ।

न की॑ राया नै॒वथा न॑ भन्दना ॥ ३ ॥ ८ ॥

श्र० ८ । २४ । १३-१५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [३८६] पृ० ।

(२) (राधः) आराधना योग्य ज्ञान या आशिलापित ऐश्वर्य को (पृञ्चन्तं) प्रदान करते हुए, उद्देश्य तक प्राप्त कराते हुए (हरीणां पतिम्) हरणशील इन्द्रिय आदि सूर्यों और विद्वानों के पालक परम आत्मा के

प्राप्ति (उप अवधम्-उ) अति समीप होकर मैं यह कह रहा हूँ कि (स्तु-
वतः) तेरा यथार्थस्वरूप वर्णन करने हारे (अश्वस्य) गतिशील,
कर्मफल के भोक्ता जीव आत्मा की प्रार्थना को (नूनं) निश्चय से (श्रुधि)
श्रवण कर ।

(३) (अङ्ग) हे परमेश्वर ! (त्वत्) तुझ से अधिक (वीरतरः)
सामर्थ्यवान् शक्तिमान् कोई (नहिं) नहीं है । (न च) और न (पुरा)
पूर्व कल्पों में भी (जज्ञे) उत्पन्न हुआ । और (नकिः) न कोई (राया)
ऐश्वर्य विभूति में तुझ से अधिक है और न हुआ, न होगा, और (न एवथा)
न तुझ से अधिक सर्वव्यापक सर्वरक्षक दूसरा है, न हुआ और न होगा,
(न भन्दना) न तुझ से अधिक कोई कल्याणकारी प्रशंसा और स्तुति का
प्राप्त ही है, और न हुआ है, न होगा ।

उ २ उ १ २ उ १२ २२
[१५१२] नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम् ।

१ २ उ १ २ उ १ २
पतिं वो अघ्न्यानां धेनूनामिपुध्यसि ॥ १ ॥ ६ ॥

अ० ८ । ६९ । २

भा०—(१) (वः) आप लोग (योयुवतीनां) कर्म का आदेश
करने हारी ऋचाओं के (नदं) उपदेश करने हारे और (ओदतीनां)
अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करने हारे वेद वाणियों के (नदं) उपदेश
और (अघ्न्यानां) कभी घात न होने हारी अविनाशी, नित्य (धेनूनां)
ज्ञानरस के पिलाने हारी वेदवाणियों के (पतिं) पालक प्रभु को
(इपुध्यसि) आश्रय करो और उसी से इष्ट फल प्राप्त कराने की
याचना करो ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१५१३] देवा वा द्रविणोदाः पूर्णां विनष्ट्वा सिचम् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

उद्धा सिञ्चध्वमुप वा पुणध्वमादिद्धा देव ओहते ॥१॥

२ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१५१४] तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसे वह्नि देवा अकृण्वत् ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

दध्नानि रत्नं विधत्ते सुवीर्यमग्निर्जनाय दाशुषे ॥२॥१०॥

ऋ० ७ । १६ । ११-१२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्त सं० [१५] पृ० २६ ।

(२) जो (अग्निः) ज्ञानवान् आचार्य, परमेश्वर (दाशुषे) दानशील, आत्मसमर्पक (विधत्ते) पारिचर्या करते हुए, शिष्य के समान उपासक को (सुवीर्यम्) उत्तम सामर्थ्ययुक्त (रत्नं) रमणयोग्य, ज्ञान और ऐश्वर्य को (दध्नानि) धारण कराता है (तं) उस (प्रचेतसे) उत्तम ज्ञानवान् परम पुरुष को (देवाः) विद्वान् पुरुष (अध्वरस्य) हिंसारहित ज्ञानयज्ञ का (होतारं) सम्पादक और (वह्निम्) कार्यनिर्वाहक (अकृण्वत्) नियत करते जानते, और मानते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१५१५] अदर्शि गातुविन्नमो यस्मिन् व्रतान्यादधुः ।

२ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्निन्नक्षन्तु नो गिरः ॥१॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१५१६] यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चर्कृत्यानि कृण्वतः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

सहस्रसां मधसानाविव त्मनाग्निधीभिर्नमस्यत ॥२॥

१ २ २ २ ३ २

[१५१७] प्र देवांदासां अग्नि० ॥३॥११॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अविक्त सं० [४७] पृ० ।

(२) (चक्रेत्यानि) समस्त जगत् के कर्तव्य कर्म (कृणवतः) कराने हारे (यस्मात्) जिससे (कृष्टयः) मनुष्य (रेजन्त) कांपते हैं, भय अनुभव करते हैं. (सहस्रसां) सहस्रों का दान देने हारे उस (अग्निम्) परमेश्वर को (मेघसातौ) ज्ञानबल और मेघा को प्राप्त करने के लिये (धीभिः) अपनी ध्यानधारणावाली बुद्धियों और कर्मों से (त्मना) अपने आत्मा द्वारा (नमस्यत) उपासना करो ।

(३) व्याख्या देखो अतिकल सं० [५१] पृ० २३ ।

[१५१८] अग्नि आयुषि पवसे० ॥१॥

[१५१६] अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ।

तमीमहे महागयम् ॥२॥

[१५२०] अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम् ।

दधद्रयि मयि पोषम् ॥३॥१२॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचि० सं० [६८७] पृ० ३१६ ।

(२) (अग्निः) ज्ञानदान, प्रकाशस्वरूप परमात्मा (ऋषिः) स्वतः सब मन्त्रों का द्रष्टा, प्रकाशक, सर्वव्यापक और समस्त संसार का द्रष्टा है, वही (पवमानः) सबका पवित्रकारक ज्योतिष्मान् और सबका प्रेरक होने से (पाञ्चजन्यः) पांचों जन—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निपाद, या देव, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा, सर्प और पितर या ५ इन्द्रियों को समानरूप से हितकारी (पुरोहितः) समस्त कार्यों के पूर्व, हृदय में और समस्त विश्व सृष्टि के पूर्व, जगत् में साक्षी रूप से स्थित है, (तं) उस (महागयं) महान् प्राणों के प्राण, अथवा बड़े २ देवादि से भी स्तुति किये गये महान्, ज्ञानवान्, परम उपदेष्टा, विशाल कीर्ति वाले परमात्मा से हम (ईमहे) याचना करें ।

(३) हे अग्ने ! (स्वपाः) शोभन प्रज्ञा और कर्म से सम्पन्न
रमात्मन् ! आप (अस्मे) हमें (वर्चः) तेज (पवस्व) प्राप्त कराओ
और (मयि) मुझ में (रयिम्) प्राण, वज्र और (पोषं) पुष्टि (दधत्)
धारण कराओ ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१५२१] अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्या ।

२ ३ १ २ ३ १ २

आ देवान्वाक्षि यक्षि च ॥१॥

१ २

३ १ २

३ १ २

[१५२२] तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वर्दृशन् ।

३ २ ४

३ १ २

देवां आ वीतये वह ॥२॥

३ १ २

३ २ ३ १ २

[१५२३] वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिध्रीमहि ।

१ २ ३ १ २

३ २

अग्ने वृहन्तमध्वरे ॥३॥१३॥ अ० ५ । २६ । १-३॥

भा०—(१) हे अग्ने ! (पावक) सबको पवित्र करने हारे ! हे
(देव) सब के प्रकाशक ! और स्वयंप्रकाश, देव ! परमेश्वर ! (रोचिषा)
अपनी दीप्तिस्वरूप (मन्द्रया) आनन्ददायक (जिह्या) दान प्रतिदान
करने की शक्ति से (देवान्) दिव्य पदार्थ, जल आदि पंचभूतों को और
ज्ञानमय दीप्ति से विद्वानों को और आर्कषण से समस्त ब्रह्माण्ड के सूर्यादि
लोकों को (आवाक्षि) आवहन करते, उनका धारण करते (यक्षि च)
संगत करते, और व्यवस्थित रखते हैं ।

(२) हे (चित्रभानो) नाना विध कान्तियुक्त परमात्मन् ! हे (घृतस्नो)
समस्त प्रकाशमान पदार्थों के प्रेरक ! (तं) उस महान् आत्मा (स्वर्दृशं) सबके
दृष्ट, या स्वः अर्थात् प्रकाशमय और सुखकारक चक्षु से सम्पन्न, या
मोक्षमार्ग को दर्शाने हारे आपको (हमहे) प्रार्थना करते हैं कि (देवान्)
हमारे दिव्य गुणयुक्त इन्द्रियों को और वसी प्रकार ज्ञान कराने हारे विद्वान्

पुरुषों और उपकारक दिव्य पदार्थों को (वीतये) उत्तम ज्ञान, तेज, और सुख प्राप्ति के लिये (आ वह) प्राप्त कराओ ।

(३) हे (कवे) समस्त संसार के पदार्थों के मर्म तक को देखने हारे अन्तर्यामिन् ! हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! (वीतिहोत्रं) यज्ञों में व्यापक (द्युमन्तं) प्रकाशमान (बृहन्त त्वा) सब से महान् आपको ही हम (अध्वरे) हिंसा रहित ज्ञान और कर्ममय यज्ञ में (समिधीमहिः) प्रदीप्त करते हैं ।

इति तृतीयः खण्डः ।

— 0 —

१ २ ३ १ २ ३ १ २
[१५२४] अवा नो अग्ने ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि ।

१ २ ३ १ २
विश्वासु धीषु वन्द्य ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१५२५] आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम् ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
विश्वासु पृत्सु दुष्टरम् ॥२॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[१५२६] आ नो अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम् ।

३ १ २ ३ १ २

मार्डीकं धेहि जीवसे ॥३॥ १४॥ अ० १ । ७६ । ७-३॥

भा०—(१) हे (अग्ने) परमात्मन् ! हे (वन्द्य) वन्दना करने योग्य परमात्मन् ! आप (गायत्रस्य) प्राणों के प्राण करने के साधन शरीर में, (प्रभर्मणि) उत्तम रीति से भरण पोषण करने के कार्य में (ऊतिभिः), अपने रक्षा साधनों से (नः) हमारी (विश्वासु) समस्त (धीषु) कार्यों से (अत्र) रक्षा करें ।

१५२५—पृतनाशब्दस्य पृदादेशः । पदन्तो० इति [पा० ६ । १ । ६३]

सूत्रे मांस पृत्सुनूनामुपसंख्यानमिति वार्तिकम् । पृतनेति मनुष्यनाम

[नि० २ । ३] संग्रामनाम च [नि० २ । १७]

(२) हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! आप (नः) हमारे लिये (वरेण्यं) सब से श्रेष्ठ (सत्रासाहं) सब विपत्तियों को दूर करने हारे (रयिं) बल और धन (आभर) प्राप्त करावें जो (विश्वासु) सब (पृथु) मनुष्यों में या संप्रामों में (दुस्तरं) दुस्तर अर्थात् जिसका कोई मुकाबला न कर सके और न समाप्त कर सके ऐसे हो ।

(३) हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! आप (नः) हमें (जीवसे) जीवन के निमित्त (विश्वायुपोपसं) समस्त मनुष्यों के पालन पोषण में समर्थ (माहीकं) सुख, आरोग्य करने हारे (सुचेतुना) उत्तम ज्ञान सहित (रयिं) धन और प्राणबल (धोहि) दें ।

[१५२७] अग्निं हिन्वन्तु ना रियः ससिमाशुभिवाजिषु ।

तेन जेष्य धनं धनम् ॥ १ ॥

[१५२८] यया गा आकरामहे सनयाग्न तवात्या ।

तां ना हिन्व मघत्तये ॥ २ ॥

[१५२९] आग्ने स्थूरं रयिं भर पृथु गोमन्तमश्विनम् ।

अङ्घ्रि खं वत्तया पविम् ॥ ३ ॥

[१५३०] अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि ।

दधज्ज्यातिर्जेनेभ्यः ॥ ४ ॥

[१५३१] अग्ने कतुविशामसि प्रेषुः श्रेष्ठ उपस्थसत् ।

वाधा स्तोत्र वयो दधत् ॥५॥१५॥ ऋ० १०।१५६। १-५

भा०—(१) (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों, कर्मों और स्तुतियाँ (अग्निं) ज्ञानवान् पुरुष, या आत्मा या परमात्मा को (वाजिषु) संग्रामों में (आशु ससिम् हव) शीघ्रगामी, अश्व के समान (हिन्वन्तु) प्रेरणा करें (तेन) उससे हम (धनं धनं) बहुत सा धन (जेषम) विजय करें, प्राप्त करें ।

(२) हे (अग्ने) प्रभो ! (यथा) जिस (तव) तेरी (ऊत्या) रक्षा ज्ञान और (सेवया) सेवा से (गाः) वाणियों, रश्मियों और गौओं को (आकरामहै) साक्षात् प्राप्त करें (तां) उस अपनी शक्ति को (नः) हमें (मघत्तये) धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये (हिन्व) प्रेरित कर ।

(३) हे (अग्ने) ज्ञानवान् ! तू हमारे पास (पृथु) खूब विस्तृत (गोमन्तं) गौओं और (अधिनं) अधों से युक्त तथा ज्ञान और कर्मेन्द्रिय से सम्पन्न (स्थूरं) स्थिर (रयिं) प्राण और धन को (आभर) प्राप्त करा । (खं^१) सुख को (अग्धि) हमारे लिये प्रकाशित कर और (पविम्^२) पापनाशक पावकरूप यज्ञ, ज्ञानवज्र या ज्ञानप्रवर्तक वाणी को (वर्त्तय) उपदेश कर, उसका प्रयोग कर ।

‘ खं ’—यदेव खं तदेव कं यदेव कं तदेव खम्, छान्दोग्य उप० पवि-
रिति वाग्वज्रयज्ञादिनामसु पठितः

(४) हे (अग्ने) परमात्मन् ! आप (नक्षत्रम्) सदा गतिशील, या कभी अपने मार्ग से द्युत न होने वाले, नक्षत्रस्वरूप (सूर्यं) सूर्य को (दिवि) द्यौलोक में (आ रोहयः) स्थापित करते हैं कि वह (जनेभ्यः) सब उत्पन्न होने हारे लोकों और प्राणियों को (ज्योतिः) प्रकाश (दधत्) प्रदान करे ।

(५) (अग्ने) परमात्मन् (विशं) समस्त प्राणियों को आप (केतुः) ज्ञान देने हारे, (प्रेषः) सब से अधिक प्रिय, और सब से (श्रेष्ठः) उत्तम होकर (उपस्थसत्) सब के समीपतम हृदयदेश में विराजमान हो ।

आप ही (स्तोत्रे) स्तुति करने हारे विद्वान् पुरुष को (बोध) ज्ञान देते हैं और आप ही (वयः) अन्न और जीवन दोनों को (दधत्) धारण कराते हैं ।

[१५३२] ^{३ २ ३ २ ३ २ ३ २ २ २ ३ २ ३} अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पांतः पृथिव्या अयम् ।

^{३ १ २ २} अपां रेतोसि जिन्वति ॥ १ ॥

[१५३३] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ २} ईशिपे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वःपतिः ।

^{३ २ ३ २ ३ १ २} स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ २ ॥

[१५३४] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २} उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा आजन्त ईरते ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} तव ज्याताप्यचयः ॥३॥१६॥ अ० ८ । २५ । १६, १८, १७ ॥

भा०—(१) (अग्निः) सब को छोड़े ले जाने वाला, सब का ज्ञानदाता ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मा (मूर्धा) सच का मूर्धस्थान, सब देवों में शिरोमणि, (दिवः) द्यौलोक या सूर्य आदि दिव्य पदार्थों से भी (ककुत्) श्रेष्ठ, उनसे भी ऊंचा, (पृथिव्याः) पृथिवी का भी (पतिः) पालक है । वही (अपां) सब लोकों के (रेतोसि) बीज रूप कारण सत्ताओं का (जिन्वति) शरीर आदि में प्रेरित कर उनको यथासमय जीवन प्रदान करता है ।

(२) हे (अग्ने) परमात्मन् ! आप (स्वःपतिः) समस्त मोक्ष के पालक हैं । आप ही (दात्रस्य) दान देने योग्य और (वार्यस्य) वरण करने योग्य विभूति के भी (ईशिपे) प्रभु हैं, अतः (तव) तेरी (शर्मणि) शरण में रहकर मैं (तव) तेरे (स्तोता) सत्य गुणों का वर्णन करने हारा (स्याम्) रहूँ ।


(३) हे अग्ने ! (ते) तेरी (शुक्राः) कान्तिमान् (शुचयः) कृपित्वं (आजन्तः) सब को प्रकाशित करती हुई स्वयं (त्वईरते) उठ

रही हैं और (अर्चयः) ये सब कान्तियां भी (तव) तेरी ही (ज्योतीषि)
जगाईं ज्योतियां हैं ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

इति सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोर्धः समाप्तः ॥

इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥



अथ पंचदशोऽध्यायः ।



अथ सप्तम प्रपाठकस्य द्वितीयोर्धः ।

श्रुतिः—१, २१ गीतमो राहूगणः । २, ६ विश्वामित्रः । ३ विरूप आंगिरसः ।
४, ६ भर्गः प्रागाथः । ५ प्रितः । ३ उशनाः काव्यः । ८ सुदीतिपुरुमीळ्हौ तयो-
र्चान्यतरः । १० सोभरिः काण्वः । १२ गोपवन आश्रयः । १३ भरद्वाजो वार्हस्पत्यो
चीतहृद्यो वा । १४ प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको वार्हस्पत्यः, अथर्वाग्नी गृहपति
यविर्धौ सवृत्तौ तयोर्चान्यतरः ॥ अग्निदेवता । छन्दः—१—काकुभम् । २२
उष्णिक् । २२ धनुष्टुप् प्रथमस्य, गायत्री चरमयोः । १३ जगती ॥ स्वरः—१—३,
६, ६, १५ पङ्क्तः । ४, ७, ८, १० मध्यमः । ५ धैवतः । ११ ऋषभः ।
१२ गान्धरः प्रथमस्य, पङ्क्तश्चरमयोः । १३ निपातः क्ष ॥

^{१ २ ३ ४ २ २ ३ २ १ २ ३ २ २}
[१५३५] कस्त जाभिर्जनानामग्ने का दाश्वध्वरः ।

^{२ ३ १ २ ३ २}
का ह कस्मिन्नलि श्रितः ॥१॥

^{२ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २}
[१५३६] त्वं जाभिर्जनानामग्ने मित्रा अलि प्रियः ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २}
सखा सखिभ्य ईड्यः ॥२॥

^{१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २}
[१५३७] यजा नो मित्रावरुणौ यजा देवा क्रतुं बृहत् ।

^{२ ३ २ ३ १ २ २}
अग्ने यक्षि स्वं दमम् ॥३॥१॥ अ० १। ७५। १-३ ॥

भा०—(१) हे अग्ने ! (जनानां) मनुष्यों में से (तं) तेरा (कः) कौन (जामिः) बन्धु है ? अर्थात् कोई नहीं । तेरे लिये (कः) कौन (दाशवध्वरः) दानशील, अहिंसा रहित यज्ञ करता है ? (कः ह) हे हे अग्ने ! तुम कौन हो, (कार्स्मिन्) और तुम किस में (श्रितः) आश्रय किये (असि) हो ? अर्थात् तुम्हारा सब कुछ अश्रेय है ।

(२) (त्वे) आप (जनानां) सब उत्पन्न होने हारे प्राणियों के (जामिः) उत्पादक और बन्धु हो और (प्रियः) प्रिय (मित्र) स्नेही सुहृद् (असि) हो । (सखिभ्यः) समान आश्रयान अर्थात् नाम वाले भक्त प्रेमी, जीवगण के लिये (सखा) उनके सुहृद् होकर भी उनके लिये (ईडयः) उपासना और स्तुति करने योग्य हो ।

(३) हे (अग्ने) प्रभो ! तू (नः) हमारे (मित्रावरुणौ) जैसे मित्र जन और पापनिवारक गुरु उपदेष्टा तथा प्राण और अपान दोनों को (यज) बल और ज्ञान प्रदान कर । और हमारे (देवान्) इन्द्रियों और विद्वानों को (बृहत्) बड़ा भारी (ऋतं) सत्य ज्ञान (यज) प्रदान कर । और हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप (स्वं) अपने (दमं) दमन करने योग्य समस्त संसाररूप गृह को अथवा (दमं=मदं) अपना परम आनन्द और (यन्ति) देता है ।

[१५३८] ^{३ १ २ ३ ३ २ ३ २ २ ३ २} ईडेन्यो नमस्यास्तिरस्तमसि दशतः ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} समग्निरिध्यते वृषा ॥१॥

[१५३९] ^{१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} वृषा अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाइनः

^{१ ३ १ २} तं हविष्मन्त ईडते ॥२॥

[१५४०] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमद्वि ।

^{२ ३ १ २ ३ २} अग्ने दीद्यते बृहत् ॥३॥ ३० ३ । २७ । १३-१५ ॥

भा०—(१) जिस प्रकार लौकिक अग्नि अन्धकारों को दूर हटा कर स्वयं दिखलाई देता है और अन्धकार में राहगीर उसी की और भुके चले आते हैं एवं अन्धेरे में भटकते लोग उसी को सराहते हैं उसी प्रकार (अग्निः) प्रकाश और ज्ञान से युक्त (तमांसि) समस्त अज्ञानरूप अन्धकारों को (तिरः) दूर करने हारा परमात्मा और आचार्य (दर्शतः) अवश्य नित्य दर्शन करने योग्य, और सब मार्गों का दर्शाने वाला (ईडेन्यः) स्तुति उपासना करने योग्य और (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य है । (अग्निः) वंही ज्ञानस्वरूप (वृषा) सब सुखों का वर्षक, परमात्मा तथा आचार्य श्रेष्ठ होने के कारण (इध्यते) हृदय में ज्ञानरूप से प्रकाशित होता है ।

(२) (वृषः) सब सुखों के देने वाला, आत्मरूप (अग्निः) अग्नि, (देववाहनः) इन्द्रियों को वहन करने हारा (अश्वोः न) अश्व अर्थात् भोक्ता स्वामी के समान जाना जाकर (समिध्यते) युद्धमें विजिगीषु के अश्व के समान योगाङ्गों द्वारा और भी तेजस्वी, तथा प्रज्वलित किया जाता है । (हविष्मन्तः) स्तुति उपासना करने हारे अथवा चरु आदि से युक्त याज्ञिक लोम भी (तं) उसकी ही (ईडते) स्तुति करते हैं ।

(३) हे (वृषन्) सब सुखों और ज्ञानों के वर्षक (त्वा) तुरू (वृषणं) सब से बलवान् (दीद्यतं) चेतनरूप से और तेजस्वरूप सकल ब्रह्माण्ड को प्रकाशमान करने हारे (वृहत्) महान् आत्मा परमेश्वर को (वयं) हम (समिधिमहि) अपने हृदय में उच्चम रीति से प्रज्वलित करें ।

[१५४१] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} उक्तं वृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः ।

^{१ २ ३ १ २} अग्ने शुक्रास ईरते ॥२॥

[१५४२] ^{१ २ ३ १ २ १ २ ३ १ २} उप त्वा जुह्वाऽरे मम घृताचार्यन्तु हर्षतः ।

^{१ २ ३ १ २} अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥ २ ॥

[१५४३] मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम् ।

अग्निमीड स उ श्रवत् ॥३॥३॥ ऋ० ७ । ४४ । ४-६ ॥

भा०—हे अग्ने ! (समिधानस्य) उत्तम रीति से प्रज्वलित, प्रदीप्त (ते) तेरी (शुक्रासः) कान्तिमान् तेजोमय, (घृहन्तः) बड़ी र (अर्चयः) सूर्य आदि ज्वालाएं (उद् ईरते) उठ रही हैं ऊर्ध्व आकाश में गति कर रही हैं ।

(२) हे (हर्यत) सब को अपने में ही आहरण कर लेने हारे स्वर्गके प्रलयकारक परमेश्वर ! (मम) मेरी (घृताची) घृत, अर्थात् कान्ति या तेज को धारण करने हारी (जुह्वः) दान प्रतिदान करने वाली चमसरूप इन्द्रियां (त्वा) तेरे प्रति ही (उप यन्तु) गति करें । हे (अग्ने) प्रकाशक (नः) हमारे (हव्या) स्तुतियों और प्रदान करने योग्य समस्त स्वरूप पदार्थों को आप ही (जुपस्व) स्विकार करो ।

(३) मैं (मन्द्रं) आनन्दस्वरूप (होतारं) समस्त ब्रह्माण्ड यज्ञ के होता सम्पादक (ऋत्विजम्) ऋतुओं, प्राणों तथा सत्य ज्ञानियों द्वारा उपासना करने योग्य (चित्रभानुम्) नाना प्रकार के चित्र विचित्र कान्तिमान् सूर्यों से अलंकृत, (विभावसुम्) कान्तिरूप धन से सम्पन्न, विशेष दीप्ति से समस्त जीवों और लोकों का वास देने हारे उस परमेश्वररूप (अग्निम्) ज्ञान प्रकाशक की (ईडे) स्तुति करता हूँ । (स उ) वही सब स्तुतियों को (श्रवत्) श्रवण करता है ।

[१५४४] पाहि नो अग्न एकया पाहूऽऽत द्वितीयया ।

पाहि गीभिस्त्रिस्तुभिरुजास्पते पाह चतसृभिर्वसो ॥१॥

[१५४५] पाहि विश्वस्माद्दक्षसो अरावृणः प्र स्म वाजेषु नोऽव ।

त्वामिद्धि नदिष्ठं दवतातय आपि नक्षामह वृध ॥२॥४॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्त सं० [३६] पृ० १५ ।

(२) हे (अग्ने) तेजस्विन् ! आप (विश्वस्मात्) सब प्रकार के (अराव्याः) जीवन, धन, स्वत्व, अधिकार और सुख आदि न देने हारे कंजूस, पर-स्वत्वापहारी (रक्षसः) दुष्ट स्वभाव, राक्षस पुरुष से (पाहि) रक्षा करे और (नः) हमारी (वाजेषु) संग्रामों में भी (प्र अत्र स्म) उत्तम रीति से रक्षा करे ; (हि) क्योंकि (स्वाम् इत्) तुम्हको ही (देवतातये) विद्वानों की और अपनी (वृधे) वृद्धि के लिये (नेदिष्ठं) सबसे समीपतम (घ्रापिम्) अपना बन्धु जानकर (नचामहे) तेरे शरण आते हैं, तुम्हें प्राप्त होते हैं ।

इति प्रथमः खण्डः ।

—:0:—

[१५४६] इतो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दत्ताय सुपुमाँ अदर्शि ।
 ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

चिकिद्धिभाति भासा बृहता सिन्धीमेति रुशतमिपाजन् ॥१॥

३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[१५४७] कृष्णा यदेनीमभिवर्षसाभूज्जनयन्योपां बृहतः पितुर्जाम् ।

३ २ ३ १ २ २ ३ २ २ १ २ २ ३ १ २ २

अर्ध्वम्भानुं सूर्यस्य स्तभायन् दिवो वसुभिररनिर्विभाति ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१५४८] भद्रो भद्रया सचमान आगात् स्वस्तरं जारो अभ्येति

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १

पश्चात् । सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्नुशद्धिर्वर्षां रभिराम

मस्थात् ॥ ३ ॥ ५ ॥ अ० १० । ३ । १-३ ॥

भा०—(१) हे (राजन्) सुप्रकाशमान परमारमन् ! आप (इनः)

सब के स्वामी (अरतिः) सब के भीतर व्यापक हैं । आप ही (समिद्धः)

खूब प्रकाशमान होकर (रौद्रः) दुष्टों को हलाने हारे, पापों के भयंकर

दण्डविधाता होकर भी (दत्ताय) जीव के लिये (सुपुमान्) उत्तम

१५४६—१. सुष्टु स्यते इति सुष्टुपुः सोमस्तद्भान् । ओपध्यास्मना स्थितोऽशुरिति

सायणः ।

आनन्द रस के उत्पादक और उत्तम जन्म देने हारे, सौम्य (अदर्शि) दिखार्ह देते हैं । वह आप परमेश्वर (चिकिद्) सर्वज्ञ होकर (बृहता) बड़े भारी (भासा) ज्ञानमय प्रकाश और भौतिक तेजसे सर्वत्र प्रकाशमान् हो रहे हैं । वही आप (रुशतीम्) रुचिर कान्तिवाली उषारूप कान्ति को (अपभ्रजन्) दूर कर पुनः (असिक्ती^२) कृष्यवर्णा रात्रि को को (एति) प्राप्त कराते हैं । अर्थात् जिस प्रकार अग्नि की शिखा दिन को छोड़ कर रात्रि में प्रकाश काती है उसी प्रकार आप भी ज्ञानमय स्थानों के अतिरिक्त अज्ञानमय दशा में भी प्रकाश करते हैं और या (रुशतीं) कान्तिमय संसार की जाग्रत् अवस्था को दूर कर (असिक्तीम्) रात्रिरूप प्रलय दशा में बदल देते हैं । और इसी प्रकार रात्रि या प्रलय दशा को आप ही पुनः उषा अर्थात् सर्गदशा में बदलते हैं ।

(२) पूर्वोक्त मन्त्र में कहा वह अग्निस्वरूप परमेश्वर (अरतिः) सर्वथा एक (यद्) जब (कृष्यां) कृष्यवर्ण या सब को कर्षण करने हारी, प्रलय करने हारी (एनी^३) ममनशीला कालगति को (वर्षसा) अपने रूप से (अभिभून्) वश कर लेता है, व्याप लेता है और (बृहतः) बड़े भारी (पितुः) पालन करने हारे, पिता परमात्मा की (जां) प्रजननशील (योषां) कुटुम्ब बसानेहारी स्त्री के समान समस्त पृच्छभूतों का परिपाक करके नाना प्रकार से उनको मिलाने हारी, सर्गकारिणी शक्ति को (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ, अथवा (योषां^४) हिंसाकारक प्रलय

२. असिक्ती अशुक्ला असिता (नि० ६ । २६) । रात्रिनाम च (निर्व०)

३. एनीशति नदीनाम् । ईण् गतौ (अशदिः) इत्यत औणादिको निः (उ० ४ ४८) । नदीत्रचनोऽन्तोदात्तोऽन्यत्राधुदात्त इति माथवः । अत्र आधुदात्त एवेति नात्र नदीग्रहणम् ।

४. योषा—यूप हिंसायाम् जूप च (स्वादिः) । यौतेर्वा मिश्रणामिश्रणार्थस्य । अपि वा सामान्या योषा स्त्री, जुगुप्सार्थस्य यावयतेः (चुरा०)

कारिणी शक्ति को भी (पितुः जां जनयन्) पालक की उत्पादिका शक्ति में बदलता हुआ, (दिवः) इस द्यौलोक ब्रह्माण्ड के (वसुभिः) वास देने हारे लोकों के सहित (सूर्यस्य) सब के प्ररेक सूर्य के (भानुं) दीप्तिमय पिंड को (ऊर्ध्वम्) ऊपर आकाश में (स्तभायन्) स्थापित करता हुआ (विं भाति) आप सब से अधिक प्रकाशमान होता है ।

(३) जिस प्रकार रात्रि और उपा के दृष्टान्त से प्रलय और सर्ग का वर्णन किया है उसी प्रकार इस मन्त्र से सूर्य और उपा के दृष्टान्त से पुनः सर्गशक्ति और परमात्मा के सम्बन्ध को दर्शाते हैं । (भद्रः) कल्याण और सुख का देनेहारा सब के भजन करने योग्य परमात्मा (भद्रया) समस्त संसार को मोक्ष और भोग द्वारा सुख के सम्पादन करनेहारी प्रकृति से (सच्चमानः) युक्त होकर (आगात्) प्रकट हुआ । जिस प्रकार (जारः) समस्त संसार को जरण करने द्वारा, ब्रह्मा की समस्त आयु को नाश करने द्वारा, रूद्ररूप वही परमात्मा (पश्चात्) पुनः (स्वसारं) स्वयं सरण करने हारी, स्वतः सृष्टिरूप में विकार को प्राप्त होने हारी प्रकृति को (अभि एति) पूर्णरूप से व्याप लेता है, वह (आग्निः) प्रकाशमान, देदीप्यमान परमात्मा (सुप्रकेतैः) उत्तम विज्ञान-मय (द्युभिः) नियमों से (वितिष्ठन्) नाना रूप से व्याप्त होकर (उशङ्गिः) मनोहर (वरुणैः) रूपों से (रामं) रमण करने योग्य इस जगत् को (अभि अस्थात्) प्रकट करता है, चलाता है, व्यवस्थित करता है ।

[१५४६] कया॒ ते अग्ने॑ अङ्गि॒र ऊर्जा॑ नपादुपस्तुतिम् ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २
वराय॑ देव॒ मन्य॑वे ॥ १ ॥

[१५५०] दाश॑म कस्य॒ भन॑त्ता यज्ञ॒स्य सह॑मो य हो ।

३ २ ३ १ २
कदु॑वाच इदं नमः ॥ २ ॥

[१५५१] अग्रा त्वं हि नस्करा विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितीः ।

वाजद्रविणसो गिरः ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० ८ । ८४ । ४-६ ॥

भा०—(१) हे (श्रीगिरः^१) सर्वव्यापक ! सर्वप्रकाशक, तेजस्विन् सव में बल, प्राण और रसरूप में विद्यमान ! (अग्ने) ज्ञान और प्रकाश-मान् ! हे (ऊजानपात्) बल के भण्डार ! हे देव ! (वराय) सबसे श्रेष्ठ एवं वरण करने योग्य (मन्यवे) ज्ञानस्वरूप एवं मन्युस्वरूप, सब के मनन करने योग्य (तं) तेरी (क्या) किस वाणी से हम उपस्तुति (दाशेम) स्तुति करें ।

(२) हे (सहस्रः यहो^२) बल और सहनशीलता से प्राप्त करने और स्मरण करने योग्य परमात्मन् ! (कस्य) किस (यज्ञस्य) आत्मा को (नमसा) मन या अन्तःकरण से (दाशेम) आपके समर्पण करें । (इदं) यह (नमः) नमस्कार (क्व) किस विध या किस २ समय (वीचं) उच्चारण करें, अर्थात् मन से इस आत्मा को तो दे ही रखना है और क्या २ दें । और सदा ही तो आपका स्मरण करते हैं, और हम कब २ करें ।

(३) (अध) और हे परमात्मन् ! (हि) निश्चय से (नः) हमारे लिये (त्वं) आपने (नः) हमारी (सुक्षितीः) उत्तम २ निवासभूमियों और (वाजद्रविणसः) ज्ञान को बढ़ाने वाली, ज्ञानसम्पन्न (गिरः) इन वेदमयी वाणियों का (अस्मभ्यं हि) हमारे ही लिये (करः) बनाते, प्रकट करते, उपदेश करते हो ।

१५४८ १. अंगिराः—अगारवंगिराः (अगारा अंकना अन्वनाः) । (नि० ३ ।

३ । ५) अगानां खेष रसः, इति ब्राह्मणम् ।

२. यदुरित्यपत्यनामसु पठितः । यदुर्यातिहर्वयतेश्चौरादिकात्कुप्रत्यये मृग-
द्यादित्वान्निपातनम् । वातश्चाहूतश्चेति माधवः ।

२३ ५ २३. २ ३ १ २
 [१५५२] अग्ने आयाह्नाग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।

५२ ५५ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मता यजिष्ठं बर्हिंरासदे ॥१॥
 २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[१५५३] अच्छा हि त्वा सहस्रः सूनो अङ्गिरः सुचश्चरन्त्यध्वरे ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
 ऊर्जा नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं यंक्षुपु पूर्व्यम् ॥२॥ ७ ॥

अ० ८। १८-१, २ ॥

भा०—(१) हे अग्ने ! परमात्मन् ! और हे आत्मन् ! तू (अग्निभिः) प्रकाशक विद्वानों और प्राणों के साथ (आयाहि) प्राप्त हो । इस ब्रह्माण्ड और पियड में अपनी शक्ति का दान-आदान करने हारे (त्वां) तुझ को हम (होतारं) अग्ना होतृस्वरूप शक्ति और सुखों का दाता (वृणीमहे) वरण करते हैं । (यजिष्ठं) सबसे श्रेष्ठ यज्ञ और दान करने हारे (त्वां) तुझ को ज्योतिष्मती प्रज्ञा से (बर्हिपि) इस हृदयकाश में (आसदे) प्राप्त करके (अनक्तु^१) ज्ञान करें तुझे पहिचानें और अधिक प्रदास हों या तुझ में व्याप्त हो जायें ।

(२) हे (सहस्रः सूनो) बल, तपस्या द्वारा अभिसवन, निष्पादन अर्थात् उपासना और ज्ञान करने योग्य ! हे (अंगिरः) सबके प्रकाशक और स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! अथवा अंगों २ में रसस्वरूप होकर विराजमान आत्मन् ! (त्वां) तुझको (अच्छ) प्राप्त करने के लिये (हि) ही (अध्वरे) यज्ञ में जिस प्रकार (सुचः) यज्ञ के चमत्कार पात्र अग्नि के प्रति जात हैं उसी प्रकार (अध्वरे) हिंसा रहित जीवनयज्ञ सर्ग-प्रतिसर्ग स्वरूप ब्रह्माण्ड में (सुचः^२) सवण अर्थात् गति करने हारे पञ्चभूत और देह

१५५२—१. अवनक्तु, अञ्जल्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिपु [रूपादिः]

२. सुवः कः, चिकूच । सुवः सक् इत्येते सुधातो रूपे । सुगतौ भ्वादिः।

में प्राण और इन्द्रियगण (चरन्ति) विचरण करते हैं (यज्ञेषु) सब दान परोपकार और यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्यों में या सब आत्माओं में (पूष्यम्) सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूर्व विद्यमान एवं पूर्णस्वरूप (ऊर्जः नपातं) रस या बल से आत्मा को पालन करने हारे (घृतकेशं) दीप्तिरूप किरणों से युक्त आप (अग्निम्) ज्ञानरूप परमेश्वर को (इमहे) हम याचना करते और आपकी शरण आते हैं ।

१ २ ३ १ ३ ३ १ २ ३ २
[१५५४] अचछा नः शीरशोचिपं गिरं यन्तु दर्शनम् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
अचछा यज्ञासां नमसा पुरुवसुं पुरुप्रशस्तमृतये ॥ १ ॥
३ २ ३ १ २ २ २ १ २ ३ २ ३ १ २

[१५५५] अग्निं भून्तु सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम् ।

३ २ ३ ३ २ ३ २ १ २ ३ २
द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्वाम् होता मन्द्रतमो निशि ॥ २ ॥ ८ ॥
क्र० ७ । ७१ । १०, ११ ॥

भा०—(१) (नः) हमारी (गिरः) उच्चारण की हुई वेदवाणियों स्तुतियां (दर्शनम्) ज्ञानदृष्टि से दर्शनीय (शीरशोचिपं) अग्नि के समान देदीप्यमान कान्तियुक्त (पुरुवसुं) समस्त प्रजाओं और इन्द्रियों को वास देने हारे, उनमें बसे या बहुत ऐश्वर्यों के स्वामी (पुरुप्रशस्तं) सबसे श्रेष्ठ या प्रजाओं द्वारा कीर्तित उस उत्तमश्लोक परमात्मास्वरूप अग्नि को (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (यन्तु) प्राप्त हों । (यज्ञासः) हमारे आत्मा भी (नमसा) आदर और श्रद्धा सहित उसको ही (अचछ) भली प्रकार प्राप्त हों ।

(२) (सहसः सून्तु) बल द्वारा ज्ञान करने और प्राप्त करने योग्य और समस्त बलों के प्रेरक (जातवेदसम्) व्यापक, सर्वज्ञ, सर्वैश्वर्यवान् उस (अग्निं) तेजोमय आत्मा को (वार्याणाम्) वरणा करने योग्य पदार्थों के (दानाय) प्राप्त करने के लिये (अचछ) प्राप्त होओ । (यः) जो (अमृतः)

अमृतस्वरूप होकर भी (द्विता) दो स्वरूपों में विद्यमान है । एक तो (मर्त्येषु) समस्त मरणधर्मा प्राणियों में (आ होता) भोक्कारूप जीव अथवा सब प्राणियों को सुखों और जीवनों का दाता और (विशि) समस्त प्रजाओं में (मन्दतमः) परम आनन्ददाता ईश्वर है ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २
[१५५६] अदाभ्यः पुर एता विशामग्निर्मानुषीणाम् ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

तूर्णीरथ सदा नवः ॥१॥

३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१५५७] अभि प्रयांसि वाहसा दाशवां अश्नोति मर्त्यः ।

१ २ ३ १ २

क्षयं पावकशोचिपं ॥२॥

३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१५५८] साह्वान्विश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानामसृक्तः ।

३ २ ३ १ २

अग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥३॥६॥ अ० ३ । ११ । ५, ७, ६ ॥

भा०—(१) (मानुषीणां) मननशील (विशां) प्रजाओं का (तूर्णी) अति शीघ्रगामी (रथः) रथ के समान देहेन्द्रियसंघात या कर्मवासनाओं को साथ ही लेकर चलने हारा या रमणशील (सदा) निरन्तर (नवः) नूतन, अजर (अभिः) आत्मरूप यह अभि (अदाभ्यः) देह के नाश हो जाने पर भी न मरने हारा, (पुरः एता) प्राप्य या पालन करने योग्य देहों में प्राप्त हो जाता है ।

(२) (दाह्वान्) दानशील अपने को उस आत्मा के प्रति समर्पित करने हारा साधक (मर्त्यः) मरणधर्मा पुरुष (वर्हिपा) शरीर को रथ के समान धारण करने हारे उस आत्मरूप अभि से ही (प्रयांसि) समस्त सुख और भोग्य पदार्थ (अभि अश्नोति) भोग करता है और अपने आप

को (पावकशोचिपः) पावन करने होर तेज के (क्षपं) निषास स्थान परमेश्वर को भी प्राप्त करता है । अर्थात्, आत्मा से ही आत्मज्ञान और मोक्ष का भी लाभ करता है ।

(३) षष्टि (सुविश्रवस्तमः) बहुत अघादि भोग्य साधनों से सम्पन्न, (विश्वाः) समस्त (अभियुजः) आक्रमण करने हारों को (साह्वान्) वश करने द्वारा, (देवानां) विद्वानों का एकमात्र (क्रतुः) कार्यसम्पादक, साक्षात् कर्ता, अथवा (देवानां) इन्द्रियों के ज्ञान और कर्म का (क्रतुः) कर्ता (असृक्तः) अविनाशी और अजन्मा है ।

३ १ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ २

[१५५६] भद्रो नां अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अश्वरः ।

२ २ ३ १२ २२

भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १ ॥

३ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१५६०] भद्रं मनः कृणुष्व वृष्रतूर्ये येन समस्तु सानहिः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ १ २ ३ १ २

अवस्थिरा तनुहि भूरि शर्द्धतां वनेमा ते अभिष्टये ॥ २ ॥ १० ॥

क्र० ८ । १६ । १६, २० ॥

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [१११ः] पृ० ५६ ।

(२) हे अग्ने परमात्मन् ! (वृष्रतूर्ये) विघ्नकारी अज्ञानों और शत्रुओं को नाश करने के कार्य में (येन) जिस संकल्पशक्ति से आप (समस्तु) संप्रामों में (सानहिः) विघ्नों का नाश करते हैं उस (मनः) हमारे मन को भाँ (भद्रं) फलदायीकारी (कृणुष्व) कर । (शर्द्धतां) प्रवक्तृ होने होर शत्रुओं के (स्थिराणि) बलों को (अव तनुहि) नीचे दबा दे । हम (अभिष्टये) अभीष्ट प्राप्ति के लिये (ते) तेरी शरण को (वनेम) प्राप्त हांते हैं ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१५६१] अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यदो ।

३ २ ३ ३ २ ३ १ २

अस्मे देहिं जातवेशो महिश्रवः ॥ १ ॥

[१५६२] स इभानो वसुः कविरश्रिरीडन्यो गिरा ।

१ २ ३ ५ २ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २
३ २ ३ १ २
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ २ ॥

[१५६३] क्षपो राजघ्नत त्मनाग्ने वस्तोरुतोपसः ।

३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ २
१ २ ३ १ २ ३ १ २
स निग्मजम्भ रक्षसा दह प्रति ॥ ३ ॥ ११ ॥

श्र० १। ७६। ४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [६६] पृ० ५३ ।

(२) (सः) वह (वसुः) सबको वास देने और सबमें बसने हारा (कविः) क्रान्तदर्शी, मेधावी (गिरा) वाणी द्वारा (ईडन्यः) सबके स्तुति करने योग्य है । हे (पुरु-अनीक) पुरु=बहुत भारी, अनीक अर्थात् शक्ति से सम्पन्न या अनन्त सुख, आनन्द से परिपूर्ण परमात्मन् ! तू (अस्मभ्यं) हमारे (रेवत्) प्राणवान् आत्मा के भीतर (दीदिहि) प्रकाशमान् हो ।

(३) (उत) और हे (राजन्) समस्त प्रजा का अनुरंजन करने हारे प्रकाशमान परमात्मन् ! (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप आप (त्मना) स्वयं आत्मा के बल से खीर तेजस्वी राजा के समान (रक्षसः) राक्षसों, दुष्टभावों और पुरुषों को (वस्ताः) दिन (उत) और (उपसः) रात्रि के समाप्तिकाल उपाश्रों अर्थात् निश्च, ज्ञानोदय कालों में (क्षपः) दूर भगा दो । हे (तिग्मजम्भ) तीक्ष्णमुख ! अग्नि के समान तेज से अन्धकारों को नाश करने हारे ! आप राक्षसी भावों या राक्षसों को (प्रति दह) भस्म करो, निर्मूल करो । जिससे वे निर्बीज होकर पुनः जन्म मरण के बंधन का कारण न हों ।

श्रुति तृतीयः खण्डः ।

[१५६४] विशो विशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
३ २ ३ २ ३ १ २
अग्नि वो दुर्यं वचः स्तुपं शूपस्य मन्मभिः ॥ १ ॥

१५ २२ ३ १ २ ३५२ ३ १ २
 [१५६५] यज्ञनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम् ।
 २ ३ २ ३ १ २

प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [१५६६] पन्यांसज्जातवेदसं यो देवतात्युद्यता ।

३ १ २ २ ३ २

हव्यान्यैरयद्वि ॥ ३ ॥ १२ ॥ अ० ८ । ७४ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [८७] पृ० ४६ ।

(२) (हविष्मन्तः) ज्ञानवान् (जनासः) पुरुष (यं) जिस (सर्पिः-आसुतिं) सर्पणशील इन्द्रिय और मन को प्रेरणा करने हारे, अथवा तेज को देने हारे, अथवा घृत की आहुति के समान सर्पणशील प्राणरूप इन्द्रिय और मन को अपने भीतर आहुत अर्थात् लीन करने हारे अग्नि को (मित्रं न) मित्र के समान (प्रशस्तिभिः) उत्तम स्तुतियों द्वारा (प्र शंसन्ति) वर्णन करते हैं ।

(३) (पन्यांसं) अति स्तुति करने योग्य, या व्यवहार में अति कुशल, समस्त जगत् व्यवहार को चलाने हारे (जातवेदसं) सर्वज्ञ, सर्वेश्वर्यवान्, सब पदार्थों के ज्ञाता उस प्रभु की स्तुति करो (यः) जो (देवताति) देवों के हितकारी यज्ञस्थान में (उद्यता) उद्यत, प्रस्तुत (हव्यानि) हव्य आदि उत्तम अन्नमय पदार्थों को जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से आकाश में फैला देता है उसी प्रकार जो प्रभु समस्त पदार्थों को (दिवि) सूर्य के प्रकाश और ज्ञान के आश्रय पर (ऐरयद्) प्रेरित करता है । अथवा (यः) जो (देवताति) इस महान् देवगण पृथिवी, जल आदि के हितकर (दिवि) आकाश में (उद्यता हव्यानि) ऊर्ध्व दिशा में नियम से बद्ध सूर्यादि लोकों को (ऐरयत्) प्रेरित करता है ।

१२ ३२ ३१ २ ३ १२ ३१ २ ३२ ३१ २ ३२
 [१२६७] समिद्धमग्निं समिधा गिरागृणे शुचिं पावकं पुगे अध्वरे
 ३२ २३ १२ ३१२३२ ३२ ३१२

ध्रुवम् । विप्रं होतारं पुरुवारमद्रहम् कविं सुगैरीमहे
 ३१२

जातवेदसम् ॥ १ ॥

२३१२ ३१२३१२ ३१२ २१२ २२
 [१२६८] त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यावाहं दधिरे पायुमीड्यम्
 ३११३ १२ १२ ३२ ३२ ३१२ ३१२

देवासश्च मर्तासश्च जागृविं विभुं विशपतिं नमसा निपेदिरे
 ३१२ ३२ ३१२३ २३ २३२३१२३१२

[१२६९] विभूषन्नग्न उभयाँ अनुव्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे ।
 १२ ३१ २३२ ३१२ २२ ३१२ ३१

यत्तं धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽथ स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो
 २

भव ॥ ३ ॥ १३ ॥

ऋ० ६ । १५ । ७-६ ॥

भा०—(१) (समिद्धं) उत्तम रीति से सर्वत्र प्रकाशमय, (शुचिं) शुद्ध कान्तिमय, (पावकं) सब को पवित्र करने हारे (अध्वरे) हिंसारहित, आविनाशी, जविनप्रद, संसार रूप यज्ञ में (पुगः) सब से पूर्व (ध्रुवम्) नित्य, आविनाशी उस (आग्निं) तेज स्वरूप परमेश्वर को (समिधा) ज्ञानमयी (गिरा) वाणी से (गृणे) वर्णन करता हूँ । उसी (विप्रं) ज्ञानवान् मेधावी (होतारं) सर्वप्रद, (पुरुवारं) प्रजाओं के रक्षक, (अद्रुहं) सब से प्रेम करने हारे एवं द्वेषरहित, सब के प्रिय (कविं) अन्तर्यामी, श्रान्तन्दशी (जातवेदसं) सर्वज्ञ उस परमात्मा की (सुगैः) उत्तम मनन निदिध्यासनों द्वारा या सुखकारी स्तोत्रों द्वारा (ईमहे) प्रार्थना उपासना करें ।

(२) हे (अग्ने) परमेश्वर ! (अमृतं) अमृतस्वरूप, (हव्यावाहं) सब स्तुतियों को स्वीकार करने हारे, (पायुं) जगत के पालक; (ईड्यम्) सब के वन्दनीय, (त्वां) तुझको (युगे-युगे) प्रत्येक युग में निद्वान्

लोगों ने अपना (दूत^१) सदा उपास्य, भजन सेवन करने योग्य एवं ज्ञानों का प्रकाशक (दधिरे) स्वीकार किया, धारण किया । और (देवासः) दिव्य ज्ञानवान् और (मर्त्यासः) मरणधर्मा कर्मबद्ध सामान्य जीव दोनों तुम्हको ही (जागृविं) सदा जागरणशील (विभुं) सर्वव्यापक और विशेष रूप से सब का उत्पादक (विशपतिं) समस्त प्रजाओं का पालन करने हारा जानकर (नमसा) भक्ति योग से विनय पूर्वक (निपोदिरे) तेरे ही चरणों में आ बैठते हैं और तेरे गुरु चरणों में बैठकर उपनिषदों द्वारा ज्ञान लाभ करते और उपासना करते हैं ।

(३) हे (अग्ने) प्रभो ! (उभयान्) बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों को (विभूपन्) अपनी विभूतियों से सुशोभित करता हुआ तू (अनुव्रता) समस्त यज्ञों में (देवानां) देवगण, दिव्य पदार्थों, एवं मुक्त जीवों को (दूतः) साक्षात् प्राप्त और उन के प्रति नाना ज्ञानप्रकाशक हांकर (रजसी) समस्त धाँ और पृथिवी लोकों में (समीयसे) व्यापक रहता है । (यत्) क्योंकि हम (ते) तेरी ही (सुमतिं) उत्तम स्तुति और (धीतिं) ध्यान (आवृणीमहे) करते हैं (अध) और तू (त्रिवरुथः) उत्पादक, पालक और संहारक तीन रूप का हो कर (शिवः) हमारा कल्याणकारी (भवस्म) हो ।

[१५७०] उप त्वा जामयो गिरो देदिशतर्हि विष्कृतः ।

वायोरनीके अस्थिरन् ॥ १ ॥

[१५७१] यम्य त्रिधात्ववृत्तम्दहिस्तस्थावसान्दनम् ।

आपश्चिन्निदधा गदम् ॥ २ ॥

[१५७२] पदं देवम्य मीढुषो नाधृष्टाभिरूतिभिः ।

भद्रा सूय इवापहक् ॥३॥१४॥ अ० ६ । ६१ । १३, १५ ॥


भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१३] पृ० ६ ।

(२) (यस्य) जिस आत्मा का (त्रिधातु) वात, पित्त, कफ तीन धारणसमर्थ धातुओं का बना (अवृतं) अनावृत, नाशयुक्त अथवा मांसादि घृणाजनक पदार्थों का बना होने से न वरण करने योग्य (असन्दिनम्) अबद्ध अर्थात् आत्मा से सर्वथा पृथक् और कभी स्थिर स्थिति न प्राप्त करने हारा, (बर्हिः) वृद्धिशील और बन्धन होने से ज्ञानरूप शस्त्र से काटने योग्य देहबन्धन (तस्थौ) स्थिर है उस अग्निरूप आत्मा में (आपः) समस्त कर्म और प्राणगण (पदं) स्थान (निदधा) प्राप्त करते हैं अथवा सब (आपः) प्राण और ज्ञानवृत्तियां (पदं) अपना आश्रय (निदधा) धारण कराती हैं ।

परमात्मा पक्ष में—(त्रिधातु) सत्व, रजस्, तमस् से बना (अवृतं) प्रत्यक्ष रूप (बर्हिः) महान् ब्रह्माण्ड रूप देह (असन्दिनं) गतिमान् (तस्थौ) स्थिर है । जिसमें (आपः) समस्त लोक (पदं निदधा) स्थान पाते हैं ।

(३) (मीढुपः) समस्त कामनाओं को पूर्ण करने हारे (देवस्य) प्रकाशमान देव का (पदं) परम पद, परम रूप (अनघृष्टमभिः) अद्वितीय, अबाधित, (जतिभिः) सुखों से युक्त है । और उसका (उपदृक्) साक्षाद् दर्शन (सूर्यः इव) सूर्य के समान सदा (भद्रा) कल्याणकारी है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।




इति सप्तमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्थः ॥

इति पञ्चदशोध्यायः समाप्तः ॥

अथ षोडशोऽध्यायः ।

अथ सप्तम प्रपाठकस्य तृतीयोऽर्थः ।



ऋषिः—१, ८, १८ मेध्यातिथिः काण्वः । २ विश्वामित्रः । ३, ४ भर्गः
 प्रागाथः । ५ सोमरिः काण्वः । ६, १५ शुनःशेष आजीगर्तिः । ७ सुक्लः । ८
 विश्वकर्मा भौवनः । १० अनानतः । पारुच्छेपिः । ११ भरद्वाजो वार्हस्पत्यः १२
 गोतमो राहूगणः । १३ ऋजिषा । १४ वामदेवः । १६, १७ ह्यंतः प्रागाथः
 देवातिथिः काण्वः । १६ पुष्टियुः काण्वः । २० पर्वतनारदौ । २१ अग्निः ॥
 देवता—१, ३, ४, ७, ८, १५—१९ इन्द्रः । २ इन्द्राग्नी । ५ अग्निः । ६
 वरुणः । ६ भिस्वकर्मा । १०, २०, २१ पवमानः सोमः । ११ पूषा । १२
 मरुतः । १३ त्रिभेदेवाः १४ पावापृथिव्यौ ॥ छन्दः—१, ३, ४, ८, १७-१६
 प्रागाथम् । २, ६, ७, ११, -१६ गायत्री । ५ वृहती । ६ त्रिष्टुप् । १०
 अत्यष्टिः । २० उष्णिक् । २१ । जगती ॥ स्वरः—१, ३, ४, ५, ८, १७-१९
 मध्यमः । २, ६, ७, ११-१६ पङ्क्तः । ६ धेवनः । १० । गान्धारः । २०
 ऋषभः । २१ निपादः ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१५७३] अभि त्वा पूर्वपीतये इन्द्रस्तोमैभिरायवः ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

समीचीनास क्रभवः समस्वरन् रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम् ॥१॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१५७४] अग्नेदिन्द्रो वावृधे वृण्यं शवां मदे सुतस्य विष्णवि ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अथ तमस्य महिमानमायवाऽनुष्टुवन्ति पूर्वथा ॥२॥१॥

ऋ० ८ । ३ । ७, ८ ॥

भा०—(२) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [२५६] पृ०

(२) (इन्द्रः) इन्द्र (अस्य इत्) इस ही (सुतस्य) उत्पादित सोमरूप आत्मानन्द के (विष्णवि) व्यापक (मदे) आनन्द, हर्ष में (वृष्यं) सुखों के वर्षक (शवः) बल को (चावृधे) बढ़ा लेता है । (आयवः) मनुष्य आयु में बद्ध जीवगण और ज्ञानवान् पुरुष (पूर्वथा) पूर्व के समान (अद्य) आज भी (अस्य) इस आत्मा के (तं) उस (महि-मानं) महान् सामर्थ्य को (अनुद्ब्रुवन्ति) वर्णन करते हैं ।

[१५७५] प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः ।

इन्द्राग्नी इष आवृषे ॥ १ ॥

[१५७६] इन्द्राग्नी नवातम्पुरा दासपत्नीरधूनुतम् ।

साकमर्कन कर्मणा ॥ २ ॥

[१५७७] इन्द्राग्नी अपसर्ग्युपप्रयन्ति धीतयः ।

ऋतस्य पथ्याऽऽनु ॥ ३ ॥

[१५७८] इन्द्राग्नी तन्निपाणि वां सधस्थानि प्रयासि च ।

युवारप्तूय हितम् ॥ ४ ॥ २ ॥ अ० ३ । १२ । ५-८ ॥

भा०—(१) हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र ! परमेश्वर और अग्निरूप जीव ! (वाम्) आप दोनों को (नीथाविदः) सामगान या ब्रह्ममार्ग के जानने हारे (जरितारः) स्तुतिकर्ता विद्वान् पुरुष और (उक्थिनः) वेदज्ञानी विद्वान् (प्र अर्चन्ति) उत्तम रूप से उपासना करते हैं । मैं भी (इषे) बल प्राप्त करने के लिये उन दोनों (इन्द्राग्नी) आत्मा और परमात्मा को (आवृषे) वरण करता हूँ उपासना करता हूँ ।

(२) हे (इन्द्राग्नी) ब्रह्म और जीव ! जो दोनों आप (दासपत्नीः) विना शक भावों से परिपालित (नवतिम्) नव्हे (पुरः) कामनाओं को (एकेन कर्मणा) एक कर्म अर्थात् योग से ही (साकं) एक साथ (अधूनुतम्) कं प्रा

देते हो उन आप दोनों को हम स्मरण करते हैं । इन्द्रिय भेद से १०, सत्व रजस् तमस् भेद से ३० प्रकार हुए, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय भेद से तीनों कोशों में ६० पुर होते हैं । एकादश इन्द्रियां मान कर ६६ पुर भी कहे जाते हैं ।

(३) हे (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्त इन्द्र और अग्ने ! (धीतयः) ध्यान करने हारे विद्वान्जन (ऋतस्य) ब्रह्मज्ञान के (पथ्या) मार्गों को (अनु) अनुगमन करते हुए (अपसः) कर्मों को (परि उप प्रयान्ति) पार कर के आपके समीप तक पहुंच जाते हैं ।

(३) हे (इन्द्राग्नी) जीव और ब्रह्म (वां) आपके (तविपाणि) बल और (प्रयांसि) ज्ञान (सधस्थानि) साथ ही रहते हैं और (युवा) आप दोनों में (अप्नूयं) कर्मों और लोकों प्रायों तथा प्राणमय सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को प्रोत्ति करने वाला बल भी समानभाव से (हितम्) स्थापित है ।

३ २ १ २ ३ १ २ १ २ ३ १ २
[१५७६] शग्ध्वुऽ३पू शन्वीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।

२ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

भंगं नहि न्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥१॥

३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१५८०] पारो अश्वस्य पुरुकृद्गवामस्युन्सो देव हिरण्ययः ।

२ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ ३ १ २ २ २

नकिर्हि दानं परि मर्द्धिपत्तं यद्यद्यामि तदाभर ॥२॥ ३ ॥

अ० ८ । ६१ । ६, ६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२५३] पृ० १२६ ।

(२) हे देव ! परमात्मन् ! आप (अश्वस्य पारः) भोक्ता जीव के पूर्ण एवं पालन करने हारे और (गवां) इन्द्रियों के भी (पुरुकृत्) पूर्ण करने हारे हैं । अर्थात् आपने भोक्ता जीवको भोग साधन देकर पूर्ण किया है और इन्द्रियों को रूपआदि भोग्य विषय देकर पूर्ण किया है और (हिरण्ययः)

मन हरण करने हारे सुवर्ण के समान तेजों से बने हितकारी और रमणीक (उत्सः) कृप के समान सब आनन्दरसों के आश्रय अथवा तेजोमय पदार्थों का उत्पादन करने हारे उनके कारणरूप हैं । आपके लिये आत्मा और इन्द्रियों के भोग्य सुखजनक पदार्थ उत्पन्न करना क्या बड़ी बात है । हे परमात्मन् ! (ते) आपके दिये (दानं) दान को (नकिः परिमार्धिपन्) कोई भी नाश नहीं कर सकता । आपसे मैं (यद् यद्) जो २ (यामि) याचना करना हूँ वह २ (आभर) प्राप्त कराइये ।

२४ ३ १ २ ३ २४ ३ १ २
[१५८१] त्वं हेहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
उद्वावृषस्व मघवन् गविष्टये उदन्द्राश्वमिष्टये ॥१॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१५८२] त्वम्पुरु सहस्राणि शतानि च यूथा पानाय मंहसे ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
आ पुरन्दरं चकृम विप्रवचस इन्द्राङ्गायन्तोऽवसे ॥२॥४॥

अ० ८ । ६१ । ७ । ८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्त सं० [२४०] पृ० १२२ ।

(२) हे इन्द्र (त्वं) आप (पुरु) बहुतसे (सहस्राणि) हजारों और (शतानि च) सैकड़ों (यूथा) यूथ (दानाय) दानशक्ति पुरुष को (मंहसे) देते हैं । हम (विप्रवचसः) मेधावी ज्ञानी, पुरुषों के समान वचन बोलने हारे और विविध विद्याओं का प्रवचन करने हारे विद्वान् होकर (अवसे) ज्ञान और रक्षा की प्राप्ति के लिये (गायन्तः) स्तुति करते हुए (इन्द्रं) आत्मा और परमात्मा को ही (पुरन्दरं) इस देहरूप पुर को तोड़ने हारा (आचकृम्) स्वीकार करते हैं । अथवा—हे आत्मन् ! तू सैकड़ों हजारों (पुरु) पालन एवं तृप्त करने हारे पदार्थ केवल (दानाय) दान या त्याग करने के लिये ही हमें प्रदान करता है अतः उनको वैराग्य द्वारा त्याग कर विद्वान् ज्ञानी होकर इस देह का अन्त कर, मुक्ति देने हारे इन्द्र,

ईश्वर की स्तुति करते हुए, हम (अबसे) अपनी रक्षा और ज्ञान के लिये (चक्रे) साधना करें ।

२३ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ २ २

[१५८३] यो विश्वा दयते वसु हांता मन्द्रो जनानाम् ।

२ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

मधोर्न पात्रा प्रथमा न्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नेये ॥१॥

२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१५८४] अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवां मर्मृज्यन्ते देवयवः ।

३ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

उभ तोके तनय दस्यै विश्वते पार्षे राधो मघोनाम् ॥२॥५


श्र० २०३ । ६, ७ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [४४] पृ० १६ ।

(२) हे (दस्य) दर्शनीय, कमनीयरूप ! हे (विश्वते) समस्त प्रजा के पालक ! (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (देवयवः) देव परमात्मा की चाह करने वाले (सुदानवः) अपने को उत्तम रूप से समर्पण करने हारे, भक्त (गीर्भीः) अपनी वाणियों और आपकी स्तुतियों से भी (रथ्यं) इस देहरूप रथ के योग्य (अश्वं न) अश्व के समान भोक्ता आत्मा को ही (मर्मृज्यन्ते) शोधन किया करते हैं । उसको बराबर तपस्याओं से शुद्ध पवित्र किया करते हैं आप ही (मघोनाम्) मघ=मस्य=ज्ञान के धनी पुरुषों के (तोके) पुत्र और (तनये) पौत्र (उभे) दोनों में (राधः) आराधनीय विंकरु का (पार्षे) दान करते हैं ।

नास्य अन्नहावित् कुले भवति (वृहदारण्यकोपनिषद्)

इति प्रथमः खण्डः ।



३ १ २

३ १ २ ३ १ २

[१५८५] इमम्मे वरुण भ्रुवि हवमद्या च मुडय ।

१ २ ३ १ २ २ २

त्रामन्नस्युराचके ॥१॥६॥ श्र० १ । २५ । १६॥

भा०—(१) हे (वरुण) सबसे श्रेष्ठ, वरुण करने योग्य एवं सब पापों के निवारक परमेश्वर ! (मे) मेरे (हमे) इस (हवम्) पुकार को (श्रुधि) श्रवण कर । (अद्य च) और वर्तमान में हमें (मृडय) सुखी कर । मैं (अवस्युः) अपनी रक्षा तथा आपकी शरण और ज्ञान चाहता हुआ (त्वां) आपसे (आचके) प्रार्थना करता हूँ ।

२ ३ १ २ ३ १२ २२

[१५८६] कया त्वं न ऊत्याभिप्रमन्दसे वृषन् ।

१ २ ३ २ ३ १ २

कया स्तोतृभ्य आभर ॥१॥७॥ अ० ८ । ६३ । १९ ॥

भा०—(१) हे इन्द्र ! हे (वृषन्) सुखों के वर्णने वाले श्रेष्ठ परमात्मन् ! (कया ऊया) किस अद्भुत रक्षा और ज्ञान से (त्वं) आप (नः) हमें (प्रमन्दसे) खूब आनन्दित, सुखी, प्रसन्न करते हैं और (कया) किस उत्तमता से (स्तोतृभ्यः) विद्वान् पुरुषों को (आभर) सब पदार्थ प्राप्त कराते हैं ?

२ ३ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१५८७] इन्द्रमिह्वतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे ।

१ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

इन्द्रं समीक वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥१॥

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१५८८] इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छुव इन्द्रः सूर्यमगोचयत् ।

१ ३ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्द्रवः २।८

अ० ८ । ४ । ५, ६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२४६] पृ० १२७ ।

(२) (इन्द्रः) परमेश्वर (शवः) अपने बलकी (महा) माहिमा से (रोदसी) आकाश और पृथिवी दोनों लोकों को (पप्रथत्) विस्तृत करता है, बनाता है । (इन्द्रः) ऐश्वर्यशील परमात्मा (सूर्यम्) सूर्य को (अरोचयत्) प्रकाशित करता है । (इन्द्रः) परमेश्वर (विश्वा) समस्त (भुवनानि) भुवनों को (येमिरे) व्यवस्थित करता है । (इन्द्रे)

परमेश्वर ही (इन्द्रवः) योगी लोग मुक्त पुरुष (स्वानासः) आनन्द रस का लाभ करते हैं और उसी में निमग्न होजाते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ १ २
[१५८६] विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वांसुः स्वा

२ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
हिते । मुह्यन्त्वन्ये अभि तो जनास इहास्माकमघवा
३ १ २

सूरिरस्तु । ॥१॥६॥ ऋ० १० ८२ । ६ ॥

भा०—(१) हे (विश्वकर्मन्) तमाम संसार के लक्ष परमेश्वर ! (हविषा) ज्ञान से और सामर्थ्य से (वावृधानः) सबसे सदा महान् (स्वाहिते) उत्तम रीति से आधान किये गये इस विश्व ब्रह्माण्ड में (तन्वां) विस्तार शील, धौ और पृथिवीरूप शरीर में (स्वयं) अपने आप तू (यजस्व) एक को दूसरे का उपकारक बनाता है ! (अन्ये) और तैरे से भिन्न अल्पज्ञ (जनासः) जन, जीवगण (अभितः) इसको साक्षात् देखकर भी (मुह्यन्तु) मोह को प्राप्त होते हैं । (इह) इस विशाल ब्रह्माण्ड के विवरण करने में (मघवा) ज्ञानसम्पादक परम ज्ञानी परमेश्वर ही (अस्माकं) हमारा (सूरिः) ज्ञानोपदेष्टा (अस्तु) हो ।

“तत्रेतिहासमाचक्षते-विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुह्वान्चकार स आत्मानप्यन्ततो जुह्वान्चकार । तदाभिवादिनी एषा अग्न अवति ।” (निरु०) । विश्वकर्मा भौवन ने सर्वमेध यज्ञ में समस्त भूतों को हवन कर दिया और अन्त में अपने आपको भी स्वाहा कर दिया । यह आरिभिक यज्ञ का भी वर्णन है ! और विशालरूप में यही यज्ञ ब्रह्माण्डमय विराट शरीर में भी हो रहा है । परमात्मा समस्त-पृथिवी आदि पाँचों भूतों को मिश्रण करके संसार रचता है और आप भी उसका व्यापक व्यवस्थापक होकर, उसी में लीन रहता है । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ।

(छान्दोग्य उप०) इसी प्रकार आत्मा देह में पंचभूतों के पाँचों शब्दादि विषयों को ग्रहण करता और उनसे ज्ञान सम्पादन करता, पुनः स्वप्न और समाधि दशा में अपने में भी मग्न रहता है ।

अध्यात्मपक्ष में—हे विश्वकर्मन् ! सर्व कर्मों के कर्ता जीवात्मन् ! (प्राणा) ज्ञान से (वावृधानः) बढ़ता हुआ (स्वाहिते) अपने ही कर्मा से प्राप्त इस (तन्वां) देह में तू (स्वयं यजस्व) अपने आप प्राणों द्वारा यज्ञ कर रहा है । और (अन्ये जना मुह्यन्ति) दूसरे, मूर्ख, अनात्मज्ञ लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं और (मधवा) परमात्मा या आत्मज्ञानी आचार्य ही इस आभ्यन्तर योगयज्ञ के सम्पादन में (अस्माकं सूरिः अस्तु) हमारा ज्ञानोपदेष्टा हो ।

१-तनू = अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥

परमात्मा का स्वयं यज्ञ का रूप—तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः
सोमात् पञ्ज्या ओषधयः पृथिव्याम् । पुमान् रेतः सिन्ध्वति योपितायां
वह्नीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसृताः ॥ सुगढकं २ । १ । ५ ॥

गीता के यज्ञचक्र और छान्दोग्य उप० में पञ्चाहुतिप्रकरण भी देखने योग्य है ।

उ २ ३ १४ २४ ३ २४ ३ १ २ ३ १
[१५६०] अग्रा रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति सयु-
२ ३ २ १ २ ३ १ २ १ २ ३ १ २ ३ १
ग्वभिः सूरौ न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य रोचने पुनाना
२ ३ १४ २४ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ४ ३ १ २ ३
अरुणो हरिः विश्वा यद्द्रुपा परियास्यृकभिः सप्तास्येभि
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
ऋकभिः ॥ १ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ ३ २ ३
 [१५६१] प्राचीमनु प्रदिशं यानि चोक्तित्स रश्मिभिर्नते दर्शता
 ३ १ २ ३ १ २ २ १ २ ३ २ ३ २ ३ ३
 रथो दैव्यो दर्शतो रथः । अग्मन्नुक्तयानि पौंस्येन्द्र
 १ २ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३
 जैत्राय हर्षयन् वज्रञ्च यद्भवथो अनपच्युना समत्स्वन-
 पच्युना ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१५६२] त्व ह त्यत्पणीनां विदो वसु सप्मातृभिर्मर्जयाभि स्व
 २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
 आ दम ऋतस्य धीतिभिर्हमे । परावता न साम तद्यत्रा-
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
 रणन्ति धीतयः त्रिधातुभिररुपीभिर्वयो दध रोचमानो
 १ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
 वयो दधे ॥ ३ ॥ १० ॥ अ० ९। १११। १, ३, २ ॥

भा०—(१) (पृष्ठस्य) सबके साथ स्पर्श करने हारे, सबके पोपक प्राण की (धारा) धारण शक्ति, या वाणी द्वारा वह सोमस्वरूप, आनन्दस्वरूप योगी आत्मा (पुनानः) और भी पवित्र, शुद्धरूप होकर (यत्) जब (विश्वा) समस्त (रूपा) पदार्थों को (सप्तास्यैः) सर्पणशील आस्य अर्थात् इन्द्रियों में विराजमान (ऋक्भिः) गतिशील, प्राप्यग्राही, (ऋक्भिः) उत्तम, प्राणरूप इन्द्रियों से (परियासि) प्राप्त करता है तब (सयुग्वभिः) अपने सहयोगी किरणों द्वारा (सूरः न) जिस प्रकार प्रेरक सूर्य या राजा (द्वेपांसि तरति) अपने शत्रुओं को पार कर लेता या पराजित कर देता है उसी प्रकार (अरुपः) कान्तिमान् तेजस्वी (हरिः) हरणशील या ईश्वर के प्रति गमन करने हारा योगी (अया) इस तरह (हरिरया) दुःखों को मिटाने और ज्ञान को प्राप्त करने वाली (रुचा) विशेष दीप्ति से (पुनानः) प्रकाशमान होकर (सयुग्वभिः) अपने योगबल द्वारा वशीकृत अष्टांगों या इन्द्रियों और मन के द्वारा (विश्वा) समस्त (द्वेपांसि) द्वैप करने हारे प्राणियों और योग के शत्रुरूप अन्तर्विघ्न काम, क्रोध आदि रिपुओं को (तरति) पार कर जाता है, उन पर वश कर लेता है ।

(२) (यद्) जब जीव और परमात्मा (समस्तु) एकत्र आनन्द-प्राप्त करके समाधि के अवसरों पर (अनपच्युता) अविचलित राजा और मन्त्री के समान (अनपच्युता) काम क्रोधादि शत्रुओं से कभी विचलित नहीं होते हैं तब (चेकितत्) ज्ञानवान् योगी (प्राचीं) प्रकृष्ट, उत्तमरूप से उपासना करने योग्य, सुप्राप्य, (प्रादिशं) उत्तमरूप से जानने योग्य दिशा-मार्ग के प्रकाश को (याति) प्राप्त कर लेता है और (दर्शतः) दर्शनीय (रथः) सूर्य के समान योगी का वह (दर्शतः) दर्शनीय (रथः) रमण करने हारा आत्मा (रश्मिभिः) ईश्वरप्रदत्त ज्ञानरश्मियों से और भी (यतते) आगे की ओर मुक्तिमार्ग पर बढ़ता है । तब ही (जैत्राय) अपनी इस मुक्तिमार्ग की विजय के लिये (इन्द्रं) आत्मा को (हर्षयन्) धन्यवाद और साधुवाद देता हुआ, उसे और अधिक हर्षित और प्रबल करता हुआ (पौंस्या) बलशाली या बलप्रद (उक्थानि) स्तुतियों का (अगमन्) उच्चारण करता है और सब विघ्नों के नाशक (वज्रं च) अपवर्ण रूप वज्र को भी प्राप्त करता है ।

(३) हे सोम ! योगिन् ! (त्वं) तू (पथीनां) व्यवहार में गति करने हारे या स्तुति करने हारे विद्वानों के (त्यत्) उस (वसु) जीवन या वास कराने हारे आत्मधन को (विदः) जानता है और इसको (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (धीतिमिः) धारण करने हारी (मातृभिः) प्रमा अर्थात् यथार्थ अनुभव के साधक ऋतंभरा प्रज्ञाओं द्वारा (दमे) इन्द्रियों और मन को दमन करने वाले (स्वे) अपने (दमे) आश्रयरूप आत्मा में (संमर्जयसि) खोजता या परिशोध लगाता है, और भी परिष्कृत करता है । (तत्) वह परम आश्रयरूप आत्मा (परावतः) दूर देश से सुनाई देने हारे (साम न) गान के समान मनोहर है । (यत्र) जिसमें (धीतयः) ध्यान करने हारे योगी आश्रय लेकर (रणान्ति) रमण करते हैं । वह आत्मज्ञानी योगी (त्रिधातुभिः) तीन प्रकार की धारणा करने वाली इन्द्रियों से सम्पन्न (अरुपीभिः) कान्तियों या दीप्तियों या किरणों से ही (वयः) जीवन और

प्राण को (दधे) धारण करता है और फिर (रोचमानः) सूर्य के समान प्रकाशमान होकर (वयः दधे) चिरस्थायी जीवन और बल को धारण करता है ।

त्रिधातु=मन, वाक्, काय । अथवा शरीर के धारक धातु, वायु, अग्नि और जल के सारभूत, वात, पित्त और कफ ।

इति द्वितीयः खण्डः ।



३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[१५६३] उत नो गोषणि धियमश्वसा वाजसामुन ।

३ १ २ ३ १ २

नृवत्कृणुह्युतये ॥ ११ ॥ अ० ६ । ५३ । १० ॥

भा०—(१) हे परमात्मान् ! आप (नः) हमें (गोषणि) ज्ञानेन्द्रियों के प्रेरक, (अश्वसां) प्राणेन्द्रियों के प्रेरक (वाजसां) ज्ञान और ऐश्वर्य के देने हारी (उत) और (नृवत्) नेतास्वरूप आत्मा को अपना देने हारे (धियम्) धारणावती बुद्धि और क्रिया शक्ति को (उतये) रक्षा के लिये (कृणुहि) प्रदान करो ।

३ १ २ ३ १ २

[१५६४] शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः ।

३ १ २ ३ १ २

विदा कामस्य वेनतः ॥ १२ ॥ अ० १ । ८६ । ८ ॥

भा०—(१) हे (सत्यशवसः) विद्यमान रह कर सबके प्रेरक सत्य-बल से सम्पन्न (नरः) शरीर और इन्द्रियों को बढान करने हारे नेतास्वरूप विद्वानो ! और प्राणो ! (शशमानस्य) शमादि गुणों का अभ्यास करने वाले (स्वेदस्य) प्राणायाम के अवसर पर समस्त गात्र में स्वेद धारण करने वाले, उद्योगी (वेनतः) विद्वान् योगी के (कामस्य) मनःसंकल्प को प्राप्त कराओ ।

[१५६५] ^{१२ ३२ ३ १२ ३ २ ३ १२ ३ २} उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये ।

^{३ १ २} सुमृडीका भवन्तु नः ॥ १३ ॥ ऋ० ६ । ५२ । ६ ॥

भा०—(१) (ये) जो (नः) हमारे (सूनवः) ज्ञान के उपदेश करने हारे विद्वान् या पुत्र हैं वे (अमृतस्य) मरणरहित, अजन्मा परमेश्वर के विषय में (गिरः) वाणियों को (उप शृण्वन्तु) प्रेम से श्रवण करें, करावें और (नः) हमारे लिये (सुमृडीकाः) उत्तम रूप से सुखकारी आनन्दप्रद हों । अथवा—वे विद्वान् गण (नः गिरः, उपशृण्वन्तु) हमें अपनी शुभ वेदोपदेशमय वाणियां श्रवण करावें ।

[१५६६] ^{२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} प्र वाम्महि घवी अभ्युपस्तुतिभरामहे ।

^{२ ३ २ ३ १ २} शुची उपप्रशस्तये ॥ १ ॥

[१५६७] ^{३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २} पुनाने तन्वामिथः स्वेन दक्षेण राजथः ।

^{३ १ २ ३ २ ३ २} उह्याथे सनादत्तम् ॥२॥

[१५६८] ^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} मही मित्रस्य सायथस्तरन्ती विप्रती क्रतम् ।

^{१ २ ३ १ २ २ २} परि यज्ञन्निषेदथुः ॥३॥ १४ ॥ ऋ० ४१ । ५६ । ५-७ ॥

भा०—(१) हे (घवी) प्रकाशमान् सूर्य और पृथिवी के समान प्राण और अपान (वां) आप दोनों को (अभि) साक्षात् करके आपके (महि) बड़ी (उपस्तुति) गुणवर्णन (भरामहे) करते हैं । आप दोनों (उपप्रशस्तये) उत्तम कीर्ति के कारण (शुची) शुद्ध स्वरूप हैं । अथवा चौ और पृथिवी के समान हे गुरु और शिष्य या परमात्मन् और मुकजीव ! आप दोनों (महि घवी उपप्रशस्तये शुची) स्तुति करने के लिये आप प्रकाशमान् और शुद्धरूप हो, आपका (अभि) साक्षात् कर हम (स्तुति उप प्र भरामहे) आपके गुणों का सर्वत्र वर्णन करते हैं ।

(२) हे जीव और परमात्मन् ! या शिष्य और गुरो ! (स्वेन) अपने (तन्वा) शरीर अर्थात् स्वरूप और (दत्तेण) ज्ञान बल, और कर्म सामर्थ्य से (मिथः) परस्पर (पुनाने) एक दूसरे को पवित्र करते हुए (राजथः) प्रकाशित होते हो और (सनाद्) सदा काल से (ऋतं) सत्य ज्ञान को (उह्याथे) धारण करते हो ।

(३) सूर्य और पृथिवी जिस प्रकार परस्पर एक दूसरे को जल और प्रकाशक का वितरण करते हैं और परस्पर पूर्ण करते हैं उसी प्रकार हे गुरु और शिष्य ! आप दोनों (मही) बड़ी महिमा वाले (ऋतं) सत्यज्ञान को (तरन्ती) वितरण करते हुए और सत्य धर्म को (पिप्रती) पूर्णरूप से पालन करते हुए (मित्रस्य) मित्रस्वरूप परमात्मा की (साधथः) साधना करते हो और (यज्ञ) यज्ञ, परस्पर विद्या-स्वाध्यायरूप यज्ञ के लिये (परिनिषेदथुः) यज्ञ कार्यों से निवृत्त होकर एकान्त में बैठते हो ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
[१५६६] अयमु ते समस्तसि कपोत इव गर्भधिम् ।

१ २ १ २

वचस्तस्मिन्न आहसे ॥१॥

३ १ २

३ १ २

३ १ २

[१६००] स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते ।

१ २

३ १ २

विभूतिरस्तु सृष्टुता ॥२॥

३ १ २

३ २ ३ १ २

२ २

[१६०१] ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयस्मिन्वाजे शतक्रतो ।

२ ३ १ २

समन्येषु ब्रवावहे ॥ ३ ॥ १५ ॥ अ० १ । ३० । ४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१८३] पृ० ।

(२) हे (राधानां पते) समस्त आराधनाओं और ज्ञानों के एकमात्र स्वामिन् ! और समस्त विभूतियों के स्वामिन् ! हे (वीर) सर्वशक्तिमन् ! हे (गिर्वाहः) वाणियों द्वारा उपदेश करने वाले प्रभो गुरो ! (यस्य) जिसके

(स्तोत्रं) समस्त सत्य उपदेश हैं उस (ते) तेरी ही (सूनुता) वेदवाणी (दिभूतिः) विशेष सत्ता का प्रमाण या सम्पत्ति (अस्तु) हो ।

(३) हे (शतक्रानो) शत प्रज्ञानों से युक्त या सैकड़ों कर्म करने हारे (इन्द्र) आचार्य ! (अस्मिन्) इस (वाजे) यज्ञ में (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये आप (ऊर्ध्वः) हमारे ऊपर सदा (तिष्ठ) विराजमान हैं (अन्येषु) हम अन्य अवसरों पर भी (सं व्रवावैह) परस्पर सत्संग कर ज्ञान लिया और दिया करें ।

यहां इन्द्र अर्थात् आत्मा का गुरु परमात्मा है । “कस्य ब्रह्मचार्यसि भवतः”, “इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यसि” इत्यादि विधानों से इन्द्र ही गुरुस्थानीय है ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६०२] गाव उपवदावटे मही यज्ञस्य रणुदा ।

३ १ २ २ ३ १ २

उभा कर्णा द्विरण्यया ॥ १ ॥

३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६०३] अभ्यारमिद्रयो निपिङ्गं पुष्करे मधु ।

३ १ २ ३ १ २

अवटस्य विसर्जने ॥ २ ॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६०४] सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम् ।

३ १ २ ३ १ २

नीचीनवारमाक्षितम् ॥ ३ ॥ १६ ॥

अ० ८ । ७२ । १२, ११, १० ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [११७] पृ० ६३ ।

(२) (अद्रयः^१) आदर करने योग्य विद्वान् पुरुष (अवटस्य) रक्षण करने हारे देहबंधन के (विसर्जने) परित्याग के अवसर पर (पुष्करे^२) उस

१६०३—(२) “अवतस्य विसर्जने”, (३) “अवतमुच्चा चक्र” इति, अ० ।

१. अद्रय वाद्रियमाणाः इति सायणाः । २. पुष्करे प्रवृद्धे इति सायणः ।

को पुष्ट करने हारे, उसमें बल के प्रदाता स्वतः आत्मा में (निषिक्रं) पूर्ण-
रूप से विद्यमान या बरसते हुए (मधु) ज्ञानानन्द धर्म को (अभि आरम्भ
इत्) साक्षात् किया करते हैं ।

(३) हे विद्वान् आत्मज्ञानी गण ! (नीचीनचारं) निर्बल इन्द्रिय
आदि नव द्वारों वाले (अक्षितं) अक्षीण (परिज्मानं) परिणाम या वृद्धता
को प्राप्त होने वाले, (उच्चाचक्रं) उच्च प्राणचक्र वाले (अवटं) इस देह को
(नमसा) अन्न द्वारा (सिंचन्ति) सबल बनाये रहते हैं अर्थात् जब तक
देह बना रहता है तब तक उसकी अन्न से रक्षा करते हैं ।

इति तृतीयः खण्डः ।

— ० —

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
[१६०५] मा भेम मा श्रमिष्माग्रस्य सख्ये तव ।
३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम् ॥१॥

३ १ २ ३ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[१६०६] सव्यामनुस्क्रिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोपति ।
२ ३ १ २ ३ ३ १ २ ३ २ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
मध्वा सम्पृक्ताः सारधेण धेनवस्तूयमोह द्रवा पिव
॥ २ ॥ १७ ॥ ऋ० ८ । ४ । ७, ८ ।

भा०—(१) हे परमात्मन् ! (तव सख्ये) आपके मित्र भाव में
रहते हुए हम (मा भेम) कभी भय न करें । (मा श्रमिष्म) कभी श्रम
से पीड़ित न हों, कभी न थकें । (वृष्णः) सब सुखों की वर्षा करने हारे
(ते) तेरा (कृतं) बनाया हुआ यह संसार (अभिचक्ष्यं) साक्षात्
इतुति योग्य, दर्शनीय एवं (महत्) बहुत बड़ा है । हम इसमें (तुर्वशं)

१६०६—१. तुर्वश—तुर्वी हिंसायाम् (म्वादिः) इत्यतो बाहुल्यक 'अशच'

भौणादिकः हिंसित हिंस्यते वा व्याध्यादिभिरिति तुर्वशः । यशा, तू-

हिंसाशालि, जन्म जरा मरण और रोगों से परिपीडित या बेसबरा होकर भोग करने हारे या काम से पीडित, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पर-
चय करने हारे इस जीव को (यदुं) परमेश्वर के नियम में स्थित या
यम नियमादि के अभ्यासी होकर विषयों से उपरत हुआ (परमेम)
देख लें ।

(२) (वृषा) वर्षण करने हारा. वीर्य का सेचक पुरुष (दानः)
समस्त प्राणियों को जीवन दान करते हुए मेघ के समान वीर्य दान करता
हुआ (सव्यां) उत्पादनशील भूमि के समान (स्फिग्यां) कटिप्रदेश में
स्थित गर्भधानी में (अनुवावसे) जीव के रूप में स्वयं वास करता है । आत्मा
वै जायते पुत्रः । वह (अस्य) इस गर्भगत जीव के प्रति (न रोपति)
कभी कोप नहीं करता, वहां (सारधेय) प्रसरणशील, सारवान् (मध्वा)
अमृत जीव (Sprm) से (सम्पृक्ताः) संसक्त हुई (धेनवः) शुक्र-
धाराएं (protoplasm) हैं । हे जीव ! तू (तूयम्) शीघ्र ही (एहि)
आ और (द्रव) शीघ्र आ और (पिव) उस पोषक रस का पान कर ।

(वृषा सव्यं वावसे) जलों का वर्षक इन्द्र वीर्य कटिभाग में सब
प्राणियों को ढक लेता है (दानो न अस्य रोपति) वह दानशील यज्ञ-
मान इन्द्र पर रोपें नहीं करता (सारधेय मध्वा सम्पृक्ताः) मधुमक्खी के
शहद के समान रसीले दूध आदि से मिलित (धेनवः) धेनु=हमारे पान
करने योग्य सोम है । (तूयम् एहि द्रव पिव) हे इन्द्र तुम शीघ्र २ आओ
पान करो । यह अर्थ सायणकृत है ।

त्वरणाहिंसनयोः (दिवादिः) इत्यत्रः तूर्णमश्नुते इति षृपोदरादिस्वात्पूर्-
र्वपदह्रवकारश्चोपजनः, तुर्वशाः असन्तुष्टः । यद्वा तुर्वशः कामो यस्य सः ।
गद्वा वश कान्तौ । (दिवादिः । इत्यत् अप । चतुर्षु धर्मादिषु वशोऽस्वेति,
चकारलोपेन तुर्वशः ।

यहां वस्तुतः गर्भ में बीज के आने, जमने, जीव के प्रवेश और पालन का वर्णन है। यज्ञकाण्ड के अनुसार इन्द्र को उत्तरवेदि स्थान में बुलाया जाता है वहां ही सोम तय्यार करके रखे जाते हैं। और उत्तरवेदि योपा और योनि का प्रतिनिधि है। योपा वै उत्तरवेदिः (शत०)। इम यज्ञार्थ पर विचार करने से वे सब रहस्य स्पष्ट होते हैं। पुरुष का वीर्य प्रोटोप्लाज़म और स्पर्म अर्थात् जीव का भोज्य पदार्थ और बीज फीट से बना होता है। गर्भ में आहित होकर वह वहां उसी के आधार पर जाकर गर्भधानी या छत्रक या कमल (प्लेसेन्टा) नामक स्थान जिसको वास्तविक योनि कहना चाहिये, उस पर जमता है और वहां ही पुष्टि को प्राप्त होकर १०वें मास में बाहर आता है, यह जीवन-उत्पत्ति का रहस्य है।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
[१६०७] इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मम ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २

पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभिस्तोमैरनूपत ॥ १ ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६०८] अयं सदस्मृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे ।

३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

सत्यः सो अस्य माहमा गृणे शवो यज्ञपु विप्रराज्ये

॥ २ ॥ १८ ॥ ऋ० ८ । ३ । ३, ४ ॥

भा०—(१) हे (पुरुवसो) समस्त प्रजाओं में वास करने हारे और प्रचुर धन के स्वामी ! इन्द्रियों में वास करने और नाना जीवों को बसाने हारे (इन्द्र) आत्मन् ! परमात्मन् ! (मम) मेरी (इमाः) ये (गिरः) वेदवाणियों (त्वा उ) तुम्हको (वर्धन्तु) बढ़ावें, तेरी बलवृद्धि करें। तुम्हको ही (पावकवर्णाः) अग्नि के समान कान्ति वाले, तेजस्वी, अथवा पालन करने हारे स्वरूप वाले शुद्ध, उदार, धर्मात्मा (शुचयः) स्वयं तेजस्वी, शुद्धहृदय, (विपश्चितः) तपस्वी, ज्ञानवान्, विद्वान् गण

(स्तोमैः) उत्तम वेदमन्त्रों द्वारा (अभि अनूपत) साक्षात् ज्ञान करके तेरा गुणगान करते हैं । (अवि० सं० २५०) पृ० १२८ ।

(२) (अयं) वह आत्मा और परमात्मा (सहस्रं) हजारों (ऋषिभिः) मन्त्रार्थ द्रष्टा, तत्त्वज्ञानियों और अतीन्द्रिय अर्थ के दर्शन करने हारे परम योगियों द्वारा (सहस्कृतः) बल से युक्त, बलवान्, तीव्र, सब दुःखों पर विजयी किया जाकर (समुद्रः हव) रसधाराओं, आनन्दतरंगों को ऊपर उमड़ाने वाले समुद्र के समान (पप्रथे) विस्तार को प्राप्त हो जाता है अर्थात् आनन्द सागर के समान उमड़ पड़ता है । (अस्य) इस आत्मा की (सः) वह (महिमा) महिमा (सत्यः) सत्य है और (विप्राज्ये) मेधावी विद्वानों के राज्य, अधिकार, शासन, शिक्षण में और (यज्ञेषु) धर्म कर्मों में (अस्य) इस आत्मा के ही (शवः) बलकी (गृणे) महिमा का वर्णन करूं ।

२ ३ २४ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

[१६०६] यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिपा अरिः ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ १ २

तिरश्चिदर्थे रुषमं पवीरवि तुभ्यत्सो अज्यने रविः ॥१॥

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६१०] तुरस्यवो मधुमत्तङ्घृतश्चूनं विप्रासो अर्कमानृचुः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

अस्मे रयिः पप्रथे वृष्णं शवोऽसौ स्वानास इन्दवः

॥ २ ॥ १६ ॥ अ० ८। ५१। ९, १० ॥

भा०—(१) (यस्य) जिस परमात्मा का (अयं) यह (विश्वः) समस्त (आर्यः) श्रेष्ठ (अरिः) मनुष्य (शेवधिपाः) उसके दिव्य धन ज्ञान की रक्षा करने हारा (दासः) मृत्यु के समान है और उस यज्ञरूप (अर्थे) स्वामी (रुषमे) सबके नियन्ता (पवीरवि^१) पाप-

१६११—१। पविः शंलयो भवति । यद्विपुनाति कायं । तद्वत् पवीरमायुधं तद्वान्

पवीरमान् (नि० । दै० अ० २१। ख० ३०) ।

निवारक राजदण्ड के समान परम तपस्वरूप वज्र को धारण करने हारे परमात्मा में (तिरश्चित्) यह सब विद्यमान है । हे प्रभो ! (तुभ्य इत्) स्थूल सृष्टि में तेरे गुणों के दर्शन के लिये ही (सः) वह (रयिः) प्राण और देह, पृथिवी आदि सब मूर्त पदार्थ (अज्यते) प्रकट होते हैं । तू ही उन का स्वामी सन्चाल, कर्ता धर्ता है ।

(२) (तुरययवः) क्षिप्रकारी, अभ्यासी, कार्यकुशल, (विप्रासः) विद्वान् लोग (घृतश्चुनम्) तेज के देने हारे (मधुमन्तम्) आनन्दप्रद, ज्ञानमय (अरुं) पूजनीय इन्द्र आत्मा को (आनृचुः) उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि (अस्मे) हम में (रश्मिः) प्राणबल और ज्ञान का प्रकाश (पप्रथे) बढ़े और (अस्मे) हम में (वृण्यं) वीर्यवान् (शवः) बल बढ़े और (स्वानासः) प्रेरणा करने हारे (इन्द्रवः) शुक्री की वृद्धि हो । बल वीर्य और शुक्री की कामना से विद्वान् लोग आत्मज्ञान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६११] गोमन्न इन्द्रो अश्ववत्सुतः सुदत्त धनिव ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

शुचिञ्च वर्णमपि गापु धारय ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६१२] स नो हरीणाम्पन इन्द्रो देवप्सरस्तमः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६१३] सनेमि त्वमस्मदा अदेवङ्गश्चिदत्रिणम् ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

साह्यां इन्द्रो परि वाधो अपद्वयुम् ॥ ३ ॥ २० ॥

अ० ६ । १०५ । ४६ ॥

(२) हे (इन्द्रो) योगिन् ! हे (हरीणाम् पते) इन्द्रियों के पालक जितेन्द्रिय ! (देव) विद्वन् ! (पसरस्तमः) सबसे अधिक तेज वा दीप्ति से युक्त होकर (सः) वह आप (नर्यः) सब मनुष्यों के हितकारक (सख्ये) मित्र के लिये (सखा इव) मित्र के समान (नः) हमारे (रुचे) यश तेज को बढ़ाने के लिये (भव) हो । (२) परमात्मा के पक्ष में—हे परमात्मन् ! समस्त लोकों के स्वामिन् ! (इन्द्रो) ऐश्वर्यशील ! आप (पसरस्तम) सबसे बड़े दीप्तिमान् हो, आप हमें मित्र के समान होकर तेज प्रदान करें ।

(३) हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यशील राजन्, विद्वन्, परमात्मन् ! (त्वं) आप (अस्मत्) हमारे प्रति (सनेमि) अनादिकाल से चले आये मित्रभाव कृपाभाव को (आ) प्रकट करो । आप (साह्वान्) सब विघ्नों को पराजय करने हारे (अदेवम्) देव, परमेश्वर से रहित (आत्रिणं) केवल भोग करने हारे विषयलोलुप, (कंचित्) किसी भी भोगमय देहबन्धन को (परिबाधः) विनाश करो और (द्वयुं) दो दो, द्वन्द्व, सुख दुःख, शीत उष्ण, जन्म मरण, इहलोक परलोक आदिके चाहने हारे इस अन्तःकरण को भी (अप) दूर करो ।

[१६२४] अञ्जने व्यञ्जन समञ्जन क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जत ।

लिन्धोरुक्छ्वासे पतयन्तमुक्ष्णं हिरण्यपावाः पशुमप्सु

गभ्णते ॥ १ ॥

[१६१५] विपश्चिते पवमानाय गायत महां न धारात्यन्धो अर्षति ।

अहिर्न जूष्णामतिसर्पति त्वचमत्यो न क्रीडन्नसरदृषा

हरिः ॥ २ ॥

[१६१६] अग्नेगा राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्नाम्भुवनप्वर्षितः ।

हरिधृतस्तनुः सुदृशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय

आक्षयः ॥ ३ ॥ ११ ॥

अ० ६ । ८६ । ४३-४५ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविफल सं० [१६४] पृ० २८४ ।

(२) हे विद्वान् पुरुषो ! (विपश्चिते) ज्ञानशील ब्रह्मज्ञानी, (पवमानाय) मुक्ति के मार्ग में गति करने हारे आत्मा के (गायत) गुण वर्णन करो । वह (अन्धः) देह को प्राण-धारण कराने हारा सोम आत्मा (मही) बड़ी (धारा न) जलधारा के समान (अति अर्पति) अपने तटों रूप देहबंधनों को भी तोड़कर पार चला जाता है । (जूर्णाम्) जीर्ण हुई (त्वचम्) त्वचा को (अहिं न) जिस प्रकार सांप छोड़कर चला जाता है उसी प्रकार जो अपने जीर्ण कलेवर को छोड़कर (अतिसर्पति) निकल भागता है और जो (हरिः) हरणशील, गतिशील, (वृषा) बलवान् आत्मा स्वयं (क्रीडन्) देहों में रमण करता हुआ भी (अश्वः न) अश्व के समान (असरद्) एक लोक से दूसरे लोक या दशा में भाग जाता है ।

(३) यह सोमरूप योगी, आत्मा, चन्द्र के समान भी वर्णन किया जाता है । वह (अग्नेगाः) इन्द्रियों का नेता, और संसार-बन्धनों को काटकर सब भोगों को त्याग कर, आगे श्रेष्ठ पद की ओर जाने हारा, (राजा) प्रकाश मान्, तेजस्वी (आप्यः) कर्म और प्रज्ञानों या प्राणों में श्रेष्ठ (अह्नां) अपनी घटती और बढ़ती कलाओं द्वारा दिनों के (विमानः) रचने हारे चन्द्र के समान अपनी षोडश कलाओं से अपनी ज्योतियों को बनाने हारा (भुवनेषु) लोकों के समान प्राणों में (अर्पितः) स्थापित है । जो (हरिः) गतिशील आत्मा (घृतस्नुः) क्षान्ति और तेज से देदीप्यमान होकर या ज्ञान से ज्ञान करके (सुदृशीकः) सम्यक् तप, परमपद का दर्शन करने हारा, (अर्णवः) ज्ञानवान्, (ज्योतीरथः) ज्योतिष्मान् स्वरूप होकर (रायः) परम धन का अधिकारी (अद्ययः) परमपद के योग्य होकर (पवते) दिचरण करता है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

इति सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः । सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥

इति षोडशोऽध्यायः ॥



अथ सप्तदशोऽध्यायः ।

अथाष्टमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥

॥ १ ॥ ऋषिः—१, ७ शुनःशेष आजीर्गतिः । २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ।
 ३ शंयुर्वाहस्पत्यः । ४ वसिष्ठः । ५ वामदेवः । ६ रेभसन्तु काश्यपौ । ८ नृमेधः ।
 ९, ११ गोषूक्त्यश्वसक्तिर्नौ काण्वायनौ । १० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा । १२ विरूपः ।
 १३ वत्सः काण्वः । १४ एतत्साम ॥ देवता—१, ३, ७, १२ अग्निः ।
 २, ८—११, १३ इन्द्रः । ४ विष्णुः । ५ इन्द्रवायुः । ६ पद्मानः सोमः ।
 १४ एतत्साम ॥ छन्दः—१, २, ७, ९, १०, ११, १३, गायत्री । ३ बृहती ।
 ४ त्रिष्टुप् । ५, ६ अनुष्टुप् । ८ प्रागाथम् । ११ उष्णिक् । १४ एतत्साम ॥
 स्वरः—१, २, ७, ९, १०, १२, १३, पङ्क्तः । ३, ६ मध्यमः, ४ धैवतः ।
 ५, ६ गान्धारः । ११ ऋषभः १४ एतत्साम ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १२ १ २ २
 [१६१७] विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः ।

१ २
 चनो धाः सहसो ग्रहो ॥ १ ॥

२ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१६१८] यच्चिद्धि शश्वता तना देवन्देवं यजामहे ।

१२ २२ ३ २
 त्वे इद्भूयते हविः ॥ २ ॥

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २ २
 [१६१९] प्रियो नो अस्तु विश्वपतिर्होता मन्द्रो वरेण्यः ।

३ २ ३ १ २ ३ २
 प्रियाः स्वग्नयो वयम् ॥ ३ ॥ १ ॥ २६ । १०, ६, ७ ॥

भा०—(१) हे (सहसः यहो) बल से प्राप्त करने योग्य अग्ने ! प्रभो !
 (विश्वेभिः) समस्त (अग्निभिः) ज्ञानवान् नेताओं और विद्वानों सहित

(इद्) इस (वचः) वाणी, हमारी प्रार्थना को और (इमं) इस (यज्ञं) स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ को प्राप्त होकर हमें (चनः) परिपक्व या उपदेश योग्य ज्ञान (धाः) धारण कराओ ।

(२) (यन् चित् हि) यद्यपि (शुश्रुता) नित्य (तना) आत्मारूप यज्ञ द्वारा (देवं देवं) वरुण, इन्द्र आदि नानारूप से उपास्यदेव को (यजामहे) हम उपासना करते हैं तो भी वह सब (हविः) प्रस्तुत करने योग्य उपासनामय स्तुति वचन और चरु आदि होम (त्वे इत्) तुम्हको ही लक्ष्य करके (हूयते) दिया जाता है ।

(३) (विशपतिः) समस्त प्रजाओं का पालक (मन्द्रः) हर्षकारी, आनन्ददायक (वरेण्यः) वरण करने योग्य परमात्मा (नः) हमारा (प्रियः) प्रिय (अस्तु) हो । (स्वन्नयः) उत्तम आत्मज्ञानाग्नि से युक्त हो कर उसके भी (वयम्) हम (प्रियाः) प्रिय हों ।

१ २ ३ २ ३ २ १ २ ३ १ २
[१६२०] इन्द्रं वा विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः ।

३ १ २ ३ १ २
अस्माकमस्तु केवलः ॥१॥

१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २
[१६२१] स ना वृषन्नमुञ्चत् सत्रादावन्नपावृत्रि ।

३ २ ३ १ २
अस्मभ्यमपातीकुतः ॥२॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २
[१६२२] वृषा यूथत्र वंसगः कृशीरियत्योजसा ।

१ २ ३ १ २
ईशाना अप्रतिकुतः ॥३॥ २॥ अ० १ । ७ । १०, ६, ८ ॥

भा० — (१) हे विद्वान् पुरुषो ! (वः जनेभ्यः) आप लोगों के हित लिये (विश्वतः) सबसे (परि) ऊपर विराजमान (इन्द्रम्) परमेश्वर इन्द्र की (हवामहे) उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह (केवलः) अद्वितीय परमेश्वर (अस्माकं) हमारा सहायक (अस्तु) हो ।

(२) हे (सत्रादावन्) समस्त पदार्थों के एक साथ देने हारे (वृषन्) सबसे श्रेष्ठ, सुखों के वर्षक ! परमात्मन् ! (सः) वह आप (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (अप्रतिष्कृतः) अद्वितीय, अपराजित, शक्तिमान् कभी सम्मलित न होने वाले, कभी भूलचूक न करने हारे होकर (चरं) अन्नादि पदार्थों के भोगने हारे अविनाशी देह बन्धन को (अप वृधि) दूर करो ।

(३) (वृषा) सब कामनाओं को पूर्ण करने हारा (वंसगः) सुन्दर भाति वाला बैल (यूथा इव) जिस प्रकार गौश्रों के गोलों में चला जाता है उभी प्रकार (औजसा) अपने बल से (ईशानः) सर्व शक्तिमान्, ऐश्वर्यवान् (अप्रतिष्कृतः) अद्वितीय परमेश्वर (कृष्टीः) मनुष्यों को (इ-यति) प्राप्त होता है ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[१६२३] त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय ।
३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधन्तु च तुजः ॥ १ ॥
१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१६२४] पर्षि तोकन्तनयं पर्वभिष्ट्वमद्वैरप्रयुत्वभिः ।
२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

अग्ने द्वेडांसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्रांसि च ॥ २ ॥ ३ ॥
अ० ४। ४६। ६, १०॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [४१] पृ० १२ ।
(२) हे अग्ने ! परमेश्वर (त्वं) तू (अप्रयुत्वभिः) सदा साथे रहने वाले (अद्वैः) अहिंसक, एवं अहिंसित, सुरादिन (पर्वभिः) पालकों द्वारा (तोकं) पुत्र, बालक और (तनयं) पौत्र को (पर्षि) पालन करता है । तू (नः) हमारे (दैव्या) आधिदैविक (द्वेडांसि) विपत्तियों और ज्ञान और सुखों के देने वाले गुरुजनों के प्रति तिरस्कार आदि के वाणों को (अदेवानि च) आधिभौतिक और आध्यात्मिक, मानुष,

वह (वर्षः) तेजोमय रूप (अस्मद्) हम से (मा अपगूह) मत छिपाइये ।

(२) हे (शिपिविष्ट) रश्मियों से आविष्ट, अथवा तेजोमय लोकों में व्यापक परमात्मन् ! मैं (अर्थः) अपनी इन्द्रियों का स्वामी जितेन्द्रिय होकर (वयुनानि) तेरे समस्त सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि महान् कार्यों को (जानन्) जानता हुआ (तत्) वह अति प्राचीन (हव्यं) पुकारने, नित्य ग्रहण और शरण करने योग्य नाम (शंसामि) कहता हूँ और (अस्य) इस (रजसः) प्राकृत लोकों के भी (पराके) दूर, परे भोज में भी (क्षयन्तं) निवास करने हारे (तवसं) महान् (तं त्वा) उस सनातन तेरी मैं (अतव्यान्) तुच्छ व्यक्ति (गृणामि) स्तुति करता हूँ ।

(३) हे विष्णो ! सर्वव्यापक ! (ते) आपको मैं (आसः) अपने सुख से (वषट्) सर्व कामनाओं का पूरक (आहृणोभि) साक्षात् स्वीकार करता हूँ । हे (शिपिविष्ट) तेजोमय ! (मे) मेरा (तत्) वह (हव्यम्) ग्रहण योग्य हुआ स्तुति वचन (जुपस्व) स्वीकार कर (मे) मेरी (सुस्तुतर्माः) उत्तम स्तुतिरूप (गिरः) वेदवाणियों (त्वा) तुझको (वर्धन्तु) बढ़ावें, अर्थात् तेरी महिमा को बढ़ावें । हे विद्वान् पुरुषो ! (यूयं) आप लोग (नः) हम लोगों की (सदा) नित्य (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी साधनों से (पात) रक्षा करो ।

इति प्रथमः खण्डः ।

—:0:—

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
[१६२८] वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रन्दिविष्टिषु ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

आयाहि सोमपीतेयै र्पांढो देव नियुत्वता ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१६२६] इन्द्रश्च वायवेषां सोमानाम्पीतिमर्हथः ।
 ३ १ २ २ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २
 युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यूक् ॥२॥
 २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६३०] वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती ।
 ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 नियुत्वन्ता न ऊतय आयातं सोमपीतये ॥३॥५॥

श्र० ४ । ४७ । १-३ ॥

भा०—(१) हे वायो ! प्राणात्मन् ! (दिविष्टिषु) दिव्य तेज की साधना के अवसरों में मैं (शुक्रः) वीर्यवान् तेजस्वी होकर (ते) तेरे लिये (अग्रम्) सबसे पूर्व (मध्वः) अमृत ब्रह्मानन्दरस को (अयामि) प्राप्त करता हूँ । हे आत्मन् ! देव ! (स्पार्हः) अति स्पृहा का पात्र तू (नियुत्वता) नियुत्=प्राण और मनस्वरूप अश्व अर्थात् बलवान् साधन से (सोमपीतये) सोमरस पान करने के लिये (आयाहि) प्राप्त हो ।

(२) हे वायो ! प्राण और (इन्द्रः च) इन्द्र ! आत्मन् ! आप दोनों ही (सोमानां) ज्ञानों या ब्रह्मानन्द रसों का (पात) पान करने के (अर्हथः) योग्य हैं । (इन्द्रवः) समस्त सोम और ब्रह्मरस का आनन्द लेने हारे योगी लोग भी (युवां) आप दोनों के प्रति (सध्यूक्) एक साथ (निम्नः) नीचे ढालू स्थान पर (आपः न) जलों के समान (यन्ति) चले जाते हैं ।

(३) हे (वायो) ज्ञानवन् ! (इन्द्रः च) और ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! जीव ! (शवसस्पती) आप दोनों बल के परिपालक हैं, आप (नियुत्वता) मनरूप अश्व से युक्त (शुष्मिणा) बलशाली होकर (सोमपीतये) आत्मज्ञान रूप सोम के पान करने और (नः) इन्दारी (ऊतये) रचा करने के लिये (आयातम्) आइये, हमें प्राप्त हों ।

इन्द्रियों का आत्मा और प्राण के प्रति प्रजाओं का राजा या नरपति के प्रति और योगियों का भी आत्मा और प्राण के प्रति समानरूप से वचन है ।

- १ २ ३ ५ २ २ ३ १ २ ३ ५ २ २
 [१६३१] अथ क्षपा परिष्कृतो वाजा अभिप्रगाहसे ।
 १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यातवे ॥१॥
 १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१६३२] तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः ।
 १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 यं गाव आसभिर्दधुः पुग नूनञ्च सूरयः ।
 १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
 [१६३३] तङ्गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूपत ।
 ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम विभ्रतीः ॥३॥६॥

अ० ६ । ६६ । २-४ ॥

भा०—(१) (यदि) जब (विवस्वतः) सूर्य के समान प्रेरक आदित्ययोगी की (धियः) अपनी चित्तवृत्तियां अपनी ध्यान और धारणा शक्तियों को (हरिं) प्राण, या मन, या दुःखहारी प्रभु को (यातवे) आत्मा के समीप प्राप्त होने के लिये (हिन्वन्ति) प्रेरित करता है (अथ) तब हे सोमरूप आत्मन् ! (क्षपा ^१) अन्धकार, अज्ञानों का नाश करने वाली चित्त शक्ति से (परिष्कृतः) सुभूषित होकर (वाजान्) नाना बलों और बल से साध्य कार्यों या ज्ञानों को (अभि) साक्षात् स्वयं तू (प्र गाहसे) पार कर जाता है ।

(२) (अस्य) इस सोमरूप प्राण या आत्मा के (तं) उस रसरूप को श्रोतधिरस के समान (मर्जयामसि) परिष्कृत करते हैं (यः) जो (मदः) आनन्दस्वरूप होकर (इन्द्रपातमः) आत्मा द्वारा उत्तम रीति से आस्वादन किया जाता है । (यं) जिसको (गावः) ज्ञान-इन्द्रियगण और (सूरयः) प्राणेंद्रिय (पुरा) पूर्वकाल में और (नूनं च) अब भी (आसभिः) देह में अपने नियत स्थानों या मुखद्वारों से (दधुः) धारण

१६३१—१: 'वाजी अभिप्रगाहते' इति अ० ।

१. क्षपा क्षपयित्री सेना, इति सायणः ।

करते हैं । अथवा जिसको (गावः सूरयः) वेदज्ञ विद्वान् पूर्वकालों में और अब भी, अपने (आसभिः) मुखों द्वारा वाणियों और स्तुतियों द्वारा (दधुः) धारण करते हैं ।

(३) (तं) उस (पुनानं) पवित्र करने हारे और स्वतः पवित्र साम को (पुरायया) पुरातन (गाथया) गानरूप छन्दोमय वेदवाग्मी से (अभि अनूपत) स्तुति करते हैं (उत उ) और (देवानां) देवों, सूर्य, वायु, अग्नि आदि दिव्य पदार्थों का (नाम) नाम या स्वरूप (बिभ्रतीः) धारण करती हुई (धीतयः) वेदवाणियां भी उसको ही (कृपन्त) समर्थन करती हैं, उसका ही गुणगान करती हैं ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

[१६३४] अश्वन्न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निन्नमोभिः ।

३ १ २ ३ १ २

सम्राजन्नमध्वगणाम् ॥१॥

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१६३५] स घानः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः ।

३ २ ३ १ २

मीद्व्यां अस्माकं बभूयात् ॥२॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ १ २

[१६३६] स नो दूराच्चासाच्च नि मत्यर्दिघायोः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २

पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥३॥७॥ ऋ० १ । २७ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१७] पृ० ६ ।

(२ (स घ) वह ही परमेश्वर ! (पृथुप्रगामा) विशाल ब्रह्माण्ड में व्यापक (शवसा सूनुः) समस्त संसार को अपने बलसे प्रेरण करने हारा (नः) हमें (सुशेवः) उत्तम रूप से भजन करने योग्य है वही (अस्माकं) हमारे (मीद्वान्) सब मुखों को वर्षण करने वाला, मेघ के समान आनन्दकारी (बभूयात्) होवे ।

(३) (सः) वह आप जगदीश्वर (विश्वायुः) समस्त प्राणियों को पूर्ण आयु देने हारा (दूरान्) दूर, वर्तमान और (आसात् च) समीप में वर्तमान (अघाथोः) पौपी (मर्यात्) मनुष्य से (नः) हमारे (सदम्) देह और गृह को और प्रतिष्ठा को (इत्) भी (नि पाहि) नित्य रक्षा करे।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१६३७] त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वमि विश्वा अस्मि स्पृधः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वन्तूर्य तरुष्यतः ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २

[१६३८] अनु ते शुष्मन्तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुन मातरा ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

विश्वास्ते स्पृधः अथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि

॥२॥ ॥ अ० । ८ । ६६ । ५, ६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [३११] पृ० १५६ ।

(२) (तुरयन्तं शिशुम्) गमन करते हुए बालक के प्रति (मातरां न) जिस प्रकार मा बाप जाते हैं उसी प्रकार (तुरयन्तं) गति प्रदान करते हुए तेरे या स्वतः देह से देहान्तर में गति करते हुए तेरे (शुष्मं) बल के साथ (क्षोणी) छौं और पृथिवी, प्राण और अपान (ईयतुः) गमन करते हैं । हे इन्द्र ! आत्मन् ! (यत्) जब (वृत्रं) विघ्नकारी अज्ञान तम का तू (तूर्वसि) नाश करता है तब (मन्यवे) मन्युस्वरूप या ज्ञान स्वरूप, मननशील (ते) तेरे आगे (विश्वाः) समस्त (स्पृधः) स्पर्धा करने वाले काम और क्रोध आदि अन्तःशत्रुओं की सब चेष्टाएं (अथयन्त) शिथिल हो जाती हैं ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

[१६३९] यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयद्यदभूमि व्यवर्तयत् ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २

चक्राण आपशन्दिवि ॥ १ ॥

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
 [१६४०] व्यान्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना ।

२ ३ १ २ ४ ३ २

इन्द्रो यदभिनद्वत्तम् ॥ २ ॥

१ २ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ २

[१६४१] उदुगा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहा सतीः ।

३ १ २ ४ २

अर्वाञ्चन्द्रुदे वत्तम् ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० ८ : ३४ । २, ७, ८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१२१] पृ० ६५ ।

(२) (यद्) जब (इन्द्रः) आत्मा (वत्तम्) घेर लेने वाले कामं क्रोधादि तामस आवरण को (अभिनत्) तोड़ डालता है तब (सोमस्य) ज्ञान और शुक्र के (मदे) आनन्द हर्ष में (रोचना) प्रकाशमान (अन्तरिक्षम्) भीतर विराजमान चित्त को भी (व्यतिरत्) अधिक शक्तिशाली बनाता है ।

भौतिक पक्ष में इन्द्र सूर्य है ; वत्त मेघ है अन्तरिक्ष धौ, और पृथिवी के मध्य का वह भाग जहां मेघ विचरता है । सोम वायु का वेग है । जिस प्रकार वायु के वत्त से सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न करता और अन्तरिक्ष को स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार योगी का आत्मा प्राण के वत्त से अज्ञान-आवरण को हटाकर अन्तःकरण को स्वच्छ कर देता है । इस प्रकार की उपमा का आधार लेकर शिल्पवचन द्वारा दोनों तत्त्व दर्शाये हैं ।

(३) इन्द्र आत्मा ने (अंगिरोभ्यः) अंग अर्थात् देह में रस अर्थात् सार प्राणरूप से वर्तमान इन्द्रियों के लिये (गुहा) अन्तःकरण रूप गुहा में (सतीः) वर्तमान (गाः) गमनशील, ज्ञानग्राहक शक्तियों को (आविष्कृण्वन्) प्रकाशित करता हुआ (उद् आजत्) ऊपर को प्रोर्तित

करता है और (वलम्) वलवान् तामस आवरण को (अर्वाञ्च) नीचे (नुनुदे) पटक देता है, अर्थात् विनाश करता है ।

अथवा—(इन्द्रः) परमेश्वर (गुहा सतीः गा आविष्कृतवन्) निगूड़ स्थान, अव्यक्तरूप में वर्तमान वेदवाणियों को प्रकट करता हुआ (अंगिरोभ्यः उदाजत्) विद्वानों, ज्ञानी ऋषियों को प्राप्त कराता है और (वलम् अर्वाञ्च-नुनुदे) पाशाविक तामस स्वभाव को उस ज्ञान के नीचे-कर देता है ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[१६४२] त्वमु नः सत्रा साहं विश्वासु गीर्ष्वायतम् ।

१ २ ३ १ २
आ च्यावयस्युतये ॥ १ ॥

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[१६४३] युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम् ।

१ २ ३ १ २
नरमवार्यक्रतुम् ॥ २ ॥

० २ ३ २ ३ १ २
[१६४४] शिञ्जा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वां ऋचीपम ।

१ २ ३ २ ३ १ २
अवा नः पार्ये धनं ॥ ३ ॥ १० ॥ अ० ८ ६२ । ७. ६ ॥

भा०—(१) हे विद्वन् (युध्मं) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि भीतरी शत्रुओं को मार भगाने हारे (सन्तं) सत्स्वरूप, सदा विद्यमान (अनर्वाणं) कूटस्थ, अन्य की अपेक्षा करके न चलने हारे, ध्रुवस्वरूप (सोमपाम्) ज्ञान, आनन्दरस का पान करने हारे (अन-पच्युतम्) अपने शुद्ध पद से न गिरने हारे, (नरं) नेतारूप, (अवार्य-क्रतुम्) अनिवार्य, नित्य, अविनाशी कर्म=उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के करने हारे, अथवा अविनाशी ज्ञानवाले इस इन्द्ररूप परमेश्वर को अपनी रक्षा के निमित्त स्मरण कर ।

(२) हे (ऋचीपम) स्तुतियों द्वारा प्राप्त करने योग्य इन्द्र ! परमेश्वर ! आप (विद्वान्) सर्वज्ञ हैं । आप (नः) हमें (रायः) धन नाना

प्रकार के दान (पुरु) बहुत चार, एवं बहुत से प्रकारों से (आशित) दान दो । और (पायें) परम उत्कृष्ट (धने) धन, मोक्ष के प्राप्त करने में (नः) हमें (अथ) रक्षा कर ।

सायण ने ‘पायें धने’ इसका अर्थ किया है—“पाराः शत्रवः तत्र भवे धने” अर्थात् शत्रुओं का धन लूटने के अवसर पर ईश्वर हमारी रक्षा करे । इन्द्र अर्थात्=राजाके पक्षमें यह अर्थ संगत है । ईश्वर पक्षमें मोक्ष को ‘पर पार’ कहा जाता है । उस में प्राप्त करने योग्य धन मोक्षानन्द है । उस को प्राप्त करने में आने वाले विघ्नों के बीच रक्षा करने की ईश्वर से प्रार्थना है । यही अर्थ आचार्य और गुरु के पक्ष में भी संगत है ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
[१६४५] तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षमुत क्रतुम् ।

१ २ ३ २ ३ १ २
वज्रं शिशाति धिषणा वरणम् ॥ १ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१६४६] तत्र द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वद्धति अथः ।

२ ३ ३ १ २
त्वामापः पर्वतासश्च द्विन्विरे ॥ २ ॥

१ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[१६४७] त्वां विष्णुवृहन् क्षयो मित्रा गृणाति वरुणः ।

१ २ २ ३ २ ३ १ २
त्वां शर्द्धो मदत्यनु मारुतम् ॥३॥११॥अ० ७।१५।७, ८, ९ ॥

भा०—(१) हे इन्द्र ! (तव) तेरे (त्वत्) वह (वरेण्यं) वरण करने योग्य (इन्द्रियं) ऐश्वर्यमय स्वरूप को, (बृहत्) बड़े भारी (तव दक्षम्) तेरे बल सामर्थ्य, अनन्त शक्ति को और (क्रतुम्) उस महान् कर्म= ब्रह्माण्ड संचालन को और वरण करने योग्य ज्ञानरूप (वज्रं) देहबन्धन काटने वाले मोक्षसाधन को हमारी (धिषणा) बुद्धि और वाणी (शिशाति) साक्षात् करती है, उसकी महिमा को दिखलाती है ।

(२) हे इन्द्र ! (तव) तेरे (पौंस्यं) बल, पौरुष को (द्यौः) वह द्यौलोक जिसमें समस्त सूर्य, नक्षत्र आदि तैजस पिण्ड भ्रमण करते

हैं (वर्द्धति) विशाल रूप में प्रकट करता है । और (तव श्रवः) तेरी कीर्ति को (पृथिवी) यह पृथिवी (वर्द्धति) बढ़ा रही है । (आपः) ये जल, नदियें और (पर्वताश्च) पहाड़ (त्वा) तेरी ही (हिन्वरे) स्तुति गान कर रहे हैं ।

(३) हे परमेश्वर (बृहन्) बड़ा भारी (स्यः) निवास स्थान (विष्णुः) सर्वव्यापक आकाश या पृथिवी (मित्रः) स्नेहवान् जल (वरुणः) वरुण करने योग्य अग्नि आदि ये सब दिव्य पदार्थ (त्वां गृणाति) तेरी स्तुति करते हैं । (मारुतं) वायु का (शर्धः) बल, वेग (त्वां) तेरे ही (अनुमदति) अनुकूल रहकर हर्ष को प्राप्त होता है, नाना प्रकार से नृत्य करता है ।

इति तृतीयः खण्डः ।

१२ ३ १२ ३१ २ ३१२
[१६४८] नमस्ते अग्ने ओजसे गृणन्ति देव कृप्यः ।

१२ ३१२

अमैरामित्रमर्ह्य ॥ १ ॥

३२४ ३१२ ३१ २ ३१२ ३२

[१६४९] कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेपिषो रयिम् ।

१२ ३१२

उरुकृदुरु एस्कृधि ॥ २ ॥

१ २ ३१२ २२ ३१३

[१६५०] मा नो अग्ने महाधने परावर्भारिभृताथा ।

३२ ३२ ३१ २

संवर्षं सं रयिञ्जय ॥३॥ १२ ॥ अ० ८ । ७५ । १०-१२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [११] पृ० ५ ।

(२) हे (अग्ने) परमेश्वर ! आप (नः) हमारे (गविष्टये) आत्मा और इन्द्रियों के इष्ट साधन के लिये (रयिन्) उपयुक्त विषयरूप धन और प्राणरूप सामर्थ्य को (संवेपिषः) प्राप्त करता है । हे (उरुकृत्)

महान् कार्यसम्पादक आप (नः) हमें भी (उरु कृधि) महान कीजिये ।
 (३) हे अग्ने ! (यथा भारभृत्) जिस प्रकार बोझा उठाने वाला
 अपना बोझ परे फेंक दिया करता है उस प्रकार (महाधने) मोक्षरूप
 धन की प्राप्ति के अवसर में (नः) हमें बोझासा जानकर (मा परा वर्ग) परे
 न हटा, बल्कि हमें (संवरां) उत्तम मोक्षरूप (रथि) धन को (संजय)
 प्राप्त करा दे ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१६५१] समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः ।
 ३ १ २ ३ १ २

समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१६५२] वि चिद् वृत्रस्य दोधतः शिरो विभेद वृष्णिना ।
 १ २ ३ १ २

वज्रेण शतपर्वाणा ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१६५३] आजस्तदस्य तित्विप उभे यत्समवर्तयत् ।
 २ ३ १ २ ३ १ २

इन्द्रश्चर्मैव रोदसी ॥ ३ ॥ १३ ॥ अ० ८ । ६ । ४, ६

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१३७] पृ० ७५ ।

(२) (दोधतः) समस्त जगत् को कंफाने हारे (वृत्रस्य) आवरणक
 अज्ञान या विघ्न के (शिरः) शिरोभाग, मूल, जड़ को परमेश्वर अपने (शत
 पर्वाणा) सैकड़ों पोरुओं=पालक शक्तियों के बने (वृष्णिना) सुखों के
 वर्षक (वज्रेण) वज्ररूप ज्ञान से (विभेद) तोड़ डालता है ।

(३) (तत्) उस समय (अस्य) इस परम आत्मा का
 (आजः) सामर्थ्य और तेज (तित्विपे) प्रकाशित होता है (यत्) जब
 (इन्द्रः) परमेश्वर (उभे रोदसी) द्यौ और पृथिवी दोनों को (चर्म
 इव) मानों चमड़े से ढोल के समान (समवर्तयत्) मढ़कर तैयार
 कर देता है । अर्थात् सृष्टि के प्रकट होने पर ही ईश्वर की विभूति का

पति चलाता है । अथवा (अस्य तत् ओजः तिविपे) ईश्वर का वह तेज ही चमकता है । (यत् इन्द्रः चर्म इव उभे रोदसी समवर्तयत्) जिसको वह दोनों आकाश और पृथिवी पर चाम के समान मढ़े हुए हैं । अर्थात् उसी का सर्वत्र तेज है ।

३२ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१६५४] सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी ॥ १ ॥ (यजु०)

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २

[१६५५] सरूप वृषन्नागहीमौ भद्रौ धुर्यावभि ।

२ ३ ३ २ २

ताविमा उपसर्पतः ॥ २ ॥

१ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१६५६] नीव शीर्पाणि मृद्वं मध्य आपस्य तिष्ठति ।

१ २ ३ १ २ ३ २

शृङ्गेभिर्दशभिर्दिशन् ॥ ३ ॥ १४ ॥ तिस्रोऽपि ऋग्वेदे न सन्ति ।।

भा०—(१) (सूनरी) उत्तम शरीर—रथ की नेत्री, चितिशक्ति स्वयं ही (रन्ती) समस्त क्रीड़ा, चेष्टा, व्यापार करने हारी (वस्वी) प्राणरूप वसुओं की स्वामिनी (सुमन्मा) उत्तम रूप से मनन करने हारी है ।

(२) हे (सरूप) चितिशक्ति के समान रूपवाले (इन्द्र) आत्मन् ! (वृषन्) सर्वश्रेष्ठ ! (आगहि) आ, प्रकट हो । (इमा) ये दोनों (भद्रौ) कल्याण और सुखकारी (धुर्यौ) शरीर के धारक प्राण और अपान (अभि) प्रत्यक्षरूप में दिखाई देते हैं । (तौ इमौ) वे दोनों शरीर या नासिका में (उपसर्पतः) गति करते हैं ।


(३) हे विद्वान् पुरुषो ! आत्मा (आपस्य) इस प्राप्त देह के (मध्ये) भीतर (दशभिः) दश (शृङ्गेभिः) प्राणों द्वारा (दिशन्) ज्ञान और कर्म करता हुआ (तिष्ठति) विराजमान रहता है । आप लोग

उन (शीर्षाणि) शिरोभाग में रहने वाले दशों ही प्राणों को (नि मृद्त्वम्) वश करो ।

इति चतुर्थः खण्डः ।


इति सप्तदशोऽध्यायः ।

इति अष्टमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ।



अथ अष्टादशोऽध्यायः ॥

अथाष्टम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ।



श्रुपिः—मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेधश्चागिरस्तः । २ शुनरुक्षः शुनरुक्षो वा । ३ शुनःशेष आजोगतेः । ४ शंपुवाहेहाःयः । ५, १५ मेधातिथिः काण्वः । ६, ६ वसिष्ठः । ७ आयुः काण्वः । ८ अन्वरीय श्रुजिधा च । १० विश्वमना वैयथः । ११ सोमरिः काण्वः । १२ सप्तर्षयः । १३ कलिः प्रागापः । १५, १७ विधा-मित्रः । १६ निधुविः काश्यपः । १८ भरद्वाजो वाहेस्वत्यः । १९ पतरत्साम ॥ देवता—१, २, ४, ६, ७, ६, १०, १३, १५ इन्द्रः । ३, ११ १८ अग्निः । ५ विष्णुः ८, १२, १६ परमानः सोमः । १४, १७ इन्द्राग्नी । १६ पतरत्साम ॥ छन्दः—१-५, १४, १६-१८ गायत्री । ६, ७, ६, १३ प्रागाधम् । ८ अतुष्टम् । १० उष्णिक् । ११ प्रागार्थं काकुभम् । १२, १५ वृष्टी । १६ इति साम ॥ स्वरः । १-५, १४, १६ १८ पञ्जः । ६, ८, ६, ११-१३, १५ मध्यमः । ८ गान्धारः । १० श्रुपमः ॥

१ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[१६५७] पन्यं पन्यामितस्तोतार आधावत्त मद्याय ।

१ २ ३ २ ३ १ २
सोमं वीराय शूराय ॥ १ ॥

[१६५८] एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम् ।

इन्द्रर्षीभिर्गिर्वणसम् ॥ २ ॥

[१६५९] पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नार अस्मत् ।

नियमते शतमूतिः ॥३॥१॥ ऋ० ङ । २ । २५, २७, २६ ।

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [१२३] पृ० ।

(२) (इह) इस पिण्ड में (ब्रह्मयुजा) ब्रह्म के साथ समाधि द्वारा युक्त होने वाले, (शग्मा) शक्तियुक्त (हरी) दोनों प्राण और अपान (सखायं) परमेश्वर के मित्रभूत (गिर्वणसम्) गिराश्रां, वेदवाणियों का सेवन करने वाले (इन्द्रम्) इस जीव को (गीर्भिः) स्तुतियों, प्रार्थना और उपासनाओं के साथ २ (आ वक्षतः) ब्रह्म तक प्राप्त कराते हैं ।

(३) (सुतं) आनन्दरस का या प्रेरक बल को (पाता) पान करने या धारण करने और (वृत्रहा) विघ्नों का नाश करने वाला वह आत्मा (अस्मत्) हमारे (आरे) समीप (घ) ही (आगमन्) प्राप्त है वह (शतमूतिः) सैकड़ों प्रकार से शक्तिशाली होकर (नियमते) संयम साधना करता है ।

[१६६०] आ त्वा विशान्तिवन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः ।

न त्वाग्निन्द्रातिरिच्यते ॥ १ ॥

[१६६१] विन्ध्यकथ महिना वृषभक्ष सोमस्य जागृवे ।

य इन्द्र जठरेषु ते ॥ २ ॥

[१६६२] अरन्त इन्द्र कुक्षय सोमो भवतु वृत्रहन् ।

अरन्ध्रामभ्य इन्द्रवः ॥३॥ २ ॥ ऋ० ङ । ६२ । २२-२४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६७] पृ० १०४ ।

(२) हे इन्द्र ! प्रभो परमेश्वर ! (यः) जो सोमरूप^१ संसार (ते जठरेषु) तेरे भीतर, तेरे उदर या मध्यभाग में, तेरे आश्रय में है, हे (वृषन्) सब सुखों के वर्षक ! उस (सोमस्य) समस्त संसार के (मर्त्तं) स्वरूप से प्राप्त को भी हे (जागृत्रे) जागरणशील ! तू ही (महिना) अपनी महिमा से (विव्यक्त्य) व्याप्त कर रहा है ।

आत्मपत्र में हे इन्द्र ! तेरे (अन्तः) हृदयाकाश में, अन्तः इन्द्रियों में जो सोम-ब्रह्मज्ञान का आस्वाद है उस सोम के आस्वाद को भी तू अपने (महिना) बड़े सामर्थ्य से प्राप्त करता है । सोमरस और राजा के प्रकरण में स्पष्ट है । भौतिक पत्र में—सूय इन्द्र अपने जठर=शिमियों से जल को उठा लेता है और सदा देदीप्यमान रहकर अपनी विशाल शक्ति से जल के उस सूक्ष्म शंश को धारण किये रहता है ।

(३) सूर्य जिस प्रकार प्रकाश के आवरण को दूर हटाता है उसी प्रकार पाप का नाश करने हारे हे (वृत्रहन्^२) विघ्नकारी तामस आवरण के नाशक ! (सोमः) यह समस्त सोमरूप उत्पन्न हुआ संसार (ते) तेरी (कुक्षये) कोख में या गर्भ में रहकर तेरी महती शक्ति को दर्शाने के लिये (अरं भवतु) पर्याप्त है, वह बहुत बड़ा और महान् है (इन्द्रवः) बहुत से इसी प्रकार के ब्रह्माण्ड या देदीप्यमान लोक (धामभ्यः) तेरी बंदी २ धारणा शक्तियों का साक्षात्कार कराने के लिये भी (अरं) पर्याप्त है अर्थात् वही तेरी शक्ति की सहता के भारी दृष्टान्त हैं ।

[१६६३] जगत्रोध नद्विविडुदि विशेषेश यज्ञियाय ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ १ ३ १ २
१ २ ३ १ २ ३ २
स्ताम रुद्राय दृशीकम् ॥ १ ॥

१६६२—१. सूयत् इति सोमः, ।

२. वृत्रहन् पापस्य वा हन्तः, इति सायणः ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
[१६६४] स नो महौ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः ।

३ १ २ २

त्रिय वाजाय हिन्वतु ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ १ ३ १ २ ३ १ २

[१६६५] स रेवां इव विशपतिर्द्वैव्यः केतुः शृणोतु नः ।

३ २ ३ २ ३ १ २

उक्थैर्गनिर्वृहद्भानुः ॥३॥३॥ ऋ० १ । २७ । १०-१२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५] पृ० ७ ।

(२) वह अग्निरूप सब का मार्गदर्शक सर्वज्ञ, परमेश्वर (महान्) महान् (अनिमानः) अनन्त, अपरिमेय, (धूमकेतुः) समस्त संसार को स्पन्दन या गति देने हारे सामर्थ्य से जानने योग्य (पुरुश्चन्द्रः) सबने अधिक प्रकाशमान, सब प्रकाशमान पदार्थों का प्रकाशक परमात्मा (नः) हमें (धिये) विचारशक्ति, बुद्धि और (वाजस्य) बल और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिये प्रेरित करे ।

(३) (सः) वह (अग्निः) सबका नेता, ज्ञानवान् (उक्थैः) वेद की ज्ञानराशियों से (वृहद्भानुः) विशाल तेजःसम्पन्न (द्वैव्यः) सर्व दिव्यगुणों से युक्त (केतुः) समस्त संसार का ज्ञापक, (विशपतिः) प्रजा का पालक प्रजापति, परमात्मा (रेवान् इव) बड़े भारी धनी सेठ पुरुष के समान (नः) हम उपासकों की (शृणोतु) प्रार्थना श्रवण करें ।

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
[१६६६] तद्धो गाय सुते सत्त्वा पुरुहूताय सत्वने ।

२ ३ ३ २ ३ १ २

शो यदुगत्रे न शाक्तिने ॥ १ ॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१६६७] न वा वसुर्नयमते दानं वाजस्य गोमतः ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

यत्समुपश्रवद् गिरः ॥ २ ॥

[१६६८] ^{३ १ २ ३ २३ ३ १ २ २} कुवित्समस्य प्र हि व्रजज्ञामन्तन्दस्युदा गमत् ।

^{१ २ ३ १ २} शचीभिरप नोवरत् ॥ ३ ॥ ४ ॥ अ० ६ । ४५ । २२-२४ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अधिकल सं० [११५] पृ० ६२ ।

(२) (यत्) जब (सीम्) वह (गिरः) हमारी स्तुतिमय वाणियों को (उपश्रवत्) सुन लेता है तब वह (वसुः) सब संसार को चपाने हारा और सर्वव्यापक (गोमतः) रश्मियों, इन्द्रियों और प्राणों या वेदवाणियों से युक्त (वाजस्य) ज्ञान और बल के (दानं) ब्रह्मदान, अन्नदान और जीवन दान को देने से (न घा) कभी नहीं (नियमते) रुकता है ।

(३) (सः) वह (दस्युडा) उपहस्य करने हारे या हस्यशाली विनाशी देह, या अज्ञान का विनाश करने हारा आत्मा (गोमन्तं) ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रिय रूप गौश्रों के निवासस्थान (व्रजं) बाढ़ा रूप देह को (हि) निश्चय से (कुवित्) बहुत बार (अ गमत्) प्राप्त कर लेता है । परन्तु (स्यः) वह ही उसको (शचीभिः) ज्ञान और कर्मसाधनाओं से (नः) हमारे उस देहबन्धन को (अप श्रवरत्) परे हटा देता है और मुक्त होजाता है । अथवा—(कुवित्सस्य^१) कुवित्त ज्ञान वाले अल्पज्ञानी जीव के या अपना बहुत सा नाश करने हारे मूढ़ अज्ञानी के (गोमन्तं व्रजं दस्युदां अगमत्) अज्ञान दस्यु का विनाशक, गुरु या परमदेव परमात्मा उसके गोमान् व्रज अर्थात् अन्तःकरण में प्राप्त होकर (शचीभिः) अपनी ज्ञान प्रेरणाओं से उस बन्धन को (नः) हमारे कल्याण के लिये (अप प्रवरत्) दूर कर देता है । अथवा—'कुवित्स' बहुत से देहों का नाश करने हारे अर्थात् जो बहुत से जन्म लेकर बहुतसे देहों को त्याग चुकता है उस जीव को ईश्वर पुनः देह बन्धन से मुक्त कर देता है ।

१६६८—१. कुवित्सं विन्दते वेत्ति मनोति च तस्य, अथवा कुवित् बहुशः; स्यति-
हिनस्ति इति कुवित्सः इति सायणः ।

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ॥ गीता ॥

इति प्रथमः खण्डः ।

—:०:—

[१६६६] इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।
^{३ २ ६ ३ ३ २ ३ १ २ २ ३ २}

समूढमस्य पांसुले ॥ १ ॥
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २}

[१६७०] त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।

अतो धर्माणि धारयन् ॥ २ ॥
^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}

[१६७१] विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥
^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}

[१६७२] तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यान्ति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततम् ॥ ४ ॥
^{१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}

[१६७३] तद्विप्रासो विपन्युवो जागृवांसः समिन्धते ।

विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ ५ ॥
^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २}

[१६७४] अतो देवा अबन्तु नां यतो विष्णुर्विचक्रमे ।

पृथिव्या अधि सानवि ॥ ६ ॥ ५ ॥
^{३ २ ६ ३ १ २}

अ० १ । २२ । १६-२१ १६, ॥

भा०—(१) (विष्णुः) सर्व व्यापक परमात्मा ने (इदं) यह समस्त विश्व (विचक्रमे) बनाया और उस को व्याप लिया । (त्रेधा) तीन प्रकार से (पदं) व्यापकशक्ति को (निदधे) स्थापने किया । (अस्य) इसके (पांसुले) लोकों को धारण करने हारे बल में यह समस्त विश्व (समूढम्) उत्तम रीति से स्थित है । व्याख्या अवि० सं० [२२२] पृ०

(२) (गोपाः) समस्त गतिशील लोकों का पालक (अदाभ्यः) नित्य अविनाशी (विष्णुः) वह व्यापक परमात्मा (अतः) निरन्तर गति द्वारा ही (धर्माणि) समस्त लोकों का (धारयन्) धारण करने द्वारा होकर (त्रीणि) तीन (पदा) शक्तियों से (विचक्रमे) समस्त विश्व को बना और चला रहा है ।

(३) (विष्णोः) उस सर्वव्यापक परमात्मा के (कर्माणि) आश्रय जनक कार्यों को (पश्यत) देखो (यतः) जिन कर्मों को देखकर (व्रतानि) जीव समस्त ज्ञानों को (पस्पशे) प्राप्त करता है । वह ही परमात्मा (इन्द्रस्य) इस जीवात्मा का (युज्यः) सदा साथ रहने द्वारा (सखा) समान ख्याति अर्थात्=नाम से युक्त आत्मा, उसका मित्र है ।

(४) (विष्णोः) सर्व व्यापक परमेश्वर के (परमं) परम उत्कृष्ट (पदं) धाम परमबल, या मोक्षज्ञान का शास्त्रदृष्टि से (सूरयः) विद्वान् आदित्य के समान ज्ञानी पुरुष (सदा) निरन्तर (पश्यन्ति) देखते हैं । वह परम ज्ञान (दिवि) आकाश और पृथिवी में (चक्षुः इव) सर्व पदार्थों के दर्शक सूर्य के समान (आतलम्) सर्वत्र व्यापक है ।

(५) (विष्णोः) सर्वव्यापक ईश्वर का जो (परमं) उत्कृष्ट (पदं) ज्ञानमय स्वरूप है (तत्) उसको (विपन्युवः) विशेष रूप से सत्य का यथार्थ वर्णन करने वाले (विप्रासः) मेधावां विद्वान् (जागृ-वांसः) निरन्तर ज्ञानदृष्टि से जागरण करने वाले, प्रमादराहित होकर (समिन्धते) प्रदीप्त करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, उसको अपने हृदय—मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, उसकी ज्योति जगाते हैं ।

(६) (यत्) जिस कारण से (विष्णुः) सर्वव्यापक परमेश्वर (विचक्रमे) सर्व संसार को रचता और चलाता है (अतः) उसी बल से

(देवाः) समस्त दिव्य पदार्थ अग्नि, वायु, जल, पृथिवी, आकाश आदि भूत और सूर्य, चन्द्र आदि सब लोक, या विद्वान्गण (पृथिव्याः) इस लोक के (अधि सानवि) उच्च से उच्च भाग पर या उत्कृष्ट पद मोक्ष के विषय में भी (नः) हमें (अबन्तु) प्राप्त करावें ।

इन मन्त्रों पर भाष्यकारों का अद्भुत मतभेद है और वह सभी विचार योग्य है । हम संक्षेप से उल्लेख करते हैं—

(१) सायण—(विष्णुः) त्रिविक्रमावतारधारी ने इस जगत् को उद्देश करके (विचक्रमे) विशेष रूप से क्रमण किया और तब (त्रेधा पदं निदधे=त्रिभिः प्रकारः स्वकीयं पदं निक्षिप्तवान्) तीन प्रकारों से अपना पद रक्खा । (अस्य पांसुले समूढं=विष्णोः धूलियुक्ते पादस्थाने इदं सर्वं जगत् सम्यगन्तर्भूतम्) उस विष्णु के धूली वाले पैर में यह सब जगत् भली प्रकार छिपा है ।

(२) उक्वट-यज्ञ में दक्षिण शकट के दायें चक्र के समीप सुवर्ण रख कर इस मन्त्र से होम करता है । ('इदं' 'जगत्' 'विष्णुर्विचक्रमं' विक्रान्तवान्, सर्वप्राणिनो हि भूतेन्द्रियमनोजीवकायेनाविशति इति विष्णुः किंच "त्रेधा निदधे पदं" पद्यते ज्ञायते अनेनेति पदं भूम्यन्तरिक्षद्युल्लोकेषु अग्निवायुसूर्यरूपेण त्रिधा निहितवान् पदं । किंच "समूढमस्य पांसुरे" अस्य विष्णोरन्यत् पदान्तरं विज्ञानघनानन्दमजमद्वैतमक्षरमित्येवंलक्षणम् समूढमन्तर्हितमाविज्ञातमकृतात्मभिः । पांसुरे लुप्तोपममेतत् । पासुल इव प्रदेशे निहितं न दृश्यते तत्समूढमिति, अर्थात्—सब प्राणियों में पंचभूत इन्द्रिय मन और जीव इन सब में प्रवेश करने से वह विष्णु है । उसने इस जगत् का क्रमण किया, जिससे ज्ञान किया जाय वह 'पद' है । भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोक में अग्नि, वायु, सूर्य, रूप से तीन रूपों में वह 'पद (ज्ञानसाधन) या ज्ञापक लिंग रक्खा । इस ही विष्णु का अन्य एक 'पद' है । विज्ञानघन, आनन्दस्वरूप, अज्ञ, अद्वितीय, अक्षर

स्वरूप जिसको अकृतात्मा, असाधक, अविद्वान् पुरुष नहीं जानते । यह लुप्तोपमा, है । जिस प्रकार धूल भरे स्थान में पड़ी वस्तु नहीं दीखती उस प्रकार इत्यादि ।

(३) महीधर—इस भाष्यकार ने सायण और उच्चट दोनों का अंश लिया है । इतना विशेष लिखा है कि ("समूढमस्य पांसुरे" पांसवो भूम्यादिलोकरूपाः विद्यन्ते यस्य तत्पांसुरं तस्मिन् पांसुरे अस्य विष्णोः पदं समूढं सम्यग् अन्तर्भूतं विश्वमिति शेषः यद्वेति उच्चटवत्) अर्थात् पांसुरे-भूमि आदि लोक जिसमें स्थित हैं उस पांसुर पद में सब विश्व छिपा है । 'यद्वा' से आगे दूसरा अर्थ उच्चट के समान ही है ।

श्रीफिथ—'इस संसार में विष्णु ने पैर रक्खे, तीन चार उसने पैर जमाये और सब उसके पैर की धूल में जमा हो गया ।

सायण और महीधर ने यह मन्त्र पौराणिक आशय को लेकर लगाया है । उच्चट को वह अर्थ सममत नहीं । उसने पद का अर्थ ज्ञापक लिङ्ग किया है । और संसार में ईश्वर के तीन ज्ञापक अग्नि, वायु, और सूर्य बतलाये हैं । और चतुर्थ ज्ञापक वह परम अक्षर बतलाया है जिसका ज्ञान योगी मुमुक्षु लोग करते हैं ।

सायण के आशय से विष्णु ने तीन चरण रक्खे और धूलियुक्त चरण में समस्त लोक छिपे हैं । उसके मत में 'पद' क्या वस्तु है यह प्रतीत नहीं होता । महीधर ने 'पद' शब्द की उच्चट कृत व्याख्या को माना है । और भूम्यादिलोकमय पांसु से युक्त समस्त ब्रह्माण्ड को एक पद माना है । और अग्नि, वायु, सूर्य रूप से तीनों लोकों में विष्णु का एक २ ज्ञापक भी स्वीकार किया है । इसमें महीधर के मत में त्रिविक्रम का अनिरूपण आलंकारिक है । महर्षि दयानन्द—(इदं) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत् को व्यापक ईश्वर ने (विचक्रमे) यथायोग्य प्रकृति परमाणवादि पादों को अर्थात् अंशों को विलेप करके सावधव किया । इस जगत् के

(पांसुरे) प्रशान्त रेणुओं वाले अन्तरिक्ष में (त्रेधा निदधे पदं) और तीन प्रकार से प्राप्त करने योग्य 'पद' धरा । वह उत्तम रीति से जानने योग्य पदार्थ 'पद' कहाता है । भावार्थ यह है कि यह तीन प्रकार का संसार बनाया (१) प्रत्यक्ष पृथिवीमय जो प्रकाश से रहित है, (२) कारणरूप अदृश्य, (३) प्रकाशमय सूर्यादिक ।

(२) धर्माणि=अग्निहोत्र आदि, (सा०) कर्माणि=कर्म, (उव्वटो महीधरश्च), स्वस्वभावजान्य धर्म, (दया०), अतः इन तीन लोकों में, (सा०) तीनों पदों से (उ०, म०)

(३) विष्णोः कर्माणि=वीर्याणि (उ०), सृष्टिसंहारादि (म०), जगद्रचन पालनन्यायकरणप्रलय आदि (द०), ब्रतानि=अग्निहोत्रादि (सा०), लौकिकवैदिककर्म (म०), कर्म=प्राधान, पशु सोम याग आदि, अथवा अग्नि वायु और सूर्य का अपना २ कार्य ।

(४) विष्णोः परमं पदं=उत्कृष्ट स्थान (सा०), विज्ञानघनबहुल आनन्दस्वरूप विष्णु का परमपद आदित्य (उ०), मोक्षाख्य (द०) ।

(५) समिन्धते-दीपयन्ति (सा०, उ०, य०) प्रकाशयन्ते प्राप्नु वन्ति (द०) ।

(६) देवाः=विष्णु आदि (सा०) विद्वान् लोग और अग्नि आदि पदार्थ (द०) ।

१ २२ ३१ २ ३ २४ ३ १२ २४
[१६७५] मोषु त्वा वाघतश्च नारं अस्मन्निरीरमन्

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २४

आरात्ताद्वा सधमादन्न आगहीह वा सन्नुपशुधि ॥ १ ॥

३ १ २ २४ ३ १ २ ३ २ ४ ३ २ ३ २ ४ ३ १ २

[१६७६] इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सच्चा मधौ न मक्ष आसते ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ४ ३ १ २

इन्द्रे कामञ्जरितारो वसूयवो रथे न पादमादधुः ॥ २ ॥ ६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२८४] पृ० १४५ ।

(२) हे इन्द्र ! (मधौ) मधु=शहद पर (मक्षः न) जिस प्रकार मक्खी आ बैठती है उसी प्रकार (इमे) ये (ब्रह्मकृतः हि) ब्रह्मयज्ञ करने हारे वेद के विद्वान् गण (ते सन्वा) तेरे साथ मोक्षानन्द प्राप्त करने के लिये (आसते) आ बैठते हैं और ब्रह्म का रस प्राप्त करते हैं । और (इन्द्रे) उस इन्द्र परमात्मा में ही (वसूयवः) वसु=आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले (जरितारः) स्तुतिशील विद्वान्गण (कामम्) अपनी अभिलाषा को इस प्रकार (आदधुः) रख देते हैं जिस प्रकार (वसूयवः रथे पादम्) धनाभिलाषी क्षत्रिय लोग अपना चरण रथ पर रखते हैं और फिर देशों को विजय करते हैं ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २

[१६७७] अस्तावि मन्म पूर्वं ब्रह्मेन्द्राय वोचन ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

पूर्वाऋतस्य बृहतीरनूपत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥ १ ॥

२ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१६७८] समिन्द्रो रायो बृहतीरध्वनुत सङ्क्षाणीः समु सूर्यम् ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २

सं शुक्रानः शुच्यः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिपुः

॥ २ ॥ ७ ॥ अ० ८ ५२ । ६, १० ॥

भा०—(१) (अस्तावि) परमेश्वर की ही स्तुति की जाती है । इसलिये (पूर्वं) पूर्ण तृप्तिकारक अति प्राचीन (मन्म) मनन करने योग्य (ब्रह्म) वेदमन्त्र का (इन्द्राय) उस परमेश्वर की स्तुति के लिये (वोचत) पाठ करो । (ऋतस्य) वेद की या यज्ञविषयक या आत्म, और ब्रह्मविषयक सत्यज्ञानसम्बन्धी (पूर्वाः) प्राचीन या पूर्ण (बृहतीः) बृहती छन्द के वेद मन्त्रों से (अनूपतः) स्तुति करते हुए (स्तोतुः) स्तुतिकर्ता विद्वान् के (मेधाः) नाना प्रकार के ज्ञान (असृक्षत) उत्पन्न होते हैं ।

(२) (इन्द्रः) परमेश्वर ने (बृहतीः) बड़ी २ (रायः) सम्पत्ति
यां और शक्तियों (सम् अधूनुत) प्रेरित की हैं (उत) और (क्षीणीः)
बहुतसी पृथिवियों अर्थात् बहुतसे लोकों को आकाशमण्डल में चला
रक्खा है । और (सम् उ सूर्यम्) सूर्य को भी चला रक्खा है । (शुचयः)
कान्तिमान् (शुश्रावः) शुद्ध कर्म करने हारे निष्पाप पुण्यात्मा (गवा-
शिरः) ज्ञान का आश्रय करने हारे या गो=वेदवाणी का आश्रय लेने
हारे और गो=इन्द्रियों का दमन करने हारे जितेन्द्रिय (सोमाः) योगी
मुमुक्षु आत्माएं उस (इन्द्रम्) इन्द्र परमेश्वर को (सम् अमन्दिषुः) प्रसन्न
करते हैं ।

[१६७६] इन्द्राय सोमपातव वृत्रघ्नं परिषिच्यसे ।

नरं च दाक्षिणावते वीराय सदानासदे ॥ १ ॥

[१६८०] तं सखायः पुरुरुचं वयं यूयं च सूरयः ।

अश्याम वाजगन्धं सनेम वाजपस्त्यम् ॥ २ ॥

[१६८२] परि त्वं हयतं हरिम् ॥ ३ ॥ अ० ६ । ६८ । १०, १२, ७॥

भा०— (१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [१०५] ६६ ।

(२) हे (सखायः) मित्रगण ! (सूरयः) विद्वान् (यूयं) आप
लोग और (वयं च) हम लोग सब (वाजगन्धं) ज्ञान की सुगंध ले
सुक्र (वाजपस्त्यम्) और बल के एकमात्र आश्रय, सर्वशक्तिमान् (पुरुरुचं)
अपने प्रकाश से सबके प्रकाशक (तं) उस सोम परमात्मा को (अश्याम)
प्राप्त हों । सोम ओषधि पक्ष में—(वाजगन्धं) अन्नगन्धी और (वाज-
पस्त्यं) बलकारी सोम का भोग करें ।

१६७६—१. 'दधाय सदानासदे' २. 'पुरुरुचं यूयं वयं च सूरयः' ३. 'हरि त्वं
हयतं हरिं' इति अ० ।

(३) “परि त्यं हर्यंतं हरिम्” यह प्रतीकमात्र उद्धृत किया गया है । इसकी व्याख्या देखो अविक्ल सं० [१५२] पृ० २७७ ।

१२ २२ ३
[१६८२] कस्तमिन्द्र त्वा वसो० ॥ १ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १२ २२
[१६८३] मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
तव प्रणीती हर्यश्वसूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता ॥२॥६॥

ऋ० ७ । ३२ । १४, १५॥

भा०—(१) ‘कस्तमिन्द्र त्वावसो०’ यह प्रतीकमात्र है । व्याख्या देखो अविक्ल सं० [२८०] पृ० १४३ ।

(२) हे इन्द्र ! परमात्मन् ! (मघोनः) ज्ञानी पुरुषों को (वृत्रह-
त्येषु) आवरणकारी अज्ञान अन्धकार और विघ्नकारी, दुष्ट पुरुषों के
विनाश के कार्यों में (चोदय स्म) प्रेरित कर । (ये) जो (प्रियाः) प्रिय
(वसु) वास योग्य उपकरण गृह आदि श्रधवा अपने धनों को (तव
प्रणीती) तेरे, प्रणय=प्रेम के कार्य में या तेरे बनाये हुए वेदानुकूल मार्ग
में (ददति) दान करते हैं उन (सूरिभिः) विद्वानों, त्यागियों की
सहायता से (विश्वा) समस्त (दुरिता) पापों को (तरेम) हम
पार करें ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१६८४] एदु मधोर्मदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो अन्ध्रसः ।

१ २८ ३ १२ २२ ३ १ २
एवा हि वीरस्तवते सदावृधः ॥ १ ॥

१६८१—१. कस्तमित्वा वसुमा, इति ऋ० ।

१६८३—१. “एदु मधो मदिन्तरं सिञ्चावाध्वर्यो”

[१६८५] इन्द्र^{१ २} स्थान^{३ १ २} हंरीणां^{३ १ २} नकिष्टे^{३ १ २} पूर्व्यस्तुतिम् ।

उदानंश^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} शवसा^{३ १ २} न भन्दना ॥ २ ॥

[१६८६] तं^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} वो वाजानां^{३ १ २} पतिमहूमहि^{३ १ २} श्रवस्यवः ।

अप्रायुभिर्^{१ २} यज्ञेभिर्^{३ १ २} वा^{३ १ २} नृधेन्यम् ॥ ३ ॥ १० ॥

अ० ८ । २४ । १६-१८ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२८५] पृ० १४६।

(२) हे इन्द्र ! हे (हंरीणां) समस्त गतिमान् सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदिकों के (स्थातः) प्रतिष्ठापक ! परमेश्वर ! (ते) तेरी (पूर्व्यस्तुतिम्) पूर्व के ऋषि महर्षियों द्वारा गाई गई, सत्य, यथार्थ गुणवर्णना को (शवसा) अपने बल से (नकिः) कोई भी नहीं (उदानंश) पा सकता । और (न भन्दना) न कोई संसार के प्रति सुख कल्याण के कार्य करके भी तेरी महती स्तुति को पा सकता है । अर्थात् तू सबसे अधिक शक्तिमान् और सब का कल्याणकारी है तेरे तुल्य दूसरा ' न भूतो न भविष्यति ' न हुआ, न होगा ।

(३) हम लोग (वः) आप लोगों के (वाजानां) ज्ञान, धन, बल और शक्तों के (पतिं) परिपालक, (अप्रायुभिः) प्रमादों से रहित, विनाशरहित, (यज्ञेभिः) बड़े सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि विशाल कर्मों तथा प्रजापालनादि सत्कर्मों से (वावृधेन्यम्) अपने यश और महिमा में सब से बड़े (तं) उस परमेश्वर को (श्रवस्यवः) धन, अन्न, और ज्ञान, वेद की कामना करने हारे हम लोग (अहूमहि) नित्य स्मरण करते हैं ।

यहां 'वः' इस युष्मत् के प्रयोग से समस्त संसार के प्राणी अभिप्रेत हैं क्योंकि स्तुतिकर्ता की दृष्टि में अपनेसे अतिरिक्त सब युष्मत् पदवाच्य हैं । परमात्मा केवल 'तत्' पदवाच्य है ।

१ २ उ३ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१६८७] तं गूर्धया स्वर्णं देवालो देवमरति दधन्विरे ।

३ २ ३ १ २
 देवत्रा हवप्रमूहिषे ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१६८८] विभूतराति विप्रचित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम् ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
 अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रमध्वराय पूर्व्यम् ॥ २ ॥ ११ ॥

ऋ० ८ । १६ । १, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या दखा अवि० स० [१०६] पृ० १८ ।

(२) हे (सोभरे) उत्तम रीति से ज्ञान का धारण करने हारे !
 हे (विप्र) मेधाविन् ! ब्राह्मण ! ज्ञानोपासक ! शिष्य ! तू (अध्वराय)
 अविनश्वर या हिंसादि दोषों से सर्वथा रहित, स्वाध्याय यज्ञ या गुरु
 परम्परा से कभी विनाश को प्राप्त न होने हारे, आविच्छिन्न ज्ञानयज्ञ के
 निमित्त (विभूतरातिम्) बहुत अधिक ज्ञानराशि के दान करने हारे,
 (चित्रशोचिषं) संग्रह करने योग्य ज्ञान और तप आदि तेजस्कर गुणों
 से युक्त, (अस्य) इस (सोम्यस्य) ज्ञानयुक्त या ज्ञान के आनन्द प्राप्त
 कराने हारे (मेधस्य) पवित्र यज्ञ के (यन्तुरं) नियामक, व्यतस्थापक,
 (पूर्व्यम्) सबसे पूर्व विद्यमान, सबसे श्रेष्ठ आचार्य रूप परमेश्वर की
 (ईडिष्व) उपासना कर ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१६८९] आ सोम स्वानो आद्रभिस्तिरो वाराग्ध्वयया ।

२ ३ २ ३ २ उ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 जनो न पुंरि चम्वाविशद्धरिः सद्यो वनपु दाधिपे ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ २ ३ उ३ २ ३ ३ १ २ ३ ३
 [१६९०] स मामृजे तिरा अएवानि मेष्या मीड्वात्सतिर्न वाजयुः ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रभिर्ऋग्भिः

॥ २ ॥ १२ ॥ ऋ० १० । १०७ । १०, ११ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [५१३] पृ० २५३।

(२) जिस प्रकार सोमरस को दृढ़ प्रस्तरों से कूटकर, भेदी के लोम से बने दशापवित्र नामक कम्बल के टुकड़े से स्वच्छ कर लिया जाता है उसी प्रकार उस आत्मस्वरूप ज्ञान के रस को भी स्वच्छ कर लिया जाता है, उसी का वर्णन करते हैं । योगी का आत्मा (सप्तिः न) अति वेगवान् अश्व के समान (वाजयुः) बल और ज्ञान को प्राप्त करने हारा (सः) वह (मेप्यः) चित्तिशक्ति के (अण्वानि) सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को (तिरः) प्राप्त करके (सीद्वान्) सब सुखों का स्वयं वर्पण करने हारा धर्ममेघ होकर (मामृजे) शुद्ध पवित्र हो जाता है । वही (सोमः) क्षमदमादि गुणों से युक्त सोमस्वरूप आत्मा (पवमानः) पवित्र होता हुआ और अन्य इन्द्रियवृत्तियों, ज्ञानवृत्तियों को पवित्र करता हुआ (मनीषिभिः) मनन करने में गतिशील, (विप्रैभिः) मेधावी (ऋक्भिः) वेदज्ञों द्वारा (अनुमाद्यः) आनन्द लाभ करने योग्य, प्रशंसनीय होता है ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ।

[१६६१] वयमेनमिदाह्वाऽपीपमेह वज्रिणाम् ।

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

तस्मा उ अद्य सवने सुतं भग नूनं भूपत थृत ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१६६२] वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूपति ।

२ ३ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २

सैमं नस्तामञ्जुषाण आगहीन्द्र प्र चित्रया थ्रिया ॥ २ ॥ १३

अ० ८ । ६६ । ७, ७ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविक्ल सं० [२७२] पृ० १३६।

(२) (अस्य) इस आत्मा का (वारणः) पापों से निवारण करने हारा साधन (वृकः चित्र) कुत्ते या भेड़िये के समान (उरामथिः) भेड़ के

समान वालों से छिपे चौरों वड़े २ संकटों को भी मथन करने हारा होकर (वयुनेपु) प्रज्ञा या महान् कार्यों में (आभूपति) शोभा देता है। हे आत्मन् ! (सः) वह आप (हम) इस (स्तोमं) स्तुतिमय वचन को (जुजुपाणः) स्वीकारते हुए (चिप्रया) ज्ञानयुक्त (धिया) प्रज्ञाबुद्धि से (आगहि) हमें साक्षात् दर्शन दो ।

अथवा—(अस्य) इस इन्द्र का (वृकःचित्) आदित्य ही (वारणः) अन्धकार दूर करने का साधन (उरामधिः) महान् अन्धकार को मथन कर देने हारा होकर (वयुनेपु) समस्त लोकों में (आभूपति) शोभा देता है । अथवा—(वृकश्चित्) आदित्य के समान इसका (वारणः) वरणीयस्वरूप (उरामधिः) अज्ञानों का नाश करने हारा (वयुनेपु) समस्त प्रज्ञावान् पुरुषों के आत्माओं में (आभूपति) शोभा देता है ।

अथवा—(वृकश्चित् अस्य वारणः उरामधिः) भूमि को कांटने हारा हल ही इसका वरण करने योग्य पदार्थ है जो उरामधिः=पृथिवी की ऊन के समान जमी घास को मथन करता है और वही (वयुनेपु) नाना ज्ञानयुक्त कार्यों में (आभूपति) प्रयोग किया जाता है । शोभा देता है । अथवा—(वृकश्चित् अस्य वारणः उरामधिः) सब पापों का निवारक ज्ञानरूप वज्र ही इस आत्मा के शत्रुओं का नाशक वारण=आयुध है जो (वयुनेपु) सब मार्गों में और प्रज्ञाओं में (आभूपति) शोभा देता है ।

अथवा—राजाके पक्षमें (अस्य) इस इन्द्र राजा का (वृकः) वज्र अर्थात् खड्ग और (उरामधिः) शत्रुओं का मथन करने हारा (वारणः) राज बल दोनों (वयुनेपु) संग्राम के मैदानों में या राजकार्यों में (आभूपति) शोभा देते हैं । वह राजा (हम) इस (नः) हमारे (स्तोमं) ज्ञानसमूह और देश के विद्वान् संघ को (जुजुपाणः) प्रेम से अपनाता हुआ (चिप्रया) विचित्र या ज्ञानयुक्त (धिया) बुद्धि, राजनीति या देश को धारण करने हारी दृष्टनीति द्वारा (आगहि) उत्तम रूप से शासन करे । अन्ध

भाष्यकारों ने 'वृक' शब्द से स्तेन आदि का ग्रहण किया है सो असंगत प्रतीत होता है । ४. वृको लाङ्गलं विकर्तनात् (नि० ६ । ख० २६) ५; वृक इति वज्रनाम विकर्तनादेक । (निघ० २ । २०) । वृक आदान (भ्वादिः) इति इगुपधलक्षणः कः । वृणक्तेर्वा पृषोदरादित्वाद् । वृणोतेर्वौ णादिकः कः । यद्वा वृजो वजन (अदादिः०) इत्यतः औणादिकः कः नकारजकारलोपश्च । यद्वा वृणक्तेर्वधकर्मणः । विपूर्वकस्य कृन्ततेर्वा पृषोदरादित्वात्क्षिपातनम् । ६. 'वाना मृगो न वारण' (६८८) अत्रापि वारणो गजपर्यायः सापयसस्मत उपलभ्यते ।

! अथवा—(वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरावयुनेषु भूपति) जंगली भेड़िया भी जो भेड़ों को मारता है इन्द्र की आज्ञा में रहता है । वारणः— जंगली । आ अपि वृक उच्यते । विकर्तनात् । वृकश्चिदस्य वारण उरामथिः । उरणमथिः उरण ऊर्णवान् भवति । (निरु० ५ । ४ । २) आदित्योऽपि वृक उच्यते यदावृङ्क्ते (निरु० ५ । ५ । १)

१ २ ३ २ ३ २ ४ ३ १ २ ।
[१६६३] इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूपथः ।

१ २ ३ २ ३ २ २
तद्वां चेति प्रवर्ष्यम् ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २
[१६०४] इन्द्राग्नी अपसस्परि० ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २
[१६६५] इन्द्राग्नी तविपाणि वां० ॥३॥ १४ ॥ ऋ० ३।१२।६.७.म ॥

भा०—(१) हे इन्द्राग्नी ! आप (दिवः रोचना) द्यौलोक को प्रकाशित करने हारे इन्द्र अर्थात् सूर्य या विद्युन् के समान प्राण और अपान होकर इस मूर्धास्थल को प्रकाशित करते हो और (वाजेषु भूपथः) सब कार्यों में या ज्ञानयज्ञों में शोभा देते, कार्य सम्पादन करते हो । (तत् वीर्य) यह सब सामर्थ्य (वां च) आप दोनों ही का है । राजपक्ष में इन्द्राग्नी सेनासनाध्यक्ष । और वाजेषु संग्रामों में ।

(२) 'इन्द्राग्नी अपसस्परि०' प्रतीकमात्र है । व्याख्या देखो अवि० सं० [१५७७] पृ० ६७१ ।

(३) 'इन्द्राग्नी ताविपाणि वा०' यह भी प्रतीकमात्र है । व्याख्या देखो अवि० सं० [१५७८] पृ० ६७१ ।

१ २ ३ ४ ५
[१६६६] क ई वेद सुते सचा० ॥ १ ॥

३ २ ३ ४ ५ २ ३ ४ ५ २ ३ ४ ५ २
[१६६७] दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे ।

१ २ ३ ४ ५ २ ३ ४ ५ २ ३ ४ ५ २
नकिञ्चिन्वा नियमदा सुते गमो महान्श्चरभ्योजसा ॥ २ ॥

[१६६८] य उग्रः सन्ननिदृशतः रिथरो रणाय संस्कृतः ।

१ २ ३ ४ ५ २ ३ ४ ५ २ ३ ४ ५ २
यदि स्तातुर्मघवा शृणवद्धवन्नेन्द्रो योपत्यागतम् ॥३॥१५

श्र० ८ । ३३ । ७-६

भा०—(१) 'क ई' वेद सुते सचा० प्रतीकमात्र है । व्याख्या देखो अवि० सं० [२६७] पृ० १५२ ।

(२) (मृगः) वनैला (वारणः) हाथी (न) जिस प्रकार (दाना) अपने मदजलों के कारण (पुरुत्रा) बहुत से स्थलों पर (चरथे) विचरण (दधे) करता है और उसको कोई (नकिः नियमत्) नहीं रोकता उसी प्रकार हे इन्द्र आप भी नत्त हाथी के समान (दाना) अपने नाना प्रकार के दानों, रक्षण सामर्थ्यों सहित (पुरुत्रा) सर्वत्र (चरथं दधे) विचरण करते हो, (सुते) इस उत्पन्न विश्व में (त्वा) आपको (नकिः नियमत्) कोई भी रोकने वाला नहीं है । आप (महान्) सबसे बड़े होकर (ओजसा) अपने पराक्रम सामर्थ्य से (चरसि) सर्वत्र विचरण करते हो । आप (सुते) इस विश्व में और हमारे हृदय और यज्ञ में (आ-गमः) व्याप्त हैं ।

(३) (यः) जो आत्मा (उग्रः) वीर्यवान्, शक्तिमान् (अ-
निस्तृतः) अविनाशी, किसी से न मारा गया, (स्थिरः) कूटस्थ, नित्य
(रक्षाय) सर्वत्र विश्व में और इस देह में रक्षण करने के लिये
(संस्कृतः) संस्कार किया गया, नाना कर्म-फलों से, या तपः साधनों से शुद्ध
किया गया है। (यदि) जब (मघवा) ज्ञानवान् आत्मा (स्तोतुः) स्तुति
करने हारे विद्वान् की (हवे) पुकार को (शृण्वत्) सुनलेता है तो
(इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् आत्मा (न योपति) पृथग् नहीं रहता प्रत्युत
(आगमत्) उसे प्राप्त हो जाता है।

परमात्मा के प्रथम में—(संस्कृतः) नाना गुणों से उपामित होकर
जब वह अपने भक्त की पुकार सुनता है तो उसके हृदय में प्रकट होता है।

इति तृतीयः खण्डः ।

— 0 —

[१६६६] पवमाना असृक्षान सोमाः शुक्रास इन्द्रवः ।

अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥

[१७००] पवमाना दिवस्पयन्तरिक्षादसृजत ।

पृथिव्या अधि सानत्रि ॥ २ ॥

[१७०१] पवमानास आशवः शुभ्रा असृप्रमिन्द्रवः ।

घ्नन्तो विश्वा अप द्विपः ॥ ३ ॥ १६ ॥

अ० ९। ६३। २५, २७, २६ ॥

भा०—(पवमानाः) शुद्ध पवित्र (शुक्रासः) शुद्ध शुक्ल कर्मों
के करने हारे, (सोमाः) शमादिगुणसम्पन्न, (इन्द्रवः) योगी, विदेहमुक्त
जन (विश्वानि) समस्त (काव्या) वेदवाणियों को (अभि) साक्षात्
(असृक्षत्) करते हैं।

(२) (पवमानाः) शुद्ध पवित्र, या गति करने हारे, या ज्ञानवान्-
पुरुष (दिवस्परि) औ अर्थात् प्रकाशमान् लोकों में (अन्तरिक्षात्) और
अन्तरिक्ष में और (पृथिव्याः) पृथिवी के (अधि सानवि) उच्च पर्वत
भागों में (असृष्टत) तप और विद्या का सम्पादन करते हैं ।

(३) (शुभ्राः) शुभ्रगुणयुक्त, (आशवः) शीघ्र गति करने हारे,
अप्रमादी, (पवमानासः) सब की पवित्र करने हारे, (इन्दवः) ज्ञानी
पुरुष (विश्वाः) सत्र (द्विपः) द्वेष करने हारे पुरुषों को, या द्वेषभावों को
(अप घ्नन्तः) दूर मार भगाते हुए (असृष्टम्) कार्य सम्पादन करते हैं ।

यज्ञपक्ष में पवमानाः, शुक्रा, आशवः, शुभ्राः, इन्दवः, आदि सब
विशेषण गौणवृत्ति से सोमरसों में लगते हैं ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१७०२] तोशा वृत्रहणा हवे सं जित्वानापराजिता ।

३ १ २ ३ १ २

इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २

[१७०३] प्र वामर्चन्त्युक्थिनः० ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ २ २

[१७०४] इन्द्राग्नी नवर्ति पुरः० ॥ ३ ॥ १७ ॥ ऋ० ३ । १२ । ४, ९ ॥

भा०—(१) (तोशा) भीतरी रोगादि शत्रुओं के नाशक, (वृत्र-
हणा) अज्ञान के हनन करने वाले, (सजित्वाना) समान रूप से विजय
करने हारे, प्रबल, (अपराजिता) कभी न हारने वाले, अनथक, (वाजसा-
तमा) बल के देने वाले (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि प्राण और अपान
आत्मा और अन्तःकरण, परमात्मा और ज्ञात्मा, राजा सेनापति, गुरु
शिष्य होते हैं ।

(२, ३) “ प्रवामर्चन्त्युक्थिनः० ” और “ इन्द्राग्नी नवर्तिपुरः ” यह
दोनों प्रतकमात्र हैं । न्यास्या देखो अवि० सं० [१५७५, १५७६] पृ० ६७ १ ।

[१७०५] उप^{१ २} त्वा^{३ १ २} रण्वसन्दृशं^{३ १ २} प्रयस्वन्त सहस्कृत ।

अग्ने ससृज्महे गिरः ॥ १ ॥

[१७०६] उपच्छायाभि^{१ २} व घृणरगन्म^{३ १ २ ३ १ २} शर्म^{३ २} ते वयम् ।

अग्ने हिरण्यसन्दृशः ॥ २ ॥

[१७०७] य उग्र इव शर्यहा^{२ ३ १ २} तिग्मशृङ्गा^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २} न वंसगः ।

अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ ३ ॥ १८ ॥

अ० ६ । १६ । ३७-३६ ॥

भा०—(१) हे (सहस्कृत) बल और साधना से साक्षात् करने योग्य अग्ने ! (प्रयस्वन्तः) ज्ञानी मुमुक्षु हम लोग (रण्वसन्दृशं) रमण करने हारे या रमणीय और दर्शन करने योग्य या सबके द्रष्टा (त्वा) आप परमेश्वर के (उप) समीप प्राप्त होने के लिये (गिरः) स्तुतियों या वेदवाणियों का (ससृज्महे) उच्चारण करें ।

(२) जिस प्रकार (घृणः) देदीप्यमान सूर्य के तेज से सन्तप्त होकर लोग (छायां इव) छाया का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार हे (अग्ने) ज्ञानवन् प्रभो ! (हिरण्यसन्दृशः) सूर्य समान स्वरूप वाले (ते) आपके (शर्म) शरण सुख को (वयं) हम (उप अगन्म) प्राप्त हों ।

(३) (यः) जो (शर्यहा) बाणों से मारने हारे योद्धा के (इव) समान (उग्रः) अति भयंकर शक्तिशाली (वंसगः न) ब्रैल के समान (तिग्मशृङ्गाः) तीक्ष्ण शृंग अर्थात् प्रखर तेज वाले, हैं वही आप हे (अग्ने) प्रभो ! (पुरः) सब देहों को (रुरोजिथ) ज्ञान वज्र से तोड़ डालते हो और मुमुक्षुओं को मुक्त कर देते हो ।

सायण ने अग्नि को रुद्ररूप मानकर त्रिपुर दहन की कथा को लगाया है । लिखा है—“ रुद्रो वा एष यदग्निः ” इति श्रुतः । रुद्रकृतमपि त्रिपुर-

दहनम् अग्निभूतमेवेति श्रूयते । यद्वा त्रिपुरदहनसाधनभूतं वाणे अग्नि-
निकृत्वनावस्थानादाग्निः पुराणि भगवान् इत्युच्यते । ” अर्थात् रुद्र अग्नि
का नाम है ऐसी ब्राह्मण श्रुति है । अतः रुद्र का किया त्रिपुरदहन अग्नि
ही का किया कहा जाता है । अथवा त्रिपुर के दहन करने में साधन बने
वाण में अग्नि सहायक था, इससे अग्नि ने पुरों को तोड़ा ऐसा कहा
जाता है । परन्तु इस का रहस्य सायण ने स्पष्ट नहीं किया, यह आलं-
कारिक है । वस्तुतः—

वेदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिपुरं त्रिगुणं वपुः । (पु०)

भस्मीकरोति तदेवत्रिपुरघ्नस्ततः स्मृतः ॥ (स्कन्द० महि० कौ० सू०
२ । अ० २५)

अर्थात्—रुद्र के तीन वेद तीन नेत्र हैं, त्रिगुण देह त्रिपुर है, उसको
वह ज्ञानरूप से प्रकट होकर भस्म कर देने से त्रिपुरघ्न कहा जाता है ।

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७०८] ऋतानानं वैश्वानरमृत्नस्य ज्योतिषरूपतिम् ।

१ २ ३ १ २

अजस्रं धर्ममीमहे ॥ २ ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २

[१७०९] य इदं प्रनिपप्रथं गृह्यस्य स्वरुत्तिरन् ।

३ २ १ २ २ ३ २

ऋतूनृत्सृजते वशी ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१७१०] अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य ।

३ २ ३ ३ १ २

सम्राडका विराजति ॥ ३ ॥ १६ ॥

। ऋग्वेदे नास्ति ॥ आषा-यजुः० २६ । ६ ॥ अथर्व० ६ । ३६ । १ ॥ दि-
तीयाअथ० ६ । २६ । २ ॥ तृतीया-यजु० १२ । १२७ ॥

१६०८—२. "स विश्वं प्रतिचोत्कृप" अतूत्सृजते वशी यस्य वय उत्तिरन्" इति
पाठभेदोऽथर्वणि । ३. "अग्नेः परेषु धामसु" इति अथर्व० ।

भा०—(१) हे अग्ने ! (ऋतावानं) सत्यज्ञान से युक्त, या इस ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले (वैश्वानरम्) समस्त नर अर्थात् आत्माओं में भी व्यापक, सबके हितकारक (ज्योतिषः पति) सब ज्योतिष्मान् सूर्य आदि विशाल लोकों के प्रतिपालक (भजज्ञः) अन्नादि, नित्य, (घर्म) शुद्ध दीप्तिमान् आपको (इमहे) उपासना करते हैं ।

(२) (यः) जो अग्नि^१ परमात्मा (यज्ञस्य) आत्मा को (स्वः) आनन्दमय मोक्ष (उत्तिरन्) प्रदान करता है और (इदं) समस्त ब्रह्माण्ड को (प्रतिपद्ये) रचता है और सब का वशकर्ता, अधिष्ठाता होकर (ऋतून्) प्राणों को और गतिशील पिण्डों और छुहों कालरूप वसन्त आदि ऋतुओं को सूर्य के समान (उत्सृजेत्) उत्कृष्ट रूप में बनाता और प्रकट करता है ।

(३) वह (अग्निः) सब का पूजनिय प्रकाशस्वरूप परमात्मा (भूतस्य) समस्त भूतकाल और उसमें उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों और (मव्यस्य) भविष्यत् काल और उसमें होने वाले समस्त जगत् का (कामः) मूल उत्पादक संकल्प के समान आदिकारण (प्रियेषु) अति श्रेष्ठ और विभूतियुक्त, प्रेष्ट (धामसु) लोकों में (एकः) एकमात्र, अद्वितीय (सन्नाट्) सार्वभौम, सन्नाट् परमेश्वर, स्वामी होकर (विराजति) विशेष रूप से विराजमान है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।

इत्यष्टादशोऽध्यायः समाप्तः ।

इति द्वितीयोऽर्थः प्रपाठकः ।

अथैकोनविंशोऽध्यायः ।

अथाष्टमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः ।

ऋषेः—१ विरूप आङ्गिरसः । २. १८ अवत्सारः । ३ विश्वामित्रः । ४ देवातिथिः काण्वः । ५, ८, ९, १६ गोतमो राहूगणः । ६ वामदेवः । ७ प्रस्कण्वः काण्वः । १० वसुश्रुत आत्रेयः । ११ सत्यश्रुवा आत्रेयः । १२ अवस्युरात्रेयः । १३ बुधगविष्टिरावात्रेयो । १४ कुत्स आङ्गिरसः । १५ अत्रिः । १७ दीर्घतमा औचथ्यः ॥ देवता—१, १०, १३ अग्निः । २, १८ पवमानः सोमः । ३-५ इन्द्रः । ६, ८, ११, १४, १६ उषाः । ७, ९, १२, १५, १७ अश्विनौ ॥ छन्दः—१, २, ६, ७, १८ गायत्री । ३, ५ बृहती । ४ प्रागाथम् । ८, ९ उष्णिक् । १०-१२ पङ्क्तिः । १३-१५ त्रिष्टुप् । १६, १७ जगती ॥ स्वरः—१, २, ७, १८ षड्जः । ३, ४, ५ मध्यमः । ८, ९ ऋषभः । १०—१२ पञ्चमः । १३-१५ धैवतः । १६, १७ निषादः ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
[१७११] अग्निः प्रन्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्वाँऽ३ स्वाम् ।

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
कविवप्रण वावृधे ॥ १ ॥

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१७१२] ऊर्जो नपातमाहुवग्नि पावकशाचिषम् ।

३ २ ३ १ २ ३ २
अस्मिन्यङ्घ्र स्वध्वरे ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[१७१३] स नो मित्रमहस्त्रमग्ने शुक्रेण शोचिपा ।

३ १ २ २ ३ १ २
देवैगसत्सि वदिषि ॥ ३ ॥ १ ॥ ऋ० ८ । ४४ । १२-१४ ॥

भा०—(१) (अग्निः) ज्ञानस्वरूप प्रकाशमय आत्मा (प्रत्नेन) अपने पुराने अर्थात् पूर्व के किये (जन्मना) जन्म अर्थात् स्वरूप से या जन्म में किये कर्मों द्वारा (स्वां) अपने (तन्वां) शरीर को (शुम्भानः) उत्तम रूप से सुशोभित करता हुआ (कविः) क्रांतदर्शी, मेधावी, ज्ञानी होकर (विप्रेण) मेधावी ज्ञानमय परमेश्वर के संग (वावृधे) अपनी वृद्धि और अभ्युदय प्राप्त करता है ।

सायण ने 'जन्मना' और 'विप्रेण' का अर्थ स्तोत्र किया है । तुलसी-रामजी-'प्रत्नेन जन्मना'-पुराने जन्म से-सनातनस्वरूप से । ग्रीफिथ पुराने तरीक़े से ।

(२) (ऊर्जांनापातम्) बल धीर्य का विनाश न होने देने हारे (पात्रकशांघ्रिपम्) लोकों को शाध कर पवित्र करने हारे तेज से युक्त (अग्निम्) अग्निस्वरूप आत्मा को (अस्मिन्) इस (स्वध्वरे) उत्तमरूप, अविनाशी (यज्ञे) दान प्रतिदान स्वरूप यज्ञ या इष्टदेवपूजा या समाधि 'दशा में या सर्व पूज्य परमआत्मा में (आहुत्रे) समर्पित करता है ।

(३) हे (अग्ने) आत्मन् ! हे (मित्रमहः) अपने मित्र परमस्नेही परमेश्वर के संग से स्वतः तेजस्विन् ! (त्वम्) तू (शुक्रेण) शुद्ध (तेजसा) तेज से (देवैः) अपनी इन्द्रियों के साथ (बर्हिषि) इस देह में (आ सत्सि) विराजमान है ।

परमात्म पक्ष में-हे मित्र ! या सूर्य के समान कान्ति वाले या सब के मित्र एवं पूजनीय परम प्रभो ! (त्वं) आप शुद्ध कान्ति से दिव्य गुण युक्त विद्वानों और सूर्यदि 'देव' लोकों के संग इस (बर्हिषि) ब्रह्माण्ड में (आ सत्सि) विराजमान हो ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१७१४] उक्ते शुष्णासा अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः ।
३ २ ३ १ २ ३ १ २

नुदस्व याः परिस्पृधः ॥ १ ॥

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ २
 [१७१५] अप्रा निजघ्निरोजना रथसङ्गे धने हिते ।

२ ३ १ २ ३ २
 स्तवा अविभ्युषा हृदा ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ २
 [१७१६] अम्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या ।

३ १ २ २ ३ १ २
 रुज यस्त्या पृतन्यनि ॥ ३ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१७१७] नं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु चाजिनम्

२ ३ १ २ ३ २

इन्दुमिद्राय मत्सरम् ॥ ४ ॥ २ ॥ अ० ९।५३।१-४ ॥

भा०—(१) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! हे (अद्विचः) आदरणीय !
 अक्षयवल्न ! परमात्मन् ! आदर करने वाले भद्रों के स्वामिन् ! (ते)
 तेरे (शुष्मासः) बलप्रयोग (रथः) दृष्ट पुरुषों को, या विघ्नों को (भिन्द-
 न्तः) विनाश करते हुए (उत् अस्थुः) सबसे ऊपर विराजमान हैं (याः)
 जां (स्पृधः) तुझ से स्पर्द्धा करते हैं उन नास्तिकों को तू (नुदस्व)
 नाचे गिरा देता है ।

(२) हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! परमात्मन् ! आप (अया) इस प्रकार
 के (ओजसा) तेज और बल से विघ्नों और विघ्नकारियों को (निजाघ्निः)
 विनाश करने हारे हो । (रथसंगे) इस रमण करने योग्य देह या रसस्वरूप
 तेरा संग लाभ हो जाने पर और (धने) तृप्ति योग्य भोग्य पदार्थ के (हिते)
 प्राप्त हो जाने पर मैं (अविभ्युषा) निर्भय (हृदा) चित्त से (स्तवैः) आपकी
 स्तुति करता हूँ ।

(३) (अस्य) इस (पवमानस्य) पवमान, सर्वप्रेरक, व्यापक
 और सब को पवित्र करने वाले एवं स्वयं पवित्र परमेश्वर की (व्रतानि)
 व्यवस्थाएं (दूढ्याः) दृष्ट बुद्धि वाले, मूर्ख, अभिमानी पुरुषों से । ज

आद्ये) अपमान, या विनाश नहीं हो सकती। हे परमात्मन् ! (यः) जो (त्वा) आपका (पृतन्यति) विरोध करता है आपके नियमों और आज्ञाओं का उल्लंघन करता है आप उसको, (रुज^२) पीड़ा उत्पन्न करते हैं या उसका विनाश कर देते हैं।

(४) (तं) उस (मदच्युतं) आनन्द रस के बहाने वाले, (वा-जिनम्) ज्ञानमय, (हरिं) दुःखों के हरण करने वाले, सर्वव्यापक (मत्सरम्) स्वयं परमसुखजनक, आनन्दस्वरूप (इन्दुम्) परमेश्वर को (इन्द्राय) अंगुने आत्मा के हित के लिये (हिन्वन्ति) उपासना करते हैं !

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१७१८] आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः ।

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
मा त्वा केचिन्नियमुरिभ्र पाशिनोऽति धन्वेव तां इहि ॥१॥

३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २
[१८१६] वृत्रखादो बलं रुजः पुरां दर्मो अपामजः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २
स्थाता रथस्य ह्यौरभिस्वर इन्द्रो दृढाक्षिदारुजः ॥२॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
[१७२०] गम्भीरौ उदधी रिव क्रतुं पुष्यासि गा इव ।

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा हृदं कुल्या इवाशत

॥ ३ ॥ ३ ॥ अ० ३। ४५। १—३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२४६] पृ० १२६ ।

(२) (वृत्रखादः) आवरणकारी अज्ञान का नाशक (बलं रुजः) चलन करने वाले, प्राण धारण करने वाले देह, या मोक्ष का अपरोध करने वाले तामस आवरण को तोड़ डालने वाले, (पुरां दर्मः) पंचकोश रूप पुरियों के विदारक, (रथस्य स्थाता) इस रथ या देह या दिशाल ब्रह्मारुड

रूप रथ के अधिष्ठाता (अपाम् अजः) कर्मों और मनः संकल्पों के प्रेरणा करने वाले, (हयोंः अभिस्वरः) प्राणेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय अथवा प्राण और अपान इनका साक्षात् रूप से प्रेरक (इन्द्रः) आत्मा और परमात्मा (दृडाचित्) दृढ़ से दृढ़, कठोर से कठोर बन्धनों या विघ्नों को भी (आरुजः) विनाश कर देता है ।

(३) हैं इन्द्र ! (त्वं) आप (गंभीरान्) गंभीर (उदधन्नि इव) समुद्रों को जिस प्रकार निरन्तर सहस्रों जलधारा पुष्ट करती हैं । और वह सूखने नहीं उसी प्रकार आप इस (ऋतुं) जीवात्मा को नाना जीवन धाराओं से पुष्ट करते हो कभी विनाश नहीं होने देते । और (सुगोपाः) उत्तम गोपालक (गाः इव) जिस प्रकार अपनी गौश्रों को (प्र पुष्यति) लूथ खिल्लाकर पुष्ट करता है उसी प्रकार आप जीवों को भी खूब अन्नादि देकर पुष्ट करते हैं । और (यथा) जिस प्रकार (धेनवः) गौएँ (यवसे) अपने चारे पर आती हैं उसी प्रकार ये जीवगण आपके पास पहुँच जाते हैं और (कुल्याः इव) जिस प्रकार सब नहरें या नदियाँ (ह्रदं) विशाल ताल या समुद्र में आ गिरती हैं उसी प्रकार ये जीव आप में ही सब भेदभाव त्याग कर आ मिलते हैं ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१७२१] यथा गौरो अराकृतं तृण्यन्नेत्यत्रोरिणम् ।

३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

आपि त्वे नः प्रपित्वे तृयमागहि कर्ग्वेषु सु सचा पित्रा ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१७२२] मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रेन्दवो राथो देयाय सुन्वते ।

३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ १ १

आमुष्या साममपिवश्चमूसृतं ज्येष्ठं तद्वधिषे सहः ॥२॥४॥

शं० ८ । ४ । ३, ४ ॥

(२) हे (मघवन्) ज्ञानवान् आत्मन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (इन्द्रवः) ये सोमरस ज्ञान और आनन्ददायक समाधि के विशेष अनुभव (त्वा) तुझको (मन्दन्तु) हर्षित करें । (सुन्वते) ज्ञानरस को उत्पन्न करने हारे साधक विद्वान् योगी के (राधः) सिद्धि (देयाय) प्राप्त कराने के लिये (चमू-सुतं) प्राण और अपान रूप चमू दोनों से उत्पन्न किये गये (सोमम्) सोम अर्थात् आनन्दरस को (अमुष्य) गुरुरूप से प्राप्त करके स्वयं (सोमम्) ब्रह्मानन्द को (अपिवः) पान करता है और तू (तत्) उस अलौकिक (ज्येष्ठं) सबसे महान् (सहः) सह, स्वरूप, सर्वशास्त्रिमान् ईश्वर को अर्पने भीतर (दधिपे) धारण करता है ।

[१७२३] त्वमङ्ग प्रशांसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम् ।

न त्वदन्या मघवन्नास्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥१॥

[१७२४] मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान् कदाचनादभन् ।

विश्वा च न उपमिमीहि मानुषवसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२॥५॥

ऋ० १ । ८४ । १६, २० ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२४७] पृ० १२६ ।

(२) हे (वसो !) सर्व संसार को बसाने हारे परमात्मन् ! (ते) तेरे (राधांसि) बलस्वरूप पञ्चभूत (कदाचन) कभी (मा दभन्) विनाशकारी न हों । और (ते ऊतयः) तेरी समस्त पालक शक्तियाँ (अस्मान्) हमें कभी (मा दभन्) विनाश न करें । और हे (मानुष-मनुष्य ! तू (विश्वा च) समस्त (वसूनि) आवास-साधनों को (उपमिमीहि) स्वयं उत्पन्न कर और उनको ज्ञान कर । और (नः चर्षणिभ्यः) हम-विद्वान् पुरुषों को वे नाना पदार्थ जो तू जानता और तैयार करता है (आ) प्रदान कर ।

इति प्रथमः खण्डः ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [१७२५] प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः ।

३ १ २ ३ २
 दिवो अदर्शि दुहिता ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१७२६] अश्वेव चित्रारूपी माता गवामृतावरी ।

१ २ ३ १ २ ३ २
 सखाभूदश्विनारूपा ॥ २ ॥

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २
 [१७२७] उत सखास्यश्विनारुत माता गवामसि ।

३ २ ३ १ २

उनोपो वस्व इशिपे ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० ४ । ५२ । १-३ ।

भा०—(१) (स्या) वह (दिवः) सूर्य की (दुहिता) पुत्री उपा (परि स्वसुः) रात्रि के उपरान्त (व्युच्छन्ती) तम को दूर करती हुई, (सूनरी) उत्तम नेत्री रूप (जनी) स्त्री के समान (प्रति अदर्शि) प्रकट होती है ।

अथवा—(स्या सूनरी जनी) वह उपा उत्तम पुत्र उत्पन्न करने हारी, शुभ लक्ष्यों से युक्त स्त्री के समान (स्वसुः परि) अपनी भगनी के पीछे २ (व्युच्छन्ती) अपना रूप प्रकट करती हुई लोक में प्रकट होती है, उसी प्रकार यह (दिवः) आदित्य के समान प्रकाशमान योगी की (दुहिता) आनन्द रस का दोहन करने वाली ज्योतिष्मती प्रज्ञा (स्वसुः) स्वयं सरण करने वाली, आप से आप प्रकट होने वाली प्रतिभा के (परि) साथ २ (जनी) उत्पन्न होती हुई ज्ञान उत्पन्न करने हारी (सूनरी) उत्तम मोक्ष-मार्ग की नेत्री होकर (प्रति अदर्शि) दिखाई देती है ।

(२) (उपा) अज्ञानाङ्कुरों का दहन करने हारी उपा साधक की विशोका प्रज्ञा (अश्वा) व्यापनशील विद्युत् के समान (चित्रा) विचित्र संज्ञानवती, (अरूपी) सब प्रकार से कान्तिमती तेजस्विनी, (गवां) इन्द्रियरूप मोक्षों की (माता) उत्पादन करने वाली (अमृतावरी) सत्य

ज्ञान को वरण करने हारी या प्राप्त करने हारी ऋतम्भरा स्वरूप (अश्विना) शरीर भर में व्यापक प्राण और अपान इन दोनों की (सखा) साथ रहने वाली, उनके साथ ही वर्णन की जाने योग्य, अथवा समान रूप से इन्द्रिय देशों में व्याप्त (अभूत्) है ।

(३) पूर्व ऋचा के समान ही हे (उषः) ज्योतिष्मति ! विशोका नामक प्रज्ञे ! (उत) यद्यपि (अश्विनोः) अश्वि अर्थात् प्राण और अपान दोनों की तू (सखा असि) सखा है, (उत गवां माता असि) और गो अर्थात् इन्द्रियों की तू उत्पादक माता के समान है । अथवा उनके गृहीत ज्ञान को भी ग्रहण करने हारी, प्रमात्री है (उत) तथापि हे उषः ! प्रकाश-स्वरूप प्रज्ञे ! तू (च्स्वः) आत्मा या प्राण की (ईशिपे) शक्ति को धारण करती है ।

[१७२८] ^{३ २ ३ १ २ २ ३ २ २ ३ २ ३ २} एषो उपा अपूर्व्या व्युच्छ्रति प्रिया दिवः ।

^{३ १ २ ३ २} स्तुप वामश्विना बृहत् ॥ १ ॥

[१७२६] ^{२ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २} या दक्षा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम् ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २} प्रिया देवा वसु विदा ॥ २ ॥

[१७३०] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} वक्ष्यन्त वां ककुहासा जूर्णायामश्चि विष्टपि ।

^{३ २ २ ३ २ ३ १ २} यद्वा रथो विभिष्पनात् ॥ ३ ॥ ७ ॥ अ० १ । ४६ । १—३ ॥

भा०—(१) (एषा उ) यह (उपाः) उपा, सकल-पापदाहिका विशोका प्रज्ञा (अपूर्व्या) योगी के अनुभव में पूर्व कभी न आई हुई (दिवः) प्रकाशमान आत्मा की (प्रिया) अत्यन्त प्रेमपात्र है । हे (अश्विना) देह में निरन्तर गति करने हारे प्राण और अपान इस विशोका की प्राप्ति के लिये (वां) आप दोनों के (बृहत्) बहुत अधिक (स्तुप) गुणकारी होने का यथार्थ वर्णन करता हूँ ।

(२) (या) जो दोनों (देवा) देव, प्राण और अपान (दत्ता) अत्यन्त दर्शनीय, अथवा काम क्रोधादि मल्लों के नाशक, अथवा सब कर्म कराने हारे, या रोग विनाशक, शरीर के भीतर सब के कर्म के करने कराने हारे (सिन्धुमातरौ) देह के सब रक्तप्रवाहिनी नदियों या प्राणों को प्रवाहित करने हारे उनको ठीक रीति से संचालक, (रयीणां) सब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों के ज्ञान और कर्मों को (मनोतरा) मनोबल द्वारा प्रेरणा करने और मनोबल से ही उनके ज्ञान और क्रिया को स्वयं प्राप्त करने कराने हारे (धिया) ध्यान वृत्ति से (वसुविदा) वसु, आत्मा को ज्ञान कराने वाले या, उस तक स्वयं पहुंचने वाले हैं ।

(३) पूर्वोक्त रूप से वर्णित किये गये हे अश्वयो ! (वां) आप दोनों का (रथः) रमणस्थान यह आत्मा (यत्) जब (निभिः) पदार्थों तक पहुंचने वाले प्राणगणों सहित (जूर्णायाम्) अतिप्रशंसा योग्य या सनातन (अधि विष्टपि) मोक्षस्थान पर (पतात्) गमन करता है तब (वां) आप दोनों के (ककुहासः) उत्तम गुण (वय्यन्ते) धर्मान किये जाते हैं । उन दोनों का (रथः) रमण स्थान यह देह (जूर्णायाम् अधिविष्टपि) जीर्णदशा, वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है । पूर्णायु भोग लेता है तब उन दोनों के गुण वर्णन किये जाते हैं ।

१७२८—१. दक्षिं देशदर्शनयोः । दसि दस इत्येके (चुरादिः), दसि भावार्थः (चुरादिः), तसु उपक्षये दसु च (दिवादिः) इत्येतेभ्यो 'स्फायितञ्चीति०' औणादिको रक् (उणा० २ । १३) । दस्यति रोगान् उपक्षययति इति दस्रः (दया० उणा०) दसा शत्रूणां दासयितारौ, दसयितारौ, कर्मणा क्रुष्यादीनां कारयितारौ । एतावेवंविधौ कर्म कारयन्तौ जुर्वाणौ वा इति दुर्गाचार्यः (निर० अ० ६ ख० २६) नीत्कृटीकायाम् ।

२ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २
[१७३१] उपस्तच्चित्रमाभरास्मभ्यं वाजिनीवति ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २
[१७३२] उपो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि ।

३ २ ३ १ २
रेवदसै व्युच्छ सूनृतावति ॥ २ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
[१७३३] युंक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वं अद्यारुणो उपः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
अथा नो विश्वा सौभाग्यावह ॥ ३ ॥ ८ ॥

अ० १ । ६२ । १३-१५ ॥

भा०—(१) हे (उपः) कमनीय कन्या के समान विशोकप्रज्ञे !
ज्योतिष्मति ! हे (वाजिनी वति) ज्ञानमय वाणी से युक्त ! (अस्मभ्यं)
हमें (तत्) वह (चित्रं) संग्रह योग्य प्राप्तव्य ज्ञान (आभर) प्राप्त करा ।
(येन) जिससे (तोकं) पुत्र के समान प्रिय एवं क्रीड़ाशील चित्त और
(तनयं) समान लालन पालन योग्य इस देह को (धामहे) धारण करें,
चिरकाल तक जितेन्द्रिय, चिरायु होकर रहें।

(२) हे (विभावरि !) ज्योति से सम्पन्न या विशेष कान्ति से
वरण करने योग्य, या कान्ति से सम्पन्न ज्योतिष्मति ! हे (उपः) आभ्यन्तर
मलों को दाह करने हारी चित्तिशक्ति ! हे (गोमति) वाणी या ज्ञानेन्द्रियों
या शक्तियों से युक्त ! हे (अश्वावति) अश्व अर्थात् कर्मेन्द्रिय या मनरूप अश्व
वाली ! हे (सूनृतावति) उत्तम अत अर्थात् त्रिकालवाधित ज्ञान से सम्पन्न

१७३३—१. उप दाहे, (भ्वादिः), उपस् प्रभातभावे. (कण्ठ्वादिः) तयो रूपः

किञ्चेति असिरौणादिः (उणादि० ४ । २३४) । ओषति दहतीति उपः,

कर्णच्छिद्रं, पूर्वतभेदो वा, (खियां) प्रभातप्रकाशः (दशा०) ।

अथवा, सूनुता वेदवाणी का दर्शन मनन और निदिध्यासन करने हारी तू (अस्मै) हमारे लिये (रेवत्) रयि, अर्थात् ज्ञान प्राण और पृथ्वी से युक्त आत्मा स्वरूप को (व्युच्छ्र) हमारे सामने खोल दे ।

(३) हे उपः ! हे वाजिनीवति ! (अथ) आज (अरुणान्) चेतनांश से युक्त दीप्तिमान्, अथवा रोगराहित (अथान्) प्राणों को (युध्व हि) इस देहरूप रथ में प्रेरित कर । (अथा) और (नः) हमें (विधा) समस्त (सौभागानि) उत्तम सुखदायी पदार्थों को (आवह) प्राप्त करा ।

१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१७३४] अर्वाग्रथं समनन्मा नियच्छ्रतम् ॥ १ ॥

३ २ ३ १ २ ३ १ २

अर्वाग्रथं समनन्मा नियच्छ्रतम् ॥ १ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७३५] पह देवा मयाभुवा दस्त्रा हिरण्यवर्तनी ।

३ १ २ ३ १ २

उपवृधो नहन्तु लोमपीतये ॥ २ ॥

२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७३६] यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः ।

२ ३ १ २

३ २

आ न ऊर्जं बहतमश्विना युवम् ॥ ३ ॥ ६ ॥

अ० १ । ६१ । १६, १८ १७ ॥

भा०—(१) हे (अश्विनौ) देह में व्यापनशील ! प्राण और अपान ! आप दोनों (दस्त्रौ) रोगों के विनाशक हो । अतः आप दोनों समनसा) हमारे मन के मानस बल के साथ होकर (हिरण्यवत्) आत्मा से युक्त और (गोमन्) इन्द्रियों से युक्त (रथम्) इस रमण-योग्य उत्तम रथ रूप देह को (अर्वाग्) अपने अधीन करके साक्षात् रूप से (नियच्छ्रतम्) नियम में रखो ।

(२) (इह) इस देह में (उपवृधः) ज्योतिष्मती प्रज्ञा को ज्ञान-ज्ञागृति से चेतन कर लेने वाले अथवा प्रबुद्ध योगी जन (हिरण्यवर्तनी)

आत्मा के बल पर अपनी चेष्टा करने वाले अथवा आत्मारूप रथ पर चढ़े हुए, अथवा हिरण्य=आत्मा को, वर्तनि अर्थात् अपना प्रेरक और आश्रय बनाने हारे, (दत्ता) मलादिशोधक, अतएव (मयोभुवा) सुख और आरोग्य के उत्पादक, (देवा) दिव्यगुणयुक्त प्राण और अपान दोनों को (सोमपीतये) ब्रह्मानन्दरस को पान करने के लिये (आवहन्तु) अपने वश करें ।

(३) हे (अश्विनै) पूर्वोक्त प्राण और अपान ! (यौ) जो आप दोनों (इत्या) इस प्रकार से (दिवः) द्यौलोक या मूर्धाभाग से (श्लोकं) प्रशंसनीय या अतिवनीभूत ज्योतिः विशोका, विवेक ख्याति को (जनाय) साधक पुरुष के लिये (चक्रथुः) उत्पन्न करते हो वे ही (युवं) आप दोनों (नः) हम लोगों के लिये (ऊर्जे) परम पोषक रसरूप बल को (आवहन्तु) प्राप्त कराओ ।

इति द्वितीयः खण्डः ।

- ३ १२ २२ ३ २४ ३ २ ३ १२ २२ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१७३७] अग्निं तं मन्ये यो वसुरन्तं धं यन्ति धेनवः । अस्नमर्वन्त
 ३ २४ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 आशवोऽस्नं नित्यासौ वाजिन इषं स्तोतृभ्य आभर ॥१॥
 ३ २४ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ २२ ३ २
 [१७३८] अग्निर्हि वाजिनं विशं ददाति विश्वन्नर्षणिः । अग्नी राये
 ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यमिषं स्नोतृभ्य आभर ॥२॥
 २ १२ २२ ३ २४ ३ १ २ ३ १ २ १२ २२
 [१७३९] सो अग्निर्यो वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवः । समर्वन्तो
 ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 रघुदुवः संमुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य आभर ॥३॥
 १० ॥ ऋ० ५ । ६ । १, ३, २ ॥

(२) (हि) निश्चय से (विशे) प्रजाओं के हित के लिये (अग्निः) ज्ञानस्वरूप परमात्मा हमें (चाजिनं) बलवान् पुरुष, ज्ञानी पुरुष और अन्नादि पदार्थ (ददाति) देता है । वह (विश्वचर्पाणिः) समस्त संसार को देखने वाला सर्वसाक्षी, (अग्निः) प्रत्येक अंग २ में व्यापक सबका प्रकाशक है । (सः) वह (प्रीतः) उत्तम प्रेम से परिपूर्ण एवं प्रसन्न होकर प्रभु (स्वा भुवम्) अपने आश्रय पर प्राण धारण करने वाले जगत् को (राये) उत्तम कल्याण के लिये (याति) प्राप्त होता है और वही (स्तोतृभ्यः) विद्वान् वेदज्यों को (वार्यम्) वरण करने योग्य (इपं) ज्ञान और अन्न का (आभर) प्रदान करे ।

(३) (सः) वह (अग्निः) 'अग्नि' (गृणे) कहा जाता है (यः) जो (वसुः) समस्त संसार को बसाने द्वारा और स्वयं सब में बसने द्वारा, सब का आच्छादक, शरण्य है । और (यं) जिसके शरण में (धेनवः) गौएँ, वाणियाँ एवं ज्ञानरस का पान करने और कराने हारे विद्वान्जन (सम् आयन्ति) पहुँचते हैं । और जिसके शरण (रघुदुवः) ज्ञान मार्ग में गमन करने वाले विद्वान् (सम्) प्राप्त होते हैं, उपासना करते हैं, और (सुजातासः) संसार में उत्तम स्थिति को प्राप्त कृतकृत्य, यशस्वी (सूरयः) सूर्य के समान प्रजाओं को धर्ममार्ग में चलाने हारे महापुरुष जिसके शरण में (सम्) आजाते हैं वह तू परमेश्वर ज्ञानस्वरूप (स्तोतृभ्य) विद्वान् उपासकों को (इपं) उत्तम ज्ञान और अन्न का (आभर) प्रदान करे ।

२. 'सप्रीतो याति' इति पाठः सायणादिसम्मतः । अजमेरमुद्रिते तु 'सुप्रीतो' इति नितरामनादरणीयः, कापि नोपलम्भात्, ऋक्पाठविरोधाच्च 'सप्रीतो' इत्येव ऋग्वेदीयः पाठः ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ १ २ ३
 [१७४०] महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । यथा चित्रो

अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनुते ॥१
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ १ २ ३

[१७४१] या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिवः । सा व्युच्छ
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३

सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनुते ॥२
 १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ २ २ ३ १ २ ३

[१७४२] सानो अद्यो भरद्दसुर्व्युच्छा दुहितर्दिवः । यो व्यौच्छ
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३

सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनुते
 ॥ ३ ॥ ११ ॥ अ० ५ । ७९ । १-३ ॥

भा०—(१) हे (उपः) उपा के समान ज्योतिष्मति विशोका प्रज्ञे !
 तू (दिवित्मती) ज्योतिष्मती होकर (अद्य) आज, अब (महे) बड़े
 भारी (राये) आत्मज्ञानरूप धन को प्राप्त करने के लिये (नः) हमें
 (बोधय) जगा, ज्ञानवान् कर, प्रबुद्ध कर । हे (अश्वसूनुते) व्यापक
 आत्मा में शुभ, ऋत अर्थात् उत्तम ज्ञान को पूर्ण करने और वाणी को
 धारण करने वाली प्रज्ञे ! (वाय्ये) बुने जाने योग्य सूत्र के समान अवि
 च्छिन्न, निरन्तर विद्यमान, सब इन्द्रियों को उस सूत्र में पिरोने हारे (सु
 जाते) उत्तम रूप से प्रादुर्भाव होने वाले (नः) हमारे (सत्यश्रवसि)
 सत्य संकल्पकारी आत्मा में (यथाचित्) जिस प्रकार से उत्तम रीति से
 हो सके उस प्रकार (अबोधयः) तू ज्ञान का प्रकाश कर । देखो व्याख्या
 अद्विकल संख्या [४२१] पृ० २१५।

(२) (दिवः) हे सूर्य के समान प्रेरक आत्मा के (दुहितः) आ
 नन्दरस का दोहन करने हारी उपः । ऋतम्भरे ! (या) जो तू (सुनीथे)
 उत्तम पद पर प्राप्त, मुक्त (शौचद्रथे) अति पवित्र, शुद्ध, चित्स्वरूप
 आत्मा में, (व्यौच्छः) अज्ञान आवरण को हटाती रही है वैसे ही अन्न, हे

(अश्वसूत्रे) आत्मा में सत्य आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान को सभ्यवाणी और धारण करने हारी ऋतम्भरे ! (सा) वह तू (वाच्ये) तन्तु या पट के समान निरतन्तर अविच्छन्न क्रिया साधन करने हारे (सत्यश्रवसि) सत्यज्ञानमय (सुजाते) उत्तम रूप से प्रादुर्भूत (सहीयसि) सहनशील बलवान् आत्मा में भी (व्युच्छ) अज्ञान के आवरण को दूर कर ।

(३) हे (दिवः दुहितः) आत्मा के रस दोहन करने हारी विशोके ! (भरद्-वसुः) वसुरूप प्राणों और मुख्य आत्मा को ज्ञान से भरपूर करने वाली पूर्वोक्त ! तू (या) जो (सहीयसि सत्यश्रवसि वाच्ये सुजाते) सहनशील तपस्वी, सत्यज्ञानी, अविच्छिन्न, उत्तम, शुभरूप से प्रकाशमान आत्मा से (व्यौच्छः) आवरण को दूर करती है (सा) वह तू हे (अश्वसूत्रे) आत्मा को सत्यज्ञान से पूर्ण करने हारी तू (नः) हमारे अज्ञान को भी (अथ) आज (व्युच्छः) दूर कर ।

उपा के दृष्टान्त से गृहपत्नी के कर्त्तव्य भी इस सूक्त में बतलाये हैं ।

[१७४३] ^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम् ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ ५ २} स्तोता वामश्विना वृषिः स्तोमामिर्भूपति प्रति ।

^{२ ३ १ २ ३ १ ३} माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ १ ॥

[१७४४] ^{३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ २} अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहं सना ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३} दक्षा हिरण्यवर्त्तनी सुपुम्णा सिन्धुवाहसा ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ २ ॥

[१७४५] ^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २} आ नो रत्नान विश्रतावश्विना गच्छन् युवम् ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} रुद्रा हिरण्यवर्त्तनी जुषाणा वाजिनीवसू ।

^{२ ३ १ २ ३ १ २} माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ ३ ॥ १२ ॥ अ० १।७।५।१-३॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४१८] पृ० १३ ।

(२) हे (अश्विना) पूर्वोक्त प्राण अपानरूप अश्विदेवो ! आप (दत्ता) दोषों के परिशोधक, (हिरण्यवर्त्तनी) आत्मा के आश्रय पर विराजमान, (सुपुम्ना) उत्तम सुख के देने हारे, अथवा 'सुपुम्ना' उत्तम रूपसे शरीर में व्यापक, सुपुम्ना रूप से विद्यमान, (सिन्धुवाहसा) गतिशील नाड़ियों में रुधिर को प्रेरित करने हारे, (माध्वी) मधुर, अमृतमय मधुविद्या से युक्त (सना) सनातन से वर्त्तमान, आप दोनों (अतिआयातम्) सब बाधाओं को पार करके प्राप्त होवो (अहं) और मैं आत्मा (विश्वाः) सब को (तिरः) पार करूं । अतः आप (मम) मेरी (हवम्) उपासना या आज्ञा या वचन को (श्रुतं) श्रवण करो ।

(३) हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (युवं) आप दोनों (रत्नानि) रमण साधन इन्द्रियों को धारण करते हुए (नः) हमारे पास (आगच्छतं) आओ । आप दोनों (रुद्राः) देह को छोड़ते समय कष्ट देने हारे, रूताने हारे, (हिरण्यवर्त्तनी) आत्मरूप रथ पर गति करने वाले (वाजिनीवसु) ज्ञानमयी और बलमयी चित्ति शक्ति में बसने हारे (माध्वी) मधु-विद्या, आत्माविद्या जानने हारे, (जुपाया) नित्य इस जीवन यज्ञ को सेवन करने वाले (मम हवं श्रुतं) मेरे वचन को श्रवण करो मेरे वशवर्ती रहो ।

इति तृतीयः खण्डः ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
 [१७४६] अचोऽव्यग्रिः समिधा जनानाम्पति धेनुमिवायतीमु-
 १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३
 पासम् । यद्वा इव प्रवयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्रंत
 २ ३ १ २
 नाकमच्छु ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [१७४७] अबोधि होता यजथाप्र देवानूर्ध्वो अग्निः सुमनाः
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

प्रातरस्थात् । समिद्धस्य रुशददर्शि पाजा महान्दवस्त-
 २ ३ १ २

मसो निरमोचि ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१७४८] यदो गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्कते शुचिभिर्गोभि-
 ३ २ १ २ २ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

रग्निः । आदक्षिणा युज्यते वाजयन्त्यूत्तानामूर्ध्वो अ-
 ३ १ २

धयञ्जुह्वभिः ॥ ३ ॥ १३ ॥ अ० ५ । १ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [७३] पृ० ३८ । :

(२) (देवान्) विद्वानों और ३३ देवों को (यजथाय) एकत्र संगति करने के लिये, (होता) समस्त जगत् का दान अर्थात् उःपत्ति और आदान अर्थात् प्रलय का कर्ता (अग्निः) सूर्यके समान स्वयं प्रकाशक परमात्मा, (सुमनाः) उत्तम ज्ञान से युक्त (अबोधि) सदा उदित होता है । वही सबसे (ऊर्ध्वः) ऊपर विराजमान होकर भी (प्रातः) प्रकृष्ट रूप से व्यापक होकर प्रातः उदित सूर्य के समान सर्वत्र (अस्थात्) विद्यमान रहता है । (समिद्धस्य) दग्दीप्यमान उस महान् प्रभु का (रुशत्) तेजस्वी (पाजः) बल (अदर्शि) साक्षात् दीखता है । वही (महान् देवः) महान् देव, सूर्यके समान महा देव समस्त चर अचर संसार को (तमसः) मृत्युरूप तम से (निरमोचि) सर्वथा मुक्त कर निश्चयस प्राप्त कराता है । प्रातः—प्रात्तेतररुन् (उणादि० ५ । ५६) प्रकृष्टमत्तति गच्छति इति प्रातः (द्या० उ०) ।

(३) (यद्) जब (ई अग्निः) यह अग्नि, स्वयंप्रकाश समस्त जगत् का प्रकाशक, सब का प्रबोधक परमात्मा (गणस्य) सब प्राणियों और स्थावर पदार्थों की (रशनां) भोग सामग्री और उसमें व्यापक चेतना शक्ति और नियामक शक्ति को स्वयं (अजीगः) अपन्ने वश में किये

है अपने आप समेटे हुए हैं और वही (अग्निः) सूर्य के समान प्रकाशक (शुचिभिः) शुद्ध (गोभिः) रश्मियों और वेदवाणियों द्वारा और तेजस्वी पिण्डों द्वारा (अङ्के) समस्त विश्व के ज्ञानों और पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है तब (वाजयन्ती) ज्ञान और कर्म का सम्पादन और बल का प्रकाश करने वाला (दाक्षिणा) विश्वदमनकारिणी शक्ति को (युज्यते) संसार को महान् कार्यों में लगाता है । और (उत्तानां) उत्कृष्ट रूप से सर्वत्र विस्तृत उस शक्ति को (ऊर्ध्वः) वह सबसे उच्च पद पर विराजमान परमात्मा (जुह्वभिः) अपनी दान, आदान क्रियाओं द्वारा (अधयत्) अपने वश करता और अपना बल प्रदान करता है उसको अपने भीतर ही लान करता या धारण करता है ।

अशेरशच् (उणादि० २ । ७५) अश्नुते व्याप्ति इति रशना (दया० उ०) :

उ २ ४ ३ १ २ ३ २ ३ ५ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
 [१७४६] इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट
 १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३
 विभवा । यथा प्रसूना सवितुः सवायैवा रात्र्युषसे
 १ २
 योनिमारैक् ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
 [१७५०] रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगुकृष्णा सदनान्यस्याः ।
 ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २ ३ २
 समानबन्धू अमृते अनूची द्वावा वर्णं चरत आभिमाने
 ॥ २ ॥

३ २ ४ ३ १ २ ३ २ ४ ३ १ २ ३ १ २
 [१७५१] समानो अध्वा स्वस्त्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे ।
 १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोपासा समनसा विरूप

भा०—(१) (इदं) यह साक्षात् (श्रेष्ठं) सबसे उत्कृष्ट (ज्योतिषां ज्योतिः) सब ज्योतिष्मान् दिव्य पिण्डों को भी प्रकाशित करने हारा ज्योति (आगात्) प्राप्त होता है । और इसी ज्योति से यह (चित्रः) अद्भुत आश्चर्यजनक परमपूजनीय ग्रहण करने योग्य (प्रकेतः) उत्तम प्रज्ञान (अजनिष्ट) उत्पन्न होता है । (यथा) जिस प्रकार उत्पन्न हुई उषा (सवितुः) सूर्य के (सवाय) उत्पन्न होने के लिये पूर्वरूप है और (रात्री) रात्रि (उषसे) उषा के लिये (योनिम्) पूर्वरूप को (आरैक्) छोड़ती है (एवा) उसी प्रकार ऋतम्भरारूप उषा (सवितुः) सर्व प्रेरक ब्रह्म के (सवाय) ज्ञान प्रादुर्भाव के लिये पूर्वरूप है और (रात्री) सब को सुख प्रदान करने वाली सुषुम्ना (उपसे) ऋतम्भरा प्रज्ञा के उदय के लिये (योनिं) आश्रय स्वरूप आत्मा को (आरैक्) सम्पर्क करा देती है ।

राशदिभ्यां त्रिप् (उणादि० ४ । ६७) रातिसुखं ददाति इति रात्रिः (दया० उ०)

(२) (श्वेत्या) जिस प्रकार शुक्लवर्णा गौ या महिला के समान उषा (रुशती) दीक्षियुक्त होकर (रुशद्बत्सा) देदीप्यमान सूर्य को अपने श्वेत बच्चे के समान साथ लिये आती है और (उ) मानो (कृष्णा) श्याम गोया महिला के समान रात्रि (अस्या) उस श्वेत गौर-उषा के लिये (सदनानि) विराजन के निमित्त स्थान (आरैक्) खाली कर देती है, आदर से छोड़ देती है ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों (समानबन्धू) समान रूप से प्रिय बन्धु हों । और दोनों ही (अमृते) कभी न मरने वाली (अनुची) अनिर्वचनीय होकर (वर्णा) समस्त जगत् के वर्णनायक रूप को साक्षात् करने योग्य (आमिनाने) बनाती हुई (द्यावा) तेजोरूप होकर (चरतः) विचरण करती हैं । उसी प्रकार यह उषा रूप विशोका प्रज्ञा स्वयं अर्ध्यात्म कान्तियों से सम्पन्न होकर अपने श्रेष्ठमान बालक

प्राण को या हंसरूप आत्मा को साथ लिये प्रकट होती है और कृष्णा= आर्क्षणी करने वाली या दुःखों को काटने वाली सुषुम्ना वृत्ति (अस्याः सदनानि आरैक्) इस विशोका ज्योतिष्मती प्रज्ञा के लिये उचित भूमि या आधार तैयार कर देती है । ये दोनों ही (अमृते अनूची समानबन्धू) अमृतरस, आत्मानन्द से पूर्ण, अवर्णनीय और समान नामक सर्वगत प्राण द्वारा बद्ध होती है, या परस्पर समान रूप से सम्बद्ध होती है । ये दोनों (वर्ण आमिनाने) वरण करने योग्य आनन्द या आत्मज्ञान को उत्पन्न करती हुई (धावा चरतः) प्रकाशस्वरूप आत्मा के साथ वर्तमान रहती हैं ।

(३) (स्वन्नोः) रात्रि और उपा इन दोनों भगिनियों या भाई बहनों का (समानः) समान रूप से (अनन्तः) अनन्त (अध्वा) मार्ग है । (तं) उस मार्ग पर (देवशिष्टे) देवरूप सूर्य से अनुशिचित होकर ये दोनों (अन्या अन्या) एक २ करके (चरतः) चलती हैं । (सुमेके) शुभ लक्षण वाली (नङ्गोपासा) रात्रि और उपा दोनों (विरूपे) विरुद्ध रूप काली और श्वेत, तम और प्रकाश रूप होकर भी (समनसा) एकाचित्त होकर परस्पर (न मंथेते) न लड़ती भिड़ती हैं और (न तस्थतुः) न कभी कहीं रुकते हैं । इसी प्रकार इन रात्रि और उपा के समान इस देह में विशोका और सुषुम्ना वृत्ति इन दोनों (स्वन्नोः, अध्वा समानः) बहनों का या स्वयं सरण करने वाली, स्वयं प्रकट होने वाली दोनों वृत्तियों का (अध्वा) मार्ग या आश्रय समान है या वह सर्वत्र देह में समभाव से वर्तमान आत्मा ही है । (देवशिष्टे) प्रकाशमान ज्ञानी आत्मा से अनुशासित होकर दोनों (अन्या अन्या) जुदी जुदी (तं चरतः) उसी को प्राप्त होती हैं । अर्थात् ये दोनों अवस्थाएं उसी आत्मा की हैं । ये दोनों (सुमेके) उत्तम रूप से आनन्द के उत्पन्न करने वाली धर्ममेव समाधि के धारण करने वाली (विरूपे) सुख और ज्ञान दो प्रकार के भिन्न २

अनुभव कराने से विभिन्न २ रूप वाली होकर (समनसा) समान रूप से एक ही मन का आश्रय लेने वाली (न मेधते) एक दूसरे का आश्रय नहीं होतीं और (न तस्थुः) निरन्तर स्थिर भी नहीं रहतीं प्रत्युत क्रम २ से प्रकट होती हैं ।

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २
 [६७५२] आभात्यग्निरुपसामनीकमुद्दिप्राणान्देवया वाचां अस्थुः ।
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ १ ३ १ २ १
 अर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमश्विना यर्म-
 २
 मच्छु ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ २ ३ १
 [६७५३] न संस्कृतं प्रमिमीतां गविष्टान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेह ।
 १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
 दिवाभिपित्वंऽवसा गमिष्टा प्रत्यवर्ति दाशुपे शम्भविष्टा
 ॥ २ ॥

३ १ २ २ ३ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [६७५४] उतायातं सङ्गवे प्रानग्हो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य ।
 २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २
 दिवानक्लमवसा शन्तमेन नेदानीर्पीतिरश्विना ततान ॥
 ३ ॥ १५ ॥ ऋ० ५ । ७६ । १-३ ॥

भा०—(१) (अग्निः) सूर्य (उपसाम् अनीकम्) मानो उपाश्रों-
 का मुख हो ऐसे (आभाति) प्रकाशित होता है । (विप्राणां) मेधावी
 विद्वान् भक्त पुरुषों की (देवया) इष्टदेव परमात्मा तक पहुँचने वाली (वाचाः)
 वेदमन्त्र ध्वनियाँ (उद्-अस्थुः) उठने लगती हैं । हे (अश्विनो) अश्विदेवो !
 प्राण और अपान एधं स्त्री पुरुषो ! हे (रथ्या) देहरूप रथपर आरूढ प्राण
 और अपान आप दोनों ! (इह) इस देह में (अर्वाञ्चम्) निगन देश में गति-
 करने वाले होकर भी (यातम्) अब ऊपर आओ और (पीपिवांसं) बराबर
 बढ़ते हुए (यर्म) ज्योतिस्वरूप रस को (अच्छु) साक्षात् करो । अथवाः

(अग्निः, उपसां अनीकं) अग्निहोत्र की अग्नि उपाश्रों का मुखरूप होकर (आभाति) प्रकाशित होता है ।

अथवा—अध्यात्मपक्ष में विशोका प्रज्ञाश्रों का (अनीकं) पूर्वरूप मुखरूप (अग्निः) विशेष तेज (आभाति) धारणाप्रदेशों में प्रकाशित होता है । उसी समय विद्वान् पुरुषों की इष्टदेव आत्मविषयक वेदवाणियाँ प्रकट होती हैं । शेष पूर्ववत् हे (अश्विनौ) प्राण और अपान ! तुम दोनों रथपर देह के हितकरी होकर (अर्वाञ्चा) साक्षात् रूप से प्रकट होकर (पीपिवांसं धर्मम्) बराबर बढ़ते हुए तेज को (अच्छ यातं) उत्तम रीति से प्राप्त होओ या प्राप्त कराओ । जैसाकि श्वेताश्वर उपनिषद् (अ० २ । ११ । १२ ।) में लिखा है—

नीहारधूमार्कानलानलानां खद्योताविद्युत्स्फटिकशाशिनाम् ।

एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मययाभिव्यक्तिकराणि योगे ॥

पृथिव्यसेजोनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ॥


योग समाधि के अभ्यास के अवसर में ब्रह्मसाक्षात् के पूर्व नीहार धूम, सूर्य, अग्नि, विद्युत् स्फटिक आदि के रूप प्रकट होते हैं । उस समय पाँचों भूतों पर वश हो जाता है । जरा और मृत्यु हट जाती है शरीर योगाग्निमय हो जाता है ।

(२) हे (उपस्तुता) प्रशंसनीय ! आदर योग्य ! हे (अश्विनौ) अश्विगण प्राण और अपान ! या ह्रीं पुरुषो ! आप दोनों (अन्ति) अत्यन्त समीप (गमिष्ठा) प्राप्त होने हारे (संस्कृतं, उत्तम रूप से तैयार किये इस ब्रह्मरस को (न प्रमिमीते) विनाश नहीं करते । प्रयुत (दिवा अभिपित्वे) प्रकाश या दीप्ति के प्राप्तिकाल में आप दोनों (अवसा) अपने पालक बल सहित (आगमिष्ठा) अवश्य प्राप्त होते हो और (दाशुषे) अपने को समर्पण करने हारे आत्मा के (अर्वाञ्चि प्रति) पुनः जीवन में लौट

कर न आने अर्थात् मुक्त हो जाने के निमित्त (शम्भविष्टा) कल्याण-
कारी होते हो ।

(३) हे (अश्विना) अश्विगण ! प्राण और अपान आप दोनों
(अहः) दिन के (प्रातः) प्राप्त होने पर प्रातः काल में (उत) भी (आयातम्)
आइये । और (सूर्यस्य) सूर्य के (उदिता) ऊर्ध्वस्थान पर प्राप्त होने के
(मध्यन्दिने) मध्याह्न काल में भी आइये । और (शन्तमेन) अति कल्याण
कारी सुख शान्तिदायक (अवसा) अपने पालक दल द्वारा प्राप्त होइये ।
(इदानीं) इस समय अन्य इन्द्रियों की (पीतिः) रसास्वादन की क्रिया
(न आततान) नहीं की जाती बल्कि यह केवल ब्रह्मरस के आस्वादन
का भाग आपके ही करने का है । प्रातः मध्याह्न और सायं इन तीनों
कालों में प्राणायाम करने से योगियों को विशेष सुख की प्राप्ति होती है ।
अथवा तेज पुञ्जों के प्रकट होने के प्रारम्भ, मध्य और नैरन्तर्य काल में
अर्थात् जब दिवानक्त अर्थात् रात दिन समान रूप से हो तब भी प्राण और
अपान ही ब्रह्मरसास्वादन में भारी सहायक है ।

इति चतुर्थः खण्डः ।



३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १
[१७५५] एना उ त्या उपसः केतुमक्रंत पूर्वे अर्द्धे रजसो भानु-
३ ३ १२ २२ ३ २ ३ २ ३ १२ २२
मञ्जते । निःकृएवाना आयुध्रानां वि धृष्णवः प्रति गावोरु-
३ १ २

पीर्यन्ति मातरः ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ १ २
[१७५६] उदपसन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुपर्णा अयुक्तत ।
१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
अरुन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुपीरशिश्रयुः
॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
 [१७५७] अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना

२ ३ १ २ ३ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 परावतः। इषं वहन्ती सुकृतं सुदानवे विश्वेदह यजमानाय

३ २
 सुन्वते ॥ ३ ॥ १६ ॥ अ० १। ६२। १—३ ॥

भा०—(१) उषापक्ष में—(एताः उ त्याः) ये वे (उपसः) उषापं
 अन्तरिक्ष लोक में (पूर्वे अर्द्धे) पूर्व के आधे भाग में (भानुम्) सूर्य
 को (अञ्जते) प्रकट करती हैं । मानो (केतुम्) सब को अपना आगमन
 दर्शाने के लिये ज्ञापक चिह्न, ध्वजा=झण्डे के समान (अकृत) बना लेती
 हैं । (अरुपीः) प्रकाशमान (मातरः) मातास्वरूप उषापं (अरुपीः)
 दीप्तिमान् (गावः) किरणों को (आयुधानि इव) अपने हथियारों के
 समान (निष्कृष्वानाः) सजाती हुई (धुष्णवः) शत्रुओं का मानदलन
 करने वाले सुभटों के समान (प्रतियन्ति) अन्धकार को दूर करने के लिये
 युद्धयात्रा सी करती हैं ।

अध्यात्म पक्ष में—(एताः उ त्याः) ये वे, जिनका वर्णन पूर्व किया
 और जो योगाभ्यासी के लिये अपूर्व हैं वे (उपसः) नई नई विशोका
 ज्योतिष्मती प्रज्ञापं (केतुम्) अपने ज्ञापक (भानुम्) आदित्य के
 समान स्वयं प्रकाश और विशोका के प्रकाशक प्राणात्मा का (रजसः^१)
 नीहार या धूम के प्रकटीभाव होने के (पूर्वे) पूर्ण रूप से (अर्द्धे^२)

१७५५-१. 'रजसः'—रंजति रज्यति वा तद् रजः । भूरञ्जिभ्यां कित् । (उणा०

४। २१७) लोकः सूक्ष्मधूलिः, स्त्रीपुरुषगुणो वा इति दयानन्द उणादि-
 व्याख्यायाम्, रंज रागे [भ्वादि दिवादिश्च]

२. अर्धो हरतेविपरीताद् धारयतेर्वा रयादुद्धृतं भवत्यृधोतेर्वा स्याच्छ्रुतमो
 विभागः (जिह०) । ऋधु वृद्धौ (दिवादिः) । ऋधु वृद्धौ छन्दसि (स्वादिः) ।

ऋद्धतम या उत्तम रूप से सम्पन्न होजाने पर (अब्जते) प्रकाशित करती हैं। वे (अरुपीः) सर्वतः प्रकाशमान (मातरः) प्रमा अर्थात् यथार्थ ज्ञान कराने वाली ऋतम्भराणं (धृणवः) शत्रु पर चढ़ाई करने हारे सुभट जिस प्रकार (आयुधानि इव) अपने भाले आदि शस्त्रों को ऊपर उठाते और चलाते जाते हैं उसी प्रकार (गावः) इन्द्रियवृत्तियों को या प्राणों को (निष्कुरवानाः) आगे प्रेरित करती हैं।

योगाभ्यास की यह दशा विशेष विचारयोग्य हैं। अश्विद्वय और उपा का उदय ये दो घटनाएं योगाभ्यास में प्राणायाम की साधना के अनन्तर उत्पन्न होने वाली विशोका ज्योतिष्मती के उदय को दर्शाता है। यहां स्पष्ट करने के लिये योग शास्त्र के सूत्र एवं भाष्य का उद्धरण देते हैं।

मन को स्थिर करने के लिये "प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।" (योग० १ । ३४) प्राण के प्रच्छर्दन और विधारण का जो अभ्यास किया जाता है वही प्राणायाम कहाता है। इसी प्रच्छर्दन और विधारण को प्राण और अपान के नाम से पुकारा जाता है। अथवा धारणा द्वारा—“विषयवती वा प्रवृत्तिरूपज्ञा मनसः स्थितिनिवन्धिनी ।” (यो० १ । ३५) विषयवाली जब कोई संवित् प्रवृत्ति उत्पन्न होजाती है तब भी मन उसमें स्थिर हो जाता है। और वे संचित ज्ञान भी समाधिप्रज्ञा अर्थात् विशोका के उत्पन्न होने में कारण हो जाता है। उसके बाद "विशोका वा ज्योतिष्मती ।" (यो० सू० १ । ३६) हृदयदेश में धारण करने पर बुद्धि सत्व सूर्य के समान प्रकाशस्वरूप साक्षात् होता है। उसके बाद आत्मज्ञान होता है। जैसा इसी सूत्र पर महर्षि व्यासजी ने अपने भाष्य में लिखा है।

"हृदयपुरंदरके धारयतो वा बुद्धिसंवित् । बुद्धिसत्त्वं हि भास्वर-माकाशकल्पं । तत्र स्थितिवैशाद्यरात् प्रवृत्तिः । सूर्य-इन्दु-ग्रह-माणिक्य-प्रभारूपाकारेण विकल्पते । तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहो-

दधिकल्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति । यत्रेदमुक्तं—‘तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्स प्रजानीते इति । एषा द्वयी विशोका विषयवती अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्युच्यते । यथा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभते ।’

अर्थात्—हृदय पुरद्वारिक में धारणा करते हुए योगी को बुद्धिमं चित् अर्थात् मानस दिव्य प्रज्ञा की सिद्धि होती है । वह बुद्धिसत्त्व मानस भास्वर=सूर्य के समान प्रकाशवान् विशाल आकाश के समान व्यापक प्रभापटल साक्षात् होता है, उस दशा में योगी का चित्त अति आनन्दजनक, स्थिर स्थिति को प्राप्त करता है । वहां वह बुद्धिसंचित् या चित्तिशक्ति सूर्य, चन्द्र, शुक्रादि ग्रह, दिव्य मणियों की विशेष प्रभा का स्वरूप होकर स्वयं प्रकाशित होता है, उस समय वह बुद्धितत्त्व सुषुम्ना में रहता है । उसकी उत्पत्ति वैकारिक अहंत्व से ही होने के कारण अतिसात्विक होने से अस्मितामात्र ‘अहं’ ऐसा ही भान होता है । उस समय वह चित्त तरङ्गरहित, विशाल समुद्र के समान शान्त और अनन्त प्रतीत होता है । इसी दशा को उपनिषत्कार महर्षियों ने उपनिषदों में लिखा है—‘तमणुमात्रमात्मानमनुविद्याऽस्मीत्येवं स प्रजानीते’ इति । अर्थात् उस अणुपरिमाण आत्मा को प्राप्त करके ‘अस्मि’ मैं हूँ इस प्रकार ज्ञान कर लेता है । विशोका दो प्रकार की होती है एक ‘विषयवती’ जिसमें गन्धादि पांचों ग्राह्य विषयों की तीव्र संचित् की जागृति होती है और दूसरी ‘अस्मितामात्र’ इसमें ‘अहं’ तत्व या मनस्तत्व का साक्षात् अनुभव होता है । दोनों प्रकार की विशोका ‘ज्योतिष्मती’ नाम से ही कही जाती है । इसके साक्षात् होने से योगी आनन्द में मग्न हो जाता है और फिर उसका चित्त इसी के द्वारा स्थितिपद को प्राप्त हो जाता है । इस ज्योतिष्मती के संग एक चित्तवृत्ति का दूसरा रूप भी होता है उसको योगशास्त्र में ‘स्वप्नज्ञान’ या ‘निद्राज्ञान’ दो नामों से पुकारा जाता है उसका

आलम्बन करके भी योगी का चित्त मग्न होजाता है । यह सात्विकी निदावृत्ति है । उपासनारूप में साधक लोग इसका स्वरूप ऐसा निर्धारण करते हैं जैसे चन्द्रमण्डल से निकलने वाली, कोमल मृणाल खण्ड के समान शुभ्रवर्णा, मानों चन्द्रकान्तमणि की बनी हो । बहुत से उसी को इष्टदेव की मूर्ति जानकर उसकी उपासना करते हैं । उसी निदा या सुप्तावस्था को भी ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं वेद में उसको उपा के साथ 'नक्र' या 'रात्रि' नाम से पुकारा है । योगी का इस प्रकार धारणा या प्राणायाम द्वारा स्थिर चित्त जिस विषय पर बैठ जाय वहां ही उसी की 'तत्स्थ-तदङ्गनता' हो जाती है । अर्थात् वह उसी में तन्मय तदाकार हो जाता है । यह 'समापत्ति' कहाती है यह 'सवितर्का' और 'निर्वितर्का' 'सविचारा' और 'निर्विचारा' भेद से चार प्रकार की होती है । ये चारों ही 'समाधि' दशा कहाती हैं । इनमें निर्विचार दशा में चित्त पर कोई अशुद्धि या मल का आवरण नहीं रहता । उस समय बुद्धिसत्त्व का प्रवाह स्वच्छ सिन्धु के समान रहता है । उसी दशा में योगी का 'अध्यात्मप्रसाद' और 'प्रज्ञालोक' उत्पन्न होता है । " निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः" (१ । ४७) । और उसी समय "अतंभरा तत्र प्रज्ञा" (१ । ४८) 'अतम्भरा' नामक सत्यदर्शिनी बुद्धि का उदय होता है । प्रायः उपा देवता के मन्त्रों में इसी 'विशोका प्रज्ञा' और 'स्वप्न ज्ञान' और चारों समाधियों और अतम्भरा का वर्णन है । संक्षेप से यहां विषय दर्शाया है । इसका विशेष ज्ञान, योगदर्शन पर व्यासमुनिकृत भाष्य देखने से प्राप्त होगा ।

(२) उपा पक्ष में—(अरुणाः) दीप्तिमान् (भानवः) उपाकाल की फिरणों (वृथा) सर्वव्यापन करती हुई अथवा अनायास, आप से आप (उदपसन्) ऊपर उठती हैं । मानों उपा के रथ में (स्वायुजः) आपसे आ जुड़ने वाली सुशील (अरुपीः) दीप्तिवाली (गाः) गौओं या बैजों के समान रश्मियों को (अयुक्त) लगाया हो । इस प्रकार

उपाएं (पूर्वथा) सोने के पूर्व वर्तमान गत दिवस के (वयुनानि) ज्ञानों और व्यवहारों को (अक्रन्) पुनः उत्पन्न करती हैं । तब (अरुपीः) देदीप्यमान उपाएं (रुशन्तं भानुम्) देदीप्यमान सूर्य का (अशिश्रयुः) आश्रय लेती हैं ।

अध्यात्मपक्ष में—(अरुणाः भानवः वृथा उदपसन्) कान्तिमान् रश्मियां या अलोक सहज ही मूर्धाभाग को आवरण करने हारे नाना धारणा प्रदेशों में प्रकट होते हैं अर्थात् बहुत से संवित् उत्पन्न होते हैं । वे (स्वायुजः) स्व=अपने २ विषयों से या आत्मा से, जुड़ने हारी (गाः) इन्द्रिय-वृत्तियां (अरुपीः) विशेष आलोक से आलोकित होकर (अयुत्तत) समाधि द्वारा प्रकट होती हैं अर्थात् ये विषयवती विशोकाएं हैं । ये सब उपाएं या ज्ञानालोक (पूर्वथा) पूर्वकाल से वर्तमान (वयुनानि) चित्त के सब संस्कारों, स्मृतिज्ञानों को (अक्रन्) जागृत कर देते हैं । और ये सब प्रज्ञाएं (अरुपीः) देदीप्यमान होकर (रुशन्तं भानुं) देदीप्यमान आत्मा को (अशिश्रयुः) आश्रय किये रहती हैं ।

(३) जिस प्रकार (विष्टिभिः) अपने वेतनों के कारण (आपरावतः) दूर देश से भी आईं (समानेन योजनेन) समान उद्योग में लगीं हुईं (अपसः) काम करने वाली (नारीः) स्त्रियां (सुदानवे) उत्तम दानशील, (सुकृते) उत्तम कर्मशील, (सुन्वते) सोम सवन करते हुए (यजमानाय) यजमान वेतनदाता स्वामी पुरुष के लिये (इषं) उत्पादित अन्न उस के अभिलाषित कार्य को तैयार कर तैयार करती हुईं (अचन्ति) उसका यश गान करती हैं (न) उसी प्रकार यह उपाएं=उयातिष्मती विशोका प्रज्ञाएं (विष्टिभिः) तत्त्व में प्रवेश करने वाली रश्मियों से (समानेन योजनेन) समान रूप समाधि योग से (सुन्वते) आनन्दरस के उत्पादक (सुदानवे) आत्म-समर्पक, (सुकृते) निष्ठ, कुशल (यजमानाय) आत्मा के लिये (विश्वा इद् अह) समस्त (इषः) ज्ञान और बल (बहन्तीः) प्राप्त करती हुईं

(परावतः) दूर देशों तक विद्यमान पदार्थों का (अर्चन्ति) ज्ञान करा देती हैं और उसी की महिमा का प्रकाश करती हैं ।

१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ २ २ ३ ३ ३ २२
 [१७५८] अत्राध्यग्निर्जर्म उदेति सूर्यो व्यूऽऽपाश्चन्द्रा मह्यावो
 ३ १ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १
 अर्चिषा । आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीदेवः
 २ ३ २४ ३ १ २

सन्निता जगत्पृथक् ॥ १ ॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ ३
 [१७५९] यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्ष-
 ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ४ ३ १ २

तम् । अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं धना शूर-
 साता भजेमहि ॥ २ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३
 [१७६०] अत्राङ्त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु
 १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 सुष्टुनः । त्रिचन्द्रुरो मधवा विश्वसौभगः शन्न आवक्षद्
 ३ २ ३ १ २

द्विपदे चतुष्पदे ॥ ३ ॥ १७ ॥ अ० १ । १५७ । १-३ ॥

भा०—(१) (जमे) पृथिवी में (अग्निः) अग्नि जिस प्रकार अग्निहोत्र के समय (अबोधि) जगाया जाता है और (सूर्यः) सूर्य (उदेति) उदय होता है । और (चन्द्रा) आत्हादकारिणी (उपाः) उपापं भी (महती) विशाल रूप में (वि आनः) विविध तेजों सहित प्रकट होती और अन्धकारों को हटाती है उसी प्रकार इस आत्मारूप वेदि में ज्ञानरूप अग्नि प्रदीप्त होजाता है और ब्रह्मरूप सूर्य उदित होता वा आनन्दरस को उत्पन्न करने वाली विशोका ज्योतिष्मती उपा के समान (अर्चिषा) अपने तेज से (वि आवः) मलाचरणों को दूर कर देती है इस कारण हे (अश्विना) प्राण और अपान ! तुम दोनों (यातवे) आत्मा तक पहुंचने के लिये (रथम्) इस देह या मनरूप रथ को (आ-

अयुक्तताम्) योगाभ्यास द्वारा युक्त करो । जिनसे (सविता) सबका प्रेरक (देवः) प्रकाशमान् आत्मा (जगत्) समस्त जगत् के पदार्थों को (प्रा-
मावीत्) उत्तम रूप से ज्ञान करे ।

(२) हे (आश्विना) प्राण और अपान आप दोनों (यत्) जब (वृषणं) सुखों के वर्षक (रथे) रमणसाधन, चित्त या आत्मरूप रथ को (युञ्जाथे) योगाभ्यासा द्वारा समाहित करते हो तब आप. (नः) हमारे (सन्नम्) प्रेरक आत्मा को (घृतेन) देदीप्यमान तेज से (उच्चतम्) सेचन करते हो और (अस्माकं) हमारे (पृतनासु) विषयों का ग्रहण करने हारी इन्द्रियवृत्तियों में (ब्रह्म) विशेष सत्य संवित् ज्ञान को (जिन्वतं) उत्पन्न करते हो और (वयं) हम (शूरसातौ) आत्मज्ञान की प्राप्ति में (धना) नाना दिव्य ज्ञानों को (भजेमीह) प्राप्त करते हैं ।

(३) (आश्विनोः) उन प्राण और अपान का (त्रिचक्रः) तीन चक्रों से युक्त (मधुवाहनः) अमृत= 'ओ३म्' अथवा एकमात्र वहन करने हारे आत्मारूप अश्व से युक्त (जरिाश्वः) बहुत प्राचीन सनातन अमर अविनाशी अश्व अर्थात् आत्मा से युक्त (सुस्तुतः) उत्तमरूप से वर्णित किया गया रथ (अर्षाद्) साक्षात् रूप से (यातु) गति करता है । (मघवा) वह ज्ञानवान् योगी आत्मा रथरूप, (त्रिवन्धुरः) तीन प्रकार के सारथिपीठों या बन्धनों से युक्त है और उनमें आत्मा मन और इन्द्रिय या तीन गुण या वात, पित्त, कफ आदि तीन धातु ये तीन ही प्रकार के सारथि या बन्धन के हेतु हैं । और वह (विश्वसौभगः) समस्त संसार को सौभाग्य या सुखैश्वर्य का देने हारा अथवा समस्त संसार के सब उत्तम ऐश्वर्यों को सिद्ध करने हारा होकर (नः) हमारे (द्विपदे) समस्त मनुष्य संसार और (चतुष्पदे) पशु संसार को (शं) कल्याण (आ-
वृत्त) करे ।

इसी सनातन अश्व के पीछे लगे रथ की कल्पना को प्रकारान्तर से श्वेताश्वतर उपनिषद् में इस प्रकार बतलाया है:—

सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद् उ अश्वान् ।

एवं स देवो भगवान् वरेण्यो योनिस्वभावनाधितिष्ठत्येकः ॥

स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ।

अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः ॥

इसी प्रकार मुण्डक में—

'दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येव न्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः ।

मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽज्ञे हृदयं संनिधाय ।

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद् विभाति । इत्यादि ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २

[१७६१] प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः ।

२ ३ १ २ ३ १ २

अच्छा वाजं सहस्रिणम् ॥ १ ॥

३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१७६२] अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षणां अर्पति ।

१ २ ३ १ २ २ २

हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

[१७६३] स मर्मज्ञान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः ।

३ १ २ २ २

श्येनो न वंसु पीदति ॥ ३ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

[१७६४] स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि ।

३ १ २ ३ १ २

पुनान इन्द्रवाभर ॥ ४ ॥ १८ ॥ अ० ६ । ७७ । १—४ ॥

भा०—(१) हे सोम ! आत्मन् ! (असश्चतः) संगरहित (दिवः) प्रकाशस्वरूप (ते) तेरी (धाराः) धारणा शक्तियां (दिवः) द्यौलोक स (वृष्टयः) वर्षाओं के समान (सहस्रिणं) अतिबलवान् या सहस्रों ज्ञानों

से युक्त (वाजं) ज्ञानस्वरूप परमात्मा को (अञ्छ) प्राप्त होती हैं
अथवा ब्रह्मानन्द की धाराएं आत्मा को प्राप्त होती हैं ।

(२) यह आत्मा ! (विश्वा) समस्त (प्रियाणि) मनोहर
(काव्या) जगत् के सूक्ष्म ज्ञानों को (अभि) साक्षात् रूप में (चक्ष्णः)
दर्शन करता हुआ (आयुधा) अपने प्रहार करने हारे ज्ञान से (तुंजानः)
कर्म बन्धनों को काटता हुआ (हरिः) मोक्षपद में गमन करने वाला
मुक्तात्मा होकर (अभि अर्पति) सर्वत्र विचरता है ।

(३) (सः) वह आत्मा (आयुभिः) दीर्घायु, ज्ञानवान् तपस्वियों
द्वारा (मर्त्यजानः) योग साधनों से परिमार्जित किया गया (इभः)
निर्भय (राजा इव) राजा के समान और (श्येनः न) पक्षि संसार में
निर्भय बाज़ या गरुड़ के समान (सुव्रतः) उत्तम कर्मों से युक्त (वंसु)
अपने इच्छानुकूल समस्त लोकों में (सीदति) विचरता है ।

(४] हे इन्दो ! सोम ! ऐश्वर्यवन् ! परमात्मन् ! (सः) वह तू
(नः) हमें (दिवः) द्यौलोक के (उत उ) और (पृथिव्याः अधि)
पृथिवी पर के (विश्वा वसू) समस्त पदार्थों को (पुनानः) पवित्र करता
हुआ (नः) हमारे लिये (आ भर) प्राप्त करा ।

उक्त चारों मन्त्र परमात्मा पक्ष में भी स्पष्ट है ।

(१) (असञ्चतः ते धारा दिवो वृष्टयो न सहस्रिणं वाजं अञ्छ)
हे ईश्वर तुम्ह असङ्ग परम पुरुष की धारणपोषणकारी शक्तियां सहस्रों
धनों से युक्त अन्न को दान करती हैं ।

(२) (प्रियाणि विश्वा काव्यानि चक्ष्णः आयुधा तुंजानः हरि
अभि अर्पति) मनोहर समस्त लोकों को देखता हुआ अपने बल से विघ्नों
का नाश करता हुआ परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है ।

(३) (स आयुभिर्मृत्युजानः, इभो राजा इव सुव्रतः श्येनो न वंसु
सीदति) पुरुषों द्वारा हृदय में स्वच्छरूप में साक्षात् करने योग्य वह

अभयरूप उत्तम कर्मों को सम्पादक परमेश्वर राजा के समान और आत्मा
क समान सब लोकों में विराजमान है ।

१४ । चतुर्थं स्पष्टं है ।


इति पञ्चमः खण्डः ।

इति तृतीयोऽर्धप्रपाठकः । इति अष्टमः प्रपाठकः समाप्तः ।

इति एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः

अथ विंशोऽध्यायः ॥

अथ नवमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥



अग्निः—१ नृमेधः । ३ प्रियमेधः । ४ दीर्घतमा औचव्यः । ५ वामदेवः ।
६ प्रसृक्णवः काण्वः । ७ बृहदुक्थो वामदेव्यः । ८ विन्दुः पूतदक्षो वा । ९
जमदग्निर्भागवः । १० सुकक्षः । ११—१३ वमिष्ठः । १४ सुदाः पैजवनः । १५
मेधात्तिथिः काण्वः प्रियमेधश्चांगिरसः । १६ नीपात्तिथिः काण्वः । १७ जमदग्निः ।
१८ परुच्छेपो देवौदासिः । २ एतत्साम ॥ देवताः—१, १७ पवमानः सोमः ।
३, १७ १०-१६ इन्द्रः । ४, ५, १८ अग्निः । ६ अग्निरश्विनयुवाः । १८ मरुतः
९ सूर्यः । ३ एतत्साम ॥ छन्दः—१, ८, १०, १५ गायत्री । ३ अनुष्टुप् प्रथमस्य
गायत्री उत्तरयोः । ४ उष्णिक् । ११ भुरिगनुष्टुप् । १३ विराडनुष्टुप् । १४
शक्करी । १६ अनुष्टुप् । १७ द्विपदा गायत्री । १८ अत्यष्टिः । २ एतत्साम ।
स्वरः—१, ८, १०, १५, १७ पङ्जः । ३ गान्धारः प्रथमस्य, पङ्ज उत्तरयोः
४ ऋषभः । ११, १३, १६, १८ गान्धारः । ५ पञ्चमः । ६, ८, १२ मध्यमः
७, १४ धैवतः । २ एतत्साम ॥

२ ३ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

[१७६५] प्रास्य धारा अक्षरवृष्णः सुतस्यौजसः ।

३ १ २ २ ३ १ २

देवां अनु प्र भूपतः ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१७६६] सप्ति मृजन्ति वेधसा गृणन्तः कारवो गिरो ।

१ २ ३ २ ३ २ २ २

ज्योतिजज्ञानमुक्थ्यम् ॥ २ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७६७] सुपहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो ।

१ २ ३ १ २

वर्द्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ ३ ॥ १ ॥ अ० ३ । २६ । १-३ ॥

भा०—(१) (सुतस्य) सबके प्रेरक, (वृष्णः) सुखों के वर्षक (देवान्) देवों के (अनु प्रभूपतः) इन्द्रिय वृत्तियों को अपने अनुकूल रखकर उन पर चश करने वाले, (प्रास्य) इस आत्मा के (औजसः) शक्ति और तेज की धाराएं (अक्षरन्) चारों और प्रवाहित होती हैं ।

परमात्मापन्न में देव, पञ्चभूत आदि दिव्य पदार्थ और विद्वान् गण ।

(२) (कारवः) कर्मण्य, कर्ता, कर्मयोगी (वेधसः) मेधावी, विद्वान् पुरुष (उक्थ्यम्) 'ओ३म्' इस प्रकार के उक्थ नाम से कहाने योग्य, स्तुत्य, वेदसूक्तों के प्रतिपाद्य; श्रेष्ठ (जज्ञानम्) प्रादुर्भाव होती हुई (ज्योतिः) ज्योति को (गिरा) अपनी वाणी द्वारा (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (सप्तिम्) सर्पणशील सात इन्द्रियों से युक्त आत्मा को ही (मृजन्ति) मांजते, शुद्ध, पवित्र, परिष्कृत किया करते हैं । सप्ति=सात मूर्धागत प्राण, जैसे-दो नाक, दो आंख, दो कान, एक मुख और आठवीं वाणी ।

(३) हे सोम ! हे (उक्थ्य) वेदप्रतिपाद्य परमात्मन् ! या आत्मन् ! हे (प्रभूवसो) प्रभूत ऐश्वर्यसम्पन्न परमेश्वर ! अथवा हे सामर्थ्यवान् होकर सब विश्व में बसने हारे अन्तर्यामिन् ! प्रभो ! (ते) तेरे (तानि)

वे समाधि दशा में प्रकट होने हारे तेज (सुसहा) अन्य सब चित्त-वृत्तियों और व्युत्थान संस्कारों को उत्तम रीति से विनाश करने हारे होते हैं। अतः उनसे ही तू (समुद्रम्) उत्पन्न रसों के आनन्ददायक स्रोत को (वर्ध) और बढ़ा।

ज्योतिष्मती विशोका के विवरण में व्यासदेव ने लिखा है—

“हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित् बुद्धिसत्त्वं हि भास्वरमा-
काशकल्पं तत्र स्थितिवैशारद्यात् प्रकृतिः सूर्येन्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारंश्च
विकल्पते तथा अस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं शान्तमन-
न्तमस्मितामात्रं भवति ।” इसका विवरण देखो अवि० सं० [१७६६] पृ०
७५३-७५७ पर बद्धरथ टिप्पण। इस मन्त्र में समुद्र शब्द से ‘निस्तरं-
गमहोदधिकल्प’ चित्तदशा का ही ग्रहण होता है।

३ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३

[१७६८] एष ब्रह्मा य ऋत्विष्य इन्द्रो नाम श्रुनो गृण ॥ १ ॥

१२ २ २२ ३ २ ३ २ ३ ३ १ २

[१७६९] त्वामिच्छुवत्सस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥ २ ॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ २

[१७७०] विष्णुतयो यथा पथा० ॥ ३ ॥ २ ॥ सक्तम् ऋग्वेदे नास्ति ।

भा०—(१) (३) व्याख्या देखो आविकल्प सं० [४३८] पृ० २२२ ।

और [४५३] पृ० २२७ ।

(२) हे (शवत्सस्पते) बलों के स्वामिन् ! सर्वशक्तिमन् ! (संयतः)
प्राणों का संयम करने हारे साधक, ईश्वर प्राणिधान के अभ्यासी पुरुष
की (गिरः न) वाणियों के समान समस्त (गिरः) वेदवाणियों (त्वाम्-
इत्) तुझको ही (यन्ति) प्राप्त होती हैं ।

२ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१७७१] आ त्वा रथं यथातये० ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७७२] तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते ।

१ २ ३ २

आपप्राथ महित्वना ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७७३] यस्य ते महिना महः परिज्जायन्तमीयतुः ।

२ ३ १ २ ३ १ २

हस्ता वज्रं हिरण्ययम् ॥ ३ ॥ ३ ॥ अ० क । ३८ । ०-२॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [३१५] पृ० १८३ यह प्रती-
कमात्र है ।

(२) हे (तुविशुष्म) प्रभूत अनन्त शक्तिशालिन् ! हे (तुविक्रतो)
विशाल प्रभूत कर्म करने वाले ! अथवा बहुप्रज्ञ ! अनन्तज्ञान ! हे (श-
चीवः) शक्ति के स्वामिन् ! परमेश्वर ! आप (विश्वया) समस्त विश्व
में व्यापक (महित्वना) महिमा या महान् सामर्थ्य से (आपप्राथ) सर्वत्र
व्यापक हैं ।

(३) (यस्य महतः) जिस महान तेरी (महिना) वढ़ीमारी शक्ति से
(हस्तौ) तेरे हनन साधन दो विशाल शक्तियां (परि) सर्वत्र (ज्जायन्तं)
व्यापक (हिरण्ययम्) गतिशील (वज्रं) वज्र को (ईयतुः) ग्रहण
करती हैं वह तू इन्द्र है ।

२ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७७४] आ यः पुरं नार्भिणीमदीदेदत्यः कविर्नभन्यो३ नार्वाः ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

सूरा न रुक्काञ्छतात्मा ॥ १ ॥

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १

[१७७५] अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचाना

२ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

अस्थात् । होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥ २ ॥

३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २
 [१७७६] अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दध्रे वार्याणि श्रवस्या
 २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

मर्तो यो अस्मै सुतुको ददाश ॥ ३ ॥ ४ ॥

श्र० १ १ १४६ । ३-५ ॥

भा०—(१) (यः) जो (नार्भिणी) नर=आत्मा और मन के निवास योग्य (पुरं) इस देहरूप पुरी को (अदीदेत्) प्रकाशित करता है, चेतन बनाये रखता है । वह (कविः) कान्तदर्शी इन्द्रियों द्वारा क्रमण करके देखने हारा (नभन्यः) अन्तरिक्ष आकाश अर्थात् विचरण करने वाले व्यापक वायु=के समान प्राणरूप हृदयाकाश में व्यापक (अर्वा न,) अश्व के समान वेगवान् और (सूरः न) सूर्य के समान (रुक्मान्) कान्तिमान् (शतात्मा) सैंकड़ों प्राणियों में आत्मारूप से विराजमान है ।

(२) यह अग्नि (द्विजन्मा) ज्ञान और कर्म इन दोनों से अपना प्रादुर्भाव करने हारा अथवा कर्ता भोक्ता रूप से , अथवा साधारण अग्नि जिस प्रकार दो अरणियों के रगड़ने से उत्पन्न होता है उसी प्रकार देह और प्रणव इन दो अरणियों से प्रकाशमान अन्तरात्मा (ग्री) तीन (रोचनानि) भू अन्तरिक्ष और धौः लोकों को (शुशुचानः) प्रकाशित करता हुआ अथवा तीनों प्रकृति के सत्व, रजस, तमस, इनको परिशोधित परिष्कृत करता हुआ (विश्वा) समस्त (रजांसि) लोकों में या देहों में (अस्थात्) विराजमान है । और वही (होता) सबका ग्रहण करने हारा (यजिष्टः) सबसे बड़ा यज्ञकर्ता होकर (अर्पां) लोकों के या कर्म और ज्ञानों के (सधस्थे) एक साथ रहने के स्थान ब्रह्माण्ड में (अस्थात्) विराजमान है ।

(३) (यः) जो अग्नि (द्विजन्मा) कर्ता और भोक्ता इन दो रूपों में प्रकट होने हारा अथवा पूर्वोक्त रूप से देह और 'ओ३म्' इन दो अर-

शिर्यो से निष्पादित होने वाला (होता) सब का दाता और अदानकर्ता है (सः) वह (विश्वा) समस्त (वायोणि) वरण करने योग्य, उत्तम, (श्रवस्या) कीर्ति के योग्य कार्यों को (दधे) धारण करता है । (यः) जो (मर्यः) मरणधर्मा पुरुष (अस्मै) इसके निमित्त अपने को (ददाश) समर्पण करता है वह (सुतुकः) उत्तम सन्तति वाला होजाता है ।

[१७७७] ^{२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २} अग्ने तमद्याश्वन्न स्तोमैः क्रतुन्न भद्रं हृदिस्पृशाम् ।

^{३ १ २ ३ १ २} ऋध्यामा त आहिः ॥ १ ॥

[१७७८] ^{२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २} अध्रा ह्यग्न क्रतोभद्रस्य दक्षस्य साधोः ।

^{३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} रथीऋतस्य वृहती वभूथ ॥ २ ॥

[१७७९] ^{३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} पामर्नो अर्कमवा नो अर्वाक्स्वाश्रेण ज्योतिः ।

^{२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २} अग्ने विश्वभिः सुमना अनीकैः ॥३॥५॥ ऋ० ४।१०।१-३॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४३४] पृ० २२० ।

(२) (अध हि) और क्योंकि हे अग्ने ! परमेश्वर ! आप (वृहतः) बड़े भारी (ऋतस्य) सत्य ज्ञान और इस महान् ब्रह्माण्ड के (रथीः) धारण करने वाले (वभूथ) हो और (क्रतोः) प्रज्ञानस्वरूप । भद्रस्य) भजन या सेवन करने योग्य कल्याणकारी (साधोः) अभीष्ट फलों के साधक यज्ञ के भी (रथी) प्रवर्तक हो ।

(३) हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप आप (स्वः न) सूर्य के समान (विश्वेभिः) समस्त (अनीकैः) सुखस्वरूप दिव्यगुण पदार्थों के सहित (सुमनाः) उत्तम चित्त होकर (नः) हमारे (अर्वाक्) समस्त (एभिः) इन (अर्कैः) अर्चनायोग्य तेजों से (भव) प्रकट होवो ।

इति प्रथमः खण्डः ।

[१७८०] अग्ने विवस्वद्रुपसश्चित्रं राधा अमर्त्य ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा उपवृधः ॥ १ ॥

[१६८१] जुष्टो हि दूता असि हव्यवाहनाऽग्नं रथारध्वराणाम् ।

२ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ ३ २ १ ३ १ २ ३ १ २
३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

सजूरश्वभ्यामुपसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत् ॥२॥

॥ ६ ॥ अ० १ । ४४ । १, २ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४०] पृ० १७।

(२) हे (अग्ने) परमात्मन् ! आप (अध्वराणां) सब यज्ञों के (रथीः) नेता और (जुष्टः) सब विद्वानों से सेवित (हव्यवानः) समस्त स्तुतियों के धारण करने हारे एवं समस्त जगत् के धारण करने हारे (दूतः) सर्वव्यापक या उपासित (असि) है । आप (अश्विभ्यां) प्राण और अपान के द्वारा (उपसा) ज्योतिष्मती विशोका प्रजा द्वारा (अस्मे) हमें (सुवीर्यं) उत्तम बल और (बृहत्ः) विशाल (श्रवः) ज्ञान (धेहि) धारण करावे ।

[१७८२] विधु दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलिता जगार ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७८३] शाकमना शाकां अहणः सुपर्ण आ यो महः शूरः सना-

२ २ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ २ २

दनीडः । यच्चिरुत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पाहमुत

३ १ २ २

जेतोत दाता ॥ २ ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१७८४] एभिर्देदे वृषाया पौस्यानि येभिरौजङ्घन्नदत्याय वज्री ।

१ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

ये कर्मणः क्रियमाणस्य मङ्ग ऋते कर्ममुदजायन्त देवाः

॥ ३ ॥ ७ ॥ अ० १० । १५ । ५-७ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [३२५] पृ० १६७ ।

(२) (यः) जो (शूरः) सर्वभ्ररक (सनाद्) सनातन, नित्य, (अनीडः) स्वतः सबका आश्रय होने से किसी अन्य पदार्थ का आश्रय न लेने हारा, सब का स्वयं मूलकारण, (अरुणः) दीप्तिमान् सब का प्रेरक, (सुपर्णः) उत्तम ज्ञानवान् सबका उत्तम पालक (शकमना) अपनी ही शक्ति से (शाकः) सर्वशक्तिमान्, परमात्मा (यत्) जो कुछ भी (चिकेत) स्वयं जानता और ऋषियों के हृदय में ज्ञान उत्पन्न करता है (तत्) वह सब (सत्यम् इत्) सत्य ही होता है (न मोघं) वह कभी व्यर्थ निष्प्रयोजन नहीं होता । वही उस (स्पार्ह) सब के अभिलाषा योग्य, (वत्) आवास योग्य सब भूमियों का (जेता) विजेता (उत) और (दाता) जीवों को सब ऐश्वर्य का दान करने हारा है ।

(३) परमात्मा (एभिः) इन मरुद्गण रूप शक्तियों से (वृष्ण्या) सुखों के वर्पाने वाले (पौस्त्यानि) नाना पौरुषयुक्त बलों को (ददे) अपने वश में कर रहा है (येभिः) जिन वेगवती शक्तियों से (वृत्रहत्याय) प्राणियों के उपद्रव शान्त करने के लिये, अथवा अज्ञान विद्वों का विनाश करने के लिये, (औत्तद्) सुखों, जलों और ज्ञानों की वर्पा करता है । और (ये देवाः) जो देव विद्वान्गण और दिव्य शक्तियां (मह्नः) बड़े भारी (क्रियमाणस्य) किये जाने योग्य (कर्मणः) जगत् प्रचालनरूप कर्म के (ऋते) तथ्य ज्ञान में विराजमान होकर (कर्मम्) कर्मबन्धन को (उद अजायन्त) पार करके मुक्त हो जाते हैं ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ ३
[१७८५] अस्ति सोमो अयं सुतः पिवन्त्यस्य मरुतः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ ३

उत स्वराजो अश्विना ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २
 [१७८६] पिवन्ति मित्रो अर्थमा तना पूतस्य वरुणः ।

३ २ ३ १ २

त्रिपधस्थस्य जावतः ॥ २ ॥

३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २

[१७८७] उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः ।

३ १ २ २ ३

प्रातर्होतेव मत्सति ॥ ३ ॥ ८ ॥ ऋ० ८ । ६४ । ४-६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१७४] पृ० ६५ ।

(२) (मित्रः) सूर्य के समान स्नेह करने हारा, सबको अपने २ कर्म में प्रवृत्त कराने हारा, (अर्थमा) सबका स्वामी, न्यायकारी (वरुणः) सब दुखों का निवारक, ये तीनों देव (जावतः) ज्ञान के उत्पादक, आनन्दजनक (त्रिपधस्थस्य) प्राण, अपान और समान, या इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना तीनों में विराजमान सोमरूप ब्रह्मानन्द का (पिवन्ति) पान करते हैं । मित्र, अर्थमा, और वरुण ये तीनों योगियों के तीन भेद हैं । १ सूर्य के समान प्रज्ञालोकवान् मित्र, भूतजय करने हारा इन्द्रिय-संविद् द्वारा स्थितिप्रज्ञ अर्थमा और विशाल आकाशकल्प समुद्र के समान शान्त, शुद्धचित्त सत्त्व का अनुभवी योगी वरुण कहाता है ।

(३) (प्रातः) प्रातःकाल के अवसर में (होता इव) जिस प्रकार सोमयाग करने वाला होता प्रसन्न हो जाता है उसी प्रकार (इन्द्रः) अध्यात्मयोगी का आत्मा (उतो) भी (नु) निश्चय से (अस्त्य) इस (गोमतः) इन्द्रियों के संवित् ज्ञानों से युक्त (सुतस्य) उत्पादित ब्रह्मरस को (जोषम्) सेवन कर लिये (आ मत्सति) खूब मग्न हो जाता है ।

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७८८] वरुणमहो असि सूर्य वडादित्य महो असि ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ १ २ १ २


महस्ते सतो महिमापनिष्टम सद्वा देव महो अस्मि ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१७८६] वट् सूर्य श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि ।
 ३ २ ३ १ २ ३ २ १ १ २ ३ २ ३ १ २
 मह्ना देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्
 ॥ २ ॥ ६ ॥ ऋ० ७ । ३१ । १७, १२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२७६] पृ० १४१ ।

(२) हे सूर्य ! सत्रके प्रेरक परमात्मन् ! आप (श्रवसा) ज्ञान और यश के द्वारा (वट्) सचमुच (महान्) सबसे बड़े (असि) हो । हे देव ! प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (सत्रा) सचमुच निश्रय से (महान् असि) सबसे बड़े हो । आप ही (देवानां) सब विद्वानों के (मह्ना) अपने महत्व या शक्ति से (असुर्यः) प्राणों को चलाने हारे, (पुरोहितः) साक्षात् पुरोहित के समान प्रवर्तक, उनको साक्षात् धारण करने हारे और साक्षीरूप द्रष्टा हो, आप ही वास्तव में (विभु) सर्वत्र विशेष रूप से व्यापक, (अदाभ्यम्) आविनाशी, नित्य (ज्योतिः) ज्योतिष्मान प्रकाशस्वरूप हैं ।

इति द्वितीयः खण्डः ।



१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१७९०] उप नो हरिभिः सुतं यादि मदानाम्पते ।

१ २ ३ १ २ ३ २
 उप नो हरिभिः सुतम् ॥ १ ॥

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१७९१] द्विता यो वृत्रहन्मो विद् इन्द्रः शतक्रतुः ।

१ २ ३ १ २ ३ २
 उप नो हरिभिः सुतम् ॥ २ ॥

१ २ २ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१७९२] त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमनामसि ।

१ २ ३ १ २ ३ २

उप नो हरिभिः सुतम् ॥ ३ ॥ १० ॥ ऋ० ८ । ६३ । ६१-६३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५०] पृ० ८४ ।

(२) (यः) जो (वृत्रहन्तमः) समस्त विघ्नों का विनाशक और (शतक्रतुः) सैकड़ों कर्मों का करने हारा है उसको (द्विता) दो रूपों में (विदे) मैं जानता हूँ । एक परमात्मा रूप से और दूसरा जीवात्मा रूप से । वह (नः सुतम्) हमारे उत्पन्न किये पदार्थों को (हरिभिः) अपने हरणकारी वायु आदि साधनों और आत्मपक्ष में इन्द्रियों द्वारा (उप) प्राप्त करें ।

(३) हे (वृत्रहन्) अज्ञान के विनाशक ! (एषां) इन (सोमानां) सोमों, समस्त जगत् के जीवों का (पाता) पालनकर्ता (त्वं) तू ही (असि) है । (नः) हमारे (सुतम्) योग साधनों से परिष्कृत आत्मा को (हरिभिः) ज्ञानों द्वारा (उप) प्राप्त होइये ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[१७६३] प्र वो महेमहे वृथ्रे भरध्वं प्रचेतसे प्रसुमर्ति कृणुध्वम् ।

१ २ ३ १ २ ३

विशः पूर्व्याः प्रचर चर्षणि प्राः ॥ १ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१७६४] उरुव्यचसे महिने सुवृक्लिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ २ ॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ १ २

[१७६५] इन्द्र वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्वै ।

१ २ ३ २ ३ १ २

हर्षश्रवाय वर्हया समापिन् ॥ ३ ॥ ११ ॥

ऋ० ७ । ३१ । १०-१२ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३२८] पृ० १६६ ।

(२) (विप्राः) विद्वान् ब्राह्मण लोग (उरुव्यचसे) सहान् ब्रह्माण्ड में व्यापक (महिने) बड़े सारी (इन्द्राय) परमात्मा की (सुवृ

क्रिम्) उत्तम स्तुतिरूप (ब्रह्म) वेद का (जनयन्त) ज्ञान करते हैं ।
(धाराः) वे विद्यावान्, ध्यानवान् पुरुष (तस्य) उसके (व्रतानि)
उपदेश किये नियमों को (न मिनान्ति) विनाश नहीं करते, उल्लंघन
नहीं करते ।

(३) (वाणीः) वेदवाणियों और (सत्रा) समस्त विश्व के (राजानं)
प्रकाशक स्वामी (अनुत्तमन्युं) आद्वितीय नित्य ज्ञानी, नित्य, सामर्थ्यवान्
(इन्द्रं) इन्द्र को (सहधै) सब पर दमन करने के लिये (दधिरे)
धारण करती हैं । अतः, हे नर (हर्यश्वाय) समस्त लोकों और जीवों
में व्यापक ईश्वर के किये (आपीन्) अपने समीप आप सब घन्धुओं
को (सम् वर्हय) उत्तम रीति से बढ़ा, उन्नत कर ।

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३}
[१७६६] यद्विन्द्र यावत्तस्त्वमेतायदहमीशीय ।

^{३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
स्तोतारामिद्धधिषे रदावसो न पापत्वाय संसिषम् ॥१॥

^{१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
[१७६७] शिक्नेयामिन्महयत दद्वेदिवे राय आ कुहचिद्विदे ।

^{२ ३ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २}
न हि त्वदन्यन्मवधवन्न आप्य वस्यो अस्ति पिता च न

॥ २ ॥ १२ ॥ अ० ७ । ३२ । १८, १६ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अचिकल सं० [३१०] पृ० १५८ ।

(२) परमेश्वर का संकल्प है कि (महयते) दानशालि या
मेरी स्तुति करने हारे (कुहचिद्विदे) कहीं भी हो वहां ही उसे
(दिवे दिवे) प्रतिदिन (रायः) धनों को (आ शिक्नेयम्) दान
दिया करता हूं । इस प्रकार की ईश्वर की दयादृष्टि होने से भक्त का भी
संकल्प होता है कि हे (मधवन्) ऐश्वर्यवान् ! (त्वदन्यत्) तेरे से दूसरा
कोई और व्यक्ति (नः) हमारे लिये (वस्यः) आवास देने हारा, (आप्यं)
प्राप्त करने योग्य, इष्टदेव, उत्तम वस्तु (नहि) नहीं है और तुझ से उत्तम
दूसरा (पिता च) पिता पालक भी (न) नहीं है ।

(मघवन्) ज्ञानाश्रय ! हे सर्वशक्तिमन् ! आप (अस्मत्) हमसे (आरे)
दूर (ज्याक्) कभी भी (मा कः) मत होवें ।
इति तृतीयः खण्डः ।

— 0 —

१ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[१८०१] प्रोष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूपमर्चत । अभीके चिदु
३ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ ३ १ २ ३ १ २
लोककृत्सङ्गे समत्सु वृत्रहा । अस्माकं बोधि चोदिता
२ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ १ ॥

२ ३ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
[१८०२] त्वं सिधूँ वासृजोऽधराचो अहन्नहिम् । अशत्रुरिन्द्र
३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३
जज्ञिषे विश्वं पुण्यसि वार्यम् । तं त्वा परिष्वजामहे
१ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २ ॥

२ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ १ २ ३
[१८०३] विषु विश्वा अरानयोऽर्यो न शन्त नो धियः । अस्तासि
१ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ १ २ ३ २ ३ ३ ३
शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति । या ते रातिर्ददिवसु
१ २ ३ १ २ ३ २ ३ ३ १ २

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ ३ ॥ १४ ॥

अ० ८० । १३३ । १-३ ॥

भा०--(१) (अस्मै इन्द्राय) इस ऐश्वर्यवान् प्रभु के (पुरो-रथम्) विश्व, ब्रह्माण्ड रूप रथ को पूर्ण करने हारे, या पालन करने वाले, या गति देने वाले (शूपम्) बल को (प्र सु अर्चत उ) यथार्थरूप से वर्णन करो । देखो, वह ईश्वर (अभीके) अत्यन्त समीप, चित्त में साक्षात् (चित् उ) ही (लोककृत्) सब का दर्शन करता है, सबको देखता है, या चित्त में सब के प्रकाश करता है । और (सङ्गे) संग हो जाने पर आत्मा को प्राप्त कर (समत्सु) इन्द्रियवृत्तियों में (वृत्रहा) तामस आवरण का नाश

कर देता है और हमारे भावों को जान जाता है (अस्माकं) हमें (बोधि) ज्ञान देता है और हमारे भावों को जान जाता है (धन्यकेषां) हमारे आभ्यन्तर तुच्छवृत्ति शत्रु, काम आदि के (धन्वसु) कमनों पर (अधि) चढ़े हुए (ज्याकाः) निर्बल चिल्ले भी (नभन्तां) टूट फूट जाते हैं ।

(२) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! तूने (सिन्धूः) सब नदियों को और शरीर की नादियों को (अधराचः) नीचे जाने हारी (अवासृजः) रचा है । और तू (आहिम्) न हटने वाले या आघात या पीड़ाकारी तामस आवरण, या मेघ को (अहन्) विनाश करता है । हे इन्द्र ! तू (अशत्रुः) शत्रुरहित सब का मित्र (जज्ञिषे) जाना जाता है । ऐसे ही (तं) उस सब के मित्र परमस्नेही (त्वा) आपको (परि स्वजामहे) हम आलिंगन करते हैं, अपना निरन्तर का सङ्गी बनाते हैं, अपनाते हैं, हृदय में धारण करते हैं ।

(३) हे इन्द्र ! (नः) हमारे (विश्वाः) समस्त (अर्थः) शत्रु रूप, हम पर चढ़ाई करने वाले (अरातयः) अदानशालि, उचित कर न देने हारे, (विश्वा) सब शत्रुगण (वि सु नशन्त) नाना प्रकार से खूब नाश को प्राप्त हों । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यः) जो (नः) हमें (जिवां सति) विनाश करना चाहता है उस (शत्रवे) शत्रु पर (वधं) अपने हननकारी बल को (अस्तामि) प्रयोग कर । और (या) जो (ते) तेरी (रतिः) दान और कृपा है वह हमें (वसु) धन आदि पदार्थों का (ददिः) दान करे । (अन्यकेषां ज्याका धन्वसु नभन्ताम्) और अन्य तुच्छ शत्रुओं के धनुषों की निर्बल डोरियाँ नष्ट हो जावें ।

उ २७ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २
[१८०४] रेवां इद्रेवतस्ताता स्यात्त्वावतो मघानः ।

१ २ ३ १ २

प्रेतु हरिवः सुतस्य ॥ १ ॥

[१८०५] उक्थ च न शस्यमानं नागो रायराचिकत ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २
१ २ ३ २ ३ १ २
न गायत्रं गीयमानम् ॥ २ ॥

[१८०६] मा न इन्द्र पीयत्नेव मा शर्द्धते परा दाः ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥३॥१५॥ अ० ८।२।१३—१५॥

भा०—(१) हे (हरिवः) गतिमान् समस्त लोकों के स्वामिन् अथवा किरणों और प्राणों के प्राण ! हे प्रभो ! लोक में (रेवतः) धनाढ्य पुरुष का (स्तोता) स्तुति करने द्वारा (रेवत्) धनवान् हो जाता है और ज्ञानी पुरुष का उपासक ज्ञानवान् (स्यात्) हो जाता है । फिर (त्वावतः) तुझ जैसे अनुपम (मघोनः) ज्ञानी और धनसम्पन्न (सुतस्थ) ऐश्वर्यवान्, अथवा ब्रह्मानन्दरस के उत्पादक प्रभु का तो (प्र इत् उ) फिर क्या कहना ! तेरा उपासक तो भारी धनी और ज्ञानी हो ही जायगा ।

(२) न्याख्या देखो अवि० सं० [२२५] पृ० ११६ ।

(३) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (नः) हमें (पीयत्नेव) हिंसक, दुष्ट पुरुष के हाथों में (मा परा दाः) मत डाल । और हमें (शर्द्धते) हमारा मान, भंग करने हारे हिंसक पुरुष के हाथों में (मा परादाः) मत डाल । तू (शचीभिः) अपने ज्ञानों और शक्तियों से ही हे (शचीवः) शक्तिमन् ! हमें (शिक्ष) शिक्षित कर, दण्डित कर, अथवा ज्ञान प्रदान कर ।

[१८०७] एन्द्रा याहि हरिभिरुप करवस्य सुष्टुतिम् ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसे । ॥ १ ॥

[१८०८] अत्रा वि नेभिरेपामुरां न धूनुते वृकः ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसे ॥ २ ॥

२ ३ २ ३ १ २ ३ २ २ १२ २२
[१८०६] आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमो घोषेण वक्तु ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ३ ॥ १६ ॥

ऋ० ८ । ३४ । १, २, २ ।

भा०—(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [३४८] पृ० १८० ।

(२) (वृकः) भेदिया (उरां न) जिस प्रकार भेद को (धुनुते) धुन देता है, गय से कंपित करता है उसी प्रकार (एषां) इन प्राणों का (नेमिः) नमन करने द्वारा वश करने द्वारा, आत्मा भी उस (उरां) चित्तिशक्ति को (विधुनुते) अपने बल से प्रचलित करता है । (दिवः) प्रकाशमान, प्रकाशस्वरूप, विश्व में रमण या क्रीड़ा करने हारे (शासतः) शासकरूप (अमुष्य) इस परमात्मा के (दिवः) ज्योतिर्मय ज्ञान को हे (दिवावसो) ज्योतिरूप प्रकाश में वास करने हारे जीवात्मन् ! तू (यय) प्राप्त हो ।

(३) हे प्रमो ! (इह) इस संसार में, इस जन्म में (सोमी) सोमरस का आस्वादन करने द्वारा आत्मज्ञानी (ग्रावा) विद्वान्, ज्ञानोपदेशक (त्वा) तेरी (वदन्) स्तुति करता हुआ (घोषेण) वेद ज्ञान के साथ ही (त्वा वक्तु) तुझे प्राप्त हो । हे (दिवावसो) आत्मन् ! (अमुष्य शासतः दिवः दिवं यय) आत्मक्रीड़ा, आत्मरति होकर उस शासन करने हारे परमात्मा के प्रकाशस्वरूप मोक्ष लोक को तू प्राप्त हो ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

[१८१०] पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१८११] ते सुदासो विपश्चितः शुक्ला वायुमस्तुत ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

[१८१२] अस्तुत्रं देववीतये वाजयन्तो रथाँ इव ॥ ३ ॥ १७ ॥


ऋ० ६ । ६७ । १६, १८, १७ ॥

भा०—(१) हे (सोन) ज्ञानैश्वर्यं सेयुक्त (मधुमत्तमः) अतिशय ज्ञान, सम्पन्न होकर (मन्दयन्) आनन्दमय होता हुआ योगिन् ! तू (इन्द्राय परमेश्वर को प्राप्त होने के लिये (पञ्चस्व) गतिकर ।

(२) (ते) वे (विपश्चितः) ज्ञानसम्पन्न, ज्ञानों का संग्रह करने हारे या ज्ञानरूप अग्नि का चयन करने हारे परमात्मदर्शी (शुक्रः) तेजस्वी, या शुक्ल कर्म करने हारे, (सुतासः) सिद्ध यांगी (वायुम्) सर्व प्रेरक प्रभु परमात्मा को (असृत्त) प्राप्त होते हैं ।

(३) सोमस्वरूप योगी गण (वाजयन्तः) संग्राम करने हारे विजेषी (रथा इव) रथों के समान स्वयं (वाजयन्तः) ज्ञानस्वरूप होकर (रथाः) केवल आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर (देववर्तिये) ईश्वर को प्राप्त होने के लिये (असृग्म) जा रहे हैं ।

इति चतुर्थः खण्डः ।



३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १२
[१८१३] अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सृत्तुं ।

२२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

सहसो जातवेदसं विप्रन्न जानवेदसम् ॥

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २

य ऊर्ध्वया स्वधरोदेवाच्या कृपा ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

घृतस्य विभ्राष्टिमनुशुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥१॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३

[१८१४] यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र

१ २ ३ १ २ ३ १ २

मन्मभिर्विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः ॥

१ २ ३ १ २ २ २ ३ २

परिजमानामिव द्यां होतारं चर्षणीनाम् ।

३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

शोचिष्केशं वृषणं यमिमां विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥२॥

२४ ३२ ३१२ ३१ २ ३ १ २ ३
 [१८१५] स हि पुरुचिदोजसां विरुक्मता दीधानो ।

१२ ३१ २ ३ १२ २४ ३२

भवति द्रुहन्तरः परशुर्न द्रुहन्तरः ॥

३२ ३२ ३१ ३ २ ३१ २ ३२ ३२

वीडुत्रिद्यस्य समृतौ श्रुवद्धनेव यत्स्थिरम् ।

३ १२ ३ १२ ३ २ ३ १२

निष्पहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥३॥१८॥

श्रु० १ । १२७ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [४६५] पृ० २३४ ।

(२) हे (विप्र) ज्ञानवान् ! अग्ने ! परमेश्वर ! हम (यजमानाः) देवोपासना करने हारे लोग (यजिष्ठं) सब उपासकों में से सबसे अधिक श्रेष्ठ (अंगिरसां) समस्त ज्ञानवान् आत्माओं से भी (ज्येष्ठं) श्रेष्ठ परमात्मरूप आपको (विप्रोभिः) विशेष रूप से आपके महत्त्व को दर्शाने हारे ज्ञानमय (मन्मभिः) विचारों, मन्त्रों से (त्वा) आपको (हुवेम) स्मरण करते हैं । हे (शुक्र) तेजःस्वरूप सबके प्रकाशक ! (परिज्मानं) सर्वव्यापक, (द्यां) तेजस्वरूप, (चर्पणीनां) समस्त मनुष्यों को (होतारं) कृपा का दान करने हारे (शोचिकेशं) कान्तिमान् सूर्यादि पिण्डों को चश करने हारे (वृषणं) सब सुखों के वर्षक (यं) जिस आपको (इमाः) ये समस्त (विशः) आप में आश्रय पाने हारे जीवगण (प्रावन्तु) प्राप्त होते हैं ।

(३) (सः हि) निश्चय से वह अग्नि (विरुक्मता) विशेष कान्ति से युक्त (आजसा) तेज से (पुरुचित्) अति अधिक (दीधानः) प्रकाशित होता हुआ (द्रुहन्तरः) वृत्तों को विनाश करने हारे (परशुः न) फरसे के समान (द्रुहन्तरः) द्रवणशील, विनाशी इस देह बन्धन को काटने द्वारा (भवति) होता है, (यसा) जिसको (सम् चतौ) सत्सङ्ग में साक्षात् प्राप्त कर लेने पर (वीडु) दृढ़ और (यत्) जो (स्थिरं)

स्थिर, स्थायी यह संसार या देहबन्धन (चित्) भी (वना इव) जंगल या जसों केसमान (श्रुवत्=स्रुवत्) छितरा जाता है। अग्नि के संयोग जिस प्रकार जंगल जल जाता या जल भाफ होकर विलीन होजाता है उसी प्रकार यह समस्त संसार भी जिस में प्रलय काल में विलीन होजाता है वह (निःसहमानः) समस्त संसार की सब विरोधिनी शक्तियों को अपने वश करता; हुआ (यमते) समस्त संसार की व्यवस्था करता है और उसी में क्रीड़ा करता है एवं (धन्वा सहा न) धनुर्धरं विजयी के समान (अयते) संसार के स्थान क्षेत्र में भी आता है और (न अयते) और इसके भीतर पाश में भी नहीं आता।

इति नवमस्य प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धप्रपाठकः*

अथ नवमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥

अपिः—१ अग्निः पावकः । २ सोभरिः काण्वः । ५, ६ अवत्सारः काश्यप
अन्ये च अपयो वृष्टलिङ्गाः* । ८ वत्सप्रीः । ९ गोषूक्तयश्वसक्तिनौ काण्वायनौ ।
१० त्रिशेरास्त्वाष्ट्रः सिधुद्वीपो वाम्बरीपः । ११ उलो वातायनः । १३ वेनः ।
३, ४, ७, १२ इति साम ॥ देवता—१, २, ८ अग्निः । ५, ६ विश्वे देवाः ।
९ इन्द्रः । १० अग्निः । ११ वायुः । १३ वेनः । ३, ४, ७, १२ इतिसाम ॥
छन्दः—१ विष्टारपङ्क्ति, प्रथमस्य, सतोवृहती उत्तरेपां त्रयाणां, उपरिष्ठाञ्ज्योतिः
गत उत्तरस्य, त्रिष्टुप् चरमस्य । २ प्रागाथम् काकुभम् । ५, ६, १३ त्रिष्टुप् ।
८-११ गायत्री । ३, ४, ७, १२ इतिसाम ॥ स्वरः—१ पञ्चमः प्रथमस्य, मध्यमः
उत्तरेपां त्रयाणां, धैवतः चरमस्य । २ मध्यमः । ५, ६, १३ धैवतः । ८-११
पङ्क्तः । ३, ४, ७, १२ इति साम ॥

*केपां चिन्मतेनात्र विंशाध्यायस्य, पञ्चमस्त्रण्डस्य च विरामः ।

- २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ ३ १ ०
 [१८१६] अंशं तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो ।
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ १ २ ३ १ २
 बृहद्भानो श्वसा वाजमुक्थ्यां देधासि दाणुपे क्वे ॥१॥
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
- [१८१७] पात्रकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना ।
 ३ २ २ १ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २
 पुत्रो मातरा विचरन्नुपात्राभि पूणाक्षि रोदसी उभे ॥२॥
 १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
- [१८१८] ऊर्जो नपाजातवेदः सुशस्त्रिभिर्मदस्य धीतिभिर्हितः ।
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 त्वे इपः सन्दधुर्भूरिर्वर्षसः श्वित्रांतयो वामजाताः ॥३॥
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
- [१८१९] इरज्यन्नग्ने प्रथमस्य जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य ।
 १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ १ २ २
 स दर्शतस्य वपुषो विराजति पूणाक्षि दर्शतं क्रतुम् ॥४॥
 ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २
- [१८२०] इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । रातिं
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
 वामस्य सुभगां महीमिपं दधासि सानसि रयिम् ॥५॥
 ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
- ८२१] ऋतावानं महिपं विश्वदर्शतमग्निं सुम्नाय दधिरे पुरो
 २ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 जनाः । श्रुत्कर्ण्य सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्या मानुषा
 ३ २
- युगा ॥ ६ ॥ १ ॥ क० १० । १४० । १-६ ॥

भा०—(१) हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप ! प्रकाशक ! परमात्मन् ! (विभा-
 वसो) अग्ने विशेष प्रकाश से सब को बसाने और सर्वत्र स्वयं बसनेहारे
 व्यापक परमात्मन् ! (तव) तेरा (श्रवः) कर्ण और (वयः) ज्ञान, बल
 (महि) महान् है और तेरी (अर्चयः) उवालायें मूर्ध अदि रूप में

*दृष्टिलिगा दया० भाष्ये पाठः १८१६—३. 'सन्दस्वधीतिभिः' ४. पूणाक्षिसान
 ति' इति श्रु० ।

(भ्राजन्ते) प्रकाशित हो रही हैं । हे (वृहद्भानो) सब प्रकाशों से महान् ! आप (उक्थ्यं) वेद द्वारा प्रतिपादनीय (वाजं) ज्ञान दो । हे (कवे) मेधाविन् ! तू (दाशुपे) आत्मसमर्पण करने हारे शिष्य को आचार्य के समान (दधासि) धारण करता है ।

(२) हे अग्ने ! तू (पावकवर्चाः) पवित्र करने हारे तेज से युक्त (शुक्रवर्चाः) शुक्ल, निर्मल कान्ति से सम्पन्न, (अनूनवर्चाः) सब से अधिक तेजस्वी होकर (भानुना) प्रकाशक तेज के सहित (उद्-इयर्षि) उदय होता है, हृदय में प्रकट होता है । जिस प्रकार (पुत्रः) पुत्र (मातरा) मातृस्वरूप या मां बाप दोनों के समीप (विचरन्) विचरता हुआ उनको पुनः पालता और पोषता है और जिस प्रकार यह सूर्य आकाश और पृथिवी दोनों के बीच विचरता हुआ (उभे) दोनों (रोदसी) लोकों को साक्षात् करता और पालन पोषण करता है उसी प्रकार तू भी समस्त लोकों को (उपावसि) स्वयं उन में व्यापक होकर रक्षा करता और (पृणसि) पालन करता है । इसी प्रकार देहगत जीवात्मा पर भी यह मन्त्र स्पष्ट है ।

(३) हे (ऊर्जो नपात्) बल को, सामार्थ्य को एवं ब्रह्मानन्दरस को कभी न परित्यक्त करने हारे ! हे (जातवेदः) सर्वज्ञ ! तू (सुशस्तिभिः) उत्तम स्तुतियों से और (धीतिभिः) वेदाध्ययन और अग्निहोत्रादि यज्ञाधानों से (मन्दस्व) प्रसन्न हो, अपना आनन्दमय स्वरूप प्रकट कर । (भूरिवर्चसः) नानारूप (चित्रोतयः) विचित्र या मनाहर बुद्धि वाले (वामजाताः) उत्तम प्रकृति के कुलीन, विद्वान् लोग भी (त्वे) तेरे निमित्त ही (इषः) नाना अन्न आदि हवियों को (संदधुः) अग्नि में ढालते हैं । या तेरे आश्रय नाना कामनाएं करते हैं ।

(४) हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! हे (अमर्त्य) अविनाशी परमात्मान् ! आप (जन्तुभिः) उत्पन्न होने हारे जन्तुओं द्वारा (राज्यम्) ऐश्वर्य

को बढ़ाते हुए (अस्मे) हमारे (रायः) धनों को (प्रथयस्व) बढ़ाओ ।
 (सः) वह आप (दर्शतस्व) दर्शनीय (वपुषः) अपने बीज बपन करने
 हारे, उत्पादक सामर्थ्य से (विराजसि) सब पर ईश्वर होकर विराजमान
 हैं । और आप (दर्शतं) दर्शनीय (ऋतुं) अपने बनाए हुए इस संसार
 को (पृणञ्चि) पालन पोषण करते हो ।

(५) (अध्वरस्य) इस महान् जगत्-मय यज्ञ के (इष्कार्त्तम्)
 प्रेरणा करने हारे, या पूर्णरूप से संचालन करने हारे (प्रचेतसः) उत्तम,
 ज्ञानवान् (महः) बड़े श्रेष्ठ, (राधसः) आराधनीय, या साधनयोध्य
 धन या ज्ञान को (क्षियन्तं) अपने वश करने हारे, उसके स्वामी और
 (वामस्य) प्राप्त करने योग्य उत्तम श्रेष्ठ पदार्थों के (रातिं) दाता की
 हम स्तुति करते हैं ! हे परमात्मन् ! आप (मही) बहुत बड़ी (सुभगां)
 उत्तम सौभाग्ययुक्त, शुभ (इषे) अन्न आदि सम्पदा को और (सानसि)
 परस्पर विभाग कर के भोगने योग्य अथवा प्रत्येक को पृथक २ प्राप्त
 (रयिम्) प्राण, देह आदि अध्यात्म-सम्पत्ति को (दधासि) धारते और
 प्रदान करते हो ।

(६) (जनाः) मनुष्य लोग (ऋतावानं) सत्यज्ञान से युक्त,
 (महिषं) बड़े सामर्थ्यवान्, (विश्वदर्शतम्) सबसे अधिक दर्शनीय, विश्व
 के दृष्टा एवं सब पदार्थों के प्रदर्शक विद्वान् (अग्निम्) अग्नि अर्थात् आचार्य के
 समान अग्रणी ज्ञानप्रकाशक परमेश्वर को अपने (पुरः) समक्ष साक्षिरूप से
 और मार्गदर्शक रूप से (सुम्नाय) सुख प्राप्त करने एवं प्रत्येक कार्य पर
 उत्तम रूप से मनन करने और स्वयं उसका उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के
 लिये (दधिरे) पुरोहित, आचार्य और गुरुरूप में रखते हैं । उसी प्रकार
 हे परमात्मन् ! (मानुषा) मननशील (युगा) नर नारियों के जोड़े
 (सप्रथस्तमं) सर्वत्र अति प्रासिद्ध, विख्यात (श्रुत्कर्णम्) श्रुतिरूप
 ऋणों से युक्त अथवा वेद के अनुसार समस्त जगत् के रचने हारे (गिरा)

उस वेदवाणी के अनुसार (दैव्यं) दिव्यगुणों से युक्त (त्वां) तुम्हको अपने सुख सम्पादन के लिये (पुरो दधिरे) सब कार्यों में साक्षी या आचार्य पुरोहित के समान स्थापन करते हैं ।

इति पञ्चमः खण्डः ।

—०—

[१८२२] प्र सो अग्ने तवातिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः।
^{१२ २२ ३ २, ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २}
^{२ ३ २ २ १२ २२}
 यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ १ ॥

[१८२३] तव द्रप्सा नीलवान्वाश ऋत्विग्य इन्धानः सिष्णवा-
^{१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १}
^{२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ २२}
 ददे । त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुपु राजसि
 ॥ २ ॥ २ ॥ अ० ८ । १६ । ३०, ३१ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१०८] पृ० ५८ ।

(२) हे (सिष्णो) आनन्दरस से हृदय के सेचन में समर्थ ! धर्म मेघरूप आत्मन् ! (तव) तेरा (द्रप्सः) द्रवणशाल व्यापक रस (नीलवान्) आश्रयदाता, (वाशः) कमनीयरूप, (ऋत्विग्यः) प्राणों में रहने वाला (इन्धानः) प्रदीप्त होकर (आदेद) मन से ग्रहण किया जाता एवं सबको अपने वश करता है, जाना जाता है । (त्वं) तू (महीनां) विशाल या पूजनीय (उपसां) ज्ञानोदय से युक्त विशोका ज्योतिष्मती प्रज्ञाओं का (प्रियः) प्रिय (असि) है और (क्षपः) सर्व दुःखों के नाश करने वाली, रात्रि के समान अन्तः सात्विक निद्रा से सम्बद्ध (वस्तुपु) तत्वों में (राजसि) प्रकाशमान, जागृत रहता है ।

[१८२४] तमोपधीदधिरे गर्भमृत्विद्यं तमापो अग्नि जनयन्त
^{१२ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २}
^{३ १ २ १२ २२ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २}
 मानरः । तमित्समानं वनिनश्च वीरुधोन्तवतीश्च सुवते
^{३ १ २}
 च विश्वहा ॥ ३ ॥ ३ ॥ अ० १० । ६१ । ६ ॥

भा०—(१) (तं) उस (ऋत्विग्यं) ऋतुओं में सूर्य के तेजों रूप से प्रकट होने हारे अग्नि को (ओपधीः) ओपधिगण अपने भीतररसरूप से (दधिरे) धारण करती हैं (तं) उसी (अग्नि) अग्नि को (मातरः) सब के मूल-कारण (आपः) आपः=जल भी (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं और (तम् इन्) उसको ही (समानं) समान रूप से (वनिनः) वन के वड़े २ वृक्ष भी धारण करते और उत्पन्न करते हैं और उसी अग्नि को (अन्तर्वतीः) गर्भ धारण करने वाली पुष्पिणी (च) और (धीरुधः) विशेष रूप से रोहण करने वाली लताएं (विश्वहा) सर्वदा उत्पन्न करती हैं । उसी प्रकार वनस्पति और लताओं के दृष्टान्त से आत्मा की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं—(मातरः) माताएं, (आपः) प्राप्त होने योग्य पतियों से संगत (ओपधीः) तेज=वीर्य को धारण करने वाली (तं) उस आत्मरूप अग्नि को (ऋत्विग्यं) ऋतुकाल में होने वाले (गर्भं दधिरे) गर्भरूप से धारण करती हैं (तं) उसी को (जनयन्त) बालक रूप से उत्पन्न करती हैं । (च) और (वनिनः) नर वृक्षों के समान पुरुष और (धीरुधः) लताओं के समान (अन्तर्वतीः च) गर्भिणी स्त्रियां (विश्वहा) सदा (समानं) समान भाव से (सुवते) उसको प्रसन्न करती हैं ।

फलतः वृक्ष वनस्पतियों में भी वही जीव है । एवं जो जल वृष्टिरूप से पृथिवी पर आकर वनस्पति रूप से उत्पन्न होता है और खाये जाकर वही वीर्य बनकर पुनः पुरुषों द्वारा वही गर्भों में निषिक्त होता है और वही गर्भ में जमकर पुनः पुत्ररूप से उत्पन्न होता है, यह सूक्ष्म रहस्य उपनिषदों में पञ्चाहुति प्रकरणों से दर्शाया गया है ।

[१८२५] ^{३ ३२ २२} अग्निरिन्द्राय पवते ^{३ २ ३ ३२ २२} दिवि शुक्रो विराजति ।

^{१ २ ३ ३ २} महिर्धीत्र विजायते ॥ ४ ॥

भा०—(१) (अग्निः) वह आत्मा (इन्द्राय) परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (पवते) विप्रेरु से निर्मल होकर उसकी ओर गति करता

है । (शुक्रः) शुक्लकर्मा, निर्मल कान्तिमान् होकर (दिवि) मोक्ष में (विराजति) प्रकाशित होता है । (महिषी इव) जिस प्रकार (महिषी) राजमहिषी, महारानी नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रजा के सम्मुख उपस्थित होती है उसी प्रकार वही आत्मा (विजायते) नाना रूपों में प्रकट होता अथवा (महिषी इव) दुग्धरस देने हारी भैस के समान वही आत्मा आनन्दरस की धार वर्षण करने हारी कामधेनु बनकर चितिशक्ति के रूप में ऋतन्भरा रूप से प्रकट होती है ।

अथवा अग्नि=परमात्मा इस इन्द्र=आत्मा के लिये प्रकट होता है वही मोक्ष में शुद्ध रूप से विरानमान है । वही उसको रस देने हारी कामधेनु के समान नाना पदार्थ प्रदान करता है ।

[१८२६] यो जागार तन्मृचः कामयन्ते यो जागार तसु सामानि यान्ति । यो जागार तमयं साम आह तत्राहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १ ॥ ५ ॥ ऋ० ६ । ४४ । १४ ॥

भा०—(१) जो विद्वान् ब्रह्मवेत्ता (जागार) अविद्या की नींद से जाग जाता है (तं) उसको (ऋचः) ऋग्वेद की ऋचाएं और उन के समान ज्ञानप्रद जन भी (कामयन्ते) चाहते हैं । और (यः) जो (जागार) अविद्या निद्रा से जग जाता है (तम् उ) उसको ही (सामानि) साम के उपासनापरक मन्त्र और उपासना करने वाले भक्त लोग भी (यान्ति) प्राप्त होते हैं (यः) जो (जागार) ज्ञानमार्ग में जागृत सावधान रहता है (तम्) उसको ही (अयं) यह (सोमः) सोमरूप, सब का प्रेरक जगदीश्वर, या संसार का ऐश्वर्य भी (आह) कहता है कि (तव सख्ये) तेरी मित्रता में ही (अहम्) मैं भी (न्योकाः) निवास करता हूं । इसी ऋचा से अगली ऋचा में इस जागरणशील निराक्स तृप्स्वी को 'अग्नि' नाम से बतलाया है ।

[१७२७] ^{३ २ २ ३ १२ २२} अग्निर्जागार तमृचः ^{३ १ २ ३ २ ३ १} कामयन्तेऽग्निर्जागार तमु सा-
^२ मानि यान्ति । ^{३ १ २ ३ २ ३ १२ २२ ३ २ १} अग्निर्जागार तमयं साम आह तवाहमस्मि
^३ सख्यं न्याकाः ॥ १ ॥ ६ ॥

भा०—(१) पूर्व ऋचा के (यः) 'जो' की जिज्ञासा में ही यह उत्तर ऋचा कही जाती है । इससे विद्वान् गिराजस आत्मा के साथ २ परमात्मा का भी वर्णन इस रूप से होता है । अर्थात्—अग्नि=परमात्मा ही सदा जागता है, ऋग्वेद की ऋचाएं उसको चाहती हैं, उसी का सामगण गान करते हैं और यजुः स्थानाय सोम अथवा कर्मप्रधान यह जीव भी उस परमेश्वर को ही कहता है कि हे भगवन्! मैं आपके मित्रभाव में सदा आश्रय प्राप्त करूँ ।

[१८२८] ^{१ ० ३ १ २ ३ २ ३ १ २} नमः सखिभ्यः पूर्वसद्भ्यः नमः साकंनिपेभ्यः ।
^{३ १२ २२ ३ १ २}

युञ्ज वाचं शतपदीम् ॥ १ ॥

[१८२९] ^{३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} युञ्ज वाचं शतपदीं गाय सहस्रवर्तनि ।

^{३ १२ २२ ३ १ २} गायत्रं त्रैष्टुभं जगत् ॥ २ ॥

[१८३०] ^{३ १२ २२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} गायत्रं त्रैष्टुभं जगद्विश्वा रूपाणि सम्भृता ।

^{३ १२ २२ ३ १ २} देवा ओक्तासि चक्रिरे ॥ ३ ॥ ७ ॥ ऋग्वेदे नास्ति ॥

भा०—(१) (पूर्वसद्भ्यः) पूर्णब्रह्म, मोक्षधाम में विराजमान (सखिभ्यः) मेरे आत्मा के समान आख्यान वाले मुक्तात्मार्यों को (नमः) मैं नमस्कार करता हूँ । और (साकंनिपेभ्यः) साथ ही विराजमान विद्वान् मित्रों के लिये भी (नमः) आदरपूर्वक नमस्कार है । मैं आप लोगों के समान ही (शतपदीं) सैकड़ों ज्ञानों से पूर्ण (वाचं) वेदवाणी का (युञ्जे) समाहित चित्त से विचार करता हूँ ।

(२) (शतपदीं) सैकड़ों ज्ञानों से युक्त (वाचं) वाणी का (युञ्जे) योगसमाधि द्वारा मनन करता हूँ और (सहस्रवर्तनि)

सदृशों मार्ग से युक्त सहस्रवर्त्मा सामवेद जिसमें (गायत्रं) गायत्र (त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभ और (जगत्) जगत् साम विशेष है उसका (गाये) गान करता हूँ ।

(३) (गायत्रं, त्रैष्टुभं, जगत्) गायत्र, त्रैष्टुभ और जगत् इन तीन मुख्य सामों के ही (विश्वा रूपाणि) नाना प्रकार के रूप (स-भृता) बनाये गये हैं । और उनमें ही (देवाः) विद्वान् लोग (ओकासि^१) संहिताओं का या ज्ञानवाक्यों का (चक्रिरे) साक्षात् कर प्रकाश करते हैं ।

[१८३१] ^{३ २३ ३ १ ३ २३ ३ २ ३} अग्निज्योतिरज्योतिरग्निरिन्द्रा ज्योतिरज्योतिरिन्द्रः ।

^{२ ३ २ ३ २ ३ १ २} सूर्यो ज्योतिरज्योतिः सूर्यः ॥ १ ॥

[१८३२] ^{१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २} पुनरूर्जानि वर्तस्व पुनरग्न इषायुपा ।

^{१ २ ३ १ २} पुनर्गः पाह्निहसः ॥ २ ॥

[१८३३] ^{३ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} सह रय्यानि वत्तम्वाग्नि पिन्वस्व धारया ।

^{३ १ २ ३ २ ३ १ २} विश्वप्स्या विश्वत्स्परि ॥ ३ ॥ ८ ॥

ऋग्वेदे नास्ति । आथा यजु० ३ । ६ । द्वितीया यजुः० १२ । ४० ॥

तृतीया यजुः० १२ । ४१ ॥

भा०—(१) (अग्निः) अग्नि (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप है और (ज्योतिः) ज्योतिस्वरूप ही (अग्निः) अग्नि है । (इन्द्रः) इन्द्र भी (ज्योतिः) ज्योति स्वरूप है और (ज्योतिः) ज्योतिर्मय पदार्थ ही (इन्द्रः) इन्द्र है । (सूर्यः) सव का प्रेरक सूर्य (ज्योतिः) ज्योतिर्मय है ।

१८३०—१. ओकासि—वाहुलकादवन्तेरौणादिकः कक् (उणा० ३ । ४१)

ओकः—राशिः स्थानं वा । अथवा वचेः सार्वधातुभ्योऽस्तुन (उणा०

४ । २१६) उच्यते इत्योकः ।

१८३१—१. "अग्निज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिरज्योतिः सूर्यः स्वाहा"

इति याजुपः पाठः । मध्यमः पाठो यजुर्मन्त्रे नास्ति ।

(ज्योतिः) ज्योतिर्मय पदार्थ ही (सूर्यः) सूर्य है । फलतः ज्योतिर्मय होने से ही अग्नि, इन्द्र और सूर्य तीनों नाम एक पदार्थ के हैं । वह समानरूप से तीन नाम एक पदार्थ के और इनका चौथा पर्याय ज्योति है । ये चारों नाम मुख्यता से इंद्रवर के और गौणदृष्टि से अग्नियों के हैं ।

(२) हे अग्ने परमात्मन् ! आप (ऊर्जा) रसस्वरूप आनन्दधन रूप में और (इपा) ज्ञानरूप में और (आयुपा) जावनरूप से (पुनः पुनः) बार बार हमें (नि वत्तस्व) प्रकट हों । अर्थात् प्रत्येक समाहित दशा में एवं प्रतिजन्म में आपके सत् चित्, और आनन्द तांनों रूपों के हमें दर्शन हों ।

(३) हे (अग्ने) परमात्मन् ! (रय्या) अपने रमणीय, मनोहर मोहनीय रूप से हमें (नि वत्तस्व) पुनः प्राप्त हो । हे अग्ने ! तू हमें (विश्वतः परि) सबसे अधिक, एवं सबपर शासन करने हारे (विश्वप्स्या) समस्त संसार को अपने भीतर लेलेने हारी सर्वव्यापिनी (धारया) अपनी रसधारा से (पिन्वस्व) तृप्त कर ।

इति षष्ठः खण्डः ।

[१८३४] ^{१ २ ३ २ ३ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ २} यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत् ।

^{३ २ ३ १ २} स्नोता मे गोमखा स्यात् ॥ १ ॥

[१८३५] ^{१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २} शिक्षयमस्मै दित्सयं शचीपते मनीषिणे ।

^{२ ३ १ २ २ ३ २} यद्दहं गोपातः स्याम् ॥ २ ॥

[१८३६] ^{३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २} धेनुष्ट इन्द्र सूनुता यजमानाय सुन्वते ।

^{१ २ २ ३ १ २} गामश्वं पिप्युपी दुहे ॥ ३ ॥ ६ ॥ अ० ८ । १४ । १—३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१२२] पृ० ।

(२) (यद्) यदि (अहं) मैं (गोपतिः) वाणी, भूमि और मौश्रों का पति=पालक (स्याम्) होऊं तो हे (शचीपते) शक्तिमन् ईश्वर ! आत्मा और ब्रह्मविद्या के स्वामिन् ! मैं (अस्यै) इस (मनीषिणे) मनस्वी, जितेन्द्रिय बुद्धिमान् पुरुष को (दित्सेयं) दान कर दूं और (शिष्येय) विद्या की शिक्षा दूं ।

(३) हे (इन्द्र) परमात्मन् ! (ते) तेरी (सूनृता) उत्तम सत्य तत्वों के दर्शाने हारी, सत्यमयी (धेनुः) ज्ञानरस का पान कराने हारी वेदवाणी (सुन्वने) ज्ञान सम्पादन करने वाले (यजमानाय) स्वाध्याय यज्ञ के करने हारे अध्वेता को (पिष्युषी) पुष्ट करती हुई (गाम्) वाणी और (अश्वं , आत्मिक सामर्थ्य युक्त आत्मा का भी बल (दुहे) प्रदान करती है :

[१८३७] आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।

महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥

[१८३८] यो वः शिवनमो रसस्तस्य भाजयतेह नः ।

उशनीरव मानरः ॥ २ ॥

[१८३९] तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।

आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥ १० ॥

अ० १०१ । ६ । १-३ ॥ अथर्व० १ । १ । १-३ ॥

भा०—(१) हे (आपः) प्राप्त होने हारी ज्ञान जलधाराओं ! आप ही (मयोभुवः) शान्ति और कल्याण के उत्पन्न करने हारी (स्थ) हो । ज्ञानजल (नः) हमें (ऊर्जे) बल या आनन्द-रस प्राप्त करने के लिये (दधातन) अपने में धारण करें । और वे ही हमें (महे) बड़े (रणाय) रमणीय, दर्शनाय इष्टदेव के (चक्षसे) दर्शन प्राप्त करने के लिये (दधातन) समर्थ और पुष्ट करें ।

(२) हे (आपः) प्राप्तव्य योगभूमियो ! (यः) जो (वः) आप का (शिवतमः) अति कल्याणकारी, शान्तिदायक, सर्वोत्तम (रसः) आनन्दरस है (तस्य) उसको (इह) इस लोक में (नः) हमें (भाजयत) प्राप्त कराओ । आप साक्षात् (उशतीः) पुत्रों के प्रति उनको पुष्टि करने की लालसा से भरी (मातरः) माताओं के समान हम सुमुद्युष्टों को (मातरः) ज्ञान देने हारी हो ।

(३) हे (आपः) प्राण्यतम योगभूमियो ! (तत्त्वा) उस रस के प्राप्त करने के लिये ही (वः) आपके प्रति हम (अरं) घृच्छी प्रकार (गमाम) प्राप्त हों । (यस्य) जिसके (क्षयाय) ऐश्वर्य के लिये आप (जिन्वथ) हमें प्रेरित करते हो । (नः) और जिसके लिये हमें (जनयथ) उत्पन्न करती हो, उसके लिये समर्थ भी होती हो ।

उन मन्त्रों में आपः जल हैं । यह वे जल हैं जो आत्मा नदी में बहते हैं । जिसका वर्णन व्यासदेव ने किया है—

“आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलतटा दयोर्भिः” ॥

अथवा जिसमें वह कर भक्त कहा करते हैंः—

“ओषधं जान्हवीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः ।”

[१८४०] वान आ वातु भेषजं शम्भु मयाभु ना हृद्दे ।

प्र न आयुषि नारिषत् ॥ १ ॥

[१८४१] उत वात पितासि न उन आतोत नः सखा ।

स नो जीवातवे कृधि ॥ २ ॥

१८४०—ऋषिदेवता च नान्यत्र संहितासु लभ्यते । अतस्तस्योत्प्लेदस्तु जीवानन्दमुद्रापितसायणभाष्यमाश्रित्यैव क्षेयः । अगमेरमुद्रितसंहितायां केशलं 'इति साम' इतिमात्रं प्रदर्शितम् ।

[१८४२] यद्दो वात ते गृहेऽऽमृतनिहित गुहा ।

तस्य नो धेहि जीवसे ॥३॥११॥ ऋ० १० । १८६ । १-३ ॥

भा०—(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१८४] पृ० ६६ ।

(२) हे वात ! सर्वव्यापक परमात्मन् ! आप (नः) हमारे (पिता असि) प्राणवायु के समान साक्षात् पालक हैं, (उत आता) और प्राण वायु के समान भरण पोषण करने वाले और (नः सखा) हमारे आत्मा के समान हमारे प्रेमी मित्र हैं । (सः) वह आप (नः) हमें (जीवातवे) जीवनमय यज्ञ के लिये सदा समर्थ (कृधि) करो ।

(३) हे (वात) प्राणों के प्राण परमात्मन् ! (यत्) जो (अदः) वह कभी न भूलने योग्य (अमृतं) अमृतरस, परमज्ञान (ते) तेरे (गृहे) शरण में (गुहा) हृदयरूप गुहा में (निहितं) गुप्तरूप से रक्खा है भगवन् ! (तस्य) उसको (नः जीवसे) हमारे जीवन के निमित्त (धेहि) प्रदान करो ।

[१८४३] अभि वाजी विश्वरूपो जानित्र हिरण्यं विभ्रदकं सु-
पणः । सूर्यस्य भानुमृतुथा वसानः परि स्वर्थं भेधमृजो
जजान ॥ १ ॥

[१८४४] अप्सु रेतः शिथ्रिये विश्वरूपं तजः पृथग्यामधि यत्नं
वभूव । अन्नरिद्धे स्वभ्मदिमानं मिमानः कानिक्कान्ति
वृणो अश्वस्य रतः ॥ १ ॥

[१८४५] अथ सहस्रा परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भानुं यज्ञा दा-
धाय । सहस्रदाः शतदा भूरिदावा धर्ता दिवा भुवनस्य
विश्र्पातः ॥३॥१२॥ ऋग्वेदे नास्ति । अथर्वणि यजुषि च नो लभ्यते ॥

भा०—(१) (विश्वरूपः) नाना प्रकार के रूपों को धारण करने हारा जीवात्मा (वाजी) ज्ञानवान् और बलवान् होकर (सुपर्णः) उत्तम प्रज्ञान और पालन करने के सामर्थ्य से सम्पन्न, या उत्तम मार्गगामी (ऋज्रः) कर्माशयों को परिपाक करके (हिरण्ययं) तेजःसम्पन्न (जनित्रम्) अपने मूलभूत (अत्कं) आत्मस्वरूप को (विभ्रत्) परिपुष्ट करता हुआ (ऋतुथा) प्राणों के बलपर अथवा नियत काल के अनुसार स्वयं (सूर्यस्य) आदित्य के (भानुं) कान्ति और तेज को (वसानः) धारण करता हुआ (स्वयं) आप से आप (मेधं) उस पवित्र परमपुरुष को (परिजजान) ज्ञान कर लेता है, प्राप्त होजाता है ।

(२) (विश्वरूपं तेजः) नाना प्रकार के नर, तिर्यक् आदि रूप धारण करने हारे जीवात्मारूप ज्योति ने (अप्सु) जलों में (रेतः) वीर्य रूप होकर (शिश्रिये) आश्रय प्राप्त किया, (यत्) पुनः उसके बाद वह (पृथिव्याम्) पृथिवी में (अथि सम्भ्रभूव) जीवरूप से उत्पन्न हुआ उसके बाद वह (स्वं) अपने (माहिमानं) सामर्थ्य को (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष में भी (मिमानः) व्यापारित करता हुआ अर्थात् पत्नी या सूर्य रूप में प्रकट होकर (वृष्णः) उस वीर्यसंक्रा सत्र के पिता (अश्वस्य) परमात्मा के (रेतः) वीर्य की (कनिक्रान्ति) मदिमा का वर्णन करता है ।

(३) वह विश्वरूप अग्नि (यज्ञः) आत्मारूप (दिवः) स्वर्ग का (धर्ता) धारक और (भुवनेस्य) इस लोक की (विशपतिः) समस्त देहधारी प्रजाओं का परिपालक, (सहस्रदाः) सहस्रों पदार्थों का दाता (शतदाः) सैकड़ों पदार्थों का दाता और (भूरिदावा) हरेक वस्तु की बहुतसी मात्रा का दाता, अथवा बहुत बार देने वाला, (सहस्रा) हजारों (युक्ता) देहों को (वसानः) धारण करता हुआ (सूर्यस्य) सूर्य के (भानुं) तेज को भी (दाधार) धारण करता है ।

यह समष्टि रूप से जीव शक्ति का वर्णन किया है जिसका संक्षेप से वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद् में इस रूप से किया है ।

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव से चोपभोक्ता ।
 स विश्वरूपत्रिगुणस्त्रिबर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥
 अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः ।
 बुद्धेर्गुणोनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः ॥
 संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैर्ग्रासाम्बुवृष्ट्यात्माविवृद्धिजन्म ।
 कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते ॥
 स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्वृणोति ।
 क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपराऽपि दृष्टः ॥
 अनाद्यनन्तं कालिलस्य मध्ये विश्वस्य क्षणरमेनकरूपम् ।
 विश्वस्यैकं परिवोष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥

[श्वेता० अ० ५]

[१८४६] ^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०} नाकं सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्ता अभ्यचक्षन्
^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०} त्वा । हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य यानौ शकुने
^{३ २ ३} भुरगयुम् ॥ १ ॥

[१८४७] ^{३ १ २ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०} ऊर्ध्वो गन्धर्वा अग्नि नाकं अस्थात्पत्यङ्गचित्रा विभ्र-
^{३ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०} दस्यायुधानि । वसानो अत्कं सुरभिन्दशे कं स्वाश्री
^{२ २ ३ १ ३} नाम जनत प्रियाणि ॥ २ ॥

[१८४८] ^{३ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०} द्रक्सः समुद्रमभि यज्जिगानि षश्यन् गृध्रम्य चक्षसा
^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०} विधर्मन् । भानुः शुक्रण शाचिपा चक्षानस्तृतीय चक्र
^{१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०} रजसि प्रयाणि ॥ ३ ॥ १३ ॥ अ० १० । १२३ । ६-८ ॥

भा०—(१) हे (वेन) कर्म सन्तान उत्पन्न करने हारे आत्मन् ! कान्ति-
 मन् ! दृष्टः (त्वा) तुभको (यद्) जब (हृदा) हृदय से, मन से (वेनन्तः)
 कामना करते हुवे विद्वान् लोग (अभि अचक्षत) साक्षात् करते हैं तब वे

(हिरण्यपक्षं) ज्योतिःस्वरूप, (वरुणस्य) स्वसे वरने योग्य, दुखों के निवारक परमात्मा के (दूतं) पास गमन करने हारे और (भुरग्युम्) अपने सामर्थ्यों को धारण करने वाले (शकुनम्) जाग्रिमान् तुभ्य को उस चमय (यमस्य) समस्त संसार के नियामक जगदीश्वर के (नाके) दुःखरहित (योनौ) आश्रयस्थान मोक्षपद में (उप पतन्तं) विचरण करते हुए (मुपर्षा) उत्तम ज्ञान और कर्म रूप पक्षों के धारक पक्षी के समान (अभ्यचक्षत) देखते हैं।

(२) (गन्धर्वः) गौ=किरणों के धारण करने हारे सूर्य के समान अपनी इन्द्रियों का धारण करने वाला वह वेन=मेधावी आत्मा प्रत्यक्ष रूप से (चित्रा) विचित्र दर्शनीय (आयुधानि) यमनियमादि साधनाओं को (विश्रत्) धारण करता हुआ (कं) ध्यानन्दमय, सुख रूप (स्वानः) सूर्य के समान तेजोमय (नाम) परम रूप को (दृशे) देखने के लिये (अधिनोक) मोक्ष मार्ग में (अस्थात्) स्थिति प्राप्त करता है और (प्रियाणि) अपने प्रिय यथेष्ट कामनाओं को (जनयत) उत्पन्न करता है, यथेष्ट विचरता है।

(३) वह ज्ञानी आत्मा (यत्) जब (द्रप्सः) स्वयं बहने हारे नद के समान गति करता हुआ (समुद्रम्) उस आनन्द-रस के अगाध समुद्र के समान गंभीर परम जगदीश्वर को (जिगति) प्राप्त होता है या (विधर्मन्) अपने विशेष धारण करने हारे भगवान् की दया में स्थित होकर (गृध्रस्य) इसकी अकांक्षा करने हारे याचक के समान मोक्षा भिलाषी की (चक्षसा) दृष्टि से (पश्यन्) अपने स्वामी को देखता है तब वह स्वयं (भानुः) सूर्य के समान (शुक्रेण) शुद्ध (शोचिषा) तेज से (चक्षानः) देखा होना हुआ (तृतीये) तारण करने हारे, परम, सर्वोच्छ्रित, (रजसि) प्रकाशमान पद में (प्रियाणि) अपने प्रिय मनोरथों को (चक्रं) पूर्ण करता है। इति तप्तमः खण्डः ।

इति विंशोऽध्यायः समाप्तः ॥

इति नवमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽध्यायः ।

अथैकविंशोऽध्यायः

अथ नवमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः ॥

ऋषिः—१—४ अप्रतिरथ ऐन्द्रः । ५ अप्रतिरथ ऐन्द्रः प्रथमयोः, पायु-
र्भारद्वाजः चरमस्य । ६ अप्रतिरथः पायुर्भारद्वाजः प्रजापतिश्च । ७ शान्तो भारद्वाजः
प्रथमयोः । ८ पायुर्भारद्वाजः प्रथमस्य, तृतीयस्य च । ९ जय ऐन्द्रः प्रथमस्य, गो-
तमो राहूगण उत्तरयोः ॥ देवता—१, ३, ४ आधोरिन्द्रः चरमस्यमरुतः । इन्द्रः ।
बृहस्पतिः प्रथमस्य, इन्द्र उत्तरयोः ५ अप्वा प्रथमस्य, इन्द्रो मरुतो वा द्वितीयस्य
इपवः चरमस्य । ६, ८ लिंगोक्ता संग्रामाशिषः । ७ इन्द्रः प्रथमयोः । ९ इन्द्रः
प्रथमस्य, विश्वेदेवा उत्तरयोः ॥ छन्दः—१-४, ६ त्रिष्टुप् । ५, ८ त्रिष्टुप् प्रथमस्य
अनुष्टुप् उत्तरयोः । ६, ७ षड्भक्तिः चरमस्य, अनुष्टुप् द्वयोः ॥ स्वरः—१—४, ६
धैवतः । ५, ८ धैवतः प्रथमस्य, गान्धारः उत्तरयोः । ६, ७ पञ्चमः चरमस्य,
गान्धारो द्वयोः ॥

[१८४६] आशुः शिशाना वृषभा न भीमा घनाघनः क्षोभणश्च
पृष्णीनाम् । सङ्क्रन्दनाऽनिभिष एकवारः शत सेना
अजयत्साकभिन्द्रः ॥ १ ॥

[१८५०] सङ्क्रन्दनेनानिभिषण जिष्णुना युत्कारण दुष्प्रवनेन
धृष्णुना । तदिन्द्रण जयत तत्सहध्वं युधो नर इपुह-
स्तेन वृष्णा ॥ २ ॥

[१८५१] स इपुहस्तैः स निपाङ्गिभर्वशी सं क्षाया स युध इन्द्रो
गणान । सं सृष्टजित्सोमपा वाहुशर्धुऽग्नेप्रधन्वा प्रति
हिताभिरस्ता ॥ ३ ॥ १ ॥ अ० १० । १०६ । १—३ ॥

भा०—(१) (इन्द्रः) ऐश्वर्यशील इन्द्र राजा जिस प्रकार (शिशानः) तीक्ष्णमति, (शीशुः) शीघ्रगामी, (वृषभः न भीमः) वृषभ के समान शक्ति भयंकर (घनाघनः) शत्रुओं को बार २ मारने वाला, (चर्पणीनां) मनुष्यों और प्रजाओं को (क्षोभणः) विचुञ्च करने कंपा देने हारा, (संक्रन्दनः) शत्रुओं के सुलाने वाला या उनको संग्राम के लिये बुलाने वाला, (अनिमिपः) आलस्यरहित (एकवीरः) एकमात्र वीर होकर भी (साकं) एक साथ ही (शतं) सैंकड़ों (सेनाः) सेनाएं (अजयत्) विजय कर लेता है उसी प्रकार यह इन्द्ररूप आत्मा (आशुः) व्यापक (शिशानः) अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म २ तत्वों में भी जाने के लिये तीक्ष्णमति (वृषभः न भीमः) जिस प्रकार बैल अपने दांनों सींगों से भय पैदा करता है उसी प्रकार तप और ज्ञान से सबके हृदय में आतङ्क वैठाने वाला, (घनाघनः) आनन्द को निरन्तर वर्षाने के लिये साक्षात् धर्ममेव स्वरूप, (चर्पणीनां) पदार्थ देखने हारा, इन्द्रियों को कंपाने हारा उनम गति देने हारा, (संक्रन्दनः) उत्तम रीति से ईश्वरस्तुति का उच्चारण करने वाला, (अनिमिपः) आलस्यरहित, निद्रा को भी वशकारी (एकवारः) इन्द्रियों में एकमात्र सामर्थ्यवान् हांकर वह (साकं) एक साथ ही (शतं सेनाः) सैंकड़ों चित्तवृत्तियों को (अजयत्) विजय कर लेता है ।

: (२) हे (नरः) पुरुषो ! आप लोग (संक्रन्दनेन) शत्रुओं को सुलाने वाले (अनिमिपेण) आंख न झपकने वाले, निरालसी, सावधान, (जिष्णुना) विजयशील, (युष्कारेण) युद्ध करने हारे, (दुश्च्यवनेन) अविचलित रहने हारे (धृष्णुना) धैर्यवान्, (इपुहस्तेन) धनुष बाण हाथ में लिये, (वृष्णा) बलवान् (इन्द्रेण) राजा से जिस प्रकार शत्रुओं को दबाया जाता है और युद्धों में विजय प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार आप लोग स्वराज से भी अधिक कष्टसाध्य मोक्ष को (संक्रन्दनेन)

स्तुतिशालि, (अनिमिपेण) अनालसी, (जिष्णुना) सब इन्द्रियों विषयों पर जयी, (युत्कारेण) विघातक विघ्नों से युद्ध करने हारे (दुश्च्यवनेन) साधना से अविचल (धृष्णुना) धैर्यवान् (इपुहस्तेन) ज्ञान को हाथ में लिये (वृष्णा) सुखवर्षक (इन्द्रेण) इस इन्द्र आत्मा से (तत् सहध्वं) वह सब सहन करो और (युधः) आने वाले आभ्यन्तर शत्रुओं को (जयत) जीत जाओ ।

(३) जैसे (सः, इन्द्रः) वह इन्द्र राजा (इपुहस्तैः) धनुष बाण हाथ में लिये सुभटों से (वशी) सब राष्ट्र पर वश करता है उसी प्रकार वह आत्मा भी इपु अर्थात् कामनाओं से प्रेरित, मरुत् अर्थात् एकादश प्राणों से समस्त शरीर पर वश करता है और ईश्वर अपने विद्युत् जल वायु एवं प्रवहण आदि मरुतों द्वारा समस्त संसार पर वश कर रहा है । (सः) वह इन्द्र राजा जिस प्रकार (निपङ्गिभिः) बाणों से भरे तूणीर तर्कस वाले सुभटों के द्वारा नगर वा राष्ट्र का (वशी) विजय करता है उसी प्रकार आत्मा इन्द्र नित्य निरन्तर सङ्ग रहने हारे प्राणों द्वारा ही शरीर पर एवं परमात्मा प्रतिपरमाणु में व्याप्त पञ्चभूतों द्वारा सब ब्रह्माण्ड पर वश कर रहा है, (स इन्द्रः) वह इन्द्र राजा जिस प्रकार (युधः) युद्ध करने हारा होकर (गणेन) अपने सहायक प्रजागण से (संस्रष्टा) मिलकर (संस्रष्टजित्) अपने विपक्ष में मिले शत्रुसंघ को जीत लेता है उसी प्रकार वह इन्द्र आत्मा (युधः) समस्त देहों को चलाता हुआ (गणेन संस्रष्टा) अपने प्राणगण से ही इस देह को उचित रीति से निर्माण करके स्वयं अपने से विपक्ष में सङ्गठन किये काम, क्रोध, लोभ, मोहादि इन्द्रिय व्यसनों को एक वार ही जीत लेता है । और परमात्मा भी (गणेन) प्राकृतिक वैकारिक गण द्वारा समस्त संसार का (संस्रष्टा) रचने द्वारा होकर ही सब संसार के संघात से बने पदार्थों को अपने वश करता है । और जिस प्रकार राज्याभिषेक युद्ध राजा (सोमपाः) सोमरस का पान करके (बाहुशर्धौ)

अपने बाहुबल में उत्कृष्ट होकर (उग्रधन्वा) भयंकर धनुष लेकर (प्रतिहिताभिः) फेंके गये वाशों से ही (अस्ता) सब शत्रुओं का नाश करता है उसी प्रकार यह इन्द्र आत्मा (सोमपा) ज्ञान और योगाभ्यास रस का आस्वादन करके प्राण और अपान इन दो बाहुओं के बल से सम्पन्न होकर ओंकाररूप धनुष को तान कर (प्रति हिताभिः) प्रेरित इडा, पिंगला, मुपुम्ना आदि नाड़ियों से इस देह-बन्धन को शीघ्र ही काट डालता है । और वह परमात्मा भी समस्त संसाररूप सोम या सूर्यरूप सोम का पान या अदान करने, या अपने वश करने द्वारा अपने प्रेरक बल से सर्वशक्तिमान् उग्ररूप में संसार की कर्म व्यवस्था से सब को धुन डालने द्वारा होकर अपनी प्रेरित शक्तियों से (अस्ता) संहार करता है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१८५२] बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्राँ अपवाधमानः ।
 ३ १ २ २ ३ २ २ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
 प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणा युधा जयन्नस्माकमेधयविता
 २
 रथानाम् ॥ १ ॥

३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २
 [१८५३] बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान
 ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३
 उग्रः । अभिवीरो अभिसत्वा सद्योजा जैत्रामिन्द्र रथमा-
 २ ३ २
 तिष्ठ गोवित् ॥ २ ॥

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
 [१८५४] गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तसो
 २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
 जसा । इमं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनुसं-
 २
 रभध्वम् ॥ ३ ॥ २ ॥ ३० । १०३ । ४७६ ॥

भा०—(१) (बृहस्पते) बृहती, वेद वाणी के परिपालक आत्मन् ! जिस प्रकार बृहती=बड़ी भारी सेना का स्वामी, सेनापति (रक्षोहा) दुष्ट पुरुषों का विनाशक, (अमित्रान्) शत्रुओं को दूर ही से मार भगाता हुआ अपने (रथेन) रथ से युद्धक्षेत्र में चारों ओर परिक्रमा करता है उसी प्रकार है आत्मन् ! तू भी (रक्षोहा) सब समाधिविघातक विघ्नो, काम, श्लोथ आदि भावों का विनाश कर । (अमित्रान्) स्नेह वृत्ति के विनाशक, शत्रुभावों के उत्तेजक प्रलोभनों, या द्वेषभावों को वितर्कबाधना द्वारा दूर करता हुआ (रथेन) अपने मन या देहरूप रथ से (परिदीया) परित्राट् हाँकर मोक्ष मार्ग पर गमन कर । और जिस प्रकार सेनापति (सेनाः प्रभञ्जन्) शत्रु सेनाओं को तोड़ता फोड़ता हुआ और (युधा) अपने प्रहारों से (प्रमृणन्) प्रतिहिंसक शत्रुओं को (जयन्) जीतता हुआ अपने पक्ष के रथों का रक्षक होजाता है उसी प्रकार है बृहस्पते इन्द्र ! आत्मन् ! तू भी (सेनाः प्रभञ्जन्) मोह से उत्पन्न दोषवृत्तियों को विनाश करता हुआ (युधा प्रमृणः जयन्) प्राणायाम के बल से विरोधी इन्द्रियों को चश करता हुआ (अस्माकं) हमारे (रथानाम्) इन देहों का (अविता) परिपालक (एधि) हो ।

(२) जिस प्रकार सेनापति (बलविज्ञायः) अपने समस्त सेना सामर्थ्य को भली प्रकार जानता हुआ और साथ ही शत्रुपक्ष को भी जानता हुआ, (स्थविरः) पुराना, अनुभवी या स्थिर रूप से युद्ध के अवसर पर जमने वाला, (प्रवीरः) सब वीरों में उत्तम सामर्थ्यवान्, (सहस्वान्) शत्रु के आक्रमण को सहन करने हारा, (वाजी) ज्ञान और वेग से युक्त, (सहमानः) शत्रु पर विजय प्राप्त करता हुआ, (उग्रः) तीक्ष्णस्वभाव होकर । अभिवीरः) वीर सुभटों को साथ लिये (अभि- (सत्वा) सात्विक बल और तेज को धारण कर (गावित्) अपने अश्वों

को रासों से सम्भाल कर (जैत्रं रथं) विजयशक्ति रथ पर चढ़ता है उसी प्रकार है (इन्द्र) आत्मन् ! तू भी (बलविज्ञायः) आरिभक्त बल को जान कर (स्थविरः) योगसाधनों अर्थात् मुमुक्षु मार्ग के योग्य तपः साधनों में स्थिर रूप से रह कर अथवा पुरातन, तू (प्रवीरः) उत्कृष्ट सामर्थ्यवान् होकर, (सहस्वान्) सहनशील (वाजी) ज्ञानवान्, (सहमानः) तपस्वी तितिष्ठ, (उग्रः) तेजस्वी, (अभिवीरः) चारों ओर अपने सामर्थ्यवान् प्राणों को संग लिये, (अभिलखा) सर्व गुण में प्रतिष्ठित होकर (सहो-जाः) भोजस्वी और (गोपित्) जितेन्द्रिय, वेदवाणियों को ज्ञानी या आत्मारूप गौ को प्राप्त होकर (जैत्रं रथं) मोक्षमार्ग पर विजय करने हारे रथरूप मर्त्य पर (आ तिष्ठ) आ बैठ, उसी में स्थिर होजा ।

(३) जिस प्रकार (गोप्रीभिर्दं) शत्रुकुलों का नाश करने, (गो-विर्दं) पृथिवी के विजेता या विद्वान्, (वज्रबाहुं) वज्र अर्थात् खड्ग हाथ में लिये (अजम् जयन्तं) सम्प्राप्त करते हुए (भोजसा) अपने बल से (प्रमृणन्तं) शत्रु का नाश करते हुए सेनापति को उसके सहवर्ती सहायक लोग और बान्धव लोग प्रोत्साहित करते और उसके साथ ही स्वयं भी उसकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करते हैं । उसी प्रकार है (सख्यः) समान दारुदान या नाम से पुकारे जाने वाले इन्द्रियगण्य और विद्वानों ! हे (सजाताः) उसके साथ ही अपना सामर्थ्य प्रकट करने हारों ! आप लोग भी (गोप्रीभिर्दं) उस देहबन्धन को तोड़ने हारे, (गोविर्दं) आत्मा को या परमेश्वर को प्राप्त करने हारे ज्ञानी, (वज्रबाहुं) वैराग्य या ज्ञानरूप तलवार को हाथ में लिये (भोजसा) अपने तप और ज्ञान के सामर्थ्य से काम, कंधारि अन्तःशत्रुओं को (प्रमृणन्तं) मर्दन करते हुए (अजम्) चरम, प्राण्य स्थान तक (जयन्तं) विजय करने हारे (इमं) इस (इन्द्र) आत्मा को (अनुवीर्यध्वं) पीड़ित बलकी आज्ञा में रोक करे

सामर्थ्यवान् रघो और (अनु संरभध्वं) और उसके शासन में ही सब कार्य करो ।

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३
 [१८५५] अभिगोप्राणि सहस्रा गाहमानोऽद्यो वीरः शतमन्यु-
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ १ २
 गिन्द्रः । दुश्च्यवनः पृतनापाड्युध्योऽश्स्माकं सेना

अवतु प्रयुत्सु ॥ १ ॥

१ २ ३ २ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१८५६] इन्द्र आलाजिता बृहस्पतिदाक्षिणा यज्ञः पुर एतु सामः ।
 ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २

देवसेनानामभिभञ्जतानां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम् ॥२॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१८५७] इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतोऽशर्द्ध-
 ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

उग्रम् । महामनसां भुवनच्यवानां द्योत देवानां जय-

३ १ २
 तामुदस्थात् ॥ ३ ॥ ३ ॥ अ० १० । १०३ । ६—६ ॥

भा०—(१) जिस प्रकार (इन्द्रः) धीरे सेनापति या राजा, (गोप्राणि अभि) शत्रुकुलों के प्रति बढ़ाई करता हुआ और उनकी (सहस्रा) अपने बल से (गाहमानः) चीरता हुआ, (अद्यः) उन पर क्याभाव न रखता हुआ, (वीरः) वीर, सामर्थ्यवान्, (शतमन्युः) सैकड़ों प्रकार से उन पर श्लोघ करने द्वारा, (दुश्च्यवनः) शत्रुओं से अविचारित, (पृतनापाट्) शत्रुसेनाओं का विजेता, (युत्सु) युद्धों में अपनी सेनाओं की रक्षा करता है उसी प्रकार (गोप्राणि अभि) देहों के भीतर (सहस्रा गाहमानः) अपने बल के सामर्थ्य से विचरता हुआ, (अद्यः) तपस्सा आदि द्वारा शरीर के सुखों पर विचार न कर, निर्गम होकर तप करने द्वारा (वीरः) सामर्थ्यवान्, (इन्द्रः) आत्मा (शतमन्युः) सैकड़ों प्रज्ञानों से युक्त होकर

(दुश्च्यवनः) ऋद्धि सिद्धि के प्रलोभनों में न गिरकर, कूटस्थ होकर, (पृतनापाट्) दुर्वृत्तियों को दबाता हुआ, (अयुध्यः) अद्वितीय होकर, (युत्सु) संग्रामों में आसुर और सात्विक भावों के परस्पर संग्राम के अवसरों पर (अस्माकं सेनाः) हमारी सात्विक सेना, उत्तम प्राण-वृत्तियों की (प्र अवनु) रक्षा करे ।

(२) (इन्द्रः) जिस प्रकार राजा (आसां) इन मरुद्गण वैश्यों का या वायु के समान चढ़ाई करने में तेज सेनाओं का नेता होता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) आत्मा मरुद्गण प्राणों का भी नेता है । उसके (पुरः) आगे आगे (बृहस्पतिः) वृद्धि-वाक् का पालक मन, राजा के मन्त्री के समान, (दक्षिणा) कार्यकुशल, बलशालिनी चित्तिशक्ति और (यज्ञः) पूजनीय परमात्मा और (सोमः) सबका प्रेरक प्राण, ये आगे २ (प्तु) चलते हैं । (अभिभञ्जतीनां) असुर सेनाओं का विनाश करने वाली, (जयन्तीनां) असुर-वृत्तियों पर विजय करने वाली, (देवसेनानां) दिव्यगुणवाली सात्विक वृत्तियों के (अग्रं) आगे २ मुख्य स्थान पर (मरुतः) एकादश प्राण (यन्तु) गमन करते हैं ।

(३) (वृष्णः) सुखों की वर्षा करने हारे सिद्ध, धर्ममेघ समाधि के साधक (इन्द्रस्य) इन्द्र, आत्मा का, (राज्ञः) सबके स्वामी (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का और (आदित्यानां) १२ आदित्य और (मरुतां) प्राण इनका (उग्रं) अति प्रबल (शर्द्धः) बल सफल हो । (महामनसां) विशाल चित्त एवं ज्ञान के धारणकर्त्ता (भुवनच्यवानां) भुवन अर्थात् देह के बन्धन को नाश करने हारे (जयताम्) आसुरभावों पर विजय करने वाले (देवानां) इन सात्विक साधकों का (घोषः) नाद (उद् अस्थात्) ऊपर उठे ।

धार्मिक राजा और उसकी सेनाओं के विषय में यह मंत्र स्पष्ट है । परमात्मा पक्ष में भी इन मंत्रों की योजना है । प्रलय-काल में तीनों लोकों का विनाश ही त्रिपुरदहन है । उस कल्पना को चित्त में रखकर इस अलंकार को लगाना उचित है ।

१ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ २ ३ १ २
[१८५८] उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सवनां मामकानां मनांसि ।
१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २

उद्ध्वहन्वाजिनां वाजिनान्युद्धानां जयतां यन्तु घोषाः ॥१

३ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ २ २ ३ १

[१८५९] अस्माकमिन्द्रः समृतपु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता
२ ३ १ २ ३ १ २ २ २ ३ १ ३

जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा

३ १ २

अवता हवेषु ॥ २ ॥

३ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २ २ १ २ ३ १ २

[१८६०] असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न श्रोजसा स्पृद्ध-
१ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ३ २

माना । तां गूहत तमसापव्रतेन यथैतेषामन्यो अन्य-

३ २

न जानात् ॥ ३ ॥ ४ ॥

भाषं द्वयं ऋ० १० । १०३ । १० । ११ । यजुः १७ । ४२ । ४३ ।
नृतीया ऋग्वेदे नस्ति किञ्च यजुः १७ । ४३ । अथ० ३ । २ । ६ ॥

भा०—(१) हे (मघवन्) राजन् ! (आयुधानि) युद्ध के साधनों को (उद् हर्षय) ऊंचा कर । (मामकानां) मेरे सम्बन्धी (सत्वनां) सात्विक वीर, बलवान्, पुरुषों के (मनांसि) हृदयों को (उत्) हर्षित करो । हे (वृत्रहन्) दुर्ग को घेरने हारे, शत्रु के नाशक राजन् ! सेनापते ! (वाजिनां) जानी पुरुषों और अश्वों के (वाजिनानि) ज्ञानयुक्त कला कौशलों और वेगों को (उत्) बढ़ाओ और (जयतां) रथानां) विजय-

शील रथों के (घोषाः) नाद (उद्) ऊंचे उठें । इसी प्रकार अध्यात्म पक्ष में—(भववन् आयुधानि उद्दर्षय) हे परमात्मन् ! या आत्मन् ! हमारी दृष्टवृत्तियों से युद्ध करने के, या उनको प्रहार करके निकाल भगाने के साधनों को उन्नत करो । (मामकानां सत्त्वनां मनांसि उत्) मेरे निजी बलशाली सात्विक प्राणों को उत्तम बलयुक्त करो । हे (वृत्र-हन् ! (वाजिनां वाजिनानि उत्) अज्ञान आवरणों के विनाशक-प्रकाश-स्वरूप आत्मन् ! इन्द्रियों की संविद् शक्तियों को बढ़ाओ । (जयतां रथानां घोषाः, उत्) विजयशील सिद्ध आत्माओं के घोष, वेदपाठ और स्तुतियां भी उच्च स्वर से हों ।

(२) (इन्द्रः) राजा (अस्माकं ध्वजेषु समृतेषु) हमारे झण्डे जय शत्रुओं के झण्डों में जा मिलें तब भी हमारी रक्षा करें । (अस्माकं याः इयवः ता जयन्तु) हमारे जो आण हैं वे ही विजयशील हों । (अस्माकं वीराः, उत्तरे भवन्तु) हमारे वीर उत्कृष्ट बलशाली विजयी रहें । (देवाः हवेषु अस्मान् उ भवन्तु) देव=दिव्य शस्त्रधारी विद्वान् सेनापति-गण युद्धों में भी हमारी रक्षा करें । अध्यात्मपक्ष में—(इन्द्रः) आत्मा (अस्माकं) हमारे (ध्वजेषु) प्राणों के (समृतेषु) परस्पर संगत हो जाने पर रक्षा करें, (याः) जो (इयवः) मानसवृत्तियां हैं (ताः) वे (जयन्तु) बलवान् हों । (अस्माकं वीराः) हमारे प्राणरूप बलशाली योद्धा (उत्तरे) उत्कृष्टतर होकर रहें । (देवाः) विद्वान् जोग या इन्द्रिय शक्तियां (हवेषु) ईश्वर की उपासना के अवसरों में (अस्मान्) हमें (भवन्तु) बुरे मार्ग में जाने से बचावें ।

(३) (हे (मरुतः) वायु के समान वेगवान् वीरो या मारनेहारी विषैली गैसो ! (असौ या परेषां सेना) यह जो शत्रुओं की सेना (नः अोजसा स्पर्धमाना) बल से हमारे साथ स्पर्धा करती हुई (अभ्येति)

हमारी तरफ बढ़ती चली आरही है (तां) उसका (अपव्रतेन तमसा गूहत्) क्रियाशक्ति को नष्ट करनेहार तम या मूर्खों से ढक दो (यथा अमी, अन्यो अन्यं न जानान्) जिससे वे एक दूसरे को न पहचान सकें, इसी प्रकार अध्यात्मपद्य में—हे (मरुतः) प्राणों ! (असौ) यह (या) जो (सेना) मोहादि वृत्तियों की परम्परा (परेषां) प्रलोभनों की अपने आत्मा से अतिरिक्त अन्य अनात्म पदार्थों को (आजसा) आत्मा के बल से प्रतिस्पृहां करती हुई, उसके बल या तेज पर आवरण डालती हुई (अभ्यैति) साक्षात् आरही है और सुग्ध कर रही है (तां) उसको (व्रतेन) कर्म और ज्ञान के दृढ़ संकल्प द्वारा (तमसा) उसका शिथिल कर डालने वाले बल से (अपगूहत्) दूर करदो (यथा) जिससे (अन्यः) एक अनात्मभाव (अन्यं) दूसरे भाव को (न जानात्) न छपन्न करे ।

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
 [१८६१] अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गहायाह्वान्यध्वे परेहि ।
 ३ २४ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 अभिप्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैरन्धेनामिश्रास्तमसा

सचन्ताम् ॥ १ ॥

२ ३ १ ३ ३ १ २ ३ १ २
 [१८६२] प्रेतो जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु ।
 ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २
 उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधुन्या यथाऽसथ ॥ २ ॥
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१८६३] अत्रसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।
 २ ३ २ ३ १ २ ३ २ ४ ३ २ ३ १ २
 गच्छामिश्रान्प्रपद्यस्व मामीषां कं च नाच्छिषः ॥३॥५॥

भाषे श्रुचौ, अ० १० । १०३ । १२२, १३ ॥ भाषा, यजु० १७ । ४५ ॥
 द्वितीया यजु० १७ । ४७ ॥ तृतीया अ० ६ । ७५ । १६ ॥ यजु० १७ । ४२ ॥

भा०—(१) (अमीपां) इन शत्रुओं के (चित्त) चित्त को (प्रति लोभयन्ती) विमोहित करती हुई हे (अप्वे) पापप्रवृत्त ! व्याधे ! या हे भीति ! (अङ्गानि) उनके अङ्गों को (गृहाण) पकड़ ले अर्थात् उनके शरीरों का नाश कर दे । (अभिप्रेहि) उनतक पहुँच और (ह्यसु) हृदयों में प्रवेश करके उनको (शोकैः) शोकों द्वारा (निर्दह) जला । (अमित्राः) शत्रुगण (अन्धेन तमसा) अन्धकारमय मोह से (सच्चन्ताम्) युक्त हो जायें । अध्याःमपच मे—हे पापप्रवृत्ते ! (अप्वे) सन्मार्ग से दूर हटाने वाली । (अमीपां) इन हमारे प्राणों के (चित्तं) चेतन सामर्थ्य को (प्रतिलोभयन्ती) प्रलोभन करती हुई तू (अंगानि) हमारे अंगों, शरीरों को (गृहाण) ग्रहण करती है । अतः (परेहि) तू दूर हट जा । और तू स्नेह न करने हारे, द्वेष करने वाले पुरुषों के पास (अभिप्रेहि) जाती है और उनको (शोकैः) शोकों द्वारा (ह्यसु) हृदयों में (निर्दह) दाह उत्पन्न करती है, इसलिये (अमित्राः) द्वेष-भावों से युक्त पुरुष ही (अन्धेन तमसा) अन्धकार भरे मोह से (सच्चन्ताम्) घिर जाते हैं ।

(२) हे (नरः) नेता लोगो ! (प्रेत) आगे बढ़ो (जयत) और विजय करो । (वः) आप लोगों को (इन्द्रः) ऐश्वर्यशालि परमात्मा (शर्म) सुख और शान्ति (यच्छतु) दे । (वः) आप लोगों की (बाहवः) बाहुएं (उग्राः) उग्र बलवान् (सन्तु) हों (यथा) जिससे (अनाद्युष्याः) आप लोग किसी के भी वशीभूत, अपमानित न (असथ) होंगे ।

(३) हे इपो ! हे (शरव्ये) शरकाण्ड के बने वाण ! हे (जहासं संशिते) मन्त्र द्वारा तीक्ष्ण किये गये ! (अवसृष्टा) तू छोड़ी जाकर (परापत) दूर जा । और (अमित्रान्) शत्रुओं को (प्र पद्यस्व) पहुँच और

(अमीषां) उनमें से (कंचन) किसी को भी (मा) मत (उच्छिषः) बचा रहने दे । अध्यात्मपक्ष में—हे (शरव्ये) अज्ञान के नाश करने वाली, हे (ब्रह्मसंशिते) ब्रह्मज्ञान या ब्रह्मोपासना से तीक्ष्ण की हुई आत्मशक्ते ! (अवसृष्टा) युक्त होकर (परा) इस देहबन्धन से दूर मोक्षधाम में (पत) चली जा और (गच्छ) ज्ञान प्राप्त कर, (अमि-ज्ञान्) मोहादि शत्रुओं और बाधक अन्तरायों को भी । प्रपद्यस्व) प्राप्त कर । (अमीषां) उनमें से भी (कंचन) किसी एक को भी (मा-उच्छिषः) शेष न रहने दे ।

तदेतदचरं ब्रह्म स प्राणस्तद्गु वाङ्मनः ।

तदेत्सत्यं तदमृतं तद् वेद्म्यं सौम्य विद्धि ॥

धनुर्गृह्णात्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं संधयीत ।

आयम्य तद् भागवतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाचरं सौम्य विद्धि ॥

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्म्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥ (मुण्डक २ । ३, ३, ४)

मुण्डक उपनिषद् में ब्रह्म को वेधन योग्य लक्ष्य मानकर उसको वेध करने के लिये औपनिषद्, ब्रह्मविद्यामय धनुष्, उपासना की शाण पर चढ़ा आत्मा रूप बाण और प्रणव आँकार रूप धनुष् से निष्प्रमाद होकर छोड़ने पर ब्रह्ममय होजाने का उपदेश किया है ।

३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २
[१८६४] कङ्काः सुपर्णा अनुयन्त्वेनान् गृध्राणामन्नमसावस्तु

१ २ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
सेना । मैषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र वयांस्येनाननुसंय-

३ १ २
न्तु सर्वान् ॥ १ ॥

उ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ २
 [१८६५] अभित्रसेनां मघवन्नस्मान्छुयतीमभि ।

उ १ २ २ २ ३ १ २ ३ १ २
 उभौ तमिन्द्र वृत्रहन्नमिश्च दहतं प्रति ॥ २॥

[१८६६] यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारो विशिखा इव ।

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ ३ १ २
 तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु ॥

उ २ ३ २ २
 विश्वाशा शर्म यच्छन्तु ॥ ३ ॥ ६ ॥

भाष्ये ऋग्वेदे न स्तः । तत्र द्वितीया अथर्व० ३ । १ । ३ ॥

तृतीया अ० ३ । ७५ । १७ ॥ यजु० २७ । ४८ ॥

भा०—(१) (सुपर्णाः) उत्तम पक्ष वाले (कंकाः) गीध (पुना)
 उन शत्रुओं पर (अनु यन्तु) जा दौड़ें । (असौ सेना) वह शत्रुसेना
 (गृध्राणां) गीधों का (अन्नम्) भोज्य (अस्तु) हो । हे इन्द्र ! राजन्
 (एषां) इनमें से कोई भी (मा मोचि) न बच रहे और (अघहारश्च)
 कोई पापी भी (न) न छूट जाय (पुनान् सर्वान्) इन सब पर (वयां-
 सि) गीध और कौवे ही (अनु संयन्तु) आ लगे ।

अध्यात्म पक्ष में—(सुपर्णाः) उत्तम ज्ञान वाले, (कंकाः) सुखा-
 भिलापी पुरुष (पुनान्) अन्तः—शत्रुओं, ब्रह्मविद्या के विघ्नों के (अनु-
 संयन्तु) पीछे लग जावें ! अर्थात् उनका निर्मूलक नाश किये बिना न छोड़ें ।
 (असौ सेना) वह दुष्ट वासनाओं की सेना (गृध्राणाम्) गृध्र के समान
 उत्पतनशील प्राणों के (अन्नम्) भोज्य बने अर्थान् प्राणों के विरोध से
 उनका नाश किया जाय । (एषां मा मोचि) इन पापभावों में से एक
 भी न छूट जावे । हे इन्द्र ! आत्मन् ! (अघहारश्च न) पाप का भागी

भी कोई विचार शेष न रह जाय । (वयांसि) गतिशील प्राण भी (एनान्) इनको (अनु संयन्तु) पीछा करके सर्वताश करें ।

(२) हे (मघवन्) इन्द्र ! राजन् ! (अस्मान्) हमारे प्रति (अभि शश्रुयतीम्) साक्षात् शश्रुरूप होकर चढ़ाई करती हुई, (ताम्) अमहा बलवती (अमित्रसेनां) शत्रु सेना का आप (अग्निः च) और अग्नि अग्रणी दोनों मिलकर (प्रति दहतं) भस्म कर ढालो । अध्यात्मपक्ष में— हे (इन्द्र) वृत्रहन् ! भ्रजाननाशक ! मघवन् ज्ञानवन् पुरुष ! तुम उस अमित्र=द्वेषभावों की परम्परा को अग्निरूप परमात्मा से मिलकर भस्म करदो ।

(३) (यत्र) जहां (विशिखाः) शिखारहित (जुमारा इव) बालकों के समान (यायाः) वाण (सम्पतन्ति) पड़ रहे हों (तत्र) वहां (ब्रह्म-वास्पतिः) वेद का विद्वान्, परमेश्वर (अदितिः) अस्त्रिण्डत सामर्थ्यवान् होकर हमें (शर्म) शान्ति और सुख (यच्छतु) प्रदान करें और (विश्वाहा) सदा (शर्म यच्छतु) कल्याण करें ।

२४ ३ १२ २२ ३ २ ३ २ ३ १ २

[१८६७] त्रिरक्षो विमृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज ।

२३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

धिमन्युमिन्द्र वृत्रहन्नामित्रस्याभिदासतः ॥ १ ॥

१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

[१८६८] वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छु पुतन्यतः ।

२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २

यो अस्मा अभि दासत्यधरं गमया तमः ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २

[१८६९] इन्द्रस्य बाहू स्थविरो युवानावनाघृप्यौ सुप्रतीकाव-

३ २ १ २ ३ २ २ १ २ ३ १ २ ३ १ २

सह्यौ । तौ युञ्जीत प्रथमौ योगं ज्ञातं याभ्यां जित-

२२ ३ ३ २ ३ २

मसुराणां सहो महत् ॥ ३ ॥ ७ ॥

आद्ये द्वे अ० १० । १५२ । ३ । ४ ॥ तृतीया ऋग्येदे नास्ति ।

भा०—(१) हे इन्द्र ! हे वृत्रन् ! (रक्षः) राक्षस पुरुष को (विजहि) विनाश कर । और (मृधः विजहि) हमारे उत्तम द्रव्यों पर लोभ करने हारे पुरुषों को भी विनाश कर । (वृत्रस्य) हमें घेर कर नाश करने हारे विघ्नरूप शत्रु के (इन्) आघातकारी उन दाढ़ों को (विरुज) तोड़ डाल, जिन्हें वं हमारे ऊपर गढ़ाना चाहता है । और (अभिदासतः) हमारे नाश करने हारे और हमें दास की तरह पराधीन करने वाले (अमित्रान्) आभ्यन्तर व्यसनों के समान शत्रुओं के (मन्थुं) अभिमान और क्रोध को भी (वि) विनाश कर ।

(२) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (नः) हमारे (मृधः) शत्रुओं को (विजहि) नाशकर और (प्रतन्यतः) अपनी सेनाएं बढ़ाना चाहने वाले लोगों को भी (नीचा यच्छ) नीचे डाल दे । (यः) और जो (अस्मान्) हमें (अभिदासति) सब प्रकार से विनाश करता या दास के समान परार्धान करता है उसको (तमः) तृष्णा में या अन्धकार में (गमय) डाल । अध्यात्म पक्ष में—आभ्यन्तर शत्रुओं को इन्द्र आत्मा नाश करे । हृदय का स्पर्श करने वाले दुर्भावों का नियमन करे और विनाशक मोहादि भावों को दूर करे ।

(३) (इन्द्रस्य) राजा के समान इस आत्मा की (युवानौ) जवानी भरी सदा बलवान् (स्थधिरा) मज्जवृत्त, पक्की, सदा स्थिर रहने वाली, (अनाष्टयौ) कभी पराजित न होने वाली (सुप्रतीकौ) उत्तम रीति से शत्रु का मुक्ताबला करने वाली, (असह्यौ) शत्रुओं के लिये असह्य (बाहु) उनको पीड़ा देने हारी, प्राण और अपान दो बाहुएं हैं (प्रथमे) प्रारम्भ में ही (योगे आगते) संग्राम के समान कठिन, श्रमदायी योग समाधि के अवसर प्राप्त होने पर (तौ) उन दोनों को उचित रीति से (युञ्जीत) समाधि साधना में प्रयोग करे, अर्थात् चित्तवृत्ति के स्थिर करने के लिये प्राणायाम का अभ्यास करे । (याभ्यां) जिनसे (असुराणां) अन्य प्राणों का (महत्) बड़ा भारी (सहः) बल (जितम्) वश किया जाता है ।

१ २ ३ २ ३ ३ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १ २
 [१८७०] मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतनानु-
 ३ १ २ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १
 वस्ताम् । उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा
 २
 मदन्तु ॥ १ ॥

३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 [१८७१] अन्धा अमित्रा भवताशीर्षाणांऽहय इव ।
 १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २
 तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु चरं वरम् ॥ २ ॥
 २ ३ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ २

[१८७२] यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति । देवास्तं सर्वे
 ३ २ ३ १ २ ३ २ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरं शर्म वर्म ममान्तरम् ॥३॥८॥

प्रथमा तृतीया च अ० ६ । ७५ । १८ । १९ ॥ तृतीया अथर्व० १ । १६ ॥
 ३, ५ । एतयोः पूर्वोत्तरार्धे । द्वितीया ऋग्वेदे नास्ति ॥

भा०—(१) (ते) तेरे (मर्माणि) कोमल मर्मों को (वर्मणा)
 कवच से (आच्छादयामि) ढकता हूं । (सोमः राजा) दीक्षिमान् राजा
 के समान सबका प्रेरक सोम, परमेश्वर (असृतेन) अमर आत्मशक्ति से
 (अनु वस्ताम्) और भी सुरक्षित करे । (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर
 (ते) तुझे (उरोर्वरीयः) अधिक से अधिक वरणीय उत्तम सुख (कृ-
 णोतु) उत्पन्न करे । (जयन्तं) चरम मोक्ष को प्राप्त होते हुए (त्वां)
 तुझको देखकर (देवाः) विद्वान् लोग (अनु मदन्तु) हर्षित हों ।

(२) हे (अमित्राः) द्वेषभाव रखने हारे शत्रुओ ! तुम लोग (अ-
 शीर्षाणाः) बिना दिमाग के, बिना सिरवाले, कौधी (अहयः इव) सांभों

१८७०—३. यो नः स्वो यो अरणः स जात उत निष्ट्यो यो अस्मां अमिन्दा-
 सति' इति (१ । १६ । ३) इत्यस्याः पूर्वार्धभागः । 'दिनाहलं
 सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्' इति (१ । १९ । ४) इत्यस्या
 उत्तरार्धभागः इति पाठमेदविवेकः, अथर्व० ।

के समान (अन्धाः भवत) अन्धे, अविवेकी होजाओ । (अग्निमुत्तानां) : अपने ही क्रोध की आग से फुंके हुए, (तेषां) उनके (वरं वरं) उत्तम २ पुरुष या शिर को (इन्द्रः) राजा, प्रभु नाश करे ।

(३) (यः) जो (नः) हमारा (स्वः) सम्बन्धी होकर भी या स्वयं (अरणः) अप्रियाचरण करने वाला है और जो (निघृत्यः) दूर रहकर भी छुपे रूप में (नः) हमें (जिघांसति) मारना चाहता है (तं) उसके (सर्वे) समस्त (देवाः) विद्वान् पुरुष (ध्रुवन्तु) विनाश करें । (ब्रह्म) वेदज्ञान और परमेश्वर (मम) मेरा (अन्तरं) भीतरी (वर्म) कवच या रक्षासाधन हो । (शर्म) वह सुखकारी, आनन्दघन सब का शरण दाता हो (मम) मेरा (अन्तरम्) भीतर का एकमात्र रक्षक साक्षी है ।

[१८७३] ^{३ २ ४} सृगो न भूमिः ^{३ १} कुचरो ^{२ ३ १} गिरिष्ठाः ^{२ ३ १} परावत आ जगन्था ^{१ १}
^{१ २} परस्याः । ^{३ २} लुकं ^{३ १ २} सं शाय ^{३ १ २} पविामन्द्र ^{३ १} तिगमं ^{२ २} वि शत्रून्ताडि ^३
 वि मृधो नुदस्व ॥ १ ॥

[१८७४] ^{३ २} भद्रं ^{२ २} करोमिः ^{३ १ ३} शृणुयाम देवा ^{३ १ २} भद्रं ^{३ १ २} पश्येमात्तभिर्वजत्राः ।
^{३ १ २ २ २} स्थिरैरंगैस्तुष्टु ^{३ १ २ ३ २ ४ २ २} वांसस्तनुभिर्व्यशामहि ^{३ १ २ ३ १ २ २} देवहितं यदायुः ॥

[१८७५] ^{३ २ ३ १ ३ १ २} स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ^{३ २ ३ २ ३ १ २} स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो ^{३ २ ३ २ २ १ २} अग्निष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

धातु ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ३ ॥ ६ ॥

वाघा श्र० १० । १८० । २ ॥ उत्तरे द्वे श्र० १ । ८६ । ८ । ६ ।

शा०—(१) हे (इन्द्र) परमधर ! आप (गिरिष्ठाः कुचर सृगः न भूमिः) पर्वतों में रहने वाले, कुत्सित रूप से विचरना करने-वाले जगत्ता

हिंसक हाथी या सिंह के समान भयकारी एवं आप (मृगः) योगियों से भीतरी गुफा में खोजने योग्य, या आत्म-परिशोधन करने योग्य हैं, आप (कुचरः) कहां नहीं व्यापक हो ? अर्थात् सर्वव्यापक हो । आप (गिरिष्ठाः) विद्वानों, वाणियों एवं वेदमन्त्रों में शब्द और उसके अर्थ रूप में विद्यमान हो और साथ ही सबके ऊपर शासक होने से सब के भयप्रद हो । (आ परस्याः परावतः) दूर से दूर देश, अलभ्य मुक्तिधाम से हमारे हृदयों तक या 'परा' ब्रह्मविद्या के भी (परावतः) निगूढ परम रहस्यमय भाग से आप (आजगन्ध) आते हो, या प्रकट होते हो । हे (इन्द्र) परमात्मन् (सूक्तं) प्रसरणशील (तिग्मं) तेजोमय, तद्विष्णु (पविम्) परमपावन ज्ञानवज्र को (संशय) अति तद्विष्णु करके (शत्रून्) अन्तः-शत्रुओं को राजा के समान (वि ताडि) विनाश करो और (मृधः) हमारा सर्वस्व अपहरण करनेहारे डाकुओं के समान तामस भावों को (वि नु-दस्व) परे करो, दूर हटाओ ।

(२) हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! हम सब (कर्णेभिः) कानों से (भद्रं) कल्याणकारी, एवं सदा सुखपूर्वक उत्तम उपदेशकों को (शृणु-याम) श्रवण करें । और हे (यजत्राः) सदा यज्ञ आदि धर्मकार्यों का अनुष्ठान करनेहारे भद्र पुरुषो ! हम सब (अक्षभिः) आंखों से (भद्रं) सुखकारी एवं कल्याणकारी पदार्थों को (पश्येम) दर्शन करें और (वृ-ष्टुवांसः) ईश्वर का भजन एवं सत्य का वर्णन करते हुए (स्थिरैः) दृढ (अंगैः) अंगों और (तनूभिः) दृढ़, शरीरों से (यद्) जो (आयुः) आयु (देवदत्तं) विद्वानों के हित में लगे या देव, परमात्मा जो दीर्घ आयु प्रदान करे उन दीर्घ ११६ या १२० वर्ष या इससे भी अधिक आयु का हम (वि-अशेमहि) भोग करें ।

(३) (वृद्धश्रवाः) महान्, यशस्वी और ज्ञानवान् (इन्द्रः) परमेश्वर (न) हमारा (स्तारति दधानु) कल्याण करे, (विश्ववेदीं) सर्वज्ञ,

सब पदार्थों का स्वामी, (पूषा) सब संसार का पालक, पोषक परमात्मा (नः स्वस्ति दधातु) हमारा कल्याण करे । (अरिष्टनेमिः) जिसके काल-रूप महान् शासन का कोई विनाश नहीं करता वह (तार्क्ष्यः) सर्व-शक्तिमान् परमेश्वर (नः स्वस्ति दधातु) हमारा कल्याण करे । (वृहस्पतिः) वेदवाणी का पति, स्वामी, पालक परमात्मा (नः स्वस्ति दधातु) हमारा कल्याण करे ।

॥ ओ३म् ॥ स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

वेद-भगवान् का स्वामी भगवान् हमारा सदा कल्याण करे ।

इति तृतीयाऽर्धप्रपाठकः नवमश्च प्रपाठकः समाप्तः ॥

इत्युत्तरार्चिकः समाप्तः ॥

इति सामवेदसंहिता समाप्ता ॥

रामवस्वङ्कचन्द्रेण्डे षष्ठ्यां पौषे सिते शनौ ।

आलोक्तभाष्यं वेदस्य साम्नोऽवधिमुपागमत् ॥

इति श्रीकांगडीगुरुकुलविश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठितविद्यालंकारपदवीविभूषतेन

कलिकातास्यसंस्कृतविद्यालयस्य मीमांसातीर्थोपाध्यक्षकुनेन गुरुकुलप्रवक्तक

श्रीनन्दपरमहंसारित्राजकावार्थश्री १०८ पूज्यपाद महर्षिदत्तानन्द

सरस्वतीशिष्यपूज्यपादश्री १०८ स्वामिश्रद्धानन्दसरस्वती-

शिष्येण पौत्तिमाष्यायणगोत्रोद्भवेन श्रीपण्डितजयदेवशर्मणा

विरचिते आलोकाख्यसामवेदभाषाभाष्ये नवप्रपादः

कात्मक उत्तरार्चिकभागः पूर्तिमागात् ॥

अगाता भेदं सामवेदसंहिताऽऽलोक्यम् ॥

